

अनुक्रमणिका,

द्वितीय भाग.

(महाराणा दूसरे प्रतापसिंहसे महाराणा सज्जनसिंह साहिबके अखीर तक मए अहदनामों

जाम १७१६ - १७१७

रा

डा

१७१७ - १७१८

विषय.	पृष्ठांक.	विषय.	पृष्ठांक.
महाराणा दूसरे प्रतापसिंह, दूसरे राज-सिंह, और तीसरे अरिसिंह, तेरहवां प्रकरण - १५३५ - १६९०. (महाराणा दूसरे प्रतापसिंह - १५३५ - १५३९).		महाराज नाथसिंहका मारा-जाना वगैरह हाल १५४४ - १५४६	१
महाराणाकी गद्दीनशीनीका हाल १५३५ - १५३६		महाराणासे मलहार राव हुल्कर की सुलह और उसका इक्रार-नामह १५४६ - १५४७	
महाराज नाथसिंह और देवगढ़, शाहपुरा तथा देलवाड़ा वगैरहकी बगावत, महाराणाका बर्ताव और कार्रवाई १५३६ - १५३८		सलूंवरके रावत् जोधसिंहका माराजाना, और भैंसरोड़के रावत् मानसिंहकी अर्जी महाराणाके नाम १५४७ - १५४८	
महाराणाका देहान्त, और उनका शारीरक बल सम्बन्धी हाल १५३८ - १५३९		देलवाड़ाके राज राघवदेवके साथ महाराणाका बर्ताव, और राघवदेवकी अर्जी १५४८ - १५४९	
(महाराणा राजसिंह दूसरे - १५४० - १५४२).		मेवाड़के सर्दारोंकी बगावत, और रत्नसिंहका बखेड़ा १५४९ - १५५१	
महाराणाकी गद्दीनशीनी, सेंधियाकी मारवाड़पर चढ़ाई, और शाहपुराके राजा सर्दारसिंहका नेड़ेपर क़बज़ा १५४० - १५४१		शाहपुराके राजा उम्मेदसिंहको काछोलाके पगनेकी उठंतरी दीजानेकी बाबतका कागज़, और उम्मेदसिंहकी अर्जी १५५१ - १५५२	
उसको बनेड़ा वापस महाराणाके नाम बनेड़ा-मचल्के, और महा-बलुस्त १५४१ - १५४२		रत्नसिंहको कुम्भलमेरसे निका-लदेनेकी बाबत पेशवाके सर्दारों का इक्रारनामह, और मेवाड़के सर्दारोंकी अर्जी १५५२ - १५५५	
भीमसिंह तीसरे अरिसिंह - १५४३ - १६९०).		राज राघवदेवका माराजाना, और माधवराव सेंधियासे महा-राणाकी लड़ाई १५५५ - १५६२	
और भीमसिंह तीसरी, मेवाड़ का कारण, और			
रत्नासिंह			

अनुक्रमणिका २.

पृष्ठांक.	विषय.	पृष्ठांक.
१५६२-१५६४	गवर्मेण्ट अंग्रेजीके साथ	
और महाराणाके	अहदनामह १६३२-१६३३	
नामह १५६४-१५६६	जावराकी तवारीख १६३३-१६३५	
महाराणाकी तरफ	भरतपुरकी तवारीख १६३५-१६५२	
..... १५६६-१५६८	जुग्राफियह १६३५-१६४१	
रापुरुषोंसे महाराणाकी	तवारीखी हालात १६४१-१६४८	
मुकाबलह, और महा-	गवर्मेण्ट अंग्रेजीके साथ	
राणाकी फतह १५६८-१५७१	अहदनामे १६४८-१६५२	
नाथद्वारेमें फौज रखनेके एवज	धौलपुरकी तवारीख १६५३-१६६६	
गोड़वाड़का पर्गना जोधपुर	जुग्राफियह १६५३-१६५७	
वालोंको दिया जाना, नाथ-	तवारीखी हालात १६५७-१६६०	
द्वारेमें महाराजाओंकी मुला-	गवर्मेण्ट अंग्रेजीके साथ	
कात, और गोड़वाड़की बाबतके	अहदनामे १६६०-१६६८	
कागज़ोंकी नकलें वगैरह १५७१-१५७४	शेष संग्रह १६६९-१६९०	
मेवाड़के सर्कश तर्दारोंपर चढ़ाई		
वगैरहका हाल १५७५-१५७८	महाराणा दूसरे हमीरसिंह,	
महाराणाका देहान्त, और उनकी	चौदहवां प्रकरण - १६९१-१७०२.	
औलाद व आदतें वगैरह हालात १५७८-१५८०		
मरहटोंकी तवारीख १५८१-१६२५	महाराणाकी गद्दीनशीनी, और	
मरहटा कौमके पुराने	अमरचन्दका माराजाना १६९१-१६९२	
तवारीखी हालात १५८१-१५९८	सिन्धियोंकी तन्त्रवाहका बखेड़ा,	
कोल्हापुर १५९९-१६०१	और मरहटोंका चित्तौड़ व	
तंजावर १६०१-१६०२	वेगुं पर हमलह १६९२-१६९४	
सावन्तवाड़ी १६०२-१६०४	मरहटोंके कागज़ोंकी नकलें १६९५-१६९८	
रियासत नागपुर १६०५-१६०७	नीबाहेड़ा हुल्करको दियाजाना,	
ग्वालियर १६०७-१६१२	और महाराणाका कृष्णगढ़में	
इन्दौर १६१२-१६१७	विवाह १६९९-	
रियासत धार १६१८-१६२०	महाराणाका देहान्त, और	
रियासत देवास १६२०-१६२२	प्रकरण समाप्ति १७०	
रियासत बड़ौदा १६२२-१६२५		
टोंककी तवारीख १६२५-१६३३	महाराणा दूसरे भीमसिंह	
जुग्राफियह १६२५-१६२७	पन्द्रहवां प्रकरण - १७०३	
तवारीखी हालात १६२७-१६३२	महाराणाकी गद्दीनशीनी, देव-	



विषय.	पृष्ठांक.	विषय.	पृष्ठांक.
गढ़के रावत् राघवदेवका उदय- पुर आना, और सलूबरके रावत् भीमसिंहकी बेटियोंका विवाह	१७०३-१७०५	और मेवाड़का मुल्की इन्तिज़ाम	१७१६-१७१७
कुरावड़के रावत् अर्जुनसिंहके बेटे ज़ालिमसिंहका माराजाना, चूंडावतों व शक्तावतोंमें द्वेष फैलना, और महाराणाका ईडरमें विवाह	१७०५-१७०६	ईडरमें महाराणाका दूसरा विवाह, और डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ वालोंका महा- राणासे अपने कुसूर मुआफ़ कराना और नज़ानह व दण्ड देना	१७१७-१७१८
गांधी सोमचन्दकी कार्रवाई, महाराणाके सन्तानोत्पत्ति, मेवाड़ के ज़िलोंसे मरहटोंका क़बज़ह उठा देनेकी तज्वीज़, और इसी विषयमें ज्ञानमल्लका एक कागज़	१७०६-१७०९	रियासतकी ज़ेरबारी, चूंडावतों व शक्तावतोंका द्वेष, और मुसाहिबोंकी तब्दीली वग़ैरह	१७१९-१७२१
मेवाड़के ज़िलोंसे मरहटोंका निकालाजाना, और हड़क्या खालपर महाराणाकी फ़ौजकी मरहटोंसे लड़ाई	१७०९-१७१०	नाना गणेशसे मेवाड़ी फ़ौजकी लड़ाई	१७२१-१७२२
मेवाड़के सर्दारोंमें नाइत्तिफ़ाकी, और सोमचन्दका मारा जाना	१७१०-१७१२	ज्यॉर्ज टॉमसकी लखवापर चढ़ाई और लड़ाई	१७२२-१७२०
चूंडावतों और शक्तावतोंकी लड़ाई, और देवगढ़के रावत् गोकुलदासका इक्कार नामह	१७१२-१७१३	ज्यॉर्ज टॉमसकी मेवाड़में लूट- मार, और महता अगरचन्दकी ख़ैरख़्वाही	१७३०-१७३२
चूंडावतोंकी सज़ादिहीकी बात- चीत, और झाला ज़ालिमसिंहकी कार्रवाई, तथा माधवराव सेंधि- याकी महाराणासे मुलाकात	१७१३-१७१५	जशवन्तराव हुल्कर और नाथ- द्वारेका हाल	१७३२-१७३३
महाराणाके पठान सिपाहियोंका बल्वा, मेवाड़की फ़ौजसे रावत् भीमसिंहका चित्तौड़में मुक़ाबलह, और भीमसिंहका महाराणाके रक्षास हाज़िर होना	१७१५-१७१६	बालेराव वग़ैरह मरहटोंका मेवाड़में कैद होना, और झाला ज़ालिमसिंह व चूंडाव- तोंकी लड़ाई वग़ैरहका हाल	१७३३-१७३५
भीमसिंहका कुम्भलमेरसे भागना,		हुल्कर और सेंधियाका महा- राणाके साथ बर्ताव	१७३५-१७३६
		कृष्णकुंवरबाईके सम्बन्धकी बाबत जयपुर व जोधपुरका विरोध	१७३६-१७३८
		दौलतराव सेंधिया व अमीर- ख़ांका मेवाड़में आना, और कृष्णकुंवरबाईका देहान्त	१७३८-१७३९
		झाला ज़ालिमसिंहका मेवाड़ पर दबाव, और हुल्करके नौकर	

अनुक्रमणिका ४.

विषय.	पृष्ठांक.	विषय.	पृष्ठांक.
जम्शेदखांकी लूटमार	१७३९-१७४१	गवर्मेण्ट अंग्रेजीके साथ	
पठान सिपाहियोंकी तन्ख्वाह		अह्दनामह	१७६८-१७७०
का बखेड़ा, और परस्परिय		शेषसंग्रह	१७७०-१७८४
द्वेषसे सर्दारसिंह व सतीदासका			
माराजाना	१७४१-१७४२	महाराणा जवानसिंह,	
दिलेरखांकी फौजसे कुंवर अमर-		सोलहवां प्रकरण - १७८५-१८८८.	
सिंहकी लड़ाई, और अंग्रेजी		महाराणाकी गद्दीनशीनी, और	
गवर्मेण्टके साथ अह्दनामह		रियासती इन्तिजामकी हालत	१७८५-१७८६
काइम होना	१७४२-१७४३	कप्तान कॉफ़का गवर्मेण्ट अंग्रे-	
कर्नेल टॉडका मेवाड़में आना,		जीकी ओरसे टीकेका दस्तूर	
और मेवाड़की मुल्की हालतमें		लेकर आना, और लॉर्ड बेंटिंक	
सुधार	१७४३-१७४५	का खरीतह महाराणाके नाम	१७८७-१७८९
वलीअह्द अमरसिंहका देहान्त,		प्रधान महता रामसिंहका	
और राजकुमारियोंका विवाह	१७४५-१७४६	सुचल्का महाराणा भीमसिंहके	
शिवलाल गलूञ्चाको प्रधाना		नाम	१७८९-१७९१
मिलना, जॉन मालकम साहिबका		महता रामसिंहका कैद होना,	
उदयपुरमें आना, बलवन्तसिंहको		महता शेरसिंहको प्रधाना	
रतलामकी राज्यगद्दी मिलनेका		मिलना, और शेरसिंहका	
कारण, कुंवर जवानसिंहका		इफ़्तारनामह	१७९१-१७९३
रीवांमें विवाह, शिवलाल गलू-		नाथद्वारा वालोंका खुद मुख्तार	
ञ्चाका कैद होना, मेवाड़की		बननेके लिये एजेण्ट गवर्नर	
प्रजाको तल्लीफ़, कर्नेल मेट-		जेनरल राजपूतानहसे कोशिश	
काफ़का मेवाड़में आना, महता		करना, और नाथद्वारेके विषय	
रामसिंहको प्रधाना मिलना,		में कैविडिश व कॉफ़ साहिबका	
और चन्द्रकुंवर बाई व अनोप-		खरीतह महाराणाके नाम मए	
कुंवर बाईका देहान्त	१७४७-१७४८	नक्ल दरर्वास्त वकील नाथ-	
नये महलोंके सम्पूर्ण होनेका		द्वारा	१७९३-१७९५
उत्सव, भीमपद्मेश्वरके मन्दिर		महता रामसिंहकी सिफ़ारिशके	
की प्रतिष्ठा, महाराणाका देहान्त,		लिये कप्तान कॉफ़का खरीतह	
और उनकी आदतें वगैरह	१७४८-१७५०	महाराणाके नाम	१७९५-१७९६
जयसलमेरकी तवारीख	१७५१-१७७०	महाराणाका अजमेर जाना,	
जुग्राफ़ियह	१७५१-१७५६	लॉर्ड बेंटिंक व गवर्नर बम्बईसे	
तवारीखी हालात	१७५६-१७६८		

अनुक्रमणिका ५.

विषय.	पृष्ठांक.	विषय.	पृष्ठांक.
मुलाकात करना और शाहपुरासे अंग्रेजी जूती उठना, तथा कोटाके महाराज रामसिंह व जयपुरके महाराजा जयसिंह से मुलाकात करना, और गवर्नर बम्बईका उदयपुर आना	१७९६ - १८००	शाह	१८७२ - १८८२
जालिमचन्द झंवरको मेवाड़का ठेका दियाजाना और महाराणी बाघेली व देवड़ीका देहान्त	१८०१ - ०	महाराजा पृथ्वीवीर विक्रमशाह	१८८२ - १८८४
महाराणाकी तीर्थ यात्रा	१८०२ - १८०४	शेष संग्रह	१८८५ - १८८७
महाराणाका रीवांमें विवाह	१८०४ - १८०५	प्रकरण सारांश कविता	१८८८ - ०
महाराणाका उदयपुरमें पधारना, और आंबूकी यात्रा वगैरह हाल	१८०५ - १८०६	महाराणा सर्दारसिंह, सत्रहवां प्रकरण	१८८९ - १९०८.
प्रधाना मिलनेकी बाबत महता रामसिंहकी अर्जी और श्रीमती महाराणी विक्टोरियाकी गद्दीनशीनीकी खुशीका दर्वार	१८०६ - १८०७	महाराणाकी गद्दीनशीनी	१८८९ - १८९०
महाराणाका देहान्त और उनकी आदतें वगैरह	१८०७ - १८०८	गोगूदापर खालिसह, महाराणा के साथ सर्दारोंका अहदनामह, और महाराणाके नाम गोगूदा के शत्रुशालकी अर्जी	१८९० - १८९२
नयपालका इतिहास	१८०९ - १८८४.	महता शेरसिंहके कैद होने और रामसिंहको प्रधाना मिलने वगैरहका हाल	१८९३ - १८९४
जुआफियह	१८०९ - १८४३	शाहपुराकी बाबत एजेण्ट गवर्नर जनरलका खरीतह, और मेवाड़के खिराजकी बाबत पोलिटिकल एजेण्टका खरीतह	१८९० - १८९६
प्राचीन इतिहास	१८४३ - १८४८	महाराणाके नाम	१ - ५२५०
वर्तमान खानदानकी ३३ पीढ़ियोंका इतिहास, रावल कुम्भकर्णसे लेकर नरभूपालशाह तक	१८४८ - १८४९	गोड़वाड़को मेवाड़में मिलनेकी कोशिश, और महताबकुंवर बाईका विवाह	१८९६ - १८९७
पृथ्वी नारायणशाह	१८४९ - १८५०	महाराणाकी गया यात्रा, बीकानेरमें महाराणाका विवाह, और वापस उदयपुर पधारना	१८९७ - १९०१
सिंहप्रतापशाह व रणबहादुरशाह	१८५१ - १८५५	कुंवर स्वरूपसिंह की गोद्दीनशीनी	१९०२ - १९०४
शीर्वाणयुद्ध विक्रमशाह	१८५५ - १८५९	महाराणाकी बीमारी और वृंदावनकी यात्राके लिये खानगी, तथा देहान्त वगैरहका हाल	१९०४ - १९०७
जेन्द्र विक्रमशाह	१८५९ - १८७१	प्रकरण सारांश कविता व प्रकरण समाप्ति	१९०७ - १९०८
महाराजा सुरेन्द्र विक्रम-			

विषय.	पृष्ठांक.	विषय.	पृष्ठांक.
महाराणा स्वरूपसिंह, अठारहवां प्रकरण—१९०९—२०५६.		सीसोदियों सहित श्री एकलिंग- गज्जिमें जाकर मदिराका परि- त्याग करना वगैरह १९२५—१९२६	
महाराणाकी गद्दीनशीनी, और मातमपुर्सी व गद्दीनशीनी की बाबत लॉर्ड एलन्बराका खरी- तह महाराणाके नाम १९०९—१९१०		सेठ जोरावरमल्लकी खैरख्वाही और रावली दूकानका नियत होना, शार्दूसिंह, महता राम- सिंह व पाणेरी गंगारामपर महाराणाकी नाराज़गी..... १९२७—१९२९	
राज्य प्रबन्धके विषयमें महा- राणाकी हिकमत अमली, सलूं- बरके रावत पद्मसिंहकी अर्जी, कोटाके महाराव रामसिंहका उदयपुरमें आना, और सलूंबर का मुआमला १९११—१९१६		लावा (सर्दारगढ़) पर फ़ौज- कशी, और गढ़ फ़तह किया जाकर डोडिया जोरावरसिंहको दियाजाना वगैरह १९२९—१९४१	
काबुल व गज़नीपर फ़तहपाने और सोमनाथके मन्दिरके कि- वाड़ हिन्दुस्तानमें लाये जानेकी बाबत लॉर्ड एलन्बराका खरीतह महाराणाके नाम मण्ड इरित- हार १९१६—१९१९		जगत्शिरोमणि व जवानसू- रज बिहारीके मन्दिरोकी प्रति- ष्ठा, पर्गनोंके बन्दोबस्तके लिये महाराणाका भेवाड़में दौरा १९४१—१९४४	
सलूंबरके कुंवर केसरीसिंहकी, अनुचि, नाराज़गी, और केसरी- गणाजी, नाराज़गी, और केसरी- सिंहकी बाबत पोलिटिकल एजे- ण्टका खरीतह महाराणा के नाम १९१९—१९२१		महाराणाकी बहिनोंका विवाह कोटाके महाराव तथा रीवांके महाराजकुमारके साथ १९४४—१९४६	
छठूँ व चाकरीकी बाबत सर्दा- रोंका बखेड़ा १९२२—१९२३		राजपूतानह के एजेण्ट गवर्नर जेनरल सर हेनरी लॉरेन्सका उदयपुर आना १९४६—१९४७	
महाराणाकी हिकमत अमली व महता शेरसिंहको प्रधाना मिलना १९२३—१९२५		किले आर्ष्या पर फ़ौजकशी वगैरहका हाल, और महाराणा का दान पुण्य १९४७—१९५१	
जवानस्वरूपेश्वर महादेवके म- न्दिरकी प्रतिष्ठा, महाराणाका चौथा विवाह घाणेराव ठाकुरकी बेटीके साथ, और महाराणाका		सर हेनरी लॉरेन्सका उदयपुर आना और जहाज़पुरके मीनों की शिकायत करना, गोवर्द्धन- विलासकी बुन्याद १९५१—१९५२	
		जहाज़पुरके मीनोंको फ़ौजकशी से ज़र करना, सर हेनरी लॉ- रेन्सका उदयपुर आना, और सर्दारोंका व सर्तीका मुआमला	

अनुक्रमणिका ७.

विषय.	पृष्ठांक.	विषय.	पृष्ठांक.
पेश होना, मीनोंके बन्दोबस्तके लिये देवलीकी छावनी और रियासती थानोंका काइम होना	१९५२ - १९५५	महाराणाका खरीतह मलिकह मुअज्जमहके नाम	१९८९ - १९९१
कालीवास वगैरह के बागी भीलों की सजा दिहीके लिये फ़ौजकशी, डूंगरपुर रावल का उदयपुर आना, महाराणा और सर्दारोंके मध्यमें अहदनामह काइम होना, और गोपाल-पाणेरिका कैद होना	१९५६ - १९५७	गोबर्द्धन विलासके महलों व तालाब तथा धन्दिरोकी प्रतिष्ठा वगैरह हालात, और आउवाके जागीरदारकी बाबत् मारवाड़ी व अंग्रेजी फ़ौजका कोठारघा मकामपर आना	१९९१ - १९९२
गोबर्द्धनविलास के महलों की बुन्याद, महता गोकुलचन्दको प्रधाना मिलना, कप्तान शार्व-सका उदयपुरमें आना और गद्र रोकनेकी बाबत् महाराणा से बातचीत करना, आमेटकी गद्दीनशीनीका बखेड़ा, और फ़ौजकशी वगैरह हालात	१९५८ - १९६४	तीरोलीके जागीरदारकी गिरि-फ़्तारी, कोठारी केसरीसिंहको प्रधाना मिलना, और सींगोली के जागीरदार मानसिंहकी बग़ावत, खैराड़का इन्तिज़ाम और नीवाहेड़ाके हिसाबी मुआमले और सतीके रवाज की बाबत् महाराणा व एजेण्ट गवर्नर जेनरल राजपूतानह की गुफ्तगू	१९९२ - १९९४
नीमचकी छावनीके गद्रका हाल, और दिल्लीके बनावटी शाह-जादहका मालवेमें उपद्रव	१९६५ - १९६८	आमेटके रावत् चत्रसिंहकी तलवारबन्दी और बीजोलियाका मुआमला	१९९४ - १९९९
टाँकसे नीवाहेड़ा जुदा होकर मेवाड़के कबज़ेमें आना और वापस टाँकवालोंको मिलना वगैरह हाल मए अंग्रेजीअफ़सरों के खरीतोंके	१९६८ - १९७५	सर्दारोंका मुआमला	१९९९ - २०१६
सन् सत्तावनके गद्रका शेष हाल और बागियोंकी गिरिफ्तारी	१९७५ - १९७८	सती और डाकिनकी बहस और इसी विषयके कागज़ात	२०१६ - २०४०
महाराणाके नामलॉर्ड केनिंग का खरीतह मए तर्जमह इश्ति-हार मलिकह मुअज्जमह व गवर्नर जेनरल हिन्द	१९७८ - १९८८	स्वरूपशाही रुपयेका जारी होना	२०४० - २०४२
		महाराणा साहिबकी बीमारी और वलीअहदका नियत होना	२०४३ - २०४४
		महाराणाका देहान्त और उनकी आदतें वगैरह हालात	२०४४ - २०४६
		शेषसंग्रह और प्रकरण सारांश कविता	२०४७ - २०५६

विषय.	पृष्ठांक.	विषय.	पृष्ठांक.
महाराणा शम्भुसिंह, उन्नीसवां प्रकरण - २०५७-२१३८.		ग्रानिका उदयपुर आना २०६८-२०७१	
महाराणाकी गद्दी नशीनी २०५७-२०५८		कर्नेल् ईडनका एजेण्ट गवर्नर जेनरल राजपूतानह नियत होना, और निक्सन साहिबका उदयपुरकी एजेन्सीपर आना, शम्भुनिवास महलकी बुन्याद और महाराणाको इस्तिथारात मिलना वगैरह २०७१-२०७२	
राजपूतानहके एजेण्ट गवर्नर जेनरल ज्यॉर्ज लॉरेन्सका उदय- पुर आना, और श्रीमती महा- राणी विक्टोरियाकी तरफसे गद्दी नशीनीका खिलअत वगै- रह सामान पेश होना, और राज्य प्रबन्धके लिये पंच सर्दा- रोंकी कौन्सिल नियत होना २०५८-२०६०		मेवाड़के इन्तिज़ामकी बाबत् एजेण्ट गवर्नर जेनरल राज- पूतानहकी रिपोर्ट, बाबत् सन् १८६५-६६ व १८६६-६७ २०७३-२०७७	
मेम्बरान कौन्सिलकी कार्रवाइ- यां और महाराणाका राज्याभि- षेकोत्सव वगैरह हालात २०६०-२०६३		महकमहखासका नियत होना, और महाराणाका सलूबर पधा- रना वगैरह हालात २०७७-२०७८	
मेजर टेलरकी जगह कर्नेल् ईडनका उदयपुर आना, सलूबर की गद्दीनशीनीका बखेड़ा, कोठारी केसरीसिंहका प्रधानसे खारिज होना, और राज्य प्रबन्धमें तब्दीलात २०६३-२०६५		आमेटकी गद्दीनशीनीका मुआ- मला, महाराणाका सुवर्ण तुला आदि दान करना वगैरह २०७८-२०७९	
केसरीसिंहका कैद कियाजाना, महाराणा और पोलिटिकल एजेण्टकी नाचाकी, महाराणा का दूसरा विवाह, और पंच- सर्दारोंकी कौन्सिल बर्खास्त होना वगैरह हालात २०६५-२०६७		कोठारी केसरीसिंहको प्रधाना मिलना और इसी विषयमें एजेण्ट गवर्नर जेनरल राजपू- तानह और पोलिटिकल एजेण्ट मेवाड़के खरीते महाराणाके नाम २०८०-२०८२	
ईडन साहिबका खरीतह और अहालियान दर्वारका काइम होना वगैरह २०६७-२०६८		संवत् १९२५ का दुर्भिक्ष, भागौरका मुआमला, दुर्भिक्षका मुफ़स्तल हाल २०८२-२०८५	
दीवानी मुआमलातके नये प्र- बन्धपर शहर उदयपुरमें बलवा, महाराणा स्कूलकी बुन्याद, नामच व नसीराबादके जेनरल		केसरीसिंहका प्रधानसे मुस्तौफी होना और पो० एजेण्टकी रिपोर्टका खुलासह २०८६-२०८८	
		काइम मक़ाम पो० ए० कर्नेल् हैचिन्सनकी रिपोर्टका खुला- सह २०८८-२०९२	

विषय.	पृष्ठांक.	विषय.	पृष्ठांक.
मेवाड़के पोलिटिकल एजेण्ट निक्सन साहिबकी रिपोर्टका खुलासह (एजेण्ट गवर्नर जेनरल राजपूतानहके नाम)	२०९२ - २०९६	हैचिन्सन और ब्राडफोर्डकी रिपोर्टोंका खुलासह	२११७ - २१२१
महकमहखासका काइम होना, महाराणाका अजमेर पधारना, और लॉर्ड मेयोसे मुलाकात करना वगैरह हालात	२०९६ - २११०	महाराणाकी बीमारी और उनका देहान्त व आदतें वगैरह	२१२१ - २१२५
कोटाके महाराव शत्रुशालका उदयपुर आना, रियासती कामोंका इन्तिजाम और महाराणा को जी० सी० एस० आइ० का तमगुह मिलना	२११० - २११३	महाराणाके समयके बने हुए मकानात व सड़कों वगैरहकी लागतका नक़शह ...	२१२५ - २१२८
रूपहेली व लांबाका मुक़दमह ..	२११३ - २११५	शेष संग्रह	२१२९ - २१३८
अभयस्वरूप विहारीजीके मन्दिर की प्रतिष्ठा, बीकानेरकी राज्य-गद्दी महाराजा डूंगरसिंहको मिलना, झालरापाटणके राज-राणा पृथ्वीसिंहका उदयपुर आना वगैरह	२११५ - ०	महाराणा सज्जनसिंह, बीसवां प्रकरण - २१३९ - २२५९.	
कर्नेल् हैचिन्सनका उदयपुर आना, शम्भुनिवास महलके दक्षिणी भागका वास्तु मुहूर्त और उत्सव, महकमह स्टाम्प व रेजिस्टरी और महकमह तवारीखका काइम होना	२११६ - २११७	महाराणाकी गद्दीनशीनी	२१३९ - २१४०
महाराणाका एकलिंगजी व गढ़-बोर वगैरहको पधारना, राज-पूतानहके एजेण्ट गवर्नर जेनरल पेली साहिबका उदयपुर आना, गोकुलचन्द्रमाजी के मन्दिरकी प्रतिष्ठा और मेवाड़के पोलिटिकल एजेण्ट मिस्टर		बैठककी बाबत् सर्दारोंमें तक्रार, महता पन्नालालको मेवाड़ बा-हिर और महाराज सोहनसिंह को बागौर जानेका हुक्म	२१४० - २१४२
		राज्याभिषेकोत्सव, क्रीनविक्टो-रियाकी तरफसे गद्दीनशीनीका खिल्अत व खरीतह और लॉर्ड नॉर्थ ब्रुकका खरीतह आना, सज्जन वाणीविलास नामी पुस्तकालयका काइम होना ...	२१४२ - २१४३
		जानी विहारीलाल का महा-राणाके लिये गार्डियन नियत होना, चार्ल्स हर्बर्ट साहिबका उदयपुर आना, महाराजा जयपुरकी तरफसे टीके का सामान पेश होना, और महाराणाका पहिला विवाह ईडरमें	२१४३ - २१४५
		महता पन्नालालका उदयपुरमें वापस आना, और उदयपुरकी वृष्टिका हाल	२१४५ - २१४८

विषय.	पृष्ठांक.	विषय.	पृष्ठांक.
जानी बिहारीलालकी कारगुजारी और उसकी उदयपुरसे रवानगी, और प्रिन्स ऑफ़ वेल्सकी मुलाकातके लिये महाराणाका बम्बई पधारना वगैरह हाल	२१४८ - २१५२	लगढ़का दौरा, महाराणाका सर्दारगढ़ पधारना और ठाकुर मनोहरसिंहको ठाकुरका खिताब वगैरह इज़्जत बख़्शाना और संवत् १९३४ के कहतका प्रबन्ध	२१९१ - २१९३
हिन्दुस्तानके गवर्नर जेनरल लॉर्ड नॉर्थब्रुकका उदयपुर में आना वगैरह हाल	२१५२ - २१५३	मगरा जिलेके विलायती पठानोंकी जुल्म जियादतियोंका रोकाना वगैरह प्रबन्ध,	
ईंडरके महाराजाकेसरीसिंहका उदयपुर आना, और कृष्णगढ़के सम्बन्धकी बातचीत, गोस्वामी गिरधरलालकी सरकशी दूर करनेको नाथद्वारेपर फ़ौजकशी, नाथद्वारेका नया प्रबन्ध और गोस्वामी गिरधरलालको पदोच्युत करके वृन्दावन भेजना वगैरह हाल	२१५३ - २१५७	महाराणा का तीसरा विवाह ईंडरमें, नमककी बावत सरकारी इन्तिज़ाम, बम्बईके गवर्नर सर रिचर्ड टेम्पलका उदयपुर आना	२१९३ - २१९४
जोधपुरके सम्बन्धका मुआमला, महाराणाका कृष्णगढ़में विवाह, महाराणाका जयपुर और दिल्लीके कैसरी दरवारमें पधारना और राजपूतानहके रईसों व लॉर्ड लिटनसे मुलाकात	२१५७ - २१६२	पुलिसका नया प्रबन्ध	२१९४ - २१९६
दिल्लीके कैसरी दरवारका हाल	२१६२ - २१८७	मेवाड़में सेटलमेण्टका प्रबन्ध, कर्नेल इम्पीका नयपाल जाना, देशहितैपिणी सभाका काइम-होना, और मेवाड़के जिलों वगैरहका इन्तिज़ाम	२१९६ - २१९९
महाराणासे मंडीके राजा तथा इन्दौरके महाराजा वगैरह रईसोंकी मुलाकात और महाराणाकी दिल्लीसे वापसी	२१८७ - २१८९	महाराणाका मेवाड़में दौरा	२१९९ - २२०१
इज्जलासखासका काइम होना	२१८९ - २१९१	नये प्रबन्धसे मुल्की व माली तरकी, और साइरका प्रबन्ध	२२०१ - २२०४
पहाड़ी जिलेके हाकिम व अहलकारों वगैरहकी जुल्म जियादती की तहकीकात और वहांका नया प्रबन्ध, महाराणाका कुंभ-		महाराणाका नाथद्वारा, राजनगर व गढ़बोर पधारना, सज्जन-निवास महल की प्रतिष्ठा, चित्तौड़का दौरा और किलेकी मरम्मत, महाराणाका कृष्णगढ़, जयपुर व जोधपुर पधारना और वापस उदयपुर पधारना वगैरह हाल	२२०४ - २२११
		मेवाड़में पैमाइश शुरू होनेपर किसानोंका बलवा, वाल्टर	

विषय.	पृष्ठांक.	विषय.	पृष्ठांक.
साहिबकी स्पीच, जोधपुरसे गद्दी नशीनीका दस्तूर आना, मह-द्राज सभाका काइम होना, और महाराणा साहिब व वाल्टर साहिबकी तक्रारि वगैरह	२२११ - २२१५	की बुनयाद	२२३८ - २२४०
जयपुरके महाराजा रामसिंहका देहान्त, महाराणाका जयपुर पधारना और वापस उदयपुर आना और वाल्टर साहिब का आवू जाना	२२१५ - २२१७	महाराज कुमारका जन्म और देहान्त, और सज्जनगढ़का खात मुहूर्त वगैरह हाल	२२४० - २२४१
मेवाड़में भीलोंका फ़साद, और कोटाके चारण लक्ष्मणदानको सुवर्णके लंगर बख़्शे जाना	२२१७ - २२२९	जोधपुर महाराजा व कृष्णगढ़ महाराजाका उदयपुर आना	२२४१ - २२४५
लॉर्ड रिपनका चित्तौड़ आना, चित्तौड़का द्वारि और महाराणा को जी० सी० एस० आइ० का तमगा मिलना	२२२९ - २२३८	बोहड़ेका मुअमला और फ़ौज-कशी वगैरह हाल	२२४५ - २२५१
महता माधवसिंहको पैरमें सुवर्ण बख़्शा जाना, भौराई व नठाराकी पालमें भीलोंका फ़साद, मामा अमानसिंहको पैरमें सोनेके लंगर बख़्शा जाना और श्यामल बाग़		कर्नेल् वाल्टरका विलायत से वापस उदयपुर आना, और आबोहवा बदलनेके लिये महाराणाका जोधपुर पधारना व वापस उदयपुर आना	२२५१ - २२५३
		महाराणा की सरुत बीमारी और उनका परलोकवास	२२५३ - २२५५
		महाराणाका स्वभाव और योग्यता और रिघासती उन्नति-तथा प्रजाके सुधार विषयक उपयोगी कार्य	२२५५ - २२५६
		नक़्शह तामीर मकानात वगै-रह, मेवाड़का अहदनामह और प्रकरण समाप्ति	२२५६ - २२५९



तेरहवां प्रकरण.

महाराणा दूसरे प्रतापसिंह,
दूसरे राजसिंह, और
तीसरे अरिसिंह.

हमने अबतक इस किताब वीरविनोदके दूसरे भागमें हरएक महाराणाका एक एक प्रकरण अलहदह रक्खा है, परन्तु महाराणा दूसरे प्रतापसिंह और दूसरे राजसिंहका इतिहास बहुत थोड़ा है, और इनके साथ किसी दूसरे इतिहासका सम्बन्ध भी नहीं है, इसलिये इस जगह महाराणा तीसरे अरिसिंहका हाल उसके शामिल किया जाकर तीनोंके इतिहासका एक प्रकरण बनाया गया.

महाराणा दूसरे प्रतापसिंह.

इनका राज्याभिषेक विक्रमी १८०८ आषाढ़ कृष्ण ७ [हि० ११६४ ता० २१
रजव = ई० १७५१ ता० १६ जून] को हुआ. यह लूनावाड़ाके रईस वीरपुरा

सोलंखी नाहरसिंहके दोहित्र थे. इनका हाल बूंदीके मिश्रण सूर्यमल्लने इस तरहपर लिखा है, कि विक्रमी १७९९ माघ शुद्ध ३ [हि० ११५५ ता० २ जिल्हज = ई० १७४३ ता० २९ जैनुअरी] को जिन चार सर्दारोंने कुंवर प्रतापसिंहको कैद किया था, उन्होंने याने बागौर महाराज नाथसिंह, देवगढ़ रावत् जशवन्तसिंह, देलवाड़ा राज राघवदेव, और सनवाड़के बाबा भारथसिंहने, जिनकी औलादमें खैराबादके जागीरदार हैं, पांचवें शाहपुरावाले राजा उम्मेदसिंहको अपना शरीक बनाकर सोचा, कि महाराणा जगत्सिंह तो जियादह बीमार हैं, और हम लोगों (१) ने कुंवर प्रतापसिंहको कैद किया था, सो महाराणाके बाद वह गद्दी नशीन होकर हमको बर्बाद करेंगे, इसलिये मुनासिब है, कि कुंवर प्रतापसिंहको जहर देकर मारडाला जावे, और नाथसिंहको गद्दीपर बिठादेवें, जो महाराणाके छोटे भाई हैं; लेकिन यह सलाह जाहिर होकर महाराणाके कानतक पहुंची, जिसपर महाराणाने इन पांचोंको कहलाया, कि अगर हमारा हुक्म मानते हो, तो इसी वक्त अपने अपने ठिकानोंको चलेजाओ. तब लाचार होकर हुक्मके मुनाफिक वे अपने अपने घरको खानह होगये.

महाराणा जगत्सिंहका देहान्त होने बाद प्रतापसिंहने गद्दी बैठकर अब्बल इन पांचों सर्दारोंको तसल्लीके साथ अपने पास बुलालिया. फिर अपने खैरख्वाह सर्दार शक्तावत उम्मेदसिंहके बेटे अखेसिंह (अक्षयसिंह) को रावत्का खिताब, ताजीम और “ दारू ” का पर्गनह जागीरमें देकर दूसरे दरजेका उमराव बनाया; क्योंकि अखेसिंहका बाप उम्मेदसिंह इनकी गिरिफ्तारीके वक्त इनकी तरफसे अपने बाप सूरतसिंहसे लड़कर मारागया था.

अमरचन्द सनाढ्य ब्राह्मणको ठाकुरका खिताब और ताजीम देकर अपना मुसाहिव बनाया, कि इनकी कैदके समय उसने बड़ी खैरख्वाहीके साथ नौकरी की थी.

एक दिन महाराणा दर्वार किये हुए बैठे थे, कि उन्होंने अपनी पीठपर हाथ लगा कर नाक सिकोड़ी, जिससे सब लोगोंकी उस वक्त उधर तवज्जुह हुई. तब महाराणाने हंसीके तौर कहा, कि काकाजीने गिरिफ्तार करनेके वक्त मेरी पीठपर गोड़ेकी जो चोट दी थी, वह अब बादल होनेके समय कसकती है. उस वक्त तो सब लोग

(१) उदयपुरकी ख्यातमें महाराज नाथसिंहका ही कुंवर प्रतापसिंहको गिरिफ्तार करना लिखा है, दूसरे तीन सर्दारोंका जिक्र नहीं, जैसा कि महाराणा जगत्सिंहके हालमें लिखागया.

खामोश रहे, लेकिन दरबारसे रुखसत होकर डेरोंपर आने बाद ऊपर वयान किये हुए पांचों सदाँर रातके वक्त अपने अपने ठिकानोंको चलेगये. महाराणाने अगर्चि वह बात गुस्सेसे नहीं कही थी, मगर इन लोगोंने उन शब्दोंसे अपनी जानका खतरा समझ लिया. फिर महाराज नाथसिंह अपने ठिकाने बागौरसे खानह होकर सादड़ी होता हुआ देवलिया पहुंचा. वहां कुछ दिनों रहकर उमटवाड़े (मालवा देशकी पूर्वी हद्द खीचीवाड़ाके पास उमट राजपूतोंका मुल्क) में गया, और वहांपर अपना व अपने बेटे भीमसिंहका विवाह करके विक्रमी १८०९ श्रावण [हि० ११६५ शब्वाल = ई० १७५२ ऑगस्ट] में वहांसे बूंदी गया; रावराजा उम्मेदसिंहने देवपुरा गांवतक पेशवाई की, और अपने यहां बारह दिनतक रखकर चार सौ रुपया रोजानह मिह्मानीका पहुंचाते रहे. फिर वहांसे अपने पुत्र भीमसिंह सहित जयपुरके महाराजा माधवसिंहके पास पहुंचा. उस समय महाराजा माधवसिंह और जोधपुरके महाराजा वरतसिंह, दोनों मालपुरासे एक मन्जिल भूपोलाव तालाबपर मुकीम थे. दोनों महाराजा, नाथसिंहसे पेशवाई करके मिले. इसी सफरमें जोधपुरके महाराजा वरतसिंहका इन्तिकाल होगया. महाराजा माधवसिंहने नाथसिंहको तसल्ली देकर कहा, कि हम प्रतापसिंहको खारिज करके आपको मेवाड़का महाराणा बनावेंगे. इस बातपर झलायके ठाकुर कुशलसिंहने माधवसिंहको मना किया, लेकिन उसकी नसीहत कारगर न हुई. वंशभास्करके कर्ताने इस बातपर महाराजा माधवसिंहकी बड़ी हिकारत की है, कि जिन महाराणा जगतसिंहने माधवसिंहको जयपुरकी गद्दीपर बिठानेके लिये एक करोड़ रुपया खर्च करके बहुत कुछ ताकत दिखलाई, उस उपकारको भूलकर महाराणाके पुत्रसे विमुख हुआ.

देवगढ़का रावत् जशवन्तसिंह, शाहपुरेका राजा उम्मेदसिंह, देलवाड़ेका राज राघवदेव और सनवाड़का बाबा भारथसिंह, महाराज नाथसिंहसे मिलकर मेवाड़के गांव लूटनेलगे. उदयपुरके महाराणा प्रतापसिंह बड़े बहादुर व बुद्धिमान थे, जिनकी कर्तव्यताका नमूना बतलानेको मेवाड़में एक किस्सह मशहूर है— लोग कहते हैं, कि महाराणाके गद्दी बैठने बाद रावलोंकी रामत (१) करवाई गई, जिसमें एक सिपाही और

(१) रावल एक कौम चारणोंकी याचक है; इन लोगोंका यह काम है, कि दस बीस आदमी मिलकर जाड़ेके मौसममें हमेशाह देशमें फिरते हैं, और अक्सर चारण व राजपूतोंके साम्हने नाटकके तौर तमाशा करते हैं, यह कौम राजपूतानह व गुजरातके सिवा दूसरी जगह कहीं नहीं है. इस नाटकको रामत बोलते हैं.


दूसरा किसानका स्वांग लाया गया. उस बनावटी सिपाहीने अपनी गठड़ी उठाने के लिये किसानको बेगारमें पकड़ा; बेगारीने कहा, कि मैं चूडावतोंकी रअग्र्यत हूं, सिपाहीने डरकर उसे छोड़दिया; दूसरी दफा ललकारा, तब उसने शक्तावतोंकी प्रजा होना बयान किया, उसी तरह उसने फिर छुट्टी पाई. गरज हर एक बार जुदा जुदा चहुवान, झाला, राठौड़ वगैरह राजपूतोंकी हिमायत बतलाकर चलागया; अखीरमें कहा कि मैं खालिसेकी रअग्र्यत हूं. यह सुनते ही सिपाहीको बड़ा जोश आया, और जूतियोंसे मारकर किसानके सिरपर बोझा रखदिया.

यह नाटक देखकर महाराणाको बड़ा अफसोस हुआ, और कहा, कि हिमायती लोगोंकी प्रजा निर्भय रहे; और खास हमारे खालिसेकी रिआयापर इस कद्र जुल्म हो! यह बड़े अनर्थकी बात है. उसी दिनसे यह इरादह करलिया, कि जबतक मैं अपनी गरीब रिआयाको ताकतवर नहीं करूं, तबतक मेरा राज्य करना भी बे फाइदह है. कहते हैं, कि इस बातका महाराणाके दिलपर इतना असर हुआ, कि इनके राज्यके थोड़े अरसेमें ही खालिसेकी प्रजा बहुत आसूदह होगई थी; परन्तु ईश्वरकी इच्छा और ही थी, याने विक्रमी १८१० माघ कृष्ण [हि० ११६७ रवीउल्अव्वल = .ई० १७५४ जैनुअरी] में उनका देहान्त होगया.

ऐसे नौ जवान महाराणाके दुनयासे उठजानेपर मेवाड़में एक तहलका मचगया, और खालिसहकी रिआया अपने बापके मरजानेसे भी जियादह रंजीदह होकर रोती थी. इनके एक ही बेटे राजसिंह थे. महाराणा प्रतापसिंहका जन्म विक्रमी १७८१ भाद्रपद कृष्ण ३ [हि० ११३६ ता० १७ जिल्काद = .ई० १७२४ ता० ८ ऑगस्ट] को हुआ था. वह उन्तीस वर्ष और पांच महीनेकी उम्रमें इन्तिकाल करगये. इनका कद किसी कद्र लम्बा, बड़ी आंखें, चौड़ी पेशानी, तमाम बदन पहलवानके मुवाफिक और महाराणा प्रतापसिंह अव्वलके मानिन्द रोबदार था. एक पत्थरका मुद्गर, जिसको वह आसानीके साथ घुमाया करते थे, अब तक खीच मन्दिरके पास पड़ा है, इस वक्त किसी पहलवानकी ताकत नहीं, कि उसको उठाकर एक चक्र भी घुमावे. अगर कोई अच्छा ताकतवर आदमी हो, और उसे दोनों हाथोंसे उठावे, तो बड़ी मिहनतके साथ सिर्फ सिरके बराबर लासक्ता है; हर एक आदमीकी मजाल नहीं, कि इतना भी करसके. इन महाराणाकी तस्वीर देखनेसे मालूम होता है, कि वह बड़े रोबदार और ताकतवर थे. इन महाराणाके चार राणियां थीं— अव्वल महाराणी राठौड़, जोधपुरके महाराजा अजीतसिंहकी बेटी, जिनका इन्तिकाल पहिले ही होगया था. दूसरी कछवाहा जशवन्तसिंहकी बेटी बनेकुंवर, जो सती हुई. तीसरी भाटी सर्दारसिंहकी

बेटी मयाकुंवर, यह भी महाराणाके साथही सती हुई. और चौथी झाला कर्णसिंहकी
बेटी बरुतावर कुंवर, जिसके गर्भसे महाराणा राजसिंह पैदा हुए.





इनका राज्याभिषेक विक्रमी १८१० माघ कृष्ण २ [हि० ११६७ ता० १५ रबीउल-अव्वल = ई० १७५४ ता० १० जैन्युअरी] को हुआ था. गादी बैठनेके वक्त इनकी उम्र केवल दस वर्षकी थी, मुल्कमें उस समय मरहटोंका पूरा जोर शोर था, मेवाड़के सर्दारों व अहलकारोंमें आपसकी फूट और मालिकके कम उम्र होनेसे अन्तरी फैलती जाती थी; मरहटोंने यह हालत देखकर इस राज्यको अपना जैबखर्च समझ लिया. अर्घि इन लोगोंने राजपूतानहमें कदम, तो अपना महाराणा संग्रामसिंहके ही समयमें रख दिया था, लेकिन उस वक्त महाराणाको अपना मालिक जानते रहे, बाद इसके जब कि महाराणा जगतसिंहके जमानेमें महाराजा माधवसिंहको जयपुरकी गद्दीपर विठानेके लिये इनकी मदद लेनी पड़ी, तबसे दिन व दिन मरहटोंका दबाव बढ़ता गया और महाराणा प्रतापसिंहके वक्तमें भी उसी तरह उनका जोर तरक्कीपर रहा; क्योंकि इस समय, तो उनकी मुट्टियां गर्म करनेसे ही रियासतका बचाव था. ऐसी छीना भपटीके वक्त रियासतको काइम रखना मुश्किल था, परन्तु महाराणा संग्रामसिंहके समयके बहुतसे अकिल आदमी मौजूद होनेसे रियासतपर कोई बड़ा जवाल न आने पाया.

महाराणा प्रतापसिंहका देहान्त होनेके बाद महाराज नाथसिंह भी उदयपुर चला आया; और जो सर्दार खौफ खाकर चले गये थे, वे भी अपने अपने ठिकानोंमें आ बैठे. सलूवरका रावत जैतसिंह सबमें अव्वल मुसाहिब था, क्योंकि और सर्दारोंका एतिवार महाराणा और बाईजीराजको न था. चन्द अहलकार दाना और अकिल जैतसिंहके शरीक थे. इन्हीं दिनोंमें जया आपा सेंधिया महाराजा रामसिंह अभयसिंहोतकी मददको मारवाड़पर चढ़ा, और नागौरके किलेमें महाराजा विजयसिंहको जाघेरा. महाराजा विजयसिंहकी सफाई करानेके लिये रावत जैतसिंह उदयपुरसे सेंधियाकी फौजमें भेजा गया, उस वक्त किलेके राजपूतोंमेंसे एक खोखर राजपूतने सेंधियाको दगासे मारडाला; इससे मरहटी फौजमें यह शोर मच गया, कि मेवाड़ वालोंने दगा की. कुल मरहटी फौजका हमलह जैतसिंहपर हुआ, उस वक्त कोई किसीकी नहीं सुनता था, फौजी गद्गको देखकर रावत जैतसिंह अपने साथियों सहित तलवार हातमें लेकर बड़ी बहादुरीके साथ काम आया, और चारण आढ़ा पन्ना व आढ़ा पहाड़खान दोनों

जख्मी होकर बाकी रहे. यह खबर सुनकर उदयपुरके लोगोंको बहुत रंज हुआ.

हकीकतमें इस खैरख्वाह बड़े मुसाहिबके मारेजानेसे रियासतको बड़ा नुकसान पहुंचा. इस इफ़ात तफ़ीतको देखकर शाहपुराके राजा उम्मेदसिंहने राजा सर्दारसिंहसे बनेडेका क़िला छीन लिया. सर्दारसिंह उदयपुर आया, क्योंकि महाराणा संग्रामसिंहके समयसे बनेडेका ठिकाना फिर उदयपुरके मातहत होगया था, जो आलमगीरने मेवाड़से जुदा किया था; लेकिन बादशाहतके बिगड़नेपर भी अजमेरके सूबहदार कभी कभी इसको अपनी मातहतीमें लानेकी कोशिश करते रहे, मगर उनको कामयाबी नहीं हुई. जब शाहपुराके राजा उम्मेदसिंहने विक्रमी १८१३ [हि० ११६९ = ई० १७५६] में यह ठिकाना छीन लिया, तो राजा सर्दारसिंह भागकर उदयपुर आया, और कुछ अरसे बाद गुजर गया. सर्दारसिंहके मरने बाद महाराणा और उनके मुसाहिबोंने फ़ौज भेजकर सर्दारसिंहके बेटे रायसिंहको बनेड़ा दिला दिया, और उम्मेदसिंह लाचार होकर शाहपुरे चला गया.

महाराणाने सर्कारी तोपखानह और कुछ फ़ौज राजा रायसिंहकी मददके लिये बनेडेके क़िलेमें रक्खी, लेकिन कुछ अरसहके बाद फ़ौजी लोग बुला लियेगये, और तोपखानह सर्कारी वहीं रक्खकर राजा रायसिंहसे मुचल्के लिखवाये, जिनकी नक़्कें नीचे लिखी जाती हैं:-

मुचल्केकी नक़ल जो राजा रायसिंहके
फ़ौजदारने लिखा था.

श्री


लीपतं राठोड़ सीवसीघजी साहिबसीघोत अप्रंच श्री दरबाररा तोपखानारा
नग ७ बणेड़ा रा गढ़ मांहे अरज करि बलाणां रषाया, सो श्री दरबार सुंमंगावसी,
जदी हाजर करावणा. संवत् १८१५ ब्रषे वैसाष सुदी १ सुक्रे.

राजा रायसिंहके खास दस्तखती
दूसरे मुचल्केकी, नक़ल.

लिपतुं राजाजी रायसीघजी, अप्रंच बणेड़ा रा गढ़में श्री दरबार रा तोपखाना

रा नगसात बलेणा रषाया, सो बषेडो मटे ने श्री दरवारमहे पुगावे देणा. मीती
बेसाष सुद १ सुक्रे संवत् १८१५ ब्रषे.

संवत् १८१७ चैत्र कृष्ण १३ [हि० ११७४ ता० २६ शरद्वान = ई०
१७६१ ता० ३ एप्रिल] को महाराणाका इन्तिकाल होगया. इनका जन्म
विक्रमी १८०० वैशाख शुक्ल १३ [हि० ११५६ ता० ११ रबीउल अब्बल = ई०
१७४३ ता० ७ मई] को हुआ था. इनकी चार शादियां हुई थीं; पहिली
विक्रमी १८११ आषाढ शुक्ल ८ [हि० ११६७ ता० ६ रमजान = ई०
१७५४ ता० २७ जून] को वेदलाके राव रामचन्द्रकी बेटी गुलाबकुंवरके
साथ, और उसके दूसरे ही रोज गोगूदाके भाला राज कान्हसिंहकी पोती व
यशवन्तसिंहकी बेटी सरसकुंवरके साथ हुई थी, और इसी लग्नपर एक ही साथ
महाराणाके काका अरिसिंहकी शादी राज कान्हसिंहकी छोटी पोती सर्दारकुंवरके साथ
हुई. और तीसरी शादी ईडरके राजा अनोपसिंहकी बेटी भवानीसिंहकी पोती सर्दारकुं-
वरके साथ और चौथी शादी रतलामके राजा पृथ्वीसिंहकी बेटी व मानसिंहकी पोती
सर्दारकुंवरके साथ हुई थी. महाराणा राजसिंहका देहान्त होनेपर महाराणी चहुवान और
राठौड़ दोनों, जिस वक्त सती होनेको निकलीं, उस वक्त राणी चहुवानने यह बद्दुआ दी,
कि "कोई वेदलाका राव आइन्दह अपनी बेटीकी शादी उदयपुरके महाराणाके साथ न करे."
क्योंकि उक्त महाराणीको उनकी सासने बहुत तकलीफ दी थी. इन महाराणाको लोग
जालिम और निर्दई बतलाते हैं.



जब महाराणा राजसिंहका देहान्त हुआ, तो एक दम कुल रियासतमें सन्नाटा होगया, और अत्यन्त शोक पैदा हुआ; क्योंकि इनकी उम्र बहुत कम याने सत्तरह वर्षकी थी; और उस जमानहमें राजपूतानहपर मरहटोंका जोर शोर बढ़ रहा था, ऐसी हालतमें अचानक मुल्की सहारा नष्ट होगया, सब सर्दार, उमराव, अह्लकार एकट्टे होकर महाराणाकी उत्तरक्रियाके बाद जनानी ड्यौढीपर गये, और महाराणा राजसिंहकी माता (बाईजीराज) को कहलाया, कि आपके पुत्रकी बहू झालीजीको गर्भ हो, तो हम सब आपके हुकममें रहकर प्रागट्य तक रियासतका काम चलावें. अगर कुंवर हुआ, तो हमारा मालिक है, मेवाड़का राज्य करेगा; और बेटी हुई, तो अच्छे खानदानमें विवाह दी जावेगी. यह निवेदन सुनकर बाईजीराजने कहलाया, कि बहूके गर्भ नहीं है; तुम राजका हकदार हो, उसे गद्दीपर बिठा (१) दो. उसवक्त महाराणा जगतसिंह दूसरेके छोटे पुत्र अरिसिंह (२) मौजूद थे, इनको सब लोगोंने मिलकर गद्दीपर बिठादिया, और दस्तूरके मुवाफिक नज़ निछावर वगैरह रस्में अदा कीं.

हरी (३) पूजनेके बाद महाराणा अरिसिंह एकलिंगेश्वरके दर्शनको गये. लौटते वक्त उक्त महाराणा जवानीके नशमें चूर घोड़ा दौड़ाते हुए उदयपुरकी तरफ आरहे थे, चीरवाके घाटेमें सवार और सर्दारोंका बड़ा हुजूम जा रहा था, रास्तह तंग होनेके सबब इधर उधर हटने और बचनेकी जगह नहीं थी. महाराणाने कुछ खयाल न किया, बल्कि छड़ीदार व जलेबदारोंको हुकम दिया, कि एक दम सबको हटाकर रास्तह साफ़ करो. मालिककी तेज़ मिजाजीके खौफसे उन लोगोंने उमराव व सर्दारोंको ललकारकर कहा, कि रास्तह छोड़ो! परन्तु पहाड़ी रास्तेकी तंगीसे सब लाचार थे. उन छोटे लोगोंने उमरावोंके घोड़ोंके पुट्टोंपर दो चार छड़ियां भी मार दीं. इसवक्त तो सब

(१) सुनागया है, कि राणी झालीको गर्भ था, मगर खौफसे बाईजीराजने इन्कार करदिया.

(२) गद्दी तज्वीज होनेके वक्त महाराज अरिसिंहने जनानेमें जाकर अर्ज किया, कि मुझको राज्यका लोभ नहीं है, अगर झालीजीके गर्भ हो, तो कहना चाहिये, पुत्र हुआ, तो मेरा मालिक होगा और कन्या हुई, तो विवाह करा दियाजायेगा. इसपर भी बाईजीराजने वही जवाब दिया, जो कि सर्दारोंसे कहा था.

(३) महाराणा गद्दी नशीनीके बाद शोक निवृत्यर्थ बड़ी धूम धामसे शहरके बाहर सब्जी (हरियाली) पूजने को किसी जगहपर जाते हैं, जो हरीकी सवारी मशहूर है.

लोगोंने खामोश होकर उस घाटेको तै किया, लेकिन पहाड़से निकलकर आमेरीकी बावड़ीपर उतर पड़े, और महाराणा उदयपुर चलेआये. पीछेसे कुल सर्दारोंने मिलकर सलाह की, कि जब शुरूसे ही महाराणामें ऐसी बे मुरव्वती है, तो आगे क्या होगा? अगर गम खाकर बे इज्जतीके साथ भी कोई अपना ठिकाना बचावेगा, तो भी यह उसे आरामसे दम न लेने देंगे इसपर बेदलाके राव रामचन्द्रने गोगूँदाके राज जशवन्तसिंहसे कहा, कि मेरी बेटी, तो महाराणा राजसिंहके साथ ही सती होगई, वरनह मैं सब कुछ कर दिखाता. अब तुम्हारी बहिन जिन्दह है, अगर हिम्मत हो, तो सब कुछ हो सकेगा. इस तरहपर सलाह करनेके बाद सब सर्दार उदयपुर अपनी अपनी हवेलियोंमें आये, और इसी दिनसे मेवाड़में फ़सादका बीज बोया गया.

महाराणाने अपने खैरख्वाह अमरचन्दसे मुसाहिबीका काम तब्दील करके जशवन्तराय पंचोलीको दिया, और महता अग्रचन्द बछावतको अपना सलाहकार मुकर्रर किया. अगर्चि ये लोग भी बड़े खैरख्वाह थे, लेकिन अगले खैरख्वाहोंकी तब्दीलातसे लोगोंके दिल विगड़ गये थे. कुछ अरसह बाद एक लड़का पैदा हुआ, जो जनानखानहसे खुफ़ियह तौरपर गोगूँदाके राज जशवन्तसिंहके सुपुर्द किया गया; और महाराणा प्रतापसिंह व महाराणा राजसिंहकी राणियोंने कहलाया, कि यह लड़का तुम्हारा मालिक और रियासत मेवाड़का हकदार है; मर्जी हो, इसकी पर्वरिश करो, चाहे मरवाडालो. जशवन्तसिंह उस लड़केको लेकर गोगूँदेकी तरफ़ रवानह हुआ, और तलावलीके किलेमें उसकी पर्वरिश की. यह बात कुछ कुछ मशहूर होने लगी.

बाजका यह भी बयान है, कि यह लड़का सलूवर रावत् जोधसिंहके पास भेजा गया था, जिसको उसने गोगूँदे होकर कुम्भलमेर भेज दिया. गरज इस तरहकी बातें सुनकर महाराणाने तसल्ली, तो नहीं दी; और सब लोगोंपर अपना रोब जमानेके लिये दवाव डाला, जिससे दिन दिन अब्तरी फैलती गई. महाराणाके दिलसे राजपूतोंका और राजपूतोंके दिलसे महाराणाका एतिवार जाता रहा. इसपर महाराणाने सिन्धी मुसल्मान वगैरह सर्वन्दी नौकर बढ़ाये. पहिले देलवाड़ाके राज राघवदेवके मिलानेकी तद्दीर की फिर शाहपुराके राजा उम्मेदसिंहको बुलवाया, लेकिन महाराणाको सर्दारोंका एतिवार न था, और महाराणाकी तरफ़से सर्दारोंकी भी तसल्ली नहीं हुई. अगर्चि जशवन्तराय पंचोली और महता अग्रचन्द वगैरह खैरख्वाह लोग महाराणाको समझाते थे, लेकिन वे अपनी जवानी और बहादुरीके नशेमें इनको डरपोक बतलाकर न मानते. सच है, जिदकी आदतपर नसीहतका असर, नहीं होता. भैंसरोड़के रावत् लालसिंहको महाराणाने अपनी तरफ़ मिलाकर कहा,

कि काका नाथसिंहको मार डालना चाहिये, क्योंकि महाराणाको उसका बहुत खौफ था। इस सबबसे कि अक्बल, तो जयपुरके महाराजा माधवसिंह उसके हिमायती थे, जिन्होंने महाराणा प्रतापसिंह दूसरेके जमानहमें भी उसे मदद देना चाहा था; दूसरे मरहटी फौजमें भी नाथसिंहका नाम मशहूर होगया था; तीसरे नाथसिंह महाराणाकी जिद्दी और जालिमानह आदतोंसे नफ़्त करके अपनी जागीर बागौरको चला गया था; इससे महाराणाको और भी ज़ियादह अन्देशह होगया, कि यह कोई नया फ़साद जुद्ध उठावेगा। इन बातोंसे रावत लालसिंहको उसके मारनेपर तय्यार किया, और उसे अक्बल दरजेके उमरावोंकी बराबर इज़्ज़त मिलनेका उम्मेदवार किया।

लालसिंह उदयपुरसे रुख़सत होकर अपनी जागीर भैंसरोड़को गया। महाराणाने कई खास रुक्के लिख भेजे, कि जल्दी नाथसिंहका काम तमाम करो। सवा वर्ष तक लालसिंह टालता रहा, लेकिन जब महाराणाकी ताकीद लगातार पहुंचने लगीं, तो आखिरकार हुक्मकी तामील करनेपर मुस्तइद हुआ। पाठकोंके अवलोकनार्थ आखिरी खास रुक्के की नक़्क नीचे दर्जकरते हैं, जो महाराणाने लालसिंहको लिखा था :—

खास रुक्केकी नक़्क.

सवसती श्री रावतजी राज हजुर म्हारो जुहार मालुम हुवे, अप्रंच ॥ अरज आप की आडी, जीरो लीषवो तो हुवो न्ही, अप बात जो आपी तीनही जणा जाणा हा, दुजो अठ हाजर न्ही हे, सो वाचता रुको डेरा वार करसी ने अपे काम बेगो करसी आप लकी, जो अब बक आओ हे, सो श्री ऐकलीगजी हरामपोराने सजा देवे डीगा, ने म्हारे माथे आपरो आक हे, आपसु म्हारा वंसको दुजी करेगा, जीने हीदुने सोगन हे, जो सोगन हे. समत १८२० वरके पोस सु० १५ गुरे.

लालसिंह भैंसरोड़ से खानह होकर बागौर पहुंचा, उस वक्त नाथसिंह नर्मदेश्वरका पूजन कर रहा था, खबर पहुंचनेपर यह कहा, कि भाई लालसिंहसे कुछ पर्हेज नहीं है; भीतर चला आवे। लालसिंहने भीतर जाकर दस कदमसे सलाम किया; नाथसिंहने हंसकर सलामका जवाब दिया, पूजनके वक्त उठकर ताजिम देनेका काइदह नहीं है, इसलिये उसने मुआफ़ी मांगी। लालसिंहने जवाबके एवज कमरसे कटार निकालकर नाथसिंहकी छातीमें जोरसे मारा, कि कलेजा फ़ोड़कर पीठकी तरफ़ निकल गया; लालसिंह उसी दम पीछा लौटा और अपने घोड़ेपर सवार होकर भागा।

यह वाक़िआ विक्रमी १८२० माघ शुक्ल २ [हि० ११७७ ता० १ शरबान]

= ई० १७६४ ता० ४ फ़ेब्रुअरी] के फ़जको हुआ. लालसिंहने भैंसरोड़ जाकर महाराणाको नाथसिंहके मारेजानेकी खुश ख़बरी लिख भेजी, जिसके एवज़ महाराणाने एक खास रुक्का लिखा, उसकी नक़्क़ नीचे लिखी जाती है:-

खास रुक्केकी नक़्क़.

सवसती श्री रावत लालसीधजी हजुर म्हारो जुहार मालुम हुवे, अग्रच॥ आपने म्हारा हुकम माफीक बागोर ताबारी चाकरी करी ने मन राजी होर आपने सोलाम्हे बानसीरी बेठक दीदी, जीमे दुजी होगा न्ही, म्हारो बचन हे. समत १८२० का बरके फा० सु० ३.

इस वारिदातके चन्द महीनों बाद रावत लालसिंह भी अपनी मौतसे मरगया. महाराज नाथसिंहके क्रमानुयायी बयान करते हैं, कि उक्त महाराजका इरादह महाराणाके बख़िलाफ़ नहीं था, बल्कि उन्होंने मरते वक्त नर्मदेश्वर पर खून बहाकर यह कहा, कि हमारा इरादह अपने मालिकके बख़िलाफ़ न था; अगर बद इरादह हो, तो हमने उसका एवज़ पा लिया, और नहीं है, तो इस कामके करने वालोंको बाणनाथ (नर्म-देश्वर) सज़ा देंगे. उनका बयान है, कि इसी अपराधके कारण लालसिंह थोड़े ही दिनों बाद मरगया, और महाराणाने भी उसी तरह इस दुनूयाको छोड़ा.

इन्हीं दिनोंमें मलहार राव हुल्करने मेवाड़पर चढ़ाई करनेकी धमकियां लिख भेजीं, और लिखा, कि पर्गनह रामपुरा, बूढ़ा, जारड़ा च कणजेड़ा (१) वगैरहका बक़ाया हासिल और पेशवाका खिराज वगैरह जल्दी भेजदो. महाराणाने खानगी बखेड़े और खर्चकी तंगीसे इन रुपयोंके देनेमें देर की, लेकिन उस लुटेरे बहादुरको कब सब्र होसक्ता था, मेवाड़को लूटता हुआ ऊंटालेतक आपहुंचा; तब कुरावड़का रावत अर्जुनसिंह और महाराणाका धायभाई रूपा उदयपुरसे भेजे गये. इन लोगोंने मलहार रावको बहुत समझाया, लेकिन दामोंका लोभी बातोंसे कब राजी हो सक्ता है ? उसने साठ लाख रुपया तलब किया. लाचार मुसाहिवोंने इक्यावन लाखपर फ़ैसलह किया, और एक इक्रारनामह लिखा गया, जिसकी नक़्क़ नीचे दर्ज की जाती है:-

(१) इसी समयसे हुल्करने उक्त पर्गनोंपर कब्ज़ह करलिया, जो अबतक मेवाड़के शामिल नहीं हुए हैं

इक्रारनामहकी नकल.

॥ श्री मोर्या ॥

करारनामा राज श्री मलारराव होलकर अपरंच श्री राणाजीसुं म्हारो हेत बेहार थेठसुं चाल्या आया है, जणीमे कीणी बातको तफावत न पडसी. श्रीमंतपंत प्रधानजीरा पटा बावत तथा सींधारा तथा घरु परगणा बुढारा मुकाता वा जोरडा, कणजेरा, जामुन्या, रामपुराके टपे बावत लेषो समत् १८२० बीस रे साल तांइ सुध करे लीधा. बाकीका रुपया तीनो मामलतका निकल्या, जीका लीषतं कराय लीया. अब कोइ अठां पहलीरो लीष्यो पढ्यो नीसरे सो रद, सारो सुलभाडो अठां पहलीरो साफ कीधो, जो कोइ भलो बुरो झुटी सांची मालुम करे सो मंजुर नंही; इणी बातरो करारनामा बेल भंडार करे दीधा. मीती वैशाख बद् ५ समत् १८२० (१).

※ श्री ※
महालसाकान्त
चरणी तत्पर खंडो
जी सुत मल्हार-
जी होलकर.
※

मोर्तेव
शुद.

अब महाराणाको यह फिक्र हुई, कि जिस तरह होसके उस तरह, सलूंवरके रावत् जोधसिंहको मारडालना चाहिये, क्योंकि वह मुखालिफ़ सर्दारोंको खुफियह तौरपर मदद देता है. और इसी मन्शासे महाराणाने उक्त रावत्के नाम इस मज्मूनका एक खास रुक़ा लिखा, कि आप यहां बहुत जल्दी चले आवें. लेकिन उसे पहिले ही मालूम होगया था, कि मैं उदयपुर जानेमें मारा जाऊंगा, इसलिये टाला टूली करता रहा. आखिरकार जब महाराणाको यह खबर मिली, कि जोधसिंह किसी त्यौहारपर अपनी ससुराल मोही (२) जाता है, तो उदयपुरसे नाहर मगरेको चले गये, जहांसे कि मोहीकी तरफ़ जानेका रास्तह था. जोधसिंहने सोचा, कि महाराणाके लइकरमें होकर वगैरे सलाम किये चला जाना बेअदबीकी बात है. लाचार वह दरबारके रूबरू हाजिर हुआ; महाराणा सलाहके वहानेसे रावत्को एकान्तमें लेगये, और एक पानकी बीड़ी जैबसे निकालकर जोधसिंहसे कहा, कि यह बीड़ी या तो मुझको खिलाइये, अथवा आप खाजाइये. इस इशारेसे रावत्को साफ़ मालूम होगया, कि इसमें ज़हर है; अफ़सोसके साथ उसको महाराणाके हाथसे लेकर खागया, और कहा, कि “आप बहुत वर्षतक जिन्दह रहें, नौकरोंकी जान मालिककी खैरस्वाहीपर कुर्बान है.” थोड़ी देरके बाद महाराणाने अपनी तसल्लीके लाइक़ ज़हरका असर देखकर रावत्को उसके हमराहियोंमें भेजदिया, कि जहां जाकर वह मरगया, जिसकी छत्री नाहर-मगरेकी नदीपर अबतक मौजूद है.

(१) इस कागज़में श्रावणी संवत् है, और चैत्रादि हिसाबसे संवत् १८२१ लग गया.

(२) यहांके भाटी जागीरदारकी बेटाके साथ जोधसिंहकी शादी हुई थी.

जोधसिंहके मारनेमें महाराणाकी बड़ी बदनामी हुई, क्योंकि यह सर्दार इनका दिली खैरखाह था; सिर्फ मालिकसे डरकर सलूबरमें बैठ रहा था. इस वारिदातसे महाराणा का बिल्कुल एतिबार उठगया, लेकिन उसके बेटे पहाड़सिंहके दिलमें कोई फर्क नहीं आया, और वह तन मनसे महाराणाकी खिदमतमें हाजिर रहा.

इन्हीं दिनोंमें भैंसरोड़का रावत लालसिंह गुजरगया. महाराणाने उसके बेटे मानसिंहको उसके पिताकी इज्जत देकर तसल्लीका पर्वानह लिख भेजा, जिसके जवाबमें मानसिंहने नीचे लिखी अर्जी रवानह की:—

भैंसरोड़के रावत मानसिंहकी अर्जीकी नकल.

॥ श्रीरामजी १

सध श्री श्री श्री श्री श्री जी हजुर, रावत मानसीधरी अरज मालम हुवे राज, अपरच घणी मोथी नवाजस मेरवनी करे अमराव पदवी बगसी, ने मोटो कीदो सो मु मारी तरफथी आतेकरनसु धरयांरी बदगी मंहे जीव जंमा घर बचे तथा धन माया बचे धणीरो हुकम माथा उपरे रापवा वचे ने धनी जणी बदरि बंदगी भुलावे जणीमाहे मारी आडी थी कदीही कसर पाडु तो मुने श्रीअकलंगजी पोचे; तथा मु भाडी सगा सनमंदी थी श्री हजुर हुकम करे जणी भेलो वु ने हुजु धरयांरी मरजी सवाअ मु कणी भेलो हवु, तो मने श्री जीरा पतावा अरुठ होवे ने जो धणी परमेसुर से, सो धणी हुकम करे सो मारा माथा उपरे. असल बाप थी उपनो सु, तो धरयांरा पैतावा मारा माथा उपर राषसु दुजी कडी वात जंणे नही राज समत १८२१ रा फागुण सद ४.

महाराणाने यह सोचा, कि देलवाड़ेके राज राघवदेवको तसल्ली देकर बुलाया जावे. क्योंकि वह पेशतरसे नाराज था, और इन महाराणाने गद्दी बैठने बाद उसको और भी जियादह भड़का दिया. उसने काशीवगया जानेकी इजाजत चाही, तब महाराणाने तेवर बदलकर कहा, कि “ भलेही द्वारिका जाओ ”. इस वारेमें कर्नेल टॉडने राघवदेवके कागज़ (१) का तर्जमह लिखा है, जो उसने प्रधान जशवन्तरायको लिखा था (२).

(१) कर्नेल टॉडने उक्त कागज़पर नोट देकर राघवदेवको गलतीसे अपनी किताबमें देलवाड़ेके एवज़ सादड़ीका जागीरदार लिखा है.

(२) राज राघवदेवने जशवन्तराय पंचोलीके नाम कागज़ लिखा उसका तर्जमह कर्नेल टॉडकी किताब टॉडराजस्थान (कलकत्तेकी छपीहुई) के पृष्ठ ४५३ जिल्द १ के १६ वें प्रकरणसे यहांपर दर्ज किया जाता है:— राज राणा राघवदेवकी तरफसे जशवन्तराय पंचोलीके नाम अल्काब आदाब (उपमा) के बाद —

उसमें इसी ऊपर लिखे हुए रंजकी बाबत शिकायत दर्ज है. उसी अरसहमें महाराणाने एक खास रुक्का उसकी तसल्लीके लाइक लिख भेजा, जिसपर राज राघवदेवने एक अर्जी महाराणाको लिखी, उसकी नक़्क नीचे दर्ज की जाती है :-

अर्जीकी नक़्क.

सिद्ध श्री श्री श्री श्री श्री जी हुजूर अरज सेवग राघोदेवरी अरज मालम व्हे राज अप्रचः श्री जी परमेसुर से, अनदाता से राज श्री हजुरसुं षास दसकतां रुको मया हुवो, सेवग माथे चेडे लीदो, राज मेरबानी करे अत्रो बोले यर लषवारो हुकम हुवो, जो मारा मनरो भांत भांत संदेह दुर हुवो. मारे पण श्री जीरा हुकमरी बातसे. मुने श्री जी जणी रीतरी बंदगी भलावे, सो हुं मारा जीव बचे धन बचे गर वचे अंतेकरण बचे श्री जी हुकम करे जणी में कुछ राषुं तो श्री जीरा पेटावारी आण. कही भाड़ी सगा सुमंदी थी श्री जीरा सुदरवामें तो हुकम थी भेलपण राषुं, ने श्री पावंदारा बगाडमें कणी भेलो नहीं. श्री जीरे भलेमें मारे भलां आछा बुरां धण्या सामल छुं. अणी लष्यामें कठे ही तफावत राषुं तो श्री एकलींगजी मुने पोचेसी. श्री जीरे ने मारे बचे श्री परमेसुरजी से असल रजपूत वेसी, सो तो वचनमें तफावत नुं पाडसी राज. चेत सुद ५ भोमे संवत् १८२१ (१) वरषे.

अब हम उस संवत्का वयान करते हैं, जिसमें कि मेवाड़की बर्बादीका प्रागट्य हुआ. महाराणाकी तेज मिजाजी और गद्दी नशीनीसे पहिलेकी ओछी और खफीफ़ बातोंकी अदावतोंपर हरएकके साथ टेढ़ी निगाह, खैरख्वाहोंकी सलाहपर बे एतिबारी,

आपकी चिट्ठी पहुंची क़दीम ज़मानेसे आप हमारे दोस्त चले आये हो, और हमेशहसे वफ़ादार रहे हो, इसलिये कि मैं हमेशहसे महाराणाके खानदानका नमक हलाल हूं. मैं कोई चीज़ आपसे छिपी नहीं रखना चाहता, इसलिये मैं लिखता हूं, कि अब मेरा दिल खिन्नत गुज़ारी और नौकरीको नहीं चाहता है; मेरा इरादह गया जानेका है. जब मैंने यह ज़िक्र महाराणासे किया, उन्होंने ताना देकर मुझसे कहा कि, तुम्हें द्वारिका जाना चाहिये. अगर मैं ठहरूं, तो महाराणा मेरे जागीरके ग्राम बहाल करदेंगे, जैसे कि जैतजीके वक्तमें थे. मेरे बुजुर्गोंने बड़ी बड़ी नौकरी की हैं, और चौदह वर्षकी उम्रसे मैं भी खिन्नत करता आता हूं; अगर दरबार मुझपर मिहर्बानी किया चाहते हैं, तो यह ऐन वक्त है.

(१) इस कागज़का संवत् श्रावणादि है, और चैत्रादि हिसाबसे संवत् १८२२ शुरू होगया.

और बदख़्वाहोंकी चिकनी चुपड़ी बातोंपर अमल होनेके बाइस रियासती लोगोंका नाकमें दम होगया. कुल सर्दारोंने एक मत होकर रियासतका एक दूसरा दावेदार मशहूर किया. विक्रमी १८२२ [हि० ११७८ = ई० १७६५] के शुरू होते ही गोगूदाके भाला जशवन्तसिंहने रत्नसिंह नामी लड़केको कुम्भलमेर पहुंचाया, और प्रसिद्ध किया, कि “ यह महाराणा राजसिंहका फ़र्जन्द मेवाड़की गद्दीका वारिस है ”. मैं (कविराजा श्यामलदास) ने उन लोगोंकी ज़बानी सुना है, कि जिनने उस ज़मानेके आदमियोंसे यह जिक्र सुना था. मेरे पिता भी अक्सर कहा करते थे, कि अस्लमें वह लड़का महाराणा राजसिंहका ही फ़र्जन्द था, जो महाराणा अरिसिंहके डरसे पोशीदह रक्खा गया; लेकिन वह सात वर्षकी उम्र पाकर शीतला निकलनेसे कुम्भलमेरमें ही मरगया, और मुखालिफ़ सर्दारोंने किसी राजपूतके लड़केको उसके एवज़ खड़ा करदिया. बाजोंका यह भी कौल है, कि वह अस्लमें ही बनावटी था; जैसा कि शुरूमें आमेरीकी बावड़ीपर सलाह होनेका जिक्र लिखा है. चाहे यह ग़लत हो या सहीह, लेकिन हम यह लिख सक्ते हैं, कि महाराणा अरिसिंह और बनावटी रत्नसिंहके मददगार सर्दार मेवाड़ देशको बर्बाद करने वाले थे. कर्नेल टॉड लिखते हैं, कि कुल मेवाड़के सर्दार रत्नसिंहकी तरफ़ होगये, खाली पांच अरिसिंहके खैरख़्वाह रहे, याने सलूंवर, बीझोलियां, बदनौर, आस्ट और घाणेरव. इनमेंसे सलूंवर भी पहिले रत्नसिंहके शरीक था, परन्तु फिर आपसकी नाइतिफ़ाकीसे अरिसिंहका मददगार होगया. यह कहावत हमने भी सुनी है, कि रावत् पहाड़सिंहको महाराणाने हिकमत अमलीसे अपनेमें मिलालिया, लेकिन मेरे (कविराजा श्यामलदासके) पिता हमेशह मुझसे कहा करते थे, कि यह बात ग़लत है. रावत् पहाड़सिंह और उसका चचा भीमसिंह महाराणाके हाथसे जोधसिंहके मरनेको ग़नीमत जानकर यह कहते थे, कि आदमी दुन्यामें हमेशह जिन्दह नहीं रह सक्ता. जोधसिंहका अपने मालिकके हाथसे मरना पहाड़सिंहकी खैरख़्वाहीका उम्दह सुबूत होगया, और रावत् पहाड़सिंहके उज्जैनमें मारे जानेसे यह बात बिल्कुल पुस्तह मालूम होती है; कि पहाड़सिंह महाराणाका खैरख़्वाह था, जिसका बयान आगे लिखा जायेगा.

वसन्तपाल देपुरा रत्नसिंहका प्रधान बनाया गया, जिसने महाराणा रत्नसिंहके नामसे मेवाड़में हुकम अहकाम जारी किये. वसन्तपाल भी उसी चालपर चला, जिसपर कि उसका बुजुर्ग साह आसा देपुरा चला था— (देखो पृष्ठ ६२).

इसी अरसहमें एक शरूस बड़ा आकिल और होशियार महाराणाके हाथ लगा, वह ज़ालिमसिंह भाला था, जिसे कोटाके महारावने निकाल दिया था. यह कोटा

और जयपुरकी लड़ाईमें नामवर होगया, इसका जिक्र कोटेकी तवारीखमें लिखा

गया है. महाराणाने उसे चीताखेड़ाकी जागीर और राजराणाका खिताब दिया. अगर महाराणा इसकी सलाहपर भी चलते, तो जरूर कुछ फ़ायदह होता, परन्तु वह अपनी बहादुरीके घमंडमें ज़बर्दस्तीकी कार्रवाईको पसन्द करते थे. इसवक्त़ ऊपर लिखे हुए सर्दारोंके सिवा कुल मेवाड़के सर्दार रत्नसिंहके तरफ़दार होगये थे. कर्नेल टॉड लिखता है, कि रत्नसिंहके सर्दारोंमें यह आठ सरगिरोह थे : — भींडर, देवगढ़, सादड़ी, गोगूदा, देलवाड़ा, वेदला, कोठारिया और कान्हौड़.

हमने कई बुजुर्गोंकी ज़बानी सुना है, कि देलवाड़ेका राज राघवदेव महाराणाका दिली खैरख्वाह था, जिसका सुबूत उसकी अर्जीसे भी साफ़ ज़ाहिर है; लेकिन महाराणा को उसका एतिवार न था. महाराणाने शाहपुराके राजा उम्मेदसिंहको मिलालेनेकी फ़िक्र की, क्योंकि उम्मेदसिंह व उसके पोते रणसिंहमें ना इत्तिकाकी होरही थी, और वह अपने छोटे बेटे ज़ालिमसिंहसे खुश था, इस मौकेको ग़नीमत जानकर उसके नाम पूरी तसल्लीका एक रुक्का लिख भेजा; लेकिन उसने उदयपुर आनेमें उज़्र किया, और कहा, कि मुझे महाराणा जगतसिंहने, जो जागीर दी थी, वह भी आजतक नहीं मिली. तब महाराणाने काछोलाके पर्गनहकी उठंतरी देकर मन्ना धायभाईको उसके पास भेजा. यह पर्गनह महाराणा जगतसिंहने राजा उम्मेदसिंहको जागीरमें लिख दिया था, लेकिन उक्त महाराणाका देहान्त होगया, और उनके पुत्र प्रतापसिंहकी नाराजगीसे क़ज़ह मुलतवी रहा; अब मन्ना धायभाईको भेजकर उम्मेदसिंहको दिया गया. उस ज़मानहका एक अस्ली कागज़ हमारे पास है, जिसकी नक़ल नीचे दर्ज कीजाती है :—

कागज़की नक़ल.

॥ श्रीरामजी

मनजीने साहेपुरे रावतजीरी तरफ़सुं राजाजी तीरे उठंतरी ले मोकल्यो, सो रावत उरजनसिंहजी इतरा सभाचार कहा, सो मनजी पकी करे उठंतरी देसी, जिणीरो आछा वुरारो जमो रावतजी पहाड़सिंहजी उरजणसिंहजीरो है— विगत—

हुकम परमाणे श्री जीरी बंदगी करे, जणी में तफ़ावत न पड़े.

मेवाड़रा पांच सरदारों प्रमाणे देसरे चोथ तियाई दसोद बिराड़ भला भुंडामें हुकम प्रमाणे पंचां स्यामल श्री जीरा सुधारामें हजुररा हुकम प्रमाणे बंदगी करे, जतरे तो म्हारो वचन हे; अर श्री जीरा विगाड़ामें धण्यारा हुकम सिवाय राजाजीरी नीतमें कसर पड़े, जठे रावतजीरो वचन न हे, षोलेर कहेदेणी. धण्यारा सुधरवामें तो रावतजी

राजाजी भेला श्री जीरो सुधारवारी नीत जाणी बी नहीं स्याम धरमी व्हे सो धण्यां

भेलो होय, धण्यांरा विगाडा भेलो नहीं. श्री जीका सुधरवामें भेलप छे, हुकम प्रमाणे बंदगी करे जितरे जायगां कोय हुकम लोपे जठे रावतजी अरज करे, पटो षालसे करावे तथा दरबार थी षालसे करे, बदनीत, तकसीर पडे, तो ओलंभो देवाय.

पटारा गामामें गडी न बंधे.

श्री जीरा हुकम सिवाय कही ठकाणे कागद पतर सुरका दुरकी हेत बेवहार नही करे.

श्री जीरा परवाना रुका दास हजुर आय अंतकरण चित्त लगाय हुकम प्रमाणे बंदगी करे, बंदगीमें कसर न राषे. भाई सगा भेलपण का फरक देषणो नही; लुणकी नीत राषणी और पी मनजीने उपजे सो श्री म्हादेवजीरा देवरामें सोगन सपत्त पकी षवावेगा, सेहर में म्हेलामें चाकरां रो फितुर नवे; रावतजीरा चाकरां प्रमाणे रहे.


राजा उम्मेदसिंहकी अर्जीकी नकल.


॥ श्रीरामजी

स्वस्ती श्री माहाराजा धीराज महाराणा श्री ५ श्री अरसीहजी हजुरी छोरु राजा उमेदसीगको पावा मुजरो मालम होवे— अप्ररंच ॥ श्री जी मुने महरबान होअे पटो मया कीधो, सो पगे लागी माथे चढाआ लीधो, माहारे तो श्री जी परमेसुर छे; श्री जीरा हुकम परमाणे अतेहेकरणसु श्री दरबारकी बंदगीमें धण्यांरो सुधरे जी बातमें कधेही वोछ रापु, तो मने श्री एकलीगजी पोछे धणी हुकम करे ज्या करां; मुरजी हो जणार्थी हेत रापा, पातसाहीरो तथा दुजाहीरो तणारो सादन रापु नी और कणीरो सादन करु, तो दरबाररो पटो पाछो श्री हजूर नजर करु. रावत पाइसीगजी दुजी याददास्ती नीचे माहारा अपर कराया छे, जतरी बातमें तफावत पडे, तो मने श्री लछमीनाराणजी पोचे. आगली तगसीर धणी मने माफ करी, सो मामे परमेसुर है, तो हु पण मुजरा सरीकी बंदगी करी बताऊ, तो असली रजपुर अर माहारी तो साहारी ही सरम धणयाने हे, सो धणी चंताई करसी राज; मती पोस वीद २ संवत १८२२ वरषे.

बनेडेका राजा रायसिंह, तो पेशतरसे ही महाराणाका फर्मावदार था. अब पर्गनह काछोला मिलनेपर राजा उम्मेदसिंह भी महाराणासे आमिला. इन सर्दारोंके एकडा होनेसे महाराणाको बड़ी ताकत होगई, और मेवाडसे रत्नसिंहका कब्ज उठा दिया, जो उदयपुरके गिर्दो नवाह तक आ पहुंचा था. रत्नसिंहकी तरफ रावत जशवन्तसिंह और उसका बेटा राघवदेव दोनों बड़े ताकतवर व अहमन्द सर्दार थे; उन्होंने सोचा, कि अब बिदून किसी जबरदस्त शरूस्की मददके काम्याव होना मुश्किल है. इसलिये वे मरहटोंकी तरफ कोशिश करने लगे, अरिसिंह

भी अपनी ताकत बढ़ा रहे थे. यशवन्तराय कायस्थसे प्रधाना उतारकर महता अगरचन्दको दिया गया, और जालिमसिंह झालाकी सलाहपर बन्दोबस्त होने लगा. विक्रमी १८२४ [हि० ११८१ = ई० १७६७] में यह तमाम बद् इन्तिजामी दूर हुई. इन्हीं दिनोंमें देवगढ़के रावत् जशवन्तसिंहका बेटा राघवदेव माधवराव सेंधियाके पास पहुंचा, और उसको अपना मददगार बनानेके लिये लिखदिया, कि महाराणा अरिसिंहको गद्दीसे उतार देनेके बाद हम तुमको सवा करोड़ रुपया देंगे. सेंधियाने भी लालचमें आकर इक्रार कर लिया. लेकिन जालिमसिंह झाला और अगरचन्द महताने पेशवाके फौजी अफसर दौला मियां और रघूजी पायग्याकी मारिफत पहिले बात चीत कर रखी थी. इसलिये उक्त अफसरोंने सेंधियाको लालचकी तरफ झुकाहुआ देखकर मना किया, परन्तु उसने नहीं माना. इसपर ये दोनों अफसर नाराज होकर महाराणा अरिसिंहके पास उदयपुर चले आये. रघूजी पायग्याके पास पांच हजार और दौला मियांके पास तीन हजार सवारोंकी जम्हूरियत थी. इनके आनेसे महाराणा की हिम्मत बढ़ गई. और इन लोगोंने कहा, कि माधवराव सेंधियाकी हमारे साम्हने कुछ हकीकत नहीं है; अगर उसने फौजी कार्रवाई की, तो उसे पकड़कर आपके पास ले आवेंगे. महाराणा तो पहिलेसे ही बहादुरीके घमंडमें चूर थे, इन लोगोंकी बातोंसे और भी जियादह जोशमें आये, लेकिन इनके अकिल मुसाहिबोंने पेशवाके सर्दारोंमेंसे बहेरजी ताकपीर व पंडित राघवरामसे मिलावट करके बीस लाख रुपया देनेपर रत्नसिंहको कुम्भलमेरसे निकाल देनेका इक्रार करालिया. उस इक्रारनामहकी नकल नीचे लिखी जाती है:—

——
इक्रार नामहकी नकल.

——
श्रीरामजी,



सीध श्री लीपाईतं राज श्री बहेरजी ताकपीर वा पंडित श्री राघोरामजी अपरंच श्री जीरे देसमें ही हरामपोरां राणा राजसीधजीरा बेटारो फतुर झुठो उठाय, जीण बावत श्री दीवाणजी हजुरमें अतरो करार ठहरायो, सो थो काम कर देणो. बहर रुपिया २०००००० बीसलाष लेणा ठहरायो, सो श्री जीरा जतरा मतलब हे, जतरा करदेना. श्री जीरा कामदारारा हाथरा लीप्या प्रमाण ए रुपिया

लेणा, काम करदेणा; तीनही सरकाररो नजराणो चुकाईलीया, सो फतुर बाबत तीन ही सरकाररा बोलवा पावे न्ही मीती भादवा सुध १४ समत १८२५.

मोत्तव
सुद.

इस इक्रार नामहका हाल सुनकर माधवराव सेंधिया जियादह भडका, जिससे उसकी तामीलमें देर हुई. यह खबर सुनकर शाहपुरेका राजा उम्मेदसिंह, देलवाड़े राज राघवदेव और सलूंबर रावत पहाड़सिंह तीनों, मरहटे सर्दारोंके पास भेजे गये. इन लोगोंने उनसे बात चीत की. बहेरजी वगैरह सर्दारोंने उनको तसल्ली दी, तो भी वे माधवराव सेंधियाको मिलानेकी कोशिशमें लगे, और जो लोग उदयपुरमें रत्नसिंहके तरफदार थे, उनपर सख्तियां होने लगीं. इस वारेमें एक अर्जी मरहटी लश्करसे उक्त सर्दारोंने महाराणा अरिसिंहके नाम लिखभेजी, जिसकी नक्क नीचे लिखी जाती है:-

अर्जीकी नक्क.

॥ श्रीरामजी

महरो मुजरो मालुम
होवे राज,
महरो मुजरो मालुम
होवे जी,
महरो मुजरो मालुम
होवे.

सिध श्री श्री श्री श्री श्री जी हजूर, अरज रावत पहाड़सिंह, राणा राघवदेव, राजा ओमेदसिंहरी मालुम होवे राज, अप्रंच: श्री हजूर थी रुको आयो, समाचार वांच्या राज, प्रोहितजीरी हवेली एकलिंगदासजीरा घरांरा समाचार लिष्या, सो जाण्या राज, सो दोही जायगारो घणो जाबतो राषेगा राज, साज बाज आगो पालो जाय नही, ज्युं करेगा राज, ने बावा वषतसिंहजीरी हवेलीरो जाबतो कीदो होवे, तो पको करावेगा राज, ने नही कीदो होवे, तो अब करावेगा राज; नही जा बात पण जाहर नही करेगा. जीन कुंवर जालमसिंहजीरे नाम पंचारा नामरो कागद लषाय मेल्यो, सो वो मान ही लेसी; नही माने तो श्री हजूर सुं पण मुलायजो नहीं करेगा. जिनने राणा राजसिंहजीरी झालीरो घर संबंद मेलगा ने उणीने दुजा चौपाड़ माहे मेले देगा जी, अस्या समाचार पुगा है, सो पांच रुपियांरो माल पुरकस लाग्या, आण

मेल्यो सो निकल्या नही निकल्यारो अटकाव राषेगा नही, नोरा सुदी समाले लीज्यो जी, ने उणांरी छोर्यां वासते हुकम कीदो थो, सो जबत करावोगा जी. संवत १८२५ रा आसोज वीद १४.

महाराणा राजसिंहकी राणी झाली और उनके तरफदारोंपर उदयपुरमें सख्तियां होनेकी खबर रावत् जशवन्तसिंहके बेटे राघवदेवकी मारिफत सुनकर माधवराव सेंधिया जियादह भडका, और उसने कहा, कि हमारी हिमायत जानकर उनपर सख्तियां होती हैं, तो मैं सेवाडको जुहूर देखूंगा. इन बातोंसे ना उम्मेद होकर पहाडसिंह, राघवदेव और उम्मेदसिंह, तीनों उदयपुरको लौट आये. यहां भी कई किस्मके आदमी मौजूद थे, और महाराणा दूसरे प्रतापसिंहके समयसे आपसमें अदावत बढ़ती रहनेसे देलवाडाके राज राघवदेवका शक तो पहिले ही से था, इस वक्त लोगोंने महाराणाके दिलपर बखूबी नकश कर दिया, कि "यह इकार नामह देलवाडे राजने ही पक्का न होने दिया, क्योंकि यह खानगीमें फुतूर (रत्नसिंह) की तरफ मिला हुआ है."

इस वक्त राजा उम्मेदसिंह पहाडसिंहसे मिलगया, परन्तु राज राघवदेव, जो बड़ा जुअतदार और आकिल सर्दार था, कृष्णावतोंसे नहीं मिला, बल्कि महाराणा अरिसिंहके भरोसेपर मगरूर रहा. आखिरकार इस अदावतका नतीजह यह हुआ, कि इन्हीं महाराणाने राघवदेवको मरवाडाला. जिसका हाल इस तरहपर है, कि सिन्धियोंकी बहुतसी तन्स्वाह चढी हुई थी, और वे लोग तन्स्वाह न मिलनेके सबब जियादह बे करारी जाहिर करते थे; यह मौका पाकर महाराणाके इशारेके मुवाफिक रावत् पहाडसिंह बगैरहने उनसे कहा, कि अगर तुम राज राघवदेवको मार डालो, तो तुम्हारी चढी हुई तन्स्वाह हम चुका देंगे; और महाराणाने राज राघवदेवसे कहा, कि तुम जाकर सिपाहियोंको समझा दो. यह इस दगाबाजीसे वाकिफ न होनेके सबब सिन्धी सिपाहियोंके बीचमें चला गया, कि पीछेसे एक हथमारेने आकर तलवारका वार किया, जिससे राघवदेवके दो टुकड़े होगये.

इस सर्दारके वेगुनाह मारेजानेसे महाराणाकी बहुत शिकायत हुई. इसके बाद फौजकी तय्यारी होने लगी, पांच हजार सवार रघूजी पायग्याके साथ, तीन हजार दौला मियांके, पांच हजारसे कुछ कमो बेश राजा उम्मेदसिंहके, और कुछ रावत् पहाडसिंहके साथ थे; इसके सिवा चार हजार सर्कारी फौज थी. बाजका कौल तो यह है, कि कुल सत्तरह हजार फौज थी, और चरण कृष्णा आढाने भीमविलास ग्रन्थमें महाराणाकी फौज पैंतीस हजार लिखी है, मगर न मालूम किसका बयान सहीह है; और किसका गलत, क्योंकि उक्त शाइरने भी इस मुआमलेके शरीक रहनेवाले लोगोंकीही जवानी सुनकर लिखा होगा;

इसलिये हम फौजकी ठीक तादाद नहीं बता सक्ते. अलवत्तह यह कह सक्ते हैं, कि

वह फौज निस्सन्देह मरहटोंसे मुकाबलह करनेको काफी थी, परन्तु ग़लती इतनी हुई, कि महाराणाने उसे उज्जैन भेजकर अपनी ताक़त घटादी. अगर इस फौजके साथ रहकर अपने मुल्कमें ही दुश्मनसे लड़ते, तो फ़ायदेकी सूरत थी, क्योंकि इसी फौजके चार पांच टुकड़े बनाकर उदयपुरके करीब ही चारों तरफ़से छापा मारते, तो जुर्रर कास्र्याब होते, परन्तु ईश्वरको जो करना मंजूर होता है, वैसी ही मनुष्यकी बुद्धि होजाती है.

रावत् पहाड़सिंह, राजा उम्मेदसिंह, प्रधान महता अगरचन्द, राज जालिमसिंह, बनेड़ेके राजा रायसिंह, बीजोलियाके राव शुभकरण, भैंसरोड़के रावत् मानसिंह, बंभोराके रावत् कल्याणसिंह और मगरोपका बाबा विशनसिंह बालक होनेके सबब उसके एवज पांच सौ आदमियोंकी जम्हूरत और मरहटा रघूजी पायग्या व दौला भियां वगैरह सर्दारोंको महाराणाने हुक़म दिया, कि तुम उज्जैन जाकर माधवराव सेंधियासे मिलो; और उनसे कहो, कि अगर पेशकश लेना हो, तो हम यहां ही चुका देंगे, और लड़ाई करना हो, तो भी हम तय्यार हैं. इस तरह इन लोगोंको उदयपुरसे रवानह किया. शाहपुराके राजा उम्मेदसिंहने महाराणासे यह दरख्वास्त की, कि अगर मैं लड़ाईमें मारा जाऊं, तो मेरे छोटे बेटे जालिमसिंहको शाहपुरेका मालिक बनावें. इसपर महाराणाने कहा, कि अगर हम मेवाड़के मालिक रहे, तो ऐसा ही होगा. अन्तमें सब लोग महाराणासे विदा होकर उज्जैन पहुंचे. वहां क्षिप्रा नदीके किनारे कियाम करके माधवराव सेंधियासे बात चीत करने लगे. माधवरावने कहा, कि महाराणा राजसिंहके फ़र्जन्द रत्नसिंहकी मौजूदगीमें अरिसिंह राज्यका मालिक नहीं होसकता. जिसपर इन सर्दारोंने जवाब दिया, कि यदि वह राजसिंहका असली फ़र्जन्द होता, तो बेशक आपका कहना वाजिव था, लेकिन् चन्द वदरखाह सर्दारोंने यह फुलूर खड़ा किया है. अगर महाराणा राजसिंहकी महाराणीको हमल होता, तो गद्दी नशीनीके समय, जब महाराणा अरिसिंह और कुल रियासती लोगोंने दर्याफ़्त किया, उस वक्त इन्कार न होता; लेकिन् सेंधिया सवा करोड़ रुपयेके लोभसे विल्कुल काठकी पुतली बनरहा था, और उसकी डोरी देवगढ़वाले राघवदेवके हाथमें थी; जिस तरह वह चाहता, नचाता था; उसने इन लोगोंकी बातोंपर कुछ भी ध्यान न दिया.

सेंधियाने कहा, कि मैं एक बार मेवाड़को देखूंगा, तब सर्दारोंको भी लाचार होकर लड़ाईकी तय्यारी करनी पड़ी. विक्रमी १८२५ पौष शुक्ल ६ [हि० ११८२ ता० ५ रमज़ान = ई० १७६९ ता० १३ जैनुअरी] को दोनों तरफ़से तोप व बन्दूकें चलने लगीं. सेंधियाके पास इस वक्त पैंतीस हजार फौज थी, तीन दिनतक बराबर लड़ाई होती रही; आखिरकार विक्रमी पौष शुक्ल ९ [हि० ता० ८ रमज़ान = ई० ता० १६ जैनुअरी] की

फ़ज्रको मेवाड़की फ़ौजमें सलाह हुई, कि अब हमलह करना चाहिये. सलूबरके रावत् पहाड़सिंहको राजा उम्मेदसिंहने कहा, कि आप अभी अठारह वर्षके हैं, और शादी किये थोड़े ही दिन हुए हैं, इसलिये मुनासिब है, कि आप महाराणाके पास चले जाइये; फिर कई लड़ाइयोंमें आप को यह मौका हासिल होगा. तब रावत्ने जवाब दिया, कि मेरी कम उम्रकी को न देखिये, सलूबरके ठिकानेकी तरफ़ खयाल करना चाहिये, कि वह कितना पुराना है, जिसकी इज्जत मेरे हाथमें है. अगर एक कदम भी पीछा हटूं, तो मेरे इज्जतदार ठिकानेकी तमाम लोग हिकारत करेंगे; दूसरे लड़ाईका काम जवान आदमियोंके ही हाथमें होना चाहिये; आप दाना और तज्जिबहकार हैं, उदयपुर चले जाएं; क्योंकि महाराणाको आपकी सलाहसे बहुत फ़ायदह होगा. राजा उम्मेदसिंहने हंसकर जवाब दिया, कि बेशक आपका जवाब माकूल है, लेकिन मुझको और आपको जुदी जुदी हालतमें मरनेके लिये ऐसा मौका फिर न मिलेगा. उजैनका क्षेत्र, क्षिप्राका किनारा और अपने स्वामीके लिये मुल्की लड़ाईमें माराजाना गनीमत है. सब सर्दार केसरिया लिबास करने बाद तुलसीकी मंजरी और रुद्राक्ष पगड़ियोंमें रखकर घोड़ोंपर सवार हुए और सेंधियाकी फ़ौजपर हमलह करदिया. कहते हैं, कि यह मेवाड़ी राजपूतोंकी आखिरी लड़ाई थी, जिसमें इन सर्दारोंने अपनेको भी बहादुरी और इज्जतमें अपने बुजुर्गोंके बराबर कर दिखाया. बयान है, कि तोप और बन्दूक की लड़ाई बन्द होकर बर्छा, तलवार और कटार चलानेकी नौबत पहुंची, और एक ही हमलहमें मरहटी फ़ौजको तितर बितर करदिया; लेकिन फ़तहका झन्डा मेवाड़की फ़ौजके हाथमें ईश्वरको रखना मंजूर न था, मरहटोंके भागनेसे राजपूत मग़रूर होकर शहरको लूटने लगे.

इसी अरसेमें जयपुरसे देवगढ़के रावत् जशवन्तसिंहके भेजे हुए पन्द्रह हजार नागा अतीथ (लड़ाई करने वाले जमाअती फ़कीर) जिनको उसने नौकर रखकर अपने बेटे राघवदेवके पास भेजे थे, आपहुंचे; इस आसूदह फ़ौजके मिलनेसे माधवराव सेंधिया व मेवाड़के वागी सर्दारोंको हिम्मत होगई, और उन्होंने अपनी भागी हुई फ़ौजको एकट्ठा करके, उन जमाअतियों समेत दोवारह हमलह किया. मेवाड़के लोग उजैनकी गलियोंमें लूट खसोट कर रहे थे, मरहटोंका हमलह रोकनेकी ताब न लासके; लेकिन सब मुखिया सर्दार मिलकर हमलह करने लगे; और दोनों तरफ़के हजारों आदमी मारे गये. राजा उम्मेदसिंह व रावत् पहाड़सिंह बहादुरीके साथ काम आये; जिस वक्त राजा उम्मेदसिंह जांकन्दनीकी हालतमें अपने खून और मृत्तिकासे पिंड बना रहे थे, उस वक्त एक मरहटे सवारने राजाकी छातीमें बांस मारकर कहा, कि इसने बहुत सिपाहियोंकी जान ली है. उसी वक्त मरहटी फ़ौजके एक बड़े अफ़सरने उस सवारको डांटकर

कहा, कि तेरा बाबा खड़ा था, उस वक्त बांस मारता, तो बहादुरी थी; फिर उस अफ़सरने राजासे कहा, कि तुम चित्तौड़ गढ़को अपने सिरसे बंधा बतलाते थे; अब वह कहां है? राजाने जवाब दिया, कि सिरके नीचे देकर सोता हूं; इतना कहनेके बाद उसका दम निकल गया. रावत् मानसिंह, राजा रायसिंह और राव शुभकरण ज़ख्मी होकर ज़मीनपर गिरे; रघूजी पायग्या व दौला मियां भी लड़कर मरमिटे; बाकी फ़ौज भागकर अलग होगई. फ़तह माधवराव सेंधियाको हासिल हुई. देवगढ़ रावत्के पुत्र राघवदेवने राजा उम्मेदसिंह व रावत् पहाड़सिंह वगैरहको दाग़ दिया, और रावत् मानसिंह, राव शुभकरण व राजा रायसिंह व रावत् कल्याणसिंहको, जो ज़ख्मोंसे बेहोश पड़े थे, उनकी तरफ़वाले उठाकर मरहटी फ़ौजमें लेगये, और उनका इलाज करवाया. महता अग्रचन्द व झाला जालिमसिंहको मरहटोंने कैद करलिया. महाराणाके हुकमसे रूपाहेलीके ठाकुर शिवसिंहने वावरी भेजे, वे महता अग्रचन्द और रावत् मानसिंह इन दोनोंको हिकमत अमलीके साथ निकाल लाये. बाकी रहे उनको भी कुछ अरसे बाद माधवरावने छोड़ दिया.

इस फ़ौजकी शिकस्तका हाल सुनकर महाराणाको बड़ी फ़िक्र हुई. अगर्चि महाराणा मज़बूत व बहादुर थे, लेकिन फ़ौजी ताकत घटजानेसे, उनके दिलमें घबराहट पैदा होगई. उमराव सर्दारोंमेंसे सिर्फ़ सलूवरके रावत् भीमसिंह (जिसे महाराणाने पहाड़सिंहकी जगह सलूवरका रावत् बनाया था) और बदनौरके ठाकुर अक्षयसिंहके सिवा कोईभी महाराणाकी तरफ़ नहीं रहा. महाराणाने मांडलगढ़ जाना चाहा, तब राव भीमसिंह, अर्जुनसिंह, ठाकुर अक्षयसिंह, और महाराणाके चचा बाघसिंहने कहा, कि जबतक हम लोग जिन्दह हैं, आप किसी तरहकी फ़िक्र न करें. आपको किलेका बन्दो-बस्त व सामान और सिपाहकी फ़िक्र करना चाहिये. तब महाराणाने अपने चन्द आदमी भेजकर सिंधसे मुसल्मान सिंधी और गुजरातसे अरब लोगोंको बुलवाया, और शहर पनाहके गिर्द मर्हले (छोटे किले) तय्यार कराकर शहरकोट व खाईको दुरुस्त किया. दुश्मन भंजन तोपको एकलिंगगढ़पर चढ़ानेमें बड़ी दिक्कत हुई, बड़वा अमरचन्दकी सलाहसे यह तोप किलेपर चढ़ाई गई, लेकिन सिंधी और अरबोंकी तन्ख़्वाह चढ़जाने से उन सिपाहियोंने महाराणाको दवाया; इस अन्दरूनी फ़सादसे इनको बहुत फ़िक्र हुई. एक दिन सिपाहियोंने महाराणाका दामन इस जोरसे जा पकड़ा, कि वह फ़टगया. इस गुस्ताखीसे वे बहुत जोशमें आये, लेकिन क्या करसक्ते थे; हजारों सिपाह घेरे हुए थी. रावत् भीमसिंहने कहा, कि अब बड़वा अमरचन्दको बुलाकर काम सुपुर्द करो. महाराणा उसके मकानपर गये, और कुल हकीकत कहकर उसे अपना प्रधान बनाना चाहा. अमरचन्दने जवाब दिया, कि अब्वल तो मेरा मिज़ाज सच्चा, सीधा

और तेज है, दूसरे मैंने महाराणा प्रतापसिंह और राजसिंहके जमानेमें अपने इस्तिथारसे काम किया है, और सिवाय मालिकके दूसरोंकी पर्वा न रखी; और आप किसीकी सलाह मानते नहीं, सिपाह मुखालिफ़, खज़ानह खाली और रअध्यत मुफ़्लिस, ऐसे नाजुक वक्तमें किसतरह काम किया जावे. अगर मुझको पूरा इस्तिथार दो और भरोसा रखो, तो कुछ तद्दीर हो सकती है. महाराणाने एकलिंगजीकी क़स्म खाकर कहा, कि यदि तुम हमारी महाराणियोंका भी ज़ेवर मांगोगे, तो उसी वक्त भिजवा दिया जायेगा.


यह बातें होही रही थीं, कि महाराणाके धायभाई कीकाने कहा, कि आप ज़नानह समेत भागकर पहाड़ोंमें चलिये, वहांसे मांडलगढ़में जा छिपेंगे. इसपर अमरचन्दने गुस्से होकर कहा, कि तुम तो मवेशी चराने और दूध बेचनेसे अपना पेट भर लोगे, परन्तु महाराणाके लिये मांडलगढ़में खज़ानह नहीं गढ़ा है, कि जिससे वह अपनी इज़तको बचावेंगे. रावत भीमसिंह, अर्जुनसिंह व ठाकुर अक्षयसिंहने कहा, कि जबतक हमारे घड़पर सिर है, आप कुछ फ़िक्र न करें. महाराणाने कहा, कि तुम्हारे बुजुर्गों (रावत चूंडा व जयमल्ल मेड़तिया) ने जैसी इस रियासतकी खैरख्वाही की थी, वैसाही मुझको तुम्हारा भी भरोसा है. महाराणाके चचा बाघसिंह व अर्जुनसिंहने कहा, कि जिस तरह लक्ष्मणने अपने भाई रामचन्द्रकी खिन्नत की थी, उसी तरह हम भी आपकी सेवामें मौजूद हैं. इसपर महाराणाने जवाब दिया, कि यह सब रियासत आपकी है, आप मेरे बुजुर्ग और मैं आपका फ़र्माबदार हूं. इस तरहकी बातोंसे महाराणाकी हिम्मत बढ़ गई; और उसी वक्त अमरचन्दने सिंधी सिपाहियोंसे जाकर कहा, कि ऐसे वक्तमें अपने मालिकसे इस तरह गुस्ताखी करना खैरख्वाह और अइराफ़ आदभियोंका काम नहीं है, मेरे साथ चलो, कल तुम्हारी चढ़ी हुई तन्ख्वाह दिला दूंगा. चूं कि अमरचन्दके कौलका उन लोगोंको एतिवार था, सब उसके साथ होलिये. उस नेक मिज़ाज प्रधानने सब कारखानोंके ताले तुड़वाकर सोने चांदीके बर्तन व कुल जवाहिरात अपने पास मंगवा लिये, और रातभरमें सोने चांदीके सिक्के बनवा कर और जवाहिरातको गिर्वी रखकर दूसरे ही दिन तमाम फ़ौजकी तन्ख्वाह चुका दी.

माधवराव सेंधियाने ज़रार फ़ौजसे उदयपुरको आघेरा. उस समय किसी चारणने मारवाड़ी भाषामें एक गीत कहा, जिसका महाराणाके तरफ़दार सर्दारोंके दिलपर बहुत असर हुआ; उसकी नक़्क़ नीचे लिखी जाती है:—

गीत.

जिण बेलं जनम जिको कुण जाणै दाई कशी जणाय दियो ॥
 शतवादी शापुरशां शूरां कठेफ़तूरां राज कियो ॥ १ ॥
 'कूड़ो तोत थयो गढ़ कोटां भाजगया खल सकल भणै ॥

माठी बात पंथ मत लागो ताय छल जागो निमख तणै ॥ २ ॥
 जिम कृत घणी थयो जैतावत उरजणिये दलथंभ उपाय ॥
 जिण अग जीत लिया जोधाणै नारायण शीझे हक न्याय ॥ ३ ॥
 हसन हराम हुवो हत हेवै श्रीवर सैदां कंध सँघार ॥
 रजवट लूण धरम आराधो सत संधां साधो सर्दार ॥ ४ ॥
 क्रामत तखत मल्लै तप कीधां अवतारी उपजै शिव अंश ॥
 हिन्दवा भाण राण कहवाडै बडो विरद सीसोदां वंश ॥ ५ ॥
 खाधो निमख उजेलो खत्रियां बाधो जनम मखोवो बाद ॥
 शाम धरम राखो सिरदारां ए वातां रहसी जुग याद ॥ ६ ॥
 लाखां तणां पटा मल लीधा तसलीमां कर जदी तदी ॥
 हो जो निमख हरांम न हो जो बदन तजो सो करे बदी ॥ ७ ॥
 जग पतजाम शाम सांचो जुग काचो भडां न कीजे काम ॥
 नाम फितूर कहें जिणनै नर राणां पणो न देशी राम ॥ ८ ॥
 अड पायतां अचल ऊवरसी सरसी वुध राखो सरदार ॥
 अवचल राज भुगतसी अरसी करसी असल न्याव करतार ॥ ९ ॥



प्रधान अमरचन्दने गोला, वारूद, व नाज वगैरह सब सामान एकट्ठा करके, नीचे लिखे मोर्चेपर सर्दारों व सिपाहियोंको तईनात किया :-

शहर पनाहके दक्षिणी दर्वाजे रमणापौलपर महाराज गुमानसिंह व नीवाहेड़ाका ठाकुर मेड़तिया राठौड़ हमीरसिंह और पांच सौ सिंधी सिपाही. एकलिंगगढ़से दक्षिण तारावुर्जपर खैराबादका बाबा शक्तिसिंह भारतसिंहोत. एकलिंगगढ़पर महाराज बाघसिंह महाराणा संग्रामसिंहोत, धायभाई कीका, सात सौ अरब मुसल्मान सिपाही व दुश्मन भंजन तोप. कृष्णपौल दर्वाजेके मोर्चेपर महाराजा अर्जुनसिंह महाराणा संग्रामसिंहोत, और उनके मातहत जमादार उमर मण तीन हजार सिपाहियोंके. इन्द्रगढ़के महलेमें ५०० अरब सिपाही. शहर पनाहके अग्निकोण वाले वुर्जपर दो सौ सिंधी सिपाही महाराजा अर्जुनसिंह महाराणा संग्रामसिंहोत. कमल्यापौल (१) पर सनाढ्य ब्राह्मण बड़वा अमरचन्द प्रधान

(१) इस दर्वाजेका नाम महाराणा सज्जनसिंहने उदयपौल रक्खा है.

मए पांच सौ अरब सिपाहियोंके. कृष्णगढ़के मर्हलेमें गाडरमालाका बाबा मुहब्बतसिंह और जमादार सिंधी कोली एक हजार राजपूत व सिपाहियों समेत. कमल्यापौलसे उत्तरी कोणके बुर्जपर दुश्मनभंजन तोपका मुहाफिज महुवाका बाबा सूरतसिंह रक्खा गया. सूरजपौल दर्वाजेपर कुराबड़का रावत चूडावत कृष्णावत अर्जुनसिंह केसरीसिंहोत, हमीरगढ़ वाला राणावत धीरतसिंह उम्मेदसिंहोत और कायस्थ सुन्दरनाथ जम्इयत समेत तईनात किया गया. सूरजपौलके साम्हने सूरजगढ़के मर्हलेमें रूदका ठाकुर शक्तावत जवानसिंह गोकुलदासोत पांच सौ सिंधी सिपाहियों समेत. सूरजपौलके उत्तर घणबुर्जपर भूणावासका राणावत बाबा शिवसिंह. ईशान कोणके ज्वालामुखी बुर्जपर कायस्थ शम्भुनाथ शम्भुबाण तोप सहित (यह तोप इसी अह्लकारकी निगरानीमें तय्यार हुई थी). दिल्ली दर्वाजेके मोर्चेपर सलूबरका रावत भीमसिंह चूडावत कृष्णावत, कायस्थ नाथ, नठाराका रावत विजयसिंह चूडावत कृष्णावत, सोलंखी पेमा, साह मौजीराम बौल्या महाजन और सिंधी जमादार लडाऊ मए तीन हजार सिंधी सिपाहियोंके. मर्हलह दिल्लीगढ़ अथवा सारणेश्वरगढ़में सियाड़का ठाकुर शक्तावत सूरजमल्ल अपनी जम्इयत व आठ सौ सिंधी सिपाहियों सहित. डंडपौलके मोर्चेपर बदनौरका ठाकुर मेड़तिया राठौड़ अक्षयसिंह मए अपने पुत्र ज्ञानसिंह व दो सौ राजपूतोंके. हाथीपौल दर्वाजे पर रूपाहेलीका ठाकुर शिवसिंह अपने बेटे व पोते सहित, और छोटी रूपाहेलीका ठाकुर ज्ञानसिंह; और दोनों तरफकी दीवारोंपर पांच सौ सिंधी सिपाही व मूंगाणाके ठाकुर का भाई, मेड़तिया वैरीशाल, जिसके साथ १४० सवार व चार सौ पैदल राजपूत थे, और ईटालीका मेड़तिया रामसिंह राठौड़, ये कुल तीन हजारके करीब थे. हाथीपौलके साम्हने शम्शेरगढ़के मर्हलेमें लसाणीका ठाकुर चूडावत जगावत गजसिंह अपनी जम्इयत व दो सौ सिंधियों समेत. हाथीपौल व चांदपौलके बीचकी दीवारपर दो सौ सिंधी सिपाही. अंबावगढ़के मर्हलेमें पासवान गुहिलोत जोरा मए पांच सौ सिंधी सिपाहियोंके. ब्रह्मपौल दर्वाजेपर पासवान सोलंखी गजसिंह, पांचसौ सिंधी सिपाहियों सहित. चांदपौल दर्वाजेपर सनवाड़का राणावत बाबा शम्भुसिंह मए दो सौ सिंधी सिपाहियोंके. शिताबपौल दर्वाजेकी हिफाजतपर कारोई महाराज दौलतसिंह, और बावल्यासका महाराज अनोपसिंह, नावके कारखानहके मोर्चेपर चारण पन्ना आढ़ा मए पैंतीस बन्दूकचियोंके. और महलोंसे दक्षिण जलबुर्जेके मोर्चेपर दौलतगढ़ ठाकुर चूडावत सांगावत ईशरदास तईनात किया गया था. इस तरहपर मोर्चे बन्दी कीजाने बाद महाराणाने नीचे लिखे हुए सर्दार अपने पास रक्खे :-

दरसोड़ाका चावड़ा नाथसिंह, थांवलका चहुवान नाथसिंह, बनेड्याका चहुवान चत्रसिंह, कांसेड़ीका पुंवार सर्दारसिंह, महाराणाका मामा धांगधराका भाला साहिबसिंह व उनका पुत्र सामन्तसिंह, पुरोहित नन्दराम, महता अगरचन्द, जनानी ज्योढीका दारोगह महता लक्ष्मीचन्द, साह मोतीराम बौल्या अपने पुत्र एकलिंगदास समेत, भट्ट देवेश्वर, धवा दूसरा नगराज, धायभाई रूपा, धायभाई कीका, धायभाई हट्टू, धायभाई उदयराम, धायभाई रत्ना, धवा चतुर्भुज, धवा कुशला (ये दोनों शरूख कुंवर हमीरसिंह और भीमसिंहके धवा थे.) और कायस्थ प्रताप. इनके सिवा सिंधी और अरब सिपाहियोंके, जो अपसर जमादार महाराणाके पास रहे उनके नाम नीचे दर्ज कियेजाते हैं:-

जमादार फीरोज, जमादार लड़ाऊ, जमादार खगोट, जमादार मलंग, जमादार गुल हाला, जमादार चन्दर, जमादार जादू, जमादार बदयो, जमादार शेरबेग, जमादार खगोट दूसरा, जमादार अहमद, जमादार मुराद वगैरह.

अगरचिं अमरचन्द प्रधानने बहुतसा ग़ुल्ला एकट्टा किया था, लेकिन हज़ारहा आदमी लड़नेवाले राजपूत सिपाहियों, व शहरकी रिआया वगैरहके लिये वह काफी न होसका. रसदकी यहांतक कमी हुई, कि कभी कभी फ़ाक़ह कशीकी नौबत पहुंचती थी, परन्तु बाघसिंहसे इस मौकेपर लोगोंको बड़ी मदद मिली. वह दिनमें एक ही वक्त खाना खाते थे, और उस वक्त नकारह बजाया जाता था, जिसकी आवाज़ सुनकर जो लोग आते, उन्हें खाना खिला देते. इस बातसे बाघसिंहकी बड़ी नामवरी हुई; और दुश्मन भंजन तोप, जो उसके कब्ज़हमें थी, उसके सबब शहर पनाहके दक्षिण तरफ़ ग़नीम लोग करीब नहीं आसके थे. मरहटोंने पचास ५०००० हज़ार रुपया भेजकर बाघसिंहको कहलाया, कि आप अपनी तोपको बन्द करें, हमारी फ़ौज कृष्णपौलसे हमलह करेगी. बाघसिंहने धोखा देकर रुपया ले लिया, और पश्चिमी पहाड़ोंकी तरफ़से ग़ुल्ला मंगाकर अपना काम चलाया. मगर जब शर्तके मुवाफ़िक़ माधवरावकी फ़ौज कृष्णपौलकी तरफ़ बढी, तो पहाड़के निकट आनेपर उसने उनपर अपनी तोपका ऐसा वार किया; कि जिससे ग़नीमको बहुतसा नुक़सान उठानेके बाद महाराज बाघसिंहकी दगावाज़ी समझकर पीछा हटना पड़ा.

छः महीने तक आपसमें लड़ाई होतीरही; आखिरकार रावत भीमसिंह व अर्जुनसिंहने माधवरावको कहलाया, कि आप वे फ़ायदह लड़ते हैं, अगर रत्नसिंहको राणा बनाकर मल्लव निकालना हो, तो उनसे रुपया तलब कीजिये, वरनह हम देनेको तय्यार हैं. माधवरावने देवगढ़के रावत जशवन्तसिंहके पुत्र राघवदेवसे रुपया तलब किया, तो उसने

कहा, कि अभी तो हमारे पास नहीं है, उदयपुरमें कब्ज़ह होने बाद बन्दोबस्त करेंगे.


इसपर सेंधियाने गुस्से होकर कहा, कि हमारी फौजको तन्ख्वाह कहांसे दीजाये? यह सुनकर राघवदेव डरा, कि कहीं यह मुझे गिरिफ्तार करके महाराणा अरिसिंहके सुपर्द न करदे, और भागकर देवगढ़ चलागया. उस वक्त महाराणाकी तरफसे रावत् अर्जुनसिंह सुलहका पैगाम लेकर माधवरावके पास भेजा गया, और सत्तर ७०००००० लाख रुपया देनेपर उसे राजी किया. लेकिन माधवरावने शहरमें गल्लेकी कमी होनेके सबब भीतरकी फौजको घबराई हुई सुनकर सोचा, कि अगर इस हालतमें शहरकी लूट कीजायेगी, तो जियादह फायदह होगा. उसने अमरचन्द प्रधानको कहलाया, कि बीस लाख रुपया जियादह देनेपर सुलह काइम रह सकती है. अमरचन्दने गुस्सेमें आकर अह्दनामह फाड़ डाला, और सर्कारी कोठार व अह्लकारोंके घरोंमेंसे, जो नाज था, निकलवाकर बाजारमें और सिपाहियोंके पास भिजवा दिया; और कुल राजपूत व सिपाहियोंको बुलाकर उनकी तसल्ली की. मिर्जा आदिलवेग वगैरह सिंधी सिपाहियोंने महाराणाके पास जाकर कसम खाई, और अर्ज की, कि अब हम लोग आपसे तन्ख्वाह न लेंगे; उदयपुर हमारा वतन है, जब तक गल्ला मिलेगा, उसे खाकर लड़ेंगे, बाद उसके चौपायोंपर गुजर करके दुश्मनको अपने हाथ दिखलावेंगे, और अखीरमें दुश्मनकी फौजपर बहादुरीसे हमलह करके मरेंगे. इसी तरह राजपूत भी जवांमर्दी दिखलाकर महाराणाको तसल्ली देते थे. उन लोगोंके मुहब्बत आमेज कलाम सुनकर महाराणाकी आंखोंसे आंसू टपकने लगे; और राजपूत व सिपाहियोंने एक मत होकर मरहटी फौजपर फिर गोलन्दाजी शुरू की.

इन बातोंकी खबर माधवरावको मिली, उसने कुछ अरसे बाद अपनी तरफसे सुलहका पैगाम भेजा. जिसपर अमरचन्दने कहलाया, कि हमको गल्ला व मेगजिन (गोला बारूद) में, जो जियादह खर्च हुआ, वह कम करनेपर सुलह होसकी है. लाचार सेंधियाको साठ लाख रुपया लेकर सुलह करनी पड़ी. और साढ़े तीन लाख रुपया दफ्तर खर्च यानी अह्लकारोंकी रिश्वतके ठहरे, तब रुपया देनेकी शर्तें पूरी करनेका विचार हुआ. पच्चीस लाख रुपयमें सोना, चांदी, जवाहिरात व नकद, और आठ लाख जागीरदारोंसे वुसूल करके दिया गया. बाकी रुपयोंके एवजमें जावद, नीमच, जीरण और मोरवण वगैरह पर्गने गिर्वा रक्खे गये, और यह शर्त की गई, कि महाराणाके अह्लकारोंकी शामिलतसे उक्त पर्गनोंकी आमदनी साल दर साल जमा होती रहेगी; और रुपया अदा होजानेके बाद उनकी आमदनी राज्य मेवाड़के शामिल कीजावेगी. कर्नेल टॉड लिखते हैं, कि “इस तरह विक्रमी १८२६ [हि० ११८३ = ई० १७६९] में उदयपुरका मुहासरह खत्म हुआ, और ये उम्दह जिले मेवाड़ की रियासतसे निकल गये; लेकिन तुमको यह याद होगा, कि ये जिले सिर्फ गिर्वा

रखे गये थे. अगर्चि मुल्ककी तवाही और सलतनतकी तनज़ुलीके सबब गिर्वीसे छूटना मुम्किन न हुआ, लेकिन ताहम दावा उनपर बना रहा. अह्दनामह ईसवी १८१७ [हि० १२३२ = वि० १८७४] में राणाके एल्चियोंने उन जिलोंकी बहाली भी शर्तोंमें दाखिल करानी चाही, क्योंकि सर्कार इंग्लिशियह उसवक्त उस मुल्कके गुज़रतह हालातसे बिल्कुल वाकिफ़ न थी, और सेंधियासे अंग्रेजी सर्कारको मुहब्बत थी; इसलिये सर्कार इंग्लिशियहने उस शर्तको मंजूर न किया, लेकिन जबकि सर्कार इंग्लिशियह व सेंधियामें दुश्मनी होगई, और उन जिलोंके बचानेका मौका हासिल हुआ, उस वक्त व सबब मस्लिहत, जिसका समझना मुश्किल है, वह हाथसे जाता रहा. उस मस्लिहतके बाबमें, जो उन जिलोंके लिये नुकसानका बाइस हुई, तवारीख हिन्दके मुवरिखोंने नुकह चीनी की है. सर्कार इंग्लिशियह खुद इस बातको सोचे, कि उनको पचास साल तक रिहनसे न छुड़ाना, व शम्शेरके जोरसे हासिल न करना, क्या उनके दावेको झूठा करता है ? गरज कि इस बातके सुबूतमें बहुतसी सनदें मौजूद हैं, और कोटा वाले जालिमसिंह व लालाजी बलाल (पंडित) जो अब मरे हैं, दोनोंकी जबानी यह तस्दीकके दरजेको पहुंची है. किसी न किसी दिन जब सर्कार इंग्लिशियह उन जिलोंको मेवाड़में दोवारह शामिल करना मुनासिब समझेगी, वह शहादतें काम आवेंगी. ”

इन पर्गनोंके गिर्वी रखनेके बाद एक अह्दनामह माधवराव सेंधिया और महाराणाके दर्मियान हुआ, जिसकी नक़ नीचे लिखी जाती है :-

अह्दनामहकी नकल.



सिंधिं श्री महाराणां श्री अरिसिघजी सूश्वस्थान उदैपुकी मामलत ठाहरी, सरकार सुवैदार श्री माघजी सीधें तीनु सरदाराकी मांमलतको करार तीकी कलम.

१- रतनसिंघजी मंदसौर रहै, त्यांनै जागीर रु ७५००० पीचत्र हजारकी देणी, राज पाछे राजको वारस कदाच मंदसौ न रहे नीकलजाय, तौ उणीको पण्य न होसी पटो न पावसी. राजको वारस नही, मंदसौर रहै, तो रावत भीमसीघजीको भाई बेटो उणां तीरे रेहे, और सरदार न रहै.

१- मेवाड मांहै जवतीका थाणां होय. जांकी उठत्री सरकार सू देणी

१- वाबल्या तथा वाबल्याकी फोज मेवाडमै रहसी नही.

१- पटायत सलूक सु रहेसी, ज्यांकी मेर मरजाद आगां सु चाली आइ ती

माफक राषणी पटो बहाल राषणो दगो फटको न करणौ, कदाच परा जाय तो पटो षालसै करनो; सरकार सु उणां को पष्य न होसी, अर सरदार सलुक सु रहैसी. पंचा प्रमाणै बीराड देसी.

- १- वेगुकी मामलतका शोक रुप्या आवसी सो हाल पचीस लाषका करामै मुजरा पडसी.
- १- दोय हजार फोज राज नषै रहसी, ज्यानै षरची मास ३ री संनद माफक दे अर कबज ल्यागा ती प्रमाणै मांमलतमै मुजरा पडसी. मास ३ उपरात राज फौज राषोगा, ज्याकी षरची राज दोगा, मांमलतमे मुजरा नही
- १- मामलतको करार ठाहरयो, ती परमाणो रुपेयांको फडछो कियां हजुरकी कुमक कीइ जासी
- १- हजुरको वकील सरकारमे रहसी, तीकीमैर मरजाद सदामद प्रमाणे चलावणी.
- १- रतनस्यंघजीकी त्रफ सरदार है ज्यानै पटा सीवाय गाम तथा नवैसीर भोम कीवी होसी, सो छूडाय देणी.
- १- मैवाडका देसमै जवती सरकारकी तथा वाबल्यांरी तथा सदासिव गंगांधर तथा बैहरजी ताकपीररी हुडी, तीको वसुल सांवण बदि ३ मोरचा उख्या पाछे आयो होय सौ रजु मुकाबलासु ठाहरै, सो मांमलतमे भरे लेणो. राघोरामनै कुमक वास्तै ल्याया जानै रुप्या जवाहर तथा सोनो रुपो गेहणो वगेरेह दीयो, सौ हाल मांमलत ठाहरी, तीमे तथा बाकीमे तथा पटामै मुजरा न पडसी
- १- कुमलमेरका कीलासु रुपौ सौनौ जवाहर जीनस गेहणो रुप्या सरकारमै तथा वाबल्याकै वा सदासिव गंगांधर वा बैहरजी ताकपीर ईनकी त्रफ मारफत साह वसंतपाल तथा मेघराज तथा श्रीपतीके आयौ होय, सो हाल मांमलत ठाहरी तीमै तथा बाकीमै तथा पटामै मुजरा नही.
- १- जौ रुप्या सरकारमे आया, तीकी पोहच श्री मंतकी मौहर सू तीनु सरदाराकी हिसा रसीद होसी.
- १- जोगी वगेरहै मेवाडरा देसमै रहै, फीतूर करै ज्यानै सरकाररी ताकीद करै काढै देणां.

जुमले कलम तेरह करार परमाणै ऐवजको ठेराव मांमलतको हुवौ सौ करारको लिखतं जुदौ छै ती परमाणै रुप्याको फडछो करांगा, हाल देवाको हापतौ वा कीसत बंदी परमाणै रुप्याको फडछौ हजुर सु हुवां सरकार सु करार माफक निभावणौ

विक्रमी १८२६ श्रावण कृष्ण ३ [हि० ११८३ ता० १७ रबीउलअव्वल = ई० १७६९ ता० २१ जुलाई] को माधवराव सेंधियाने अपनी फौजके मोर्चे उठालिये, और मालवेकी तरफ रवानह हुआ. महाराणा प्रधान अमरचन्द और रावत् भीमसिंह व अर्जुनसिंहसे बहुत खुश हुए. और इन्आम इक्राम जागीर वगैरह देकर सबकी इज्जत बढ़ाई. सिन्धी सिपाहियोंके अप्सर मिर्जा आदिल-बेगको जागीर वगैरह इज्जत देकर बढ़ाया. इनके एक पर्वानेकी नकल जो कर्नेल टॉडने अपनी किताबमें लिखी है, उसको हम भी यहां दर्ज करते हैं :-

श्री रामोजयति.

श्री गणेश प्रसादातु.

श्री एकलिंग प्रसादातु.

सही

॥ स्वस्ति श्री उदैपुर सुथाने मेहाराजा धिराज महाराणा श्री अरसिंहजी आदेशातु मीरजा अबदुल रहीमबेग आदलबेगोत कस्य

(खास दरस्तखत) प्रवाना में लिखी सु सरव बातें सावत, मारा पणरो वेगा तो प्रवानाने खोपेगा
ना; ये साव धरमासु चाकरी करोगा हीज.

१ अप्र मेवाड़रा दोय सीरदारा रतनसीघ नाम देने फीतुर करे वषेडो कीदो, दीषण्यारी फोज आणे ऊदेपुर मोरछा लगाया, जणीमहे थे आछी रीतसु चाकरी पुगा, ने राज राष्यो, जणीं बाबत मेहरवान व्हेने डीत्रो करे दीधो, सो थाहरा बेटा पोतां सुदी पाया जावोगा, ने दरबाररी बंदगी करोगा, नें म्हारा पणरो व्हेने कसर पाडेगा, जणीं हे श्री एकलिंगजीरी आण हे, चीतोड मारचारों पाप है वीगत

। पटो रुपया २००००० दोय लाषरो, ने रुपया २५००० पचीस हजार रोक साल दरसाल, पटा महे रुपया १०००० दस हजाररी जायगा देवारी बारे बाकी कांठे.

। हवेली बाबा भारतसीघरी रेवाहे.

। बाडी वीगा १० दस

। गाम १ गीरवारो गाम मटुण.

। अजमेरीवेग राड महे काम आयो, जणीरी कवर नषे धरती वीगा १०० सराय वाडी सारु.

। बेठक मेर मरजाद सादडी प्रमाणे करे दीधी, ने नगरारो दुवो वडी पोल ताई एक डंको

विगत

। अमर बलेणो.

पान दूजी मोताद सारी.

। दसरावारो सीरपाव

सुतरी गाम आहेड सुदी.

। दुजी मेर मरजाद सलुवर प्रमाणे करे दीधी, ने पीड्या दरपीड्या सलुवररा घर ज्यु करे राष्या, सो पटा प्रमाणे जभीतथी बंदगी करोगा.

। भांजगड मेवाडरी तथा दीषण्यारी सारी रावतभीमसीघनेथे भेला व्हे करोगा.

। थांहरो भाई तथा चाकर कोई छांडेने दरबार आवे, तो चाकर राषणो नही, तथा सीरदार भाई बेटा राषे नही.

। चमरी, करण्यो, हजुर री असवारी वीगर एकला व्हेगा, जठे राषवारो हुकम सो राषेगा.

। मनवरवेग, अनवरवेग, चमनवेगरे सामी बेठकरो हुकम, वलेणा घोडा

। सीरपाव, दसरावारो दुवो, ओर भाई बेटा दोय च्याररी बेठकरो हुकम, सो बेठवा सरीषो व्हेगो, सो बेठेगो.

। ऊकील सदामद रहे, जणीरी मेर मरजाद राषणी.

प्रवानगी साह मोतीराम बोलया — संवत १८२६ वर्षे भादवा सुदी ११ सोमे —
(मीरजा अबदुलरहीमवेग आदलबेगोत कस्य) (१).

ये सिंधी जमादार बड़े बहादुर सिपाही थे, अगर ये लोग महाराणाके फर्मा-बर्दार रहकर तन्स्वाह देरसे मिलनेकी तकलीफ़को गवारा करते, तो जरूर इन लोगोंका बड़ा गिरोह मेवाड़के सर्दारोंके मुवाफ़िक़ बड़ी बड़ी जागीरोंपर काबिज़ होजाता, लेकिन इन्होंने कम अक्कीसे चन्द रोज़के बादही तन्स्वाहके लिये महाराणाको उस हालतमें तंग किया, जिसवक्त़ कि रियासती ख़ज़ानह ख़ाली था. जब विक्रमी १८२६ आश्विन कृष्ण ९ [हि० ११८३ ता० २३ जमादियुल्अव्वल = ई० १७६९ ता० २४ सेप्टेम्बर] को उक्त महाराणाकी शादी कृष्णगढ़के राजा बहादुरसिंहकी बेटीसे हुई, तो उन्होंने कृष्णगढ़से वापस आते वक्त़ बहादुरसिंहसे कुछ रुपया बतौर मदद लिया, और उदयपुरमें आकर इन लोगोंकी चढ़ी हुई तन्स्वाह चुका दी. इसी अरसहमें देवगढ़के रावत् जशवन्तसिंहका बेटा राघवदेव और भींडर महाराज मुहकमसिंह वगैरह मुख़ालिफ़ सर्दार महापुरुष याने लड़ाई करने वाले गुसाईं फ़कीरोंको एकट्ठा करके मेवाड़को लूटनेके लिये रवानह हुए; और महाराणा अरिसिंहके तरफ़दार सर्दारोंको धमकियां देना व ख़ालिसहके गांवोंको लूटना शुरू किया. विक्रमी १८२६ माघ [हि० ११८३ शव्वाल = ई० १७७० जैन्वुअरी] में महाराणा यह ख़बर मिलते ही सलूवरके रावत् भीमसिंह, और कुराबड़के रावत् अर्जुनसिंह वगैरहको उदयपुरकी हिफ़ाज़तके लिये छोड़कर खुद मए फ़ौज दुश्मनके मुकाबलेको रवानह हुए, और देलवाड़े होकर जीलोला गांवमें पहुंचे. मोकरूदाके पास मुख़ालिफ़ फ़ौज भी लड़ाई को तय्यार थी, टोपलां गांवमें टोपल मगरीके पास मुकाबलह हुआ.

“ भीमविलास ” में महाराणा भीमसिंहके वयानके मुताबिक़ चारण कृष्णा आढ़ा लिखता है, कि मुख़ालिफ़ फ़ौजमें पन्द्रहहज़ार जोगियोंके सिवा राजपूतोंकी फ़ौजके तीन गिरोह बनाये गये, एकमें साह मेघराज देपुरा, दूसरेमें देवगढ़ रावत्का बेटा राघवदेव और तीसरेमें महाराज मुहकमसिंह थे. महाराणाने भी अपनी फ़ौज नीचे लिखे मुवाफ़िक़ तय्यार की :—

हरावलमें महता अग़रचन्दके साथ मांडलगढ़ और जहाज़पुर ज़िलेके जागीरदार भोमिया मीणा वगैरह सोलह सौ आदमियोंमेंसे पांच सौ सवार और ग्यारह सौ पैदल थे. बीचमें खुद महाराणा घोड़ेपर सवार, जिनके पास नीचे लिखे हुए सर्दार व अह्लकार, पासवान वगैरह मए अपनी अपनी जम्इयतोंके मौजूद थे :—

(१) इस ब्रेकेटके अन्दरकी पंक्ति अस्ल पर्वानेमें सरनामहपर है.

बीजोलियाका राव पुंवार शुभकरण, आमेटका रावत् चूंडावत जगावत प्रतापसिंह, कोठारियाका रावत् चहुवान फ़तहसिंह, घाणेरवाका ठाकुर राठौड़ मेड़तिया वीरमदेव, चाणोदका राठौड़ मेड़तिया विशनसिंह, नाडोलाईका राठौड़ मेड़तिया सूरजमल्ल, खोड़का राठौड़ मेड़तिया शेरसिंह, बसीका राठौड़ कूपावत चतरसिंह, रूपाहेलीका राठौड़ मेड़तिया शिवसिंह, बदनौरके ठाकुर अक्षयसिंहका छोटा बेटा ज्ञानसिंह, महाराणाके काका अर्जुनसिंह, और काका गुमानसिंह, सनवाड़का बाबा राणावत शंभुसिंह, खैराबादका बाबा शक्तिसिंह भारतसिंहोत, महुवाका बाबा सूरतसिंह, हमीरगढ़का राणावत रावत् धीरतसिंह, वनेड़ियाका चहुवान चत्रसिंह, थांवालाका चहुवान नाथसिंह, गाडरमालाका बाबा पूरावत मुहकमसिंह, दौलतगढ़का चूंडावत सांगावत ईशरदास, लसाणीका चूंडावत जगावत गजसिंह, जीलोलाका चूंडावत जगावत नाथसिंह, कोशीथल का चूंडावत जगावत उम्मेदसिंह, पीथावासका चूंडावत जगावत तरुतसिंह, रूदका शक्तावत जवानसिंह गोकुलदासोत, सियाड़का शक्तावत सूरजमल्ल, चारण पन्ना आढा, धवानगराज, धायभाई कीका, प्रधान बड़वा अमरचन्द सनाढ्य और प्रधान कायस्थ जशवन्तराय वगैरह. महाराणाके दाहिनी तरफ़के गिरोहमें जमादार कासिमखां अरब, व जमादार आरब अमर मए पांच हजार अरब सिपाहियोंके था. महाराणाके बाईं तरफ़ उनके काका बाघसिंह, जमादार मलंग, जमादार लड़ाऊ, जमादार अब्दुर्रज़ाक़, जमादार गुलहाला, और जमादार कोली वगैरह अफ़सर ८००० सवारों समेत थे.

पेशतर तरफ़ैनसे तोप, बन्दूक जुज़रवा (शूतरनाल) बाण वगैरहकी लड़ाई शुरू हुई; थोड़ी देरके बाद महाराणाने बर्छा हाथमें लिया और “ जय एकलिङ्ग ” कहकर अपने चेटक नामी घोड़ेको आगे बढ़ाया. यह देखकर महाराज बाघसिंह और उनके हमराही सिंधी जमादारोंने अपने अपने घोड़ोंको एक दम मुखालिफ़ की फ़ौजपर जाडाला, और इसी तरह हरावलके बाईं तरफ़ वाले गिरोहने भी एक दम हमलह करदिया. गरज़ कि चार घड़ी तक बर्छा, तलवार और कटारियोंसे लड़ाई होती रही, आखिरकार दुश्मन भाग निकले, और उनमेंसे बहुतसे लोग, जो वारमें आये मारे गये. वागी सदर्दारोंने भागकर अपने अपने ठिकानोंमें पनाह ली. महाराणा फ़तहयाबीके साथ उदयपुर आये. इस लड़ाईसे रत्नसिंहकी बिल्कुल ताकत कम होगई, और एक सालतक कुछ जुर्घत न हुई, लेकिन महता सूरतसिंह, साह कुबेरचन्द अमरदार, और खुशहाल देपुरा वगैरहने बेदलाके राव रामचन्दकी मिलावटसे दस हजार

जोगियोंको फिर एकट्ठा करके गंगार गांवमें जमाव किया, और चारों तरफ़ मुल्क लूटने लगे.

इस फ़ौजमें देवगढ़का राघवदेव व महाराज मुहम्मसिंह दोनों शरीक नहीं थे. यह खबर सुनकर महाराणा अरिसिंहने विक्रमी १८२८ (१) वैशाख [हि० ११८५ सुहर्षम = ई० १७७१ एप्रिल] में रावत् भीमसिंहको उदयपुरकी हिफ़ाजत पर रखकर काका बाघसिंहको गोड़वाड़के सर्दारोंकी जमइयत समेत गोड़वाड़की तरफ़ भेजा, क्योंकि कुम्भलमेरसे रत्नसिंह उस ज़िलेपर कब्ज़ह करना चाहता था, और आप अपनी फ़ौज सहित खानह होकर गंगारसे डेढ़ कोसपर जा जमे. मुखालिफ़ महापुरुषोंने लड़ाईकी तय्यारी की. उनकी फ़ौजमें जो बारह अफ़सर याने महन्त थे, सब बाण, बन्दूक, जुज़रवा, व चक्र वगैरह हथियारोंसे दुरुस्त होगये. महाराणाने भी अपनी फ़ौजको आरास्तह करके नीचे लिखी तर्तीबके मुवाफ़िक़ जमाया :- दाहिनी तरफ़ जमादार अरब, जमादार सिंधी कोली, और जमादार कासिमखां, मण चार हजार सिपाहियोंके. बाई तरफ़ जमादार फ़ीरोज़, जमादार मलंग, अब्दुरज़ाक़, जमादार लडाऊ, और जमादार गुलहाला, सात हजार सवारों समेत. और बीचमें खुद महाराणा और उनके साथ कुरावड़का रावत् चूडावत कृष्णावत अर्जुनसिंह, कोठारियाका रावत् चहुवान फ़तहसिंह, बीभोलियाका पुंवार राव शुभकरण, बदनौरके ठाकुर अखेसिंहका बेटा गजसिंह, काका महाराज अर्जुनसिंह महाराणा संग्रामसिंहोत, रूपाहेलीका मेड़तिया राठौड़ शिवसिंह, नीवाहेड़ाका मेड़तिया राठौड़ हरिसिंह, दिवालाका मेड़तिया राठौड़ ईसरोद जालिमसिंह, ईटालीका मेड़तिया राठौड़ रामदास, बराणीका मेड़तिया राठौड़ वैरीशाल, बाजोली ज़िले मारवाड़का मेड़तिया राठौड़ अखेसिंह, खैराबादका राणावत बाबा शक्तिसिंह, हमीरगढ़का राणावत रावत् धीरतसिंह, महुवाका राणावत बाबा सूरतसिंह, सनवाड़का राणावत बाबा शंभुसिंह, लसाणीका चूडावत जगावत गजसिंह, दौलतगढ़का चूडावत सांगावत ईशरदास, बनेड़ियाका चहुवान चत्रसाल, थांवलका चहुवान नाथसिंह, रूद का शक्तावत जवानसिंह गोकुलदासोत, धवा नगराज, धायभाई कीका, धायभाई जोधा, महता अगरचन्द मण पांच सौ सवार व खैराड़के एक हजार पैदलोंके, चारण पन्ना आढ़ा, और जमादार कासिमखां वगैरह थे.

सूरज निकलनेसे पहिले काका महाराज अर्जुनसिंहने कहा, कि हम लोग मुखालिफ़ों को साम्हने खड़ा देख रहे हैं, लड़ाईका हुकम देना चाहिये. महाराणाने रावत्

(१) भीमविलासमें श्रावणादि संवत् १८२७ लिखा है, जो चैत्रादि हिसाबसे १८२८ हुआ.

अर्जुनसिंहको कहलाया, कि घोड़ा उठावे, क्योंकि हरावलमें लड़ना उसका दस्तूर था. चोवदारने जाकर उससे कहा. उसने जवाब दिया, कि थोड़ेसे सर्दारोंको अफीम देनी बाकी है, सो देकर चढ़ते हैं; लेकिन उसके राजपूतोंमेंसे एकने यह ताना मारा, कि हमारे मालिकोंसे महाराणा जल्दी करते हैं, आप घोड़ा क्यों नहीं उठाते; मेवाड़का राज्य उनको करना है. चोवदारने ज्योंका त्यों जा कहा, तब महाराणाने बर्छा हाथमें लेकर घोड़ा बढाया. रावत् अर्जुनसिंहने अफीम हाथमेंसे डालकर ऐसी फुर्ती की, कि अपने दस्तूरके मुवाफ़िक सबसे आगे पहुंचकर मुखालिफ़ोंपर एकदम जा गिरा. कुछ देरतक मुकाबलह होता रहा, जोगियोंके भी खूब हथियार चले; लेकिन राजपूतोंने उनको ग़रत करदिया; बहुतसे मारेगये, और जो बाकी रहे, भाग निकले. उस वक्तका मारवाड़ी ज़बानमें यह दोहा मशहूर है:-

दोहा.

अड़सी सू अड़िया जिके पड़िया करै पुकार ॥

महापुरुषांकी मूंडकी गलगी गांव गंगार ॥ १ ॥

बहुतसे जोगियोंने गंगारके क़िलेमें पनाह ली, तब महाराणाकी फ़ौजने क़िलेपर गोलन्दाजी शुरू की. भीमविलासमें लिखा है, कि राव रामचन्दका बेटा देवसिंह एक जतीसे विजय होम करा रहा था, तोपके गोलेसे उस जतीका सर उड़गया, तब घबराकर देवसिंह महाराणाके पैरोंपर आ गिरा, और साह कुबेरचन्द देपुरा क़िलेमें पेशक़ब्ज़ खाकर मरा. अमरचन्द देपुरा वगैरह दूसरे लोग गिरिफ़्तार होकर आये, उनमेंसे अमरचन्दको महता अमरचन्दके सुपुर्द करके मांडलगढ़के क़िलेमें भेज दिया, जो वहीं कैदमें मरगया; और बाकी जोगियोंके सरगिरोह महन्तोंको छोड़दिया. उन लोगोंने कसम खाई, कि हम आइन्दह कभी हुजूरके बख़िलाफ़ कोई कार्रवाई न करेंगे. इस लड़ाईमें महाराणाके काका महाराज अर्जुनसिंहके बदनमें तलवारके पन्द्रह जख़म लगे थे. फ़तहके बाद महाराणा उदयपुर आये.

महाराणाने महता सूरतसिंहपर, जो रत्नसिंहकी तरफ़से चित्तौड़का क़िलेदार मुक़र्रर किया गया था, रावत् भीमसिंहको फ़ौज देकर भेजा. यह ख़बर सुनकर सूरतसिंह निकल भागा, और उक्त रावत्ने क़िलेपर क़ब्ज़ह कर लिया. इसी अरसहमें काका बाघसिंह भी गोड़वाड़में महाराणाका क़ब्ज़ह जमाकर वापस आया, और महाराणासे अर्ज की, कि वहां हमेशह फ़ौज रखनेसे क़ब्ज़ह काइम रह सकता है, अगर फ़ौजी इन्तिज़ाम न किया जावेगा, तो रत्नसिंहकी तरफ़से हमेशह लूटमार होती रहेगी; और वह पर्गनह उसके क़ब्ज़हमें जानेसे

उसको किसी क़द्र ताक़त हो जायेगी. इसपर महाराणाने जोधपुरके राजा विजयसिंहको लिख भेजा, कि तुम अपनी तीन हज़ार फ़ौज नाथद्वारेमें रक्खो, और उसकी तन्ख़्वाहके लिये गोडवाडका पर्गनह अपने क़ब्ज़हमें करलो; इस बारेके चन्द कागज़ात, जो हमको मिले हैं, उनमेंसे एककी नक़ल नीचे दर्ज कीजाती है:-

—*—

कागज़की नक़ल.

—○—

॥ सीधश्री उदेपुर सुभसुथाने सरव ओपमा लायक ठाकुरा श्री जसोतराजजी जोग, जोधपुरथी मुथा सरीचंद ली० जुहार वाचसी; अठारा स्माचार भला हे, आपरा सदा भला चाहीजे, मा ऊपर परम सुल करावे अप्रच ॥ अठे गोडवाड तावे रावत उरजण-सीगनु कागद आव्यो जणम्हे इसो जुबाव लीप्या आयो, गोडवाडरा सरदार तो श्री दीवाणजीम्हे रेहेसी, न पालसो व्हेसी सो महाराजनु दीवीजेगो, अे जुबाव लीप्यो आओ, जद ऊ कागद म्हाराजनुं मालुम कीनो, तीण ऊपरे म्हाराज ओ हुकम कीनो, ठीक हे, सीरदार श्री दीवाणजी राषे, तो भलाइ राषो; अर पालसो आपां नु देवे तो ठीक; पिण ऊतरी जमीअत तो न्ही रे, अर असवार २०० दोअेसे अर पालो ५०० पाचसे श्री दीवाणजी बदगीम्हे हाजर रैसी, ऊपर फोजवदी होसी जण दीन असवार जमीअत हजार ३००० तीन आण सामल होसी. इण मुजव जमीअेत रेसी, ओ हुकम कीनो छे. (१)

जिके नीसर जासी, अर उदेपुरका भाज-गड वारे तरे तरेका वेम ऊठे, सो अठे तो वेम सरीको कीई हे न्ही; उठाका कामवाला वेम राषे सो थु साव (साफ़) लीषदीजे, सो कण वातनु वेम राषे न्ही, जेते श्री दीवाणजी आपरी जमीअत राषसी जेते तो गोडवाडरा पर (ग) णा म्हे अमल आपणो रेसी; जण दीन श्री दीवाणजी आपरी जमीअतनु सीप देवे, नराषे, जण दीण गोडवाडरा प (र) गणामे पाछो अमल श्री दीवाणजीनु करावे, सो जाणसी. वेम तो घडी घडीनु ऊठावणो न्ही, ने जुबाव ठेरावे पाछो लीषसी, सो अठथी बगसी रामकरणनु मेला. बगसी रामकरणनु तो महाराज कदेकाई मेलीओवे तो, पीण फेर रावतजीरा कागद इण मुजव लीषो आओ


(१) इस जगहसे कागज़ फटजानेके सबब कुछ हुरूफ़ जाते रहे हैं.

जीणसु जेज हुई हे, सो पाछो जाब बेगोल (ष) सी, जेज नही करसी. सं। १८२७ पोस
सुद १३.

जबतक कि रत्नसिंह कुम्भलमेरके किलेसे न निकला, महाराजाने इस बातको गनीमत जानकर नाथद्वारे (१) फौज भेजदी, और गोड़वाड़ अपने कब्ज़हमें कर-
लिया; लेकिन रत्नसिंह को कुम्भलमेरसे निकालनेमें हीला हवाला होता रहा. इसपर
महाराणाने पर्गनह गोड़वाड़ छोड़ देनेके लिये महाराजाको लिखा, परन्तु इसकी बाबत भी
वहांसे टाला टूलीका जवाब आया. विक्रमी १८२८ माघ [हि० ११८५ जिल्काद = ई०
१७७२ फेब्रुअरी] में जोधपुरके महाराजा विजयसिंह, बीकानेरके महाराजा गजसिंह और
कृष्णगढ़के महाराजा बहादुरसिंह, तीनों नाथद्वारे आये; और विक्रमी चैत्र कृष्ण १३
[हि० ता० २७ जिल्हिज = ई० ता० १ एप्रिल] को महाराणा भी वहां पहुंचे.
पेशवाई वगैरह रस्में दस्तूरके मुवाफिक अदा हुई, और आपसमें दोस्तानह बर्ताव रहा.
महाराजा गजसिंहने गोड़वाड़ वगैरह पर्गनह छोड़ देनेके बारेमें महाराजा विजयसिंहको
बहुत कुछ समझाया, मगर उनके दिलपर गजसिंहके समझानेका कुछ भी असर न
हुआ, सिर्फ ऊपरी दिलसे इक्रार करते रहे. तब गजसिंहने विजयसिंहको उनके
गुरुके हुक्मका पाबन्द होनेके सबब सबको मन्दिरमें एकठा करके गुसाईकी ज़बानी
कहलाया. चूंकि वह गुसाईका कहा मानता था, लाचारीसे उसके कहनेपर अमल
करनेका इक्रार किया; और अपने साथी सदांरोंसे कहा, कि गुरुकी आज्ञासे अब
गोड़वाड़ छोड़नी पड़ी. मगर आउवा और खींवरके ठाकुरोंने बीकानेरके महाराजासे
कहा, कि विजयसिंह हमारे सिरोंका मालिक है, मुल्कका सुरूतार नहीं है; यह
पर्गनह हम हर्गिज न छोड़ेंगे. इसपर महाराणा अरिसिंहने गुस्से होकर कहा, कि
कुछ मुजायकह नहीं; यह पर्गनह तुम्हारे पास किसी तरह नहीं रह सक्ता; बल्कि
पाली और सोजत दोनों ब्याजमें लिये जायेंगे. महाराजा गजसिंहने तक्रार बढ़ती
देखकर दोनों सदांरोंको धमकाया, और मीठी बातोंसे महाराणाका गुस्सह दूर
किया; लेकिन इस मुलाकातका कुछ नेक नतीजह न निकला. महाराणा वहांसे रवानह
होकर उदयपुरमें आये, और दूसरे राजा अपनी अपनी रियासतोंको सिधारे. इस


(१) नाथद्वारेमें लालबागके करीब, जहां मारवाड़की फौज रहती थी, वह जगह अबतक फौजके
नामसे मशहूर है, और उस फौजका मुसाहिव, जो एक सिंधी महाजन था, उसकी औलाद अबतक
नाथद्वारेमें मौजूद है.

बारेमें महाराणा भीमसिंह व जवानसिंहके नाम भी कई तहरीरें हुईं, जिनकी नकलें इसी जगह दर्ज कीजाती हैं:-




॥ श्रीरामजी १

॥ स्वस्ति श्री महाराजा धीराज माहाराणाजी श्री भीमसीघजी जोग, राज राजेसु-
वर माहाराजा धीराज माहाराज श्री मानसीघजी लीषावता मुजरो वांचजो; अठारा
समाचार भला हे, आपरा सदा भला चाहीजे; सदा हेत इकलास रषावे हे, तीसु वसेक रषा-
वसी, अप्रंच ॥ अठे पाच सीरदार घोडा हे, सु आपराहीज जाणसी. हमार अठे काम
पढीओ हे, सु शीण वातने बीचारणरी सला हे, सु हमे आपने आबाजीरी फोजरो कुच कराअे
सताव गाटे ऊत्रसी; ने अठीसु म्हे आपसु आअे सामल हुसा, ने गोरवाड आपनु ले देस्या;
अे माहारा वचन हे. आप मासु और त्रे न जाणो, तो मेडी ओर त्रे जाणा, तो आपने
मा वीचे शीस्टदेव हे. शीणमे दुत्रफो फाअेदो हे, ने जेज करण जु न हे, सु गणी वेगी सला
वीचारसी. स्वत १८५४ रा वेसाप बीद १ वार रवी मुकाम गढ जालोर.



॥ श्री परमेस्वरजी सायछे.

॥ स्वसती श्री ऊदेपुर सुथाने स्व ओपमा वीराजमान महाराज धीराज महाराणा
श्री भीमसीघजी जोग्य, जोधपुरथी महाराजा धीराज महाराज श्री धोकलसीघजी
लीषावत जुहार वाचसी; अठारा समाचार श्री जीरा तेज प्रतावसु भला छे, राजरा सदा
भला चाहीजे, राज बडा छो, ठाकुर छो; सदा हेत इकलास राषो छो, तीणसु वीसेस रषावसो,
दुजायगी कणी वातरी न जाणसो, अप्रंच ॥ गोढवाडमे आगे महाराजाजी श्री वीजेसीघजी
अमल कीओ थो, सु म्हे पाछी मामाजी श्री जगतसीघजी आगे राजरी नीजर कीवी हे,
सु हमे गोढवाडमे राजरो अमल करावसो, अठारो दुसमण सु राजरो दुसमण, ने ऊठारो
दुसमण सु महारो दुसमण, ने राजरो सेण सु महारो सेण; अठा ऊठारो ऐक राह जाणसो;
शीणमे कदेई तफावत नपडसी, श्री हीगलाजजी बीचे छे. संवत् १८६३ रा मीती बेसाप
बीद ९ सुकरवार, मुकाम जोधपुर बारला डेरा.



इस वारेमें और भी बहुतसे अस्ल कागज़ मौजूद हैं, परन्तु विस्तारके खयालसे उनकी नक़्कें नहीं लिखीं; और इस मुआमलेकी बाबत कर्नेल टॉडने अपनी किताबमें जो हाल लिखा है, उसका तर्जमह टॉड राजस्थानकी जिल्द १ प्रकरण १६ के पृष्ठ ४६ से यहांपर दर्ज कियाजाता है:—

“ गोड़वाड़का पर्गनह बहुत अच्छा ज़रखेज है, जिसमें राठौड़, सोलंखी और राणावतोंकी जागीरें हैं, जो महाराणा साहिबको पैदलोंके सिवा ३००० सवार नौकरीमें देते थे; वह तमाम चूंडावतोंसे ज़ियादह हैं. जोधपुरके आबाद होनेसे पहिले मंडोवरके परिहार राजपूतोंसे राणाईके खिताब सहित यह ज़िला हासिल किया गया, जिसकी उत्तरी हद्द चूंडावतोंके खूनसे काइम की थी. वह पर्गनह राणाने राजा विजयसिंहको इस मतलबसे दिया, कि कुम्भलगढ़में रहनेवाले झूठे दावेदारके कब्ज़ेमें न आवे. अस्ली अहदनामह अबतक मौजूद है, जिसमें मारवाड़का राजा इक्कार करता है, कि इस जागीरके एवज ३००० आदमी राणाकी नौकरीमें दिये जाएंगे. यह पर्गनह पीछा आजाता, लेकिन राणा अरसीकी कम अज़्ज़ी उसको अहेड़ाके शिकारके लिये हाड़ाके साथ बूंदीकी तरफ़ लेगई.”

महाराणाने सोचा, कि अभी जोधपुरसे लड़ाई करना ठीक नहीं, क्योंकि रत्नसिंह उनसे दवा हुआ है; मुनासिब है, कि अव्वल मेवाड़के मुखालिफ़ सदाशिवको सीधा करले, बाद उसके गोड़वाड़पर कब्ज़ह किया जावे. इसलिये उन्होंने पहिले भींडरके ठिकानेको खालिसहमें दाखिल किया, लेकिन कुछ अरसह बाद महाराज मुहकमसिंहको देदिया. इसके बाद बहुत कुछ फ़ौज साथ लेकर महाराणा उदयपुरसे खानह हुए; और चूंकि आठूणके जागीरदार बाबा गुमानसिंह पूरावतसे महाराणाकी गद्दीनशीनीसे पहिलेकी अदावत थी, इस वास्ते आठूणके किलेको जा घेरा. बाबा गुमानसिंहने भी मरनेका इरादह करलिया, और थोड़ेसे आदमियों समेत किलेसे बाहर निकल आया. महाराणाने अपनी फ़ौजको हुकम दिया, कि उसे ज़िन्दह गिरिफ़्तार करले, लेकिन उसने किलेसे बाहर आनेके वक्त रुईदार अंगरखे व पाजामेको तेलसे तर करके पहिन लिया; और आग लगाकर नंगी तलवारसे फ़ौजके आदमियोंपर वार करने लगा. यह हाल सुनकर महाराणाने भी उसपर वार करनेका हुकम दिया, और फ़र्माया, कि अगर वह ज़िन्दह हाथ आता, तो मैं उसकी ज़ुरूर वे इज़्ज़ती करता, लेकिन उसकी बहादुरीके सबब मैंने उसके बेटे दौलतसिंहको आठूणका ठिकाना वापस दिया; और उपरेड़ाके किलेको बर्बाद करके जागीरदारको निकाल दिया.

इसके बाद जब कि बरसलियावासमें महाराणा मुकीम थे, खबर मिली, कि देवगढ़के रावत जशवन्तसिंहने, जो जयपुरमें था, शिमरू फ़्रेंचमैनको रुपया देना

ठहराकर अपने छोटे बेटे स्वरूपसिंहके साथ मेवाड़की बर्बादीके लिये भेजा है; और वह पांच हजार जर्जर फौज व तोपखानह समेत अजमेर जिलेके देवलिया गांवमें आ पहुंचा है. महाराणाने उसी वक्त नकारेका हुक्म दिया, इसपर रावत् अर्जुनसिंहने कहा, कि अभी आधी रात है, हम सबको इस वक्त खानह करदेवें, और आप फुजको सवार होकर तशरीफ लावें. महाराणाने उक्त रावतके साथ जमादार मलंग, जमादार फीरोज, जमादार अब्दुर्रजाक, जमादार लड़ाऊ, जमादार गुलहाला, जमादार कोली, जमादार जुम्मा, और कोशीथलके चूंडावत जगावत उम्मेदसिंहको अपनी अपनी जम्झयतों सहित खानह किया; और आप भी कुछ रात बाकी रहे सवार होगये.

जब खारी नदीके इस किनारेपर रावत् अर्जुनसिंह पहुंचा, तो शिमरूने भी दूसरे किनारे पर अपना तोपखानह जमाया; और दोनों तरफसे गोलन्दाजी शुरू होगई. महाराणा भी थोड़ी देर बाद अपनी फौजके शामिल होगये. इस वक्त कृष्णगढ़के राजा बहादुरसिंह, जो शिमरूके दोस्त और महाराणाके ससुर थे, आपहुंचे. इन्होंने शिमरूसे कहा, कि तुम किसके कहनेसे यहां चले आये? यदि महाराणासे वाकिई मुकाबलह हुआ, तो फौज सहित मारे जाओगे; और महाराणासे कहा, कि शिमरूके पास बहुत बड़ा तोपखानह है, अगर आपकी फतह हुई, तो भी अच्छे अच्छे हजारों राजपूत मारे जावेंगे. गरज महाराजाने दोनोंको समझा बुझाकर आपसमें सुलह करवादी, और शिमरूने महाराणाके पास अकेले हाजिर होकर एक जोड़ी पिस्तौल, एक तलवार और एक घोड़ा उनके नज़ किया; महाराणाने भी उसे खिल्लत व घोड़ा देकर विदा किया. उस फ्रान्सीस बहादुरने जशवन्तसिंहके बेटे स्वरूपसिंहसे कहा, कि तुमने मुझे धोखा दिया, कि महाराणा उदयपुरसे बाहर नहीं निकलते, और मेवाड़के कुल सर्दार हमारे मददगार हैं. हमारे दो कदम भी मेवाड़में न पड़े, कि महाराणा बड़ी जर्जर फौजके साथ खुद मुकाबलहको आगये; ऐसे बहादुर राजाका मुल्क कौन लेसक्ता है ?

महाराणाने वहांसे खानह होकर अमरगढ़के किलेको जा घेरा. बूंदीके रावराजा उम्मेदसिंहने राज तर्क करके अपने बेटे अजीतसिंहको रावराजा बना दिया था. वह नौ जवान जवानीके नशेमें चूर था, मेवाड़के बदख्वाह सर्दारोंके बहकानेमें आगया. लोग कहते हैं, कि उसको ऐसी शर्मिन्दगीकी बात कहलाई, जिससे उसने अपनी जानका भी खौफ छोड़ दिया, और दिलमें दगावाजी ठानकर महाराणाकी मुलाकातको आया. बूंदीकी तवारीख वंशप्रकाशमें इस दगावाजीका हाल इस तरहपर लिखा है :- सकरगढ़ इलाकह मेवाड़के फसादी लोग

इलाकह बूंदीको बर्बाद करते थे, इस वास्ते अजीतसिंहने सकरगढ़पर कब्ज़ कर लिया,

और महाराणासे मिलकर कुछ एवजमें देने बाद वह गांव अपने कब्ज़हमें रखना चाहा; लेकिन महाराणाने न माना, तो गुस्सेकी हालतमें उसने उनको मारा. कर्नेल टॉडने उस जमानहमें मौजूद होने वाले तरफैनके आदमियोंकी ज़बानी सुनकर यह लिखा है :-

“ कि सर्दार बूंदीको सरहदके भगड़ेमें एक टुकड़े ज़मीनकी बाबत, जिसमें चन्द आमके दरख्त थे, कुछ बहाना हाथ लग गया; लेकिन यह बहाना भी उस कामकी बे इन्साफीको, जिसके पूरा करनेमें उससे बुज़ दिलापन अलावह उसकी वहशतके जुहूरमें आया, कम नहीं करता है. उसके बुज़ दिलेपन और उसकी वहशतको देखो, कि जब वह राणाके साथ सूअरका शिकार कर रहा था, उसने राणाकी छातीमें बछी मारी, और इस तरह उसका काम तमाम किया. यह हरकत करके कातिल बड़ा शर्मिन्दह हुआ. इस नालाइक कामके होनेसे लोग उससे नफरत करने लगे, उसके बाप और तमाम हाड़ा कौमने उसको बड़ी लानत मलामत की. ”

मेवाड़में बाज़ बाज़ लोग, जिन्होंने इस मुआमलेको देखने वालोंकी ज़बानी सुना है, अबतक मौजूद हैं; वे इस तरह बयान करते हैं- कि अजीतसिंह महाराणाकी मुलाकातको आये, महाराणाने मुहब्बतके साथ उनकी खातिर की. और यह भी सुना गया है, कि अजीतसिंहके पिता उम्मेदसिंहने, जो बूंदीसे कुछ फ़ासिलेपर फ़कीरी हालतमें रहता था, महाराणाको एक कागज़ इस मत्वसे लिख भेजा, कि आप मेरे लड़केका हर्गिज एतिवार न करें; लेकिन वह कागज़ महाराणाकी फौजमें मुखालिफ़ोंने दबालिया. अमरगढ़के रावत् जवानसिंहकी ज़बानी, जो अस्सी वर्षसे ज़ियादह उम्रमें अभी तक जिन्दह है, इस ग्रन्थकर्ता (कविराजा श्यामलदास) ने सुना है, कि मेरे दादाको इस दगाबाजीका हाल मालूम होगया, तब उन्होंने एक अर्जी महाराणाके नाम लिख भेजी, कि हमको तो आप बेशक क़त्ल कीजिये, परन्तु आप अपनी हिफ़ाज़त अच्छी तरह करलें, अजीतसिंह आपको मारनेके लिये आया है; मगर महाराणाने कुछ खयाल न किया; और उस अर्जीको फाड़कर कहा, कि अब मरनेके खौफ़से खैरस्वाह बनना चाहता है. लोगोंका बयान है, कि बकरईदके मौकेपर शुक्रवारके दिन तमाम सिंधी जमादार अपनी दावतमें चले गये, विक्रमी १८२९ चैत्र कृष्ण १ [हि० ११८७ ता० १४ जिल्हिय = ई० १७७३ ता० ९ मार्च] को यह मौका गनीमत जानकर अजीतसिंह महाराणाके डेरेमें आया, और कहने लगा, कि मैं जंगलमें एक खर्गोश (१) देख आया हूं; आप चलें, तो घोड़े

(१) कर्नेल टॉडने सूअर लिखा है.

पर सवार होकर बछेसे उसका शिकार करें. महाराणा वे सोचे विचारे एक छोटे घोड़ेपर सवार होकर उनके साथ होलिये. महाराणाके हम्राही लोग, जो करीब दो सौ के वहां मौजूद थे, साथ चलनेको तय्यार हुए; मगर अजीतसिंहने उनको यह कहकर रोक दिया, कि जियादह हुजूमसे खर्गोश भाग जावेगा; इसलिये सिर्फ तीन सर्दार और चौथा चारण पन्ना साथ आये. सनवाड़का बाबा शंभुसिंह, बावलसका बाबा दौलतसिंह, उसका छोटा भाई अनूपसिंह और चारण आढा पन्ना, मना करनेपर भी साथ गये, और इनके अलावह दस बीस आदमी छड़ीदार, हरकारे, जलेदार वगैरह हम्राह थे.

फौजसे बहुत दूर निकल जाने बाद राव राजाने चारण आढा पन्नासे कहा, कि मैं तुम्हारे घोड़ेकी खुरी (दौड़) देखना चाहता हूं. इसके जवाबमें उसने कहा, कि यहां दोनों बाजू और साम्हनेको पत्थर बहुत हैं. तब महाराणाने तेज होकर कहा, कि फौजकी तरफ साफ रास्तह है, राव राजाको क्यों नहीं खुरी दिखलाता. उसने अपने घोड़ेको ललकारकर चाबुक मारा, और तुन्द किया; अब महाराणाके पास तीन ही सर्दार रहगये. इस समय मौका पाकर अजीतसिंहने महाराणाकी छातीमें वछा मारा, और उनके साथ, जो चार पांच सर्दार थे, उन्होंने भी उसी दम महाराणाके तीनों सर्दारोंपर वार किया. रूपा नामी एक छड़ीदारने राव राजाके सिरमें ऐसे जोरसे छड़ी मारी, कि वह मूर्छित होकर ज़मीनपर झुक गया, और उसके साथके सर्दार भाग निकले. राव राजाका घोड़ा भी अपने वेहोश सवारको लिये हुए भागा. बूंदी वाले अपनी तवारीखमें रावराजाके हाथपर छड़ी लगना कुबूल करते हैं; लेकिन हमने रूपा छड़ीदारके बेटे दलसिंह से जैसा सुना, लिखा है. वृद्ध जन यह भी कहते हैं, कि उसी छड़ीके सघेसे छः महीने बाद राव राजा मरगये, और बूंदी वाले शीतलाकी बीमारीसे उनका मरना बयान करते हैं. गरज कि ऊपर लिखी मित्तीको तीसरे पहर यह मारिका हुआ. महाराणा मए बाबा दौलतसिंह व शंभुसिंहके मारे गये, और बाबा अनूपसिंह सरत ज़रूमि होकर जिन्दह रहा, जो बावलसका मालिक हुआ.

दूसरे दिन महाराणाका दाह कर्म किया गया, उनके साथ मनभावन पासवान सती हुई. यह दग्धस्थान अमरगढ़के नज़्दीक अबतक मौजूद है. बाबा दौलतसिंह व शंभुसिंह भी महाराणाकी चिताके करीब ही जलाये गये. अजीतसिंह तो जान लेकर भागा, और मेवाड़की फौजने उसी वक्त उनका अस्बाब व तोपखानह लूट लिया (१). उदयपुर खबर आनेपर महाराणी राठौड़ व पासवान

(१) ऐसा भी सुना है, कि चन्द तोपें बूंदीकी अमरगढ़ वालोंके हाथ लगीं, जो वहांके किलेमें मौजूद हैं.

सज्जनराय, कमलराय और वृजकुंवरराय सती हुई, और एक महाराणी भटियाणी, जो अपने पीहर मोहीमें थी, वहीं सती हुई. फौजके मुसाहिबोंमें सलाह हुई, कि बूंदीपर घेरा डालकर बदला लिया जावे, लेकिन कई मुसाहिबोंने, जो महाराणाकी क्रूरतासे नाराज थे, कहा, कि कुम्भलमेरमें रत्नसिंह मौजूद है, वह महाराणाके कुंवर हमीरसिंह व भीमसिंहको बालक जानकर उदयपुरमें कब्ज करलेगा. इस नाकिस सलाहसे कुल फौज उदयपुर चली आई. इन महाराणाके दो कुंवर बड़े हमीरसिंह व छोटे भीमसिंहके सिवा दो राजकुमारी थीं, बड़ी चन्द्रकुंवर, जिसका जन्म विक्रमी १८२० श्रावण शुक्ल १३ रविवार [हि० ११७७ ता० १२ सफ़र = ई० १७६३ ता० २२ ऑगस्ट] को हुआ, और दूसरी अनूपकुंवर, जो विक्रमी १८२१ फाल्गुन शुक्ल २ गुरुवार [हि० ११७८ ता० १ रमजान = ई० १७६५ ता० २१ फेब्रुअरी] को पैदा हुई. खवासके पुत्र १ गोपालदास, २ देवीदास, ३ भगवानदास, ४ मनोहरदास, ५ चैनदास, ६ मोहनदास और ७ जवानदास थे; पासबानोंकी कन्या १ पेमवतां, २ फूलवतां, ३ चद्रमतां, ४ इन्द्रमतां और ५ सूरजमतां हुई.


इन महाराणाकी महाराणियों व खवासोंके नाम नीचे लिखे जाते हैं:-


१-महाराणी झाली सर्दारकुंवर, गोगूदाके राज कान्हसिंहकी बेटी (१); २-महाराणी देवड़ी अभूतकुंवर, नाथसिंहकी बेटी; ३-महाराणी राठौड़ सर्दारकुंवर, रतलामके राजा पृथ्वीसिंहकी बेटी; ४-महाराणी राठौड़ ईडरेची गैदकुंवर, भोपतसिंहकी बेटी; ५-महाराणी राठौड़ छप्पनी सरसकुंवर, चन्द्रसेनकी बेटी; ६-महाराणी सोलंखणी कुंवरवाई, बीरपुरा अभयसिंहकी बेटी; ७-महाराणी भटियाणी गुमानकुंवर, मोहीके जागीरदार पृथ्वीसिंहकी बेटी; और ८-महाराणी चहुवान राधाकुंवर, उदयभानकी बेटी.


१- खवास गुलावराय, २- खवास रूपराय, ३- खवास कुशालराय, ४- खवास देवड़ी, ५- खवास मनभावन, ६- खवास गणेशराय, ७- खवास सज्जनराय, ८- खवास सुखवालेसी, ९- खवास कमलराय, १०- खवास चैनकुंवरराय, ११- खवास वृजकुंवरराय, और १२- खवास पेमराय थी.

(१) वड़वा भाटोंने महाराणा राजसिंहकी महाराणी झालीको राज जशवन्तसिंहकी बेटी और कान्हसिंहकी पोती गुलावकुंवर लिखा है, और गोगूदासे हमारे पास जो ख्यात आई, उसमें महाराणा अरिसिंहकी जिसके साथ शादी हुई, उसको राज कान्हसिंहकी बेटी, सर्दारकुंवर, और जिसके साथ महाराणा राजसिंहकी शादी हुई, उसको भी राज कान्हसिंहकी बेटी सरसकुंवर लिखी है; मरहूर भी यही है; लेकिन हमको इस इख्तलाफके मिटानेके लिये तीसरा कोई मज़बूत सुबूत नहीं मिला.


इन महाराणाका मभोला कढ़, गेहुवां रंग, पतला और भरा हुआ बदन था. यह ईर्ष्या, गुस्सह, जिद व खुद पसन्दी रखनेके सिवा कानके कच्चे, लेकिन अक्वल दरजेके बहादुर, मिहनती, घोड़ेकी सवारी और शस्त्र विद्यामें प्रवीण और फय्याज थे. इनके पास खैर-खाह आदमी भी मौजूद थे, लेकिन वे कद्री व शकिया मिजाजीसे वे लोग दिलशिकस्तह होकर अपने अपने घरोंमें बैठ रहे, जिससे रियासतको नुकसानके साथ बहुत बड़ा सन्नह उठाना पड़ा.







 मरहटोंकी तवारीख.



इस कौमका बयान बहुतसे फ़ार्सी तवारीख़ वालों और ग्रैंटडफ़ वगैरह अंग्रेजी मुवरिखोंने किया है, लेकिन हम यहांपर बहुतसी गैर जरूरी तवालतको छोड़कर उनका मुस्तसर अहवाल पाठकोंकी वाक़िफ़ियतके लिये लिखते हैं; जो कि महाराणा अरिसिंह ३ के समय इन लोगोंसे बड़े बड़े मारिके पेश आये थे, इसलिये उक्त महाराणाके हालमें ही इनका भी जिक्र करना मुनासिब समझा.

शुरूमें यह लोग दक्षिणी हिन्दुस्तानमें कियाम रखते थे, लेकिन कुछ अरसह बाद बढ़ते बढ़ते बंगाला, पंजाब और हिन्दुस्तानके उत्तरी भागमें हिमालय तक फैल गये, और ऐसा रोब जमाया, कि अगर इन्होंने मुल्कपर बादशाहत करनेका ढंग डाला होता, तो इनको कुल हिन्दुस्तानका बादशाह बननेमें कोई रोक टोक न थी; परन्तु उनमें अक्सर लुटेरापनकी आदतें थीं, इस कारण बर्साती पानीके तौर, जिस तरह एक दम फैले, उसी तरह उतर गये; अब उनके नौकरोंमेंसे बड़ौदा, ग्वालियर, इन्दौर, धार और देवास वगैरह रियासतोंपर इस वक्त काबिज़ रहे हैं. इस गिरोहके अस्ली मालिक सितारा व नागपुर वालोंमेंसे ग़रत होकर कोल्हापुर, सावन्तवाडी व तंजावर वगैरह अभी नाम व निशानके लिये मौजूद हैं. अस्लमें मरहटोंके सरगिरोह सीसोदिया राजपूत गिनेजाते हैं, जिनके मेवाड़से जुदा होनेकी तवारीख़ सहीह सहीह लिखना मुश्किल है. ख़फ़ीख़ां अपनी तवारीख़ मुन्तख़बुल्लुवाबमें इनको चित्तौड़के राजाओंकी शाख़ बयान करके पैवन्दी ख़ानदान लिखता है; और मुहम्मद गुलाम हुसैनने भी अपनी बनाई हुई किताब सैरुलमुतअख़िरीन में ख़फ़ीख़ांके मुवाफ़िक़ बयान किया है; ग्रैंटडफ़ साहिब अपनी किताबमें पुराना हाल छोड़कर मालूजी, शाहजी घोंसलासे उनका तारीख़ी हाल लिखना शुरू करते हैं; मगर पुराने नसबनामहका किसीसे पूरा पूरा ठीक पता न मिलनेके सबब हम एक कुर्सी नामह सिताराके भोतबर पंडित शिवानन्द शास्त्रीका लिखाया हुआ, जो वहांके आख़िरी राजा प्रतापसिंह छत्रपतिका भेजा हुआ उदयपुर आया था, और जो हमको पुरोहित पद्मनाथने दिया, उसकी नक़्क़ नीचे दर्ज

करते हैं:-



१ महाराणा अजयसिंह, २ सजनसिंह, ३ दूलीसिंह, ४ सिंह, ५ घोंसला, ६ देवराज, ७ इन्द्रसेन, ८ शुभकृष्ण, ९ रूपसिंह, १० भूमीन्द्र, ११ रापा, १२ बरहट, १३ खेलो, १४ कर्णसिंह, १५ शंभा, १६ बाबा, १७ मालू, १८ शाहजी, १९ शिवा, २० शंभा दूसरा, २१ साहू, २२ रामराज दत्तक, २३ साहू दूसरा दत्तक, और २४ प्रतापसिंह.

इसी नसबनामहके मुताबिक राजपूतानहमें भी मशहूर है, कि महाराणा अजयसिंहसे घोंसला (१) खानदानकी शाख पैदा हुई.

मार्शमेन् साहिबका बयान है, कि मालू घोंसला, जो सवारोंका एक बहुत अच्छा अफसर था, विक्रमी १६५७ [हि० १००९ = ई० १६००] में अहमदनगरके बादशाहका नौकर हुआ. चूं कि उसके कोई औलाद नहीं थी, इस सबबसे उसकी स्त्रीने शाह सेफर नामी एक मुसल्मान पीरकी मन्नत मानी. जब पीरकी बरकतसे उसके एक लड़का पैदा हुआ, तो उसका नाम उक्त पीरके नामपर शाहजी रक्खा. उसका जन्म विक्रमी १६५० [हि० १००१ = ई० १५९३] में हुआ. मालू ने इस लड़के (शाहजी) का सम्बन्ध जादूरावके घरानेमें (जो शायद उस जमानहमें एक खानदानी सर्दार होगा) करना चाहा; परन्तु उस वक्त जादूरावने इसको रुतबेमें अपनेसे छोटा जानकर सम्बन्ध करनेसे इन्कार किया. मालूने थोड़े ही दिनोंमें लूट मार करके बहुतसा धन एकट्ठा करलिया, और अहमदनगरके बादशाहने पूना और सोपा वगैरह पर्गने उसे जागीरमें दिये; तब जादूरावने भी रजामन्द होकर अपनी बेटीका विवाह शाहजीके साथ करदिया.

विक्रमी १६७६ [हि० १०२८ = ई० १६१९] में मालूका इन्तिकाल होगया, और शाहजी अपने पिताकी जगहपर काइम होकर फौजको बढ़ाने लगा. अब्बल उसने खानिजहां लोदीसे मिलावट करके दिल्लीके बादशाह शाहजहां से बखिलाफी इस्तिथार की, लेकिन कुछ अरसे बाद उसी बादशाह (शाहजहां) का नौकर बनगया. मार्शमेन् साहिबने उसको बादशाहकी तरफसे पंज हजारी मन्सब मिलना लिखा है, लेकिन थोड़े ही दिनोंके बाद वह दिल्ली वालोंसे बखिलाफ होकर दौलताबादकी तरफ चलागया. विक्रमी १६९० प्रथम वैशाख शुक्ल १३ [हि० १०४२ ता० १२ शव्वाल = ई० १६३३ ता० २२ एप्रिल] को जब कि शाहजहां बादशाहकी फौज बीजापुरके मुहासरेको गई, आधी रातके वक्त साहू घोंसला और रन्दौलहने खानिजहांके डेरोंपर हमलह किया; खानिजहां उस समय वहां मौजूद न था, लेकिन बूंदी वाले शत्रुशाल हाड़ाने उनका खूब मुकाबलह किया. शाहजीने

(१) बाज़ बाज़ तवारीखोंमें भोंसला लिखा है.

१००० सवार लेकर खिड़की मकामपर दूसरा हमलह किया. इस वक्त रामपुरेका राव दूदा चन्द्रावत बादशाही फौजका सर्दार बड़ी बहादुरीके साथ लड़कर मारा गया. इन दिनों अहमदनगरकी सल्तनतमें खलल आजानेके सबब शाहजी बीजापुरका नौकर होगया था. जब पहिला निजामुल्मुल्क बादशाह अकबरकी कैदमें आगया, तो शाहजीने एक दूसरा निजाम उसकी जगह काइम किया, उसको भी खानिजहाने गिरिफ्तार करके दिल्ली भेजदिया; तब शाहजीने फिर तीसरा निजाम खड़ा करके अहमदनगरमें लड़ाईकी तय्यारीके साथ बीजापुर वालोंसे मिलकर शाहजहांकी फौजपर कई हमले किये, जिससे बादशाही नौकर भागकर बुर्हानपुरमें चलेआये, और शाहजीने निजामके मुल्कपर कबजह बढ़ाया. यह बखेड़ा सुनकर विक्रमी १६९२ आश्विन कृष्ण ४ [हि० १०४५ ता० १८ रबीउस्सानी = ई० १६३५ ता० १ अक्टोबर] को बादशाह खुद आगरेसे दक्षिणकी तरफ रवानह हुआ. बुर्हानपुरसे आगे बढ़कर बीजापुर व गोलकुंडाके बादशाहोंको उसने अपने एल्ची भेजकर धमकी व नसीहतोंसे रोका, और आप दौलताबाद पहुंच गया. इसके बाद अहमदनगरके इलाकेपर कबजह करनेके लिये फौजें भेजीं; तब शाहजीने कई मकामोंपर लड़ाइयां कीं; आखिरकार शाहजहाने अहमदनगरके मुल्कको फतह करके बीजापुर पर दबाव डाला, क्योंकि वहांका बादशाह खानगी तौरपर शाहजीका मददगार हो रहा था. जब बीजापुरके बादशाह मुहम्मद आदिलखाने फौजोंका जियादह दबाव देखा, तो २०००००० बीस लाख रुपया शाहजहांके पास भेजकर सुलह चाही, और यह भी कहलाया, कि अगर शाहजी घोंसला अहमदनगरके इलाकोंसे कुछ भी छेड़ छाड़ करे, तो हम उसको नौकर न रखेंगे.

विक्रमी १६९३ श्रावण कृष्ण ३ [हि० १०४६ ता० १७ सफर = ई० १६३६ ता० २१ जुलाई] को शाहजहां दौलताबादसे आगरेकी तरफ रवानह होगया, और दक्षिणकी सूवेदारी शाहजादह औरंगजेबके सुपर्द की; शाहजी घोंसला लाचार होकर बीजापुर चला गया. मुरारि पंडितने पूना और सोपाके पगने शाहजीको जागीरमें पके लिखवादिये, जो उसके बाप मालूजीके वक्तसे कबजेमें थे, और बीचमें बीजापुरके बादशाहने छीन लिये थे. जब नीरा और भीमा नदीके दर्मियान मुरारि पंडितने बन्दोवस्त किया, उस मौकेपर शाहजीने अच्छी मदद दी, इससे बीजापुरके शाहने कर्नाटककी चढ़ाईके वक्त रन्दौलह और शाहजीको फौजका अफसर बनाया; और उस मुल्कके फतह होने बाद शाहजीको कर्नाटकमें कोल्हार, बंगलोर, उसकट, वालापुर और सेरा वगैरहकी जागीर दी; इसके सिवा सितारेसे दक्षिण जिले कराडमें

इन्होंने २२ गांवोंकी " देशमुखी " पाई. शाहजीके चार लड़के थे, जिनमेंसे बड़ा

शंभा और छोटा शिवा एक स्त्रीसे पैदा हुए थे, तीसरा व्यंका दूसरी स्त्री से और चौथा सन्ता एक पासवानसे पैदा हुआ था. शिवाका जन्म विक्रमी १६८४ ज्येष्ठ [हि० १०३६ रमजान = ई० १६२७ मई] में शिवानेरके किलेमें हुआ. जब शिवा बच्चा था, उसकी माता शाहजहांकी फौजमें पकड़ी आई, और उसके पीहर वालोंने छुड़ाया, जो उस समय बादशाही नौकर थे. विक्रमी १६८७ [हि० १०३९ = ई० १६३०] से विक्रमी १६९३ [हि० १०४५ = ई० १६३६] तक शिवा और उसकी माता जीजाबाई दोनों, शाहजीसे जुदा रहे, लेकिन छः सालके बाद वे उसके पास बीजापुरमें चले गये. शिवाकी शादी निवालकरकी बेटाके साथ हुई. शाहजी तो कर्नाटककी तरफ गया, और शिवा व उसकी माको पूना भेजदिया; और दादा कोणदेव पंडितको शिवाका शिक्षक और पूनाकी जागीरका मुहाफिज़ बनाया. नरू पंडित हनमतेको कर्नाटक की जागीरका मुख्तार किया. दादा कोणदेवने पूनाके जिलोंमें बहुत उम्दह बन्दोबस्त किया; और मावली कौमको, जो पहिले बहुत मुफ्लिस और जंगली थी, आराम देकर दुरुस्त किया.

शिवा कुछ लिखने पढ़नेमें होशियार न था, लेकिन सिपाहगरीके फ़नमें चालाक होनेके सबब वह १६ वर्षकी उम्रसे लुटेरे लोगोंकी सुहवतमें रहने लगा, और उसकी यह स्वाहिश हुई, कि आज़ाद राजा बनजावे. दादा कोणदेवने उसको इन आदतोंसे बहुत कुछ रोका, लेकिन वह नहीं मानता था; विक्रमी १७०३ [हि० १०५६ = ई० १६४६] में उसने मावली लोगोंकी मददसे किले तोरणाको अपने क़बज़हमें किया, और बीजापुर वाले बादशाहके नाम इस मज़मूनकी एक अर्जी लिख भेजी, कि इस किलेमें मेरा क़बज़ह रखनेसे बादशाही तहसीलमें बहुत फ़ायदह होगा; और बड़ा ख़िराज देनेके मल्लवसे कई अर्जियां लिख भेजीं; लेकिन उनका जवाब जल्दी नहीं मिला. इसमें देरी होना शिवाके हक़में ज़ियादह मुफ़ीद था, उसने मौका पाकर बीजापुरके अहलकारोंको भी मिला लिया, कि जल्दी जवाब न दें. शिवाके वकील तो बीजापुरमें यह कार्रवाई कर रहे थे, और शिवा किले तोरणामें मावली लोगोंको एकट्ठा करनेमें मशगूल था. वहां पर उसको पुरानी इमारतें तोड़नेसे बहुतसी दौलत हाथ लग गई; इस कुद्रती मददके मिलनेपर उसने मेगज़िन वगैरह खरीदकर विक्रमी १७०४ [हि० १०५७ = ई० १६४७] में किले तोरणासे डेढ़ कोस अग्नि कोणकी तरफ़ मोर्वद पहाड़पर एक नया

किला बनवाया, और उसका नाम राजगढ़ रक्खा. जब ये ख़बरें बीजापुरमें पहुंचीं,

तो उन लोगोंने शाहजीको दबाया, और उसने शिवाको नसीहतके तौरपर लिखा; मगर शिवाके दिलपर अपने पिताकी तहरीरका कुछ असर न हुआ, क्योंकि वह मुसल्मानोंकी ताबेदारीसे नफरत करता था. इसी अरसेमें दादा कोणदेव भी मरगया. अब शिवा अपने बाप शाहजीसे भी आजाद होकर इन जिलों और किलोंका खुद मुख्तार हाकिम बना. एक मोहिता रूपाका किलेदार उसका फर्माबदार न बना, जिसको उसने गिरफ्तार करके अपने बाप शाहजीके पास कर्नाटक भेजदिया. इसके बाद उसने पुरन्दरके किलेपर कब्जह किया, और इसी तरह चाकना तथा नीराके दरमियानका इलाकह भी दवा लिया.

विक्रमी १७०५ [हि० १०५८ = ई० १६४८] में उसने बीजापुरको जातेहुए आदिलशाहका खजानह लूट लिया; और इन्हीं दिनोंमें कांग्री, तुंग, तिकोना, भूरप, कुआरी, लोगर, और राज मांची वगैरह आदिलशाही किलोंपर अधिकार जमाया. इसी तरह कोकण देशके कई जिलोंमें लूट मार मचादी; कल्याण वगैरहके किले अपने कब्जहमें लेकर आभा कोणदेवको वहांका हाकिम करार दिया.

यह खबरें सुनकर आदिलशाहने शाहजीको कैद करलिया, और विक्रमी १७०६ [हि० १०५९ = ई० १६४९] में शाहजी उसी कैदकी हालतमें बीजापुर लाया गया. जब वह बादशाहके पास आया, तो उसने बहुतेरी मिन्नत की, और कहा, कि मेरा लड़का मेरे कहनेमें नहीं है; लेकिन बादशाहको उसके कहनेपर यकीन न हुआ, और उसे एक तंग मकानमें कैद करके दरवाजा बन्द करादिया, सिर्फ खिड़की खुली रखी, कि जिसकी राहसे उसको खाना पीना दियाजाता था. इसपर शिवाने दिल्लीके बादशाह शाहजहांसे दरखास्त की, और शाहनशाही जोर डालकर अपने बापको कैदसे छुड़ाया; लेकिन ताहम शाहजी बीजापुरमें नजर कैदके तौरपर रक्खा गया. जो कि आदिलशाहको शाहजहांकी नाराजगीका बड़ा खौफ था, इसलिये उसने शिवाको भी कैद करना चाहा, लेकिन वह उसके फिरवमें न आया. विक्रमी १७१० [हि० १०६३ = ई० १६५३] में शाहजी बीजापुरसे रिहा होकर अपनी जागीर कर्नाटकमें पहुंचा, जहां कनकगिरीकी लड़ाईमें उसका बड़ा बेटा शंभा मारा गया. विक्रमी १७१४ कार्तिक कृष्ण १४ [हि० १०६७ ता० २७ मुहर्रम = ई० १६५७ ता० ४ नोवेम्बर] को आदिलशाह बीजापुरी मरगया, और उसका बेटा अली आदिलशाह बीजापुरका बादशाह बना, जिसपर शाहजहांके हुक्मसे शाहजादह औरंगजेब और मीर जुम्लहने चढ़ाई की, लेकिन कुछ दिनों तक ईश्वरको

बीजापुरकी सल्तनत काइम रखना मन्जूर था, शाहजहांकी बीमारीकी खबर मिलनेसे

औरंगजेब फौज खर्च लेकर पीछा औरंगाबादको चला गया. इन दिनोंमें शिवाने औरंगजेबसे मिलावट करली, और उसकी इजाजत लेकर कोकणकी तरफ क़वज़ह बढ़ाया.

बीजापुरमें अली आदिलशाहकी नातजिबहकारीसे बंद इन्तिज़ामी फैलती जाती थी, कई पठान नौकरियें छोड़कर शिवाके पास आगये, जिससे उसकी बगावत और भी ज़ियादह बढ़ी. यह हालत देखकर अली आदिलशाहने अपने मातहत ज़बर्दस्त सदाँर अफ़ज़लखांको एक बड़ी फ़ौज समेत शिवापर भेजा. शिवाने दगाबाजीसे सुलहका पैग़ाम भेजकर अपने कुसूरोंकी मुआफ़ी चाही, जिसपर अफ़ज़लखांने उसके पास तसल्ली देनेके लिये पण्डित पंथो गोपीनाथको भेजदिया. शिवाने उस ब्राह्मणको मिलालिया, उसने भी वापस आकर अफ़ज़लखांसे कहदिया, कि शिवा बहुत डरा हुआ है, आप अकेले चलकर प्रतापगढ़में उसकी तसल्ली करदीजिये. अफ़ज़लखांने इस बातको कुबूल करके प्रतापगढ़के क़िलेसे नीचे मिलनेको कहा. शिवाने धोखादिही करके अपने लोगोंको चारों तरफ़के पहाड़ोंमें छिपादिया, और आप अफ़ज़लखांसे मुलाक़ात करनेके लिये क़िलेसे नीचे उतरा; मिलनेके वक्त शिवाने उस साफ़ दिल मुसल्मान सदाँरको मारडाला, और उसका तमाम खज़ानह व लड़ाईका सामान वगैरह लूट लिया. ग्रैण्ट डफ़ साहिब लिखते हैं, कि अफ़ज़लखांकी तलवार अबतक सिताराके तोशहख़ानहमें मौजूद है. इसके बाद परनाला, पवनगढ़ व बसन्तगढ़ वगैरह क़िलोंपर क़वज़ह करलिया, और यहांतक बढ़ा, कि बीजापुर के गिर्दोनवाहमें भी लूट मार मचादी. तब अली आदिलशाहने सीदी जौहर और अफ़ज़लखांके बेटे फ़ज़ल मुहम्मदको बड़ी भारी फ़ौज देकर शिवाके मुक़ाबलेपर भेजा. परनाला मुक़ामपर चार महीनेतक शिवा लड़ता रहा, इसके बाद दबकर क़िले रीगणेमें जाघुसा. अली आदिलशाह, सीदी जौहरपर शिवासे रिश्वत लेनेका इल्ज़ाम लगाकर बीजापुरसे चढ़ दौड़ा, और परनाला व पवनगढ़ वगैरह कई क़िलोंपर उसने अपना क़वज़ह करलिया. आपसमें कई लड़ाइयां होने बाद शिवाने कुल कोकण देशको अपने अधिकारमें लेलिया. ग्रैण्ट डफ़ साहिब लिखते हैं, कि उस वक्त उसके पास ७००० सवार और ५०००० पैदल थे.

जब बीजापुर वालोंमें शिवाके रोकनेकी ताक़त न रही, तब उसने अहमदनगरके इलाकेथाने आलमगीरके मुल्कमें पैर बढ़ाया. यह ख़बर पहुंचनेपर आलमगीरने शायस्तहखांको एक बड़ी फ़ौजके साथ शिवाकी तरफ़ ख़ानह किया; कई जगह मुक़ाबलह करके उसने मरहटोंको हटादिया, और पूनामें पहुंचकर तलकोकणपर क़वज़ह करलिया. इसके बाद पूना छोड़कर क़िले चाकनाका मुहासरह किया. चन्द

रोज बाद उसमें अपना अमल दखल जमा लिया. शायस्तहखां अपनी फौज आरास्तह करके विक्रमी १७१९ [हि० १०७२ = ई० १६६२] में पूनाको आया. आलमगीरने जोधपुरके राजा जशवन्तसिंहको गुजरातकी सूबेदारीसे शायस्तहखांकी मददके लिये दक्षिणकी तरफ भेजदिया. विक्रमी १७२० चैत्र शुक्ल पक्ष [हि० १०७३ रमजान = ई० १६६३ एप्रिल] में शिवाने एक मरहटेको दुलहा बनाकर रातके वक्त पूनामें छापा मारा, और शायस्तहखांके कई आदमियोंको मकानके अन्दर मारडाला. इसी हमलेमें मुखालिफोंकी तलवारसे शायस्तहखांके हाथकी एक अंगुली कट गई. शिवा सहीह व सलामत निकल गया. शायस्तहखांका बेटा अबुल्फतहखां जानसे मारा गया. आलमगीरने इस गफलतसे नाराज होकर शायस्तहखांको बंगालेकी सूबेदारीपर भेजदिया, और अपने शाहजादे मुहम्मद मुअज़्ज़मको दक्षिणकी सूबेदारीपर रवानह किया.

विक्रमी १७२१ [हि० १०७४ = ई० १६६४] में शिवाने सूरत वगैरह बन्दरको लूटा, और इन्हीं दिनोंमें उसका पिता शाहजी तुंगभद्रा नदीके किनारे शिकार खेलते वक्त घोड़ेसे गिरकर मरगया; तब शिवाने राजाका खिताब इस्तिथार करके अपने नामका सिक्कह जारी किया. आलमगीरने महाराजा जशवन्तसिंहको दक्षिणसे तलब करके उसके एवज आविरके महाराजा जयसिंह अब्बलको भेजा, और महाराजाने मरहटोंके अक्सर किले फतह किये. जब शिवाने मुल्ककी बर्बादी और अपनी ना ताकती देखली, तो लाचार होकर महाराजाके पास अपने एक पंडित रघुनाथ पन्थ न्याय शास्त्रीको सुलहका पैगाम देकर भेजा, महाराजाने उसकी तसल्ली की, जिसपर विक्रमी १७२२ आषाढ शुक्ल ९ [हि० १०७५ ता० ८ जिल्हिज = ई० १६६५ ता० २२ जून] (१) को शिवा मए थोड़ेसे आदमियोंके शाही लश्करमें चला आया. महाराजाने ताजीम वगैरह इज्जतसे उसे अपनी गद्दीपर बराबर विठाया. तरफैनमें तसल्लीके लाइक इक्रार होनेपर शिवाने कई किलोंसे अपना दखल उठा लिया; और महाराजाकी अर्जी पहुंचनेपर आलमगीरने शिवाके नाम तसल्लीका एक फर्मान और उसके ८ वर्षकी उम्र वाले बेटे शंभाको पांच हजारी जातका मन्सब लिख भेजा.

विक्रमी १७२२ चैत्र कृष्ण ८ [हि० १०७६ ता० २१ रमजान = ई० १६६६ ता० २८ मार्च] को बादशाही हुक्मके मुवाफिक महाराजा जयसिंहने शिवा व उसके बेटे शंभाको तसल्ली देकर आगरेकी तरफ आलमगीरकी खिदमतमें रवानह किया, जो विक्रमी १७२३ ज्येष्ठ कृष्ण १ [हि० १०७६ ता० १५ जिल्काद =

(१) ग्रैंटडफ साहिबने जुलाई महीनेमें शिवाका शाही लश्करमें आना लिखा है, लेकिन मूलमें

खफीखांके लिखनेको मोतबर समझकर ८ जिल्हिज लिखा गया.

.ई० १६६६ ता० २० मई] को आगरे पहुंचा. बादशाहने जयसिंहके कुंवर रामसिंह व मुखलिसखांको शहरके बाहरतक पेशवाईको भेजा, और विक्रमी ज्येष्ठ कृष्ण ४ [हि० ता० १८ जिल्काद = ई० ता० २३ मई] को अपने दरबारमें बुलाया. बख्शीने शिवाको पांच हजारी मन्सबदारोंकी सफमें खड़ा किया, जिसपर वह बहुत नाराज हुआ, और बड़बड़ाया, क्यों- कि यह इज्जत याने पांच हजारी मन्सब उसके बेटे व दामादको मिलचुकनेके सबब वह अपने वास्ते जियादहका उम्मेदवार था. बादशाहने इस गुस्ताखीसे खफा होकर उसे अपने डेरे चले जानेका हुक्म दिया, और वहां उसे नजर कैद करदिया. वह डेरेमें बीमारीके बहानेसे एक अरसे तक पलंगपर पड़ा रहा, और हिन्दू वैद्योंसे इलाज कराता रहा; कुछ दिनों बाद वह अपना सिहत पाना जाहिर करके मुहताजों और फकीरोंके लिये बड़े बड़े टोकरे मिठाईके भेजने लगा. यहां तक, कि विक्रमी १७२३ भाद्रपद कृष्ण १३ [हि० १०७७ ता० २७ सफर = ई० १६६६ ता० २८ अगस्त] को दोनों बाप बेटे उन्हीं मिठाईके टोकरोंमें बैठकर वहांसे निकल गये, आगे उनके भेजे हुए घोड़े तय्यार थे, जिनपर सवार होकर मथुरा पहुंचे. वहां उसका दोस्त तन्नाजी मालूसरा मिला. ग्रैंटडफ साहिब लिखते हैं, कि वहां उसने अपने बेटे शंभाको एक पंडितके सुपुर्द करके कहा, कि अगर मैं जिन्दह पहुंचूं, तो इस लड़केको मेरे पास ले आना, वरनह इसको दक्षिण में पहुंचा देना. खफ़ीखां लिखता है, कि शंभाको कविकलश ब्राह्मणके पास इलाहाबादमें रक्खा. यहांसे शिवाने वदनपर खाक मलकर फकीरी लिवास बनाया. ग्रैंटडफ साहिबका बयान है, कि वह विक्रमी मार्गशीर्ष [हि० जमादियुस्सानी = ई० डिसेम्बर] में मथुरासे रायगढ़ पहुंचा; और खफ़ीखां कई मोतबर दक्षिणी ब्राह्मणोंके जवानी हवालेसे लिखता है, कि शिवा अपने बहुतसे सर्दारों समेत फकीर बनकर बनारसकी तरफ निकला, रास्तेमें यह गिरोह अली कुली नामी एक शाही मुलाजिमके हाथ पड़गया, उसने इन्हें कैद किया. तब शिवाने उसे एक बेश कीमती लाल और एक हीरा देकर पीछा छुड़ाया; और वहांसे इलाहाबाद, बनारस, पटना, विहार, चंदा वगैरहमें जंगल और पहाड़ोंके रास्ते होता हुआ गोलकुंडेमें कुतुबुल्मुल्कके पास विक्रमी १७२५ [हि० १०७९ = ई० १६६८] में पहुंचा.

इस वक्त गोलकुंडा और बीजापुरके बादशाहोंमें भी नाइतिफाकी होगई थी, क्योंकि कुतुबुल्मुल्कके कई किले बीजापुरवालोंने लेलिये थे. शिवाने गोलकुंडेकी फौजके साथ लड़कर वे किले कुतुबुल्मुल्कको दिलाने बाद उनपर अपना कबजह रक्खा, और एक दो किले उनको आंसू पोछनेके लिये दिये; बाद इसके उसने थोड़े दिन राजगढ़में ठहरकर महाराजा जशवन्तसिंहको अपना दोस्त बनाया, और उसकी

मारिफत शाहजादह मुञ्जमकी सिफारिशसे आलमगीरके पास अर्जी भेजकर राजाका खिताब और बरारके इलाकेमें कुछ जागीर हासिल की. आलमगीर और शिवा दोनों अपने अपने मत्लबके लिये फिरेबी शतरंजकी चाल चलरहे थे. इसमिलावटके सबब तीन लाख रुपये बीजापुरकी तरफसे और पांच लाख गोलकुंडेसे सालियानह चौथके शिवाको मिलने लगे. इसी अरसेमें बीजापुरका इन्दाराजपुर नामी क़िला लेकर जज़ीरामें सीदी फ़तहखांको जाघेरा, परन्तु शिवाको वहांसे शिकस्त खाकर लौटना पड़ा. सीदियोंकी इस मर्दानह कार्रवाईपर खुश होकर आलमगीरने खानिजहांकी मारिफत उनके लिये मन्सब और खिल्अत भेजा. इन सीदी हबशियोंने शिवासे कई लड़ाइयां लड़ने बाद उससे क़िला इन्दाराजपुर भी छीन लिया. विक्रमी १७२७ [हि० १०८१ = ई० १६७०] में शिवाने शहर सूरतको लूट लिया, और एक बड़ी बिकट जगहमें राहेड़ी पहाड़पर एक क़िला तामीर कराकर उसीमें रहने लगा.

आखिर शिवाका बेटा शंभा मए कवि कलश ब्राह्मणके अपने बापसे आमिला. शिवाकी फ़ौजका इन्तिज़ाम नीचे लिखे मुवाफ़िक़ था:-

शिवाकी फ़ौजमें खासकर मावली और हेटकरी कौमोंके लोग थे, जो जंगली और शिवाके फ़र्मावर्दार होनेके सिवा क़िलोंको फ़तह करलेनेमें बहुत मशहूर और होशियार थे. दस आदमियोंके अफ़सरको नायक, पचासके मुख्तारको हवालदार, १०० के मालिकको जुम्लहदार, हजार सिपाहियोंके अधिकारीको हज़ारी कहते थे; और सबसे बड़े अफ़सरको "सर नौबत" का खिताब था. सवारोंकी फ़ौज दो किस्मकी थी, अठ्ठल बारगीर, जिनके पास सर्कारी घोड़े होते थे, दूसरे सिलहदार, जो घरू घोड़ोंसे नौकरी देते थे. सवारोंकी वर्दी याने लिबास घुटने तक तंग मुह्रीका पाय-जामा, रूईदार अंगरखा और बल्दार पगड़ी तथा कमरबन्द था; और हथियारोंमेंसे ढाल, तलवार व भाला रखते थे. पच्चीस सवारोंपर एक हवालदार, १२५ पर जुम्लहदार और पांच जुम्लेदारोंका अफ़सर सूबेदार कहलाता था, जिसके पास एक अहलकार हिसाब रखने वाला रहता था. दस सूबेदारोंका अफ़सर पंज हज़ारी कहलाता था, जिसके तहतमें एक मज़िमदार (मज्मूअहदार) ब्राह्मण अहलकार, एक रोज़नामचह-नवीस, और एक हिसाब रखनेवाला अमीन रहता था. यह सबसे ऊपरका उहदह होता था. इनमें एक ख़बर नवीस भी रक्खा गया था. पैदल सिपाहियोंकी तन्ख़्वाह १ से लेकर ३ पैगोड़ा (१) तक, बारगीरोंकी तन्ख़्वाह २ से ५ पैगोड़ा तक और सिलहदारोंकी ६ से १२ पैगोड़ा तक माहवार मुक़रर थी.

(१) यह सिक्कह ३ से ४ रुपये तकका होता था.

शिवाकी यह आदत थी, कि वह गाय, ब्राह्मण वगैरह मज्दबी लोगों और किसानों तथा औरतोंको तछीफ नहीं पहुंचाता था, और सिवा मुसल्मान व मालदार हिन्दुओंके किसीको कैदकी सजा नहीं देता था. जमीनकी पैदावारके पांच हिस्सोंमेंसे दो हिस्से राज्यमें हासिलके लियेजाते थे. शिवाने अपने राज्य प्रबन्धके लिये आठ प्रधान मुक़रर किये थे— पहिला प्रधान पेशवा, जो कुल कामोंका अपसर आला और रियासतके हरएक कारखाने तथा अपसरोंकी निगरानी रखने वाला था; इस उद्देपर अब्बल पिंगले नियत किया गया; दूसरा प्रधान मजीमदार याने जमा खर्चकी निगरानी रखनेवाला, आवाजी सोनदेव था; तीसरा सूरनीस दफ़तरकी निगरानी रखनेवाला आनाजी दत्तो; चौथा दत्ताजी पन्थ वाकानवीस, याने खास दफ़तर व खास फौजकी संभाल रखने वाला; पांचवां सरनौबत, जो कुल फौजका अपसर व निगहवान था; मगर इस नामके उद्देपर दो शरूस मुक़रर थे, जिनमेंसे सवारोंका प्रतापराव गूजर, और पैदलोंका एशजी कंक; छठा दबीर, जो अज़्लाए गैरके मुआमलात व मस्लिहत में मशगूल रहता, याने दूसरी रियासतोंके वकीलोंसे बात चीत तथा मुलाकात करानेका इस्तिवार रखता था; यह काम सोमनाथ पन्थके सुपर्द था; सातवां न्यायाधीश, इस उद्देपर भी दो शरूस थे, एक नीराजी राव और दूसरा गोमाजी नायक; और आठवां न्याय शास्त्री शंभुपाध्ये था.

आलमगीरके सेनापति खानिजहांसे शिवाकी कई लड़ाइयां हुईं, मगर फ़साद रफ़ा न हुआ, तब आलमगीरने शिवाके बेटे शंभाको छः हज़ारी जात व सवारका मन्सब भेजकर इस भगड़ेको ठंडा किया; लेकिन कुछ अरसे बाद शिवाने बादशाही खालिसहके शहर मूंगापट्टनको लूटकर फिर फ़सादकी बुनयाद उठाई, और आपस में लड़ाइयां होने लगीं. आखिर कार विक्रमी १७३७ ज्येष्ठ कृष्ण १० [हि० १०९१ ता० २४ रबीउस्सानी = ई० १६८० ता० २३ मई] (१) को शिवा फौत होगया. उसके चार औरतें थीं— अब्बल निवालकरकी बेटी सई बाई, दूसरी सिरकेकी बेटी सोयराबाई, तीसरी मोहित्यांकी बेटी पूतलांबाई, और चौथीका नाम मालूम नहीं. सई बाईके गर्भसे शंभा और सोयराबाईके गर्भसे राजा राम पैदा हुआ था. शंभा बड़ा याने पाटवी होनेके सबब गद्दीका हक़दार था; लेकिन जनार्दन पन्थ वगैरह सर्दारोंने उसे बद चलन जानकर बजाय उसके राजा रामको मक़ाम रायगढमें गद्दीपर बिठादिया. यह ख़बर पाकर शंभाने क़िले परनालापर अपना क़बज़ह करलिया, और उसके बाद कोल्हापुर लेकर जनार्दन पन्थको कैद किया. फिर

(१) ग्रैंटडफ़ साहित्य ५ एप्रिलको शिवाका मरना लिखते हैं, और मूलमें मआसिरेआलमगीरके मुवाफ़िक़ २४ रबीउस्सानी लिखा गया, जिसके मुताबिक़ २३ मई होती है.

हमीरराव सेनापति और मोरो पन्थ पिंगलेको मिलाकर रायगढ़को भी अपने कब्ज़हमें लिया, और आना दत्तो तथा अपने भाई राजा रामको कैद करने बाद अपनी सौतेली माता सोयराबाईको यह इल्जाम लगाकर मरवाडाला, कि इसने मेरे पिता (शिवाजी) को ज़हर देकर मरवाडाला है. इसके सिवा दूसरे भी कई मरहटे सर्दारोंको क़त्ल करवाया; और राजा बनकर पंडित कविकलशको अपना प्रधान नियत किया, जिसने उसको आलमगीरके भयसे बचाया था. ग्रैंटडफ़ साहिब कविकलशकी निस्बत लिखते हैं, कि यह शस्त्र एक अच्छा शाइर था, और शंभा इसके कब्ज़हमें था, लेकिन मुल्की इन्तिज़ाम करनेमें कच्चा होनेके सबब रियासती कार वार न संभाल सका, और मुल्की बन्दोबस्त व खज़ानहमें ख़लल आगया.

शंभाकी शुरू हुकूमतमें आलमगीरका चौथा शाहज़ादह मुहम्मद अक़बर अपने बापसे बागी होकर चला आया, जिसको शंभाने क़िले राहेड़ीमें पनाह दी. यह सुनकर आलमगीर, जो उस वक़्त मेवाड़ वालोंसे लड़ रहा था, घबराया; और महाराणा जयसिंहसे सुलह करके फ़ौरन् दक्षिणको रवानह हुआ. विक्रमी १७३८ चैत्र कृष्ण ९ [हि० १०९३ ता० २३ रबीउल्अव्वल = ई० १६८२ ता० ३ मार्च] को वह औरंगाबादमें पहुंचा, मगर शाहज़ादह मुहम्मद अक़बर उसके पहुंचनेसे पहिलेही कुछ दिन क़िले राहेड़ीमें रहकर ईरानको चला गया, और आलमगीरने गाज़ियुद्दीनखांको एक बड़ी फ़ौज देकर शंभासे क़िला राहेड़ी छीन लेनेको विदा किया, जिसने बड़ी कोशिशके साथ उक्त क़िलेको फ़तह करके फ़ीरोजजंगका खिताब हासिल किया. इसके बाद शंभा तो दब गया, सिर्फ़ नामके वास्ते कभी कभी बादशाही फ़ौजोंसे मुक़ाबलह करता रहा; लेकिन अब बादशाहको बीजापुर व गोलकुंडा लेनेकी फ़िक्र हुई, और बड़ी बड़ी लड़ाइयोंके बाद दोनों सल्तनतें फ़तह करली गईं. इसके बाद उसने शंभाको बर्बाद करनेपर क़मर बांधी; विक्रमी १७४४ माघ शुक्ल पक्ष [हि० १०९९ शुरू रबीउस्सानी = ई० १६८८ फ़ेब्रुअरी] में शाहज़ादह मुहम्मद आजमको ४०००० सवार देकर शंभाके मुक़ाबलेके लिये भेजा. शाहज़ादह क़िले बेलगांवको फ़तह करके बादशाहके पास चला आया.

विक्रमी १७४५ फाल्गुन शुक्ल पक्ष [हि० ११०० शुरू जमादियुल्अव्वल = ई० १६८९ फ़ेब्रुअरी] में शैख़ निज़ाम हैदराबादी, जिसका खिताब मुक़र्रबखां था, बादशाहके हुक़मसे परनालेको रवानह हुआ; वहां पहुंचनेपर उसको ख़बर मिली, कि शंभा क़िले परनालासे खेलनाकी तरफ़ वैरागियोंका फ़साद मिटानेको गया,

और वहांसे संगमेश्वर, जहां बाणगंगाका तीर्थ है पहुंचा; यहां उसके प्रधान कवि कलशके बनाये हुए बाग व मकानात वगैरह भी थे. वहां पहुंचकर वह तीर्थ स्नान, दान पुण्य व पूजन वगैरह करने बाद ऐश व इश्रतमें मशगूल था. यह खबर सुनकर मुकर्रबखाने फौजी काफिलेको शोलापुरके पास छोड़ा, और चुनेहुए सिपाहियों के साथ ४५ कोसकी सरत पहाड़ी घाटियोंको तै करता हुआ बड़ी मुश्किलसे उस मकानके करीब पहुंचा, जहां शंभा कियाम रखता था. उस वक्त उसके साथ २००० सवार और १००० पैदल थे. यह हालत देखकर शंभाको उसके नौकरोंने गफ़लत की नींदसे होशयार होनेकी खबर दी. वह शराबके नशे में चूर था; कहा, कि यहां बादशाही फौज नहीं आसक्ती; और खबर लानेवालोंको धमकाया. इसी अरसेमें मुकर्रबखां भी आ पहुंचा; शंभाने तीन चार हजार सवारों से मुकाबलह किया, परन्तु अक्सर लोगोंके भागजानेके सबब वह मए कवि कलश ब्राह्मणके मुकर्रबखांकी गिरिफ्तारीमें आया; और शंभाकी एक स्त्री भी अपने बेटे साहू व २५ रिशतहदारों सहित गिरिफ्तार हुई. इन लोगोंको गिरिफ्तार करके मुकर्रबखांने उसी वक्त वापस कूच किया. शंभाकी सरत मिजाजीसे कुल मरहटे नाराज थे, इसलिये किसीने उसके छुड़ानेमें कोशिश न की; और विक्रमी १७४५ फाल्गुन शुक्ल ७ [हि० ११०० ता० ५ जमादियुल्अव्वल = ई० १६८९ ता० २६ फेब्रुअरी] को वह वहादुरगढ़में बादशाहके साम्हने लाया गया.

जब शंभाको बादशाहके साम्हने लाये, उस वक्त आलमगीर तरतसे उतरकर खुदाका शुक्रियह अदा करनेलगा. उस समय कवि कलशने शाइरीमें कहा, कि ऐ शंभा राजा ! तेरा रोव ऐसा तेज है, कि बादशाह भी तुभको देखकर तरतसे उतरगया. बाद इसके वे दोनों मुसल्मानोंके पैगम्बरों व बादशाहको गालियां देने लगे. बादशाहने दोनोंकी जवानें कटवाकर गर्म लोहेकी सलाखें आंखोंमें फिरवादीं; और बड़ी जिहलतके साथ इनके सिर कटवाने बाद शंभाके बेटे साहू (१) व मदनसिंह तथा अधोसिंहको असदखां वजीरके पास डेरोंमें रहने की इजाजत दी. सात वर्षकी उम्र वाले साहूको बादशाहने सात हजारीका मन्सब इनायत किया था.

(१) कप्तान डव्ल्यू० लॉकने बम्बई गज़ेटिअरके लिये पूना, सितारा, और शोलापुरकी, जो तवारीख लिखी है, उसमें शंभाके गिरिफ्तार होने बाद रायगढ़में शाहजीका विक्रमी १७४७ [हि० ११०१ = ई० १६९०] में गिरिफ्तार होना लिखा है.

अब शिवाके दूसरे बेटे राजाराम ने मरहटी राज्यका प्रबन्ध अपने हाथमें लिया, और बादशाही मुलाजिमोंसे खूब लड़ाइयां करने लगा, जिसके शरीक नीचे लिखे हुए आदमी थे:-

प्रल्हाद नीरा, जनार्दन पन्थ हनमन्त, रामचन्द्र पन्थ बोरीकर, महादा नायक पानसंबल, सन्ता घोरपड़ा, धन्ना जादव, और खन्डेराव दाभड.

राम राजा पहिले किले गंजीमें रहा, और कई लड़ाइयां होने बाद आलमगीरके सेनापति जुल्फिकारखाने उसे वहांसे निकाला. वह निकलकर विशालगढ़में आया, वहांसे विक्रमी १७५४ [हि० ११०८ = ई० १६९७] में सितारे पहुंचकर उसको अपनी राजधानी बनाया, और रामचन्द्र पन्थको मन्त्री किया. शंकरा नारायणको सचिव बनाया. आखिरकार सन्ता घोरपड़ा आपसकी लड़ाइयों में मारा गया, और उसकी जगह धन्ना जादव सेनापति मुकर्रर किया गया, जो सन्ताका दुश्मन था.

विक्रमी १७५६ [हि० ११११ = ई० १६९९] में रामराजा ने एक बड़ी चढ़ाई करके बरार, खान देश, और बगलाना वगैरहपर हुकूमत जमाई, जिससे आलमगीरने नाराज होकर पहाड़ी किले छीन लेनेका हुकम दिया. पहिले उसने बसन्तगढ़ लेकर सितारेका मुहासरह किया; और उस किलेको कई महीनों बाद फतह करलिया. इन्हीं दिनोंमें राम राजाका इन्तिकाल होगया. इसके दो बेटे थे, जिनमेंसे बड़ा शिवा गद्दीपर बिठाया गया, और औरंगजेबने पुरन्दरसे परनाले तक किले लेलिये; लेकिन मरहटे लोग लूट खसोट करके उनको दिक् करते रहे.

विक्रमी १७६२ [हि० १११७ = ई० १७०५] में रायगढ़ और तोरणाका किला लेकर आलमगीर कुछ दिनों जिनारके नज्दीक रहा, फिर बीजापुरको गया. इस अरसेमें मरहटोंने परनाला और पवनगढ़के किलोंपर फिर अपना कबजह जा जमाया. इस कामका करने वाला रामचन्द्र पन्थ था. इधर परसराम त्रिंबकने बसन्तगढ़ और सितारा छीन लिया, और शंकरा नारायणने सिंहगढ़, रायगढ़ वगैरह किलोंपर कबजह करलिया. आलमगीर मुल्क दवाता हुआ अहमदनगरमें पहुंचा, और वहीं मरगया; तब उसके शाहजादे मुहम्मद आजमने आगरेकी तरफ कूच करते वक्त शंभाके बेटे साहूको छोड़दिया. उसने परसो घोंसला, चीमा दामोदर, हैबतराव नीवालकर, नीमा सेंधिया वगैरहको मिलाकर बड़ी फौजके साथ दक्षिणकी तरफ कूच किया; लेकिन धन्ना जादव इसका मुखालिफ बनकर रोकनेको आया,

जिसके साथ परसराम त्रिबक भी था; भीमा नदीके किनारे खेड़के पास मुकाबलह हुआ. लड़ाई होने बाद जब परसरामको मालूम हुआ, कि धन्ना पोशीदह तौरपर साहू राजासे मिलगया है, वह सितारेको भाग गया; पीछेसे साहू राजा भी फौज लेकर चला, और सितारेपर कबज़ह करके विक्रमी १७६५ चैत्र [हि० ११२० मुहर्म्म = ई० १७०८ मार्च] में शंभाकी जगह गद्दीपर बिठाया गया. उसने धन्नाको सेनापति, बाला विश्वनाथ भट्टको कारकुन, जो पेशवा खानदानकी बुन्याद डालने वाला था, गदाधर प्रल्हादको प्रतिनिधि, और भैरव पन्थ पिंगलेको पेशवा मुकर्रर किया. शिवाके खानदानमें आपसकी बहुतेरी लड़ाइयां होती रहीं, लेकिन राजा साहू हर एकमें फतहयाव होता गया; परनाला और विशाल गढ़ भी राम राजाके कुटुम्बसे छीन लियेगये. इन्हीं दिनोंमें धन्ना मरगया, और उसकी जगह उसका बेटा चन्द्रसेन सेनापति बनाया गया. विक्रमी १७६७ [हि० ११२२ = ई० १७१०] में राम राजाकी स्त्री तारा-वाईने परनाला छीन लिया, और कोल्हापुर वगैरह ज़िलोंपर भी कबज़ह करलिया, साहू राजाके मुलाज़िमोंमें ना इत्तिफ़ाकी होने लगी, जो शुरूमें तो पोशीदह तौरपर ही होती रहीं, परन्तु विक्रमी १७७० [हि० ११२५ = ई० १७१३] में चन्द्रसेन जादव व बाला विश्वनाथमें जाहिरा लड़ाई हुई, जिसपर बाला भागकर पुरन्दर होता हुआ पांडूगढ़ पहुंचा, मगर चन्द्रसेनने उसको वहां भी जाघेरा. तब साहू राजाने बालाका मददगार बनकर हैबतराव नीवालकरको उसकी मददके लिये भेजा. चन्द्रसेन उससे शिकस्त खाकर पहिले कोल्हापुर और पीछे निज़ामके पास पहुंचा, जिसने उसको एक जागीर भी दी. साहू राजाने सेनापतिका काम मन्ना मोरे को दिया, और बाला विश्वनाथका बहुत कुछ इस्तियार बढ़ाया. कुछ अरसह बाद निज़ामसे साहू राजाके प्रधान बाला विश्वनाथकी लड़ाई हुई; और इसके खत्म होने पीछे और भी कई लड़ाइयां होती रहीं. आखिरकार विक्रमी १७७१ [हि० ११२६ = ई० १७१४] में बालाने साहू राजाका पेशवा नियत होकर अपना बहुतसा इस्तियार बढ़ालिया. विक्रमी १७७५ [हि० ११३० = ई० १७१८] में वह दिल्ली गया, और वहांसे कई जागीरोंकी सनद हासिल करके विक्रमी १७७७ [हि० ११३२ = ई० १७२०] में वापस आने बाद मरगया.

विक्रमी १७७८ [हि० ११३३ = ई० १७२१] में बाला विश्वनाथका बेटा बाजीराव पेशवा बना. विक्रमी १७८४ [हि० ११३९ = ई० १७२७] में निज़ामुल्मुल्कने कोल्हापुर व सितारामें फ़साद उठाया; निज़ामुल्मुल्क और साहूके आपसमें लड़ाई हुई, जिसमें निज़ामने शिकस्त खाई. विक्रमी १७८६ [हि० ११४१]

= ई० १७२९] में कोल्हापुरके राजा शंभासे साहूकी लड़ाई हुई, और उसमें राम राजाकी विधवा ताराबाई गिरिफ्तार होकर सितारामें आई. तब शंभाने साहूसे सुलह करली. विक्रमी १७८७ [हि० ११४२ = ई० १७३०] में एक अहदनामह आपसमें करार पाया, कि जिसके मुताबिक दो नदियां याने वारना और कृष्णा दोनों रियासतोंकी सहद काइम हुई; तास गांव व मीरज वगैरह दूसरे जिले राजा साहूको मिले. फिर त्रिंबकराव दाभाडे और बाजीराव पेश्वासे लड़ाई हुई, जिसमें त्रिंबकराव मारा गया. तब उसका बेटा जशवन्तराव सेनापति बनाया गया, जिसके बालक होनेके सबब पेला गायकवाड़ उसके तअल्लुकके कार बारकी निगरानीपर मुकर्रर हुआ. विक्रमी १७९२ [हि० ११४८ = ई० १७३५] में जंजीरेके सीधियोंसे रायगढ़ छीन लिया.

विक्रमी १७९७ वैशाख शुक्ल १ [हि० ११५३ ता० २९ मुहर्रम = ई० १७४० ता० २८ एप्रिल] को बाजीराव मरगया, और उसका बेटा बाला बाजीराव पेश्वा हुआ. इस वक्त हिन्दुस्तानमें अकसर जगह मरहटे फैलगये. विक्रमी १८०६ [हि० ११६२ = ई० १७४९] में साहू राजा लावलद मरगया. साहूने पेश्तर उदयपुरके महाराणा दूसरे जगत्सिंहसे दरुवास्त की थी, कि अपने छोटे भाई नाथसिंह को, जो बागौरके महाराज हैं, मुझे दत्तक दीजिये; लेकिन कई कारणोंसे महाराणाने इस बातको मंजूर नहीं किया.

साहू राजाके मरने बाद सीसोदिया मरहटोंकी रियासत बिल्कुल ब्राह्मणों याने पेश्वाओंके हाथमें चली गई; उनकी विधवा सकवारबाईने कोल्हापुरसे शंभा राजाको गोद लेना चाहा, लेकिन ताराबाईने राम राजाको शिवाका बेटा और अपना पोता बतलाकर गोद रखा दिया. वह साहूका दत्तक होकर सितारेका मालिक बना. साहूके मरने बाद बाला बाजीराव पेश्वा सितारेमें आया, और प्रतिनिधिको कैद करके सकवारबाईको सती करवा दिया; उसने रियासतका इन्तिजाम करके राघव घोंसलाको अपनी तरफ करलिया, (जो पीछे नागपुरके राजाओंकी बुनयाद डालने वाला हुआ). मालवाके जिले, जो बाजीराव पेश्वाने हासिल किये थे, हुल्कर, संधिया व पंवारने तक्सीम करलिये. पेश्वाने साहू राजाके प्रतिनिधि जगजीवनको कैदसे रिहा किया, मगर बहुतसी जागीर उसकी लेली. फिर यमा शिवदेवने बगावत उठाई, लेकिन उसको पेश्वाके रिश्तेदार सदाशिव भाऊने रोका. पेश्वाने पन्थ सचिवसे सिंहगढ़का किला लेलिया, और सितारेका किला ताराबाईके सुपुर्द किया; वह वहांपर मए राम राजाके रही. इसने फसाद उठाना चाहा, परन्तु काम्याब न हुई, तब दामा गायकवाड़को बुलवाया. कृष्णा नदीके किनारे आरला और नीमके करीब पेश्वाके अप्सरोंसे लड़ाई हुई; दामाने फतहयाब होकर कई

किले ताराबाईको दिला दिये. नाना पुरन्दरीने हमला करके दामाको भगा दिया. वह वाईके करीब जौरखोरा ग्राममें जा ठहरा, जहां पहुंचकर पेशवाने उसे गिरिफ्तार किया, और कैद करके पूनामें भेजदिया; सितारा ताराबाई व राम राजाके कबज़हमें रहने दिया. पेशवाके चले जाने बाद ताराबाईने रामोसियोंकी एक बड़ी फौज एकट्ठी की, और वाई तथा सिताराके जिलोंपर कबज़ह करलिया. विक्रमी १८११ [हि० ११६७ = ई० १७५४] में दामा गायकवाड़ पेशवाका दोस्त बनकर रिहा हुआ, और उसने पेशवाके भाई रघुनाथरावके साथ गुजरातमें जाकर अहमदाबादपर कबज़ह करलिया. विक्रमी १८१८ [हि० ११७४ = ई० १७६१] में पेशवाकी फौजमेंसे सदाशिव भाऊ व पेशवाके बेटे विश्वासराव वगैरह पानीपतकी लड़ाईमें अहमदशाह अब्दालीसे लड़कर मरेगये. इस खबरके सुननेसे थोड़े दिनों बाद बाला वाजीराव पेशवा भी मरगया, और उसका बेटा माधवराव पेशवा हुआ. इसी विक्रमीके मार्गशीर्ष [हि० ११७५ जमादियुलअव्वल = ई० डिसेम्बर] में ताराबाई भी इन्तिकाल करगई; फिर माधवराव और उसके काका रघुनाथरावमें नाइतिफाकी हुई, लेकिन रघुनाथरावने औरंगाबादके मुसल्मान हाकिमसे मदद लेकर अपने भतीजेको शिकस्त देने बाद कुल कारोबार अपने हाथमें लेलिया; मगर उसने अपनी मददके लिये मुसल्मानोंको जो जिला देनेका इक़ार किया था, वह पूरा नहीं किया. इस पर निज़ाम व पेशवासे लड़ाइयां हुई; निज़ामने पूना और दूसरे मुल्कको भी बर्बाद किया, लेकिन गोदावरीके किनारे राक्षसवन (राक्षसवन) के पास शिकस्त खाई. विक्रमी १८२५ [हि० ११८१ = ई० १७६८] तक माधवरावने अपने चचाके साथ मेल रक्खा, उसके बाद रघुनाथराव वागी हुआ, जिसको माधवरावने कैद करलिया.

विक्रमी १८२९ [हि० ११८६ = ई० १७७२] में माधवराव मरगया. इसके मरनेसे बड़े बड़े सर्दार खुद मुख्तार होगये, और गवर्मेन्ट अंग्रेजीको भी दरुल देनेका मौका मिला. माधवरावका छोटा भाई नारायण राव पेशवा बना, जो थोड़े दिनों बाद मारडाला गया. फिर उसका चचा रघुनाथराव पेशवा बना, लेकिन उससे सब सर्दार नाराज़ थे; उनको मालूम होगया, कि नारायणरावकी विधवा स्त्रीको गर्भ है, इसलिये उसे किले पुरन्दरमें लेगये, और विक्रमी १८३१ अधिक वैशाख [हि० ११८८ सफ़र = ई० १७७४ एप्रिल] में लड़का पैदा होनेपर उसका नाम दूसरा माधव राव रक्खा. इस बातसे रघुनाथराव दबकर गुजरातमें चलागया, क्योंकि उसको गवर्मेन्ट अंग्रेजीसे मददकी उम्मेद थी, परन्तु गवर्मेन्ट बंगालके हुकमसे कर्नेल

अष्टमने व मकाम पुरन्दर विक्रमी १८३३ चैत्र शुक्ल पक्ष [हि० ११९० सुहरम = ई० १७७६ मार्च] में पेशवाके अह्दनामहपर दस्तखत करदिये, इससे रघुनाथराव ना उम्मेद होगया. विक्रमी १८३४ [हि० ११९१ = ई० १७७७] में राम राजा दत्तक, जो नामके लिये सितारेका राजा कहलाता था, मरगया; और उसकी जगह दत्तक राजा साहू दूसरा गद्दीपर बिठाया गया.

इसके बाद गवर्मेण्ट अंग्रेजीके साथ हुल्कर व सेंधिया वगैरह मरहटोंकी कई लड़ाइयां हुई, और अक्सर मरहटे गालिब रहे. विक्रमी १८३९ [हि० ११९६ = ई० १७८२] में गवर्मेण्ट अंग्रेजीके साथ दूसरा अह्दनामह हुआ, जिससे सालसेटीके सिवा कोकणका इलाकह मरहटोंको देकर रघुनाथरावको पेन्शन देनेका इक्रार करना पड़ा; इसके बाद कई सालतक अमन रहा.

माधवराव पेशवा, जो नाना फड़नविसके दबावमें था, विक्रमी १८५२ आश्विन शुक्ल १० [हि० १२१० ता० ९ रबीउस्सानी = ई० १७९५ ता० २३ ऑक्टोबर] को खुद कुशीके इरादेसे महलसे गिरकर मरगया. विक्रमी १८५३ मार्गशीर्ष [हि० १२११ जमादियुस्सानी = ई० १७९६ डिसेम्बर] में रघुनाथरावका बेटा बाजीराव, जो नाना फड़नविसकी कैदमें था, शिवनेरसे लायाजाकर माधवरावकी जगह पेशवा बनाया गया. इन्हीं दिनोंमें सितारेका राजा साहू, जो एक कैदीके मुवाफिक था, किले सितारापर कब्रिज होगया; और कुछ लड़ाई होने बाद कैदी बनाया गया. राजाका भाई चतरसिंह कोल्हापुरको भाग गया, तब पेशवाकी फौज परशराम भाऊकी मातहूतीमें कोल्हापुरसे लड़ती रही. आखिरकार परशराम कोल्हापुर वालोंके हाथसे मारागया, और उसकी फौज भाग गई. दोबारह फौज भेजी गई, लेकिन नाना फड़नविसके मरनेसे पेशवाको कोल्हापुरसे सुलह करनी पड़ी.

विक्रमी १८५९ पौष [हि० १२१७ शरव्वान = ई० १८०२ डिसेम्बर] में पेशवा बाजीराव दूसरेने अंग्रेजोंके साथ अह्द करलिया, जिस वक्त कि वह जशवन्तराव हुल्करसे शिकस्त खाकर पूनाको छोड़ भागा था. अंग्रेजी फौजने बाजीरावको मदद देकर पूनामें बिठाया, लेकिन उसने अपने सदांरोंपर बहुतसी सख्तियां कीं, और मुल्कमें बंद इन्ति-जामी फैलती रही. तब दूसरी दफा विक्रमी १८७४ ज्येष्ठ [हि० १२३२ रजब = ई० १८१७ मई] में गवर्मेण्ट अंग्रेजीसे अह्दनामह हुआ, जिसमें यह मल्लब था, कि अह्मदनगरका किला और कंटिन्जेण्ट फौज खर्चके एवज सिंहगढ़, पुरन्दर व रायगढ़ वगैरह किले देकर सदांरों व जागीरदारोंके साथ उस अह्दनामहके मुवाफिक कार्रवाई करे, जो विक्रमी १८६९ [हि० १२२७ = ई० १८१२] में हुआ था. विक्रमी १८७४

कार्तिक कृष्ण ११ [हि० १२३२ ता० २४ जिल्हज = ई० १८१७ ता० ५ नोवेम्बर] को पेशवाने दगाबाजीसे पहिले गवर्मेण्टकी मदद करनेका वादा किया, लेकिन उसके बखिलाफ अंग्रेजी फौजपर हमलह करदिया. लड़ाईमें बाजीराव पेशवा भागगया, और अंग्रेजोंने पूनापर दरुल करके उसका पीछा किया. विक्रमी १८७४ पौष कृष्ण ९ [हि० १२३३ ता० २३ सफर = ई० १८१८ ता० १ जैनुअरी] को भीमा नदीके किनारे कोड़ गांवके करीब २५००० मरहटी फौजका मुकाबलह जेनरल स्मिथने अंग्रेजी लश्करके ८०० आदमियोंसे किया, और फतह पाकर सितारा भी लेलिया, क्योंकि सिताराके राजाको भी पेशवाने अपना शरीक बनाया था. इसी विक्रमीकी माघ शुक्ल १४ [हि० ता० १४ रबीउरसानी = ई० ता० २० फेब्रुअरी] को जेनरल स्मिथने पेशवाको जालिया, मुकाबलह होने बाद सितारेका राजा गिरिफतार हुआ, और पेशवा भाग गया, लेकिन वह भी विक्रमी १८७६ ज्येष्ठ [हि० १२३४ रजब = ई० १८१९ मई] में धूलकोटके पास सर जॉन माल्कमके ताबे होगया. सिताराके राजा साहू दूसरेकी जगह विक्रमी १८७५ चैत्र शुक्ल ८ [हि० १२३३ ता० ७ जमादियुस्सानी = ई० १८१८ ता० १४ एप्रिल] को उसका बेटा प्रतापसिंह गद्दीपर बिठायागया. पेशवाके बाकी किलोंपर भी गवर्मेण्ट अंग्रेजीने कब्जह करलिया, और सिताराके शामिल नीरा नदीसे वारना तक और घाट (सह्याद्रि) से भीमा तक इलाकह रहने दिया, लेकिन राजाके होश्रार होने तक कप्तान ग्रैंटडफ रियासती इन्तिजामके वास्ते मुकर्रर हुआ, और बाकी जिले दूसरे अफसरोंके सुपर्द किये गये. सबका अफसर मिस्टर एल्फिन्स्टन था. विक्रमी १८७९ वैशाख [हि० १२३७ रजब = ई० १८२२ एप्रिल] में राजा प्रतापसिंहको पूरा इस्तिथार दियागया, लेकिन थोड़े दिनोंके बाद वह अंग्रेजोंके दबावसे नफरत और अहदनामहकी शर्तोंके खिलाफ दूसरे रईसोंसे खत किताबत करने लगा; तब गवर्मेण्ट अंग्रेजीने उसे विक्रमी १८९६ [हि० १२५५ = ई० १८३९] में गद्दीसे खारिज करके नजर कैदीके तौर इज्जतके साथ बनारस भेजदिया; और उसके छोटे भाई शाहजीको गद्दीपर बिठाया. उसने राज्यका प्रबन्ध बहुत उम्दह किया, विक्रमी १९०५ [हि० १२६४ = ई० १८४८] में शाहजी मरगया. उसके कोई औलाद न होनेके सबब गवर्मेण्ट अंग्रेजीने राज्यको अपने मुल्क में शामिल किया, और उसकी तीन विधवा राणियोंके लिये पेन्शन मुकर्रर करदी, जो विक्रमी १९३१ [हि० १२९१ = ई० १८७४] तक सब इस दुनूयासे कूच करगई, और सिताराके राज्यका खातिमह हुआ. सिर्फ एक शाख इस खानदानकी कोल्हापुरमें बाकी रही, जो शिवाके दूसरे बेटे राम राजाकी औलादमें है.

कोल्हापुर.

इस देशपर पहिले सिल्हारा व यादव राजपूतोंका अधिकार था. विक्रमी १००६ [हि० ३३७ = ई० ९४९] से विक्रमी १२६३ [हि० ६०१ = ई० १२०५] के करीब तक सिल्हारा वंशके राजा १ जतिग, २ नाइम्म, (नाइवर्मा), ३ चन्द्रराज, ४ जतिग दूसरा, ५ गौडू, ६ मारसिंह, ७ गूवल, ८ भोज, ९ बल्लाल, १० गंडरादित्य, ११ विजयार्क, और १२ भोज दूसरा, क्रमसे राज्य करते रहे. फिर दूसरे भोजसे देवगिरिके यादव राजा जैत्रपालके पुत्र सिंघनने कोल्हापुरको छीनकर देवगिरिमें मिला लिया. सिंघनके बाद कृष्ण, महादेव, रामदेव और शंकर देवगिरिके राजा हुए. रामदेवके वक्तमें अलाउद्दीन खिल्जीने देवगिरिपर हमलह किया, तबसे यादव कमजोर हुए. विक्रमी १३७५ [हि० ७१८ = ई० १३१८] में अलाउद्दीनके तीसरे बेटे मुबारकने यादवोंका खातिमह किया, और देवगिरिपर अपना कबजह जमा लिया; उस वक्तसे कोल्हापुर भी मुसलमानोंके कबजहमें आया. इसके बाद विक्रमी १७१६ [हि० १०६९ = ई० १६५९] में शिवा घोंसलाने वहांपर अपना दरूल किया.

शिवाके दूसरे बेटे राम राजा (१) के दो बेटे, शिवा और शंभा थे. जब राम राजाका इन्तिकाल विक्रमी १७५७ [हि० ११११ = ई० १७००] के करीब होगया, तब उसका बेटा शिवा गद्दी नशीन हुआ; और बारह वर्ष तक रियासतपर हुकमरानी करने बाद विक्रमी १७६९ [हि० ११२४ = ई० १७१२] में फौत होगया. इसके बाद उसका छोटा भाई शंभा गद्दीपर बैठा, जिसके वक्तमें कई बार अंग्रेजी फौजकी चढ़ाइयां हुईं. वह विक्रमी १८१७ [हि० ११७३ = ई० १७६०] में लावलद इन्तिकाल करगया. इसलिये घोंसला खानदानसे एक लड़का लाया गया, जिसको दूसरा शिवा नाम रक्खा जाकर रियासतका वारिस काइम किया; और राज्यका प्रबन्ध शंभाकी विधवा स्त्री करती रही; लेकिन बहुतसे फसादोंकी तरकी होनेके सिवा अन्नकी सूरत न देखकर गवर्मेण्ट अंग्रेजीने विक्रमी १८२२ [हि० ११७८ = ई० १७६५] में वहां फौज भेजी, और एक अहदनामह आपसमें करार पाया, जिसका नतीजह कुछ न निकला. तब सरकार इंग्लिशियहने विक्रमी १८४९ [हि० १२०६ = ई० १७९२] में फिर फौज

(१) राम राजाकी विधवा स्त्री तारा बाई और उसके बेटोंने सितारासे जुदा होकर कोल्हापुरकी

राजधानी काइम की.

भेजी, और दोवारह अहदनामह हुआ. विक्रमी १८६८ [हि० १२२६ = ई० १८११] में राजाकी कई लड़ाइयां दक्षिणकी दूसरी रियासतोंके साथ हुई, और गवर्मेण्ट अंग्रेजीने बीचमें पड़कर फ़साद मिटाया. इस मौकेपर तीसरी दफ़ा और अहदनामह होने बाद विक्रमी १८६९ [हि० १२२७ = ई० १८१२] में दूसरा शिवा मरगया. इसके दो बेटे १ शंभू या आबा साहिब, और २ शाह या बाबा साहिब थे. इनमेंसे बड़ा आबा साहिब गद्दीपर बैठा. विक्रमी १८७४ [हि० १२३२ = ई० १८१७] में इसने पेशवाके मुकाबलहपर अंग्रेजोंको मदद दी, जिसके एवज़ सर्कारसे कुछ ज़िले भी हासिल किये; लेकिन विक्रमी १८७८ [हि० १२३६ = ई० १८२१] में वह मारागया, और उसका एक बच्चा, जो बाकी रहा था, वह भी मरगया; तब उसका छोटा भाई शाह बाबा साहिब विक्रमी १८७९ [हि० १२३७ = ई० १८२२] में गद्दीपर बैठा.

विक्रमी १८७९ से १८८६ [हि० १२३७ से १२४४ = ई० १८२२ से १८२९] के दरमियान सर्कार अंग्रेजीको उसपर तीन बार फ़ौज भेजनी पड़ी; और इन लड़ाइयोंमें तीन ही दफ़ा अहदनामह बदलागया. विक्रमी १८९५ मार्गशीर्ष शुक्ल १३ [हि० १२५४ ता० ११ रमजान = ई० १८३८ ता० २९ नोवेम्बर] को बाबा साहिबका देहान्त हुआ, और उसका कम उम्र बच्चा तीसरा शिवा गद्दीपर बिठाया गया. इस अरसेमें रियासतका इन्तिज़ाम शिवाकी माता और एक कॉन्सिलने किया, मगर फिर गवर्मेण्ट अंग्रेजीको निगरानी रखनी पड़ी. विक्रमी १९१९ [हि० १२७८ = ई० १८६२] में राजाको इस्तिथार देकर सर्कारने एक अहदनामह काइम किया. यह राजा विक्रमी १९१४ [हि० १२७३ = ई० १८५७] के गद्दमें सर्कारका खैरख़्वाह रहा था. विक्रमी १९२३ [हि० १२८२ = ई० १८६६] में इसके लावलद मरजानेपर इसकी बहिनका बेटा राजा राम गोद लिया जाकर राजका मालिक बनाया गया, जो विक्रमी १९२७ [हि० १२८७ = ई० १८७०] में यूरोपकी सैर को गया, और उसी तरफ़ इटलीकी राजधानी फ़्लॉरेन्समें मरगया. इसके बाद नारायणराव घोंसलेको दत्तक लिया, जिसका नाम गद्दीपर बैठने बाद चौथा शिवा रक्खा गया. वह विक्रमी १९४० पौष कृष्ण ११ [हि० १३०१ ता० २४ सफ़र = ई० १८८३ ता० २५ डिसेम्बर] को लावलद मरगया, उसकी जगह कागल वालोंके बेटे जशवन्तरावको गोद रक्खा जाकर गद्दीपर बिठाया गया, और उसका नाम शाह रक्खा गया. इस रियासतकी सलामी १९ तोप, क्षेत्रफल (१) २८१६ मील मुरब्बा,

(१) डॉक्टर हंटरके गज़ेटिअरसे लिखा गया है.

आबादी ८००१८९ आदमी और आमदनी २२१९७६०) रुपये सालानह है.

तंजावर.

तंजावरकी रियासत भी सिताराके राजाओंकी एक छोटी शाख है. एचिसन् साहिबकी टूटीकी पांचवीं जिल्दमें लिखा है, कि शिवाका चचा व्यंका (१) इस रियासतकी बुन्याद डालने वाला हुआ, और उसीके वंशमें साहू था, जिससे प्रतापसिंहने, जो कम अस्ल था, यह रियासत ज़बर्दस्ती छीन ली. यह औरंग-जेब और फ़रांसीसियोंके दुर्मियान पहिले लड़ाइयां होनेके वक़्त तंजावरपर क़ाबिज़ था.

विक्रमी १८१९ [हि० ११७५ = ई० १७६२] में कर्नाटकके नव्वाबने इस राजापर चढ़ाई करनेमें अंग्रेज़ोंसे मदद चाही, मगर मदरास गवर्मेण्टने बजाय फ़ौजी मदद देनेके मध्यस्त होकर पिछले चढ़े हुए बाईस लाख रुपये ख़िराजके दिलाकर आइन्दहके लिये चार लाख रुपया सालानह देनेका इक़ार राजासे करादिया.

इसके बाद प्रतापसिंह मरगया, और उसके बेटे तुलजाने विक्रमी १८२८ [हि० ११८५ = ई० १७७१] में रमनाडपर चढ़ाई की, जो कर्नाटकके मातहत था. तब नव्वाब कर्नाटककी दुर्खास्तके मुवाफ़िक़ अंग्रेज़ोंने राजापर फ़ौज भेजी; लेकिन नव्वाबके बेटेने राजासे बाला बाला एक अहदनामह करलिया, जिसमें यह दर्ज था, कि आठ लाख रुपये चढ़े हुए ख़िराजके और साढ़े बत्तीस लाख फ़ौज खर्चके देकर सुलह करलेवें. गवर्मेण्ट अंग्रेजी इस अहदसे नाखुश हुई. राजा इस अहदनामहकी शर्तोंको पूरा न कर सका, तब वेळमका क़िला और कोइलाडी व यलागरके ज़िले नव्वाबको देदिये.

विक्रमी १८३० [हि० ११८७ = ई० १७७३] में जब इस राजाका मैसोरवाले नव्वाब हैदरअलीसे मिलावट रखना पाया गया, तो अंग्रेज़ोंने नव्वाबके ज़रीएसे फ़ौज भेजकर विक्रमी आश्विन कृष्ण ११ [हि० ता० २८ जमादियुस्सानी = ई० ता० १६ सेप्टेम्बर] को उससे तंजावर छीन लिया, और उसको क़िलेमें कैद करलिया; लेकिन ईस्ट इण्डिया कम्पनीने मदरास गवर्मेण्टको राजाका मुल्क उसे वापस देदनेके लिये कहा, जिसपर विक्रमी १८३३ वैशाख कृष्ण ८ [हि० ११९० ता० २१ सफ़र = ई० १७७६ ता० ११ एप्रिल] को राजाको पीछा इख़्तियार दिया गया; और एक अहदनामह

(१) डॉक्टर हंटर इसको शिवाका भाई लिखते हैं.

इस मल्लवसे करार पाया, कि राजा कम्पनीके बखिलाफ़ न हो, और चार लाख पैगोड़ा फौज खर्च तथा २७७ गांव देवे.

विक्रमी १८४४ [हि० १२०१ = ई० १७८७] में तुलजाका देहान्त होगया, और उसका सौतेला भाई अमीरसिंह गद्दीपर बैठा. उसके साथ एक अह्दनामह किया गया, जिसमें दर्ज था, कि राजा पांच हिस्सोंमेंसे दो हिस्से खिराज दिया करे, और जब वह लड़ाईमें मदद चाहे, तो उस वक्त दूना खिराज लिया जावे; हर साल तीन लाख पैगोड़ा कर्ज अदा करनेके लिये देता रहे; और कर्नाटक के नव्वाबने, जो खिराज अंग्रेजोंको देना कुबूल किया, वह भी अदा किया करे.

मैसोरके टीपू सुल्तानकी लड़ाई खत्म होनेपर विक्रमी १८४९ श्रावण कृष्ण ९ [हि० १२०६ ता० २२ जिल्काद = ई० १७९२ ता० १२ जुलाई] को अमीरसिंहके साथ दूसरा अह्दनामह हुआ, लेकिन अगले महाराजा तुलजाने शरफू नामी एक लड़का गोद लिया था, जिसके बखिलाफ़ अमीरसिंह बैठ गया, और उसको अंग्रेजी अफसरोंने भी मंजूर करलिया. मगर अपील होनेपर वह गद्दीसे उतारा गया, और शरफू बिठाया गया, जिसके साथ विक्रमी १८५६ कार्तिक कृष्ण १२ [हि० १२१४ ता० २५ जमादि युलअव्वल = ई० १७९९ ता० २५ अक्टोबर] को फिर अह्दनामह हुआ. इसके वक्तसे रियासतका बिल्कुल इस्तिथार सरकार अंग्रेजीके हाथमें चला गया; राजाको आमदनीका सिर्फ पांचवां हिस्सह और एक लाख पैगोड़ा सालानह मिलने लगा. अमीरसिंहकी पच्चीस हजार पैगोड़ा सालानह पेन्शन मुकर्रर हुई, जो अह्दनामह करार पानेके तीन वर्ष बाद विक्रमी १८५९ [हि० १२१७ = ई० १८०२] में मरगया. शरफूके वक्तमें इस राज्यका कुल इस्तिथार जाता रहा, केवल नामके लिये तंजावर का किला व उसके गिर्दोनवाहका जिला उसके इस्तिथारमें बाकी रहा. विक्रमी १८८९ [हि० १२४८ = ई० १८३२] में शरफूका इन्तिकाल हुआ, और उसका बेटा शिवा गद्दीपर बैठा, लेकिन वह भी विक्रमी १९१२ [हि० १२७१ = ई० १८५५] में बे औलाद मरगया, और इस खानदानका खातिमह हुआ. शिवाकी एक बेटी बाकी रही, जिसको सरकारसे किसी कद्र पेन्शन मिलती थी; वह विक्रमी १९४२ [हि० १३०२ = ई० १८८५] में मरगई.

सावन्तवाड़ी

यह छोटी रियासत घोंसला खानदानकी एक जुदा शाखके अधिकारमें है.

इस रियासतपर छठी सदी .ईसवीसे आठवीं सदी तक चालुक्य वंशके राजा राज्य करते थे, बाद उनके विक्रमी ९९० [हि० ३२१ = .ई० ९३३] में यादवोंका कबजह हुआ. और विक्रमी १३१८ [हि० ६५९ = .ई० १२६१] में फिर चालुक्योंका दखल होगया. विक्रमी १४४८ [हि० ७९३ = .ई० १३९१] में विजयनगरके राजाओंने इस राज्यको लेलिया, जिनको बेदखल करके विक्रमी १४९३ [हि० ८३९ = .ई० १४३६] में बीजापुरके बहमनी खानदान वाले बादशाहोंने उसपर अपना अधिकार जा जमाया. इसके पीछे घोंसला खानदानका मंगसामन्त नामी एक शरूस विक्रमी १६११ [हि० ९६१ = .ई० १५५४] में बीजापुरसे बागी होकर वाड़ी (सावन्त वाड़ी) से ६ मीलके फ़ासिलेपर होड़वड़ा गांवमें रहने लगा, और बीजापुरके मुसलमानोंसे अक्सर लड़ता रहा. परन्तु उसके मरने बाद मुसलमानोंने मुल्कको अपने कबजहमें करलिया. कुछ अरसह पीछे इसी खानदानमेंसे फ़ौंडसामन्तका बेटा खेमसामन्त नामी राजा स्वाधीनता हासिल करके विक्रमी १६९७ [हि० १०५० = .ई० १६४०] में मरगया, और उसका बेटा सोमसामन्त गद्दीपर बैठा, जो १८ महीना राज्य करके मरगया, तब उसके भाई लक्ष्मणसामन्तने उसकी जगह हासिल की. विक्रमी १७२२ [हि० १०७५ = .ई० १६६५] में इसका मृत्यु हुआ. फिर इसका भाई फ़ौंडसामन्त दूसरा गद्दी नशीन हुआ, उसने १० वर्ष राज्य किया. इसके पीछे इसका बेटा खेमसामन्त दूसरा गद्दीपर बैठा. इसने विक्रमी १७३२ [हि० १०८६ = .ई० १६७५] से विक्रमी १७६६ [हि० ११२१ = .ई० १७०९] तक राज्य किया; और उसके बाद उसका भतीजा फ़ौंडसामन्त तीसरा गद्दीपर बैठा. इसके अहदमें सर्कार अंग्रेजीके साथ विक्रमी १७८७ [हि० ११४२ = .ई० १७३०] में एक अहदनामह करार पाया. वह अहदनामह काइम होनेके बाद सात वर्ष तक राज्य करके विक्रमी १७९४ [हि० ११४९ = .ई० १७३७] में मरगया.

फ़ौंडसामन्तके पीछे उसका पोता रामचन्द्रसामन्त गद्दीपर बैठा. उसके पीछे विक्रमी १८१२ [हि० ११६८ = .ई० १७५५] में उसका बेटा तीसरा खेमसामन्त राज्यका मालिक बना. इसके जमानहमें बहुतसी लड़ाइयां हुईं, और विक्रमी १८२२ [हि० ११७८ = .ई० १७६५] में सर्कार अंग्रेजीने फ़ौज भेजकर जशवन्तगढ़ या रेड़ीका क़िला लेलिया, जो अहदनामह होनेपर वापस देदिया गया; परन्तु उसकी शर्तोंपर पूरा पूरा अमल दरामद न हुआ, इस सबबसे दूसरे वर्ष फिर एक अहदनामह तज्वीज किया गया, जिसके मुताबिक उसने विंगूरलाका क़िला १३ वर्षके लिये सर्कार अंग्रेजीको सौंप दिया. विक्रमी १८६० [हि० १२१८ = .ई० १८०३] में वह बेओलाद मरगया, और कुछ अरसे तक भगड़ा बखेड़ा चलता रहा; लेकिन विक्रमी १८६२

[हि० १२२० = ई० १८०५] में खेमसामन्तकी विधवा राणीने रामचन्द्रसामन्त को, जिसका दूसरा नाम भाऊ साहिब था, गोद लेकर रियासतका मालिक बनाया. यह विक्रमी १८६४ [हि० १२२२ = ई० १८०७] में कल्ल हुआ, और इसकी जगह फौंडसामन्त चौथा गद्दीपर बैठा. विक्रमी १८६९ [हि० १२२७ = ई० १८१२] में इसका भी देहान्त होगया, तब इसका बेटा चौथा खेमसामन्त गद्दीपर बैठा. इसके वक्तमें विक्रमी १८७५ फाल्गुन कृष्ण ७ [हि० १२३४ ता० २१ रबीउस्सानी = ई० १८१९ ता० १७ फेब्रुअरी] को गवर्मेण्ट अंग्रेजीसे एक अह्दनामह करार पाया, जिसके अनुसार यह रियासत ब्रिटिश गवर्मेण्टकी हिफाजतमें आई. सरकार अंग्रेजीने तीस हजार रुपया सालानह आमदनीका एक पर्गनह, जो पहिले सावन्तवाड़ीसे लेलिया था, वापस राजाको देदिया. फिर कोल्हापुर और इस रियासतके दर्मियान खिराजकी बाबत विक्रमी १८७७-७९ [हि० १२३५-३७ = ई० १८२०-२२] में फसाद उठा, लेकिन विक्रमी १८८३ [हि० १२४१ = ई० १८२६] में सरकार अंग्रेजीने सावन्तवाड़ीका एक इलाकह कोल्हापुर वालोंको दिलाकर उसका फैसला करादिया.

विक्रमी १८८७-८९ [हि० १२४५-४७ = ई० १८३०-३२] में खानगी बगावतके सबब राजाको एक अह्दनामह करना पड़ा, जिसमें रियासती इन्तिजामकी बाबत कई शर्तें हुई. फिर विक्रमी १८९५ [हि० १२५४ = ई० १८३८] में एक दूसरा अह्दनामह हुआ, जिसके मुताबिक समुद्र और इलाकहकी राहदारीका महसूल गवर्मेण्टने अपने इस्तिथारमें लिया, और उसके एवज कुछ रुपया नकद रियासतको मुकर्रर करदिया. इसी सालमें दूसरे अह्दनामहके मुताबिक राजाकी रजामन्दीसे रियासतका इन्तिजाम भी सरकार अंग्रेजीने अपने हाथमें लेलिया. विक्रमी १९२४ आश्विन [हि० १२८४ जमादियुस्सानी = ई० १८६७ अक्टोबर] में राजाका देहान्त हुआ, और उसका बेटा फौंडसामन्त पांचवां गद्दीपर बैठा, जिसका दूसरा नाम आना साहिब प्रसिद्ध है. यह शरूख विक्रमी १९०१ [हि० १२६० = ई० १८४४] की एक बगावतमें शामिल होगया था, परन्तु सरकार अंग्रेजीसे उसका कुसूर मुआफ़ किया जाकर गद्दीपर बैठनेके वक्त बगावत दबानेका फौज खर्च और एक सालकी आमदनीका नज़ानह लिया गया. विक्रमी १९२६ [हि० १२८६ = ई० १८६९] में वह मरगया, और उसका बेटा रघुनाथसामन्त रियासतका वारिस बना, जो अब मौजूद है.

इस रियासतकी सलामी ९ तोप, रकबह ९०० मील मुरब्बा, आबादी १७४४३३ आदमी, और आमदनी ३२५००० रुपये सालानह है.

रियासत नागपुर.

यह भी घोंसला खानदानमेंकी एक रियासत गिनी गई है, क्योंकि इस खानदानके राजा यहां भी राज्य करते थे. यहांपर पहिले गौंड वगैरह जातिके राजा राज्य करते रहे, जब राजा चांद सुल्तान अपने पीछे १ बुर्हानशाह और २ अक्बरशाह (१) नामके दो बेटे छोड़कर विक्रमी १७९६ [हि० ११५२ = ई० १७३९] में मरगया, और वलीशाह नामी एक दूसरे शरूखने राज्य छीन लिया, तब चांद सुल्तानकी विधवा राणीने बरारसे राघव घोंसलाको बुलाया, जिसने वलीशाहको क़त्ल करके उस विधवाके दोनों बेटोंको गद्दीपर बिठा दिया. कुछ दिन बाद इन दोनोंमें नाइतिफ़ाकी हुई, तो बुर्हानशाहने विक्रमी १८०० [हि० ११५६ = ई० १७४३] में राघवको फिर बुलाया, उसने नागपुरमें आकर अक्बरशाहको निकाल दिया, और आप राज्यका रक्षक बनकर वहीं रहने लगा. इसने बुर्हानशाह को नामके लिये राजा रखकर पेन्शन करदी थी, जो अब तक उसके खानदानको मिलती है. थोड़े दिनोंके बाद राघव खुद मुख्तार बनगया, और विक्रमी १८०७ [हि० ११६३ = ई० १७५०] में पेश्वासे एक नई सनद हासिल करली, जिसके जरीएसे बरार, और गौंडवाना वगैरह भी अपने क़बज़ह में करलिया. यह बहुत लम्बा चौड़ा मुल्क हासिल करके विक्रमी १८१२ चैत्र शुक्ल पक्ष [हि० ११६८ जमादियुस्सानी = ई० १७५५ मार्च] में मरगया. इसके चार बेटे १ जानो, २ साबा, ३ माधव और ४ बिम्बा थे. जानो अपने बापकी गद्दीपर बैठा, और विक्रमी १८२९ [हि० ११८६ = ई० १७७२] में मरगया. उसने अपने भाई माधवके बेटे राघवको दत्तक लेलिया था, लेकिन जानोके मरने पर साबाने दरूल करलिया. विक्रमी १८३२ [हि० ११८९ = ई० १७७५] में माधवने साबाको मारडाला, तब राघव गद्दीका मुख्तार हुआ. राज्यका प्रबन्ध उसका बाप माधव करता रहा, और इसने अपना तञ्जुक गवर्मेण्ट अंग्रेजीके साथ रक्खा.

विक्रमी १८४५ [हि० १२०२ = ई० १७८८] में माधव मरगया, तब राघव खुद मुख्तार बना, और हुल्कर व सेंधियासे मिलकर अंग्रेजोंके बख़िलाफ़ कार्रवाई करने लगा, जो कि अह्दनामहकी शर्तोंसे बिल्कुल बख़िलाफ़ थी. असाई और आरगांव की लड़ाइयोंमें सेंधिया और राघवकी ताक़त तोड़दी गई, तब विक्रमी १८६० पौष शुक्ल ३ [हि० १२१८ ता० २ रमज़ान = ई० १८०३ ता० १७ डिसेम्बर] को देव-

(१) इन नामोंसे ये राजा मुसल्मान मालूम होते हैं.

गांवमें एक अहदनामह किया गया, जिसके अनुसार कटक और वर्दा नदीके पश्चिम और नर्नलाके दक्षिणका देश तथा गाविलगढ़के पहाड़ राजासे छीन लिये गये. विक्रमी १८६३ [हि० १२२१ = ई० १८०६] में संभलपुर और पटनाका इलाक़ह राजाको वापस मिला.

विक्रमी १८७३ [हि० १२३१ = ई० १८१६] में राघव मरगया, और उसका बेटा परसू गद्दीपर बैठा; लेकिन यह इन्तिज़ाम करनेके लाइक़ न था, इसलिये उसके रिश्तहदार माधव (आपा साहिब) के मातहत एक कौन्सिल मुकर्रर की गई, परन्तु परसूको इस कौन्सिलका एतिबार न था. विक्रमी १८७३ ज्येष्ठ कृष्ण ३० [हि० १२३१ ता० २८ जमादियुस्सानी = ई० १८१६ ता० २७ मई] को गवर्मेण्ट अंग्रेजीसे एक अहदनामह हुआ, जिसके मुताबिक़ साढ़े सात लाख रुपया सालानह देना करार पाकर एक कन्टिन्जेण्ट फौज उसने अपनी हिफ़ाज़तके लिये रक्खी. विक्रमी १८७४ [हि० १२३२ = ई० १८१७] में यकायक परसू मरगया, पीछेसे मालूम हुआ, कि आपा साहिबने उसे मरवा डाला, और आप गद्दीपर बैठ गया है. जिस वक्त पेशवाने अंग्रेजोंसे बख़िलाफ़ होकर रेज़िडेन्सीपर हमलह किया, आपा साहिब भी उसके शरीक होगया था, लेकिन पेशवाके शिकस्त खानेपर विक्रमी १८७४ पौष कृष्ण ३० [हि० १२३३ ता० २८ सफ़र = ई० १८१८ ता० ६ जैन्वु-अरी] को आपा साहिबकी तरफ़से एक अहदनामह करना पड़ा, जिसके अनुसार बहुतसा इलाक़ह छोड़ देनेके बाद रेज़िडेण्टकी सलाहसे इन्तिज़ाम करनेका इक्रार हुआ; परन्तु उसने उस अहदके बख़िलाफ़ कार्रवाइयां कीं, इससे गिरिफ़्तार किया गया, लेकिन किसी मौकेसे निकल भागा, और गौंड देशमें पहुंचा, वहांसे नागपुरपर क़बज़ह करनेकी कोशिशें कीं, जो सब बेफ़ाइदह हुईं. लाचार वह राजपूतानह की तरफ़ जोधपुर आया, और वहींपर विक्रमी १८९७ [हि० १२५६ = ई० १८४०] में मरगया.

नागपुरमें राघवका दोहिता विक्रमी १८७५ आपाढ़ कृष्ण ८ [हि० १२३३ ता० २१ शरव्वान = ई० १८१८ ता० २६ जून] को राघव नामसे गद्दीपर बिठाया गया. इसकी कम उम्रके सबव रेज़िडेण्टीका अधिकार रहा. विक्रमी १८८३ [हि० १२४१ = ई० १८२६] में उसको इस्तिथार दिया गया, तब एक अहदनामह हुआ, जिसके मुताबिक़ कन्टिन्जेण्ट फौज खर्चके लिये एक मुल्की हिस्सह लिया गया, लेकिन इस अहदनामहको बेजा समझकर गवर्मेण्टने यह ज़िले वापस देदिये, और आठ लाख रुपये सालानह लेना कुबूल किया. विक्रमी १९१० मार्गशीर्ष शुक्ल ११ [हि० १२७० ता० ९ रबीउलअव्वल = ई० १८५३ ता० ११ डिसेम्बर] को राघवका देहान्त होगया.

इसके कोई वारिस न था, इसलिये गवर्मेण्ट अंग्रेजीने तमाम इलाक़ह ज़ब्त

करलिया. विक्रमी १९१२ [हि० १२७१ = ई० १८५५] में राघवकी विधवा स्त्रीने जानो घोंसलाको दत्तक लिया. विक्रमी १९१४ [हि० १२७३ = ई० १८५७] के बल्वेमें इस खानदानने सर्कार अंग्रेजीकी खैरखाही की, इसलिये सिताराके जिलेमें देवरका इलाक़ह और राजा बहादुरका खिताब हमेशहके लिये मिला, और दो लाख तीन हजार रुपया सालियानह पेन्शन मुकर्रर करदी गई.

हमने घोंसला खानदानका मुस्तसर हाल इसवास्ते लिखा है, कि ये लोग सीसोदिया वंशकी शाख कहलाते थे. अब उन लोगोंके नौकर संधिया हुल्कर पंवार और गायकवाड़, जो बाकी रहकर खुद मुस्तार राजा कहलाते हैं, उनकी तारीख़ ग्रैन्ट डफ़ व माल्कम साहिब वगैरहने लिखी हैं, जिनके हिन्दी व उर्दू तर्जमे भी होचुके हैं, तथापि हम यहां उन रियासतोंकी वंशावली और मुस्तसर हाल पाठकोंके अवलोकनार्थ दर्ज करते हैं

ग्वालियर.

ग्वालियरका राज्य पहिले कछवाहोंके तहतमें था और उनके बाद तंवरोंके हाथ आया. परन्तु कछवाहोंका हाल हमको कुछ नहीं मिला, अल्बत्तह जयपुरकी ख्यातसे सिर्फ़ इतना मालूम हुआ है, कि दसवीं सदी विक्रमीके बाद तक कछवाहे ग्वालियरमें राज्य करते रहे; जिनमेंसे आखरी राजा ईषासिंहने यह राज्य अपने भान्जेको देदिया था. इसकी बाबत किसी कद्र हाल जयपुरकी तवारीख़में लिखा जा-चुका है - (देखो पृष्ठ १२६८).

कछवाहोंके बाद जो तंवर राजा हुए उनका हाल कलमी पुस्तकों वगैरहसे जेनरल कनिंघमने लिखा है, परन्तु ग्वालियरमें जो पाषाण लेख मिले हैं उनसे यह हाल पूरा पूरा नहीं मिलता; इसलिये हम इस हालको छोड़कर पाषाण लेखके अनुसार जिन राजाओंका हाल मिला है, दर्ज करते हैं.

चौथी सदी ईसवीमें तोरमण और पशुपति राज्य करते थे, जिनके बाद नवीं और दसवीं सदीमें भोजदेव, रामदेव वगैरह राजा हुए; और उनके पीछे कच्छप घात (१) वंशके राजा लक्ष्मण, वज्रदामा, मंगलराज, कीर्तिराज, भुवनपाल, देवपाल, पद्मपाल, और महीपाल क्रमसे राज्याधिकारी बने. पीछे भुवनपाल, मधुसूदन, शक्रेंद, नागसिंह, विलंगदेव, वीरसिंह, उद्धरणदेव, गणपतिदेव, डुंगरेंद्रदेव, कीर्तिसिंह, कल्याण-

(१) कच्छप घात वंश अर्थात् कछवाहोंको मारने वाला वंश, जो लिखा है उससे मालूम होता है, कि यह तंवर खानदानका नाम है.

मल्ल (कल्याणशाही), मानसिंह (मानशाही), विक्रमादित्य (विक्रमशाही), रामसिंह (रामशाही) (१), शालिवाहन, श्यामशाह, और मित्रसेन (वीरमित्रसेन) वगैरह राजा हुए. लेकिन मुसल्मानी तवारीखोंसे मालूम होता है, कि विक्रमी १५७६ [हि० १२५ = ई० १५१९] में इब्राहीम बादशाहने ग्वालियरपर (रामशाहके वक्तमें) अपना दरूल जमाया; और मुसल्मानी सल्तनतमें अदला बदली होने बाद उसपर मरहटोंका कबजह हुआ.

मालकम साहिब अपनी किताबकी पहिली जिल्दके ९५ पृष्ठ में लिखते हैं, कि "राणू सेंधिया छोटे दरजहकी कुलवी जातका आदमी बाईके जिलेमें कुमारखेड़ेका पुत्रैनी पटैल था; वह पहिले बाला विश्वनाथ पेशवाका नौकर हुआ, और बालाके मरने बाद उसके बेटे बाजीराव बल्लालकी नौकरीमें रहा. इससे पहिले वह राणू पेशवाकी जूतियां उठानेकी नौकरीपर था. एक दिन बाजीराव साहू राजासे सलाह करके बाहर आया, और वह अपनी जूतियां राणूको छातीपर रखे हुए सोया देखकर बहुत खुश हुआ, और कहा, कि इसे अपनी नौकरीका बहुत ही खयाल है; उसने राणूको अपनी पायगाहमें छोटी अफसरीपर मुकर्रर किया, लेकिन बहुत जल्द तरकी होगई. यहां तक, कि जब बाजीराव मालवेका सूबहदार बना, तो राणू बादशाहके पास दिल्ली भेजा गया, और उसने बाजीरावकी तरफसे इक्रारनामहपर दस्तखत किये. वह बहुत अच्छा सिपाही था, विक्रमी १८०७ [हि० ११६३ = ई० १७५०] के लगभग शुजाअलपुर जिले मालवामें मरगया, और उसके मरनेसे उस गांवका नाम राणूगंज होगया. जब यह मरा, तो इसके अधिकारमें पैसठ लाख रुपया सालियानहकी आमदनीका मुल्क था. राणूके एक हमकौम स्त्रीसे तीन बेटे, १ जया आपा, २ दत्ता, और ३ जट्टोवा, और राजपूत कौमकी दूसरी स्त्रीसे दो बेटे, १ तुक्का, व २ माधवराव थे."

जया आपा राणूके मरनेसे थोड़े ही दिनों बाद मारवाड़के राजा विजयसिंहके कहनेसे एक खोखर राजपूतके हाथ दगासे मारा गया. दत्ता दिल्लीके पास रडवेड़की लड़ाईमें मारा गया; और जट्टोवा डीगके पास कुम्हेरकी लड़ाईमें कत्ल हुआ, इसलिये जया आपाके बाद उसका बेटा जनकू मालिक हुआ; लेकिन यह भी पानीपतकी लड़ाईमें मारा गया, और तुक्का भी उसी लड़ाईमें काम आया; तब माधव मुस्तार बना. यह भी पानीपतकी लड़ाईमें एक अफगानके हाथसे जख्मी हुआ था. यह बाजीरावके बेटे बाला-

(१) यह राजा विक्रमी १६३३ [हि० १८४ = ई० १५७६] में अकबरसे महाराणा

प्रतापसिंह की लड़ाई हुई, तब अपने दोनों बेटों सहित मारा गया—(देखो पृष्ठ १५१)

रावके बड़े सर्दारोंमें गिना गया, और उसके ताबे बहुतसी फौज थी. पानीपत की लड़ाईके तीन वर्ष बाद मलहारराव हुल्कर भी मरगया, जिससे माधवकी ताकत बहुत बढ़ी उसने सेन्ट्रल इन्डियामें सब राजाओंपर खिराज लगाकर अपना इस्तियार खूब बढ़ाया, सिर्फ नामके लिये पेशवाका ताबेदार कहलाता था, और उसीके नामसे कार्रवाई करता था. बालाराव पेशवाके मरने बाद इसने नर्मदाके उत्तरी तरफ हिन्दुस्तानपर अपना इस्तियार रखना चाहा, और वह दिल्लीके बादशाह शाह आलम सानीका नामके लिये ताबेदार हुआ; गोया उसको बादशाहका नाइब (सूबेदार) कहना चाहिये. सालवाईके अह्दनामहके मुताबिक वह खुद-मुख्तार राजा होगया, लेकिन उसने पेशवाका तअल्लुक नहीं छोड़ा. जब पेशवाको दिल्लीके बादशाहने “वकील मुतलक” (नाइब) का खिताब दिया, और माधव उसका नाइब बना, तो माधवका कबजह सतलजसे आगरे तक और अक्सर राजपूतानहमें भी था. उसके पास सोलह पैदल पल्टनें कवाइद दं और पांचसौ तोपें व एक लाख सवार थे. मालवेका दो तिहाई हिस्सह और दक्षिणके कई अच्छे सूबे उसके इस्तियारमें थे. एक बहुत उम्दह फ्रान्सीसी अपसर उसे मिलगया, जिसका नाम डीवाइन था. माधवने राजपूतानहकी ताकतको भी सन्नह पहुंचाया, और मेवाड़, मारवाड़ व जयपुरसे बड़ी बड़ी लड़ाइयां कीं, जिनका हाल उक्त रियासतोंकी तवारीखोंमें लिखा गया है.

वह दक्षिणमें जाकर विक्रमी १८५१ [हि० १२०८ = ई० १७९४] में पूना मक़ामपर मरगया. मालकम साहिब लिखते हैं, कि “यह अंग्रेजोंका पूरा दुश्मन था”. माधवके कोई बेटा न था, इसलिये उसके भाई तुक्काके तीन बेटों १- केबन २- जोटीबा, और ३- आनन्दरावमेंसे तीसरेका बेटा दौलतराव तेरह वर्षकी उम्रमें माधवकी गद्दीपर बिठाया गया. माधवकी विधवा स्त्रियोंने दौलतरावके बखिलाफ़ बगावत की, लेकिन काम्याबी नहीं हुई. दौलतराव अपनी ताकतका बहुत भरोसा रखता था, लेकिन उसने लॉर्ड वेलेज़ली और लेकसे अलीगढ़, दिल्ली, असाई, आगरा, लसबाड़ी और अरगांवकी लड़ाइयोंमें विक्रमी १८६० [हि० १२२८ = ई० १८०३] में शिकस्तें खाई, जिससे उसका घमंड जाता रहा; और उक्त वर्षके अन्तमें एक अह्दनामह किया, जिसके मुताबिक गंगा व जमुनाके बीचका इलाक़ह और जयपुर, जोधपुर, व गोहदके उत्तर तथा अहमदनगर भडौचके जिले और अजन्ता घाट व गोदावरीके बीचका मुल्क छोड़दिया.

उसने दिल्लीके बादशाह, पेशवा, निज़ाम, महाराजा गायकवाड़ और दूसरे राजाओंसे

जिन्होंने सरकार अंग्रेजीको मदद दी थी, अपना तअल्लुक छोड़दिया; लेकिन यह शर्त पिछले अहदनामहसे कुछ बदल दीगई.

विक्रमी १८८४ चैत्र शुक्ल पक्ष [हि० १२४२ शअ्वान = ई० १८२७ मार्च] में दौलतराव ग्वालियरमें मरगया. उसके कोई लड़का न था, इसलिये सेंधियाके खानदानसे एक लड़का मुगटराव चुना गया, जिसको गद्दीपर बिठाकर जनकूराव सेंधिया मशहूर किया, परन्तु उसका चाल चलन ठीक न था. वह भी विक्रमी १८९९ माघ शुक्ल ८ [हि० १२५९ ता० ६ सुहरम = ई० १८४३ ता० ७ फेब्रुअरी] को मरगया. तब सेंधिया खानदानसे एक आठ वर्षका लड़का लेकर गद्दीपर बिठाया गया, जिस का नाम जियाजीराव सेंधिया रक्खा; और बन्दोवस्तके वास्ते मामा साहिब सितोले मुकर्रर हुआ, परन्तु इससे काम न चला, तब दादा साहिब खासगी वाला कामका मुख्तार बना, मगर इसकी कार्रवाई गवर्मेण्ट अंग्रेजीके विरुद्ध मालूम हुई, विक्रमी १९०० पौष शुक्ल ८ [हि० १२५९ ता० ७ जिल्हिज = ई० १८४३ ता० २९ डिसेम्बर] को महाराजपुर और पनिआलमें अंग्रेजोंसे लड़ाइयां हुई, जिनमें सेंधियाकी फौजने शिकस्त पाई, और एक अहदनामह हुआ, उसके मुताबिक (१८०००००) लाख रुपये सालानह कन्टिन्जेण्ट फौज खर्चके लिये और कुछ मुल्क कर्ज और लड़ाईके खर्चके वास्ते भी सरकारको दिया गया. फौजका खर्च घटाकर छः हजार सवार, तीन हजार पैदल, बत्तीस तोपें और दो सौ गोलन्दाज रक्खे गये, और यह भी इक्कार हुआ, कि राजाकी नाबालिगीमें रेजिडेण्टकी सलाहसे काम हो.

विक्रमी १९१४ [हि० १२७३ = ई० १८५७] तक गवर्मेण्टके साथ इक्कारके मुताबिक बर्ताव रहा, उक्त सन्के ग़द्ममें कन्टिन्जेण्ट फौजने बगावत की, जिससे पोलिटिकल अफसरको भागजाना पड़ा.

विक्रमी १९१५ आषाढ़ [हि० १२७४ जिल्काद = ई० १८५८ जून] में तांतिया टोपी बागी फौज लेकर ग्वालियरमें पहुंचा, और महाराजाकी फौज भी उससे मिलगई, तो लाचार महाराजा भागकर आगरे गये. विक्रमी ज्येष्ठ शुक्ल ८ [हि० ता० ७ जिल्काद = ई० ता० १९ जून] को सर ह्यूजरोजकी फौजने बागियोंसे ग्वालियर छीनकर महाराजाको फिर काइम किया. उसी दिनसे महाराजाको अपने दीवान दिनकर रावसे नफ़रत हुई. उन्होंने विक्रमी १९१६ पौष [हि० १२७६ जमादियुल अव्वल = ई० १८५९ डिसेम्बर] में उसको अपनी रियासतसे निकाल दिया, और बाला चिमनाको दीवान बनाया. नव वर्ष बाद इसके जियादह

जईफ़ होजानेके सबब यह काम गणपतिराव खटकेको मिला, जो अगले दीवानका

नाइव था. गढ़की खैरख्वाहीके बाइस महाराजाको ३००००० तीन लाखकी जागीर मिली, और पैदल पल्टनमें दो हजार आदमी तथा चार तोप अधिक रखनेका अधिकार मिला. सरकारका जो खिराज बाकी था, छोड़ दिया गया; इसके सिवा दस हजार रुपये सालानहकी आमदनीवाला बड़वासागरका हिस्सह भी मिलनेकी इजाजत हुई. अगले अहदनामहसे कई बातें तब्दील हुई, इसलिये विक्रमी १९१७ मार्गशीर्ष कृष्ण ३० [हि० १२७७ ता० २८ जमादियुलअव्वल = ई० १८६० ता० १२ डिसेम्बर] को दूसरा इक्रारनामह लिखा गया, जिसके मुवाफिक बर्ताव रहा. बहुतसे पगने व गांव गवर्मेण्ट अंग्रेजी व सेंधियाने रजामन्दीसे बदल लिये. इस राजाने बड़ा नाम पाया; आगरा और ग्वालियरके बीच वाली रेल तय्यार होनेके वक्त उसने विक्रमी १९२९ [हि० १२८९ = ई० १८७२] में ७५००००० रुपया और विक्रमी १९३० [हि० १२९० = ई० १८७३] में इन्दौरसे नीमच तक रेल बनाई जानेके समय ७५००००० रुपया ४ रु० सालियानह सैकड़ाके सूदपर दिया. उनको सरकार अंग्रेजीसे के० जी० सी० एस० आइ० (K. G. C. S. I.) का खिताब और दो तोपकी जियादह सलामी हीन हयात मिली.

इस रियासतकी सलामी १९ तोप (१), क्षेत्रफल २९०४६ मील मुरब्बा, आवादी ३११५८५७ बाशिन्दे और १०३४६ गांव हैं. आमदनी १२०००००० रुपया सालानह है. जियाजीराव सेंधिया विक्रमी १९४३ आषाढ कृष्ण ३ [हि० १३०३ ता० १७ रमजान = ई० १८८६ ता० २० जून] को इस दुन्यासे कूच करगया. यह नामवर, आकिल व खुशअरूलाक राजा था, उसको सिपाहियानह ढंग जियादह पसन्द था. फौजकी कवाइद हमेशह आप लेता था. मैं (कविराजा श्यामलदास) ने अपनी आंखसे देखा है, जब कि महाराजा मालवेका दौरा करनेको नीमचकी छावनी तक आये थे. घापसीके वक्त रामपुरासे भानपुराकी तरफ कूच हुआ, तो एक पल्टनका सिपाही पेटमें दर्द होनेसे सड़कके किनारेपर तड़परहा था, महाराजा घोड़ा दौड़ाते हुए उस जगह आ निकले; सिपाहीको देखकर घोड़ेसे कूदे, और उसका पेट हाथसे मलने लगे; तब बाबा आप्ट्या, दादा खटक्या, बापू सेंधिया वगैरह सद्दार भी घोड़ोंसे उतरे, और इन सद्दारोंने सिपाहीको हाथों हाथ उठाकर सरकारी सामानकी गाड़ीमें डाला, दो चार आदमी उसकी संभालके लिये तईनात करदिये. मैं उस वक्त उस दर्दमन्द सिपाहीसे पचास कदमके फ़ासिलेपर

(१) लेकिन इनके इलाक़हमें हमेशह २१ तोपकी सलामी होती है.

अठाणके रावत् दूलहसिंहके साथ उनके हाथीपर चढ़ा हुआ यह माजरा देखरहा था. हम लोग महाराजाकी रहमदिलीको देखकर तारीफ़ कर रहे थे. हकीकतमें यह महाराजा नेक दिल व कद्रदान थे. जियाजीरावके अन्त समय सर्कार अंग्रेजीने मुरारका क़िला ग्वालियरकी रियासतको सौंप दिया, और महाराजाके बेटे माधवरावको आठ वर्षकी उम्रमें गद्दी मिली. रईसकी कम उम्रके सबब उनकी माको रियासतका रिजेंट (मुख्तार) समझा गया, और दीवान रावराजा सर गणपतिराव, के० सी० एस० आइ० को कौन्सिलका प्रेसिडेंट किया गया. विक्रमी १९४६ [हि० १३०६ = ई० १८८९] में सर गणपतिरावके गुजर जानेसे रईसके नानाको, जो फ़ौजका सिपहसालार था, कौन्सिलकी प्रेसिडेन्सी मिली.

इन्दौर.

इस रियासतके राजाओंका मूल पुरुष मलहारराव हुल्करका बाप कंधा हुल गांवका रहने वाला गाडरी कौम और धनगर गोत्रका अदना आदमी था, जिसकी शादी खानदेशके तालंदा गांवमें नारायणरावकी बहिनके साथ हुई थी. उसी ग़रीबीकी हालतमें उसके गर्भसे विक्रमी १७५० [हि० ११०४ = ई० १६९३] के क़रीब मलहाररावका जन्म हुआ था.

विक्रमी १७५४ [हि० ११०८ = ई० १६९७] के क़रीब कंधा मरगया, तो उसकी विधवा स्त्री अपने पुत्र मलहाररावको लेकर खानदेशमें अपने भाई नारायणरावके पास चली आई; उसने अपने भान्जेको भेड़ बकरियां चरानेके लिये दीं. जब मलहारराव होशयार हुआ, तो नारायणरावने उसे पच्चीस सवारोंका अप्सर बनाया, जो क़दमबन्दी नाम मरहटा सर्दारके मातहत थे. मलहाररावने इस थोड़ेसे गिरोह से अच्छा काम देकर नाम पाया, तब पेशवाने उसे अपना नौकर बनाया, और एक बड़ी फ़ौजकी अप्सरी दी. निजाम और कोकणकी लड़ाइयोंमें उसने अच्छे अच्छे काम दिये, जिससे वह पेशवाके बड़े सर्दारोंमें माना गया.

विक्रमी १७८५ [हि० ११४० = .ई० १७२८] में मलहाररावको नर्मदाके उत्तर बारह पगने मिले, और उसके बाद विक्रमी १७८८ [हि० ११४३ = .ई० १७३१] में सत्तर पगने फिर मिले. पेशवाने उसे इस्तिथार देदिया. विक्रमी १७९२ [हि० ११४८ = .ई० १७३५] में नर्मदाके उत्तर पेशवाकी जितनी फौज थी, उस सबका वह सेनापति (कमान्डर) होगया. इस फौज खर्चके लिये इन्दौरका बड़ा हिस्सह मुकर्रर हुआ, जो अब तक कई तब्दीलातके साथ हुल्करके खानदानमें चला आता है.

एक बार मलहाररावने दिल्लीके करीब पहुंचकर कालिका देवीका मेला लूट लिया, दूसरी दफा आगरेके करीब अवधके बुर्हानुल्मुल्कसे शिकस्त खाई; एक बार उसने दिल्लीके बादशाह मुहम्मदशाहकी बेगममलिकए जमानीका सामान रास्तेमें लूट लिया, जो दिल्लीको जाता था. विक्रमी १८०८ [हि० ११६४ = .ई० १७५१] में वह मुगल लोगोंसे मिलकर रुहेलोंसे बड़ी बहादुरीके साथ लड़ा, फिर उसको खानदेशमें चान्दौरकी देशमुखी बादशाहसे मिली, जिसकी सनद उसके खानदानमें अबतक मौजूद है. इसके बाद उसने सिकन्दराके आस पास लूट मार मचाई, परन्तु अहमदशाह अब्दालीकी फौज आ पहुंची, जिससे शिकस्त खाकर हुल्करको भागना पड़ा. इसके पीछे यह फौज एकट्ठी करके मरहटोंकी बड़ी जम्इयतके साथ पानीपतके मकामपर पठानोंसे लड़नेको पहुंचा, लेकिन यह लड़ाई मलहाररावकी सलाहके बखिलाफ हुई थी, जिसमें बहुतसा नुकसान उठाकर मरहटोंको बर्बादीकी हालतमें भागना पड़ा. इसके बाद मलहारराव मालवेके इन्तिजाममें मशगूल रहा, और छहत्तर वर्षकी अवस्था पाकर विक्रमी १८२५ [हि० ११८२ = .ई० १७६८] (१) में इस दुन्याको छोड़ गया.

मलहाररावका पुत्र खंडेराव था, जो विक्रमी १८११ [हि० ११६७ = .ई० १७५४] में किले कुम्भेरके मुहासरेमें मारागया और उसके बाद उसकी विधवा अहल्याबाई और एक बेटा मालीराव व एक लड़की बाकी रही. पेशवाकी तरफसे मालीराव मलहाररावका क्रमानुयायी बना, परन्तु गद्दीपर बैठनेके बाद पागल होगया, और नौ महीना राज्य करके विक्रमी १८२६ [हि० ११८३ = .ई० १७६९] में मरगया, तब तमाम रियासती बन्दोवस्त अहल्याबाईने अपने हाथमें लिया. इसने तीस वर्ष तक बहुत उत्तमता से राज्यका काम चलाया. यह चाल चलनकी बहुत नेक, ईमानदार, बुद्धिमान, दयावान, लाइक और फय्याज थी. मालकम साहिव लिखते हैं, कि जैसे जैसे दर्याफत होता है, इसकी नेकियां ज़ियादह मिलती जाती हैं. इसने मैसोरमें व नर्मदाके किनारेपर घाट तथा मन्दिर

(१) हंटर साहिव विक्रमी १८२२ [हि० ११७८ = .ई० १७६५] में मरना लिखते हैं.

बहुत उत्तम बनवाये; और और भी कई तीर्थोंमें उसके बनवाये हुए धर्म स्थान हैं, जिनमें अबतक सदावर्त जारी हैं. इसने तीस वर्षकी उम्रमें राज्य प्रबन्ध अपने हाथमें लिया, और साठ वर्षकी उम्रमें इस दुन्याको छोड़ा (१). उसके कोई लड़का न रहा, केवल एक लड़की थी, जो भी उसके सामने ही अपने पतिके साथ सती होगई; तब उसका कमान्डर इन्चीफ (सैनापति) तुक्काजी राव गद्दीपर बैठा, जो कुछ दूरका रिश्तहदार हुल्कर कौमका था; लेकिन वह भी गद्दी बैठनेके बाद दो ही वर्ष तक जिन्दह रहा. उसके चार लड़के थे, जिनमेंसे बड़ा काशीराव और दूसरा मलहार राव तो विवाहिता स्त्रीसे और तीसरा बिट्टो व चौथा जशवन्तराव, ये दोनों पासवानके पेटसे थे. पेशवाने काशीरावको मुख्तार बनाया, और मलहार राव कल्ल किया गया.

मलहाररावके एक लड़का खंडेराव था, जिसे कैद किया, लेकिन जशवन्तरावने काशीरावको खारिज करके खंडेरावको मुख्तार बनाया; कुछ अरसे बाद खंडेरावको जहर देकर जशवन्तराव मुख्तार बन गया. इसने फतहगढ़, डीग और भरतपुरमें अंग्रेजोंसे लड़ाइयां कीं. आखिरकार लॉर्ड लेकसे दबकर सुलह करली, और वह अपने इलाके पाकर खुश हुआ; फिर इन्दौर जाकर राज्य प्रबन्धपर झुका, परन्तु कुछ दिनों बाद पागल होगया; और विक्रमी १८६८ कार्तिक [हि० १२२६ रमजान = ई० १८११ अक्टोबर] को जिले इन्दौरके कस्बे भानपुरमें मर गया, जहां उसके समाधि स्थानपर मन्दिरके ढंगकी छतरी बनी हुई है. जशवन्तरावके पागल होनेके समयसे उसकी स्त्री तुलसीबाई राज्य प्रबन्ध चलाती थी, परन्तु उसकी बदचलनीसे बहुतसे बखेड़े उठे. फौजकी वगावतसे विक्रमी १८७४ मार्गशीर्ष शुक्ल १२ [हि० १२३३ ता० ११ सफर = ई० १८१७ ता० २० डिसेम्बर] को सिपाहियोंने तीस वर्षकी उम्रमें उसे मार डाला, और जशवन्तरावके एक पुत्र मलहाररावको, जो छोटी कौमकी औरत केसराबाईके पेटसे पैदा हुआ था, गद्दीपर विठाकर भानपुरमें विक्रमी १८७४ मार्गशीर्ष शुक्ल १३ [हि० १२३३ ता० १२ सफर = ई० १८१७ ता० २१ डिसेम्बर] को अंग्रेजोंसे मुकाबलह किया, जिसमें शिकस्त खाने बाद भागना पड़ा.

(१) हमने इसका तीस वर्ष हुकूमत करना माल्कम साहिबकी तवारीखसे लिखा है, लेकिन सय्यद करीमअलीकी तारीख मालवामें इसकी हुकूमत सत्ताईस वर्ष और विक्रमी १८५० [हि० १२०७ = ई० १७९३] में इन्तिकाल होना लिखा है. उक्त मुन्शीने माल्कम साहिबके कौलका रदिया भी किया है, लेकिन वह यह भी लिखता है, कि माल्कम साहिबने अहल्याबाईकी हुकूमतके चालीस वर्ष लिखे हैं, परन्तु हमारे पास माल्कम साहिबकी किताब मौजूद है, उसमें तीस लिखे हैं.

विक्रमी १८७४ पौष कृष्ण ३० [हि० १२३३ ता० २८ सफ़र = .ई० १८१८ ता० ६ जैनुअरी] को मन्दसौरमें एक अहदनामह हुआ, जिसके मुवाफ़िक़ मलहारराव हुल्कर अंग्रेज़ी रक्षामें आया. फिर वह इन्दौरमें राज्य करने लगा, लेकिन उसका चाल चलन बहुत खराब था. आखिरमें सत्ताईस वर्षकी उम्र पाकर विक्रमी १८९० आश्विन शुक्ल १४ [हि० १२४९ ता० १३ जमादियुस्सानी = ई० १८३३ ता० २७ अक्टोबर] को उसने इस संसारको छोड़ा.

विक्रमी १८९० पौष शुक्ल ७ [हि० १२४९ ता० ५ रमजान = .ई० १८३४ ता० १७ जैनुअरी] को मार्टण्डराव गद्दीपर बिठाया गया, परन्तु दो महीने बाद उसको गद्दीसे उतारकर हरीराव हुल्कर मालिक बन बैठा. यह भी पूरा बद चलन था; विक्रमी १९०० कार्तिक शुक्ल १ [हि० १२५९ ता० १ शव्वाल = .ई० १८४३ ता० २४ अक्टोबर] को गुज़र गया. इसने अपनी जिन्दगीमें बापूराव हुल्करके लड़के खण्डेरावको गोद लेलिया था, जो विक्रमी १९०० मार्गशीर्ष कृष्ण ६ [हि० १२५९ ता० २० शव्वाल = .ई० १८४३ ता० १३ नोवेम्बर] को गद्दी नशीन हुआ; और केवल तीन ही महीने राज्य करने बाद विक्रमी १९०० फाल्गुन कृष्ण १३ [हि० १२६० ता० २७ मुहर्रम = .ई० १८४४ ता० १७ फ़ेब्रुअरी] को मरगया.

गवर्मेण्ट अंग्रेज़ीने हरीरावकी माता कृष्णाबाईको हुक्म दिया, कि हुल्करके खानदानमेंसे कोई लड़का मुक़र्रर किया जावे. इसपर पहिले उसने मार्टण्डरावको ही लेना चाहा, जिसको हरीरावने खारिज करदिया था, लेकिन इस बातको सर्कार अंग्रेज़ीने ना मन्ज़ूर किया; तब कृष्णाबाईने भाऊ हुल्करके बेटेको तज्वीज़ करके विक्रमी १९०१ आषाढ शुक्ल १२ [हि० १२६० ता० १० जमादियुस्सानी = .ई० १८४४ ता० २७ जून] को गद्दीपर बिठाया, और उसका नाम जशवन्तराव सुत तुक्काजीराव हुल्कर रक्खा गया. इसकी कम उम्रके जमानहमें रियासतका काम रेजिडेण्ट साहिव और कृष्णाबाईकी सलाहसे होता रहा. विक्रमी १९०९ [हि० १२६८ = ई० १८५२] में इसको रियासती इस्तिथार मिला. विक्रमी १९१८ [हि० १२७७ = ई० १८६१] में हुल्करने चान्दौरके ठिकानेके एवज़ जो अहमदनगरके जिलेमें था, मध्य प्रदेशमेंसे सतवास व नीमाडके पर्गने लेने चाहे. जिसपर विक्रमी वैशाख [हि० जिल्काद = .ई० मई] में उसकी रूवाहिशके मुवाफ़िक़ ऊपर लिखे दोनों पर्गनोंके २३१ गांव, जिनकी आमदनी २८८७२ रुपया सालानह थी, गवर्मेण्टकी तरफ़से उसको दिये गये. चान्दौरके नौ गांव जो हुल्करके कबज़हमें बाकी रहे थे, वे भी विक्रमी १९२२ आषाढ [हि० १२८२ मुहर्रम = .ई० १८६५ जून] में अंग्रेज़ी सर्कारको दे दिये गये. इन गांवोंकी या दूसरी जागीर वगैरहकी कुल आमदनी २९६१९ रुपया सालानह थी.

विक्रमी १९२४ आश्विन [हि० १२८४ जमादियुस्सानी = ई० १८६७ अक्टोबर] में हुल्करके दक्षिणी इलाके व बलन्दशहरके जिलेकी जागीर वगैरहके एवज सरकार अंग्रेजीसे नीमाड़, बड़वाय, धरगांव, खसरौद और मंडलेसरके पर्गने महाराजाको दिये गये, जिनमें १७६ गांव थे. बड़वायमें लोहेकी खान और बहुत बड़ा जंगल था, उसके एवज इन्दौर और नीमाड़के बीचकी किसीक़दर राहदारी महाराजाने छोड़ दी; और बड़वायमें, जो लोहेका कारखानह था, वह ५०००० रुपया देकर खरीद लिया. विक्रमी १९२५ [हि० १२८५ = ई० १८६८] में जब छोटा खसरौदका जागीरदार बे औलाद मरगया, तो वह जागीर महाराजाको मिलगई.

विक्रमी १९१४ [हि० १२७३ = ई० १८५७] के ग़दसे पहिले हुल्करको मालवाकंठिन्जेन्ट फ़ौज खर्चकेलिये १११२१४ रुपया, और मालवा भील कोरके लिये ७८६२ रुपया सालियानह देना पड़ता था, लेकिन कंठिन्जेन्ट फ़ौजने इसी वर्षमें बगावत की, जिससे वह मौकूफ़ करदी गई, और भील कोर बहाल रही, जिसके खर्चमें सरकार अंग्रेजीको ९८२८ रुपया सालियानह देना पड़ता है. पाटन पर्गनेके एवज, जो सरकारने हुल्करसे लेकर बूंदीको दिया, ३०००० रुपया सालियानह और प्रतापगढ़के खिराजकी बावत ७२७०० रुपया सालिमशाही सालियानह सरकार अंग्रेजी हुल्करको देती है. विक्रमी १९२२ [हि० १२८२ = ई० १८६५] में हुल्करने सरकार अंग्रेजीको रेलवेके लिये बिदून एवज ज़मीन मए इस्तिथारात व राहदारी महसूलके देनेका इक्कार किया; और विक्रमी १९२६ [हि० १२८६ = ई० १८६९] में खंडवा व इन्दौरके बीचवाली रेल तय्यार होनेके वक्त एक करोड़ रुपया कर्जके तौरपर दिया. विक्रमी १९२९ [हि० १२८९ = ई० १८७२] में हुल्करने एक कारखानह तोप व बन्दूक वगैरह हथियार बनानेके लिये जारी किया. यह बात मालूम होनेपर सरकार अंग्रेजीने उसे विल्कुल मौकूफ़ करा दिया.

इन महाराजाको सरकार अंग्रेजीने दत्तक लेनेकी सनद और जी० सी० एस० आइ० (G. C. S. I.) का खिताब दिया था, और रियासतकी १९ तोप सलामीके सिवा दो तोप इन महाराजाके लिये हीन हयात ज़ियादह कीगई थीं. यह क़ीनके सलाहकार भी मुक़रर किये गये थे. विक्रमी १९४३ आषाढ़ कृष्ण १ [हि० १३०३ ता० १४ रमज़ान = ई० १८८६ ता० १७ जून] को प्रातःकालमें इन महाराजाका देहान्त होगया. इनके दो बेटे बड़े शिवाजीराव और छोटे जशवन्तराव हैं.

महाराजा तुक्काजीराव हुल्कर बड़े होश्यांर, चालाक और आमदनी बढ़ानेमें बहुत आक़िल और घमंडी भी थे; परन्तु अपना मल्लब निकालनेके लिये जैसा

मौका देखते, बर्ताव करते थे. मैं (कविराजा श्यामलदास) भी इनसे तीन बार मिला, अक्वल दिल्लीके कैसरी दरबारमें कैलास वासी महाराणा सज्जनसिंहके साथ; दूसरी बार चित्तौड़के स्टेशनपर तथा डेरोंमें, जब कि महाराजा शिमलेको जाते थे, और मैंने उक्त महाराणाकी तरफसे उनकी मिहमानीका बन्दोबस्त किया था. तीसरी दफा जब मैं अपनी आंखका इलाज करानेके लिये इन्दौर रेजिडेन्सीके डॉक्टर कीगन साहिबके पास गया, तब महाराजाने मेरी बहुत खातिर की थी, और मैं डेढ़ महीने तक इन्दौरकी छावनीमें रहा. वापस आते वक्त उनसे मिला था. इन तीनों मुलाकातोंमें कई घंटों तक मेरी उनकी बातें हुईं, जिसमें मेरे एक सवालके जवाबमें वे चार कलाम करते थे, और हर कलाम उनका मतलबसे खाली न था.

तुक्काजीके बाद शिवाजीराव गद्दीपर बिठाये गये; यह पहिले इन्दौरके राजकुमार कॉलिजमें पढ़े थे, और इन्होंने अपने बापकी मौजूदगीमें राजपूतानह, उत्तरी हिन्दुस्तान, बंगाला और दक्षिणी हिन्दुस्तानकी सैरकी थी. यह महाराजा विक्रमी १९४४ वैशाख [हि० १३०४ रजब = ई० १८८७ एप्रिल] में ज्युबिलीके जलसेपर इंग्लिस्तानको गये थे, और विक्रमी आशाढ़ कृष्ण १४ [हि० ता० २७ रमजान = ई० ता० २० जून] को लण्डनके जलसेमें शरीक हुए.

इस रियासतका क्षेत्रफल ८४०० मील मुरब्बा, और आबादी १०५४२३७ आदमियों की है. आमदनीके लिये डॉक्टर हगटर अपने गजेटिअरकी सातवीं जिल्दके पहिले वसात-वें पृष्ठमें लिखते हैं, कि “ विक्रमी १९३२ [हि० १२९२ = ई० १८७५] में ४५९८०००, और विक्रमी १९३५ [हि० १२९५ = ई० १८७८] में ५१२३०००, रुपया थी, लेकिन विक्रमी १९३८-३९ [हि० १२९८-९९ = ई० १८८१-८२] में ७०७४४०० रुपया होगई.” इस रियासतमें कुल फौज ८८९० है, जिसमें ३१०० क्वाइद जाननेवाले पैदल, २१५० बै क्वाइदी, २१०० क्वाइद दांसवार और १२०० बगैर क्वाइद दां, और ३४० गोलन्दाज व चौबीस तोपें हैं. यहांकी फौजमें अवध और पश्चिमोत्तर देशके आदमी जियादह भरती होते हैं, और दो कम्पनी सिक्खोंकी हैं.

रियासत धार.

यहां वाले राजा पंवार खानदानके हैं, जो क़दीम ज़मानहमें भी मालवेके नामवर राजा रहे थे. इस खानदानका पुराना हाल प्रशस्ति, ताम्रपत्र वगैरह लेखोंसे इस तरह मालूम हुआ है, कि परमार वंशका राजा कृष्णराजदेव उज्जैनमें राज करता था, उसके बाद वैरिसिंह, सीयकदेव और वाक्पतिराज (१) हुए, और इनके बाद सिंधुराज, भोजराज, उदयादित्य, नर वर्मा, यशो वर्मा, अजय वर्मा, विन्द वर्मा, सुभट वर्मा और अर्जुन वर्मा उज्जैन तथा धारमें विक्रमी १२७२ के करीब तक राज्य करते रहे.

तारीख मालवामें मुन्शी करमअली लिखता है, कि जगदेव पंवारकी औलाद मालवा छोड़कर गुजरातमें पहुंची, लेकिन दुश्मनोंने वहां भी उनको न रहने दिया, तब वे दक्षिणको चले गये, और जमींदारी वगैरहसे अपना गुज़ारा करने लगे. आखिरकार

(१) “भोज प्रबन्ध” में लिखा है, कि राजा सिंधुल (सिंधुराज) ने मरते वक्त अपने पुत्र भोजके कम उम्र होनेके कारण अपने भाई मुंजको राज्यका मालिक बनाकर भोजको उसे सौंपा; परन्तु यह मुंज उसका भाई न था, किन्तु उसके पिता वाक्पतिराजका ही दूसरा नाम होना संभव है. क्योंकि राजा भोजने विक्रमी १०७८ चैत्र शुक्ल १४ [हि० ४११ ता० १३ जिल्हज = ई० १०२१ ता० ३० मार्च] के एक ताम्रपत्रमें सीयकदेवके बाद वाक्पतिराज और उसके बाद सिंधुराज लिखकर फिर अपना नाम लिखा है, इससे सिंधुलके बाद मुंज नामका कोई राजा होना नहीं पाया जाता.

“ दशरूपावलोक ” ग्रन्थमें मुंजका बनाया हुआ एक श्लोक लिखा है, और उसी श्लोकको दूसरी जगह वाक्पतिराजका बनाया हुआ लिखा है. इससे पाया जाता है, कि ये दोनों नाम एक ही राजाके हैं.

“ पिंगल सूत्रवृत्ति ” में हलायुधने मुंजकी तारीफमें तीन श्लोक बनाये, जिनमेंसे पहिले दो श्लोकोंमें मुंज और एक श्लोकमें वाक्पति नाम लिखा है, इससे भी साबित होता है, कि वाक्पतिराज और मुंज नामका एक ही राजा था.

“ सुभाषित रत्न सन्दोह ” नामक ग्रन्थ जो एक जैनी यतिने विक्रमी १०५० पौष शुक्ल ५ [हि० ३८३ ता० ४ जिल्काद = ई० ९९३ ता० २१ डिसेम्बर] को बनाया, उसमें उसने लिखा है, कि इस ग्रन्थकी समाप्ति राजा मुंजके समयमें हुई. यदि यह राजा वाक्पतिराजसे अलग होता, तो भोज अपने ताम्रपत्रमें इसका नाम जरूर दर्ज करता. इस वास्ते भोज प्रबन्धका लेख सुबूतके काबिल नहीं समझा जासکتा.

एक ताम्रपत्रमें वाक्पतिराजका तीसरा नाम अमोघवर्ष भी होना लिखा है, जो विक्रमी १०३६ चैत्र कृष्ण ९ [हि० ३७९ ता० २३ शअ्वान ई० ९८० ता० १३ मार्च] की मितिका इसी राजाके समयका है.

राजा शिवा घोंसलाके जमानहमें बया पंवारने उक्त राजासे सर्दारी हासिल की, और शिवाके मरने बाद शंभासे बहुतसी जागीरें व राजा रामसे विश्वासरावका खिताब पाया.

बयाके मरजाने बाद उसके दो बेटे १ कालू व २ शंभा बाकी रहे, जिनमेंसे कालूकी औलाद दक्षिणमें रही, और शंभा पंवारके तीन बेटे ऊदा, आनन्दराव और जगदेव हुए. इन तीनोंको शंभाके मरने बाद साहू राजाने बड़े बड़े उहदे देकर ऊदाको उसके बापके मुवाफिक विश्वासरावका खिताब दिया. आखिरकार ऊदासे पेशवाकी नाइतिफाकी होगई, इस सबबसे पेशवाने आनन्दरावको अपनी तरफ मिलाकर धारका मुल्क उसको जागीरमें देदिया. मरहटे सर्दारोंमें आनन्दराव बड़ा मशहूर बहादुर था. जब वह विक्रमी १८०६ [हि० ११६२ = ई० १७४९] में मरगया, तो उसका बेटा जशवन्तराव गद्दीपर बैठा, और वह भी विक्रमी १८१८ [हि० ११७४ = ई० १७६१] में पानीपतकी लड़ाईमें मारा गया. इसके बाद उसका कम उम्र लड़का खण्डेराव धारकी गद्दीपर बैठा, और विक्रमी १८३६ [हि० ११९३ = ई० १७७९] में उसका इन्तिकाल होनेपर उसका बेटा आनन्दराव, जो खण्डेरावकी मृत्युके छः महीने बाद पैदा हुआ था, अपने ननिहालमें पर्वरिश पाकर सत्तरह वर्षकी उम्रमें धारकी गद्दीका मालिक बना, और विक्रमी १८६४ [हि० १२२२ = ई० १८०७] में मरगया. इसका देहान्त होने बाद रामचन्द्रराव नामका एक लड़का पैदा हुआ, जिसकी कम उम्रके सबब राज्यका इन्तिजाम आनन्दरावकी विधवा मीनाबाई करती रही. परन्तु जब यह लड़का (रामचन्द्रराव) भी मरगया, तो मीनाबाईने अपनी बंहीनके बेटेको गोद लेकर उसका नाम रामचन्द्र रक्खा.


अंग्रेजोंका मालवेपर क़बज़ह होनेसे पहिले इस रियासतको संधिया व हुल्करने लूट मार करके बहुत कुछ बर्बाद किया. लेकिन विक्रमी १८७५ पौष शुक्ल १४ [हि० १२३४ ता० १२ रबीउलअव्वल = ई० १८१९ ता० १० जैनुअरी] को महाराजा और सर्कार अंग्रेजी के दरमियान एक अह्दनामह करार पाया, जिसके अनुसार यह रियासत अंग्रेजी हिफ़ाजत में आई; और बहुतसे जिले जो इस रियासतसे निकल गये थे, महाराजाको वापस दिलाये गये. रियासत धारने बांसवाड़ा और डूंगरपुरमें जो अपना हक था वह और दो लाख पचास हजार रुपया कर्ज अदा करनेको पांच वर्षके वास्ते पर्गनह बेरस्या सर्कार अंग्रेजीको सौंप दिया; लेकिन विक्रमी १८७८ [हि० १२३६ = ई० १८२१] में एक दूसरा अह्दनामह हुआ, जिसके मुताबिक रियासत धारने बेरस्याके पर्गने व अलिमोहनका खिराज सर्कार अंग्रेजीको देदिया. विक्रमी १८८८ [हि० १२४६ = ई० १८३१]

में यह पर्गनह सर्कार अंग्रेजीने धारको वापस दिया.


विक्रमी १८८९ [हि० १२४७ = ई० १८३२] में रामचन्द्रराव मरगया, तब जशवन्तराव गोद लिया जाकर विक्रमी १८९१ [हि० १२५० = ई० १८३४] में गद्दीपर बिठाया गया. इससे बेरस्याके पर्गनेका कुछ बन्दोबस्त न हुआ, तब सरकार अंग्रेजीने विक्रमी १८९२ [हि० १२५१ = ई० १८३५] में उसे फिर अपने कबजहमें लेलिया. विक्रमी १९१४ [हि० १२७३ = ई० १८५७] में जशवन्तरावका देहान्त हुआ, और उसका छोटा भाई आनन्दराव जो विक्रमी १९०० [हि० १२५९ = ई० १८४३] में पैदा हुआ था, गद्दीपर बैठा. इसी वर्ष राजाकी कम उम्रके सबब रियासतमें बल्वा हुआ, जिसका नतीजह यह निकला, कि गवर्मेण्ट अंग्रेजीने राज्य ज़ब्त करलिया; लेकिन कुछ अरसे बाद बेरस्याके पर्गनेके सिवा, जो भोपालको दिया गया, बाकी राज्य आनन्दराव पंवारको वापस देदिया, और इन्तिजाम अपनी निगरानीमें रक्खा.

विक्रमी १९२१ [हि० १२८० = ई० १८६४] में राजाको मुल्की इस्तिथारात मिले. गोद लेनेकी सनद इनको पहिले ही मिल चुकी थी. इस राजाने रेलवे लाइनके लिये सरकारको ज़मीन दी, और के० सी० एस० आइ० (K. C. S. I.) का खिताब पाया.

इस रियासतका क्षेत्रफल १७४० मील मुर्ब्बा, आबादी १४९२४४ आदमी, और आमदनी (१) ७४३१२० रुपया है, जिसमेंसे १९६५० रुपया सालानह मालवा भीलकोरके लिये दियाजाता है. फ़ौजमें २७६ सवार, ८०० पैदल, २ तोप और २१ गोलन्दाज़ हैं. रियासतकी सलामी १५ तोप सरकार अंग्रेजीसे मुकर्रर है.



रियासत देवास.



इस रियासतके रईस पंवार खानदानमेंसे हैं. बया पंवारके दो बेटे १-कालू, और २-शंभा थे, जैसा कि धारकी तवारीखमें बयान होचुका है; उनमेंसे शंभाकी औलादमें धारके राजा और कालूकी नस्लमें देवासवाले हैं. कालूके चार बेटे १- कृष्णाराव, २- तुक्काराव, ३- जीवाराव, और ४- मानाराव थे. कालूके मरनेपर

(१) एचिसन साहिबकी ट्रीटीकी तीसरी जिल्दमें ४३७००० रुपया सालानह आमदनी लिखी है, और जो ऊपर दर्ज हुई, वह डॉक्टर हएटरके गज़ेटिअरकी चौथी जिल्दसे लीगई है.

कृष्णाराव, अपने बापकी जगह सोपाका मालिक हुआ, तुक्कारावने कनी गांव पाया, जीवाराव मेगनीका मालिक बना और मानारावको पाथरी मिली. इनमेंसे तुक्का व जीवा दोनों पेशवाके मातहत सर्दारों में रहे. जब बाजीराव पेशवा मालवाके मुल्कका मुख्तार बना, तो खर्चके लिये देवास, सारंगपुर, आलोट, कर्कछ, रंगनोद, वगैरह चौदह पर्गने दोनों भाइयोंको जागीरमें मिले. ये दोनों खास देवासमें रहते थे, और आमदनीको, जो इन पर्गनोंसे मिलती, आधी आधी बांट लेते थे. इन दोनों भाइयोंकी औलादसे एक शहर देवासमें दो रियासतें काइम होगईं.

तुक्कारावका बेटा कृष्णाराव और उसके दूसरा तुक्काराव, और उधर जीवारावके सदाशिवराव, और उसके आनन्दराव हुआ. इस रियासतको भी हुल्कर और संधियाने धारकी तरह तवाह किया, और बढ़ने न दिया. जब तुक्काराव दूसरे और आनन्दरावका विक्रमी १८७५ [हि० १२३३ = ई० १८१८] में गवर्मेण्ट अंग्रेजीके साथ अह्दनामह हुआ, तो मालकम साहिबने दोनों रईसोंके लिये एक ही दीवान मुकर्रर किया.

दूसरे तुक्कारावके बाद रुक्मांगद उर्फ खासह बाबा, और उनके पीछे कृष्णाराव बाबा साहिब मालिक हुए, जो अब मौजूद हैं. दूसरे आनन्दरावके हैबतराव और उनके वारिस नारायणराव दादा साहिब हैं. अब्नी मेके साहिबके बयान व तारीख मालवासे एक शाखके कुर्सी नामहमें फर्क मालूम होता है. अब्नी मेके की किताबमें लिखा है, कि तुक्कारावका भाई जीवाराव, उसका बेटा आनन्दराव, जिसका पुत्र हैबतराव, उसका दूसरा आनन्दराव फिर दूसरा हैबतराव और उसका नारायणराव हुआ. जो एचिसनकी किताबसे भी मिलता है.

कृष्णारावके गद्दीपर बैठने बाद राज्यका काम इनकी माताने चलाया, लेकिन कर्ज और बद इन्तिजामी बढ़ती गई. विक्रमी १९३२ [हि० १२९२ = ई० १८७५] में रईसका खर्च मुकर्रर करके इन्तिजामके लिये गवर्मेण्ट अंग्रेजीकी तरफसे एक देशी सुपरिन्टेन्डेन्ट मुकर्रर किया गया. विक्रमी १९२१ [हि० १२८० = ई० १८६४] में दूसरे हिस्सहदार हैबतरावका इन्तिकाल हुआ, और उसका छोटा बच्चा नारायणराव गद्दीपर बैठा, जो विक्रमी १९१७ [हि० १२७६ = ई० १८६०] में पैदा हुआ था. इसके बचपनमें राज्यका प्रबन्ध गोविन्दराव रामचन्द्र कामदारके हाथमें रहा और निगरानी एजेण्ट गवर्नर जनरल सेन्ट्रल इन्डिया की थी.

विक्रमी १९१४ [हि० १२७३ = ई० १८५७] के गद्दमें ये दोनों हिस्सह-

दार गवर्मेण्टके खैरस्वाह रहे, इसलिये अंग्रेजी सरकारने इनको कन्टिन्जेण्ट फौज खर्चमेंसे २७३६० रुपया छोड़ दिया और दत्तक लेनेकी सनद दी. इन दोनों रईसोंमेंसे हर एककी सलामी पन्द्रह तोप मुकर्रर है. देवासका क्षेत्रफल २८९ मील मुरब्बा, आबादी १४२१६२ आदमी, और ४५५ गांव हैं. एचिसन् साहिबने दोनों रईसोंकी आमदनी ४२५००० रुपया सालियानह लिखी है.

—*—

रियासत बड़ौदा.

—*—

इस रियासतका इतिहास बम्बई गजेटिअरकी सातवीं जिल्दमें बहुत तूल तवील लिखा है, और एचिसन् साहिब व डॉक्टर हन्टर, तथा अब्दी मेकेने अपनी किताबोंमें मुस्तसर तौरपर बयान किया है, इसलिये हम भी उक्त तीनों मुवरिखोंकी किताबोंसे जरूरी हालात चुनकर यहांपर दर्ज करते हैं:-

इस मरहटी रियासतका मूल पुरुष कैरोराव था, जिसके तीन बेटे १- जींगो, २- दामा, और ३- हरजी थे. इनमेंसे दामाराव गायकवाड़ सिताराके महाराजा साहू छत्रपतिके बड़े सर्दारोंमें था.

विक्रमी १७७७-७८ [हि० ११३२-३३ = .ई० १७२०- २१] में दामाकी मातहत फौजने गुजरातको लूटा, तो उसे दूसरे दरजेका सेनापति बनाकर शम्शेर बहादुरका खिताब दिया गया. दामाके बाद जींगोका बेटा पीला गायकवाड़ मुस्तार बना. इसको "सेना खास खेल" का खिताब मिला. इस वक्त पश्चिमी हिन्दुस्तानमें बड़ी अब्तरी फैल रही थी, सिताराके अस्ली राजाके नौकर खुद मुस्तारीकी कोशिश करते थे. पीला गायकवाड़को विक्रमी १७८८ [हि० ११४३ = .ई० १७३१] में जोधपुरके महाराजा अभयसिंह, गुजरातके बादशाही सूबहदारने मरवाडाला. यह काम पेशवाकी मिलावटसे हुआ. इसकी जगह इसका बेटा दूसरा दामा गायकवाड़ मुकर्रर हुआ, जिसको विक्रमी १७८९ [हि० ११४४ = .ई० १७३२] में साहू राजाने अब्बल दरजहका सेनापति बनाया. जब अहमदाबादकी हुकूमत दिल्लीकी मातहतीसे निकल गई, तब विक्रमी १८१२ [हि० ११६८ = .ई० १७५५] में

दामा गायकवाड़ और पेशवाने इस मुल्कको तक्सीम करलिया. दामा पेशवा को खिराज देता रहा.

विक्रमी १८२५ [हि० ११८१ = ई० १७६८] में (१) दामा मरगया. इसके चार बेटे, १- सीया, २- गोविन्दराव ३- फ़तहसिंह, और ४- माना थे. पेशवाने गायकवाड़की ताकत तोड़नेके लिये सीयाको, जो पागल था, मुरतार बनाया, और उसके भाई फ़तहसिंहको प्रबन्ध कर्ता नियत किया, लेकिन वह महलके भरोखेसे गिरकर विक्रमी १८४६ पौष शुक्ल ५ [हि० १२०४ ता० ३ रबीउर्रसानी = ई० १७८९ ता० २१ डिसेम्बर] को मरगया, और मानाराव मुरतार हुआ. विक्रमी १८५० श्रावण कृष्ण १० [हि० १२०७ ता० २३ जिल्हिज = ई० १७९३ ता० १ अगस्त] को मानाका इन्तिकाल हुआ. इससे थोड़े दिन पेशतर सीया भी मरगया था, इसलिये गोविन्दराव मालिक बना, जिसके विक्रमी १८५७ आश्विन [हि० १२१५ रबीउर्रसानी = ई० १८०० सेप्टेम्बर] में मरने बाद उसका बेटा आनन्दराव गद्दीपर बैठा. परन्तु वह कम अकल था, इसलिये उसके भाई कान्हाने, जो गोविन्दरावकी पासवानसे था, गोविन्दरावके रिश्तहदार मलहारराव गायकवाड़की मददसे राज्य छीन लिया. इसपर गवर्मेण्ट अंग्रेजीने मलहाररावको बम्बई व कान्हाको मदरास भेजदिया, और आनन्दरावके साथ विक्रमी १८५९ [हि० १२१७ = ई० १८०२] में पहिला व विक्रमी १८६२ [हि० १२२० = ई० १८०५] में दूसरा अहदनामह किया, जिसके मुताबिक एक कन्टिन्जेण्ट फौज मुकरर कीजाकर उसमें तीन हजार सिपाही और एक तोपखानह रक्खा गया.

विक्रमी १८७६ आश्विन शुक्ल १४ [हि० १२३४ ता० १२ जिल्हिज = ई० १८१९ ता० २ अक्टोबर] को आनन्दराव मरगया, और उसका भाई सीयाराव दूसरा गद्दीपर बैठा. इसकी बद चल्नी व बेवकूफीके सबब सरकार अंग्रेजीने धम्की दिखलाने को पेटलादका इलाकह लेलिया. विक्रमी १९०४ [हि० १२६३ = ई० १८४७] में सीयाराव मरगया; जिसके बाद इसका बेटा गणपतराव राज्यका मालिक बना, जो विक्रमी १९१३ मार्गशीर्ष कृष्ण ७ [हि० १२७३ ता० २० रबीउलअव्वल = ई० १८५६ ता० १९ नोवेम्बर] को मरगया. इसके कोई लड़का न था, इसलिये इसका छोटा भाई खण्डेराव विक्रमी पौष कृष्ण १ [हि० ता० १३ रबीउर्रसानी = ई० ता० १२ डिसेम्बर] को गद्दीपर बैठा. इसने गद्दके वक्त सरकार अंग्रेजीके साथ खैरखाही जाहिर की, इस वास्ते सरकारसे तीन लाख रुपया सालानह उसको छोड़ दिया गया, जो कन्टिन्जेण्ट फौज खर्चके लिये उससे लियाजाता था. विक्रमी १९१९ [हि० १२७८ = ई० १८६२]

(१) गुजरात राजस्थानमें दामाका मरना ईसवी १७७२ [वि० १८२९ = हि० ११८६] में लिखा है.

में उसे दत्तक लेनेकी सनद मिली, और जी० सी० एस० आइ० का खिताब भी हासिल हुआ.

वह विक्रमी १९२७ मार्गशीर्ष शुद्ध ६ [हि० १२८७ ता० ४ रमजान = ई० १८७० ता० २८ नोवेंबर] को लावलद मरगया, और उसका छोटा भाई मलहारराव गायकवाड़ गद्दीपर बैठा. इसका इन्तिजाम बहुत खराब था, इस सबबसे गवर्मेण्ट अंग्रेजीने उसको अठारह महीनेके अन्दर इन्तिजाम करनेका हुक्म दिया. परन्तु उसने इन्तिजामकी दुरुस्तीके एवज इसी मीआदके अन्दर विक्रमी १९३१ [हि० १२९१ = ई० १८७४] में रेजिडेण्टको जहर देनेकी कोशिश की, जिसकी तहकीकातके लिये कमिशन मुकर्रर हुई. इस कमिशनमें जयपुरके महाराजा सवाई रामसिंह, ग्वालियरके महाराजा जियाराव सेंधिया, राजा सर दिनकरराव (जो पहिले ग्वालियरका दीवान था), सर रिचर्ड मीड तथा मिस्टर पी० एस० मेल्विल मेम्बर और बंगालके चीफ़ जस्टिस सर रिचर्ड काउच प्रेसिडेण्ट नियत हुए; लेकिन कमिशनकी रायमें इस्तिलाफ़ रहा, याने हिन्दुस्तानियोंने उसको बेकसूर और यूरोपिअन अफसरोंने कुसूरवार ठहराया, तब गवर्मेण्टने कमिशनकी रायको छोड़कर खुद यह फैसलह किया, कि इसके इन्तिजाममें कई तरह खलल है, इसवास्ते गद्दीसे खारिज करदिया जावे. विक्रमी १९३२ चैत्र शुद्ध १४ [हि० १२९२ ता० १२ रबीउलअव्वल = ई० १८७५ ता० १९ एप्रिल] को मलहारराव गद्दीसे खारिज किया गया, और तीन दिन बाद याने २२ एप्रिल को राज कैदी बनाया जाकर मदरास भेजा गया.

इसकेबाद सरकार अंग्रेजीसे खण्डेरावकी विधवाजमुनावाईको दत्तक लेनेका अधिकार मिला. जिसपर उसने पीला गायकवाड़के खानदानमेंसे गोपालराव नामका एक लड़का चुना, और उसको विक्रमी १९३२ ज्येष्ठ कृष्ण ७ [हि० १२९२ ता० २१ रबीउस्सानी = ई० १८७५ ता० २७ मई] को गद्दीपर विठाकर सीयाराव गायकवाड़के नामसे प्रसिद्ध किया. इसकी कम उम्रके समय सर टी० माधवराव दीवान बनाया गया, जो एजेण्ट गवर्नर जनरलकी रायसे काम करता रहा. विक्रमी १९३४ माघ कृष्ण २ [हि० १२९३ ता० १५ जिल्हिज = ई० १८७७ ता० १ जैनुअरी] को यह महाराजा दिल्लीके कैसरी दरबारमें गये, जहांपर उनको होश्यारी, इल्मी लियाक़त, और बुद्धिमानीके सबब “ फ़र्जन्द खास दौलत इंग्लिशयह ” का खिताब मिला, और तीन वर्ष पीछे तन्जावरके खानदानमें विक्रमी १९३७ [हि० १२९७ = ई० १८८०] में इनकी शादी हुई. इनको विक्रमी १९४४ [हि० १३०४ = ई० १८८७] में ज्युबिलीके

जल्सेपर जी० सी० एस० आइ० (G. C. S. I.) का खिताब मिला. इसी वर्षमें वह अपनी महाराणी सहित विलायतकी सैरको गये थे.

बड़ौदेका क्षेत्रफल ८५७० मील मुरब्बा, बाशिन्दे २१८५००५, और आमदनी की तादाद एचिसन्ज ट्रीटीके मुवाफ़िक ११५०००००० रुपया सालियानह है, और डॉक्टर हण्टरने अपने गज़ेटिअरकी दूसरी जिल्द में १११८२३२० रुपया लिखा है. बम्बई गज़ेटिअरकी सातवीं जिल्द में एफ० ए० एच० इलियटने १३९९१४४५ रुपया दर्ज किया है. इस रियासतकी सलामी गवर्मेण्ट अंग्रेजीसे २१ तोप मुकर्रर है. फ़ौजमें २ बाटरी तोपखानह, १५४ गोलन्दाज़, ४२ तोप, जिनमें दो सोनेकी और दो चांदी की हैं; रिसालेमें सवारोंके अलावह २४७ अफसर, छः रेजिमेन्ट पैदलोंकी, कुल तीन हजार सोलह क़वाइद जाननेवाले, और ४४१० सवार और १८२७ पैदल बेक़वाइदी हैं; क़वाइद जाननेवाली फ़ौजका खर्च साढ़े सात लाख और बेक़वाइदका अट्ठाईस लाख रुपया सालियानह है.

टोंककी तवारीख.

जुग्राफ़ियह.

रियासत टोंक मुल्क राजपूतानहमें एक दर्मियानी दरजेकी मुसल्मानी रियासत है. उसके छः पर्गनों टोंक, रामपुरा, नीबाहेड़ा, सरोज, छपरा और पड़ावामेंसे पहिले तीन पर्गने खास राजपूतानहके अन्दर वाके हैं; और बाकी मुल्क मालवाकी सहदपर उसकी रियासतोंसे घिरे हुए अलहदह अलहदह हैं, इसलिये इस रियासत की हदें एक जगह बयान नहीं हो सकतीं. टोंक और रामपुरा शहर जयपुरसे दक्षिणी तरफ़ राज्य जयपुरसे घिरे हुए हैं; नीबाहेड़ा राज्य मेवाड़ और इलाक़ह संधियासे घिरा हुआ है; सरोज मालवाके अन्दर इलाक़ह संधिया, भोपाल और ज़िले सागरसे

घिरा हुआ है; छपरा मुल्क मालवाकी सहदपर कोटा, भालरापाटन और सेंधियाके इलाकहसे घिरा हुआ है; और पड़ावाके गिर्द भालरापाटन, सेंधिया तथा हुल्करका इलाकह फैला हुआ है.

टोंकके मातहत हर पर्गनहकी जमीन उम्दह और ज़रखेज है; और बनास नदी खास टोंकके पास गुज़रकर बड़ी सर्सव्जीका जरीअह हुई है. इस रियासतमें कुल गांव एक हजार एक सौ तैंतालीस हैं. कुल रकवह २५०९ मील मुरब्बा, आवादी ३३८०२९ आदमी, आमदनी १२८५२६० रुपया सालानह और फ़ौज सवार व पैदल चार हजारके करीब है. इस रियासतकी सलामी सर्कार अंग्रेज़ीकी तरफसे सत्तरह तोपकी मुकर्रर है.


खास शहर टोंक एक नीची पहाड़ीके पास आवाद है, जिसकी निस्वत रिवायत है, कि विक्रमी १००३ माघ कृष्ण १३ [हि० ३३५ ता० २७ जमादियुल् अब्बल = .ई० ९४६ ता० २४ डिसेम्बर] को दिल्लीके राजा खनवादके एक मातहत हाकिम रामसिंहने एक गांव बसाकर उसका नाम टोंक रक्खा था, और उस आवादीको अबतक कोट कहते हैं. विक्रमी १३३७ माघ शुक्ल ५ [हि० ६७९ ता० ४ शव्वाल = .ई० १२८१ ता० २७ जैनुअरी] को अलाउद्दीन खिल्जीने इस गांवको दोबारह रौनक दी. विक्रमी १८६३ [हि० १२२१ = .ई० १८०६] में टोंकपर नवाब अमीरखांका क़वज़ह हुआ, उन्होंने आवादीसे एक माइल दक्षिणी तरफ़ अपने रहनेके मकान, कारखाने और दफ़्तर काइम किये, और उनके बाद बराबर आवादीने तरकी पाई, जिससे वह एक छोटेसे शहरका नमूनह बनगई. टोंकमें विक्रमी १९२८ [हि० १२८८ = .ई० १८७१] से मद्रसेकी और विक्रमी १९२९ [हि० १२८९ = .ई० १८७२] से शिफ़ाखानहकी बुन्याद काइम हुई. मौजूद नवाबके वक्तमें छापाखानह भी जारी हुआ है, जिससे एक उर्दू अख़बार "सफ़ीरि टोंक" नाम हफ़्तह वार छपकर निकलता है.

क़स्बह रामपुरा एक मज़बूत पकी शहरपनाहके अन्दर आवाद है; इस पर्गनहकी जमीन अक्सर बराबर है, और कहीं कहीं छोटी पहाड़ियां पाई जाती हैं. क़स्बह नीवाहेड़ाके गिर्द भी पुस्तह हल्की शहरपनाह मौजूद है. विक्रमी १८७७ [हि० १२३५ = .ई० १८२०] में टॉड साहिबने उक्त क़स्बेको देखकर उसकी बहुत तारीफ़ लिखी है, और वह अबतक बाहरसे बहुत खूबसूरत मालूम होता है, इस पर्गनहकी जमीन अक्सर जगह काली और चिकनी है, जिसमें अपयून खूब पैदा होती है, अक्सर मक़ामातपर नीची पहाड़ियां भी मौजूद हैं, और घास पैदा होती


है. पर्गनह पड़ावाकी जमीन और हालत नीवाहेड़ाके पर्गनहसे बिल्कुल मिलती हुई पाई जाती है.

पर्गनह सरोज मालवाके अन्दर सबसे बिहतर मकाम है. यहांपर छोटी नदियां अक्सर जारी रहती हैं. आंब, महुवा, इमली, बड़ और पीपल वगैरहके बड़े दरख्तोंसे इलाकहमें रौनक नजर आती है, और आम खेतीकी पैदावार भी अच्छी होती है. सरोजकी आवादी पुराने जमानहमें बहुत जियादह थी, मगर अब हाकिमोंकी बे पर्वाईसे बहुत कम होगई है. शहर सरोजके पश्चिममें एक किला, और दक्षिणमें उम्दह पानीका एक तालाब है. यह पर्गनह महाराजा जशवन्तराव हुल्करने नव्वाब अमीरखांको फौज खर्चके लिये दिया था. पर्गनह छपराकी जमीन बराबर, काली और चिकनी है; उसकी पैदावार दर्मियानी किस्मकी है, और उसमें दरख्त चीड़की लकड़ी कसूरतसे पैदा होती है.

राज्य प्रबन्धके लिये रियासत टोंकमें नव्वाबके मातहत एक कौन्सिल काइम है, उसके बाद दीवानी और फौजदारीकी अदालतें हैं; और हर पर्गनहपर एक हाकिम रहता है, जिसको यहां आमिल कहा जाता है. हर आमिलके पास एक पेग्नकार याने नाइब हाकिम और कई थानहदार मुकरर रहते हैं. इस अमलेके सिवा इस रियासतको एजेण्टियोंमें देवली, जयपुर, उदयपुर, आवू, इन्दौर, आगर और सीहोर वगैरह मकामातपर अपने वकील बाहिरी मुआमलातकी जवाबदिहीके लिये हाजिर रखने पड़ते हैं. हर एक आमिलकी तन्ख्वाह सौ रुपयेसे दो सौ रुपये तक और वकीलकी तन्ख्वाह पचाससे सौ रुपये माहवारी तक अलावह सवारी खर्च वगैरहके होती है.



तवारीख टोंक.



तवारीखी हाल इस रियासतका इस तरहपर है, कि अफगानिस्तानके जिले बुनेर मौजे चूहड़से सालारजई कौमके एक पठान कालेखांका बेटा तालेखां, दिल्लीके बादशाह मुहम्मदशाहके जमानहमें यहां (हिन्दुस्तानमें) आया, और शहर संभल जिले कठेहर मुहल्ला तरीना सरायमें रहने लगा, और चन्द लुटेरोंसे मिलकर लूट खसोटमें मशगूल हुआ. कठेहर जिलेके एक सर्दार अली मुहम्मदखांका, जिसकी औलादमें रामपुरके नव्वाब हैं, साथी हुआ; उसपर मुहम्मदशाह बादशाहने फौज भेजी. लड़ाईमें यह शरस

बादशाही फ़ौजसे बनेगढ़ (विनयगढ़) में एक मकानके अन्दर घिर गया, लेकिन कुछ अरसह बाद जान सलामत लेकर निकल गया.

जब तालेखां मरगया, तो उसका बेटा मुहम्मद हयातखां, बच्चा रहगया था; उसकी पर्वरिश अली मुहम्मदखांके बेटे दूंदेखांने अच्छी तरह की. दूंदेखांके मरने बाद मुहम्मद हयातखां अपने बापकी जगह तरीना सरायमें बे वसीले रहकर खेतीसे अपना गुज़ारह करने लगा. विक्रमी १८२५ [हि० ११८२ = ई० १७६८] में उसके बेटे अमीरखांका जन्म हुआ. इससे पहिला हाल किताब अमीरनामहके मुसन्निफ़ सय्यद सईद अहमदने बहुत बढ़ावे, और तवालतसे लिखा है. अब बाकी हाल वक़ाये राजपूतानहसे लिखते हैं.

जब अमीरखां बीस वर्षकी उम्रका हुआ, तो अपने छोटे भाई करीमुद्दीन और दस दूसरे आदमियोंको लेकर मालवे गया, और मरहटी फ़ौजमें नौकर होगया. विक्रमी १८५१ [हि० १२०८ = ई० १७९४] में अमीरखां छः सवार व साठ पियादोंका अपसर बनकर नव्वाब हयात मुहम्मदका नौकर हुआ; लेकिन एक सालके बाद राघवगढ़के खीची राजा जयसिंह व दुर्जनशाल के पास नौकर हुआ, जिनको संधियाने राज्य छीनकर निकाल दिया था. इन राजपूतों के साथ अमीरखांने लूट मार करनेमें खूब नामवरी हासिल की. खीची सर्दारोंसे नाइत्तिफ़ाकी होनेके सबब उनकी नौकरी छोड़ दी, और बालाराम एंगलियाके पास नौकर होगया. इस मरहटे सर्दारने अमीरखांको फ़तहगढ़का क़िला और नव्वाब ग़ौस मुहम्मदखांकी हिफ़ाजत सुपुर्द की. मरहटोंके लौट जाने और मुराद मुहम्मद के मरजानेसे फ़तहगढ़का क़िला छूट गया.

विक्रमी १८५६ [हि० १२१४ = ई० १७९९] में अमीरखां जशवन्तराव हुल्करका नौकर हुआ. इसके सर्दारोंमें अमीरखां अव्वल दरजेका अपसर समझा गया. अमीरखांको हुल्करकी तरफसे बहुत बड़ा इस्तिथार था, और बढ़ते बढ़ते इसकी फ़ौज भी बहुत बढ़गई थी. वक़ाये राजपूतानहका मुसन्निफ़ ज्वालासहाय लिखता है, कि विक्रमी १८६३ [हि० १२२१ = ई० १८०६] में उसके मातहत ३५००० आदमी और ११५ तोपें थीं. इस फ़ौजकी तन्ख़्वाह वह लूट खसोटसे पूरी करता था. हुल्करने उसे इस फ़ौज खर्चके लिये ऊपर लिखे हुए छः पर्गने दिये, लेकिन इस जागीरसे फ़ौज की तन्ख़्वाहका पूरा नहीं पड़ता था, अमीरखांको सिपाही लोग बहुत तंग करते, यहां तक कि उसको कभी कभी तोपके मुंहपर बांध देते थे, तब वह राजाओं और रियासतोंपर सख्तियां करता. उसकी मातहत फ़ौजको सिपाहियोंकी सेना नहीं बल्कि लुटेरोंका दल कहना

चाहिये. जशवन्तराव हुल्करने अमीरखांको नव्वाबका खिताब देकर उसको बड़गूदाकी छावनीसे पूर्वकी तरफ़ रवाना किया, तब उसने एक लाख रुपया देवासके राजासे और कुछ खर्च आगरको लूटकर वुसूल किया; फिर वह बेरस्या, सागर और सरोंजकी तरफ़ गया. जिधर निकला, उधर बर्साती नालेकी तरह मुल्कको बर्बाद करता चला. उस वक्त सागरमें पेशवाकी अमलदारी थी; विनायकरावने उस शहरको कुछ दिनोंतक तो बचाया, लेकिन् अखीरमें अमीरखांने छापा मारकर लेलिया, और एक महीनेतक उसको खूब लूटा; इसने शहरको लूटनेपर ही सब्र न किया, बल्कि जबतक लूट रही हमेशाह उसको जलाता रहा. इस वक्त विनायकरावकी फौजके सिपाही तथा शहरके बाशिन्दे मिलाकर चार सौ या पांच सौ आदमी मारे गये, और शहर बिल्कुल बर्बाद होगया. जब विनायकराव नागपुरके राजासे फौजी मदद लेकर आ पहुंचा, तो अमीरखां भी थोड़ेसे सिपाहियोंसे मुकाबलेको तय्यार हुआ, लेकिन् इसी मौकेपर घोड़ेसे गिरजानेके सबब उसके सरूत चोट लगी; और उसकी फौजने भी उसका साथ छोड़ दिया. तब वह राठगढ़ (१) की तरफ़ चला गया, जहांके हाकिम मुहम्मदखां और कोठीवाल मोहनलालको लूटकर आसूदह बना.

उसने अपने भाई करीमुद्दीनके कहनेपर अफ़ग़ान अप्सरोंसे रुपया वुसूल करना चाहा, लेकिन् पठानोंने इन्कार करके रास्तह लिया, इसपर करीमुद्दीनने उनको कड़वाई मक़ामपर सजा दी. थोड़े ही दिनोंके बाद करीमुद्दीन शुजाअलपुरमें मारा गया. इस वक्त जशवन्तराव हुल्कर अमीरखांसे नाराज़ होगया था, लेकिन् उसने उसे बहुत जल्द खुश कर लिया. जब दौलतराव सेंधियाकी फौजसे उजैनके पास जशवन्तराव हुल्करकी लड़ाई हुई, तो अमीरखांने पीछेसे हमलह करके सेंधियाकी फौजको बर्बाद किया; परन्तु इसका बदला सेंधियाने इन्दौरको लूटकर बहुत जल्द ही लेलिया. अमीरखां हुल्करके साथ दक्षिणमें भी रहा, और वहांसे लौटने बाद उससे जुदा होकर राजपूतानहमें जयपुरके राजाका मददगार बना, और उक्त राजाके साथ जोधपुरपर घेरा डाला, फिर जगत्सिंहका दुश्मन व जोधपुरका दोस्त होकर जयपुरको लूटने लगा, और उदयपुरमें कृष्णकुंवर बाईको ज़हर दिलवाया; लेकिन् जोधपुरके राजाका भी इससे नाकमें दम आगया था, जो उसका दोस्त बना था. इस मुआमलेका किसी क़द्र हाल जयपुर व जोधपुरकी तवारीखमें लिखा गया है, और बाकी आगे लिखा जावेगा.

जब जशवन्तराव हुल्कर पागल होगया, और उसके गुलाम धर्माकुंवरने मुरतार वनकर हुल्करको मारना चाहा, तो उस समय अमीरखां आ पहुंचा; उसने धर्माको मारकर हुल्करको हिफ़ाज़तके साथ भानपुरमें भेजदिया. अगर्चि

(१) तारीख़ मालवामें राहतगढ़ लिखा है,

अमीरखाने अपने दोस्त व दुश्मनोंको तकलीफ़ देनेके सिवा किसीको दोस्तीके लिहाजसे फ़ायदह नहीं पहुंचाया था, परन्तु जशवन्तराव हुल्करके साथ अल्वत्तह उसने अपनी दोस्तीका हक़ निभाया.

जब अंग्रेज़ लोगोंका अफ़सर राजपूतानहमें आया, तो उस वक्त अमीरखांको कहा गया, कि लुटेरे लोगोंका गिरोह बर्खास्त करदेवे, और सिवा ४० तोपोंके बाकी तोपखानह भी सर्कार अंग्रेज़ीके सुपुर्द करे; हुल्करकी दी हुई जागीर उसके क़वज़हमें बहाल रहेगी. इसपर उसने इन शर्तोंको मान लिया. जब हुल्करकी दी हुई जागीर सर्कारसे बहाल रहनेका हुक्म होगया, तो इसने दूसरे राजपूत राजाओंसे जो ज़मीन मिली थी, उसका भी दावा किया, लेकिन वह ना मन्ज़ूर हुआ. विक्रमी १८७४ कार्तिक शुक्ल १ [हि० १२३२ ता० २८ ज़िल्हिज = ई० १८१७ ता० ९ नोवेम्बर] को सर्कार अंग्रेज़ीने नव्वावके साथ एक अहदनामह किया, और ३००००० रुपया, जो उसको कर्ज़ दिया गया था, मुअफ़ करदिया. सर्कार अंग्रेज़ीने उसके बेटे वज़ीरुद्दौलहको पलवलका इलाक़ह जागीरमें हीन हयात दिया था, जिसके एवज़ १२५०० रुपया उसकी ज़िन्दगी तक मिलता रहा.

विक्रमी १८९१ [हि० १२५० = ई० १८३४] में (१) अमीरखांका इन्तिक़ाल हुआ; और उसका बेटा वज़ीर मुहम्मद, जिसको वज़ीरुद्दौलह भी कहते हैं, गद्दीपर बैठा. यह विक्रमी १९१४ [हि० १२७३ = ई० १८५७] के ग़दर में सर्कार अंग्रेज़ीका ख़ैरख़्वाह रहा, इसलिये उसको गोद लेनेकी सनद मिली.

(१) अमीरखांकी औलाद नीचे लिखे सुवाफ़िक़ थीः- १ नव्वाव मुहम्मद वज़ीरखां (वज़ीरुद्दौलह), जो गद्दी नशीन हुआ; २ हाफ़िज़ मुहम्मद इवाद्दुल्लाहखां, जिसके एक लड़का हुआ; ३ हाफ़िज़ मुहम्मद अब्दुल्करीमखां, जिसके दो बेटे और छः बेटियां पैदा हुईं; ४ हाफ़िज़ मुहम्मद जमालखां, इसके ३ बेटे और तीन बेटियां हुईं; ५ मुहम्मद जलालखां, जिसके २ बेटे व ३ बेटियां हुईं; ६ अहमद अलीखां, जिसके ३ बेटे और ३ बेटियां हुईं; ७ अहमद यारखां, जिसके एक लड़का, और दो लड़कियां हुईं; ८ मुहम्मद वरक़्त बलन्दखां, जिसके ५ बेटे और ४ बेटियां हुईं; ९ मुहम्मद मुनीरखां, जिसके दो बेटे और १ बेटी थी; १० अक़रमखां, जिसके १ बेटा व ५ बेटियां थीं; ११ मुहम्मद कमालखां; और १२ मुहम्मद हिदायतुल्लाहखां. बेटियोंमें १ हुक्म बीबी, जो करीमुल्लाहखांको व्याही गई, जिसके १ बेटा और १ बेटी हुईं; २ गुलबूना वेगम, गुलाम क़ादिरखांकी स्त्री, जिसके ३ बेटे और ४ बेटियां थीं; ३ गुल्शन वेगम, नादिरशाहकी स्त्री, जिसके १ बेटा और १ बेटी थी; ४ फ़ातिमह वेगम, इस्फ़न्दयारखांकी स्त्री, जिसके ५ बेटे और २ बेटियां थीं; ५ फ़ैज़ वेगम, अहमद यारखांकी स्त्री, जिसके २ लड़के और १ लड़की थी; ६ उम्दह वेगम, अली मुहम्मदखांकी स्त्री; ७ अशरफ़ वेगम, अमीर शेरखांकी स्त्री, जिसके ३ लड़के और २ लड़कियां थीं; ८ रहमत वेगम, क़ासिम अलीखांकी स्त्री, जिसके ३ लड़के और १ लड़की थी; और ९ वशारत वेगम, इब्राहीम अलीखांकी स्त्री, जिसके २ बेटे और तीन बेटियां हुईं.

यह विक्रमी १९२१ ज्येष्ठ शुक्ल १४ [हि० १२८१ ता० १३ मुहर्रम = ई० १८६४ ता० १८ जून] को मरगया.

वजीरुद्दौलह मज़हब मुहम्मदीके बड़े पावन्द और बड़े फय्याज़ थे; उनके बाद उनके बेटे नव्वाब मुहम्मद अलीखां गद्दीपर बैठे. इन्होंने विक्रमी १९२२ [हि० १२८२ = ई० १८६५] में लावहपर फौज भेजी, जो नरूका राजपूतोंकी जागीरमें है; नव्वाबकी फौजसे यह क़िला ख़ाली न हुआ, कुछ दिनोंतक लड़ाई रही; आखिर गवर्मेण्ट अंग्रेज़ीने फैसलह करके फौजको लावहसे हटा दिया. इस बातपर नव्वाबने ज़ियादह गुरूसेमें आकर लावहके जागीरदार धीरतसिंहको मए उसके चचा रेवतसिंहके तसल्ली देकर टोंकमें बुलाया, और विक्रमी १९२४ श्रावण शुक्ल १ [हि० १२८४ ता० २९ रबीउलअव्वल = ई० १८६७ ता० १ ऑगस्ट] की रातके ९ बजे जागीरदारके चचा रेवतसिंहको वज़ीरने तलब किया. वह मए अपने बेटे, दो काम्दार और १४ दूसरे साथवालोंके वहां गया. नव्वाबने इन सबको दगासे क़त्ल करवा दिया, सिर्फ़ १ आदमी हम्राहियोंमेंसे जान बचाकर भागा. और इसी वक्त उस मकान को भी, जिसमें ठाकुर धीरतसिंह उतरा था, फौजने घेर लिया. विक्रमी श्रावण शुक्ल ९ [हि० ता० ७ रबीउस्सानी = ई० ता० ८ ऑगस्ट] को एक अंग्रेज़ी अफ़सरने आकर ठाकुर लावहको वतन जानेकी रुख़सत दिलाई. इस कुसूरमें नव्वाब मुहम्मद अलीखां गद्दीसे ख़ारिज और उसके वज़ीर हकीम सर्वरशाहको कैद किया गया; और रियासतकी सलामी १७ तोपसे ११ की जाकर गद्दीसे ख़ारिज किया हुआ रईस मुहम्मद-अलीखां बनारस भेजदिया गया. इसकी बावत एक इश्तिहार भी विक्रमी १९२४ मार्गशीर्ष कृष्ण ३ [हि० १२८४ ता० १६ रजब = ई० १८६७ ता० १४ नोवेम्बर] को गवर्मेण्ट अंग्रेज़ीसे जारी हुआ, और नव्वाब मुहम्मद अलीखांके गुज़ारेके वास्ते रियासतसे ६००००, रुपया सालानहपेन्शन मुक़र्रर हुई. लावहका जागीरदार रियासत टोंकसे जुदा किया जाकर एजेण्टी देवलीका मातहत बनाया गया.

विक्रमी १९२५ [हि० १२८५ = ई० १८६८] में मुहम्मद अलीखांका बेटा मुहम्मद इब्राहीम अलीखां गद्दीपर विठाया गया, और रियासतका प्रबन्ध साहिबज़ादह इब्राहुल्लाहखांके सुपुर्द हुआ. इन्तिज़ामके लिये एक कौन्सिल मुक़र्रर की गई, जिसमें एक अंग्रेज़ी अफ़सर भी शरीकरहा. विक्रमी १९२७ [हि० १२८७ = ई० १८७०] में नव्वाब इब्राहीम अलीखांको पूरा इश्तियार मिला, जो अब रियासतकी हुकूमत करते हैं. विक्रमी १९३३ [हि० १२९३ = ई० १८७७] के कैसरी दरबारमें नव्वाबकी सलामी १७ तोप बहाल होगई; और विक्रमी १९४४ [हि० १३०४ = ई० १८८७]

में रईसके मातहत एक कौन्सिल काइम की गई, जिसका वाइस प्रेसिडेण्ट साहिब-जादह उबैदुल्लाहखां सी० एस० आइ० है.

टौंकका अहदनामह.

एचिसन् साहिबकी अहदनामोंकी किताब, जिल्द ३, हिस्तह पहिला.

अहदनामह नम्बर ६२.

अहदनामह, जो ऑनरेब्ल अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कम्पनी और नव्वाब अमीरु-दौलह मुहम्मद अमीरखांके दर्मियान, ऑनरेब्ल कम्पनीकी तरफसे हिज एक्सलेन्सी मोस्ट नोब्ल मार्किंस ऑफ हेस्टिंग्ज के० जी०, गवर्नर जेनरलके दिये हुए इस्तिथारातके मुवाफिक मिस्टर चार्ल्स थियोफिलस मेट्काफ, और नव्वाबके दिये हुए इस्तिथारातके अनुसार लाला निरंजनलालकी मारिफत करार पाया.

शर्त पहिली— गवर्मेण्ट अंग्रेजी वादह करती है, कि नव्वाब अमीरखां और उसके वारिसोंको हमेशाके लिये वे मकामात दिये जायेंगे, जो उसको महाराजा हुल्करने अपने इलाकहमें दिये हैं, और गवर्मेण्ट अंग्रेजी उन मकामातको अपनी हिजाजतमें रक्खेगी.

शर्त दूसरी— नव्वाब अपनी फौजको सिवा उतनी फौजके, जो इलाकहके प्रबन्धके वास्ते जरूरी समझी जावेगी, मौकूफ करदेंगे.

शर्त तीसरी— नव्वाब अमीरखां किसी मुल्कपर धावा या लूट मार नहीं करेंगे, और वह पिंडारों व दूसरे डाकुओंकी दोस्ती और इत्तिफाकको छोड़ देंगे; और सिवा इसके वह गवर्मेण्ट अंग्रेजीके इत्तिफाकसे ऐसे लोगोंके सजा देने तथा दबानेमें कोशिश करेंगे, और किसी शरूससे गवर्मेण्टकी इजाजत व रजामन्दीके बिना मिलावट न करेंगे.

शर्त चौथी— नव्वाब अमीरखां अपना कुल लड़ाईका सामान, सिवा उस कद्र सामानके, जो उनके इलाकह और किलोंके इन्तिजामके वास्ते जरूरी समझा जायेगा, गवर्मेण्ट अंग्रेजीको देदेंगे, और उसके एवज उनको सरकारसे रुपया दिया जायेगा.

शर्त पांचवीं— जो फौज नव्वाब अमीरखां अपने पास रक्खेंगे, वह जरूरतके मुवाफिक अंग्रेजी गवर्मेण्टके साथ रहेगी.

शर्त छठी-यह अहदनामह छः शर्तोंका दिल्ली मकामपर तै पाकर, उसपर मिस्टर चार्ल्स थियोफिलस मेट्कोफ और लाला निरंजनलालके मुहर व दस्तखत हुए. नकल इसकी हिज एक्सिलेन्सी दि मोस्ट नोब्ल गवर्नर जेनरल और नव्वाब अमीरखांकी तस्दीक की हुई मकाम दिल्लीमें तारीख ९ नोवेम्बर सन् १८१७ .ई० से एक महीनेके अन्दर एक दूसरेको दी जावेगी.

(दस्तखत)- सी० टी० मेट्कोफ.

(दस्तखत)- हेस्टिंग्ज.

मुहर.

नव्वाबकी
मुहर.

मुहर लाला
निरंजनलाल.

मुहर
कम्पनी.

इस अहदनामहको हिज एक्सिलेन्सी गवर्नर जेनरलने मकाम कैम्प सलियापर ता० १५ नोवेम्बर सन् १८१७.ई० को तस्दीक किया.

(दस्तखत)- जे० ऐडम्,

सेक्रेटरी गवर्नर जेनरल.

ऊपर लिखे हुए अहदनामहके अलावह विक्रमी १९१९ [हि० १२७८ = .ई० १८६२] में एक सनद असली औलाद न होनेकी हालतमें गोद लेनेकी निस्वत नव्वाबको मिली; और विक्रमी १९२५ फाल्गुन कृष्ण १ [हि० १२८५ ता० १४ शव्वाल = .ई० १८६९ ता० २८ जैनुअरी] को एक अहदनामह मुजिमोंके लेन देन वगैरहकी वाबत, जैसा कि राजपूतानहकी कुल दूसरी रियासतोंसे हुआ, गवर्मेण्ट अंग्रेजीने इस रियासतके साथ भी किया.

जावराकी तवारीख.

यह इलाकह पहिले अमीरखांके कबजहमें था, लेकिन उसने अपने साले अब्दुल् गफूरखांको देदिया था, जब कि वह मालवेसे चला गया. जब मन्दसौर मकामपर गवर्मेण्ट अंग्रेजी और हुल्करके दरमियान अहदनामह करार पाया, तो उसकी बारहवीं

शर्तके मुवाफिक जावरेका इलाकह गफूरखांकी जागीरमें रहा; अमीरखांने इसपर दावा किया था, लेकिन वह सरकारसे नामन्जूर हुआ.

विक्रमी १८८२ [हि० १२४० = .ई० १८२५] में गफूरखां मरगया, तब उसका बेटा गौस मुहम्मदखां दो वर्षकी उम्रमें गद्दीपर बिठाया गया. अगर्चि इसको गद्दी नशीन करनेकी तज्वीज गवर्मेण्ट अंग्रेजीने की, परन्तु हुकूम काइम रखनेके लिये २०००००, रुपया नज़ानहका हुल्करको दिलाया. गफूरखांकी विधवा स्त्री और उसका दामाद जहांगीरखां रियासती इन्तिजामके लिये मुकर्रर किये गये; लेकिन उनसे पूरा पूरा प्रबन्ध न हो सका, बल्कि बदा इन्तिजामीमें तरकीकी सूरत नज़र आई, तब सरकारने उनका इस्तिथार छीन लिया. विक्रमी १८९९ [हि० १२५८ = .ई० १८४२] में रियासतसे १८५८१०, रुपया कन्टिन्जेण्ट फौज खर्चके लिये लिया जाना करार पाया. लेकिन विक्रमी १९१४ [हि० १२७३ = .ई० १८५७] के गद्दी खैरख्वाहीके एवज विक्रमी १९१६ [हि० १२७५ = .ई० १८५९] से २४०००, रुपया मुआफ़ किया जाकर आइन्दहके लिये १६१८१०, रुपया सालानह बाकी रक्खा गया. विक्रमी १९१९ [हि० १२७८ = .ई० १८६२] में नव्वावको गोद लेनेकी सनद मिली, और विक्रमी १९२२ [हि० १२८१ = .ई० १८६५] में नव्वाव गौस मुहम्मद हैजेकी बीमारीसे मरगये. यह नव्वाव अक़मन्द, होशियार, नेक आदत, फ़य्याज और खूबसूरत थे. मैं (ग्रन्थकर्ता) ने भी जावरा मक़ामपर इनके मरनेसे कुछ अरसह पहिले इनसे मुलाक़ात की थी; हकीकतमें यह रईस तारीफ़के काविल था, परन्तु मौत किसीको नहीं छोड़ती. इनके सिर्फ़ एक लड़का मुहम्मद इस्माइलखां था, जो अपने पिताकी जगह गद्दीपर बैठा.

इसकी गद्दी नशीनीपर भी २०००००, रुपया अगले काइदेके मुवाफिक़ तुकाराव हुल्करको नज़ानहका दिया गया. हुल्करने रईसकी कम उम्रके समय रियासती प्रबन्धमें दख़ल देना चाहा, लेकिन मन्दसौरके अहदनामहकी शर्तके बख़िलाफ़ जानकर गवर्मेण्टने मन्जूर न किया; और अपनी तरफ़से एक अंग्रेजी अफ़सर नव्वावकी शिक्षाके वास्ते भेजदिया. विक्रमी १९३१ [हि० १२९१ = .ई० १८७४] में नव्वावको मुल्की इस्तिथार मिला. इन दिनोंमें यार-मुहम्मदखां, इस रियासतका कास्दार मुकर्रर हुआ है.

इस रियासतका रक़बह ८७२ मील मुरब्बा, आबादी १०८४३४ आदमी, हंटरके

गजेटिअरके मुवाफ़िक़ आमदनी ७९९३००) रुपया, और एचिसन्ज ट्रीटीके अनुसार ६५५२४०) रुपये सालानह है. फ़ौजमें १५ तोप, ६९ गोलन्दाज़, १२१ सवार, २०० पैदल क़वाइद जानने वाले और २०० गैर क़वाइद दां तथा ४९७ सिपाही पुलिसके हैं. पहिले इस रियासतकी सलामी सर्कार अंग्रेज़ीकी तरफ़से ११ तोप थी, लेकिन ग़द्दकी खैरख़्वाहीके सबब २ तोप बढ़ाकर १३ करदी गई हैं.

भरतपुरकी तवारीख़.

जुग्राफ़ियह.

भरतपुर पूर्वी राजपूतानहमें दर्मियानी दरजेकी एक रियासत है, जो एजेन्सी पूर्वी राजपूतानहसे तअल्लुक रखती है. इस रियासतके उत्तरमें ज़िला गुड़गांवह, इलाक़ह पंजाब; उत्तर पूर्वमें ज़िला मथुरा; पूर्वमें ज़िला आगरा; दक्षिणमें धौलपुर व करौली; दक्षिण पश्चिममें रियासत जयपुर, और पश्चिममें अलवरका इलाक़ह वाके है. यह राज्य २६°, ४२' व २७°, ४९' उत्तर अक्षांश और ७६°, ५४' व ७७°, ४८' पूर्व देशान्तरके दर्मियान फैला हुआ है, जिसकी ज़ियादहसे ज़ियादह लम्बाई उत्तरसे दक्षिण तरफ़ करीब ७७ मील, और चौड़ाई पूर्वसे पश्चिमको ६३ मील है. कुल रक़बह १९७४ मील मुरब्बा, आबादी ६४५५४० आदमी, रियासतकी सालानह आमदनी हएटरके गजेटिअरके मुवाफ़िक़ २८०००००, अठ्ठाईस लाख रुपया, और फ़ौज सवार व पैदल पांच हजार है. यहांके राजा सर्कार अंग्रेज़ीको ख़िराज नहीं देते.

ज़मीनकी हालत— राज्य भरतपुरकी करीब करीब कुल ज़मीन बराबर और ख़ैराब घाने तर है. उत्तरी पर्गनों और ख़ास भरतपुरके आस पासकी धरती बहुत नीची है. जब किसी साल वारिश ज़ियादह होती है, तो बहुतसे खेत पानीमें डूब जानेके सबब वहां दूसरी फ़सलमें खेती बोई जाती है.

पहाड़— इस रियासतके दक्षिणी हिस्सेमें पहाड़ बहुत हैं. बयानाके पास वाला पहाड़ी हिस्सह, जिसमें अक्सर जगह नाले बहते हैं, डांगके नामसे प्रसिद्ध है.

इसमें जंगली दरख्त बहुत हैं, और आबादी कम है; यहांके बाशिन्दे अक्सर गूजर हैं, जो खेती बाड़ी बहुत ही कम करते हैं, बाज अपना गुजारा मवेशियोंके जरीएसे करते हैं, और बाजे चोरी वगैरह करके पेट भरते हैं. जिस पहाड़पर बयाने का क़िला बाके है, वह बहुत उंचा, चौड़ा और पर्गनह रूपबासके अन्ततक फैला हुआ है. सिवा इसके उत्तरी पर्गनोंमें भी कई जगह पहाड़ हैं, परन्तु सारे राज्यमें सबसे उंचा पहाड़ अलीपुर, पर्गनह अखेगढ़का है, जो “काला पहाड़” के नामसे राज्य भरतपुर, जयपुर व अलवरके तरपटेपर बाके है; इसकी उंचाई समुद्रके सतहसे १३५७ फीट है. छपरा, पर्गनह पहाड़ीका पहाड़ १२२२ फीट, दमदमा, पर्गनह बयानावाला १२२२, पर्गनह नगरका रसिया पहाड़ १०६५ फीट, पर्गनह रूपबासका उसीरा पहाड़ ८१७ फीट, और खास पर्गनह भरतपुरका माढोनी पहाड़ ७२५ फीट समुद्रके सतहसे उंचा है.

पत्थर व धातु— बयानाके पहाड़में मकानातकी छत्ते पाटनेकी पट्टियां निकलती हैं. रूपबास पर्गनहके खान और पहाड़पुर, तथा पर्गनह बयानाके बारेटा नामी मकामोंमें बहुत अच्छा सिफ़ेद व लाल पत्थर निकलता है. ये खानें पुराने ज़मानहसे जारी हैं; फ़तहपुर सीकरीके प्रसिद्ध मकानात, भरतपुर, दीग और वैरके महल, तथा दिल्लीके रेलवे पुलकी तामीरमें यही मशहूर पत्थर लगाया गया है, और रेलवे लाइनपर तारके लट्टे भी इसी पत्थरके हैं; परन्तु इन पहाड़ोंमें धातुकी कोई खान नहीं है. बहुत अरसह पहिले भुसावर तथा वैरके बीच और बयानाके पहाड़ोंमें तांबेकी चन्द खानें जारी हुई थीं, परन्तु कुछ फ़ायदह न पाया जानेसे बन्द करदी गईं.

नदियां— इस राज्यमें साल भरतक बराबर बहने वाली कोई नदी नहीं है; केवल चार नदियां, याने पहिली उटंगन या बाण गंगा, दूसरी गम्भीर, तीसरी काकुन्द और चौथी रूपारेल बर्सातके दिनोंमें बहती हैं.

बाण गंगा— रियासत जयपुरसे निकलकर इस राज्यमें भुसावर पर्गनहके गांव कमालपुराके पास दाखिल होकर पूर्व तरफ़ बहती हुई, भुसावर, वैर, बयाना, उचैन व रूपबास पर्गनहमें होकर पर्गनह फ़तहपुर सीकरी और खेड़ागढ़में जा निकली है. इसके पानीसे खेतीको बहुत कुछ फ़ायदह पहुंचता है. इसकी एक धारा शहर भरतपुरके आस पास वाले बन्दों और नहरमें पहुंचकर वहांके बाशिन्दोंके वास्ते मीठा पानी मौजूद करती है; क्योंकि वहांके कुओंमें ज़ियादह तर खारा पानी होता है.

गम्भीर— यह नदी भी जयपुरके राज्यमेंसे आती है, और पर्गनह बयानाके

करसाड़ा गांवमें दाखिल होकर पहिले पूर्व रुख और उसके बाद उत्तरमें बयानाके पहाड़के गिर्द घूमती हुई कुरका गांवके पास बाण गंगामें गिरती है.

काकुन्द— करौलीके पहाड़ोंसे निकलकर इस इलाक़हकी सईदपर बयानाके पर्गनह में आती है, जहांपर यह ऊंची पहाड़ी ज़मीनसे गोरधा नामी गांवकी ज़मीनपर गिरती है; वहां हमेशह पानी भरा रहता है. छः मीलतक यह पहाड़ोंके बीच होकर गुजरी है, जिनका तमाम पानी नालोंके ज़रीएसे इस नदीमें आता है. इस पहाड़ी इहातेमेंसे बरेटा गांवके पास निकलने बाद यह उत्तर तरफ़ चलकर सालाबाद गांवके नज़दीक गम्भीर नदीमें शामिल हुई है.

रूपारेल— क़स्बह सीकरीके पास इलाक़ह अलवरसे इस राज्यमें दाखिल हुई है. इस नदीके पानीपर एक अरसेतक अलवर व भरतपुरकी रियासतोंमें बाहमी तनाजा रहा, जिसको विक्रमी १९१२ [हि० १२७१ = ई १८५५] में सर हेनरी लॉरेन्स, एजेण्ट गवर्नरजेनरल राजपूतानहने दूर किया. सीकरीके बन्दसे, जहां यह नदी रियासत भरतपुरमें दाखिल हुई है, दो हिस्सोंमें तक़सीम होती है; अव्वल वह, जो उत्तर पूर्वमें गोपालगढ़ व पहाड़ीकी तरफ़ और दूसरा दक्षिण पूर्वमें दीग, कुम्हेर व भरतपुरको जाता है. उत्तरमें कामासे बढ़कर पानीको रास्तह न मिलनेसे, ज़ियादह वर्सात होनेपर पहाड़ी और कामाके बीच ग्यारह मीलतक पानी जमा होजाता है, परन्तु जब यह भील पूरी भरजाती है, तो जायद पानी मथुराके ज़िलेमें जाकर वहांकी ज़िराअतको नुक़सान पहुंचाता है. दक्षिणी धाराका पानी दीगके पास खोहकी भील तथा दूसरी कई भीलोंमें होता हुआ भरतपुरके पास मोती भीलमें जा गिरता है, और वहांसे ओरीन नदीमें, जो खारी नदीकी एक शाखा है, शामिल होकर फ़तहपुर सीकरीकी तरफ़ बहजाता है. खारी नदी ज़िले आगरामें बाण गंगाके शामिल हुई है.

भील व बन्द— जो कि इस रियासतमें साल भरतक बराबर बहती रहने वाली कोई नदी न होनेके सबब ज़िराअतको पानी पहुंचानेके लिये नहरें नहीं हैं, इसलिये वर्सातका पानी बन्दोंके ज़रीएसे रोका जाकर फ़सल बोनके वक्त छोड़ा जाता है. इन बन्दोंमें हर साल दूर दूरतक पानी भरजाता है, और खाली होनेपर उनके अन्दरकी ज़मीनमें बहुत उम्दह ज़िराअत होती है. इस गरजसे पानीके बड़े बड़े रास्तोंपर बन्द तय्यार किये गये हैं, जो गर्मीमें सूखजाते और वर्सातमें पूरे भरजाते हैं. राज्यमें कुल बन्दोंकी तादाद ११६ से कुछ ज़ियादह है, जिनमेंसे कई तो ८ तथा ९ साइलतक की लम्बाईमें फैले हुए हैं. बाज़ोंके

पक्के पुश्ते बने हुए हैं, और सबमें पक्की मोरियां हैं. ज़ियादह तर बन्दोंमें पानी बर्साती नदियोंका एकट्ठा कियाजाता है. सबसे बड़ा बन्द अजान ९ मील लम्बा है.

आब हवा व बारिश— आब हवा यहांकी ठीक ठीक है, बारिश अच्छी होती है; मगर खास भरतपुरमें पीनेका पानी बहुत खराब है, सिर्फ़ चन्द कुआँमें, जो तालाब व नहरके किनारेपर हैं, मीठा पानी पाया जाता है.

जंगल— शहर भरतपुरके आस पास और उसके दक्षिणमें जंगल है; दक्षिणी जंगल सात मील लम्बा और सवा मीलके करीब चौड़ा है. पर्गनह रूपवासमें भी एक जंगल है, जहां बादशाह अकबर जब फ़तहपुर सीकरीमें रहता था, शिकार खेलनेके लिये आता था.

पैदावार— इस रियासतकी खास पैदावार गेहूं, जव, चना, ज्वार, बाजरा, मूंग, मीठ, और उड़द वगैरह हैं.

राज्य प्रबन्ध— अदालती इन्तिज़ामके लिहाजसे राज्य भरतपुर दो हिस्सोंमें बटा हुआ है— अव्वल खास भरतपुर, जिसमें आठ पर्गने, १ शहर भरतपुर, २ रूपवास, ३ बयाना, ४ उचैन व रुदावल, ५ वैर, ६ भुसावर, ७ अखेगढ़ और ८ कुम्हेर, १३०० मील मुरव्वाके रक़बहमें फैले हुए हैं. इस हिस्सहमें कुल ६४२ गांव दाखिल हैं. और दूसरी अदालत दीग व जिले मेवातमें पांच पर्गने, १ दीग, २ गोपालगढ़, ३ कामा, ४ पहाड़ी और ५ नगर हैं. इस हिस्सहके गांवोंकी तादाद ५१८ और रक़बह ६५३ मील मुरव्वा है. हर एक हिस्सहमें एक अदालती मुक़रर है, जिसको मुक़दमात फ़ौजदारीमें तीन सालतक कैद व पचास रुपयेतक जुर्मानह और दीवानीमें बिला हद दावेकी समाअतका इस्तिथार है. इन अदालतोंका अपील महकमह पंचायत और पंचायतका अपील रईसके इज्लास खास में होता है. अदालतोंके मातहत हर पर्गनहमें तहसीलदार और शहर भरतपुरमें मुन्तज़िम फ़ौजदारी शहर, और अदालती दीवानी शहर, रहते हैं. फ़ौजदारी मुआमलातमें कुल तहसीलदारों व मुन्तज़िम शहर फ़ौजदारीको तीन महीनेतक कैद व दस रुपयेतक जुर्मानहका इस्तिथार है; और दीवानी मुक़दमाओंमें तहसीलदारों व अदालती दीवानी शहरको ५००, रुपयेतक के दावेकी समाअतका इस्तिथार है. इन सबका अपील अदालतोंमें होता है. हर तहसीलमें एक थानहदार मए जम्इयत के मुक़रर है; और शहरके अन्दर कोतवालके तहतमें चौकीदार व पोलिस वगैरह है.

सिवा इनके महकमह माल, साइर, फ़ौज, तामीरात, और सरिश्तह तालीम व

हिफ़्जानि सिहत वगैरह कुल बड़े छोटे महकमों व कारखानोंकी संभालपर जुदे जुदे प्रबन्ध कर्ता नियत हैं. फ़ौजकी क़वाइद वगैरहका काम खुद रईस देखता है, और हर एक छोटेसे छोटे नौकरकी मौकूफ़ी बहाली भी बिना मन्जूरी रईसके नहीं होती.

डाकखानह—इस राज्यमें चार जगह अंग्रेज़ी डाकखाने हैं— १ भरतपुरमें, २ कुम्हेरमें, ३ दीगमें और ४ कामामें; बाकी इलाक़ह भरमें राज्यकी डाक है.

सरिश्तह तालीम— इस सरिश्तहपर एक सुपरिन्टेन्डेण्ट नियत है, जो कुल मद्रसोंकी निगरानी रखता है. भरतपुरमें एक मद्रसह है, जिसमें अंग्रेज़ी, संस्कृत, फ़ार्सी व हिन्दी और हिसाब वगैरहकी शिक्षा दीजाती है. इस मद्रसेके मुतअल्लक़ एक छापाखानह भी है, जिसमें स्कूलकी पढ़ाईकी किताबें और राज्यका स्टाम्पी कागज़ छपता है. तहसीली मद्रसोंमें, जो राज्यके गांवोंमें काइम किये गये, फ़ार्सी, हिन्दी और हिसाबी काम सिखाया जाता है. तहसीली मद्रसोंके खर्चका ज़ियादह हिस्सह ज़मींदारोंसे वसूल होता है.

जात, फ़िर्कह व क़ौम— इस राज्यके वाशिन्दे खासकर जाट, गूजर, मुसल्मान, मेव, सीणा, ब्राह्मण, कायस्थ, वनिया, अहीर, माली और धांकड़ हैं; और इनके अलावह कई दूसरी क़ौमें शागिर्द पेशहमेंसे भी आवाद हैं. कुल आवादीमें फ़ी सैकड़ा १८ मुसल्मान और बाकी हिन्दुओंमें फ़ी सैकड़ा उन्नीस जाट हैं; मुसल्मानोंमें ज़ियादह तादाद मेवोंकी है.

ज़मीनका क़बज़ह व महसूल— इस राज्यमें दो तरहकी ज़मीन है, अक्वल ख़ालिसह और दूसरी मुअ़फ़ी. ख़ालिसहके गांवोंकी तादाद ११७४ और मुअ़फ़ीके गांवोंकी तादाद १९५ है. ज़मींदारोंकी तरफ़से किसान लोग खेती करते हैं, और उनको लगान देते हैं; वह लगान ज़मीनकी हैसियत और पैदावारकी मिक्द़ार तथा क़िस्मके मुवाफ़िक़ लीजाती है, जिसमेंसे ज़मींदार अपना मालिकानह नफ़ा रखकर सरकारी जमा गांवके पटवारीकी मारिफ़त नक़द रुपया अक्टोबर व एप्रिलकी दो क़िस्तोंमें हर फ़सलपर राज्यके खज़ानहमें जमा कराता है. मुअ़फ़ीकी तीन क़िस्में हैं— १ इन्अ़ाम, २ जागीर, और ३ पुण्यार्थ. इन्अ़ामके गांव, जो तादादमें ५० हैं, सिपाहियानह नौकरीके एवज़ औसत दरजह तीस बीघा ज़मीन फ़ी बन्दूकके हिसाबसे बटे हुए हैं. जागीरी गांवोंकी तादाद १०० के लगभग है. ये जागीरें मौरूसी हैं, जिनमें ज़ियादह तर महाराजा सूरजमल्लकी औलाद वाले कोटड़ी बन्द ठाकुर हैं. इन जागीरदारोंकी नौकरी व ख़िराज दोनों मुअ़फ़ हैं; लेकिन ज़मींदारों

को वेदख़ल करने और मुक़ररह जमासे ज़ियादह वुसूल करनेका अपनी जागीरोंमें इख़्तियार नहीं रखते. पुण्यार्थ गांव ४५ हैं, जो मन्दिरों, ब्राह्मणों, तथा वैरागियों को खैरातमें मिले हैं.

मशहूर शहर व क़स्बे.

खास शहर भरतपुर नीची ज़मीनपर बसा है, जिसकी लम्बाई ३ मीलके करीब और चौड़ाई एक मीलसे कुछ ज़ियादह है. लड़ाईके वक्त बाहरकी भीलोंसे इतना पानी छोड़ दिया जा सका है, कि दुश्मनकी ताक़त नहीं, कि शहरमें घुस सके. शहरपनाह कच्ची, लेकिन बहुत चौड़ी बनाई गई है, जिसमें १० दरवाज़े शहरके भीतर आने जानेको हैं. शहरपनाहके गिर्दवाली खाई बर्सातके दिनोंमें सब जगह और दूसरे मौसममें जहां जहां गहराई है, पानीसे भरी रहती है; शहरपनाहके चारों तरफ़ पक्की सड़क सैर करनेके लिये बनी हुई है. इस शहरका नाम राजा रामचन्द्रके भाई भरतके नामपर भरतपुर रक्खा गया है. अगर्चि यह आबादी पुरानी है, लेकिन क़िला और बहुतसे मकानात महाराजा सूरजमल्लके समयसे नये तय्यार होकर यह शहर राजधानी बनाया गया. शहरके भीतर एक मज़बूत और उंचा क़िला है, जिसके गिर्द बहुत चौड़ी और गहरी खाई बनी हुई है; उसमें हमेशह पानी भरा रहनेसे शहरवालोंको बहुत कुछ आराम मिलता है. क़िलेके दो दरवाज़े और आठ बुर्ज हैं, और तीन महल, याने एक मर्दानह, दूसरा ज़नानह और तीसरा कचहरीका, उम्दह गिने जाते हैं. महाराजा क़िलेमें नहीं रहते; उन्होंने शहरसे पश्चिम तरफ़ तीन मील दूरीपर सेवर गांवके पास एक छावनी बसाकर रहना इख़्तियार किया है, जहां कई बंगले और फ़ौजकी बारकें वगैरह दूरतक फैली हुई हैं.

बयानाका क़िला एक प्रसिद्ध मक़ाम है, जो शुरू ज़मानहमें चन्द्रवंशी यादव राजपूतों और बाद उसके अक्सर दिल्ली वगैरहके ज़बर्दस्त बादशाहोंके क़बज़हमें रहा; मुग़लों की सल्तनत बिगड़नेपर, जिसतरह जयपुरवालोंके क़िला रणथम्भोर हाथ लगा, बयानाको भरतपुरवालोंने दबा लिया.

दीग- यह भी इस राज्यमें एक मशहूर जगह है, जो मकानोंकी मज़बूती, बाग़की रौनक और फ़व्वारोंकी कसूरतसे तारीफ़के लाइक गिनी जाती है, बल्कि मुन्शी ज्वाला-सहायने कारीगरी व उम्दगीमें आगराके रौज़ए मुन्ताज़ महलसे दूसरे दर्जेपर यहांके महलातको ही रक्खा है. शहरमें एक मज़बूत क़िला और उसके गिर्द चन्द भील हैं.

कामा - इसकी बाबत बयान है, कि यह कस्बह पुराने जमानहकी आवादी है, जो ब्रजमें हिन्दुओंके मज्हबी तीर्थ स्थानोंमेंसे श्री कृष्णचन्द्रकी ननिहाल समझा जाता है.

वैर - एक बड़ा कस्बह, राजाके महल, बाग, और मज्बूत किलेके सबब मशहूर मकामोंमें शुमार किया जाता है.

रूपवास - यह कस्बह अगर्चि छोटासा है, लेकिन इसमें कदीम जमानह के बने हुए लाल पत्थरके महल और उनके नीचे एक पक्का तालाब है, जो अक्बर बादशाहके फतहपुर सीकरीमें रहनेके समय तय्यार कराये गये थे. यहां महाराजा बलवन्तसिंहका बनवाया हुआ एक बाग भी है.

हलेना - पर्गनह भुसावरमें एक कस्बह है, जो रियासत भरतपुरके अगले महाराजाओंके बनवाये हुए महलसे प्रसिद्ध है.

पहरसर - यह गांव गद्रके पीछेसे नई शहरत पाने लगा है, जिसके बहुधा मुसल्मान बाशिन्दे मामूली सिपाहगरीसे अह्लकारीके दरजेको पहुंचकर सय्यद होनेका दावा रखते हैं.

पहाड़ी - मेवातमें एक पर्गनहका सदर है, इसमें साहिबखां नामी एक खानजादह पीरकी दर्गाह है.

ऊपर लिखे हुए शहर व कस्बोंके सिवा, नीचे लिखे हुए मकामात भी इस रियासतमें मुरुतलिफ सबबोंसे प्रसिद्ध समझे जाते हैं:- भुसावर, बोकोली, बहनरा, चकसाना, गोरधा, गोपालगढ़, केतवाड़ी, खानवा, नगर, और फर्सो.

सड़कें - राज्य भरतपुरमें नीचे लिखी हुई खास सड़कें हैं:-

१ आगरासे जयपुरतक, २ भरतपुरसे दीगतक, ३ दीगसे कामातक, ४ दीग, व अलवरके दर्मियान, ५ भरतपुरसे मथुराको जानेवाली, ६ दीग व मथुराके बीचमें, ७ भरतपुरसे सीकरी फतहपुरतक, ८ शहरके गिर्द, ९ एजेन्सीसे सेवरतक, १० मन्दिर केवलादेवकी सड़क, ११ भरतपुरसे हिंडौनतक, १२ दीगसे नदबईतक, १३ गोपालगढ़से कामातक, १४ बयानासे जगनेरको जानेवाली, और १५ भरतपुर व गोवर्द्धनके दर्मियान.

तवारीख.

भरतपुरके रईस अगर्चि अपना नस्बनामह श्री कृष्णचन्द्रसे मिलाते हैं, परन्तु वह कौमसे जाट माने जाते हैं, और उन्हीं लोगोंमें उनके विवाह शादी आदि होते हैं.

आलमगीरके आखरी जमानहमें, जिसके वैर विरोध और जुल्मने अक्सर हिन्दू कौमोंको उससे बखिलाफ और सर्कश बननेके लिये मजबूर किया, और जिसके पीछे बहुतसी बुराइयें बढ़कर मुगल बादशाहोंकी सल्तनत बर्बाद हुई, भरतपुर वालोंके बुजुर्ग भी काश्तकारी छोड़कर लूट मार वगैरह करने लगे; और तकलीफ व कामयाबी दोनों हालतोंमें अपने इरादहसे न रुके. इनमेंसे पहिला राजाराम जाट अपने गिरोहका मुखिया बना था, जिसको विक्रमी १७४६ [हि० ११०० = ई० १६८९] में आलमगीरकी फौजने मुकाबलेमें कत्ल किया. उसके बाद थोड़े दिन उसका बेटा और अखीरमें चूड़ामन, जो राजारामका भतीजा था, जाटोंका सर्दार बना; इसको फरुख-सियर बादशाहके अहदमें वजीर अब्दुल्लाहखाने रास्तेकी हिफाजत रखनेके लिये “ राहदारखां ” खिताब मए थोड़ीसी जागीरके दिया था. परन्तु वह अपनी लूट मारकी आदतसे न रुका, तो बादशाही तरफसे विक्रमी १७७४ [हि० ११२९ = ई० १७१७] में महाराजा सवाई जयसिंहको चूड़ामनकी सजादिहीका हुकम मिला, लेकिन वह फर्मावर्दार न बना, बल्कि उसने हमलह करनेवालोंको शिकस्त देकर निकाल दिया.

इतिफाकसे चूड़ामनका भतीजा बदनसिंह, जो बखिलाफीके सबब मुहकमसिंहकी कैदमें रह चुका था, सवाई जयसिंहसे जा मिला, और उनको अपनी मददके लिये साथ लाकर थून मकामपर मुहासरह करने बाद चूड़ामनके बेटे मुहकमसिंह (१) को भगाकर इलाकहपर काबिज होगया. विक्रमी १७८० [हि० ११३५ = ई० १७२३] में बदनसिंह जाटोंका सर्दार माना गया, जिसको सवाई जयसिंहने दीग मकामपर राजाओंकी तरह राज्य तिलक दिया. इसके बाद बदनसिंह और उसकी औलाद बराबर तरकी करती रही. अगर्चि कई बार इलाहाबादके सूबहदारोंने उनको तवाहीके करीब पहुंचा दिया, लेकिन वे इस इलाकहमें अंग्रेजोंके समयतक बने रहे, और उनको दूसरे राजाओंकी तरह सर्कारने रईस माना. बदनसिंहसे इस समयतक डेढ़ सौ वर्षके अरसहमें ग्यारह रईस भरतपुरकी गद्दीपर बैठे, जिनमेंसे हर एकका मुख्तसर तारीखी हाल यहां दर्ज किया जाता है:-

(१) मुन्शी ज्वालासहाय अपनी किताब वकाये राजपूतानहमें लिखता है, कि अगर्चि भरतपुरके मुवर्खोंने यह मारिका मुहकमसिंहके साथ होना लिखा है, परन्तु एक अंग्रेजी मुवर्खिने इस लड़ाईका चूड़ामनसे होना और शिकस्त खाने बाद चूड़ामन और मुहकमसिंह दोनोंका भाग जाना बयान किया है.

१- राजा बदनसिंह.

विक्रमी १७७९ चैत्र शुक्ल १ [हि० ११३४ ता० ३० जमादियुल अक्वल = ई० १७२२ ता० १८ मार्च] को राजा बना, और दीग, कुम्हेर, और वैर वगैरह मकामोंपर मजबूतीके लिये किले बनवाये, और अपने बेटे सूरजमल्लको राज्य सौंपकर विक्रमी १८१२ [हि० ११६८ = ई० १७५५] में गुजर गया.

२- राजा सूरजमल्ल.

इसने विक्रमी १७८९ [हि० ११४५ = ई० १७३२] में खेमा जाटको भरतपुरसे खारिज किया और उसका गढ़ तोड़कर अपना बड़ा किला तय्यार कराने बाद कस्बहको राजधानी बनाया. दीगके मझूर महल भी इसी राजाके समयमें तय्यार हुए थे. विक्रमी १८१७ [हि० ११७४ = ई० १७६१] में अहमदशाह अब्दालीकी लड़ाईके वक्त इसने मरहटोंको मदद दी थी. विक्रमी १८२० [हि० ११७७ = ई० १७६३] में इलाहाबाद के सूबहदार नजीबुदौलहसे इसकी लड़ाई हुई; यह बड़ी बहादुरीसे जान तोड़कर लड़ा, लेकिन् अखीरमें इसी विक्रमीकी पौष शुक्ल १२ [हि० ता० ११ रजब = ई० १७६४ ता० १५ जैनुअरी] को पठानोंके हाथसे मारा गया. कर्नेल टॉड अपनी किताबमें लिखते हैं, कि सूरजमल्लके पांच बेटों, जवाहिरसिंह, रत्नसिंह, नवलसिंह, नाहरसिंह, और रणजीतसिंहमेंसे पहिले दो कोरमी कौमकी औरतसे, तीसरा मालिनसे और चौथा तथा पांचवां जाटनीसे पैदा हुए थे.

३- राजा जवाहिरसिंह.

यह अपने बापके मारे जाने बाद दीग मकामपर गद्दी नशीन हुए. इन्होंने विक्रमी १८२१ [हि० ११७८ = ई० १७६४] में बहुतसी सिक्खोंकी फौज और शिमरू फिरंगी को नौकर रक्खा और मरहटोंको मददगार बनाकर नजीबुदौलहसे अपने बापका बदला लेना चाहा, परन्तु कुछ लड़ाइयां होने बाद आपसमें सुलह होगई. राजा जवाहिरसिंह विक्रमी १८२४ [हि० ११८१ = ई० १७६७] (१) में पुष्कर स्नानको गये, और वहांपर जोधपुरके महाराजा विजयसिंहसे मुलाकात हुई; लौटते वक्त जयपुरके

(१) इस तवारीखके पृष्ठ १३७७ में अलवरकी तवारीखके अंतर्गत जवाहिरसिंहका पुष्कर स्नानको जाना और लौटते वक्त जयपुरकी फौजसे उसका मुक़ाबलह होना विक्रमी १८२३ [हि० ११८० = ई० १७६६] में पाउलेट् साहिबके गजेटिअरके मुताबिक भूलसे लिख दिया गया है; अस्लमें इस लड़ाईका होना विक्रमी १८२४ में ही सहीह है, जैसा कि इसी तवारीखके पृष्ठ १३०४ में पहिले लिखा जा चुका है.

महाराजा माधवसिंह अब्बलकी फौजने जवाहिरसिंहको अपने इलाक़हमें घेरलिया. सरत मुक़ाबलेके बाद, जिसमें दोनों तरफ़की फौजके बहुतसे आदमी और जयपुरके अहलकार गुरसहाय व हरसहाय खत्री मारे गये, जवाहिरसिंह भरतपुरको भाग आये, और जयपुरके इलाक़हमेंसे कामाका पर्गनह दबा लिया. दूसरे वर्ष राजा जवाहिरसिंह किले आगराकी सैर करनेके वक्त विक्रमी १८२५ द्वितीय श्रावण शुक्ल १५ [हि० ११८२ ता० १४ रबीउस्सानी = ई० १७६८ ता० २७ अगस्त] को एक शरसके हाथ तलवारसे घायल होकर मरगये, और उनके दूसरे भाई रत्नसिंह राज्यके मालिक हुए.

४- राजा रत्नसिंह.


यह विक्रमी १८२५ भाद्रपद कृष्ण १ [हि० ११८२ ता० १५ जमादियुल् अब्बल = ई० १७६८ ता० २८ अगस्त] को राजा होकर सात महीने बाद विक्रमी १८२६ चैत्र शुक्ल ५ [हि० ११८२ ता० ३ जिल्हिज = ई० १७६९ ता० ११ एप्रिल] को एक गुसाईके हाथसे, जिसने कीमिया (रसायण) बनानेका फ़िरेव दिया था, एक मन्दिरमें क़त्ल हुए. इनके नौकरोंने गुसाईको भी मारडाला, और राजा जवाहिरसिंहके बेटे केसरीसिंह वारिस माने गये.

५- राजा केहरीसिंह (केसरीसिंह).

यह विक्रमी १८२६ चैत्र शुक्ल ६ [हि० ११८२ ता० ४ जिल्हिज = ई० १७६९ ता० १२ एप्रिल] को अपने चचाके बाद गद्दीपर बिठाये गये. इनकी कम उम्रके जमानहमें इनका एक चचा नवलसिंह दीवान और राज्यका मुख्तार बना; और उसके दूसरे भाई रणजीतसिंहने मरहटों व सिक्खोंकी मददसे राज्यका दावा किया. नवलसिंहने पांच छः रोज़ तक आपसमें सरत लड़ाई रहनेके बाद लाचार होकर मरहटोंसे इक़ार किया, कि वह मुहासरह छोड़कर मथुराको चले जायें, तो एक करोड़ रुपया दिया जायेगा; लेकिन उनके खानह होते ही पीछेसे जाटोंने संधिया और हुल्करका सामान लूटना शुरू किया. इस दगावाजीके बाद मरहटोंने फिर दीगमें नवलसिंहको घेर लिया, और सत्तर लाख रुपया जुर्मानह लेकर पीछा छोड़ा.

विक्रमी १८२९ [हि० ११८६ = ई० १७७२] में शाह आलम दूसरेके मातहत सर्दार नजफ़ख़ाने नाराज़ होकर नवलसिंह और उसके नौकर शिमरू फ़िरंगीको शिकस्तें देने बाद इलाक़हसे निकाल दिया; लेकिन कुछ अरसह बाद राजा केसरीसिंहकी माता राणी किशोरीके लाचारी करनेपर नव्वाबने इलाक़ह वापस दे दिया. विक्रमी १८३३ [हि० ११९० = ई० १७७६] में नवलसिंहके मरने

पर उसके भाई रणजीतसिंहको दीवानीका उद्दह मिला. रणजीतसिंहने अपने मुखालिफ पठानोंको दीगसे खारिज करदिया, जिसपर नव्वाब नजफखाने फिर मुल्क छीन लिया. राजा और दीवान भागकर छिपगये, और दूसरे साल विक्रमी १८३३ चैत्र कृष्ण ५ [हि० ११९१ ता० २८ सफ़र = .ई० १७७७ ता० ७ एप्रिल] को राजा नाउम्मेदी की हालतमें चेचककी बीमारीसे मरगया.



६- राजा रणजीतसिंह.

यह विक्रमी १८३४ चैत्र शुक्ल १ [हि० ११९१ ता० २९ सफ़र = .ई० १७७७ ता० ८ एप्रिल] को जाटोंके सर्दार माने गये; लेकिन उनके पास कुछ इलाक़ह न था; लाचार इन्होंने अपनी भाबी राणी किशोरीकी मारिफ़त एक भारी नज़ानह नव्वाब नजफ़ख़ांको दिया, जिससे खुश होकर नव्वाबने उसको नौ लाख रुपया आमदनीके पर्गने देकर राजा बनाया. विक्रमी १८३९ [हि० ११९६ = .ई० १७८२] में मिर्जा मुहम्मद शफीअने, जो नव्वाब नजफ़ख़ांके मरनेपर वज़ीर हुआ था, शहर भरतपुरके सिवा कुल इलाक़ह छीन लिया; लेकिन मुहम्मद शफीअको इस्माईलबेगने, जो दीगपर काबिज़ था, दगासे क़त्ल करडाला, और रणजीतसिंहने दोबारह मुल्कमें दख़ल करलिया. इसके थोड़े दिन पीछे महाराजा सेंधियाने शाह आलमको खुश रखनेके लिये भरतपुर वालोंको तंग करके उनसे कुछ जुर्मानह लिया.

विक्रमी १८४१ [हि० ११९८ = .ई० १७८४] में महाराजा सेंधिया और भरतपुरका कुंवर रणधीरसिंह बादशाह शाह आलमको अपने मुल्कमें सैर करानेके वास्ते लाये, जिसने बदलबेगसे दीगका क़िला भरतपुरवालोंको, और दाऊदबेगसे आगरेका क़िला सेंधियाको दिला दिया. सेंधियाकी तरफ़से जेनरल पेरन साहिब आगरेकी हुकूमतपर नियत हुआ था, जिसको विक्रमी १८६१ [हि० १२१९ = .ई० १८०४] में अंग्रेजी जेनरल लॉर्ड लेकने शिकस्त देकर निकालने बाद अपना अधिकार जमाया. इस वक्त भरतपुर वाले लॉर्ड लेकसे मिलगये, और एक अह्दनामह लिखा; परन्तु थोड़े दिनोंमें पोशीदह तौरपर हुल्करसे मिलावट करली, जिसपर लॉर्ड लेकने हुल्कर और रणजीतसिंहको दीगमें शिकस्त देने बाद विक्रमी १८६१ पौष शुक्ल ६ [हि० १२१९ ता० ५ शव्वाल = .ई० १८०५ ता० ७ जैनुअरी] को भरतपुर आकर शहरपर घेरा डाला; लॉर्ड लेककी फ़ौजने क़िलेपर तीन चार बार हमलह किया, जिसमें तीन हजार सर्कारी सिपाही क़त्ल और ज़ख्मी हुए; भीलका पानी शहर और क़िलेके गिर्द छोड़दिया जानेसे लॉर्ड लेकने लाचार होकर घेरा उठा लिया. अंग्रेजी फ़ौजकी शिकस्तसे अगर्चि भरतपुरने शुहरत पाई, लेकिन दोबारह बदला लिये जानेके डरसे

महाराजा रणजीतसिंहने तेरह लाख रुपया फ़ौज खर्चका लॉर्ड लेकर भेजकर सुलह करली. लड़ाईके दूसरे वर्ष विक्रमी १८६२ मार्गशीर्ष शुक्ल १५ [हि० १२२० ता० १४ रमजान = ई० १८०५ ता० ६ डिसेम्बर] को महाराजाका देहान्त होनेपर उसका बेटा रणधीरसिंह गद्दीपर बैठा.

७- महाराजा रणधीरसिंह.

यह विक्रमी १८६२ पौष कृष्ण १ [हि० १२२० ता० १५ रमजान = ई० १८०५ ता० ७ डिसेम्बर] को गद्दी नशीन हुए; और विक्रमी १८७१ [हि० १२२९ = ई० १८१४] में फ़तहपुर सीकरी मक़ामपर लॉर्ड म्वायरा (१) साहिवसे मुलाक़ात करने गये. विक्रमी १८७४ [हि० १२३२ = ई० १८१७] में पिंडारोंके मुक़ाबिल इन्होंने अंग्रेज़ी सरकारको मदद दी. विक्रमी १८८० आश्विन शुक्ल ४ [हि० १२३९ ता० ३ सफ़र = ई० १८२३ ता० ७ अक्टोबर] को उनके मरजानेसे उनके छोटे भाई बलदेवसिंहको राज्य मिला.

८- महाराजा बलदेवसिंह.

यह विक्रमी १८८० आश्विन शुक्ल ५ [हि० १२३९ ता० ४ सफ़र = ई० १८२३ ता० ८ अक्टोबर] को राज्यके मालिक बने; इनके छोटे भाई लक्ष्मणसिंह (लक्ष्मणसिंह) के मरजाने बाद उसके बेटों माधवसिंह और दुर्जनशालमेंसे पहिलेने महाराजासे बख़िलाफ़ी की, और दूसरेने महाराजाके गुज़रने बाद नौ महीना तक राज दबा लिया.

विक्रमी १८८१ [हि० १२३९ = ई० १८२४] में महाराजाने जेनरल अक्टर लोनीको भरतपुर बुलवाया, और अपने छः वर्षके बेटे बलवन्तसिंहको हिफ़ाज़त और हिमायतके भरोसेपर उनकी गोदमें बिठाया. २१ विक्रमी की फाल्गुन शुक्ल ११ [हि० १२४० ता० १० रजव = ई० १८२५ ता० १ मार्च] को डेढ़ वर्षके करीब राज्य करने बाद महाराजाका इन्तिक़ाल होगया; और दुर्जनशालने भरतपुर दबाकर कुंवर बलवन्तसिंहको नज़र बन्द करदिया.

९- महाराजा दुर्जनशाल.

इसने विक्रमी १८८१ चैत्र कृष्ण ९ [हि० १२४० ता० २२ रजव = ई० १८२५ ता० १३ मार्च] को कई अपसरों और फ़ौजकी मददसे राज्यपर क़बज़ह हासिल

(१) ईसवी १८१३ में लॉर्ड मिन्टो और ईसवी १८१४ में मार्किंस ऑफ़ हेस्टिंगज़ गवर्नर जेनरल थे, न मालूम बाबू ज्वालासहायने लॉर्ड म्वायरा कहांसे लिखा है.

किया था; ऑक्टर लोनी साहिबने दुर्जनशालके खारिज करनेको अंग्रेजी फौज बुलाई, मगर लॉर्ड एम्हर्स्टने उनकी तज्बीजको, इस सबबसे, कि यह खानगी भगड़ा है, नामन्जूर करके उनको मौकूफ करदिया; कहते हैं, कि इसी शर्मिन्दगीसे जेनरल ऑक्टर लोनी थोड़े दिनों पीछे मरगये. लेकिन फसाद फैलनेके अन्देशहसे लॉर्ड कम्बरमेअर पच्चीस हजार सर्कारी फौज लेकर भरतपुर आये. उन्होंने अगले वर्ष झीलका पानी फैलनेसे नाकामीके सबब पहिले झीलको कबजहमें करलिया, और सुरंग लगाकर एक महीनेके अन्दर किला खाली करालिया. दुर्जनशाल भागतेहुए गिरिफतार होकर आगरे भेजे गये, और बलवन्तसिंह राज्यके सालिक बनाये गये, जिनकी कम उम्रके सबब एक पोलिटिकल एजेण्ट इन्तिजामकी निगरानीको मुकर्रर हुआ.

१०- महाराजा बलवन्तसिंह.

विक्रमी १८८२ पौष शुक्ल ११ [हि० १२४१ ता० १० जमादियुस्सानी = ई० १८२६ ता० १९ जैन्वुअरी] को सर्कारी मददसे राजा हुए. लॉर्ड कम्बरमेअरने फौजको मिहनतके एवज इन्आम दिलाना चाहा, जो महाराणी और राज्यके अहलकारोंको मन्जूर न होनेसे फौजने बेरहमीके साथ जनानह महलोंके सिवा किले और तमाम शहरको लूटकर बर्बाद करदिया; दूसरे साल इन्तिजामकी खराबीके सबब पोलिटिकल एजेण्टकी रिपोर्टपर महाराजाकी माता हुकूमतसे बेदखल, और दीवान जानी बैजनाथ शहरसे खारिज किया गया.


विक्रमी १८९२ [हि० १२५१ = ई० १८३५] में महाराजाको रियासती इख्तियारात मिलकर एजेन्सी उठाली गई. विक्रमी १९०७ फाल्गुन कृष्ण १४ [हि० १२६७ ता० २७ रबीउस्सानी = ई० १८५१ ता० १ मार्च] को कुंवर जशवन्तसिंहके पैदा होनेकी खुशीमें महाराजाने तमाम नौकरों और रिआयाको इन्आम और शीरीनी वांटकर जेलखानहके कुल कैदी छोड़ दिये. दो वर्ष पीछे विक्रमी १९०९ फाल्गुन शुक्ल ११ [हि० १२६९ ता० १० जमादियुस्सानी = ई० १८५३ ता० २१ मार्च] को महाराजाका देहान्त होगया.

११- महाराजा जशवन्तसिंह.

मौजूदह महाराजा जशवन्तसिंह विक्रमी १९१० आषाढ शुक्ल २ [हि० १२६९

ता० १ शव्वाल = .ई० १८५३ ता० ८ जुलाई] को गद्दी नशीन हुए. दूसरे वर्ष कर्नेल हेनरी लॉरेन्स साहिब रेजिडेण्ट राजपूतानहकी हिदायतसे राज भरतपुरमें मुल्की अदालतें, तहसील और थाने अंग्रेजी अमल्दारीकी तरह काइम किये गये. विक्रमी १९१४ [हि० १२७३ = .ई० १८५७] के गद्दमें भरतपुरके अहलकार साहिब एजेण्टकी सलाहसे खैरख्वाह बने रहे. विक्रमी १९१६ [हि० १२७५ = .ई० १८५९] में महाराजाकी शादी पटियालाके महाराजा नरेन्द्र-सिंहकी बेटीके साथ हुई. विक्रमी १९२५ [हि० १२८५ = .ई० १८६८] की रिपोर्टमें मेजर वॉल्टर साहिबने महाराजाकी बहुत तारीफ़ लिखी, जिसपर दूसरे साल उनको मुल्की इस्तिथारात सर्कारी हुकमसे मिल गये. अगर्चि कई सालतक पोलिटिकल एजेण्टकी सलाहपर चलनेकी शर्त की गई, लेकिन दो वर्ष बाद कर्नेल ब्रुकने इस कैदको दूर किया. महाराजाके इस्तिथार मिलनेसे पहिले पटियालावाली महाराणी किसी रंजीदगीके सबब अपने पिताके यहां चली गई थीं, जहांपर कुछ मुद्दतमें उनका और उनके कुंवरका थोड़े दिनोंके फ़र्कसे इन्तिकाल होगया.

विक्रमी १९२९ आश्विन [हि० १२८९ रजव = .ई० १८७२ सेप्टेम्बर] में महाराजाके कुंवर रामसिंहका जन्म हुआ; दिल्लीके शहन्शाही दरबारमें महाराजाको विक्रमी १९३३ माघ कृष्ण २ [हि० १२९३ ता० १५ जिल्हिज = .ई० १८७७ ता० १ जैनुअरी] को जी० सी० एस० आइ० का खिताब और तमग़ह सर्कार अंग्रेजीसे मिला. विक्रमी १९४४ [हि० १३०४ = .ई० १८८७] में ज्युबिलीके मौकेपर महाराजाने अपनी तरफ़से मुबारकबादके वास्ते चार अहलकार विलायतको भेजे, जो खैरियत और खुशीके साथ वापस आ गये. यह महाराजा कोई दीवान नहीं रखते, राज्यका कुल काम खुद संभालते हैं. इनके राज्यमें दीवान जानी विहारीलाल राव बहादुर बड़े क़दीम और मशहूर अहलकार हैं.



भरतपुरका अह्दनामह.

एचिसन् साहिबकी अह्दनामोंकी किताब जिल्द ३.

अह्दनामह नम्बर ६७, जो सन् १८०३ ई० में

करार पाया.

अह्दनामह, जो हिज एक्सलेन्सी मोस्ट नोब्ल रिचर्ड मार्क्स ऑफ वेलेज़्ली,

गवर्नर जेनरल इन कौन्सिल, मकाम फोर्ट विलिअम वाके बंगालाकी तरफसे हिज एक्सलेन्सी लेफ्टिनेण्ट जेनरल, जिरार्ड लेक, शाही फौजोंके सिपहसालार और भरतपुरके महाराजा विश्वेन्द्र सवाई रणजीतसिंह बहादुरके दर्मियान करार पाया.

शर्त पहिली— महाराजा विश्वेन्द्र सवाई रणजीतसिंह बहादुर, बहादुर जंग और ऑनरेब्ल कम्पनीके दर्मियान हमेशहके लिये दोस्ती काइम रहेगी.

शर्त दूसरी— हर एक सरकारके दोस्त व दुश्मन, दोनोंके दोस्त और दुश्मन समझे जायेंगे.

शर्त तीसरी— गवर्मेण्ट अंग्रेजी महाराजाके मुल्की मुआमलातमें हर्गिज दरूल न देगी, और न कुछ खिराज तलब करेगी.

शर्त चौथी— अगर कोई दुश्मन ऑनरेब्ल कम्पनीके इलाकहपर हमलह करेगा, तो महाराजा इस तहरीरके जरीएसे वादह करते हैं, कि वह उस दुश्मनको निकालनेमें अपनी फौजसे मदद करेंगे, और इसी तरह गवर्मेण्ट अंग्रेजी इक्रार करती है, कि अगर महाराजाके इलाकहपर कोई बाहिरी दुश्मन हमलह करेगा, तो वह महाराजा की मदद उनकी रियासतकी हिफाजतके वास्ते अपनी फौजसे करेगी.

इन शर्तोंके अनुसार चलनेका इक्रार इन्जीलके रू से किया जाता है.

ता० २९ सेप्टेम्बर सन् १८०३ ई० मुताबिक ता० ११ जमादियुस्सानी, सन् १२१८ हिज्जीको लिखा गया.

(नक़ मुताबिक अरूलके है.)

(दस्तखत)— जी० लेक.

इस अह्दनामहकी तस्दीक गवर्नर जेनरल इन कौन्सिलने ता० २२ ऑक्टो-
बर सन् १८०३ ई० की की.

नम्बर ६८.

अह्दनामह, जो भरतपुरके राजासे सन् १८०५ ई० में किया गया.

दोस्ती और एकताका अह्दनामह जो ऑनरेब्ल ईस्ट इण्डिया कम्पनी

और महाराजा सवाई विश्वेन्द्र रणजीतसिंह बहादुर, बहादुर जंगके दर्मियान, हिज एक्सिलेन्सी जेनरल जिरार्ड लॉर्ड लेककी मारिफत, हिज एक्सिलेन्सी मोस्ट नोब्ल रिचर्ड मार्किंस ऑफ वेलेज़्ली, गवर्नर जेनरल इन कौन्सिलके दिये हुए इस्तिथारातसे, जो उनको हिन्दुस्तानके तमाम अंग्रेजी इलाकों और हिन्दुस्तानकी तमाम मौजूदह अंग्रेजी फौजोंकी बाबत हासिल हैं, ऑनरेब्ल ईस्ट इण्डिया कम्पनीकी तरफसे और महाराजा सवाई विश्वेन्द्र रणजीतसिंह बहादुर, बहादुर जंगके, उनकी जात खास, उनके वारिसों और जानशीनोंकी तरफसे करार पाया.

शर्त पहिली— हमेशहके लिये मजबूत दोस्ती और एकता ऑनरेब्ल अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कम्पनी और महाराजा सवाई विश्वेन्द्र रणजीतसिंह बहादुर और उनके वारिसों व जानशीनोंके दर्मियान काइम हुई है.

शर्त दूसरी— चूंकि दोनों सरकारोंके दर्मियान दोस्ती काइम हुई है, इसलिये दोस्त और दुश्मन एक सरकारके, दोस्त और दुश्मन दोनोंके समझे जायेंगे, और इस शर्तकी पाबन्दीका दोनों सरकारोंको हमेशह लिहाज रहेगा.

शर्त तीसरी— चूंकि कई बातें ऐसी वाके हुई हैं, जिनके सबवसे, ऑनरेब्ल कम्पनी और महाराजा रणजीतसिंहके दर्मियानकी अगली दोस्ती टूट गई थी, और चूंकि अब दोबारह काइम हुई है, इसलिये उन बातोंको दूर करनेकी नज़रसे महाराजा इक्लार करते हैं, कि उनके कुंवरोमेंसे एक कुंवर हमेशह अंग्रेजी अफसरके साथ, जो दिल्ली या आगराकी फौजके हाकिम होंगे, उस वक्तक रहा करेगा, जबतक कि अंग्रेजी गवर्मेण्टको महाराजाकी दोस्ती और एकताका इत्मीनान साबित होगा; और ऑनरेब्ल कम्पनी यह वादह करती है, कि जब उसको गवर्मेण्ट अंग्रेजीकी निस्वत महाराजाकी दोस्ती व एकतापर इत्मीनान होजायेगा, तो दीगका क़िला, जो हालमें गवर्मेण्ट अंग्रेजीके अफसरोंके क़बज़हमें है, राजा रणजीतसिंहको वापस दिया जायेगा.

शर्त चौथी— महाराजा रणजीतसिंह वादह करते हैं, कि वह ऑनरेब्ल अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कम्पनीको उस सुलहके एवज़, जो उसने उनसे अब की है, बीस लाख रुपया फ़रुखावादी सिक्केका, नीचे लिखी हुई क़िस्तोंके मुवाफ़िक़ देंगे; और ऑनरेब्ल कम्पनी उस नुक़सानकी नज़रसे, जो महाराजाका हुआ है, और उसके मुल्ककी ख़राबी व बर्बादी और इस नज़रसे भी, कि महाराजाने बयान किया है, कि वह उस रुपयेको एक दम अदा नहीं कर सके, मन्ज़ूर करती है, कि वह इस रुपयेको नीचे लिखी हुई क़िस्तोंके मुताबिक़ लेगी. और ऑनरेब्ल कम्पनी यह भी वादह

करती है, कि जब आखरी किस्त पांच लाख रुपयेकी अदा करनेके वक्त गवर्मेण्ट को महाराजाकी दोस्ती व वफादारीपर भरोसा होजावेगा, तो फिर वह किस्त मुआफ़ कीजायेगी.

हालमें एक दम दिया जावे.....	३०००००	रुपया सिकह फ़रुखावादी.
दो महीने पीछे.....	२०००००	"
	<hr/>	
	५०००००	

किस्तें.

आखिर संवत् १८६२, (सन् १८०६ ई० के एप्रिलमें)	३०००००	"
आखिर संवत् १८६३, (सन् १८०७ ई० के एप्रिलमें)	३०००००	"
आखिर संवत् १८६४, (सन् १८०८ ई० के एप्रिलमें)	४०००००	"
आखिर संवत् १८६५, (सन् १८०९ ई० के एप्रिलमें)	५०००००	"

२०००००० सिकह फ़रुखावादी.

शर्त पांचवीं- जो मुल्क पहिले महाराजा रणजीतसिंहके क़बज़हमें था, याने अंग्रेजी गवर्मेण्टकी अमल्दारीसे पहिले, वह मुल्क अब ऑनरेब्ल कम्पनी उनको देती है; और ऑनरेब्ल कम्पनी दोस्तीकी नज़रसे, जो अब आपसमें काइम हुई है, इस मुल्कके क़बज़हमें महाराजासे मुज़ाहमत न करेगी, और न इस मुल्कके एवज़ कुछ खिराज तलब करेगी.

शर्त छठी- उस हालतमें, कि कोई दुश्मन ऑनरेब्ल कम्पनीके इलाक़हपर हमलह करनेका इरादह करेगा, तो महाराजा रणजीतसिंह वादह करते हैं, कि जहां तक उनसे हो सकेगा, उस दुश्मनको निकालनेमें मदद करेंगे, और किसी तरहपर वह लिखा पढ़ी, मिलावट या मदद ऑनरेब्ल कम्पनीके दुश्मनोंकी न करेंगे.

शर्त सातवीं- जोकि इस अहदनामहकी दूसरी शर्तके मुवाफ़िक़ ऑनरेब्ल कम्पनी महाराजाके मुल्ककी हिफ़ाज़त गैर दुश्मनोंके मुक़ाबिलमें करनेकी जिम्महदार होती है, इसलिये महाराजा इस तहरीरके ज़रीएसे वादह करते हैं, कि अगर कुछ तक्रार उनके और किसी सर्कार या सर्दारके दर्मियान पैदा होगी, तो महाराजा पहिले उस तक्रारके सबबकी मुफ़रसल कैफ़ियत अंग्रेजी ऑनरेब्ल कम्पनीको लिखकर भेजेंगे, ताकि सर्कार उसका वाजिबी फ़ैसला इन्साफ़ और पुराने रवाजके रू से करा देनेकी कोशिश करेगी; और

अगर दूसरे फ़रीक़की ज़िदसे वाजिबी फ़ैसला तै न पावे, तो महाराजा सरकार कम्पनीसे मददकी दरखास्त करें, और ऊपर बयान कीहुई हालतमें इस शर्तके मुवाफ़िक़ मदद दीजायेगी.

शर्त आठवीं— महाराजा आइन्दह किसी अंग्रेजी या फ़रांसीसी रिआयाको या यूरोपके किसी और वाशिन्देको सरकार ऑनरेब्ल कम्पनीकी मन्जूरी बगैर अपनी नौकरीमें या अपने पास नहीं रखेंगे; और ऑनरेब्ल कम्पनी भी वादह करती है, कि वह महाराजाके किसी रिइतहदार या नौकरको, उनकी रज़ामन्दीके बिना अपने पास न रखेगी.

ऊपरका अहदनामह, जिसमें आठ शर्ते हैं, ता० १७ एप्रिल सन् १८०५ .ई० मुताबिक़ ता० १६ मुहर्रम सन् १२२० हिज्री और ३ माह वैशाख़ संवत् १८६२ को मक़ाम भरतपुर वाके सूबह अक़बराबादमें हिज़ एक्सलेन्सी जेनरल जिरार्ड लेक और महाराजा सवाई विश्वेन्द्र रणजीतसिंह बहादुरके मुहर और दस्तख़त होकर मन्ज़ूर हुआ.

जब एक अहदनामह, जिसमें ऊपर लिखी हुई आठ शर्ते होंगी, हिज़ एक्सलेन्सी मोस्ट नोब्ल गवर्नर जेनरल इन कौन्सिलके मुहर और दस्तख़तके साथ महाराजा सवाई विश्वेन्द्र रणजीतसिंह बहादुरको दिया जायेगा, तब हिज़ एक्सलेन्सी जेनरल जिरार्ड लेककी मुहर और दस्तख़तका यह अहदनामह वापस होगा.

राजाकी
मुहर.

(दस्तख़त) — लेक.

मुहर.

गवर्नर जेनरल इन कौन्सिलने ता० ४ मई सन् १८०५ .ई० को तस्दीक़ किया.

कम्पनीकी
मुहर.

(दस्तख़त) — वेलेज़्ली.

गवर्नर जेनरलकी
मुहर.

(दस्तख़त) — जी० एच० बार्लो.

(दस्तख़त) — जी० अडनी.

इन अहदनामोंके अलावह एक अहदनामह मुज्जिमोंके लेन देनेकी बाबत राज-पूतानहकी दूसरी रियासतोंके मुवाफ़िक़ भरतपुरसे भी हुआ है; और गोद लेनेकी सनद भी और रियासतोंके अनुसार मिली है.

तवारीख रियासत
धौलपुर.

जुग्राफियह.

रियासत धौलपुर पूर्वी राजपूतानहमें एक छोटी रियासत है, जिसका सालानह खिराज वगैरह सर्कार अंग्रेजीसे मुअ्राफ है. इसके उत्तरमें सर्कारी जिला आगरा; पूर्वमें इलाकह ग्वालियर और जिला आगरा; दक्षिणमें ग्वालियर, और पश्चिममें राज्य भरतपुर व करौली वाके हैं. कुल राज्यका रकबह १२०० मील मुरब्बा उत्तर अक्षांश २६°, २२' व २६°, ५७', और पूर्व देशान्तर ७७°, १६ व ७८°, १९' के दर्मियान फैला हुआ है, जिसकी लम्बाई उत्तर पूर्वसे दक्षिण पश्चिमको ७२ मील और चौड़ाई औसत १६ मील; आबादी २४९६५७ आदमी, सालानह आमदनी ९०००००, रुपया, और फौज सवार व पैदल ३००० के करीब है.

जमीनकी हालत— इस राज्यका पूर्वी हिस्सह अक्सर बराबर और रेतीला है, और दक्षिणी पश्चिमी भागमें जगह जगह छोटी बड़ी पहाड़ियां फैली हुई हैं. जमीन यहांकी अगर्चि खराब है, लेकिन् आब पाशीसे पैदावार ठीक होती है. जिस साल बारिश अच्छी होती है, फसल खूब निपजती है. आंबके दरख्तोंकी कसूरतसे इलाकहमें रौनक जियादह है. धौलपुरसे चार मील पश्चिम तरफ पचगांवमें सिफेद और लाल पत्थरकी खानें हैं.

नदियां— चम्बल नदी, जो इस राज्यकी दक्षिणी पूर्वी संहद है, पूर्वकी तरफ बहती है, और राज्यकी संहदपर साठ मीलके करीब बहकर जिले आगरा व रियासत ग्वालियरकी हद बन गई है.

वाण गंगा— जो इस इलाकहमें उटंगन नामसे प्रसिद्ध है, थोड़ी दूरतक संहदपर बहने बाद १४ मीलके करीब मुल्कके भीतर पूर्व रुखको जाकर वहांसे इस राज्य और जिले आगराके बीच बीस मीलतक संहद काइम करती है. दक्षिण की तरफसे पार्वती नामी एक नाला, जो करौलीके इलाकहसे निकलकर धौलपुरके राज्यमें दाखिल हुआ है, इस नदीमें शामिल होता है.

तालाब व भील- इस रियासतमें ३३ से ज़ियादह तालाब हैं; इनमेंसे अक्सर बादशाही वक्तके बने हुए हैं, जिनको मरम्मत वगैरहसे दुरुस्त कराया गया है; और कई नये बनवाये गये हैं. ज़िराअतको इनसे बहुत कुछ मदद मिलती है, बल्कि यह कहें, तो कुछ बेजा नहीं, कि ज़िराअतकी पैदावारका कुल दार मदार इन्हींपर है. खास धौलपुरमें एक उम्दह तालाब है, और मौजे खानपुर, धोर, नीमरोल, व पचगांवके तालाब बड़े हैं, जिनसे दो हजार बीघाके करीब ज़मीन सींची जाती है.

राज्य प्रबन्ध- अगले वक्तोंमें इस रियासतका इन्तिज़ाम बे काइदह व खराब था; अक्सर फौजदारी मुकदमातकी इत्तिला तक राज्यमें नहीं होती थी, ज़मींदार लोग अपने तौरपर मुद्दई मुद्दाअलेहोंका फैसलह करके बाहम राजीनामह करा लेते थे; और अक्सर पुलिस वाले भी सद्रको इत्तिला किये बिदून खुद फैसले करदेते थे, अगर्चि उनको इस कद्र मजाज नहीं था, क्योंकि कुल महकमे उस वक्त मौजूद थे. विक्रमी १९२८ [हि० १२८८ = ई० १८७१] में नया इन्तिज़ाम किया गया, उस वक्तसे इज्लास खासका महकमह जारी हुआ, जिसमें खुद महाराजा दीवानकी मददसे अपीलकी समाअत, संगीन मुकदमोंके फैसले और राज्य सम्बन्धी दूसरे मुआमलात तै करने लगे. महकमह पंचायतमें जो इज्लास खासकी शाखके तौरपर है, कई लोग शामिल हैं, वे कुल मुआमलातकी रिपोर्टें अपनी राय समेत इज्लास खासमें भेजते हैं. महकमह मालपर दो हाकिम नियत हैं, जिनमेंसे एकके सुपर्द मालगुजारी व मुआफ़ी वगैरह ज़मीनके कामोंकी निगरानी है, दूसरा रियासती खर्च वगैरहके हिसाबी कामका मुह्तमिम है. अदालत दीवानी व फौजदारीका प्रबन्धकर्ता एक ही शरूस है, जिसको फौजदारी मुकदमातमें ३ साल कैद व ३०० रुपया जुर्मानह और दीवानी मुआमलातमें १००० से ज़ियादह दावेके शुरू मुकदमातकी समाअतका इख्तियार है. इसके तहतमें दो नाइब हैं, जो दीवानी व फौजदारीका काम जुदा जुदा करते हैं. इनके इख्तियारातसे बाहर वाले मुकदमोंकी समाअत हाकिम करता है; अपील पंचायतमें होता है, और वहांसे खुलासह व राय दर्ज कीजाकर मिस्लें इज्लास खासको जाती हैं. इलाक़ह गैरके लिये एक जुदा महकमह है, जिसमें अंग्रेजी इलाक़ह और दूसरी रियासतोंके मुआमलात और मुसाफ़िरो वगैरहके इन्तिज़ामकी कार्रवाई तै पाती है. फौजका महकमह पहिले नहीं था, अब काइम किया गया है, जिसमें एक हाकिम मए अमलेके

नियत है, तन्ख्याह बांटनेके सिवा फौजके मुतअल्लक़ कुल हुकम उसीकी

मारिफ़त जारी होते हैं. इनके अलावह आबपाशी, साइर, मालगुजारी, तालीम, तामीर मकानात वगैरह, कई छोटे बड़े महकमे व कारखाने हैं.

मद्रसे- रियासतमें आठ मद्रसे हैं, जिनमेंसे १ धौलपुरमें, २ पुरानी छावनीमें, ३ गांव अगाईमें, और पांच मद्रसे पर्गनोंमें हैं. पहिले इस राज्यकी रिआयाको पढ़ने लिखनेका बहुत कम शौक था, मगर अब किसी क़द्र होता जाता है. कहीं कहीं ज़मींदारोंने मद्रसोंका आधा खर्च देना मन्ज़ूर किया है.

शिफ़ाखानह- खास शहर धौलपुर, बाड़ी और राजखेड़ा, तीन मक़ामोंपर एक एक हॉस्पिटल है, मरीजोंका इलाज उम्दह तौरपर किया जाता है. इसी सर्शितहसे जाड़ेके मौसममें वेक्सिनेटर मुक़र्रर होकर हर साल शहर व इलाक़हमें टीका लगाते हैं, जिससे चेचककी बीमारीके लिये बहुत कुछ रोक होजाती है.

जेलखानह- पहिले राज्य धौलपुरके ज़ियादह मीआद वाले कैदी मक़ाम बाड़ीके जेलखानहको भेजे जाते थे; लेकिन विक्रमी १९२८ [हि० १२८८ = ई० १८७१] में धौलपुरसे पांच मील पुरानी छावनीमें उम्दह आब हवा और मौक़ा देखकर एक बड़ा कुशादह जेलखानह तय्यार करा लिया है, जिसमें कुल राज्यके संगीन व कम मीआद वाले कैदी रक्खे जाते हैं. चन्द कैदी दरी, टाट, व कपड़ा बुनने और रस्से बटनेका काम करते हैं.

जमीनका क़बज़ह व महसूल- इस राज्यमें ३८० गांव ख़ालिसहकी मालगुजारीमें हैं, उनमेंसे २१० से कुछ ज़ियादह गांवोंवाले सर्कारी जमाके अलावह कुछ रुपया नानकारकी बावत भी अदा करते हैं, जो मुस्त्तलिफ़ शरहसे तक्सीम होता है. यह नानकार चन्द नम्बरदारोंको राजाकी ख़ैरख़्वाही या किसी सहद वगैरहके फ़सादका इन्तिज़ाम करनेके एवज़ बख़्शी गई है. ६१ गांव जागीरदारोंको नौकरीके एवज़ मुस्त्तलिफ़ वक्तोंमें दिये गये हैं, जिनपर हर साल किसी क़द्र सवारोंसे राज्यकी नौकरी करना फ़र्ज़ है. बाज़ लोगोंको जागीर के सिवा नक़द रुपया भी मिलता है. ४४ गांव मुआफ़ीके हैं, जिनमेंसे ज़ियादहतर ब्राह्मणोंमें बटे हुए हैं; इनसे ख़िराज नहीं लिया जाता. महाराजा धौलपुरके तहतमें दो इलाके याने सरमथुरा और बीजोली ख़िराज गुज़ार हैं, जो सालानह ख़िराजके अलावह राजाको गद्दी बैठनेके समय नज़ानह देते हैं. ये दोनों क़ौलीके राज्यकी सन्तानमेंसे यादव राजपूत हैं, जो किसी क़द्र खुद मुस्त्तार भी हैं. इसी तरह इलाक़ह ग्वालियरके गांव निमरोलवाले भी कुछ

रुपया सालानह अदा करते हैं, मगर वह अस्लमें टांकादार याने खिराजगुजार नहीं हैं.

तहसीलें- इलाकहके बन्दोबस्तके वास्ते ६ तहसीलें और १० थाने नियत हैं; हर तहसीलमें तहसीलदार व मुहर्रिर रहते हैं. धौलपुर, बाड़ी तथा राजखेड़ाकी दीवानी पर दो दो तहसीलोंके लिये एक एक मुन्सिफ़ मुकर्रर है, जिसको १०००) रुपया मालियत तकके दावेकी समाअतका इस्तिथार है. तहसीलदारोंको फौजदारीमें पांच रुपया तक जुर्मानह और एक हफ्तहकी कैदका इस्तिथार है. मुन्सिफ़ों व तहसीलदारोंका अपील शहरकी अदालत दीवानी व फौजदारीका हाकिम सुनता है.

मरहूर शहर व कस्बे.

धौलपुर खास राजधानी, आगरा व ग्वालियरकी सड़कपर आगरेसे ३४ मील दक्षिण, और ग्वालियरसे ३७ मील उत्तरमें वाके है. शहरसे एक मील दक्षिण रुखको चम्बल नदी बहती है, सड़कपर किश्तियोंके जरीएसे उतरकर जाना पड़ता है. मगर चार मील ऊपरकी तरफ़ मक़ाम केतरीके पास, जहां उसका पाट पौन मील है, पानी कम गहरा है; बर्सातके दिनोंमें इस दर्याका पानी ज़ियादह चढ़जानेसे दाहिने किनारेपर दूरतक ज़मीन पानीमें डूबजाती है, परन्तु बाएं किनारेपर, जहां क़िला है, ऊंचा होनेके सबब पानी नहीं फेल सक्ता. यहां पुराने ज़मानहकी कई मस्जिदें व मक़बरे हैं. एक मस्जिदकी बाबत लोग कहते हैं, कि इसको विक्रमी १६९१ [हि० १०४३ = ई० १६३४] में शाहजहाने बनवाया था. दूसरे कई मकान इससे भी पुराने ज़मानहके बने हुए हैं. ये सब मकानात निहायत उम्दह हैं, जो इसी इलाकहके बढ़िया क़िस्मके पत्थरसे बनाये गये हैं. शहर धौलपुर बहुत पुरानी बस्ती है, जिसकी बाबत इस मुल्कके लोगोंका बयान है, कि दौला नामी एक रईसने इसको आबाद किया था, और उसीके नामपर इसका नाम धौलपुर रक्खा गया. यहांपर एक तालाब (१) है, और उसके पास ही महल, मस्जिद, सैरगाह, कई कुएं और एक बंगला व कुशादह मैदान है.

बाड़ी- यह कस्बह राज्यके दक्षिणी पश्चिमी हिस्सेमें पहाड़ोंके बीच धौलपुरसे १८ मील पश्चिम रुखको एक पर्गनहका सद्र मक़ाम है.

राजखेड़ा- यह कस्बह भी पर्गनहका सद्र है, और धौलपुरसे २३ मील पूर्वोत्तरमें वाके है.

मनया- आगरा व ग्वालियरकी सड़कके किनारे, आगरेसे २५ मील दक्षिणको एक बड़ा गांव है.

(१) यह तालाब एक लाल पत्थरके चटानमें खोदा गया है.

रजोरा- आगरा व बाड़ीकी सड़कके किनारे, आगरासे ३० मील दक्षिण पश्चिममें वाके है.

तवारीख.

धौलपुर वालोंके बुजुर्ग गोहद नाम गांवके रहनेवाले जाट थे, जो किले ग्वालियरसे २८ मील उत्तर पूर्वमें है; इस समयसे १५० वर्ष पहिले विक्रमी १७९७ [हि० ११५३ = .ई० १७४०] के पहिलेसे बाजीराव पेशवाकी खिद्यत और नौकरीसे गोहद मकामके हाकिम बनगये, और विक्रमी १८१८ [हि० ११७४ = .ई० १७६१] में जब अहमदशाह अब्दालीसे लड़ाई करके मरहटोंका जोर टूट गया, तो इनमेंसे लोकेन्द्रसिंह नामी शुरूसने ग्वालियरको अपने अधिकारमें लाकर राणाका खिताब इस्तिथार किया, जिसको दिल्लीके बादशाहकी तरफसे बख्शा जाना बयान किया जाता है. मरहटोंने इनको दोबारह तबाह करदिया था, परन्तु सरकार अंग्रेजीकी मदद और हिमायतसे वह फिर बहाल होकर धौलपुरके रईस बनाये गये, जहां उनकी औलादवाले अबतक काइम चले आते हैं.

१- राज राणा लोकेन्द्रसिंह.

विक्रमी १८२४ [हि० ११८० = .ई० १७६७] में मरहटोंमेंसे रघुनाथ-रावने गोहदको घेरकर तीन लाख रुपया फौज खर्चका लिया और कुछ खिराज नियत करके पीछा छोड़ा. विक्रमी १८३६ मार्गशीर्ष कृष्ण १० [हि० ११९३ ता० २३ जिल्काद = .ई० १७७९ ता० २ डिसेम्बर] को अन्न काइम होनेके खयालसे सरकार अंग्रेजीने एक अहदनामहके द्वारा गोहदके रईस लोकेन्द्रसिंहको अपनी हिमायतमें लिया, और ग्वालियरका किला भी मरहटोंसे छीनकर उसके हवाले किया. इस अहदनामह और रिआयतके तीन वर्ष पीछे रईसका चाल चलन बिगड़ी हुई हालतमें पाया गया, तो सरकारने उसकी हिफाजतसे किनारह किया; इस हालतमें माधवराव सेंधियाने उक्त रईससे ग्वालियरका किला और मकाम गोहद छीनकर उसको कैद करलिया. लोकेन्द्रसिंह ना उम्मेदीकी हालतमें मरगया, और २२ वर्षतक बिगड़ी हुई दशामें रहनेके बाद सरकार अंग्रेजीकी मिहर्बानी और सहायतासे उसके बेटेको एक रियासत मिली, जो अब धौलपुरके नामसे प्रसिद्ध है.

२- महाराज राणा कीर्तिसिंह.

विक्रमी १८६० माघ शुक्ल ६ [हि० १२१८ ता० ३ शव्वाल = ई० १८०४ ता० १७ जैनुअरी] को जब कि अंग्रेजी सरकारने दौलतराव सेंधियाकी बखिलाफीके सबब उसका अक्सर इलाक़ह दबाया, तो ग्वालियरका क़िला सरकारी अधिकारमें रखकर गोहद मक़ाम राज राणा लोकेन्द्रसिंहके बेटे कीर्तिसिंहको सौंप दिया; परन्तु विक्रमी १८६२ मार्गशीर्ष शुक्ल १ [हि० १२२० ता० २९ शअबान = ई० १८०५ ता० २२ नोवेम्बर] को सरकार अंग्रेजीने सेंधियासे सुलह होजानेके सबब ग्वालियर और गोहद दोनों मक़ाम उसको देदिये; इस समय राज राणाका कोई कुसूर न था, इसलिये उनको एक नये अहदनामहके रूसे तीन पगने धौलपुर, बाड़ी, और राजखेड़ा दिये गये, जिससे वह गोहदके एवज़ इस समयसे ८४ वर्ष पहिले धौलपुरके रईस काइम हुए. विक्रमी १८९३ [हि० १२५२ = ई० १८३६] में महाराज राणा कीर्तिसिंहके मरजानेपर उसका बेटा भगवन्तसिंह राजा हुआ.

३- महाराज राणा भगवन्तसिंह.

इन्होंने विक्रमी १८९३ [हि० १२५२ = ई० १८३६] में राज्य पाया, और विक्रमी १९१४ [हि० १२७३ = ई० १८५७] के ग़दरमें कई अंग्रेजोंको अपनी पनाहमें रखकर सरकारी खैरखाही साबित की, और इनको राजपूतानहके दूसरे रईसोंकी तरह गोद लेनेकी सनद मिली. थोड़ेसे वर्ष पहिले महाराज राणाने अपने यहांके बनियोंपर महाराजा सेंधियासे मिलावट रखनेका इल्जाम लगाकर जैनके मन्दिरमेंसे पार्श्वनाथकी मूर्ति उखड़वा डाली और उसकी जगह महादेवकी मूर्ति स्थापन करदी. सेंधियाने बड़े जोरके साथ सरकार अंग्रेजीसे इसका एवज़ चाहा; जिसपर सरकारी तरफसे महाराज राणाको समझाइश कीजानेके सिवा कोई कार्रवाई नहीं कीगई. विक्रमी १९१८ [हि० १२७७ = ई० १८६१] में महाराज राणाको उनके कामदार देवहंसने गद्दीसे खारिज करना चाहा, इसपर वह भागकर मददके वास्ते आगरे चले आये; सरकारने तहकीकातके बाद कामदारको कैद करके बनारस भेजदिया. विक्रमी १९२० [हि० १२८० =


ई० १८६३] में रईसने सर दिनकररावके भाई गंगाधरको अपना प्रधान नियत किया, जिसके उम्दह इन्तिजामसे कर्जहमें बहुत कमी हुई. कुछ अरसहके बाद गजरा नामी एक कस्बी महाराज राणाके बहुत मुंह लग गई, और वह उसका कहा मानने लगे, इसपर हर तरहकी शिकायतें सरकारतक पहुंचीं, और बद् चलन लोग रियासतसे निकाले जाकर कस्बीको पोलिटिकल एजेण्टकी तरफसे धमकाया गया, कि राजके मुआमलातमें दखल देना उसके हकमें बुरा होगा. विक्रमी १९२४ [हि० १२८४ = ई० १८६७] में महाराज राणाका जवान बेटा, जो अय्याशी व बद् चलनीसे बहुत खराब हालतमें था, और बापसे हमेशह विरुद्ध रहता था, मरगया.

महाराज राणाने बेटेके मरजाने बाद अपने पोतेको, जो विक्रमी १९२५ [हिं० १२८५ = ई० १८६८] में पांच वर्षका था, बुरी सुहबतसे बचाये रक्खा, और उम्दह तौरपर पढ़ाना लिखाना शुरू किया, जिससे आगेके लिये बिह्तरीकी उम्मेद नजर आती थी. विक्रमी १९२६ मार्गशीर्ष शुक्ल ३ [हि० १२८६ ता० २ रमजान = ई० १८६९ ता० ६ डिसेम्बर] को हुजूर मलिकह मुअज़्जमहकी तरफसे महाराज राणाको जी० सी० एस० आइ० (G. C. S. I.) का खिताब और तमगह मिला; और दूसरे साल वह एडिंबराके शाहजादह साहिबकी मुलाकात और पेशवाईके लिये कलकत्तेको गये. विक्रमी १९२८ [हि० १२८८ = ई० १८७१] में उक्त रईसने हकीम अब्दुन्नबीखांको, जो पटियालासे नाराज होकर चला आया था, अपना प्रधान मुकरर किया. इस शरूसने कर्जह उतारनेके सिवा फौजदारीका प्रबन्ध तारीफके काबिल किया. यह प्रधान दूसरे साल मरगया, और विक्रमी १९२९ माघ शुक्ल १२ [हि० १२८९ ता० १० जिल्हज = ई० १८७३ ता० ९ फ़ेब्रुअरी] को महाराज राणा भगवन्त-सिंहके गुजर जानेपर उनके पोते राज्यके मालिक माने गये.


४- महाराज राणा निहालसिंह.

विक्रमी १९२९ माघ शुक्ल पक्ष [हि० १२८९ जिल्हज = ई० १८७३ फ़ेब्रुअरी] में नौ वर्षकी उम्रके अन्दर अपने दादाके बाद गद्दीपर बिठाये गये. शुरू वक्तमें राव राजा सर दिनकररावने बगैर तन्ख्याह रियासतका प्रबन्ध किया, फिर मेजर डेन्ही पोलिटिकल एजेण्ट निगरानीपर रक्खे गये. विक्रमी १९३३ [हि० १२९३ = ई० १८७६] तक रईसको दुरुस्तीके साथ शिक्षा दी गई, वह

अंग्रेजी, फ़ार्सी, तथा हिन्दीमें किसी क़द्र काम करनेके लाइक होशयार होगये. विक्रमी १९४० [हि० १३०१ = ई० १८८४] में अंग्रेजी सरकारकी तरफ़से महाराज राणाको मुल्की इस्तिथारात हासिल होगये हैं, और उनकी मातहतीमें एक कौन्सिल तमाम राज्यके कारोबारकी निगरानी करती है.




धौलपुरका अहदनामह.



एचिसन् साहिबकी अहदनामोंकी किताब जिल्द ३,

अहदनामह नम्बर ७२, जो दर्मियान सरकार अंग्रेजी कम्पनी और गोहदके राणा महाराजा लोकेन्द्र बहादुरके क़रार पाया.



अहदनामह, जो मक़ाम फ़ोर्ट विलिअम वाके बंगालामें सरकार कम्पनीकी तरफ़से ऑनरेब्ल गवर्नर जेनरल व कौन्सिल, बावत उमूर ऑनरेब्ल अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कम्पनी एक फ़रीक़, और दूसरे फ़रीक़ गोहदके राणा महाराजा लोकेन्द्र बहादुरके दर्मियान, उनकी व उनके वारिसों व जानशीनोंकी तरफ़से क़रार पाया.

शर्त पहिली— सरकार अंग्रेजी कम्पनी और महाराजा लोकेन्द्र बहादुर, और उनके जानशीनोंके दर्मियान हमेशाके वास्ते दोस्ती क़ाइम रहेगी; और नीचे ज़िक्र की हुई बातोंको पूरा करनेकी बावत इत्तिफ़ाक़ किया जायेगा.

शर्त दूसरी— जब कभी दोनों सरकारोंमेंसे किसी फ़रीक़के और मरहटाके लड़ाई होगी, और अगर महाराजा लोकेन्द्र बहादुर अपने मुल्ककी हिफ़ाज़त या दूसरे इलाकोंको फ़तह करनेके वास्ते अंग्रेजी कम्पनीसे फ़ौजकी मदद मांगेंगे, तो यह फ़ौजी मदद महाराजाकी तहरीरी दरख़्वास्तके मुवाफ़िक़ उतनी दीजायेगी, जितनी कि ज़रूरत समझी जावेगी, और अंग्रेजी फ़ौजका कमांडिंग अफ़सर उस जगहका, जो ज़ियादह नज़्दीक होगी, महाराजाकी फ़ौजके साथ उस वक़्तक रहेगा, जबतक कि वह उसको रुख़्सत न करेंगे; और खर्च इस फ़ौजका बीस हजार रुपया सिक्कह

मछलीदार बनारसी, या उसकी बराबर कीमतवाले किसी दूसरे सिक्केकी माहवारी



किस्तोंसे हर एक पलटन व मामूली तोपखानहकी बाबत महाराजा देंगे. और यह खर्चा उस वक्तसे शुरू होगा, जबसे कि उक्त फौज कम्पनीके इलाकहकी संहद या अवधवाले नव्वाबके इलाकहकी संहदसे कूच करेगी, और उस वक्त खत्म होगा, जब वह वापस कम्पनी या अवधके नव्वाबकी संहदमें दाखिल होगी; और उसका कूच चार कोस रोजानहके हिसाबसे होगा.

शर्त तीसरी- यह फौज महाराजाके भीतरी या बाहिरी मुकाबलेमें और मरहटेका इलाकह फतह करनेके वास्ते भी काममें लाई जावेगी.

शर्त चौथी- जो कुछ मुल्क मरहटेका इस अहदनामहके रूसे कम्पनीकी फौज या महाराजाकी फौजके इत्तिफाक या इत्तिफाकके बिना, और लड़ाई या सुलहसे फतह होगा, वह उन छप्पन महाल (पर्गनों) के सिवा, जो महाराजाकी जागीरमें हैं, और जो अब भी मरहटाके कबजहमें नहीं हैं, इस तौरपर तकसीम होगा, याने नौ आने कम्पनीके और सात आने महाराजाके; और आमद उस मुल्ककी फरी-कैनके तज्वीज किये हुए अमीनोंकी मारिफत गुजरे हुए दस वर्षोंकी औसत आमदनीके हिसाबसे करार दीजायेगी; और कम्पनीका हिस्सह, जो इस तरह तज्वीज होगा, उसमेंसे तहसीलका खर्च, जो ऐसे मुल्कोंमें होता है, मुज्जा देकर बाकी जो कुछ बचेगा, वह महाराजा सालानह खिराजके तौरपर अदा किया करेंगे, और मुल्क व किला वगैरह सब महाराजाके कबजहमें रहेंगे.

शर्त पांचवीं - अगर यह बात दुरुस्त व मुनासिब ठहरे, कि सर्कार कम्पनी और महाराजाकी फौज शामिल होकर इत्तिफाकके साथ मरहटाके मुकाबलहमें महाराजाकी संहदके बाहर लड़ाई करे, और गवर्मेण्ट इस मज्मूनकी तहरीर महाराजा को भेजे, तो महाराजा दस हजार सवार लड़ाईके वास्ते देंगे, और दोनों सर्कारें अपनी अपनी फौजका खर्च आप करेंगी, और अंग्रेजी फौजके अपनी संहदकी तरफ लौटनेके वक्त अगर महाराजाको अंग्रेजी फौजकी जरूरत हो, और वह दर्र्वास्त देकर उसको अपने वास्ते रोक रक्खें, तो जिस तारीखसे दर्र्वास्त दी जायेगी उस तारीखसे अंग्रेजी फौजका खर्चा महाराजाके जिम्मह होगा, और उसी अन्दाजसे खर्चा दिया जायेगा, जो अन्दाज दूसरी शर्तमें दर्ज है; और महाराजासे उनकी फौज उन मकामोंकी लड़ाईके वास्ते, जो इन्दौर और उज्जैनसे आगे वाके होंगे, सिवाय महाराजाकी रजामन्दी और खुशीके नहीं मंगाई जायेगी, और न लीजायेगी.

शर्त छठी- जब अंग्रेजी फौज महाराजाके मुल्ककी हिफाजतके वास्ते, या


दूसरे इलाक़हको फ़तह करनेके लिये मस्रूफ़ होगी, तो काम उसका महाराजा तज्वीज़ करेंगे, परन्तु उस कामके पूरा करनेका तरीक़ह अंग्रेज़ी फ़ौजके कमांडिंग अफ़सरके इस्तिथारमें रहेगा.

शर्त सातवीं— जब कभी कम्पनी और महाराजा दोनोंकी फ़ौजें मिलकर किसी दूरवाले मुल्ककी लड़ाईमें मस्रूफ़ होंगी, तो अंग्रेज़ी फ़ौजके कमांडिंग अफ़सर लड़ाईसे तअल्लुक़ रखनेवाली हर एक बातमें महाराजासे सलाह किया करेंगे; और जिस बातमें दोनोंकी राय शामिल न होगी वह सिर्फ़ अंग्रेज़ी फ़ौजके कमांडिंग अफ़सरके इस्तिथारमें रहेगी, और उसी काममें महाराजाकी हुकूमत उनकी निजकी फ़ौजपर पूरी पूरी रहेगी.

शर्त आठवीं— जब सकार कम्पनी और मरहटाके दर्मियान सुलह होजायेगी, तो महाराजा भी उस अहदनामहमें एक फ़रीक़ माने जायेंगे, और उनका इलाक़ह, जो इस वक्त उनके क़बज़हमें है, मए क़िला ग्वालियरके, जो क़दीमसे महाराजाके खानदानमें चलाआता है, अगर उस वक्त भी उनके क़बज़हमें होगा, और जितना इलाक़ह उन्होंने लड़ाईमें हासिल किया होगा, और जो शर्तोंके मुवाफ़िक़ उस वक्त उनके पास रहनेके लाइक़ होगा, वह सब ज़िक़्र किये हुए अहदनामहके रूसे उनके क़बज़हमें रक्खा जायेगा.

शर्त नवीं— महाराजाके मुल्कमें कोई अंग्रेज़ी कारखानह क़ाइम न होगा, और कोई नामी शरूस् अंग्रेज़ी कम्पनीकी तरफ़से, या कोई शरूस् गवर्नर जेनरल और कौन्सिलकी तरफ़से लाइसेन्सके द्वारा महाराजाकी रज़ामन्दीके बिना नहीं भेजा जायेगा, और न उनकी रअग्रयत सिपाहियानह कामके लिये मजबूर कीजायेगी, और न उन पर महाराजाके हुकमके सिवा किसी दूसरेका हुकम वाजिब होगा.

फ़ोर्ट विलिअम मक़ाममें तारीख़ २ डिसेम्बर सन् १७७९ ई० को इसपर मुहर और दस्तख़त हुए.



नम्बर ७४.

गोहदके राणाका अहदनामह जो सन् १८०४ ई० में क़ाइम हुआ.

अहदनामह दोस्ती और एकताका दर्मियान ऑनरेब्ल ईस्ट इण्डिया कम्पनी और महाराज सवाई राणा कीर्तिसिंह लोकेन्द्र बहादुरके, जिसके रूसे ऑनरेब्ल कम्पनी वादह करती है, कि वह गोहदका मुल्क और दूसरे इलाक़े महाराज राणाको देती है, और उनका क़बज़ह हाकिमानह तौरसे उनपर रहेगा; और जिसके रूसे

महाराज राणा आँनरेब्ल कम्पनीकी कुमकी फ़ौज रखनेका वादह करते हैं, आँनरेब्ल कम्पनीकी तरफ़से हिज़ एक्सिलेन्सी मोस्ट नोब्ल रिचर्ड मार्किस वेलेज़्ली, नाइट ऑफ़ दि मोस्ट आँनरेब्ल इलस्ट्रिअस ऑर्डर ऑफ़ सेण्ट पेटेरिक, वन ऑफ़ हिज़ त्रिटैनिक मैजेस्टीज़ मोस्ट आँनरेब्ल प्रिवी कौन्सिल, कप्तान जेनरल, और हिन्दुस्तानकी कुल मौजूदह फ़ौज खुशकीके सिपहसालार, और गवर्नर जेनरल इन कौन्सिल, मक़ाम फ़ोर्ट विलिअम वाके बंगालाके दिये हुए इस्तिथारातसे एक तरफ़ हिज़ एक्सिलेन्सी जेनरल जिरार्ड लेक, मुल्क हिन्दुस्तानकी मौजूदह अंग्रेज़ी फ़ौजोंके सिपहसालार, और दूसरी तरफ़ महाराज सवाई राणा कीर्तिसिंह बहादुरके, उनकी जात खास और उनके वारिसों व जानशीनोंकी तरफ़से करार पाया.

शर्त पहिली— हमेशहके वास्ते आँनरेब्ल कम्पनी और महाराज राणा कीर्तिसिंह बहादुर और उनके वारिसों व जानशीनोंके दरमियान दोस्ती और एकता काइम हुई है; इसलिये उस दोस्तीके लिहाजसे एक फ़रीकके दोस्त और दुश्मन दोनों फ़रीकोंके दोस्त और दुश्मन समझे जायेंगे.

शर्त दूसरी— आँनरेब्ल ईस्ट इण्डिया कम्पनी इस तहरीरके ज़रीएसे वादह करती है, कि वह महाराज राणा कीर्तिसिंहका उसके मौरूसी मुल्क गोहद और नीचे लिखे हुए जिलोंपर हाकिमानह क़बज़ह करा देगी, और ये सब जिले उनके और उनके वारिसों और जानशीनोंके क़बज़हमें बिना खिराज, सकार आँनरेब्ल कम्पनीकी ज़मानतसे रहेंगे:—

ग्वालियर खास.	तअल्लुकह मालावा.	भोंडा.
आंतरी वगैरह, पांच	” जगनी.	लेहार वगैरह, जिसमें जिला
महाल.	सराय जुल्ला.	गंज व काहटी शामिल है. }
आंतरी.	दुंदरी.	लेहार.
चमक.	अनहोन.	रामपुर.
लवान.	नूराबाद.	ककसीस.
सलवाई और चन्नो.	अटोरा.	खतौंदा
अम्बापुर.	बहादुरपुर.	बकसा.
समौली.	बिलौठी.	गोपालपुर.

परिहारगढ़ वगैरह, जिसमें तअल्लुकह सरवारी शामिल है } तअल्लुकह चतोर. पर्गनह बीद मए उसके } तअल्लुकहोंके. पर्गनह फोम्प. तअल्लुकह अमरी.	कुरवास. हवेली गोहद. बीहट. तअल्लुकह सुकल्हारी. " अमान. इन्दरकी. भांदरी.	गूजरा. कटौली. लावान बड़ी. पर्गनह नोह. पर्गनह बीटवा. तअल्लुकह देवगढ़.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

शर्त तीसरी - ऑनरेब्ल कम्पनीके सिपाहियोंकी तीन पलटनें हमेशह महाराज-राणाके साथ उनके मुल्ककी हिफाजतके वास्ते रहेंगी, और उनका खर्च महाराज-राणा महीनेके महीने ऑनरेब्ल कम्पनीको पच्चीस हजार रुपया फी पलटनके हिसावसे, याने पचहत्तर हजार रुपया सिकह लखनऊ, या उसके बराबर कीमत वाला कोई दूसरा सिकह माहवार, या नौ लाख रुपया सालानह दिया करेंगे; अगर महाराज-राणा किसी माहवारी किस्तके जमा करानेमें मजबूर रहेंगे, तो ऑनरेब्ल कम्पनीकी गवर्मेण्टको इस्तियार हासिल रहेगा, कि वह किसी शख्सको अपनी तरफसे आमदनी मालगुजारी मुल्कमेंसे उक्त रुपया वसूल करनेके लिये निगरां मुकर्रर करे.

शर्त चौथी - महाराज राणा इक्कार करते हैं, कि किले और शहर ग्वालियरका कब्जह हमेशह गवर्मेण्ट ऑनरेब्ल कम्पनीके मुतअल्लुक रहेगा, और उक्त गवर्मेण्टको यह भी इस्तियार रहेगा, कि खास गोहदके अलावह राणाके मुल्कमें किसी किलेमें जब कभी जहां वह चाहे या मुनासिब समझे, वहां ऑनरेब्ल कम्पनीकी फौज काइम करे, और किले गोहदके सिवा राणाके मुल्कमें जिस किलेको वाजिब समझे उसको तड़वा डाले.

शर्त पांचवीं - ऑनरेब्ल कम्पनी कुछ खिराज उस मुल्कका, जो महाराज-राणा कीर्तिसिंहको दियाजाता है, तलब न करेगी.

शर्त छठी - अगर किसी वक्त ऑनरेब्ल कम्पनीका कोई दुश्मन उस मुल्क पर, जो अब हिन्दुस्तानके अन्दर ऑनरेब्ल कम्पनीके कब्जहमें है, हमलह करने का इरादह करे, तो महाराज राणा इक्कार करते हैं, कि वह अपनी तमाम फौज उक्त गवर्मेण्टकी मददके वास्ते देंगे, और खुद उस दुश्मनको निकालनेमें पूरी कोशिश करेंगे, और दोस्ती व एकताके सुबूतकी कोई बात बाकी न छोड़ेंगे.

शर्त सातवीं—चूँकि इस अह्दनामहकी दूसरी शर्तके मन्शासे आँनरेब्ल कम्पनी ज़ामिन होती है, कि वह राणाके मुल्ककी हिफ़ाज़त बाहिरी दुश्मनके मुक़ाबलेमें करेगी, इसलिये महाराज राणा इस तहरीरके ज़रीएसे इक्रार करते हैं, कि अगर कोई तक्रार आपसमें उनके और किसी दूसरी सरकार या सदाँरके हो, तो महाराज राणा पहिले उस तक्रारकी वजह गवर्मेण्ट कम्पनीपर जाहिर करेंगे, ताकि गवर्मेण्ट उसका वाजिबी फ़ैसलह करानेकी कोशिश करे; अगर दूसरे फ़रीककी ज़िदसे वाजिबी फ़ैसलह न होने पावे, तो महाराज राणाको इख़्तियार होगा, कि वह अंग्रेज़ी फ़ौजको, जो मुल्ककी हिफ़ाज़तके वास्ते मुक़रर है, उस दूसरे फ़रीकके मुक़ाबलेके लिये काममें लावें.

शर्त आठवीं—अगरि महाराज राणाको अपनी फ़ौजपर पूरी हुकूमत हासिल है, लेकिन तो भी वह इस तहरीरके ज़रीएसे वादह करते हैं, कि लडाईके वक़्त कम्पनीकी फ़ौजके कमान्डरकी सलाहसे काम करेंगे.

शर्त नवीं—महाराज राणा किसी अंग्रेज़ी या फ़रांसीसी रिआयाको, या यूरोपके किसी और वाशिन्देको किसी तरह अपनी नौकरीमें या अपने पास बग़ैर रज़ामन्दी गवर्मेण्ट अंग्रेज़ीके न रखेंगे.

ऊपरका अह्दनामह, जिसमें नौ शर्तें दर्ज हैं, हिज़ एक्सिलेन्सी जेनरल जिरार्ड लेकके मुहर व दस्तख़तसे बयाना मक़ामपर ता० १७ जैनुअरी सन् १८०४ ई० मुताबिक़ ता० ३ शव्वाल सन् १२१८ हिजी मुवाफ़िक़ २० माह माघ (माघ शुक्ला ५) संवत् १८६० को, और महाराज सवाई राणा कीर्तिसिंह लोकेन्द्र बहादुरके मुहर व दस्तख़त से ग्वालियर मक़ामपर ता० २९ जैनुअरी सन् १८०४ ई० मुताबिक़ ता० १५ शव्वाल सन् १२१८ हिजी मुवाफ़िक़ ३ माह फाल्गुन (फाल्गुन कृष्ण ३) संवत् १८६० को सहीह होकर मन्ज़ूर हुआ. जब एक अह्दनामह ऊपर लिखी हुई नौ शर्तोंका हिज़ एक्सिलेन्सी मोस्ट नोब्ल मार्किंस वेलेज़्ली, गवर्नर जेनरल इन कौन्सिलके मुहर और दस्तख़त होकर महाराज राणा कीर्तिसिंह लोकेन्द्र बहादुरको दिया जायेगा, तब यह अह्दनामह हिज़ एक्सिलेन्सी जेनरल जिरार्ड लेकका मुहरी व दस्तख़ती वापस किया जायेगा.

गवर्नर जेनरल
की छोटी मुहर.

राणाकी मुहर.

ता० २ मार्च सन् १८०४ ई० को तस्दीक़ हुआ.

नम्बर ७५.

गोहदके राणाका अहदनामह, जो
सन् १८०६ ई० में करार पाया.

अहदनामह दर्मियान आनरेब्ल ईस्ट इण्डिया कम्पनी और महाराज सवाई राणा कीर्तिसिंह लोकेन्द्र बहादुरके, जिसके रूसे गोहदका मुल्क और क़िला वगैरह राणा कीर्तिसिंह आनरेब्ल कम्पनीको देते हैं, और जिसके रूसे आनरेब्ल कम्पनी राणा कीर्तिसिंहको धौलपुर, बाड़ी और राजखेडाके जिलोंकी हुकूमत देती है, आनरेब्ल कम्पनीकी तरफसे आनरेब्ल सर ज्यॉर्ज हिलेरो बार्लो बैरोनेट, हिन्दुस्तानके कुल अंग्रेजी इलाकोंके गवर्नर जनरलके दिये हुए इख्तियारातसे एक तरफ़ मिस्टर श्रीम मर सर और दूसरी तरफ़ महाराजा सवाई राणा कीर्तिसिंह लोकेन्द्र बहादुरके उनकी व उनके वारिसों और जानशीनोंकी तरफसे करार पाया.

शर्त पहिली— चूंकि एक अहदनामह दोस्ती और एकताका ता० २९ जैनुअरी सन् १८०४ ई० मुताबिक़ ता० १५ शव्वाल सन् १२१८ हिज्री मुवाफ़िक़ ३ माह फाल्गुन (फाल्गुन कृष्ण ३) संवत् १८६० को आनरेब्ल अंग्रेजी ईस्ट इण्डिया कम्पनी और महाराज राणा कीर्तिसिंहके दर्मियान हुआ था, जिसके रूसे दोनों फ़रीकोंके फ़ायदों पर नज़र रक्खी गई थी; और चूंकि लाचारीके सबब महाराज राणा मुल्क गोहद वगैरहका बन्दोबस्त करने और उन शर्तोंके पूरा करनेमें, जो आनरेब्ल कम्पनीके साथ मददगार फ़ौजका खर्चा अदा करनेकी बाबत करार पाई थीं, मजबूर रहे; और फ़रीक़ेनके फ़ायदोंपर खयाल न रहा, इसलिये आनरेब्ल ईस्ट इण्डिया कम्पनी और महाराजा कीर्तिसिंह इस तहरीरके ज़रीएसे मन्ज़ूर करते हैं, कि ऊपर जिक़र किया हुआ अहदनामह रद्द और खारिज समझा जावे.

शर्त दूसरी— महाराज राणा इस तहरीरके ज़रीएसे इक्कार करते हैं, कि वह गोहदके मुल्क और क़िले व दूसरे इलाकोंका क़बज़ह, जो उनको पहिले अहदनामह के रूसे मिले थे, गवर्मेण्ट अंग्रेजीके अप्सरोंको देते हैं, और उनको इख्तियार है, कि जिस तरह गवर्मेण्ट अंग्रेजी चाहे, उस तरह उसका बन्दोबस्त करें.

शर्त तीसरी— आनरेब्ल कम्पनी इस खयालसे, कि अगले अहदनामहकी शर्तें महाराज राणाकी तरफसे लाचारीके सबब पूरी नहीं हुई थीं, अब खुशीके साथ उनके वास्ते काफ़ी पर्वरिश तज्वीज़ करती है, और इस तहरीरके ज़रीएसे वादह

करती है, कि धौलपुर, बाड़ी, और राजखेड़ाके जिले मुवाफिक तफ्सीलके, जिसमें इन जिल्लोंके मुतअल्लक कुल गांव (१) अलह्दह अलह्दह दर्ज हैं, महाराज राणा और उनके वारिसों व जानशीनोंको देती है, जिनकी पूरी हुकूमत उनके इस्तिथारमें रहेगी; और महाराज राणा अपनी तरफसे इक्रार करते हैं, कि वह अपने इलाकहके नज़दीक वाले किसी सदारसे, बख्शे हुए पर्गनोंकी पुरानी हदोंकी बाबत तक्रार न करेंगे, और हदें वही काइम रहेंगी, जो बख्शनेके वक्त होंगी.

शर्त चौथी— चूंकि इस अह्दनामहकी तीसरी शर्तके रूसे धौलपुर, बाड़ी व राजखेड़ाके पर्गने दर्र्वास्तके मुवाफिक महाराज राणाको दिये गये हैं, और उनमें कोई हुकम अंग्रेजी अदालतका जारी न होगा, और न कुछ मुतालबह उनकी बाबत ऑनरेब्ल कम्पनीकी तरफसे पेश होगा; इसलिये महाराज राणा इस तहरीरके जरीएसे वादह करते हैं, कि वह उन तमाम मुकदमोंका फ़ैसलह, जो दाइर होंगे, चाहे वे इलाकहके भीतर या बाहर वाके हुए हों, अपने जिम्मह रक्खेंगे; और कुछ जिम्महदारी मदद या हिफ़ाज़तकी निस्बत ऑनरेब्ल कम्पनीके नहीं रहेगी.

ऊपर लिखा हुआ अह्दनामह, जिसमें चार शर्तें दर्ज हैं, फ़रीकैनकी मन्जूरीके मुवाफिक मक़ाम ग्वालियरमें ता० १९ डिसेम्बर सन् १८०५ .ई० मुताबिक ता० २८ रमज़ान सन् १२२० हिज्जी मुवाफिक १४ माह पौष (पौष कृष्ण १४) संवत् १८६२ को ख़त्म होकर तै हुआ, और उसपर मिस्टर श्रीम मरसर और महाराज राणा कीर्तिसिंहके मुहर और दस्तख़त आगराके पास ता० १० जैनुअरी सन् १८०६ .ई० मुताबिक ता० १९ शव्वाल सन् १२२० हिज्जी और मुवाफिक ६ माह माघ (माघ कृष्ण ६) संवत् १८६२ को होकर फ़रीकैनमें तक्सीम हुआ.

जब एक अह्दनामह, जिसमें ऊपर लिखी हुई चार शर्तें दर्ज होंगी, ऑनरेब्ल गवर्नर जेनरल इन कौन्सिलके मुहर व दस्तख़तसे महाराज राणा कीर्तिसिंहको दिया जायेगा, तब यह अह्दनामह मिस्टर श्रीम मरसरके मुहर व दस्तख़तका वापस होगा.

राणाकी
मुहर.

(१) इस अह्दनामहके आखिरमें हर एक जिलेके मुतअल्लक अलह्दह अलह्दह कुल ६६० गांवोंकी फ़िहरिस्त दर्ज है, जो तवालतके खयालसे यहां पर दर्ज नहीं की गई.

इस अह्दनामहको ऑनरेब्ल गवर्नर जेनरल इन कौन्सिलने ता० ८ मार्च सन् १८०६ ई० को तस्दीक किया.

कम्पनीकी
मुहर.

(दस्तखत)- जी० एच० बालीं.

(दस्तखत)- जी० अडनी.

(दस्तखत)- जे० लम्सडन.

ऊपर लिखे हुए अह्दनामोंके अलावह मुज्जिमोंके लेन देनकी वावत एक अह्दनामह होकर गोद लेनेकी सनद भी राजपूतानहकी दूसरी रियासतोंके मुताबिक इस रियासतको मिली है, लेकिन पहिले वाज जगह दर्ज होजानेके सबब यहां उनको छोड़ दिया गया.

शेष संग्रह नम्बर १.

उदयपुरके सूर्यपौल दवाजे भीतर संध्यागिरिके मठसे पश्चिम तरफ एक छोटे शिवालयकी प्रशस्ति.

श्रीरामजी

स्वस्तिश्री गुणेशायजी प्रसादात् ॥ श्री एकलिंगजी प्रसादात् ॥ श्रीमत् उदयपुर मेदपाट राज्ये महाराणा श्री जगत्सिंह सुत राणा परतापसिंह तस्यात्मज गोब्राम्हण प्रतिपाल धर्मावतार महदगुणालंकृत सूर्यवंशोद्भव राणा श्री राजसिंहजी राज्ये सस्वनगरोदयपुर मध्ये वसित ब्राह्मण सनावड जाति त्रवाडी पौलोदी गोत्र त्रवाडी देवकरणजी तस्यात्मज मयारामजी तस्य भार्या पाठक गोत्रे वदरी तस्य पु० धन्याबाई कुक्ष्ये पुत्र शिवदासजी तस्य श्री हरिहरकी आगा विष्णु देवालये शिवनारायण मूर्ति स्थापित द्वितीय शिवदेवालय श्री महादेव शिवेश्वर स्थापित पूजा नैवेद्य बालभोग श्री शिवनारायण अर्पण धरती वीघा ४ शिव पधरा देवरा पधते अगणाई सुध आगले मंदिर सुध रामार्पण पूजा करसी सो पावसी संवत् १८१२-१६७७ मास माघ सुद ५ गुरुवासरे देवरो परणायो.

शेष संग्रह नम्बर २.

उदयपुरमें प्रभुवारातणकी बाड़ीके मन्दिरकी प्रशस्ति.

॥ श्रीरामजी.

सजयति सिन्धुरवदनः सदनमगम्ये सितार्थसिद्धिनां ॥ यस्यस्मृतिरपि जगतां त्वरितं दुरितं विदूरयति ॥ १ ॥ यत्पदपंकजरेणुर्जडताजलधिं विशिष्यशोषयति ॥ वितरतु शुद्धिं वचसां सा देवी शारदा वरदा ॥ २ ॥ मुखमुखरितवेणुक्वाणसन्मूर्च्छनाभिर्विधुरितदुरितौघः श्टएवतां भक्तिभाजाम् ॥ सजलजलदजालश्यामलः कामलीलाविलुलितवनमालः पातु वः पीतवासाः ॥ ३ ॥ स्वस्तिश्रीमदसीमदोर्वलगलद्रवप्रणम्राखिलक्षमाभृन्मौलिमहोपलद्युतिततिभ्राजिष्णुपादांबुजः ॥ भास्वद्वंशविभूषणं त्रिभुवनोदंचत्प्रतापोज्वलः क्षात्रे कर्मणि कर्मठो विजयते देवो ऽरिसिंहः कृती ॥ ४ ॥ तस्याजानुभुजाभृतः क्षितिपते भूरिप्रमोदारूपदं सच्छीलवृत्तशालिनी सविनया सौजन्यमाविश्रती ॥ गोविप्रातिथिदेवसेवनविधौ श्रद्धावती भास्वती वर्वति प्रभुसंज्ञयेह विदिता वारातणी श्रेयसी ॥ ५ ॥ महीभृदन्तः पुरमाननीया महासहीदोजकुलप्रसूता ॥ महीयसीं सच्चरितैः प्रसिद्धिं महीतले सौ प्रभुराजगाम ॥ ६ ॥ प्रसादमासाद्य महीमहेन्द्रात् प्रभूस्तनूभूस्तुलसाभिधस्य ॥ प्रसन्नमूर्तेर्गरुडध्वजस्य प्रासादमेनं रचयांचकार ॥ ७ ॥ एतद्वैतगेहगामिजगदन्तर्यामिपादस्व-

लत्स्वर्गगाभरनिर्मृतावनिरुहच्छायासमाच्छादिता ॥ पाथ : संभृतये गताभिरमित :
 पौरांगनाभिर्वृता भात्येषा प्रभुसुभ्रुवा परकृते निर्मापिता वापिका ॥ ८ ॥
 पुरन्दरपुरोपमोदयपुरैकभूषायितं सुरायतनमुल्लिखत्वतलमारचय्य प्रभुः ॥ द्विजा-
 न्निगमपारगान् समुपहूय शुद्धे तिथौ ववर्ष वसुवृष्टिभिः कृतवती प्रतिष्ठाविधिम्
 ॥ ९ ॥ सैतत्सुरालयविहारिमुरारिभक्तिक्वृत्तिप्रलीनकलिकिल्विषवैष्णवानाम् ॥
 वस्तुं व्यचीकृपदिमामभितोवहंती मट्टैः श्रियं सुललितामिह धर्मशालाम्
 ॥ १० ॥ देवालयममुमिमां धर्मशालां च वापिकाम् ॥ प्रभूः परोपकारार्थं मेक-
 कालं व्यचिकृपत् ॥ ११ ॥ भूरिद्रव्यव्ययेन प्रभुरतिशयितं धर्मकर्मारजयन्ती
 प्रासादं धर्मशालामुपवनसहितां वापिकां कल्पयित्वा ॥ नालं चक्रेमुमेकं शि-
 खरविनिहितस्वर्णकुम्भेन शंके स्वीयां जातिं स्वकीयं कुलमपि सकलं सा मनुष्याव-
 तारम् ॥ १२ ॥ श्री ठाकुरजीरो सेवन बाबो दयारामदास निरंजणीः (सुतार जीवो
 भवानीदासजी) (१) अथ प्राकृतं” महाराजा धिराज महाराणाजी श्रीअरिसिंह-
 जीरी निवाजसी महीदोज तुलसारी वेटी धर्म मूर्ति बाई श्री प्रभु श्री ठाकुरजीरो
 यो देवरो तथा या वावडी तथा या धर्मशाला हाटां सुधी निर्माण करायो ॥ बाई
 प्रभुरा भाईरो नाम खेतो, भतीजो शिवजी, महता लखमीचन्दजीरे आगेचे
 कमठाणो करायो, कामदार शिवजी पोखरणो, गजधर दीपचन्द गणपतरो गोत-
 भंगोरो, प्रोत जीवो पड्यार भोपजी, पोरवाड गुलाबजी, कामवतो करायो, श्री
 ठाकुरजीरी वणी ज्यो चाकरी कीदी, समसत कमठाणा सुदी रुपीया ६२५२,
 हजार छह दोइ से वावन खरच्या, देवरारी प्रतिष्ठा कीदी : जदी : वामणाने
 जीमाया, तथा न्यात जिमाई, तथा कन्या २ परणाई, थुआदार कामदार तथा
 कारीगरांहे दुसाला दीधा, अतीत भगताहे जीमाया, तथा थुरमा पामडी चादर
 ओढाया. संवत् १८१९ ज्येष्ठ शुदी १४ दिने श्री भद्र भूयात् ॥


शेष संग्रह नम्बर ३.

उदयपुरके हाथीपौल दर्वाजे बाहर चौगानके पास पश्चिम दिशाको
 पार्श्वनाथके मन्दिरमें मूर्तियोंके नीचेकी
 प्रशस्ति.

स्वस्ति श्री नृप विक्रमार्क संवत् १८१९ वर्षे शालीवाहन शाके १६८४
 प्रवर्तमाने मासोत्तममासे माघमासे शुक्ल पक्षे ५ बुधवासरे श्रीमत् उदयपुर वास्तव्य


(१) ब्रेकेटके भीतर वाले अक्षर पीछेसे जगह पाकर किसीके खोदे हुए मालूम होते हैं.

मेदपाट देशे इक्ष्वाकु वंशे शिशोद्या गोत्रे चित्रकोट गढपति महाराणा श्री अरिसिंह विजयराज्ये तस्य नगर वास्तव्य ऊषा वंशे ब्रह्मिशाषायां नवलषसेण पालदेकुलपत्तने षरतरवंशहीकृत जिनवर्द्धनसूरि उपदेशात् संवत् १४९२ वर्षे कारितं महाराणा कुंभकर्ण राज्यमध्ये महाद्रव्यव्ययं कारितं नागदा नगरे अदबुद तीर्थ कारितं लष्य ११ द्रव्य षर्च्यो तस्य कुलेकुलावतंसक नवलषासाह वहमान तस्य भार्या विमलादे तस्य पुत्र जिनधर्मरतसुश्रद्धारत्न त्रयीधर्मवल्लभ पुण्यपवित्र साह कपूरचंद वर्द्धमान स्वपरसम्यक्त्वहितकाराय स्वभवनिर्मलीकरणे कर्मक्षयकारक अनाद चैत्रीसीमध्ये प्रथमप्रभुश्रेणिको जीव श्री महावीर भक्तिवशेन तीर्थकर नाम कर्मोपार्जित तस्याभिधान पदमनाभ तीर्थकर कारितं जंगमयुग प्रधान चक्रचूडा मणि दोयहजार च्यार वर्त्तमान चोवीसीमध्ये एकावतारि श्री जिनधर्मप्रभाविकपुण्य सहायक दोष निवारक अग्न्यानविध्वंसक स्वपरहितकारक दुष्षसहिष्णुप्रवर्त्तमान सद्धर्मसूरिभि प्रतिष्ठितम् लिखित महा उपाध्यायश्री हीरसागर ठाणि प्रतिष्ठितं श्रीरस्तु कल्याणमस्तु (१).



शेष संग्रह नम्बर ४.

उदयपुर धायभाईके पुलपरके मन्दिरमेंकी
प्रशस्ति.




श्रीरामो जयति.

श्री गणेशायनमः ॥ श्री एकलिंगजीप्रसादात् श्री रूपनाराणजीप्रसादात् स्वस्ति श्री महाराजधिराज महाराणा श्री श्री अरिसिंहजी विजयराज्ये राणा श्री अरिसिंहजीरे धौओजी श्री नगजी जाति पगार ॥ नगजीरे बहु वाई नगी जाति चहुवाण, जिणरे पुत्र तीन, बडा धायभाई श्री रूपजी ॥ धायभाईजी कीकोजी, धायभाईजी जोधोजी. धायभाईजी रूपजीरे बहू पूरबाई ॥ जाति पचोलण, जिणारा पुत्र २, उदयरामजी ॥ हटूजी ॥ उदयरामजीरे बहु मयाबाई. धायभाईजी श्री रूपजी श्री एकलिंगजीरे गेले नदी ऊपरे पुला बंधावी. श्री रूपनाराणजीरो देवालय कीधो, सरायकीधी, बावडी कीधी. बाडी कीधी, संवत १८१८ वर्षे माघ शुद ११ शुक्रवाररे दिन पायो भरावारो सुमूर्त्त कीदो; संवत १८२० वर्षे वैशाख शुद ६ सोमवार पुण्य नक्षत्र

(१) इस मूर्तिके पासवाली दूसरी मूर्तियोंके नीचे भी लेख हैं, लेकिन यहांपर यह एक ही दर्ज किया गया है, क्योंकि उनमें इससे जियादह मत्लब कुछ नहीं पाया जाता.


इणी दिन प्रतिष्ठा कीधी. अणी उछव ऊपरे श्री दिवाणजी, कुंवरजी, राजलोक, भाई बेटा, उमराव, समस्त लोकवाक सहित शराय पधार्या, दिन ७ सुधी रह्या, गोठ आरोग्या. धायभाईजी श्री रूपजी श्री दिवाणजीरी निजर कीधा. हाथी ५, घोडा ५, छोगो १ हीरारा जडावरो, तथा गहणो, सिरोपाव, तथा रोक रुप्या तथा कुंवरजी, राजलोक, भाई बेटा, उबराव, कामदार, पासवान, समस्त लोकवाक ने सिरपाव दीधा, पहरावणी कीधी. रूपारी तुला कीधी. मेवाडथी न्यात बुलावेने न्यात मेलो कीधो. कन्या परणावी. चौरासी न्यात जीमावी. अनेक दान पुन्य कीधा; वीधा १० धरती, वीधा २ मेरपाली, जमे वीधा १२ श्री रूपनारा-यणजीरे बाल भोग सारू चढावी. सेवग फतेराम रूप्या ३५०००, समस्त कमठाणा (का) लागा रूप्या ९५०००, प्रतिष्ठा कीधी जणी समय घरचाणा.



श्रीरामो जयती.


श्लोक ॥ विश्वेश्वरं सगिरिजं सगणाधिराजं सोमेश्वरो द्विजवरो विबुधांश्च नत्वा श्री रूपजित्कृतसुरालयसेतुशालावापीप्रशस्तिरचनाक्रममातनोति ॥ १ ॥ विविध विभव-वृद्धिभासमान सुदयपुरनगरोत्तमं विभाति ॥ क्षितिवलयविभूषणं समंताद्गुपवनदे-वनिकेतनाभिरामं ॥ २ ॥ रूपेणाप्रतिमोयथा रतिपतिः कांत्या कलानां पतिः शत्रौसंय-मनीपतिः प्रभुतया ख्यातः सुराणां पतिः श्रीमत्शंभुपदारविंदमकरंदामोदभृंगीपति र्यत्राभात्यरिसिंहनामनृपतिर्यस्तेजसाहर्षतिः ॥ ३ ॥ धीरोवीरोमाननीयो मनस्वी दाता भोक्ता पुण्यशीलोदयालुः भक्तोविष्णोः शक्तिमान् सर्वकार्ये धात्रीध्राता रूपजिद्राज तेसौ ॥ ४ ॥ नद्यास्तोये मज्जतां मानवानां सौख्यायासौरूपजित्सेतुबन्धं यावचन्द्रादि-त्यताराधरित्र्य स्तावत्कीर्तिस्थंभतुल्यंससर्ज ॥ ५ ॥ रक्षोवधाय मुनिदेवगणावनाय रामः ससर्ज जलधाविह सेतुबन्धं ॥ भक्तस्य तच्चरणयो रुचितोस्य धात्रीबन्धो सुखायजगतां भुवि सेतुबन्धः ॥ ६ ॥ कवित ॥ माथेपैं मुकट लपट रह्यो हीरनसुं कंचनके कुंडल चिबुक चित लायो है । बागो जरतारीको किनारीदार फेटो कटि हाथमे लकुट बनबंसी वजायो है ॥ कहत भोपराम सुण उत्तम विचार नर नगतेरे नेह हूने पंछी जुगायो है । संष चक्र लिये प्रभू पधराये हैं तातें रूप-जीका देहरा रूपराजने वणायो है ॥ १ ॥ तोरणकी नोष देष पुरो अनोप बणयो डोली उपरंत जासुं बंगला सरसाई है । बेरचकी तीर तीर बंसीवारो आय षरो सुंदर बंधी हे बाव सो कइलासपुरी याइ है ॥ भणे भोपराम अमर कीनो कुलमें

नाम देहरेकी सरस छबि रूपने बणाई है । सांचो नगराज धवा माथे धनभाग तेरे नंदने सुंदर पुल बंधाई है ॥ २ ॥ कामदार रोड़जी नागोरी भाई गोडजी कोथली धर हरकिसन फतेराम जात पल्लीवाल ॥



शेष संग्रह नम्बर ५.

मेवाड़के सालेड़ा ग्राममें पूर्व दिशावाली बावड़ीपर महादेवजीके मन्दिरकी प्रशस्ति.



श्री गणेशायजी प्रसादात् ॥ श्री एकलिंगजी प्रसादात् ॥ सिद्ध श्री महाराजा धिराज महाराणाजी श्री श्री श्री श्री अरिसिंहजी विजयराज्ये धऊवाजी नगजी जात पगार, धायजी बाई नगी जात चहुवाण, जणारे पुत्र ३ तीन, बडा धायभाई रूपजी, जणाथी ल्होडा कीकोजी, जणाथी ल्होडा जोदोजी. धायभाई रूपाजी गाम सालेरे परण्या पंचोली किसनाजीरी बेटी पूरवाई, जात पंचोली. पूरवाईरे पुत्र २, बडा उदयरामजी. ल्होडा हटूजी, बेटी गंगावाई, उदयरामजीरी बहु मयावाई जात छादोली, बाई पूरा गाम सालेरा मांहे पीहरछे, जणी थी महादेव जीरो देवरो कराव्यो, ने पूरावाईरी माऊ चांपूवाई जातकी कसाणी, जणी बावडी करावी ने देवरो तथा बावडीरो डोरो प्रतिष्ठा साथेही कीधी, संवत् १८२५ वर्षे वेशाख शुद्ध ८ रवौरे दिन हुवी, कामरो आरंभ संवत् १८२३ रा चेत शुद्ध ५ रे दिन कीघो थो मास १३ काम चाल्यो, कमठाणो तथा व्यावहे रुपिया हजार सात ७०००, लागाछेजी ॥ अथ कवित ॥ भस्म लगाये अंग पारबती लिये संग वाघंबर ओढे खाल नाग लपटाये है । कंचनसे देहरे विराजे आय शंभुनाथ सब किये पूरे आस पूरेसर कहाये है ॥ जटा मांहे गंगा रहै बैल वाके संग रहै सींगी अर नाद पूरे डमरू बजाये है । पोपनकी गुंजमाल परे है तेरे द्वार आरती करोनी पूरा भोले शंभु आये है ॥ १ ॥ धन तेरो भाग कांक सपुत्री अनोप जाय सालेरा लडाये सुंदर देहरो बणायो है । चंदके प्रकाश लिये पंचोलण किशना पुत्री करोने उछाव रघुरूप बर पाये है ॥ कहै भोपराम अब कहा लों करे बखाण ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नाद ल्याये है । बैलपै चढेते पारबती संग लियां काशीको वासी पूरा तेरे द्वार आये है ॥ २ ॥ पौपनकी गुंज माल पैराई थी श्री गोपाल चंदन तुमेरेसो काढी केसरकी खोर है । प्रभूके हुकमसूं

उदयराम हुए कुंवर ध्रुव जुं अटल रहो भाइनकी जोर है ॥ कहै भोपराम कहालुं
बखाण करुं कृष्ण संग राधिकाजु रूप बर मोर है । अटल रहो सुभाग भाग
ध्रुजुं अटल रहो पूरवाई पूरो पूज्यो वीं पूजी गणगोर है ॥ ३ ॥ सहा लखमी-
चंदजी समरथजीरा बेटा कामदार जात सिंगवी, गजधर रामोजी जात मेवाडा
गोत भगोर, किसनाको बेटो देवो वे पीथो वे नंदो.

—०*०—
शेष संग्रह नम्बर ६.

कोल्हापुरके शिलहार वंशका ताम्रपत्र, जो बम्बई ब्रेञ्च ऑफ दि रॉयल
एशियाटिक सोसाइटीके जर्नल नं० ३५ पृष्ठ २५ में दर्ज है.

॥ स्वस्ति श्रीर्जयश्राभ्युदयश्च ॥

जयति स कश्यपसूनुर्यः पीयूषं जहार जित्वेद्रं ॥ जीमूतवाहनं प्रति नागानंदं
चयः कृतवान् ॥ श्री शैलाहारवंशांवरतरणिरुदेतिस्म मित्राब्जबंधु विद्विड्ध्वांत-
प्रहारो जतिगनृपतिरस्यात्मजो नायिवर्मा तस्याभूच्चंद्रराजः प्रियतमतनयः
शौर्यसंपन्नवासः स्तस्याऽपत्यं विरेजे जतिगनृपतिरस्यात्मजोगोंकराजः
तद्भ्राता गूवलो राजा निर्जितारिब्रजोऽभवत् तद्भ्राता विद्विपां जेता कीर्ति-
राजो नृपोव्यभात् मारोवारवधूजनस्य समद्विट्कुंभिसिंहो रणे यस्मात्तद्भ-
दितो भवत्क्षितिपतिः श्री मारसिंहाक्षयः पुत्रो गोंकनृपस्य सत्पनिलयो लंकेश्वर
श्याज्ञया चक्रेशप्रिय मातुलोऽतुलगुणः श्री रूपनारायणः तदात्मजो गूवलदेव-
नामा नयांबुधिः क्षात्रगुणैकभूमिः जयांगनालिंगितवाहुदण्डो बभूव नित्यं
कुनृपप्रचंडः तस्यनुजन्मा विनतावनीशसत्कुंतलाल्यावृत्तपादपद्मः श्रीभोजदेवो-
रिपुवीरनारीवैधव्यदीक्षाकरणैकदक्षः तद्भ्राता सुभगांगनारतिपतिर्व्वल्लालभूपालकः
किं वर्यः खलु यद्यशोधवलयद्यावापृथिव्योर्वपुः दृष्ट्वाहर्निशमात्मनश्च किरणानिदु
प्रमुष्टान्दिवा लज्जोपार्जितहृत्कलंकमधुना धत्तेऽयमंकच्छालात् तस्यानुजन्मा
सुचिरंचकास्ते श्री गंडरादित्य नृपोजगत्यां विद्विष्टदुष्टावनिपालराजिघोशान्धका-
रक्षरणैकलक्षः अवार्यतेजास्सततोदयो यो मनोमयानन्तविचित्रवाजी रात्रि-
दिवं संपरिभासमानस्समाननामानमधः करोति पीनांभोजश्रियं कुर्वन्नुदितः
खेचरेश्वरः गंडरादित्य भूपालो विद्विड्ध्वांतांतकस्सदा राजनीरेजहस्तो विबुध-
ततिनुतस्सोदयः प्रत्यहञ्च प्राविर्भूतात्मतेजोनुविचरितजनोनात्मकार्यप्रवृत्तः
क्षोणीमेनामनून [१] मनुदिनमधिकं भासयन्नासमंतादेकस्सो व्याप्ततेजाः
खचरगणमणिर्गंडरादित्यदेवः

समधिगतपंचमहाशब्दमहामंडलेश्वरः तगरपुरवराधीश्वरः श्री शिलाहारनरेन्द्रः जीमूतवाहनान्वयप्रसूतः सुवर्ण गरुडध्वजः मरुवंकसर्पः अय्यनसिंगः रिपुमं-
 [१] डलिक भैरवः विद्विष्टगजकंठीरवः इडवरादित्यः रूपनारायणः शनिवारसिद्धिः गिरिदुर्गलंघनः कलियुगविक्रमादित्यः श्रीमन्महालक्ष्मीलब्धवरप्रसादादिसमस्तनामावलिविराजितः श्रीमन्महामंडलेश्वरो गंडरादित्यदेवः मिरिंजदेशं सप्तखोळं सकोंकणमेकच्छत्रेण दुष्टनिग्रहशिष्टप्रतिपालनपुरः सरं सधर्मैणोपभुंजानः एडेनाडांतर्गतीररवाडग्रामे (क्री) डानुवृत्या सुखसंकथाविनोदेन विजयराज्यं चिरं कुर्व (न्) शकनृपकालातीतद्वात्रिंशदुत्तरसहस्रे विरोधिसंवत्सरे माघशुद्धदशम्यां मंगलवारे नानागोत्रेभ्यः षोडशविप्रेभ्यः कन्यादानं कृत्वा तत्पाणिग्रहणसमये वंकवने खोळांतर्गत गुडायनाम ग्रामे गालगुट्टि सजया पल्या पृविष्टया सह वर्तमाने खोल्लश्रुद्धि क्षेत्रमानदंडेन निवर्तनत्रयेणैकैकां वृत्तिं कल्पयित्वा षोडषवृत्तीः समन्वितैकनिवेशनाः समदात् । श्रीप्रयागे लक्षब्राह्मणान्भोजयित्वा तद्भोजनाधिष्ठाय कामवृत्तिमेकामयच्छत् तत्संवत्सरोपरितनविकृतसंवत्सरवैशाखपौर्णमास्यां सोमग्रहणपर्वणि पंचलांगलव्रतं कृत्वा तदंगदक्षि (णा) तथा वृत्तिद्वयं ददातिस्म । मिरंजदेशांतर्गतं इरुकुडिनामग्रामे निजनिर्मितगंडसमुद्राख्यतटाकोपकंठे निजप्रतिष्ठितेश्वरबौ (बु) द्वार्हभ्यः प्रत्येकमेकैकं निवर्तनमिति त्रिभ्यः त्रिणि निवर्तनानि प्रददौ गुडालयग्राममूलिकाय निवर्तनानि चत्वारि व्यतरत् गुडालेश्वरदेवाखंडप्रदीपार्थमग्निष्टिकाग्निप्रगुणनार्थं प्रपोदकप्रदानार्थं सौपर्णतांबूलार्थं च वृत्तिमेकामददात् । गुडालेश्वरदेवस्य पूजायै निवर्तनमेकं पूर्वप्रसिद्धमेव प्रतिपालितवान् तद्ग्रामपश्चिमदिशि प्रतिष्ठितमहादेवस्य पूजायै पूर्वप्रसिद्धं निवर्तनाद्धं प्रतिपालितवान् एवमनेकविधभूमिदानेन सवृक्षमालाकुलं ग्रामं धारापूर्वकमाचंद्रतारमापुत्रपौत्रिकं सशासनमयच्छत् । तस्य सीमा आग्नेयां दिशि पर्वताग्रे पणुतरगे खोल्लस्यसीमा तत्पश्चिमतो मयूरवप्यया दक्षिणतो म्यसानकप्राकारः तत्पश्चिमतो लधुश्रोतोभूतो नदिप्रवाहो यावच्चंदनकालसंगमः तद्वक्षिणस्यां दिशि खंदिरस्थाणुः तत्पश्चिमतस्तटाकपालिः प्रमाणं तद्वक्षिणतः अगवाल यस्य खलयं प्रमाणं तद्वक्षिणतः मणि यवप्याः प्रमाणं तत्तः प्रागुक्त पणुतरगे खोल्लस्यसीमा प्रमाण मिति ।

मदंशजाः परमहीपतिवंशजा वा पापादपेतमनसो भुवि भूमिपालाः ये पालयन्ति मम धर्ममिदं समस्तं तेभ्यो मया विरचितोजलिरेष मूर्ध्नि सामान्योऽयं धर्मसेतुर्नृपाणां काले काले पालनीयो भवद्भिः सर्वानेतान्भाविनः पार्थिवेन्द्रान् भूयो भूयो याचते रामभद्रः बहुभिर्वसुधा भुक्ता राजभिस्सगरादिभिः

यस्य यस्य यदा भूमि स्तस्य तस्य तदा फलम् स्वदत्तां परदत्तां वायो हरेत
 वसुंधरां षष्टिवर्षसहस्राणि विष्टायां जायते कृमिः गामेकां र (क्ति) कामेकां
 भूमेरप्येकमंगुलम् हरन्नरकमाप्नोति यावदाभूतसंप्लवम् समधिगतन्यायार्ण-
 वसीम्ना दीर्णान्यवादिकुमहिम्ना श्रीदामोदरनाम्ना रचितमिदं शासनं जयति
 समधिगतशिल्पशास्त्रः कण्डरणकलापसर्वज्ञः लिखितांभोरुहगर्तः शासनमिदं
 मलिखदप्योजः यावच्चन्द्रश्च सूर्यश्च व्योमचाम्बुधयस्तथा तावच्च श्रीशिलाहार-
 शासनं जयताद्ध्रुवम्

शेष संग्रह नम्बर ७.

ग्वालियरके किलेमें पद्मनाथके मन्दिरकी
 प्रशस्ति.

काव्यमालाकी प्राचीन लेखमालाके पृष्ठ ८१ से ९६ तक.

॥ ॐ नमः पद्मनाथाय ॥ हर्षोत्फुल्लविलोचनैर्दिशि दिशि प्रोद्गीयमानं जनै-
 र्मेदिन्यां विततं ततो हरिहरब्रह्मास्पदानि क्रमात् ॥ श्वेतीकृत्य यदात्मना परि-
 णतं श्रीपद्मभूभृद्यशः पायादेष जगन्ति निर्मलवपुः श्वेत निरुद्धश्चिरम् ॥ १ ॥
 मौलिन्यस्तमहानीलशकलः पातु वो हरिः ॥ दर्शयन्निव केशस्थनवजीमूतकर्णि-
 काम् ॥ २ ॥ मुक्ताशैलच्छलेन क्षितितिलकयशोराशिना निर्मितोऽयं देवः पाया-
 दुपायाः पतिरतिधवलस्वच्छकान्तिर्जगन्ति ॥ मन्वानः सर्वथैव त्रिभुवनविदितं
 श्यामतापह्वं यः शङ्के स्वं वर्णचिह्नं मुकुटतटमिलनीलकान्त्या विभर्ति ॥ ३ ॥
 इदं मौलिन्यस्तं न भवति महानीलशकलं न मुक्ताशैलेन स्फुरति घटितश्वेष
 भगवान् ॥ उपाकर्णोत्तंसीकरणसुभगं नीलनलिनं वहत्यद्याप्यस्याश्चिरविरहपा-
 ण्डकृततनुः ॥ ४ ॥ आसीद्वीर्यलघूकृतेन्द्रतनयो निः शेषभूमीभृतां वन्द्यः कच्छ-
 पघातवंशतिलकः क्षोणीपतिर्लक्ष्मणः ॥ यः कोदण्डधरः प्रजाहितकरश्चक्रे
 स्वचित्तानुगां गामेकः पृथुवत्पृथूनपि हटादुत्पाद्य पृथ्वीभृतः ॥ ५ ॥ तस्माद्वज्र-
 धरोपमः क्षितिपतिः श्रीवज्रदामाभवदुर्वारोर्जितबाहुदण्डविजिते गोपाद्रिदुर्गे
 युधा ॥ निर्व्याजं परिभूय गाधिनगराधीशप्रतापोदयं यद्वीरव्रतसूचकः समभव-
 त्प्रोद्घोषणाडिण्डिमः ॥ ६ ॥ नतुलितः किल केनचिदप्यहं जगति भूमिभृते

तिकुतूहलात् ॥ तुलयतिस्म तुलापुरुषैः स्वयं स्वमिह यः सुविशुद्धहिरण्यमयैः
 ॥ ७ ॥ ततो रिपुध्वान्तसहस्रधामा नृपोऽभवन्मङ्गलराजनामा ॥ य ईश्वरैक
 प्रणतिप्रभावान्महीश्वराणां प्रणतः सहस्रैः ॥ ८ ॥ श्रीकीर्तिराजो नृपतिस्ततोऽ
 भूयस्य प्रयाणेषु चमूसमुत्थैः ॥ धूलीवितानैः सममेव चित्रं मित्रस्य वैवर्ण्यमभू-
 द्विषश्च ॥ ९ ॥ किं ब्रूमोऽस्यकथाद्भुतं नरपतेरेतेन शौर्याब्धिना दण्डो मालवभू-
 मिपस्य समरे संख्या मतीतोजितः ॥ यस्मिन्भङ्गमुपागते दिशि दिशि त्रासात्क-
 राग्रच्युतैर्ग्रामीणाः स्वगृहाणि कुन्तनिकरैः संछादयांचक्रिरे ॥ १० ॥ अद्भुतः सिंह-
 पानीयनगरे येन कारितः ॥ कीर्तिस्तम्भ इवाभाति प्रासादः पार्वतीपतेः ॥ ११ ॥
 तस्मादजायत महामतिमूलदेवः पृथ्वीपतिर्भुवनपाल इति प्रसिद्धः ॥ आनन्दय-
 ज्जगदनिन्दितचक्रवर्तिचिह्नैरलंकृततनुर्मनुतुल्यकीर्तिः ॥ १२ ॥ यस्य ध्वस्तारि
 भूपालां सर्वां पालयतः प्रभोः ॥ भुवं त्रैलोक्यमल्लस्य निःसपत्नमभूजगत ॥ १३ ॥
 राज्ञी देवव्रता तस्य हरेर्लक्ष्मीरिवाभवत् ॥ तस्यां श्रीदेवपालोऽभूत्तनयस्तस्य भू-
 पतेः ॥ १४ ॥ त्यागेन कर्णं मजयत् पार्थ कोदण्डविद्यया ॥ धर्मराजं च
 सत्येन स युवा विनयाश्रयः ॥ १५ ॥ सूनुस्तस्य विशुद्धबुद्धिविभवः पुरयैः
 प्रजानामभून्मांघातेव स चक्रवर्तितिलकः श्रीपद्मपालप्रभुः ॥ मत्स्वाम्येऽपि
 करप्रवृत्तिरपरस्येतीव यश्चिन्तयन् दिग्यात्रासु मुहुः खरांशुमरुणत्सान्द्रैश्चमूरे-
 णुभिः ॥ १६ ॥ कृत्वान्याः स्ववशे दिशः क्रमवशादाशां गतैर्दक्षिणामुत्क्षिप्त्वाच-
 लसंनिभानविरतं यत्सैन्यवाजिप्रजैः उद्भूतान्यततः पयोधिमभितः संप्रेक्ष्य रेणू-
 त्करान्भूयोऽप्युद्भटसेतुबन्धनधिया त्रस्यन्ति नक्तंचराः ॥ १७ ॥ यस्येन्दुद्युति
 सुन्दरेण यशसा नीते सुराणां गणे वैवर्ण्यं भ्रमशीलखण्डनभयादप्राप्नुवन्तः
 प्रियान् ॥ नूनं शक्रपुरः सरामखधूसंघाः श्रिये सांप्रतं गौर्यै च स्पृहयन्ति ये
 प्रथमतः पत्युर्वपुः संश्रिते ॥ १८ ॥ कैर्दृष्टाः क्व समस्तधाञ्छितफलभ्राजिष्णवः
 पादपा गावः कामदुघाश्च कैः क्व मणयः कैश्चिन्तितार्थप्रदाः ॥ पूर्णाः कस्य
 मनोरथा इह न के पत्यामुना पूरिता वीरोऽधोऽनयदस्य तद्गुणवतः कल्पद्रु-
 मादीनपि ॥ १९ ॥ स्तुत्वा न पद्मनृपतिं परिरक्षिता भूः प्राप्तोऽन्यथापि यदसौ
 वत नग्नभावः ॥ दौःस्थ्यान्निरम्बरतनुर्विपिनेष्वशोच दस्य प्रतिक्षणमिति प्रति-
 पन्थिसार्थः ॥ २० ॥ भ्रमः कुलालचक्रेषु लोभः पुण्यार्जनेष्वभूत् ॥ काठिन्यं
 कुचकुम्भेषु यस्मिञ्शासति मेदनीम् ॥ २१ ॥ असंमतोदूढगुणस्य पीडा साधुर्न
 निश्चिंशपरिग्रहोऽपि ॥ इत्याललम्बे न धनुर्न चासिं तथापि यो वैरिगणं जिगाय
 ॥ २२ ॥ सद्यस्त्रुतास्त्रपृषतव्यतिकीर्णभूषु वैरिद्विपाधिपशिरोमणिभिः समन्तात्

॥ लोकानुरागयशसामिव बीजवापं विस्तारयां यदसिरास रणाजिरेषु ॥ २३ ॥
 वने यदरिनारीणां हैमनीरजनिश्रियः ॥ मृङ्गाणां तन्मुखेनातो हैमनीरजनिश्रियः
 ॥ २४ ॥ स विमृश्य नदीपूरगत्वरे संपदायुषी ॥ पूर्तधर्मे मतिं चक्रे जिघृक्षु
 रनयोः फलम् ॥ २५ ॥ प्रजाभर्त्रा तेन क्षितितिलकभूतेन सदनं हरेर्धर्मज्ञेन त्रि-
 दशसदृशा कारितमदः वदास्यस्योच्चैस्त्वं कथमिव गिरा यस्य शिखरं समारूढः
 सिंहो मृगमिव मृगाङ्गस्थमशितुम् ॥ २६ ॥ प्रासादस्यास्य शश्वद्विधुधरशिखरि
 स्पर्धिनो हैममण्डं दण्डाग्रात्पावनीयं शशधरधवला वैजयन्ती पतन्ती ॥ निर्वातं
 भाति भूतिच्छुरितनिजतनोर्देवदेवस्य शंभोः स्वर्गाङ्गैव पिङ्गस्फुटविकटजटा-
 जूटमध्यं विशन्ती ॥ २७ ॥ तदेतद्ब्रह्माण्डं स इह भविता पङ्कजभवः
 पुनर्यं वोढास्मो (रो) वयमिह विमानेन वियति ॥ सुवर्णाण्डं हंसास्तदि-
 दमुररीकृत्य सकलं ध्रुवं संसेवन्ते हरिसदनमूर्ध्नि स्थितममी ॥ २८ ॥
 तुङ्गिन्ना कनकाचलः शुभविधावन्तः स्थित श्रीपतिर्विभ्राणो द्विजसत्तमानुदधिजा
 वासो नृसिंहान्वितः ॥ निर्मातास्य वृतः समस्तविबुधैर्लब्धप्रतिष्ठैरयं प्रासादश्च
 धरातले सममहो कल्पहरेः कल्पताम् ॥ २९ ॥ देवेऽर्धसिद्धे द्विजपुंगवेषु प्रतिष्ठी-
 तेष्वष्टसु पद्मपालः ॥ युवैव दैवप्रतिकूलभावात्सक्रन्दनार्धासनभाग्बभूव ॥ ३० ॥
 तस्य भ्राता नृपतिरभवत्सूर्यपालस्य सूनुः श्रीगोपाद्रौ सुकृतनिलयः श्रीमहीपाल-
 देवः ॥ यं प्राप्यैव प्रथितयशसं तावभूतां सनाथौ शौर्यत्यागौ हरिरविसुताभाषदुः
 स्थौ चिरेण ॥ ३१ ॥ स्टाष्टिं कुर्वन्नमात्यानां विप्राणां स नृपः स्थितिम् ॥ प्रलयं
 विद्विषामासीद्ब्रह्मोपेन्द्रहरात्मकः ॥ ३२ ॥ यत्र धामनिधौ राज्ञि पालयत्यवनीत-
 लम् ॥ नभास्वान्भास्करादन्यो न राजान्योविधोरभूत् ॥ ३३ ॥ कृताभिषेकं
 सहृत्तैरुपविष्टं नृपासने ॥ यमुदार पदैरेवं तुष्टुवुः सूतमागधाः ॥ ३४ ॥ तामुद्रह-
 न्ति शिरसा खलु राजहंसाः स्टाष्टास्त्वया पुनरिमाः समयावसन्नाः ॥ नाथ प्रजाः
 सुमनसां प्रथमोऽसि कोऽसि त्वंसिद्धवीररस तामरसोद्भवस्य ॥ ३५ ॥ लक्ष्मीप-
 तिस्त्वमसि पङ्कजचक्रचिन्हं पाणिद्वयं वहसि भूप भुवं विभर्षि ॥ श्यामं वपुः प्रथ
 यासिस्थितिहेतुरेकस्त्वं कोऽसि नीतिविजितोद्भव माधवस्य ॥ ३६ ॥ त्वं पालयस्य
 निशमर्थिजनस्य कामं रामः श्रिया त्वमसि नाथ गुणैरनन्तः संकर्षणः समिति
 विद्विषदायुषस्त्वं त्वं कोऽसि सच्चरितहाल हलायुधस्य ॥ ३७ ॥ ख्याता रतिस्तव
 निजप्रमदासु नित्यं रूपं तवातिशय विस्मयकारि देव ॥ त्वं मीनचिन्हपुरुषोत्तम-
 संभवोऽसि कस्त्वं क्षितीश्वर शम्बरसूदनस्य ॥ ३८ ॥ भूभृत्सुतापतिरसि द्विषतां
 पुराणां भेत्ता त्वमीश वृषपोपरतोऽसि नित्यम् ॥ भूतिं दधास्यमलचन्द्रविभूषिताङ्गः

कस्त्वं सदम्बुजदिवाकर शंकरस्य ॥ ३९ ॥ त्वं तेजसा शिखिनमिद्वमधः करोषि
 शक्तिं दधासि नरदेव विपत्तिहन्त्रीम् ॥ त्वं तारकं रिपुबलस्य बलान्निहंसि कस्त्वं
 नवीनबलनीलगलध्वजस्य ॥ ४० ॥ त्वं वज्रभृत्वमसि पक्षभिदप्यशेष भूमिभृतां
 विबुधवन्द्यगुरुप्रियोऽसि ॥ श्रीमत्सुवर्णगिरिदुर्गचरोऽसि कोऽसि त्वं भीमसाहस-
 सहस्रविलोचनस्य ॥ ४१ ॥ ख्यातं तवेश बहुपुण्यजनाधिपत्यं कान्तालकावलिभि-
 राप्ततमैश्च गुप्ता ॥ त्वामामनन्ति परमेश्वरबद्धसख्यं त्वं कोऽसि सद्गुणनिधान ध-
 नाधिपस्य ॥ ४२ ॥ तेजोनिधिस्त्वमसि भूमिभृतः समग्राः क्रान्ताः करैः प्रस-
 भमुग्रतरैस्तवेश ॥ प्राप्तोदयः सततमर्थिजनस्य कोऽसि त्वं कल्पभूरुहसरोरुहंबा-
 न्धवस्य ॥ ४३ ॥ आनन्ददोऽसि जनतानयनोत्पलानामाप्यायिताखिलजनः
 करमार्दवेन ॥ त्वं शश्वदीश्वरशिरस्तलदत्तपाद स्तत्कोऽसि मर्त्यभूवनेशनिशाकरस्य
 ॥ ४४ ॥ त्वामंशमीश निगदन्ति मधुद्विषोऽमी श्यामाभिरामतनुरस्यमलप्रबोधः ॥
 पुण्यं च भारतमिदं विहितं त्वयैव त्वं कोऽसि सत्यधन सत्यवतीसुतस्य ॥ ४५ ॥
 नीतात्मकीर्तिसुरसिन्धुरियं समुद्रप्रान्तं त्वयोन्नतिमसौ गमितः स्ववंशः ॥ पूर्वप-
 वित्रतनवो विहिताश्वकोऽसि त्वं सत्सुलब्धपरभाग भगीरथस्य ॥ ४६ ॥ एतत्त्व-
 या कृतमताडकमाशु विश्वं व्याप्ता मही हरिभिरीशमनोजवैस्ते ॥ पुण्यावतारकरण
 क्षतदुर्दशास्यस्त्वंकोऽसि दत्तरिपुलाघवराघवस्य ॥ ४७ ॥ धर्मप्रसूत्वमसि
 सत्यधनस्त्वमेक स्त्वं वासुदेवचरणार्चनदत्तचित्तः ॥ त्वंकोऽसि विप्रजनसेवितशेष-
 वृत्तिः संग्रामनिष्ठुर युधिष्ठिरपार्थिवस्य ॥ ४८ ॥ त्वंभूरिकुञ्जरबलोभुवनैकमल्ल
 विद्याविभूषिततनु नृप पावनोऽसि ॥ प्रच्छन्नसूपकृतिसंभृतबन्धुवाञ्छः कस्त्वं
 कवीन्द्रकृतमोद तृकोदरस्य ॥ ४९ ॥ एकस्त्वमीश भूवि धन्वभृतांवरिष्ठः सस्वामि-
 कारिगणदर्पहरस्त्वमाजौ ॥ गन्धर्वराजपुत्रनाविजयाप्तकीर्ति स्त्वंकोऽसि सुन्दर
 पुरंदरनन्दनस्य ॥ ५० ॥ दुर्योधनारिबलदर्पहतस्तवेश यत्नः परार्जनयशः प्रसरं
 निरोद्धुम् ॥ त्वं कोऽसि सूर्यजनितप्रमदार्यसार्थदौर्गत्यकर्तन विकर्तनसंभवस्य
 ॥ ५१ ॥ रत्नालयस्त्वमसि धाम गभीरताया स्त्वं पासि पार्थसमभूमिभृतः प्रवि-
 ष्टान् ॥ अन्तः स्थितस्तव हरिः सततं नरेश कस्त्वंवितीर्ण रिपुजागर सागरस्य
 ॥ ५२ ॥ शौर्यैकभूः क्रमसमागतसलवृत्ति स्त्वंराजकुञ्जरशिरः प्रवितीर्णपादः ॥
 दृप्तारिभास्करतिरस्कृतिसिंहकाभूः कस्त्वंमहीपतिमृगाङ्क मृगाधिपस्य ॥ ५३ ॥
 दानं ददासि विकटोन्नतवंशशोभ स्त्वं दन्तपालिकरवालहतारिदर्पः ॥ क्षोणी-
 भृतो जयसि तुङ्गतया नरेन्द्र त्वं कोऽसि वैरिबलवारण वारणस्य ॥ ५४ ॥ सद्य
 श्रियस्त्वमसि मित्रकृतप्रमोद स्त्वं राजहंससमलंकृतपादमूलः ॥ स्वामिन्नधः

कृतजडो ऽसि गुणाभिरामः कस्त्वं स्मिताढ्यमुखपङ्कज पङ्कजस्य ॥ ५५ ॥
 सत्यत्रभूषिततनुः सुविशुद्धकोशस्त्वं चन्द्रकान्तिसमलंकृतकान्तमूर्तिः ॥
 ख्यातं तवैव कविवल्लभसौमनस्यं त्वं ब्रूहिकः समरभैरवकैरवस्य ॥ ५६ ॥
 त्वं पश्यतां हरसि देवमनांसि शश्वन्मङ्गल्यभूस्त्वमसि निर्मलताभिरामः को ऽसि
 प्रसीद वद सद्गुणरत्नयोनिस्त्वंकच्छपारिकुलभूषणभूषणस्य ॥ ५७ ॥ धात्रा परोप-
 करणाय विष्टष्टकाय सच्छायजन्मसमलंकृततुङ्गगोत्रः । ब्रूहि त्रिसंध्यमवनीश्वरव-
 न्दनीयस्त्वं को ऽसि सूर्यनृपनन्दनचन्दनस्य ॥ ५८ ॥ नाथः कृतद्विजपतिर्न ग-
 दान्वितोसि ऽनत्वं विशुद्धहृदयप्रथितोग्रमायः । त्वंजातु न क्षतवृषो न जडे कृता-
 स्थस्तेनास्तु नाथ हरिणोपमितिः कथंते ॥ ५९ ॥ नित्यं संनिहितक्षयः स
 तमसा प्रायो ऽभिभूयेत स तत्त्वासाद्भुवनैकनाथ हरिणस्तस्योदरे प्राविशत् मूर्ति-
 स्तस्य कलङ्कितासजडतां धत्ते स दोषाकरशब्दस्ते विदितस्तथापि नृपते राजा-
 त्वमित्यद्भुतम् ॥ ६० ॥ एकेनोत्तरगोश्रहे विमुखतां पार्थेन नीताः परे व्यासेन
 स्तुतिरर्जुनस्य विहितेत्यज्ञायी पूर्वं किल तत्सम्यक्प्रति भाति संप्रति पुनः श्री
 मन्महीपाल न स्वामालोक्य सहस्रशोरिपुवलं निघ्नन्तमेकंरणे ॥ ६१ ॥ किन्नू-
 मो ऽविकलत्वमीश भवतस्त्वं नीतिपात्रं परं वृत्तान्तं जगतीपते चतुष्टया मात्म
 प्रियाणां शृणु कीर्तिभ्रान्म्यति दिक्षु गीर्गुणवतां कण्ठे लुठत्यादृता मर्यादारहिता
 मही द्विजसुहृद्देहे रता श्रीरपि ॥ ६२ ॥ किञ्चित्रं भुवनैकमल्लयदियं मन्दाकिनी
 पद्मभूलोकाद्दुद्धरता भगीरथनृपेणानायि निम्नां महीम् । आश्चर्यं पुनरेतदी-
 श यदितो निम्नान्महीमण्डलादूर्ध्वं कीर्तितरङ्गिणी कमलभूलोकं त्वया प्रापिता
 ॥ ६३ ॥ चित्रं नात्र सलक्षणस्त्वमकरोः सर्वात्मना विद्विषो देवप्रत्ययलोपमाशु
 विशिखैः संमूर्च्छितस्याहवे क्रोधाद्भैरवमूर्तिरुल्लसदसि क्रूरप्रहाराद्भुतैरस्यत्वं यदनी-
 नशः प्रकृतिमप्येतन्ननाश्चर्यकृत् ॥ ६४ ॥ अत्यम्बुधि भवद्वैर्यमत्यादित्यं भवन्महः
 अतिसिंहं भवच्छौर्यमतः केनोपमीयसे ॥ ६५ ॥ केयूरं तव भूपाल भुजदण्डे विराजते
 किरीटमिव वा क्वन्तर्निवासि विजयश्रियः ॥ ६६ ॥ यदर्चायां नित्यं त्रिभुवनगुरो
 स्तोत्रमकृथास्तदेष प्रीतस्त्वां धक्वमकृतकल्पस्थितिमिह यदुत्सङ्गे तुङ्गे तव लुठति
 चन्द्रांशुविमला प्रलम्बव्याजेन क्षितितिलकतारावलिरियम् ॥ ६७ ॥ वैतालिकै
 रित्थमभिष्टुतेन संपूजितामर्त्यगुरुद्विजेन विमुक्तकारागृहसंयतेन वितीर्णभूताभयद-
 क्षिणेन ॥ ६८ ॥ तेनाभिषिक्तमात्रेण प्रतिजज्ञे द्वयंस्वयम् पद्मनाथस्य संसिद्धिः
 कन्यायाः सद्वरार्पणम् ॥ ६९ ॥ तच्च द्वयं कृतमनेन विवेकभाजा राजात्मजा मद-
 नपालवराय दत्ता श्रीपद्मनाथसुरमन्दिरमेतदुच्चैर्नीतं समाप्तिमविनाशि यशःशरी

रम् ॥ ७० ॥ समर्धिता ब्रह्मपुरी च तेन शेषान्विधायावनिदेवमुख्यान् । प्रवर्ति-
 तं सत्रमतन्द्रितेन मृष्टान्नपानैरतिधार्मिकेण ॥ ७१ ॥ श्रीपद्मनाथस्य स लोकनाथ
 श्रुक्रिद्वयं भूपतिचक्रवर्ती नैवेद्यपाकाय विपक्वबुद्धिः प्रादात्प्रदीपाय च गोत्रदीपः
 ॥ ७२ ॥ ब्रह्मोत्तरं मण्डपिकासमुत्थं द्वेधा विधाय स्वयमीश्वरेण । श्रीपद्मनाथाय
 वितीर्णमर्धं मर्धं च वैकुण्ठ सुरेश्वराय ॥ ७३ ॥ विलासिनीवादकगायनादेर्यथार्ह-
 तः पादकुलस्य वृत्तिम् । स पद्मनाथस्य पुरः समग्रामकल्पयत्प्रेक्षणकाय भूपः
 ॥ ७४ ॥ पाषाणपल्लीं प्रविभज्य सम्यग्देवाय सार्धानि पदानि पञ्च । संपादया
 मास तथा द्विजेभ्यः सार्धाचतुर्विंशतिमुत्तमेभ्यः ॥ ७५ ॥ ददौ करस्वं खरवारखे
 टं महीपति स्तत्र भवं समस्तम् । आकाशपातालसमुद्गतं च देवद्विजेभ्यो लवणा-
 करं च ॥ ७६ ॥ तस्यादृष्टसहायतामुपगतो योगेश्वराङ्गोद्भवः ख्यातः सूरिसलक्षणः
 क्षितिपतेः सर्वत्र विश्वासभूः । आधारो विनयस्य शीलभवनं भूमिः श्रुतस्या-
 करः स्वाध्यायस्य कृत ज्ञतैकवसतिः सौजन्यकोशालयः ॥ ७७ ॥ तत्प्रत्ययेन
 निदधे निखिलानि धर्मकार्याणि धर्मनिरतः स नरेन्द्रचन्द्रः । विप्रः सनिः स्पृह
 तथा गुणगौरवेण चित्तं विवेश समवृत्तितया च राज्ञः ॥ ७८ ॥ महीपालेनये
 विप्रास्तस्मिन्ग्रामे प्रतिष्ठिताः तेषां नामानि लिख्यन्ते विस्तरः शासनोदितः
 ॥ ७९ ॥ देवलब्धिः सुधीराद्यस्तथा श्रीधरदीक्षितः । सूरिः कीर्तिरथः सार्धप-
 दिनोऽस्य द्विजास्त्रयः ॥ ८० ॥ गङ्गाधरो गौतमश्यामलकोऽथ गदाधरः ।
 देवनागो वसिष्ठश्च देव शर्मा यशस्करः ॥ ८१ ॥ कृष्णो वराहस्वामी च गृहवासः
 प्रभाकरः । इच्छाधरोमधुश्चैव तिलहेकः पुरुषोत्तमः ॥ ८२ ॥ रामेश्वरो द्विजवरस्तथा
 दामोदरो द्विजः । अष्टादशैते विप्राश्च पदिनः शङ्खलो द्विजः ॥ ८३ ॥ पादोन-
 पदिको रत्नतिहूणैकौ सुरार्चकौ द्वावर्धपदिनावेष विप्राणां संग्रहः कृतः ॥ ८४ ॥ ददौ
 देवपदानां च मध्यादर्धपदं नृपः ॥ विधाय शाश्वतं लोहभटकायस्थसूरये ॥ ८५ ॥
 देवाय दत्तः सौवर्णो राज्ञारत्नैः समाचितः । मुकुटः सुमहानीलो मणिर्यत्र विराजते
 ॥ ८६ ॥ हरिन्मणिमयं भूपतिलकस्तिलकं ददौ ॥ रत्नैर्विचित्रं नीष्कं च निष्कलङ्कः स
 भूपतिः ॥ ८७ ॥ प्रादात्केयूरयुगलं रत्नैर्बहुभिराचितम् ॥ कङ्कणानां चतुष्कं च महार्हम-
 णिभूषितम् ॥ ८८ ॥ इति रत्नमयं तावदेकमाभरणं विभोः ॥ द्वितीयमनिरुद्धस्य-
 सौवर्णं केवलं यथा ॥ ८९ ॥ कङ्कणानां चतुष्कं च भालपट्टद्वयं तथा ॥ कृत्तिदारं
 स्वर्णमुष्टिं विभर्त्यन्वहमच्युतः ॥ ९० ॥ रूप्यमद्मालिका दत्ता कच्चोलैः पञ्चभि-
 र्युता ॥ नैवेद्यधारणार्थं च कांस्यस्थालचतुष्टयम् ॥ ९१ ॥ सुवर्णाण्डत्रयं देवपरि-
 वारविभूषणम् ॥ धृतं चोपरि हेमाब्जमातपत्रीकृतं विभोः ॥ ९२ ॥ निवेश्य

ताम्रपात्रे च तन्मये नैव गङ्गुना ॥ स्नाप्यते प्रतिमा नित्यमनिरुद्धस्य राजती ॥ ९३ ॥
 प्रतिमा वामनस्यैका द्वितीया लघुराच्युती ॥ राजावर्तमयीचान्या द्वे पूर्वे रीतिनि-
 र्मिते ॥ ९४ ॥ ताः प्रयत्नेन निस्त्रोऽपि पूज्यन्ते गर्भवेश्मनि ॥ तत्रताम्रमयं दत्तं
 दीपार्थं मल्लिकाद्वयम् ॥ ९५ ॥ स्नानार्थं ताम्रकुण्डे द्वे दत्ते द्वे ताम्रपात्रिके ॥
 ताम्रार्धपात्रद्वितयं तथा दत्तं महीभुजा ॥ ९६ ॥ सधूपदहनाः सप्त घण्टाश्वारा-
 त्रिकान्विताः ॥ दत्ताः शङ्खाश्चसप्तैव ताम्रपात्रीचतुष्टयम् ॥ ९७ ॥ सकांस्यभा-
 जनं प्रादान् नृपतिः काहलाद्वयम् ॥ चामरं दण्डयुग्मं च रीतिस्फटिकसंभवम्
 ॥ ९८ ॥ बृहच्चरुद्वयं ताम्रमयं ताम्रालुकात्रयम् ॥ ताम्राभाण्ड्यस्तथा पञ्च दत्ताश्वा-
 टुश्च तन्मयः ॥ ९९ ॥ ॥ एषदेवोपकरणद्रव्याणां
 संग्रहः कृतः ॥ १०० ॥ शिलाकुट्टस्थपत्यादियन्त्रिशकटिकादिषु ॥ वापीकूपत-
 ङागादिखननावन्धनेषु च ॥ १०१ ॥ दशमांशं तथा विंशत्यंशं सर्वत्र मण्डले ॥
 ददौ राजानिरुद्धाय तेन सन्त्रं प्रवर्तते ॥ १०२ ॥ अयं देवालयः पद्मनृपतेः
 स्फटिकामलः ॥ भूया दुपार्जितः पुण्यैर्विष्णुलोक इवाक्षयः ॥ १०३ ॥ भारद्वाजेन
 मीमांसान्यायसंस्कृतवुद्धिना ॥ कवीन्द्ररामपौत्रेण गोविन्दकविसूनुना ॥ १०४ ॥
 कविना मणिकण्ठेन सुभाषितसरस्वता ॥ प्रशस्तिर्द्विजसुर्येण रचितेयमनिन्दिता
 ॥ १०५ ॥ प्रतापलङ्केश्वरवाग्द्वितीयां विभ्रत्सुहृतां मणिकण्ठसूरेः ॥ अशेषभाषा-
 सुकविलिलेख वर्णान्यशोदेव दिगम्बरार्कः ॥ १०६ ॥ एकादशस्वतीतेषु सबत्सर-
 शतेषु च ॥ एकोनपञ्चाशति च गतेष्वब्देषु विक्रमात् ॥ १०७ ॥ पञ्चाशे चाश्विने
 मासे कृष्णपक्षे नृपाज्ञया ॥ रचिता मणिकण्ठेन प्रशस्तिरिय मुज्ज्वला ॥ १०८ ॥
 अङ्कतोऽपि ११५० आश्विन बहुलपञ्चम्याम् ॥ ॐ ॥ तैस्तैस्तस्य महीपतेः
 प्रतिरणं प्रौढप्रतापानले नाश्चर्यं यदनेकशो रिपुचमूचक्रेः पतङ्गायितम् । यस्ये
 न्द्रप्रतिमस्य बुद्धिसचिवः सर्वज्ञकल्पोऽभवन्नीत्या निर्जितमौर्यवंशतिलका
 चार्यः स गौरः सुधीः ॥ १०९ ॥ किं चित्रं यन्महीपालो भुनक्ति स्माखिलां
 महीम् । यस्य गीर्वाणमन्त्रीव मन्त्री गोरोऽभवत्सुधीः ॥ ११० ॥ प्रशस्तिरिय-
 मुत्कीर्णा सद्वर्णा पद्मशिल्पिना । देवस्वामिसुतेन श्रीपद्मनाथसुरालये ॥ १११ ॥
 तथैव सिंहराजेन माहुलेन च शिल्पिना । प्राप्नुवन्तु समुत्कीर्णान्यक्षराणि
 यथार्थताम् ॥ ११२ ॥

—*—


(इस प्रशस्तिमें लिखे हुए राजाओंने क्रमसे राज्य किया है, इसवास्ते यह लेख दिया गया है; और यहांके दूसरे राजाओंकी इंटखला पूर्ण न होनेके सबब उन राजाओंके लेख दर्ज नहीं किये गये) .

शेष संग्रह नम्बर ८.

धारा नगरीके प्रख्यात भोजराजके पितामह वाक्पतिराजका दानपत्र, काव्यमालाकी प्राचीन लेखमालाके पृष्ठ १ से.


याः स्फूर्जत्फणभृद्विषानलमिलद्भूमप्रभाः प्रोल्लसन्मूर्धाबद्धशशाङ्गकोटिघटिता
याः सैहिकेयोपमाः । याश्चञ्चद्विरिजाकपोललुलिताः कस्तूरिकाविभ्रमाः स्ताः
श्रीकण्ठकठोरकण्ठरुचयः श्रेयांसि पुष्पान्तु वः ॥ यल्लक्ष्मीवदनेन्दुना न सुखितं
यन्नार्द्रितं वारिधे वारा यन्न निजेन नाभिसरसीपद्मेन शांतिं गतम् । यच्छेषाहि-
फणासहस्रमधुरश्वासैर्न चाश्वासितं तद्वाधाविरहातुरं मुररिपोर्वैल्लद्रपुः पातु वः ॥
परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्री कृष्णराजदेवपादानुध्यात परमभट्टा-
रक महाराजाधिराज परमेश्वर श्री वैरिसिंहदेवपादानुध्यात परमभट्टारकमहा-
राजाधिराज परमेश्वर श्री सीयकदेवपादानुध्यात परमभट्टारक महाराजाधिराज
परमेश्वर श्रीमदमोघवर्षदेवापराभिधान श्रीमद्वाक्पतिराजदेवपृथ्वीवल्लभ श्रीवल्लभनरे-
न्द्रदेवः कुशली श्रीनर्मदातटे गर्दभपानीयभोगे गर्दभपानीयसम्बन्धिनि
उत्तरस्यां दिशि पिप्परिकानाम्ना तडारे समुपगतान्समस्तराजपुरुषान्ब्राह्मणोत्तरा-
न्प्रतिवासिपट्टकिलजनपदादींश्च बोधयति अस्तु वः संविदितम् यथा तडारोऽ
यमस्माभिः आघाटाः पूर्वस्यां दिशि अगारवाहलामर्यादा तथोत्तरस्यां दिशि
चिखिलिकासत्कगर्तायासमायतामर्यादा, तथा पश्चिमदिशि गर्दभनदीमर्यादा,
तथा दक्षिणस्यां दिशि श्री पिशाचदेवतीर्थमर्यादा, एवं चतुराघाटोपलक्षिता-
भिरेकत्रिंशसाहस्रिकसंवत्सरेऽस्मिन् भाद्रपदशुक्लचतुर्दश्यां पवित्रकपर्वाणि श्री
मदुज्जयिनीसमावासितैः शिवतडागाम्भसि रुनात्वा चराचरगुरुं भगवन्तं भवानी-
पतिमभ्यर्च्य संसारस्यासारतां दृष्ट्वा, वाताश्रविभ्रममिदं वसुधाधिपत्य मापातमात्र-
मधुरोविषयोपभोगः । प्राणास्तृणाग्रजलब्रन्दुसमा नराणां धर्मः सखा परमहो पर-
लोकयाने ॥ अमत्संसारचक्राग्रधाराधारामिमांश्रियम् । प्राप्पयेन ददुस्तेषां पश्चात्तापः
परंफलम् ॥ इति जगतो विनश्वरं सकलमिदमाकलय्य उपरिलिखित तडारः स्वसी-
मतृणकाष्ठयूतिगोचरपर्यन्तः सवृक्षमालाकुलः सहिरण्यभागभोगः सोपरिकरः स-
र्वादायसमेतः अहिच्छत्रविनिर्गताय धामदक्षिणप्रपन्नाय ज्ञानविज्ञानसंपन्नाय श्री
मद्वसन्ताचार्याय श्री धनिकपण्डितसूनवे मातापित्रोरात्मनश्च पुण्ययशोभिवृद्धये
अदृष्टफलमङ्गीकृत्य आचन्द्रार्कार्णवक्षितिसमकालं परया भक्त्या शासनेनोदक-

पूर्वं प्रतिपादित इति मत्वा तन्निवासिजनपदैर्यथा दीयमानभागभोगकरहिरण्यादिकं सर्वमाज्ञाश्रवणविधेयैर्भूत्वा सर्वदास्मै समुपनेतव्यम् सामान्यं चैतत्पुण्यफलं बुध्वास्मद्वंशजैरन्यैरपि भाविभोक्तृभिरस्मत्प्रदत्तधर्मादायो ऽ यमनुमन्तव्यः पालनीयश्च । उक्तंच बहुभिर्वसुधा दत्ता राजभिः सगरादिभिः । यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदाफलम् ॥ यानीह दत्तानि पुरा नरैर्नद्वैर्दानानि धर्मार्थयशस्कराणि । निर्माल्यवान्तप्रतिमानि तानि कोनाम साधुः पुनराददीत ॥ अस्मत्कुलक्रममुदारमुदाहरद्भि रन्यैश्च दानमिदमभ्यनुमोदनीयम् । लक्ष्म्यास्तडित्सलिलबुद्बुदचञ्चलाया दानं फलं परयशः परिपालनं च ॥ सर्वा नेतान्भाविनः पार्थिवेन्द्रा न्भूयो भूयो याचतेरामभद्रः । सामान्यो ऽ यंधर्म सेतुर्नराणां काले काले पालनीयोभवद्भिः ॥ इति कमलदलाम्बुविन्दुलोलां श्रियमनुचिन्त्य मनुष्य जीवितं च । सकलमिदमुदाहृतं च बुद्ध्वा नहि पुरुषैः परकीर्तयो विलोप्याः ॥ इति ॥ सं० १०३१ भाद्रपद सुदि १४ स्वयमाज्ञा दायकश्चात्र श्रीकण्ठयैकः स्वहस्तो ऽ यं श्रीवाक्पति राजदेवस्य.



शेष संग्रह नम्बर ९.

वाक्पतिराजका दूतरा दानपत्र इंडियन एन्टिकेरीकी १४ जिल्दके १६० पृष्ठ से.



ॐ ॥ याः स्फू (जर्त्फण) भृद्विषानलमिलद्धूमप्रभाः प्रोल्लसन्मूर्धाबद्धशशाङ्कोटिघटिता याः सैहिकेयोपमाः । या (श्रञ्च) द्विरिजाकपोललुलिताः कस्तूरिकाविभ्रमास्ताः श्री कण्ठकठोरकण्ठ (रु) चयः श्रेयांसिपुष्पान्तु वः ॥ यल्लक्ष्मीवदनेन्दुना न सुखितं यन्नार्द्रितंवारिधेर्व्वारा यन्न निजेन नाभिसरसी पद्मेन शान्तिङ्गतं । यच्छेपाहिफणासहस्रमधुरश्वासैर्न चाश्वासितं तद्राधाविरहातुरं मुररिपोर्व्वल्लद्वपु पातुवः ॥ परमभद्वारकमहाराजाधिराजपरमेश्वर श्रीकृष्णराजदेवपादानुध्यात परमभद्वारकमहाराजाधिराजपरमेश्वर श्री वैरिसिंहदेवपादानुध्यात परमभद्वारकमहाराजाधिराजपरमेश्वर श्री सीयकदेवपादानुध्यात परमभद्वारकमहाराजाधिराजपरमेश्वर श्रीमदमोघवर्षदेवापराभिधान श्रीमद्वाक्पतिराजदेवपृथ्वीवल्लभश्रीवल्लभनरेन्द्रदेवः कुशली ॥ तिणिसपद्रद्वादशकसम्बद्ध महासाधनिकश्री महाइकभुक्तसेम्बलपुरकग्रामे समुपगतान्समस्तराजपुरुषान्ब्राह्मणोत्तरान्प्रतिवासिपट्टकिलजनपदादींश्च बोधयत्पस्तुवः संविदितं यथा ग्रामोयमस्माभिः षट्त्रिंशसाहस्रिकसंवत्सरेस्मिन् कार्तिकशुद्धपूर्णिमायां सोमग्रहणपर्वणि श्री भगवत्पुरावासितैरस्माभिर्महासाधनिक श्री महाइकपत्नीआसिनीप्रार्थनया उपरिलिखित-


ग्राम : स्वसीमातृणयूतिगोचरपर्यन्तः स हिरण्याभागभोगः सोपरिकरः सर्वादा-
यसमेतः श्री मदुजयन्यां भट्टारिकाश्रीमद्भृङ्गेश्वरीदेव्यै स्नानविलेपनपुष्पगन्धधूप
(नै) वेद्य प्रेक्षणकादिनिमित्तञ्च तथा खण्डस्फुटितदेवगृहजगतीसमारचनार्थञ्च
मातापित्रोरात्मनश्च पुण्ययशोभिवृद्धये दृष्टफलमङ्गीकृत्याचन्द्रार्काण्णवक्षितिस-
मकालं परया भक्त्या शासनेनोदकपूर्वकं प्रतिपादित इति मत्वा तन्निवा-
सिपट्टकिलजनपदैर्यथादीयमानभागभोगकर हिरण्यादिकं सर्वमाज्ञा-
श्रवणविधेयैर्भूत्वा सर्वथा सर्वमस्याः समुपनेतव्यं सामान्यं चैतत्पुण्यफलं
बुद्ध्वा ऽ स्मद्वंशजैरन्यैरपि भाविभोक्तृभिरस्मत्प्रदत्तधर्मदायोयमनुमन्तव्यः
पालनीयश्च । उक्तं च । बहुभिर्वसुधा भुक्ता राजभिः सगरादिभिर्यस्य यस्य यदा
भूमिस्तस्य तस्य तदाफलं ॥ यानीह दत्तानिपुरानरेन्द्रैर्दानानि धर्मार्थयशस्कराणि
[१] निष्माल्यवान्तप्रतिमानि तानि कोनाम साधुः पुनराददीत ॥ अस्मत्कुलक्रम-
मुदारमुदाहरद्भिरन्यैश्च दानमिदमभ्यनुमोदनियम् लक्ष्म्यास्तडित्सलिलबुद्बुदचञ्च-
लाया दानंफलं परयशःपरिपालनञ्च सर्वानितान्भाविनः पार्थिवेन्द्रा न्भूयो भूयो
याचते रामभद्रः सामान्योयन्धर्मसेतुर्नृपाणां कालेकालेपालनीयोभवद्भिः । इति
कमलदलाम्बु विन्दुलोलां श्रियमनुचिन्त्य मनुष्यजीवितं च । सकलमिदमुदाहृतञ्च
बुद्धानहि पुरुषैः परकीर्तयो विलोप्या इति सम्वत् १०३६ चैत्र वदि ९ । गुणपुरा
वासिते श्री मन्महाविजयस्कन्धावारे स्वयमाज्ञा दापकश्चात्र श्री रुद्रादित्यः
स्वहस्तोयं श्रीवाक्पतिराजदेवस्य.

शेष संग्रह नम्बर १०,

भोजका दानपत्र इंडियन एन्टिकेरी, ६ । ५३-५४.


जयति व्योमकेशो ऽ सौ यः सर्गाय विभर्ति ताम् । ऐन्दवीं शिरसा
लेखां जगद्बीजाङ्कुराकृतिम् ॥ तन्वन्तु वः स्मरारातेः कल्याणमनिशंजटाः ।
कल्पान्तसमयोद्दामतडिद्वलयपिङ्गलाः ॥ परमभट्टारकमहाराजाधिराजपरमेश्वरश्री
सीयकदेवपादानुध्यात परमभट्टारकमहाराजाधिराजपरमेश्वरश्रीवाक्पतिराजदेव
पादानुध्यात परमभट्टारकमहाराजाधिराजपरमेश्वरश्रीसिन्धुराजदेवपादानुध्यात पर-
मभट्टारकमहाराजाधिराजपरमेश्वरश्रीभोजदेवः कुशली नागहृदपश्चिमपथकान्तः-
पातिवीराणके समुपगतान्समस्तराजपुरुषान्ब्राह्मणोत्तरान्प्रतिनिवासिपट्टकिलजन-
पदादींश्च समादिशति - अस्तु वः संविदितम् यथा अतीताष्टसप्तत्य-

धिकसाहस्रिकसंवत्सरे माघासिततृतीयायां रवावुदगयनपर्वणि कल्पितहलानां लेख्ये श्रीमद्वारायामवस्थितैरस्माभिः स्नात्वा चराचरगुरुं भगवन्तं भवानीपतिं समभ्यर्च्य संसारस्यासारतां दृष्ट्वा वाताभ्रविभ्रममिदं वसुधाधिपत्यमापातमात्र-मधुरोविषयोपभोगः। प्राणास्तृणाग्रजलविन्दुसमा नराणां धर्मः सखा परमहो परलोकयाने ॥ भ्रमत्संसारचक्राग्रधाराधाराभिमां श्रियम्। प्राप्य ये न ददुस्तेषां पश्चात्तापः परं फलम्, ॥ इति जगतोविनश्वरं स्वरूपमाकलय्य उपरिलिखित ग्रामः स्वसीमातृणागोचरयूतिपर्यन्तः सहिरण्यभागभोगः सोपरिकरः सर्वादाय-समेतः ब्राह्मणधनपतिभङ्गाय भद्रगोविन्दसुताय बहचाश्वलायनशाखाय त्रिप्रव-राय वेह्लवह्लप्रतिबद्धश्रीवादाविनिर्गतराधसुरसङ्कर्णाटाय मातापित्रोरात्मनश्च पुण्ययशोभिवृद्धये अदृष्टफलमङ्गीकृत्य आचन्द्रार्कार्णवक्षितिसमकालं यावत्परया भक्त्या शासनेनोदकपूर्वं प्रतिपादित इति मत्वा यथादीयमानभागभोगकरहिरण्या-दिकमाज्ञाश्रवणविधेयैर्भूत्वा सर्वमस्मै समुपनेतव्यम् सामान्यं चैतत्पुण्यफलं बुद्धास्मद्वंशजैरन्यैरपि भाविभोक्तृभिरस्मत्प्रदत्तधर्मादायो ऽ यमनुमन्तव्यः पालनीयश्च उक्तं च बहुभिर्वसुधादत्ता राजभिः सगरादिभिः। यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदाफलम् ॥ यानीह दत्तानि पुरा नरेन्द्रैर्दानानि धर्मार्थयशस्कराणि। निर्माल्यवान्तप्रतिमानि तानि को नाम साधुः पुनराददीत ॥ अस्मत्कुलक्रममुदार-मुदाहरद्भि रन्यैश्च दानमिदमभ्यनुमोदनीयम्। लक्ष्म्यास्तडित्सलिलबुद्बुदचञ्चलाया दानं फलं परयशः परिपालनंच ॥ सर्वानेतान्भाविनः पार्थिवेन्द्रान्भूयो भूयो याचते रामभद्रः। सामान्यो ऽयं धर्मसेतुर्नराणां काले काले पालनीयो भवद्भिः ॥ इति कमलदलाम्बुविन्दुलोलां श्रियमनुचिन्त्य मनुष्यजीवितंच। सकलमिदं मुदाहृतं च बुद्ध्वा नहि पुरुषैः परकीर्तयो विलोप्याः ॥ इति संवत् १०७८ चैत्र सुदि १४ स्वय माज्ञा मङ्गलं महाश्रीः स्वहस्तो ऽयं श्री भोजदेवस्य.



शेष संग्रह नम्बर ११.

धारा नगरीके राजा भोजके वंशके अर्जुनवर्मदेवका दानपत्र
अमेरिकन ओरिएण्टल् सोसाइटी जेनरल ७ भागमें.




ॐ नमः पुरुषार्थचूडामणये धर्माय


प्रतिबिम्बनिभाद्रूमेः कृत्वा साक्षात्परिग्रहम् जगदाह्लादयन्दिश्याद्विजेन्द्रो मङ्गलानि
वः जीयात्परशुरामो ऽसौ क्षत्रैः क्षुरणं रणाहतैः। संध्यार्कबिम्बमेवोर्वीदातुर्यस्यैति

ताम्रताम् ॥ येन मन्दोदरीबाष्पवारिभिः शमितो मृधे । प्राणेश्वरीवियोगाग्निः स
रामः श्रेयसे ऽस्तु वः ॥ भीमेनापि धृतामूर्ध्नि यत्पादाः स युधिष्ठिरः । वंशाद्येनेन्दुना
जीयात्स्वतुल्य इव निर्मितः ॥ परमारकुलोत्तंसः कंसजिन्महिमा नृपः । श्री भोजदेव इ-
त्यासीन्नासीराक्रान्तभूतलः ॥ यद्यशश्चन्द्रिकोदयोते दिगुत्सङ्गततरङ्गिते । द्विषन्नृपयशः
पुञ्ज पुण्डरीकैर्निमीलितम् ॥ ततो ऽभूदुदयादित्यो नित्योत्साहैककौतुकी । असा-
धारणवीरश्रीरश्रीहेतुविरोधिनाम् ॥ महाकलहकल्पान्ते यस्योदामभिराशुगैः । कति
नोन्मूलितास्तुङ्गा भूभृतः कटकोल्वणाः ॥ तस्माच्छिन्नद्विषन्मर्मा नरवर्मा नराधिपः ।
धर्माभ्युद्वरणे धीमानभूत्सीमा महीभुजाम् ॥ प्रतिप्रभातं विप्रेभ्यो दत्तैर्ग्रामपदैः स्व-
यम् । अनेकपदतां निन्ये धर्मोयेनैकपादपि ॥ तस्याजनि यशोवर्मा पुत्रः क्षत्रियशेखरः ।
तस्मादजयवर्माभूजयश्री विश्रुतः सुतः ॥ तत्सूनुर्वीरमूर्धन्यो धन्योत्पत्तिरजायत ।
गुर्जरोच्छेदनिर्बन्धी विन्ध्यवर्मा महाभुजः ॥ धारयोद्धृतया सार्धं दधातिस्म
त्रिधारताम् । सांयुगीनस्य यस्यासिस्त्रातुं लोकत्रयीमिव ॥ तस्यामुष्यायणः पुत्रः
सुत्रामश्रीरथाशिपत् । भूपः सुभटवर्मेति धर्मे तिष्ठन्महीतलम् ॥ यस्य ज्वलति
दिग्जेतुः प्रतापस्तपनद्युतेः । दावाग्निच्छद्मनाद्यापि गर्जन्गुर्जरपत्तने ॥ देवभूयं
गते तस्मिन्नन्दनो ऽर्जुनभूपतिः । दोष्णा धत्ते ऽधुना धात्रीवलयं वलयं यथा ॥
बाललीलाहवे यस्य जयसिंहे पलायिते । दिक्पालहासव्याजेन यशो दिक्षु
विजृम्भितम् ॥ काव्यगान्धर्वसर्वस्वनिधिना येन सांप्रतम् । भारावतरणं देव्याश्चक्रे
पुस्तकवीणयोः ॥ येन त्रिविधवीरेण त्रिधा पल्लवितं यशः । धवलत्वं दधुस्त्रीणि
जगन्ति कथं मन्यथा ॥ स एष नरनायकः सर्वाभ्युदयो पगाराप्रतिजागरणके नर्म-
दोत्तरकूले हथिणावरग्रामे पूर्वराजदत्तावशिष्टायां भूमौ समस्तराजपुरुषान्ब्राह्मणो
तरान्प्रतिनिवासिपदकिलजनपदादींश्च बोधयति— अस्तु वः संविदितम् यथा
श्रीमदमरेश्वरतीर्थावस्थितैरस्माभिर्द्विसप्तत्यधिकद्वादशशतसंवत्सरे भाद्रपदपौ-
र्णमास्यां चन्द्रोपरागपर्वणि रेवाकपिलयोः संगमे स्नात्वा भगवन्तं भवानीपतिमोंका
रं लक्ष्मीपतिं चक्रस्वामिनं चाभ्यर्च्य संसारस्यासारतां दृष्ट्वा तथा हि-
वाताभ्रविभ्रममिदं वसुधाधिपत्यमापातमात्रमधुरो विषयोपभोगः । प्राणास्तृणाग्र-
जलबिन्दुसमा नराणां धर्मः सखापरमहो परलोक्याने ॥ इति सर्वं विमृश्यादृष्टफल
मङ्गीकृत्य मुक्तावस्थूस्थानविनिर्गताय वाजसनेयशाखाध्यायिने काश्यपगोत्राय
काश्यपावत्सारनैध्रुवेतित्रिप्रवराय आवसथिकदेहप्रपौत्राय पण्डितसोमदेव-
पौत्राय पण्डितजैत्रसिंहपुत्राय पुरोहितपण्डितश्रीगोविन्दशर्मणे ब्राह्मणाय
भूमिरियं चतुः कण्टकविशुद्धा सवृक्षमालाकुला सहिरण्यभागभोगा सोपरिकर-

घट्टादायलवणादायेत्यादिसर्वादायसमेता सनिधिनिक्षेपा मातापित्रोरात्मनश्च
 पुण्ययशोभितृद्वये चन्द्रार्कार्णवक्षितिसमकालं यावत्परया भक्त्या शासनेनोदकपूर्वं
 प्रदत्ता । तन्मत्वातन्निवासिपट्टकिलजनपदैर्यथादीयमानभागभोगकरहिरण्यादिकमा
 ज्ञाविधेयैर्भूत्वा सर्वममुष्मै दातव्यम् । सामान्यं चैतत्पुण्यफलं बुद्धास्मद्वंशजैरन्यै-
 रपिभाविभोक्तृभिरस्मत्प्रदत्तधर्मादायो ऽ यमनुमन्तव्यः पालनीयश्च उक्तं च-
 बहुभिर्वसुधा दत्ता राजभिः सगरा दिभिः । यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य
 तदा फलम् ॥ स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरेत वसुंधराम् । सविष्टायां कृमिर्भूत्वा पितृभिः
 सह मज्जति ॥ सर्वानिवं भाविनः पार्थिवेन्द्रान्भूयो भूयो याचते रामभद्रः । सामान्यो
 ऽयं धर्मसेतुर्नराणां काले काले पालनीयो भवद्भिः ॥ इति कमलदलाम्बुबिन्दुलोलां
 श्रियमनुचिन्त्य मनुष्यजीवितं च । सकलमिदमुदाहृतं च बुद्धा नहि पुरुषैः पर-
 कीर्तियो विलोप्याः ॥ इति ॥ संवत् १२७२ भाद्रपद सुदि १५ बुधे दू श्रीमु । ३
 रचितमिदं महासांधि ० राजासलखणसंमतेन राजगुरुणा मदनेन स्वहस्तो ऽयं
 महाराजश्रीअर्जुनवर्मदेवस्य उत्कीर्णं प० बाप्पदेवेन.



त्रोटक छन्द.




जगति गये परलोक जवें ॥ नृप ठौर प्रताप सुताप तवें ॥
 तिनकी बल विक्रम स्वल्प कथा ॥ दिव गौन कियो लिखवाय जथा ॥ १ ॥
 उनके लघु उम्मर पुत्र बड़े ॥ नृप आसन राज नृपाल चढ़े ॥
 बणहेड़ उमेद जु छीन लियो ॥ नृप लैरु यथा विधि न्याय कियो ॥ २ ॥
 दश अडक वत्सर आयु भये ॥ नृप राजड़ स्वर्ग पधार गये ॥
 जिनके पितु भ्रात कथा सरसी ॥ नृप आसन बैठगये अरसी ॥ ३ ॥
 इक कृत्रिम भूप बनाय लियो ॥ सिरदार कितेकन दुंद कियो ॥
 गृह द्वेष विशेष हि नाथ मरे ॥ मरहट्ट मलार सु संधि करे ॥ ४ ॥
 विष दैरु सलूवर जोध हते ॥ मरहट्ट मिलावन हेत मते ॥
 अरसी नृप घात विसास कियो ॥ भट राघवपै हठ चूक भयो ॥ ५ ॥
 फिर मालव देश अवंति पुरी ॥ अरसी दल नौवत जाय घुरी ॥
 भट ओघ सराहन जोग भये ॥ तरवारन वारन स्वर्ग गये ॥ ६ ॥
 फिर माधवराव बड़े दलतें ॥ उदयापुर घेर लियो बलतें ॥
 अरसी निज विक्रम खूब लरे ॥ नय दाम बिचाररु संधि करे ॥ ७ ॥

छल रानहि तें सिरदार छली ॥ उपईश बनायरु फौज मिली ॥
 बहु बेर किये हमले अरसी ॥ अरि ताकत सेन सबें घरसी ॥ ८ ॥
 अरसी निज बायव प्रांत दियो ॥ दल सेवनदै मरु भूप लियो ॥
 निज भट्टन कट्टन रान चढे ॥ समरू हि भगायरु आप बढे ॥ ९ ॥
 नृप बुन्दिय आयरु चूक कियो ॥ छल राव अजीत कलंक लियो ॥
 अरसी परलोक प्रयान कथा ॥ फिर दक्षिण क्षत्रिय वंश जथा ॥ १० ॥
 कुहलापुर आदिक वंश बधे ॥ तिन सेवक ग्वालियरादि सधे ॥
 जिनके बल वंश बिचार कहे ॥ रजपूतनमें थल टौंक लहे ॥ ११ ॥

दोहा.

भरत धौलपुर युग्म भट्ट जट्ट भूप बर जोर ॥
 कही सकल तिनकी कथा प्रस्तर लेख बहोर ॥ १ ॥
 आशय सजन रानको शासन फतमल सिद्ध ॥
 किय इयामल कविराजने शुद्ध प्रकर्ण प्रसिद्ध ॥ २ ॥



महाराणा अरिसिंह ३.

तेरहवां प्रकरण समाप्त.



चौदहवां प्रकरण.

महाराणा दूसरे हमीरसिंह.

जब महाराणा अरिसिंह ३ अमरगढ़ मकामपर बूंदीके राव राजा अजीतसिंहके हाथ दगासे मारे गये, और इसकी खबर विक्रमी १८२९ चैत्र कृष्ण ३ [हि० ११८६ ता० १७ जिल्हज = ई० १७७३ ता० ११ मार्च] को उदयपुरमें पहुंची, तो राजधानी में बड़ा भारी तहलका मचा, क्योंकि ऐसे जवान राजाका अपने पीछे सिर्फ दो बालक कुंवरोको छोड़कर इस दुन्यासे उठजाना और मुल्कमें खानगी भगड़ोंका फैलना एक ऐसी हालत थी, कि चाहे कैसा ही मजबूत दिल आदमी क्यों न हो, सिवा अपसोस व रंजके और क्या करसक्ता था? लेकिन इस वक्त कई अच्छे और खैरख्वाह लोगोंने महाराणाके वड़े बेटे हमीरसिंहको गद्दीपर बिठाया; और कुल सदाँर, उमराव व पासवानों वगैरह ने, जो उस समय मौजूद थे, नर्ज़ दिखलाई. इसके बाद प्रधान ठाकुर अमरचन्द सनाढ्य, बछावत महता अग्रचन्द, भटनागर कायस्थ जशवन्तराय, व बौल्या एकलिंगदास वगैरह अहलकारोंने महाराज बाघसिंह और महाराज अर्जुनसिंहसे कहा, कि “ इस समय आप दोनों सदाँर महाराणाके बुजुर्ग हैं, इसलिये रियासतका कारदार आपको

संभालना चाहिये.” इन दोनों सर्दारोंने सच्चे दिलसे जवाब दिया, कि “अगर्चि महाराणा बालक हैं, लेकिन हमारे मालिक और हम इनके नौकर हैं, जहांतक हमसे हो-सकेगा, अपनी तरफसे खैरख्वाहीमें किसी तरह की कमी न करेंगे.”

प्रधान अमरचन्द सनाढ्य कुछ दिनतक, तो बड़ी तनदिहीसे काम अंजाम देता रहा, लेकिन मालिककी कम उम्मीसे रियासतकी मुख्तारी औरतोंके हाथमें जा पड़नेके सबब बाईजीराज सर्दारकुंवर और उनकी दासियोंका हुकम इतना तेज हुआ, कि उक्त दासियोंमेंसे बाई रामप्यारी, जो बहुत जवान दराज थी, एक दिन अमरचन्दसे बड़ी गुस्ताखीके साथ पेश आई, इसपर उस प्रधानने, जिसके मिजाज में खुदमुख्तारी समाई हुई थी, रामप्यारीको सरस्त सुस्त कहकर ललकारा. रामप्यारीने बाईजीराजसे अमरचन्दकी बहुत कुछ शिकायत की; उन्होंने उसके कहनेपर अमल करके प्रधानको कैद करनेके लिये अपने आदमियोंको भेज दिया. अमरचन्द भी खैरख्वाहीके नशेमें चूर था, उसने अपने घरका कुल जेवर व अस्बाब छकड़ों व हम्मालों के सिरपर रखवाकर जनानी ड्यौढ़ीपर भेज दिया. यह खैरख्वाही देखकर बाईजीराजको बड़ा पछतावा हुआ, और उन्होंने वह सामान उसे वापस देना चाहा, लेकिन उसने एक जोड़ी मामूली कपड़ोंके सिवा कुछ भी न लिया. मझूर है, कि यह शुभचिन्तक प्रधान जहरसे मरवाडाला गया; जब यह मरा, तो उसके घरमें कफन भी न निकला; उसकी उत्तर क्रिया सरकारसे कराई गई. उक्त प्रधानके कोई खास औलाद नहीं थी, लेकिन उसके भाइयोंकी सन्तान अबतक इस राज्यमें मौजूद है, जिनका जिक्र किसी मौकेपर किया जावेगा.

इस खैरख्वाह प्रधानके मरनेसे रियासतको बहुत नुकसान पहुंचा, यहां हम एक प्रसिद्ध कहावतका पद्य लिखते हैं:-

दोहा.

नहिं पति बहु पति निबल पति शिशु पति पतनी नार ॥
नरपुरकी तो क्या चली सुरपुर होत उजार ॥ १ ॥

उस वक्त उदयपुरकी जैसी कुछ हालत थी, इस दोहेके अर्थसे समझ लेना चाहिये. अब दूसरा हाल सुनिये, कि महाराणा अरिसिंहने मुल्ककी हिफाजतके वास्ते, जो सिंधी सिपाहियोंकी एक बड़ी फौज नौकर रखी थी, उसने तन्ख्वाह न मिलनेके सबब महलोंमें धरना दिया. इस समय रियासतका खजाना खाली था,

राज्यके खैरख्वाह लोगोंको यह दशा देखकर बड़ा विचार पैदा हुआ. महाराज बाघसिंह, महाराज अर्जुनसिंह, महाराज गुमानसिंह व चहुवान चतरसिंह वगैरह सर्दार जनानी ज्यौठीपर शस्त्र बांधकर आजमे. चालीस दिनतक यह फ़साद रहा; आखिरकार बाईजीराजने महता लक्ष्मीचन्दको भेजकर कुरावड़से रावत अर्जुनसिंह को बुलाया, जिसने सिंधी सिपाहियोंको बहुत कुछ समझा बुझाकर कहा, कि “खजानह में रुपया मौजूद नहीं है, इलाक़हमेंसे जमा करनेपर मिलसक्ता है, इसलिये हम और तुम सब मिलकर मेवाड़में चलें और रुपया एकट्ठा करें; उन रुपयोंसे तुम्हारी तन्ख्वाह चुका दी जायेगी.” सिंधियोंने उक्त रावतसे कहा, कि “हमको एतिवारके लाइक एक ओल (१) देना चाहिये.” यह बात सुनकर बाईजीराजको बड़ा अफ़सोस हुआ, और सोचने लगीं, कि अब किसको सौंपें ! उस वक्त महाराणाके छोटे भाई भीमसिंह, जिनकी उम्र ६ वर्षकी थी, बोल उठे, कि “मुझे भेज दीजिये.” बाईजीराजको अपने बच्चेकी यह हिम्मत देखकर आश्चर्य हुआ, और उसे प्यार करके सिंधियोंके हवाले करदिया. रावत अर्जुनसिंह दस हजार सिंधियोंकी फ़ौज समेत भीमसिंहके साथ होकर उदयपुरसे इलाक़हकी तरफ़ रवानह हुए. ये लोग चित्तौड़के करीब पहुंचे थे, कि माधवराव सेंधियाका जमाई बैरजी ताकपीर चित्तौड़की तलह्ठीके कस्बहको लूटनेके लिये आ पहुंचा. उस समय छः वर्षकी उम्र वाले महाराणाके छोटे भाईने अपने साथियोंसे कहा, कि “बड़े अफ़सोस और शर्मकी बात है, कि हमारी मौजूदगीमें चित्तौड़ लुटजावे और रियासतकी बदनामी हो.” उस कम उम्र सर्दारके इस कलामका सिंधी सिपाहियोंके दिलपर इतना असर हुआ, कि उन लोगोंने जोशमें आकर बैरजीकी फ़ौजसे खूब मुकाबलह किया. भीमविलास ग्रन्थमें लिखा है, कि सिंधियोंकी फ़ौजने, उस मरहटी फ़ौजको, जो पन्द्रह हजारसे कम न थी, शिकस्त देकर भगा दिया.

चित्तौड़का क़िलेदार सलूबरका रावत भीमसिंह महाराणाके भाई और सिंधियोंको क़िलेपर लेगया, जहां उसने तन्ख्वाहके एवज़ सिंधियोंको बड़ी बड़ी जागीरें लिखदीं; और दो वर्षतक क़िलेपर रहनेके बाद रावत अर्जुनसिंह व महाराणाके भाई भीमसिंहको सलूबरके रास्तेसे उदयपुरकी तरफ़ रवानह किया. अब रियासतकी हालत दिन दिन नाजुक होने लगी. बाईजीराजने भींडरके महाराज मुहकमसिंहको, जो कोटाके झाला जालिमसिंहका दोस्त था, रियासतके कारोवारका मुख्तार

(१) किसी मोतबर आदमीको रुपयेके एवज़ सुपुर्द करदेना.

बना दिया, लेकिन यह बात सलुंवरके रावत भीमसिंह व कुरावड़के रावत अर्जुनसिंह वगैरह चूंडावतोंको बहुत नागुवार गुजरी; और सिंधियोंने भी अपनी नाराजगी जाहिर करके महाराणाका हुकम मानना छोड़ दिया, जिनको सनाढ्य अमरचन्द प्रधानने खैरखाह बनाया था. इसी अरसहमें बेगूके रावत दूसरे मेघसिंहने, जो उस वक्त रत्नसिंहका मददगार और महाराणासे बखिलाफ़ था, खालिसेके चन्द पर्गनोंपर अपना अमल करलिया; तब उदयपुरसे माधवराव सेंधियाके पास मददके लिये मोतमिद भेजे गये, वह बसांत खत्म होते ही एक बड़ी जरार फ़ौजके साथ मेवाड़में आया (१), और भीलवाड़ा मक़ामसे बेगूकी तरफ़ चला; लेकिन बेगूका मोतमिद दायमा ब्राह्मण कथा भट्ट फ़तहराम माधवरावके पास, उसके बेगू पहुंचनेसे पहिले ही पहुंच गया था. यह शख्स बहुत छोटे कदका आदमी था, जब इसने आशीर्वाद दिया, तो माधवरावने कहा कि “आओ वावन;” उक्त ब्राह्मणने जवाब दिया, कि “हां राजा बलि.” इसपर सेंधियाने कहा, कि “मांग.” उस ब्राह्मणने कहा, कि “बेगूका मुअमलह इनायत कीजिये.” माधवरावने कहा, कि “अगर तुमको यह मंजूर हो, तो महाराणा अरिसिंहके वक्त विक्रमी १८२६ [हि० ११८३ = ई० १७६९] के इक्कार मूजिब तुम्हारे ठिकानेदारसे, जो फ़ौज खर्चके रुपये दिलाये गये थे, वह अदा करादो.” इस ब्राह्मणने खुशीके साथ उन रुपयोंका अदा करना मंजूर करलिया; लेकिन रावत मेघसिंहने घमंडके मारे इस बातसे बिल्कुल इन्कार किया, और कहा, कि “हम ब्राह्मण नहीं हैं, जो आशीर्वाद देकर अपना काम निकालें, हम राजपूत हैं; रुपयोंकी एवज बारूद, गोला और तलवारसे माधवरावका कर्जह अदा करेंगे.” यह सुनकर उस मरहटे सर्दारकी फ़ौजने बेगूको घेर लिया, और छः महीनेतक (२) सख्त लड़ाई होती रही, मगर माधवरावकी फ़ौजको कामयाबी न हुई. सेंधियाको इस छोटेसे किले और ठिकानेदारके काबूमें न आने और अपना रोव उठजानेसे बड़ा अफ़सोस हुआ, तब कुरावड़के रावत अर्जुनसिंहने मेघसिंहके पुत्र प्रतापसिंहको अपनी तरफ़ करलिया, जो अपने वापसे बखिलाफ़ था. इस आपसके बखेड़ेसे लाचार होकर रावत मेघसिंह माधवरावके पास चला आया, और फ़ौज खर्चके एवज जेवर व नकद वगैरह देनेके सिवा पर्गनह गिर्वा रखकर पीछा छुड़ाया. इसवक्त दो कागज़ इक्कारनामहके तौरपर लिखे गये थे, जिनकी नछें जो हमको बेगूसे मिलीं, नीचे दर्ज कीजाती हैं:-

(१) वाज़ लोगोंका कौल है, कि माधवराव खुद नहीं आया था, उसने अपने सेनापतिको भेजदिया था, लेकिन मैं (कविराज श्यामलदास) ने बेगूके बुद्धे आदमियोंकी ज़वानी जैसा सुना है, वैसा ही मूलमें लिखा है.

(२) वाज़ लोगोंका यह भी बयान है, कि तीन महीने लड़ाई रही.



कागज़की नक़ल.

॥ श्रीरामजी.

। सीधश्री सरववोपमा लाईक राज श्री रावतजी सवाई मेगसीगजी जोग राज श्री सुबा-
दार श्री मादोरावजी सीदेके बचना, इहाका स्माचार भलाहे तुमारा भला चाहीजे, अप्रचः
सरकारकी फोज सात मेवाड़ माय आकर वेगु मोरचा लगाअे, लड़ाई हुवी; सरब
नजराणा त्या गोड़ा पड़े जीसका वा तोवषानाका षरचका ठाहारा रुपीया

९००००१ नजराणा त्या गोड़ापड़ेका वा तोफषानाका षरचका

६३००० दरबार षरच मसुदीयका

९६३००१, जीस माये सरकार माये पहुचे रुपीअ ४८१२१७, जुमले चार लाख
अकसी हजार दो सो सीतरा आगरागे रुपीअ बाकी तुमारे तरफ रुपीये रहे,
४७३७०४, जुमले आक चंगर लाख तोतर हजार सात स चंगर रुपीअ, जीसके करार
बेमोजब भरोती हुवी नही; सब बडजीगके मुकाम माय सीरकारके एवजमे तपा सीगोली,
तपा भीचोरके गाम बीगत सुमार रुःजुमल रुपे ६८३०२, अड़ट हजार तीन सो
दोअे रुप समत १८३१ का भुगाव बीगत रुपीये

३१४५१ तफा सीगोलीका

४१०० कस्बा सींगोली
१००० गाम अरणो
६०० गाम बरडावदो
३००० गाम पाछुदी
१५०० गाम प - ल
५०० गाम कछाला
५०० गाम अनेड़
४०० गाम जेसीगपुरो
२०० गाम सवलपुरो

१००० गाम बाम्णहेड़ो
२००० गाम घारडी
१०० गाम कुवाही
३१०० गाम धन गाव
६०० गाम जामरणा
८०० गाम सलोदो
४५० गाम जसवतपरो
४०० गाम देवपरो पवाराको
३०० गाम मोषाचाडोस

१००	गाम गोडीदपुरो
४००	गाम हरीपुरो
५०	गाम पेडी
५००	गाम बोहोटो
२५०	गाम अेमपुरो
३५०	गाम पीपलीषेडो
२५०	गाम जोदा कुडल
३००	गाम बजेडो
२००	गाम पेडो मादावताको

१८

४००	गाम तुरको
४००	गाम मेसपुरो गोडाको
५००	गाम जराड
३००	गाम कुबचा
३००	गाम लाडपुरो सोलषाको
४००	गाम ताल
१००	गाम बुहाडा
१८००	गाम कदवास
३००	गाम पाटण

१८

धरमा डोली २५००

३६५१ तथा भीचोरको

६५००	गाम भीचोर
१००	गाम पेमपुरो
१०००	गाम चावडो
२५००	गाम गुलावह
५००	गाम मोटचारडो
७००	गाम मेघपुरो
१०००	गाम सेणा तलाई
२५०	गाम कालदा
५००	गाम मेघपुरा जोग गोतम

९

२००	गाम नाल
५००	गाम गोपालपुरो
२०००	गाम धनोरो
२५००	गाम सरतलाई
६००	गाम गुलभरी
१५००	गाम मावुपुरो
१०००	गाम फतेपुर
६५००	गाम काटुदो
३०००	गाम थडोद

९

तीमधे धरमादो डोली रुपा ३५००), बाद बाकी ३६८५१); ६८३०२) जुमले अडसट हजार तीनसो दो रुपीअ, जीसमु बजा धरमादा व डोलीका

रु० ६०००), बाकी रुपीअ ६२२०२) वासट हजार दोसो दो रुपापे, जमले गाम

सुमार चौपन तुमारे पाससे सीरकारमे लीये, जाहा सीरकारके कामदार रहेगे अमल करेगे. जमा बैठेगा जीस माय सरबदी तथा सवार पीयादा बगेरे खरच वजा होकर बाकी रहे सो एवज चार लाख त्र्यहतर हजार सात सो चार रुपीया सीरकार में तुमारे तरफ सु लषा हरजासमाय मडेगा, सीरकारके चार लाख त्र्यहतर हजार सात सो चार रुपीया गरोक जीसका बटती परगनाके चलप सु होवे; वुजा दरसालका तक सीरकार के पुरे पड़े सीवाये सीरकार मुसु गाम छूटेगे नही; रुपीये पुरा पड़े ताई गामासु कीसी बातसु षेचल करवा मती. भील भोमर कोई षेचल करे, वुसका पार-पतका फागण मती चेत सुदी १२ समत १८३१.

छाप.

दूसरे कागज़की नक़.



॥ श्रीरामजी.

श्री श्री श्री सरब ओपमा लाअेक राज श्री रावत सवाही मेगसीगजी जोग राज श्री सुवादारजी श्री मादोरावजी सीदेकी बचना, ईहाका रमाचार भला हे, तुमारा रदा भला चाईजे, अप्रच।: ससथान वुदेपुररी मामलीती राणा श्री अडसीजी इीनोने संवत् १८२६ का सन सबेनके साल ठेराई, ओ वुस मामलीतीके एवजकी भरोती हुवी नही, सबब कालसा तथा पटाईतीके पटामाई चोथान सरकार माहे लेणा ठहेरा जीस वास्ते प्रगणे बेगुको चोथान संवत् १८३१ का सन षमस सुबेनके सालसु सरकार माहेलीअ्रा. गाम शुमार ४८ अडतालीस जुमले तनषावु रुपीआ ४३१०० जुमले तआलीस हजार सो आकावे तअलीस हजार, एकसो गाम वजा धरमादा व डोली रुप ४१००, बाकी रुप अडतीस हजार ३८०००

५१ कसबा निलीदेई

४०० गाम पाडावा

३०० मेणकेसर

३०० गाम जेतपुर दुजो कुसालजीको

१६०० गाम घामणचा

४०० गाम राजपुरा

५००	गाम नेराल	७००	गाम हडमतो
८००	गाम बील षेडो	३००	गाम अणदपुरो चवाणाको
१००	गाम मनोरपुरो	४००	गाम डाबड़ा
२५०	गाम अणदपुरो भडगोताको	४००	गाम तीरोली
६००	गाम पीपराव	४००	गाम मोकमपर
६००	गाम चलदु	४००	गाम छोटी डावडा
४००	गाम अतवा	८००	गाम आमलदो
६००	गाम कस्रपुरो	३१००	गाम बनोड़ो
१४००	गाम अतवाबडी	३१००	गाम नदवास
३००	गाम मुरोली	२००	गाम देवसा
६०००	गाम काटुदो	१५०	गाम मादोपुरो मीडकी पावको
५००	गाम अलपुरो	३००	गाम जाडोल
७००	गाम बासोटो	२५०	गाम षेडो हाडाको
१५००	गाम मेसरा	२००	गाम नीमोद
५००	गाव गुडो	१५०	गाम हरीपरो जोगाको
३००	गाम तुवो	५००	गाम परकाषेडी
१२००	गाम मारणा	५००	गाम देवपरो जोस्याको
२००	गाम अणदपुरो	१०००	गाम वसी
५००	गाम सालेरो	२५०	गाम सुवाणो
२००	गाम करणपुरो	२६००	गाम आवल हेडो
१२००	गाम राहीती	५००	गाम पुरबाषेडो
११००	गाम जेतपर		

१३२५० २४

२४७५ २४

जुमले गाम सुमारी अडतालीस तनषा अडतीस हजार रुपे सीरकार मे माये लिये हैं, सो सीरकारके अमलदार रहे आल करेगे, इनसो कोडी बातका षरच क्रोगा मती. मामलतीका रुपीअग्र भर चुकेके उपरात गाम सीरकार मेयसु छुटेंगे भील मोगा कोडी षेचल करे वुसका पारपत तुम करोगा. मती चेत सुद १२ समत १८३१.

छाप.

बेगूँके ठिकानेपर और भी मरहटोंने तबाहियां डाली थीं, जिनका जिक्र किसी मौकेपर कियाजावेगा. फिर बैरजी ताकपीर और आंबाजी एङ्गलियाने मेवाड़पर धावा किया, और इसी लूट खसोटकी हालतमें रियासतके अन्दर आपसकी ना-इत्तिफाकियां बढीं, जिससे दिन दिन मुल्ककी बर्बादी पेश आती थी. कृष्णगढ़के राजा बहादुरसिंहको, जो राजपूतानहमें बड़े आकिल रईस और महाराणा अरिसिंह के स्वसुर थे, बाईजीराजने अपना मददगार बनानेके लिये कागज़ लिखा; जिसके जवाबमें बहादुरसिंहने उनकी बहुत कुछ तसल्ली की, और कहा कि, मैं अपने जान व मालसे मेवाड़के लिये हाजिर हूं; और इसके साथही यह दर्र्वास्त की, कि मेरी पोती, कुंवर बिड़दसिंहकी बेटी अमरकुंवरकी शादी महाराणाके साथ हो. बाईजीराजने इस दर्र्वास्तको मंजूर किया, लेकिन इन्हीं दिनोंमें हुल्करकी सरकारने मेवाड़पर जोर डाला, कि जिस तरह सेंधियाको फौज खर्चके एवज़ इलाके गिर्वी दिये हैं, उनके हम भी हकदार हैं, क्योंकि जो मुआमलह ठहरे, उसमें पेशवा, हुल्कर और सेंधिया, तीनोंका हिस्सह बराबर होता है. इस बातपर सेंधियाने कुछ लिहाज़ न किया; और रियासत उदयपुर आपसकी नाइत्तिफाकी, तथा महाराणाकी कम उम्मीसे इस वक्त बिल्कुल कमजोर होरही थी, ऐसा कोई नहीं था, कि हुल्करको वाजिबी जवाब देता. आखिरकार लाचार होकर विक्रमी १८३१ [हि० ११८८ = ई० १७७४] में अहल्या बाईको नीवाहेड़ेका पर्गनह देना पड़ा.

इसी अरसहमें कृष्णगढ़के महाराजा बहादुरसिंहने अपनी पोतीके विवाहका लग्नपत्र भेजा. बाईजीराजने अपने बेटेकी बरातके लिये फौजका बन्दोबस्त किया (१). और उदयपुरमें राज्य प्रबन्धके लिये देलवाड़ेका राज सज्जा, कोठारियाका रावत् विजयसिंह, व महाराज बाबा बाघसिंह रखेजाकर बरातमें महाराणाके साथ उनके छोटे भाई भीमसिंह, व बाबा महाराज अर्जुनसिंह, बीजोलियाका राव शुभकरण, भैंसरोड़का रावत् मानसिंह, कुरावड़का रावत् अर्जुनसिंह अपने बेटे जगत्सिंह समेत, महाराज अनोपसिंह, जहाजपुरका राणावत बाबा भोपतसिंह खुमाणसिंहोत, चूडावत कृष्णावत रावत् सर्दारसिंह, आरज्याका बाबा पद्मसिंह पूरावत, थांवलाका चहुवान कुशलसिंह, सनवाड़का बाबा जैतसिंह राणावत, बनेड़्याका चहुवान चतुरसिंह, पुरोहित नन्दराम, साह किशोरदास देपुरा, अगरचन्दका बेटा महता देवीचन्द मए मांडलगढ़की जम्इयतके, धायभाई

(१) कुम्भलमेरपर रत्नासिंहका फुतूर बाकी था, और सर्दारोंकी ना इत्तिफाकीसे बाईजीराजको यह डर था, कि कोई गनीमको लाकर रास्तेमें मेरे बेटेपर हमलह न करे.

कीका, चारण पन्ना आढ़ा, जमादार सादिक, और जमादार चन्दर, वगैरह सर्दार अपनी अपनी जम्इयतों समेत गये. उदयपुरसे रवाना होकर महाराणा शाहपुरे पहुंचे. शाहपुरेके राजा भीमसिंहने पेशवाई वगैरह अदब आदाबसे पेश आकर फौज समेत महाराणाकी बहुत कुछ मिहमानी व खातिरदारी की.

महाराणाने शाहपुरेसे राजा भीमसिंहको भी साथ लेलिया; जब कृष्णगढ़ पहुंचे, तो महाराजा बहादुरसिंह साढ़ेचार कोसतक पेशवाईको आया. विक्रमी १८३३ माघ कृष्ण १२ [हि० ११९० ता० २५ जिल्हज = .ई० १७७७ ता० ५ फेब्रुअरी] को विवाह होचुकने बाद (१), महाराजा बहादुरसिंहने मिहमानी व दहेज वगैरह बहुत अच्छी तरह देकर महाराणाको विदा किया, और अपने कुंवर विड़दसिंहको दो हजार फौज सहित उनके साथ भेजा. महाराणाने नाहरमगरा मकामपर पहुंचकर विड़दसिंहको विदा किया; और इसी जगह सलूंवरका रावत् भीमसिंह नीचे लिखे हुए सर्दार पासवानों समेत महाराणाकी खिन्नतमें हाजिर हुआ:—

सादडीका राज सुल्तानसिंह आला, बेदलाका राव प्रतापसिंह चहुवान, बेगूका रावत् मेघसिंह चूडावत मेघावत, कान्हौड़का रावत् जगतसिंह सारंगदेवोत, आमेटका रावत् प्रतापसिंह चूडावत जगावत, बागौरका महाराज बाबा भीमसिंह, वनेडाका राजा हमीरसिंह, महुवाका बाबा सूरतसिंह राणावत, हमीरगढ़का रावत् धीरतसिंह राणावत, साह नन्दलाल देपुरा, साह मौजीराम बौल्या, साह एकलिंगदास बौल्या साह विजयसिंह नाणावटी वगैरह.

नाहरमगरेसे महाराणा उदयपुर आये, और विवाहकी रीति पूरी होचुकने बाद उसी फौजके साथ नाथद्वारे होकर कुम्भलमेर खाली करानेके इरादेसे आगे बढ़े; लेकिन रावत् राघवदास देवगढ़से एक बड़ी जम्इयत लेकर रत्नसिंहकी मददको आता था, रास्तेमें रीछेड़ गांवके पास महाराणाकी फौजसे उसका मुकाबला हुआ, परन्तु वह भागकर सहीह सलामत कुम्भलमेर पहुंच गया, इसलिये महाराणा चतुर्भुजनाथके दर्शन करके उदयपुर लौट आये, और कुल सर्दारोंको अपनी अपनी जागीरोंपर जानेकी रुखसत दी. विक्रमी १८३४ मार्गशीर्ष [हि० ११९१ जिल्काद = .ई० १७७७ डिसेम्बर] का जिक्र है, कि महाराणा शिकारको गये थे, एक हिरनपर गोली चलाते वक्त बन्दूक फटकर उसके टुकड़ेसे उनके हाथका


(१) कृष्णगढ़के प्रधान महता सौभाग्यसिंहने कृष्णगढ़के राज्यवंशका जो एक नक्शा हमारे पास भेजा है, उसमें इस शादीका माघ कृष्ण ३ को होना लिखा है, लेकिन हमने “ भीमविलास ” ग्रन्थके लिखे अनुसार, जो महाराणा भीमसिंहके हुक्मसे तय्यार हुआ था, द्वादशी लिखा है.


मांझा (१) बिखर गया, जिसका इलाज जराहों वगैरहने बहुत कुछ किया, लेकिन दर्द दिन दिन बढ़ता गया. आखिरकार विक्रमी पौष शुक्ल ८ [हि० ता० ७ जिल्हिय = .ई० १७७८ ता० ६ जैनुअरी] को महाराणा हमीरसिंहका देहान्त होगया. इनके साथ तीन खवास याने पासवान सती हुई. इन महाराणाके इन्तिकालकी बावत यह भी मशहूर है, कि उन्होंने आम लोगोंके साम्हने यह कहदिया था, कि जितने हरामखोर हैं, उन सबसे मैं बदस्वाहीका एवज लूंगा. इस सबसे उस घावपर जहरकी पट्टी चढ़वा दी गई; और उसी जहरसे उनका इन्तिकाल होगया. बाजका कौल है, कि सांठेके गट्टोंमें जहर खिलाया गया. इनकी पैदाइश का महीना व तिथि तो सहीह है, लेकिन संवत्में सन्देह मालूम होता है; हमारे क्रियाससे विक्रमी १८१८ ज्येष्ठ शुक्ल ११ [हि० ११७४ ता० १० जिल्काद = .ई० १७६१ ता० १३ जून] को महाराणा सदांरकुंवरसे इनका पैदा होना मालूम होता है. इनका रंग गेहुवां, कद मझोला, आंखें बड़ी और पेशानी चौड़ी थी. चिह्रा हंसीला व खूबसूरत था, आदतमें फय्याजी और गुस्सह था, तबीअत साफ़ और बहादुरीसे खाली न थी.

—०*—
दोहा.

अरसी नृप परलोक पद । मिहर प्रकाश हमीर ॥
अमरचन्दको मृत्यु जो । स्वामि भक्त बड़ धीर ॥ १ ॥
बेघम पै मरहट्ट दल । दंड द्रव्य तैं दैन ॥
महि विभागकर मेघतैं । निज दल गिरवी लैन ॥ २ ॥
निम्बाहेड़ा प्रांत इक । हुलकरको लिख दीन ॥
फिर हमीर नृप कृष्णगढ़ । किल विवाह निज कीन ॥ ३ ॥
फिर कुंभलगढ़ पै हला । कर आए निज गेह ॥
भावी प्रबल हमीरने । कियो जु त्यागन देह ॥ ४ ॥
सजन आशय तैं फतै । शासन मनको मंड ॥
कविराजा श्यामल कियो । मंडन पूरन खंड ॥ ५ ॥

(१) हाथके अंगूठे और तर्जनीके बीच वाली चमड़ेकी सीवनको “ मांझा ” बोलते हैं, जिसे उर्दू ज़बानमें “ घाई ” कहते हैं.





पन्द्रहवां प्रकरण.

महाराणा दूसरे भीमसिंह.

महाराणा हमीरसिंहका ऐसी छोटी उम्रमें, कि जो ऐन जवानीका शुरू था, इन्तिकाल होजानेसे बाईजीराज सर्दारकुंवरको बहुत रंज हुआ; क्योंकि अक्वल तो वह अपने पति महाराणा अरिसिंहके ही रंजमें डूबी हुई थीं, जो कुछ कम चार वर्ष पहिले दगासे मारेगये, दूसरे इस वक्त उन्हें अपने प्यारे बेटेकी असह दुःख पैदा करनेवाली मौतका सद्ग्रह उठाना पड़ा, कि जिसने उनके दिलमें राज्यके बखेड़ोंसे दिली नफ़्त पैदा की. हाजिरीन लोगोंने हमीरसिंहकी जगह उनके छोटे भाई भीमसिंहको गद्दीपर बिठाना चाहा, तब बाईजीराजने साफ़ इन्कार करदिया, और कहा, कि मैं अपने इकलौते बच्चेके लिये ऐसा राज्य नहीं चाहती, जिसमें उसकी जानका खतरह हो; मैं अपना ग़रीब हालतमें रहना और अपने बेटेको देखकर बाकी जिन्दगी पूरी करना पसन्द करती हूँ. इसपर उन लोगोंने अर्ज किया, कि राज्यका दावा छोड़कर आप अपने बेटेको और भी ज़ियादह खतरेमें डालेंगी, क्योंकि अगर ऐसी हालतमें रत्नसिंह मेवाड़का मालिक बनगया, तो कब आपके बच्चेको जिन्दह छोड़ेगा ! इस तरहकी बातोंके सुननेसे बाईजीराजने लाचार भीमसिंहको गद्दीपर बिठाना कुबूल किया.

विक्रमी १८३४ पौष शुक्ल ९ [हि० ११९१ ता० ७ जिल्हिज = ई० १७७८

ता० ७ जैनुअरी] को महाराणा भीमसिंह नौ वर्ष साढ़े नौ महीनेकी उम्रमें गद्दीपर

बिठाये गये; सात घड़ी रात गये पुरोहित रामराय, एकलिंगदास बौल्या, महाराज वाघसिंह, महाराज अर्जुनसिंह, महाराज अनोपसिंह, देलवाड़ेके राज सजा, कुरावड़के रावत् अर्जुनसिंह, सनवाड़के बाबा जैतसिंह, भदोसरके रावत् सर्दारसिंह, चारण पन्ना आढा, धायभाई रूपा, व धायभाई कीका वगैरह सर्दार तथा पासवानोंने नज़े दीं. कर्नेल टॉड लिखते हैं, कि विक्रमी १८०८ [हि० ११६४ = ई० १७५१] से इस वक्तक अट्ठाईस लाख पचास हजार सालियानहकी आमदनीका मुल्क (१) मेवाड़से निकल गया.

और महाराणा भीमसिंहके गद्दीपर बैठनेके वक्तसे चालीस वर्षतक मरहटोंने और भी रहा सहा इस मुल्कको बर्बाद किया, अगर्चि मुसल्मान बादशाह मेवाड़के दिली दुश्मन थे, लेकिन वे बादशाहतके तरीकेपर हुकूमत करनेके सबब इन्साफके भी पाबन्द थे; ये मरहटे लोग, जिनको लूटनेके सिवा और कोई तरीका पसन्द न था, मेवाड़को बर्बाद करनेके लिये एक सरूत बला थे. कर्नेल टॉडके लेखसे मरहटोंने १८१००००० रुपयेके अनुमान इस मुल्कसे वुसूल किया (२). अगर मुल्ककी बर्बादी न होती और बहुतसे जिले इस रियासतसे अलहद्दह न निकल जाते, तो यह रकम अदा हो सकती थी, लेकिन उन लुटेरे गनीमोंने दौलत व मुल्क लूटनेके अलावह सरूत खूरेजियां भी कीं.

महाराणा भीमसिंहके शुरू अह्दमें सुखालिफ सर्दारोंने रत्नसिंहका साथ छोड़दिया, तब महाराणा विक्रमी १८३८ चैत्र कृष्ण १३ [हि० ११९६ ता० २६ रबीउल्अव्वल = ई० १७८२ ता० ११ मार्च] को खानह होकर देवगढ़से रावत् राघवदासको लेआये, जो रत्नसिंहका बड़ा एतियारी सर्दार था. इसी वर्षमें सलूवरके रावत् भीमसिंहने अपनी चार बेटियोंका विवाह किया, जिनमेंसे एकका बीकानेरके महाराजा गजसिंहके बड़े कुंवर राजसिंहके साथ, दूसरीका ईडरके महाराज शिवसिंहके कुंवर भवानीसिंहके साथ, तीसरीका रतलामके राजा पद्मसिंहके कुंवर प्रतापसिंहके साथ, और चौथीका देलवाड़ाके राज सजाके पुत्र कल्याणसिंहके साथ.

(१) विक्रमी १८०८ [हि० ११६४ = ई० १७५१] में रामपुरा और भानपुरा ९००००० का, विक्रमी १८२६ [हि० ११८३ = ई० १७६९] में जावद, जीरण, नीमच, और बीवाहेड़ा ४५०००० के, विक्रमी १८३१ [हि० ११८८ = ई० १७७४] में रत्नगढ़ खेड़ी, सींगोली, अरएया, जाठ, व नन्दबाघ वगैरह ६००००० के, और इसी वर्षमें गोड़वाड़ ९००००० का, जुम्लह २८५००००. यह नोट कर्नेल टॉडकी किताबसे निकल किया गया है.

(२) विक्रमी १८०८ [हि० ११६४ = ई० १७५१] में ६६०००००, विक्रमी १८२० [हि० ११७७ = ई० १७६३] में ५१०००००, जुम्ले ११७०००००, हुक्करने और विक्रमी १८२६ [हि० ११८३ = ई० १७६९] में ६४०००००, माधवराव संधिवाने, कुल १८१०००००, रुपया हुसूल किया.

रावत् भीमसिंहने महाराणाको भी इस शादीमें मिहमान किया था. मशहूर है, कि इन शादियोंमें रावत् भीमसिंहने दस लाख रुपया खर्च किया, और चारण भाट वगैरह लोगों को छः महीनेतक बराबर त्याग वांटा, जो कोई शख्स इस उम्मेदसे उक्त रावत्के पास आया, उसे इन्कार नहीं किया गया. कहते हैं कि, एक भाट सटकेमें बहुतसे मेंडक भरलाया था, उन सबका भी रावत् भीमसिंहने त्याग चुकाया. जब महाराणा सलूंवरसे उदयपुरको आये, तो उस वक्त आमेटका रावत् प्रतापसिंह व कुरावड़का रावत् अर्जुनसिंह दोनों महाराणाके बड़े एतिवारी मुसाहिव थे.

विक्रमी १८४० [हि० ११९७ = ई० १७८३] में रावत् अर्जुनसिंह महाराणाकी तरफसे भींडरके महाराज मुहम्मदसिंहपर फौज लेगया, और भींडरको जाघेरा. रावत् लालसिंह शक्तावतका बेटा संग्रामसिंह, जो इन दिनोंमें नामवर गिना जाता था, और जिसने सर्दारगढ़, याने लावाका किला डोडिया ठाकुर सर्दारसिंहके बेटे सावन्तसिंहसे छीन लिया था, भींडरका मददगार होकर अर्जुनसिंहकी जागीर (कुरावड़) पर हमलह करने लगा. एक दफा जबकि वह मवेशी घेरकर लिये जाता था, अर्जुनसिंह का बेटा जालिमसिंह आ पहुंचा, जिसको उसने वल्लेसे मारडाला. यह खबर सुनकर अर्जुनसिंहने अपने सिरसे पधड़ी उतारकर फेंटा बांधलिया, कि बेटेका एवज लेने वाद पधड़ी सिरपर रक्खूंगा; और भींडरसे मोर्चे उठाकर कुरावड़ चला गया. इस वक्तसे चूडावतों और शक्तावतोंके दरमियान अदावत जियादह बढ़ी, यहांतक, कि एक दूसरेकी जान लेनेको मुस्तइद होगये.

महाराणा भीमसिंहका पहिला सम्बन्ध ईंडरके राजा शिवसिंहकी बेटी अक्षयकुंवरसे हुआ था. जब इस विवाहकी तय्यारी होने लगी, तो कोटेसे झाला जालिमसिंहने मामाके रिश्तेसे नीचे लिखा हुआ सामान देकर गेंताके हाड़ा नाथसिंह और कनाडीके झाला भवानीसिंहको उदयपुर भेजा:-

हीरेकी पहुंची जोड़ी १, मोतियोंकी माला १, ढाल १ सिलहट, सोनेके साज को तलवार १, कटारी १ सोनेके सामान सहित, महाराणाको उनके कुटम्बियों सहित सरोपाव और घोड़े मए जेवरके; ये तमाम चीजें नज़्जके तौर पेश की गईं.

महाराणाने उदयपुरसे खानह होकर पहिला मक़ाम तीतरडी गांवमें किया; बरात में कोटेके दोनों सर्दार मए १००० आदमियोंके व देयगढ़का रावत् राघवदास, आमेटका रावत् प्रतापसिंह, वावा महाराज अर्जुनसिंह, और कुरावड़का रावत् अर्जुनसिंह साथ थे. इसी मक़ामपर रावत् अर्जुनसिंह अठ्ठल दरजेके उमरावोंमें पारसोलीकी बैठकपर बिठाया गया. यहांसे खानह होकर बड़गांवमें मक़ाम हुआ, जहां ईंडरके

राजा शिवसिंहका वलीअहद भवानीसिंह पेशवाईको आया. यहांसे रवानह होने बाद डूंगरपुरके नज्दीक वहांके रावल शिवसिंह दो हजार आदमियों समेत महाराणाकी वरातमें शामिल हुए. ईडरसे चार कोसतक राजा शिवसिंह पेशवाईको आये. विक्रमी १८४१ ज्येष्ठ कृष्ण ११ [हि० ११९८ ता० २४ जमादियुस्सानी = ई० १७८४ ता० १५ मई] को महाराणाने ईडर पहुंचकर बड़ी धूम धामसे विवाह किया, और राजा शिवसिंहको अपनी गद्दीपर सांभने बैठनेकी इजाजत दी. महाराणा भीमसिंह ईडरसे लौटकर देव गदाधर (प्रसिद्ध सांवलाजी) के दर्शन करके डूंगरपुर पहुंचे. रावल शिवसिंहने नज़, निछावर व पगमंडे वगैरह सब दस्तूर अदा करके बहुत अच्छी तरह मिहमानी की. फिर वहांसे विदा होकर महाराणा उदयपुर आये.

इन दिनोंमें रावत् अर्जुनसिंह वगैरह मुसाहिवोंने महाराणाको अपने काबूमें करलिया. जब कभी खर्चके लिये रूपया दर्कार होता, वे लोग खाली जवाब देदेते; एक दिन बाईजीराजने इन मुसाहिवोंसे कहलाया, कि महाराणाके जन्मोत्सवका जल्सा करीब आता है, इसलिये रुपयोंका बन्दोबस्त करना चाहिये; इन लोगोंने अपनी आदतके मुवाफिक इस मौकेपर भी खाली जवाब दिया, जिसपर बाईजीराजको बहुत गुस्सह आया. जनानी ड्यौढीके नौकरोंमेंसे सोमचन्द नामी एक गांधी महाजन था, उसने बाई रामप्यारीसे कहा, कि बाईजीराजको रावत् अर्जुनसिंह बड़े कारगुजार मालूम होते हैं, अगर मुझको प्रधानेका सिरोपाव दखें, और महाराज अर्जुनसिंहको मेरे साथ मकानपर भेजदें, तो फौरन रुपयोंका बन्दोबस्त होजायेगा. रामप्यारीकी सलाहसे यह बात मन्जूर होकर सोमचन्द प्रधान बना दिया गया. यह बड़ा अक्लमन्द और होश्यार अह्लकार था, इसने चूडावतोंके मुखालिफोंको अपना दोस्त बनाया और कुछ रूपया एकट्टा करके बाईजीराजके पास भेजदिया. यह बात सुनकर रावत् अर्जुनसिंह, रावत् प्रतापसिंह व भीमसिंह वगैरह सदांर बहुत हंसे, और जिसको सोमचन्दका दोस्त जाना, उसीको नुकसान पहुंचाने लगे. सोमचन्दने अकलमन्दीसे सबके साथ मुहव्वत बढ़ाई, इससे उसका गिरोह बढ़गया. इस नये प्रधानने कोटाके झाला जालिमसिंहको भी अपना दोस्त बनालिया, जो चूडावतोंका दिली दुश्मन था; उसकी रायपर विक्रमी १८४२ फाल्गुन शुक्ल ३ [हि० १२०० ता० २ जमादियुल अब्बल = ई० १७८६ ता० ३ मार्च] को बाईजीराज और सोमचन्द की सलाहसे यह बात करार पाई, कि महाराणा भीडर जाकर महाराज मुहकमसिंहको लेआवें, जो बीस वर्षसे महाराणाके विरुद्ध कार्रवाई करता था. महाराणा उदयपुरसे रवानह होकर भीडर पहुंचे; उसी दिन झाला जालिमसिंह भी पांच हजार फौज समेत वहां हाजिर होगया, और मुहकमसिंहको साथ लेकर जालिमसिंह सहित महाराणा उदयपुर

आये. चूडावत सर्दार, जो इस नये प्रधानकी हंसी उड़ाते थे, बिल्कुल फीके पड़गये.

इन्हीं दिनोंमें, याने विक्रमी १८४२ चैत्र कृष्ण ९ [हि० १२०० ता० २३ जमादियुल-अव्वल = .ई० १७८६ ता० २४ मार्च] को महाराणी भटियाणीके गर्भसे एक पुत्र पैदा हुआ, जिसकी खुशीमें बड़ा भारी जलसह किया गया, और उसी उत्सवपर चारण आढ़ा दूलहसिंह को हाथी व गांव वगैरह लाख पशाव; चारण आसिया जशवन्तसिंहको घोड़ा, सिरोपाव और गांव; कृष्णगढ़के चारण बारहट शिवदानको घोड़ा व सिरोपाव; बारहट भोपसिंहको घोड़ा व सिरोपाव; और बारहट रत्नसिंहको घोड़ा वगैरह बख्शे जानेके सिवा और भी बहुतसे सर्दारों व चारणों तथा पासवानोंको घोड़े व सिरोपाव वगैरह इन्आममें दिये गये.

विक्रमी १८४३ वैशाख शुक्ल ७ [हि० १२०० ता० ६ रजब = .ई० १७८६ ता० ४ मई] को ईडरकी महाराणी अक्षयकुंवरके गर्भसे एक राजकुमारी और विक्रमी १८४४ भाद्रपद कृष्ण ११ [हि० १२०१ ता० २४ जिल्काद = .ई० १७८७ ता० ७ सेप्टेम्बर] को एक राजकुमारका जन्म हुआ, जिसपर चारण बारहट खूबचन्दको हाथी, सिरोपाव व सिरशोभा; बारहट शिवदानको घोड़ा, सिरोपाव और गांव; बारहट भोपसिंहको घोड़ा, सिरोपाव तथा गांव, और आसिया जशवन्तसिंहको घोड़ा, सिरोपाव व गांव वगैरह बख्शे गये और इसी तरह दूसरे लोगोंने भी हस्व हैसियत घोड़े, सिरोपाव वगैरह इन्आम इक्राम हासिल किया.

माधवराव सेंधिया व आंवा रंगलियाको सोमचन्दने अपना मददगार बना लिया, जो जालिमसिंहका दोस्त था, परन्तु महाराणाका यह हाल था, कि वह अपनी युवा-वस्थाके कारण न तो एक जगह ठहरते और न किसीकी बातपर खयाल करते थे; इसलिये कृष्णगढ़के महाराजा विड़दसिंहके पाससे चारण बारहट शिवदानको बुलवाया, जिसकी यह खूबी थी, कि अगर किसी सभामें बहुतसे आदमी बैठे होते, और वहांपर वह कोई प्रसंग छेड़ देता, तो सब लोग उसीकी तरफ मुतवजिह होजाते थे. महाराणाके दिलपर उस कवीश्वरकी बातोंने ऐसा असर किया, कि वह एक जगह बैठकर दो दो पहरतक उसकी बातें सुनने लगे. इस बुद्धिमान बारहटकी उपयोगी बातें सुननेसे महाराणाको रियासती कार्रवाईके ढंग और कई पोलिटिकल मुआमलातमें बहुत कुछ वाकफियत होगई, जिससे सोमचन्दका भी हौसला जियादह बढ़गया. भाला जालिमसिंह तो इस वक्त कोटे चला गया, लेकिन प्रधान सोमचन्द व महाराज मुहकमसिंह वगैरहकी एक सम्मति होकर यह करार पाया, कि मेवाड़के जिले, जो भरहटोंने दवालिये हैं, शम्शेरके जरीएसे छीन लेना चाहिये;

लेकिन ऐसे मौकेपर चूडावतोंको भी शामिल करलेना बिहतर है, कि जिससे आपसमें बखेड़ा

पैदा न हो. यह सलाह ठहरने बाद बाई रामप्यारीकी मारिफ़त रावत् भीमसिंह को तसल्ली देकर सलूबरसे बुलाया; लेकिन उसको एतिवार न था, इसलिये आमेटके रावत् प्रतापसिंह, कुरावड़के रावत् अर्जुनसिंह, भदेसरके रावत् सर्दारसिंह और हमीरगढ़के रावत् धीरतसिंहको साथ लेकर उदयपुर आया, और शहरके बाहर कृष्णविलासमें डेरा रक्खा. इस अरसेमें ज़ालिमसिंहका भेजा हुआ, भींडरका महाराज मुहकमसिंह भी कोटेसे पांच हजार सवारोंकी जम्इयत लेकर आ पहुंचा; जिसमें कनाड़ीका राज भवानीसिंह भाला, कोयलाका आप सूरजमल्ल हाड़ा, फलायताका आप अमरसिंह हाड़ा, गेंताका नाथसिंह हाड़ा और जयसिंह हाड़ा, ऊमरी भदौराका सीसोदिया सोहनसिंह सगरावत और दयानाथ बरूही वगैरह मुख्तार थे. जोकि इस फौजका डेरा चंपाबाग व हरसिद्धी, माताके करीब हुआ था, इस लिये रावत् भीमसिंहको खौफ़ हुआ, कि शायद यह बन्दोबस्त हम लोगोंके क़त्ल करनेको ही हुआ है, और इसी अन्देशसे वह अपने साथियों समेत रंजीदह होकर चल निकला. सोमचन्द वगैरह खैरखाह लोगोंका मन्शा खराब न था, इन लोगोंने बाईजीराजको कहा, कि आप पधारकर तसल्लीके साथ उसे ले आवें; तब उक्त राज माता पलाणा नामी ग्राममें पहुंचकर चूडावतोंको तसल्ली के साथ एकलिंगपुरीमें लाई, और वहां क़स्म वगैरहसे उनका सन्देह दूर करने बाद उदयपुर ले आई.

सोमचन्दने खानगी बखेड़ा दूर करके जयपुर, जोधपुर वगैरह रियासतोंसे भी मरहटोंको राजपूतानहके बाहर निकाल देनेकी सलाह करली थी. इस बारेमें सोमचन्दके नाम जोधपुरसे मोहणोत ज्ञानमल्लके भेजे हुए एक कागज़की नक़्क़ पाठकोंकी वाक़फ़ियतके लिये नीचे दर्ज कीजाती है :-

ज्ञानमल्लके कागज़की नक़्क़.

—*—

स्वस्ति श्री उदेपुर सुथाने साहजी श्री सोमजी जोग्य, जोधपुर मेड़तीया दरवाजा बारला डेरा थी मोहणोत ग्यानमल लीषावतं जुहार वांचजो—अठारा समाचार श्री जीरे तेज प्रतापसुं भला छे, राजरा सदा भला चाहीये अप्रच :- कागद राजरो आयो, समाचार श्री हजुर मालुम कीया, राज लीषीयो इतरा दीन जेज हुई, सो तो सीरदारारे माहो मांहरो बेधोथो, जीण राहसुं हुई; नें हमेंतो सारी बात पुषत वीचारने पटेलरा मुकासदार सीताव उठाय देणा ठेहराया छै; सो सीताव उठाय देणामें आवसी. सारी वातां तीनीरा यतनारो सामलात पणो छे, सु दुरस छे. श्री दीवाणजी राजीसथानामें मुष्य छे, सो या बात जोग हीज छे; तीनांही

राजस्थानारा सामलायत एकठपणांसुं घणो फायदो छे, ने राजस्थानारो घणो दोर वधसी, ने कोड़ी ही दषणी राजस्थानने आसंगमें ल्यायसकसी नहीं. हमे पटेलरा मुकासदार उठावणारी जेज करणारी सरबथा सलाह न छे, सीताव उठाय देणा; और सारा समाचार उपाध्या मनरुपजीरा कागदमें लीषीया छे; सु कहसी— संवत १८४४ भादवा सुद ३.

अगर्चि सोमचन्द प्रधानने बहुत अच्छी तरहसे चूडावतोंकी सफ़ाई करवा दी थी, तो भी इस गिरोहके दिलोंका सन्देह दूर न होनेके सबब वे उदयपुरकी हिफ़ाज़त पर रक्खे गये, और बाकी फ़ौज मए कोटाकी जमड़यतके मालदास व मौजीराम महताकी मुख्तारीमें खानह हुई. इन लोगोंने नीवाहेड़ा, नकूप और जीरण वगैरह कुल ज़िलोंसे मरहटोंको निकालकर उनपर अपना क़बज़ह करलिया. मरहटी सिपाह, जो जावदमें जमा होगई थी, महाराणाकी फ़ौजने वहां पहुंचकर उसका मुकाबलह किया. कुछ दिनोंतक नाना सदाशिवराव लड़ा, लेकिन् फिर चन्द शर्तोंपर शहर छोड़कर चला-गया. बेगूके रावत् मेघसिंहने भी अपने उन पर्वनोंपर अमल करलिया, जो पहिले उसने मरहटोंके सुपुर्द किये थे.

यह ख़बर सुनकर अहल्याबाईने तुलाजी सेंधिया व श्रीभाईकी मातहतीमें एक फ़ौज इस तरफ़को खानह की, रास्तेमें सेंधियाकी फ़ौज और मन्दसौरसे शिवा नाना भी इनके शरीक होगया, जिसने मेवाड़ी राजपूतोंके मुकाबलेसे भागे हुए लश्करको एकट्ठा करलिया था. इन तीनों गिरोहोंके शामिल होजानेसे उन लोगोंके पास बड़ी भारी जमड़यत होगई. मरहटी फ़ौजने मन्दसौरसे मेवाड़की तरफ़ कूच किया. यह ख़बर पाकर मालदास महताने भी अपनी फ़ौजकी दुरुस्ती की. सादड़ीका राज सुल्तानसिंह, देलवाड़ेका राज कल्याणसिंह, कान्हौड़का रावत् ज़ालिमसिंह, सनवाड़का बाबा दौलतसिंह मए अपने भाई कुशालसिंहके और जमादार सादिक व जमादार पंजू सिंधी वगैरह सदार मए अपनी अपनी जमड़यतके खानह हुए. गांव चलदूके करीब हड़क्या खालपर विक्रमी १८४४ माघ कृष्ण ४ [हि० १२०२ ता० १७ रबीउर्रसानी = ई० १७८८ ता० २६ जैनुअरी] मंगलवार को मरहटोंकी फ़ौजसे मुकाबलह हुआ. पहिले हमलेमें तो राजपूतोंने गनीमोंको बड़े जोर शोरसे रोका, लेकिन् जब दूसरा हमलह हुआ, तो ये लोग तलवार और बछोंसे लश्करपर टूट पड़े. उसवक्त मेवाड़की फ़ौजका अफ़सर महता मालदास मुखालिफ़ोंके हाथसे मारा गया, और सादड़ीका राज सुल्तानसिंह ज़रूमी होकर मरहटोंके पंजेमें गिरिफ़्तार हुआ.

देलवाड़ेका राज कल्याणसिंह ज़रूमोंसे चूर होकर बच रहा; कान्हौड़का रावत ज़ालिमसिंह भी बहुत ज़रूमी हुआ; बाबा दौलतसिंहने सिलहपर तलवारोंके कई वार झेले, और उसका छोटा भाई कुशालसिंह मारा गया; जमादार पंजू सिंधी काम आया, और जमादार सादिककी सिलहपर कई तलवारें लगीं. इन सर्दारोंकी जम्झयत बड़ी बहादुरीके साथ मारी गई, और बाकी फ़ौज अन्तर होकर जावदमें एकट्ठी हुई. मरहटोंने दूसरे कुल मकामोंपर अपना अमल करके जावदको आघेरा, कि जहांपर महता अग्रचन्दका भतीजा दीपचन्द बड़ी बहादुरीके साथ लड़ रहा था; एक महीनेके बाद वह कई शतोंके साथ सिलहखानह वगैरह अस्बाब लेकर अपने आदमियों सहित मांडलगढ़ चला आया. राज सुल्तानसिंह दो वर्ष तक मरहटोंकी कैदमें रहने बाद अपने पट्टेके चार गांव देकर रिहा हुआ, और मेवाड़के क़वजेमें आये हुए ज़िले फिर हाथसे निकल गये; लेकिन साह सोमचन्द गांधीने हिम्मत न छोड़ी, मेवाड़के तहतमें जो मुल्क बाकी रहा, उसको आबाद और दुरुस्त करलिया.

विक्रमी १८४५ [हि० १२०२ = ई० १७८८] में महाराणाने वारहट शिवदानको लाख पशाव दिया, जिसमें उसने गांव और जीविका पाई, जो अबतक उसके क्रमानुयायी चंडीदानके क़वजेमें है. वारहट शिवदान (१) महाराणाका बड़ा सलाहकार होगया था, यहांतक, कि महाराणा भीमसिंहके ज्योतिदानमें सलाहके वक्तकी तस्वीरमें भी उसका चित्र मौजूद है.

अब हम साह सोमचन्द प्रधानके आपसकी अदावतसे मारे जानेका हाल लिखते हैं. इस वक्त रियासतमें सर्दार व मुसाहिबोंके दो फ़िर्के हो रहे थे, जिनमेंसे सलूबरके रावत भीमसिंह, कुरावड़के रावत अर्जुनसिंह, और आमेटके रावत प्रतापसिंह वगैरह चूंडावतोंका गिरोह कम ताकत, और दूसरे फ़िर्केके लोग याने भींडरका महाराज मुहकमसिंह व प्रधान साह सोमचन्द वगैरह ताकतवर हो रहे थे, और इसी वजहसे ये लोग चूंडावतोंकी आंखोंमें खटकते थे. रावत भीमसिंह और उनके साथी चित्तौड़ चले गये. इस समय उदयपुरकी रियासत बड़ी नाजुक दशामें थी, सोमचन्दने महाराणाको समझाया, कि हम लोगोंकी नाइत्तिफ़ाकीसे रियासतका

(१) यह खैरख्वाह वारहट भी सोमचन्दका साथी होनेके कारण चंद सालके बाद मारा गया. इसने कृष्णगढ़ जाते वक्त बनास नदीके किनारे मदारा गांवके पास मुखालिफ़ सर्दारोंके भेजे हुए डाकुओंसे बड़ी बहादुरीके साथ लड़कर चन्द आदमियों सहित प्राण दिया; और उसका भतीजा रामदान ज़रूमी होकर बाकी रहा, जिसका प्रपौत्र वारहट चंडीदान हालमें मौजूद है.

नुकसान है; मुनासिव है कि रावत् भीमसिंहको बुलाकर रियासती कारोबारमें शरीक कर दीजिये. इसपर महाराणाने बाई रामप्यारीकी मारिफत रावत् भीमसिंह, व अर्जुनसिंह वगैरह चूडावतोंको बुलाकर दोनों फिकोंमें इतिफाक करादिया. कर्नेल टॉड लिखते हैं, कि “ यह इतिफाक रावत् भीमसिंहने अपने मुखालिफोंको धोखा देनेकी गरजसे किया, क्योंकि दूसरा फरीक उनकी हुकूमत छीनकर रियासती कारोबारका मुख्तार बनगया था. ”

विक्रमी १८४६ कार्तिक शुक्ल ६ [हि० १२०४ ता० ४ सफर = ई० १७८९ ता० २४ अक्टोबर] शनि वारको कुरावड़का रावत् अर्जुनसिंह व भदेसरका रावत् सर्दारसिंह महलोंमें गये, और बाईजीराजके भंडारकी चौपाड़ (कमरा) में सोमचन्दको सलाह करनेके बहानेसे एक तरफ़ लेजाकर कहा, कि तूने हमारी जागीर किसतरह छीनी (१), और दोनों तरफ़से कटार मारे, कि उसका काम तमाम होगया. इसके बाद दोनों सर्दार वहांसे भागकर अपनी जम्इयतोंमें जामिले, जो त्रिपौलियाके पास खड़ी थी. उस वक्त महाराणा बदनौरके ठाकुर जैतसिंह सहित सहेलियोंकी वाड़ी में थे. सोमचन्दके भाई सतीदास व शिवदास महाराणाके पास पहुंचे और कहा, कि “ हमको दुश्मनोंके हाथसे क्यों मरवाते हैं ? आप अपने ही हाथसे मार डालिये. ” पीछेसे रावत् भीमसिंह भी अपने गिरोह और जम्इयतको साथ लेकर चौगानके दरीखानहमें जा बैठा, जो शहर और सहेलियोंकी वाड़ीके बीचमें है. कर्नेल टॉड लिखते हैं, कि “ रावत् अर्जुनसिंह सोमचन्दके खूनसे भरे हुए हाथ सहित महाराणाके पास पहुंचा, और अपने मालिकका कुछ भी लिहाज न किया. उस वक्त महाराणाके पास इतनी जम्इयत न थी, कि उसको सजा देते, उन्होंने सिर्फ़ यह कहा, कि “ हरामखोर हमारी आंखोंके साम्हनेसे चलाजा, हमको मुंह मत दिखला. ”

इस समय महाराज अर्जुनसिंह महाराणा संग्रामसिंहोत, जो काशीवास करनेको शहरसे खानह होकर हज़ारेश्वरमें ठहरे हुए थे, यह बात सुनकर चूडावतोंके गिरोहमें गये और कहा, कि “ तुम रावत् चूडाकी खैरखाहीको दाग लगानेके लिये अपने मालिकसे साम्हना कर रहे हो; खैर जो कुछ हुआ सो हुआ, अब अपने घरको चले जाना चाहिये. ” महाराज अर्जुनसिंहके इस कलामका उनपर बड़ा असर हुआ, वे

(१) सलूंवरके रावत् कुबेरसिंहका बड़ा बेटा जोधसिंह और छोटा भीमसिंह था. महाराणाने भीमसिंहको कंवारिया और सावाका पट्टा जुदा जागीरमें दिया था; लेकिन रावत् पहाड़सिंहके मारेजाने बाद भीमसिंह सलूंवरका रावत् होगया, इसलिये सोमचन्दने वह जागीर खालिसे करली थी; क्योंकि दो जागीरदारोंकी जायदादका मालिक एक आदमी नहीं बन सक्ता.

लोग शर्मिन्दह होकर सलुंवरकी तरफ़ होते हुए चित्तौड़को चलेगये. सोमचन्दके मारे-जानेसे बाईजीराज (महाराणाकी माता) ने नाराज होकर कहा, कि "मैं ऐसे पुत्रका मुंह नहीं देखना चाहती, जिसने दगाबाज़ीसे एक खैरख्वाह प्रधानको मरवा डाला." यह सुनकर महाराज अर्जुनसिंह जनानी ब्यौड़ीपर पहुंचे, और कहा, कि "बहूको कहदो, अगर अपने पुत्रकी जिन्दगी चाहती हो, तो इस बातको छोड़कर अपने बेटेकी तसल्ली करो; तुम्हारा पुत्र इस बातको बिल्कुल नहीं जानता." बाईजीराजने अपने स्वसुरकी शिक्षासे महाराणाको बुलाकर कहा, कि जो हुआ सो हुआ, अब आगेके लिये तुमको प्रबन्ध करना चाहिये. महाराणाने सोमचन्दका दाहकर्म पीछोलाकी बड़ी पालपर करवाया, जिसकी छत्री अबतक वहां मौजूद है, और सोमचन्दके छोटे भाई सतीदास (१) को प्रधानका पद देकर कहा, कि सोमचन्दका पुत्र जयचन्द, जो बालक रहगया है, उसकी पर्वरिश करो. सतीदासका छोटा भाई शिवदास अपने भाईका मददगार बना. सतीदास और शिवदासने अपने भाई सोमचन्दका बदला लेनेके लिये जमइयत एकट्ठी की, और भींडरका महाराज मुहकमसिंह भी इनका मददगार बनगया. दूसरी तरफ़ चूडावतोंने अपनी जमइयतको दुरुस्त करके मुकाबलह करनेको चित्तौड़से कूच किया. इस फौजका मुख्तार कुरावड़का रावत अर्जुनसिंह था. आकोलाके पास दोनों जमइयतोंका मुकाबलह हुआ; इस लड़ाईमें सतीदास और भींडरके महाराजने फ़तह हासिल की, और चूडावतोंका बहुत नुकसान हुआ; रावत अर्जुनसिंहने भागकर जान बचाई. कर्नेल टॉड लिखते हैं, "कि इस लड़ाईका एवज़ चूडावतोंने शक्तावतोंको शिकस्त देकर खैरोदाके पास लिया था, लेकिन आपसकी लड़ाइयोंसे यह नतीजा हुआ, कि मुल्क वीरान होगया, किसान लोग देश छोड़ भागे, व्यापार बन्द हुआ, और ग़नीमोंसे देशको बचाने वाले बहादुर राजपूतोंकी जान सस्ती होगई."

रावत अर्जुनसिंह अपने बेटे जालिमसिंहका बदला शक्तावतोंसे लेना चाहता था, इन दिनोंमें रावत संग्रामसिंहने अपने बाप लालसिंहको बाल बच्चों और औरतों सहित

(१) ओसवालोंमें "छोटे साजन" गांधी गोत्रका खुशालचन्द नामी एक शख्स था, जो जनानी ब्यौड़ीके मौसलों (मुहसिलों) में रहा करता था; उसके चार बेटे थे:— १- रूपचन्द, २- सोमचन्द, ३- सतीदास और ४- शिवदास. सोमचन्दका बेटा जयचन्द था, और सतीदासकी गोद महाराणा स्वरूपसिंहने लालचन्दको रक्खा, जिसका बेटा गोपाललाल हालमें मौजूद है.

शिवगढ़में भेजदिया, जो डूंगरपुरके ज़िलेमें सोम नदीके किनारेपर पहाड़ोंमें एक दुश्वार-गुज़ार जगह है, और डूंगरपुरके रावलकी तरफसे उसको जागीरमें मिली थी, और आप सर्दारगढ़ (लावा) में रहने लगा, जो उसने डोडिया ठाकुर सर्दारसिंहके बेटोंसे छीन लिया था. रावत् अर्जुनसिंहने मौका देखकर विक्रमी १८४७ [हि० १२०४ = ई० १७९०] में मए जमइयतके लालसिंहको शिवगढ़में जा घेरा; कुछ देरतक दोनों तरफके लोग आपसमें लड़े, लेकिन अर्जुनसिंहके पास जमइयत बहुत थी, उसने एकदम हल्ला करदिया; रावत् लालसिंह, जो ७० वर्षकी उम्रका था, बड़ी बहादुरीसे लड़कर मारा गया; रावत् अर्जुनसिंहने संग्रामसिंहके दो लड़कोंको गिरिफ्तार करके बड़ी बेरहमीसे मारकर अपने बेटे जालिमसिंहका एवज लिया. लालसिंहकी स्त्री अपने पतिके साथ सती होगई. भींडरके महाराज मुहकमसिंह और साह सतीदास व शिवदास वगैरह मुसाहिबोंने देवगढ़के रावत् गोकुलदासको हिकमत अमलीसे अपनी तरफ करके उससे एक इक्रारनामह लिखवाया, जिसकी नक़ नीचे दर्ज कीजाती है :-

इक्रारनामहकी नक़.

सिध श्री लषतां रावत् गोकुलदासजी अप्रच : श्री दरबारकी बंदगी करणी, कणी ही फेल फतुर म्ही सामलै होवां न्ही, और मेवाड़रा गढ़े सारा इी सरदारों-रा पाडै जदै मे पणै पाडै नार्पा; और गाव गोठ पंचा सरस्तै छोड़ देणा. भाई बेटा श्री दरबाररा जागीरदार है, सो हुकमै प्रमाणै बंदगी करसी. संवत १८४८ भादवा सुद १२.

इसके बाद महाराणाके मुसाहिब साह सतीदास, शिवदास व जयचन्द, और महता अगरचन्द सहित भींडरके महाराज मुहकमसिंहने विचार किया, कि इस वक्त जालिमसिंह भालाके जरीएसे माधवराव सेंधियाको बुलाकर रावत् भीमसिंह वगैरह चूडावतोंको सजा देने बाद चित्तौड़से निकालदेना चाहिये.

महाराणाने इस सलाहको मन्जूर किया, और भाला जालिमसिंहको मए आंवा एंगलियाके बुलाया. मुसाहिबोंने उनको कुल हाल लिख भेजा. वे लोग मए फौजके कोटासे रवानह होकर हमीरगढ़ पहुंचे. यह क़िला रावत् भीमसिंहके सलाहकार

रावत् धीरतसिंहके कबजेमें था; आंबा मरहटेने गोलन्दाजी शुरू करदी, धीरतसिंह किला छोड़कर चित्तौड़पर चला गया, और हमीरगढ़पर आंबाने अपना बन्दोबस्त किया. इसीतरह बसीका किला भी लेलिया. जालिमसिंह झाला महाराणाके पास आया, और यहांसे इजाजत लेकर माधवराव सेंधियाके पास पहुंचा. वह महाराणासे मुलाकात करनेकी बड़ी आर्जू रखता था, क्योंकि सेंधियाको इस बातसे अपनी इजाजत बढ़ानेकी ख्वाहिश थी. इसवास्ते उसने यह इक्रार करलिया, कि मेवाड़से चौंसठ लाख रुपया वुसूल किया जावे, जिसमेंसे तीन हिस्सह सेंधिया और एक हिस्सह महाराणा लेवें. वह फौरन जालिमसिंहके साथ मए लश्करके खानह होकर नाहर मगरे पहुंचा, जो उदयपुरसे पूर्व ईशानमें सोलह मीलके फ़ासिलेपर एक शिकारगाह है. महाराणा भी मए लश्कर व बाजु सर्दारों तथा पासवानों वगैरहके उदयपुरसे खानह हुए, जिनके नाम नीचे दर्ज किये जाते हैं:-

सादडीका राज सुल्तानसिंह झाला, कोठारियाका रावत् विजयसिंह चहुवान, भींडरका महाराज मुहकमसिंह शक्तावत, महाराणाका चचा महाराज भैरवसिंह बाघसिंहोत, महाराज बरूतावरसिंह, शक्तावत रावत् संग्रामसिंह लालसिंहोत, खैराबादका बाबा सालिमसिंह राणावत, महाराज भगवन्तसिंह, महाराज जालिमसिंह नाथसिंहोत बागौरका छोटा, भगवानपुरेका रावत् जोरावरसिंह चूंडावत सांगावत, करेडेका राजा विष्णुसिंह चूंडावत सांगावत, वाठरडेका रावत् एकलिंगदास सारंगदेवोत, सनवाड़का बाबा दौलतसिंह राणावत, कोठारियाके रावत् फ़तहसिंहका छोटा बेटा उदयसिंह और उसका भाई दलेलसिंह चहुवान, राणावत बरूतसिंह भारतसिंहोत खैराबादका छोटा, शक्तावत मुहकमसिंह, बनेड़ियाका चहुवान विशनसिंह (विष्णुसिंह) चत्रसिंहोत, चहुवान अदोतसिंह चत्रसिंहोत, और महाराणाके सात पासवानिये भाई- महाराज गोपालदास, महाराज देवीदास, महाराज मनोहरदास, महाराज भगवानदास, महाराज चैनदास, महाराज मोहनदास और महाराज जवानदास. इनके सिवा पीथावासका जागीरदार चूंडावत जगावत तरूतसिंह, महता अग्रचन्द, साह किशोरदास देपुरा, साह एकलिंगदास बौल्या, पाणेरका चारण सौदा बारहट भोपसिंह, पसूंद का चारण आसिया जशवन्तसिंह, कृष्णगढ़का चारण बारहट शिवदान, धायभाई उदयराम, धायभाई फत्ता, धायभाई हट्टू, पंचोली (कायस्थ) नाथ सहीवाला, पंचोली चतुरभुज, महासाणी पंचोली रामा, पंचोली स्वरूपनाथ, व्यास शिवदत्त, त्रिवाड़ी गुलाब, पुरोहित केशवराय, फ़र्राशखानहका दारोगा साह नग्गा पटवारी, पाणेरी लाला, पाणेरी गजसिंह, पांडे विशनदास (विष्णुदास), गुहिलोत जोरा ढींकड़्या, भोई लाला, भोई नीका,

महारादार कृष्णदास, जमादार सादिक सिन्धी, पठान शेरखां और कपूरखां मग़ अपने मातहत दो हजार पठानोंके, और भाणेज ज़ालिमसिंह पांच सौ सवारों सहित थे. महाराणाने देलवाड़ेके राज कल्याणसिंह और प्रधान साह सतीदासको उदयपुरकी हिफ़ाज़तकेलिये छोड़ा, और साह शिवदास तथा जयचन्दको अपने साथ लिया. माधवराव सेंधिया अपने लश्करसे दो कोसतक महाराणाकी पेड़वाई करने बाद वापस अपने डेरोंको चला गया और महाराणाने शिकारगाहके महलोंमें पहुंचकर आराम किया.

विक्रमी १८४८ आश्विन [हि० १२०६ मुहर्रम = ई० १७९१ सेप्टेम्बर] में नाहर-मगरा सक़ामपर महाराणासे सेंधियाकी मुलाक़ात हुई. और इसी जगह कुछ दिनों ठहरकर उससे रावत भीमसिंह वगैरह चूडावतोंको चित्तौड़से निकाल देनेकी बावत बात चीत की गई, यह सलाह मग़वरा होने बाद कूच होने वाला था, कि महाराणाके नौकर पठानोंने तन्स्वाहके लिये बल्वा किया, और ड्यौढीकी तरफ़ नंगी तलवारें लेकर चले. यह हाल सुनकर महलके भीतरसे महाराणा ढाल तलवार लेकर उठ खड़े हुए, और सर्दारोंने पठानोंपर हमलह करदिया. इस फ़सादमें महाराणाके मातहत सर्दारोंमेंसे पीथावासका जागीरदार तरुतसिंह मारा गया, और धायभाई उदयरामके हाथमें तलवारका ज़ख़म लगा, बाकी खैरियत रही. लेकिन पठानोंके आदमी ज़ियादह मारेगये, कितनेही ज़ख़मी होकर गिरे और अक्सर जान बचाकर भागगये. यह वायवैला सुनते ही कई उमराव सर्दार, जो दूर दूर डेरोंमें थे, दौड़कर आये, परन्तु इस मुक़दमेको हाज़िरीन लोगोंने पेशतर ही फ़ैसल करदिया था, इसवास्ते बहसकी ज़रूरत न रही, बरनह एक राय होनेमें बड़ी दिक्कतें पेश आतीं. कुछ देर बाद माधवराव सेंधिया और भाणेज ज़ालिमसिंह भी आ पहुंचे. झाला ज़ालिमसिंह वगैरह बुद्धिमान लोगोंने आइन्दहके लिये फ़ौजकी तन्स्वाह चुकानेके साथ महाराणाकी अर्दली व खास चौकीका भी उन्दह इन्तिज़ाम करदिया. महाराणाने मग़ फ़ौज और माधवराव सेंधियाके यहांसे खानह होकर चित्तौड़के करीब सेंथी गांवमें सक़ाम किया, और रावत भीमसिंहको कहलाया, कि क़िला छोड़ कर हाज़िर होजावे. लेकिन उसको व उसके साथियोंको महाराणाके मुसाहिबोंका एतिवार न था, इसलिये उसने हाज़िर न होकर क़िलेमें लड़ाईका सामान दुरुस्त किया. मरहटों और मेवाड़की फ़ौजने घेरा डालकर विक्रमी १८४८ कार्तिक कृष्ण ११ [हि० १२०६ ता० २५ सफ़र = ई० १७९१ ता० २३ अक्टोबर] को क़िलेपर गोलन्दाजी शुरू की, और अढ़ाई महीनेके करीबतक लड़ाई होती रही. कर्नेल टॉड लिखते हैं, कि ज़ालिमसिंहका इरादह चूडावतोंको बर्बाद करके मेवाड़में पूरी पूरी दस्तन्दाजी करलेनेका था; उसने जोधपुरके

सर्दारोंको भी मिला लिया, और जयपुरको, तो वह कोटेकी ताकतसे पेशतर उसपर फ़तह पा चुकनेके सबब कुछ हकीकत ही नहीं समझता था, उसका खयाल था, कि मेवाड़का मुसाहिव होनेसे कुछ राजपूतानहमें अपना दरुल करके इस ताकतसे तमाम हिन्दुस्तानपर भी अपना रोब जमा लेवे. उस झाला सर्दारका यह इरादह जानकर आंवा एंगलिया रावत् भीमसिंहसे मिलावट करने लगा. भीमसिंहने भी इस मौकेको ग़नीमत जाना, और कहलाया, कि अगर जालिमसिंह झाला कोटेको चलाजावे, तो मुझे महाराणाके पास हाजिर होनेमें कोई उज़्र नहीं है, और सेंधियाको भी बीस लाख रुपया देना मुझे मंजूर है. माधवरावको पूनाकी तरफ़ जानेकी जल्दी थी, इसलिये उसने यह बात कुबूल करली. जालिमसिंह ऊपरी दिलसे यह कहकर, कि जिस बातमें महाराणाका फ़ायदह हो, वही मुझे मंजूर है, कोटेकी तरफ़ चलागया.

सलूंवरका रावत् भीमसिंह और आमेटका रावत् प्रतापसिंह आंवा एंगलियाकी मारिफ़त महाराणाके पास हाजिर होगये, और सेंधियासे मिलकर उन्होंने अपने वादेको पूरा करनेकी तहरीर लिखदी. सेंधिया अपनी तरफ़से आंवा एंगलियाको इश्तियार देकर नीचे लिखी हुई हिदायतें करने वाद रवानह हुआ:-

अव्वल- महाराणाकी हुकूमतको बहाल करना, और खालिसेकी ज़मीन, जो सर्कश सर्दारों और सिन्धी सिपाहियोंने दवाली है, वापस दिलवाना.

दूसरे- झूठे दावेदार (रत्नसिंह) को कुम्भलमेरसे निकाल देना.

तीसरे- जोधपुरके राजासे गोड़वाड़का जिला वापस लेना.

चौथे- महाराणा अरिसिंहके मारे जानेके वावमें, जो बूंदीसे फ़साद हुआ था, उसको दूर करना.

महाराणा साह जयचन्द गांधीको चित्तौड़के किलेमें रखकर मए रावत् भीमसिंहके उदयपुर चले आये. कुछ दिनों बाद यह विचार हुआ, कि अब रत्नसिंहको कुम्भलमेरसे निकाल देना चाहिये. आंवा एंगलिया तो मए मरहटी फ़ौज और तोपखानहके तय्यार ही था, महाराणाने यहांसे साह शिवदास गांधीको भी महता अग़रचन्द, साह किशोरदास देपुरा व रावत् अर्जुनसिंह समेत कुम्भलगढ़की तरफ़ रवानह करदिया. ये सब लोग फ़ौज सहित खमणोर पहुंचे, और वहांसे घाणेरवके ठाकुर दुर्जनसिंहको लिख भेजा, कि हम कैलवाड़ेकी तरफ़से आते हैं, आप उधरसे किलेमें चढ़जावें. उक्त ठाकुरने मुस्तइदीके साथ इस सलाहको मंजूर किया. आंवा व शिवदास वगैरह समीचा गांवमें, जहां रत्नसिंहके तरफ़दार जोगियोंका गिरोह मुक़ाबलेको खड़ा था, पहुंचे, और वहां लड़ाई होने लगी, पहिले बारूदसे और उसके बाद तलवार,

बछी व कटारसे मुकाबलह हुआ. आखिरकार जोगियोंके गिरोहको मेवाड़ तथा आंबाकी फौजने पीछाकरके कैलवाड़ेसे भगा दिया, और आरेठ पौल की तरफसे मेवाड़के सदाँर व दूसरी तरफसे घाणेशवका ठाकुर दुर्जनसिंह किलेपर चढ़गया, जिससे घबराकर रत्नसिंह मए अपने साथियोंके किले कुम्भलमेरसे निकल भागा, और विक्रमी १८४९ पौष कृष्ण ७ [हि० १२०७ ता० २१ रबीउस्सानी = ई० १७९२ ता० ६ डिसेम्बर] वृहस्पतिवारको किलेमें महाराणाका अमल दखल होकर फुतूरी रत्नसिंहका मेवाड़से बिल्कुल नाम निशान उठ गया.

आंबा एंगलिया, ठाकुर दुर्जनसिंह, रावत् अर्जुनसिंह, साह शिवदास, साह किशोरदास व महता अग्रचन्दने कुम्भलमेरकी किलेदारी सूरजगढ़के राज जशवन्तसिंहको, और पर्गनेकी हाकिमी महता हटीसिंहको दी. फिर ये लोग उदयपुरको चले आये. अब आंबाने माधवरावकी हिदायतके मुवाफिक मेवाड़का इन्तिजाम करनेपर कम्बर बांधी, और बीस लाख रुपया, जो जागीरदारोंसे लेना करार पाया था, उसमेंसे बारह लाख चूडावतोंसे और आठ लाख शक्तावतोंसे वसूल करने बाद राजनगर व रायपुर सिंधी सिपाहियोंसे, गुरलां व गाडरमाला पूरावतोंसे, हमीरगढ़ रावत् सदाँरसिंहसे, कुर्ज कंवारिया सलूबरसे और जहाजपुर राणावतोंसे छीन लिया. लिखा है, कि जमीनका हासिल उस वक्त आधी बटाईके हिसाबसे लिया जाता था; और महाराणाके खालिसेमें पचास लाख रुपया मुल्कसे सालानह वसूल होता था. अगर्चि आंबा एंगलिया भी एक लुटेरा सदाँर था, लेकिन माधवराव संधियाकी हिदायतके मुवाफिक यह काम उसने तारीफके लाइक किया.

महाराणाने दूसरी दफा विक्रमी १८५० फाल्गुन [हि० १२०८ रजब = ई० १७९४ मार्च] में ईडरके राजा शिवसिंहकी बेटी गुलाबकुंवर और दूसरी शिवसिंहके कुंवर भवानीसिंहकी बेटी उमांकुंवर, दोनोंके साथ एकही लग्नपर विवाह किया. महाराणाकी बरातमें नीचे लिखेहुए सदाँर, पासवान और अहलकार थे :-

शाहपुरेका राजा भीमसिंह, वनेड़ाके राजा हमीरसिंहका पुत्र भीमसिंह, कुरावड़का रावत् अर्जुनसिंह चूडावत कृष्णावत, बागौरका महाराज शिवदानसिंह, करजालीका काका महाराज भैरवसिंह, शिवरतीका महाराज सूरजमल्ल, पुरोहित रामराय, कारोईका महाराज बख्तावरसिंह, शक्तावत रावत् संग्रामसिंह, बाठरड़ेका रावत् एकलिंगदास सारंगदेवोत, हमीरगढ़का राणावत रावत् धीरतसिंह बीरमदेवोत, काका महाराज बहादुरसिंह अर्जुनसिंहोत, चहुवान उदयसिंह, चहुवान दलेलसिंह फतुहसिंहोत, थांव-लेका, चहुवान कुशालसिंह, ठाकुर अजीतसिंह अर्जुनसिंहोत चूडावत कृष्णावत, आमेटका

चूडावत जगावत मुहब्बतसिंह फ़तहसिंहोत, बनेड़ियाका चहुवान विशनसिंह (विष्णुसिंह), विजयसिंह, अदोतसिंह चत्रसिंहोत, और महाराणाके पासवानियेभाई महाराज गोपालदास, मनोहरदास, भगवानदास, देवीदास, चैनदास, मोहनदास, तथा जवानदास महाराणा अरिसिंहोत, धायभाई हट्टू, धायभाई उदयराम, व्यास शिवदत्त, कायस्थ महासाणी रामा, साह एकलिंगदास बौल्या, महता मौजीराम, चारण आढ़ा दूलहसिंह, कायस्थ चतुर्भुज, कायस्थ स्वरूपनाथ, सहीवाला कायस्थ नाथ, सहीवाला वल्लभदास, पांडे विशनदास (विष्णुदास), खवास रघुनाथ, त्रिवाड़ी गुलाब, ब्यौड़ीका दारोगा भोई लाला, फ़र्रांशखानहका दारोगा पुरोहित केशवराय, पाणेरी गजसिंह, पाणेरी मोडा, ठींकड़्या गजसिंह, ठींकड़्या ज़ोरा, भोई नीका, पुरोहित नादेश्वर, साह सतीदास गांधी, परिहार मयाराम, और आंबा एंगलियाकी तरफ़से पंडित गणेश नानाराव मए दो हजार फ़ौजके और जमादार सादिक व जमादार चन्दर दोनों मए दो हजार सवारोंके.

महाराणाने ईडर पहुँचकर दोनों राजकुमारियोंके साथ शादी की, और ईडरके महाराजाकी दूसरी कन्याका विवाह वनेड़ाके राजा हमीरसिंहके पुत्र भीमसिंहके साथ हुआ. फिर महाराणाने वहांसे फ़ौज सहित खानह होकर डूंगरपुरको आघेरा, क्योंकि रावल शिवसिंहके बाद फ़तहसिंहने, जो उसकी गद्दीपर बैठा था, महाराणा से दस्तूरके मुवाफ़िक़ तलवार न बंधवाई, और न ईडर साथ आया, इसलिये उसको इस बेपर्वाईकी सज़ा दी गई. इसवक्त उसने महाराणाके पास हाज़िर होकर, तीन लाख रुपया गद्दी नशीनीके दस्तूर व फ़ौज खर्चका अदा करने बाद अपना कुसूर मुआफ़ कराया. इसी जगह देवगढ़का रावत् गोकुलदास चूडावत सांगावत, और आमेटका रावत् प्रतापसिंह चूडावत जगावत, और आंबा एंगलियाका छोटा भाई बालेराव मए आठ हजार फ़ौज और पच्चीस तोपोंके आमिले. महाराणाने कुल फ़ौज सहित बांसवाड़ेकी तरफ़ कूच किया, क्योंकि वहांके रावल विजयसिंहने भी डूंगरपुर वालोंकी तरह सर्कशी इस्तिथार कर रखी थी. लेकिन मही नदीके मक़ामपर उक्त रावल ने गद्दीके ठाकुर जोधसिंह चहुवानको महाराणाकी खिदमतमें भेजकर तीन लाख रुपये देने वाद कुसूर मुआफ़ करालिया. देवलिया प्रतापगढ़के रावत् सामन्तसिंहने भी यह खबर पाकर इसी मक़ामपर अपने मोतमिद लोगोंको महाराणाकी खिदमतमें भेजदिया, और धरियावद वगैरह डांगलका पर्गनह, जो उसने दबा लिया था, छोड़कर तीन लाख रुपया दंडका देना कुबूल किया. महाराणाने धरियावदका पर्गनह रावत् रघुनाथसिंहको इनायत किया, क्योंकि यह पहिलेसे उसके पूर्वजोंके अधिकारमें था, और रुपयोंका पुरतह वन्दोवस्त करके आप मए फ़ौजके उदयपुरमें दाखिल हुए.

अब सेंधियाकी हिदायतोंमेंसे जावद, व नीमच वगैरह वापस देना, और जोधपुर वालोंसे गोड़वाड़का इलाक़ह, तथा बूंदी वालोंसे उनकी दगाबाज़ीका एवज़ लेना बाकी रहा. महाराणाने आंबासे यह इक्रार करलिया था, कि कुल शर्तें पूरी होजानेपर अंलावह फ़ौज खर्चके साठ लाख रुपया तुमको इन्आम दिया जायेगा. अगर्चि मुल्की इन्तिज़ाम अन्नकी हालतमें बहाल रहकर गया हुआ मुल्क वापस मिलनेपर यह रक़म ज़ियादह न थी, परन्तु सर्दारोंकी नाइत्तिकाकीसे इन्तिज़ामका काइम रहना दुश्वार होगया. उस वक्त मुल्ककी आमदनी कम न होनेपर भी रियासतकी हालत तंग थी, क्योंकि अब्बल तो बहुतसा रुपया मरहटोंको देना पड़ता था, दूसरे, महाराणा ऐसे उदारचित्त थे, कि जो उनके हाथ आता उसे इन्आम इक्राममें उड़ा देते; परन्तु हमारी यह राय है, कि उस समय महाराणाकी इस क़द्र फ़य्याज़ी न होती, तो उनके पास नौकरोंका ठहरना मुश्किल होता, क्योंकि जागीरोंकी आमदनी, तो लुटेरोंकी मौरूसी जीविका होगई थी, नौकरोंके गुज़ारेका दार सदार केवल इसी इन्आम इक्रामपर था.

विक्रमी १८५१ [हि० १२०८ = ई० १७९४] में महाराणाकी बड़ी बहिन चन्द्रकुंवर-वाईका सम्बन्ध जयपुरके महाराजा प्रतापसिंहसे करार पाया, और इस विवाहके लिये पांच लाख रुपया मरहटोंसे कर्ज़ लेना पड़ा; परन्तु वह रुपया भी शादीमें देर होनेके सबब खर्च होगया, क्योंकि अब्बल तो विक्रमी १८५२ [हि० १२०९ = ई० १७९५] में महाराणाकी माता याने बाईजीराजका इन्तिकाल होगया, दूसरे, वर्षा अधिक होनेसे पीछोले तालावका बन्द टूट जानेपर एक तिहाई शहर बहजानेके सबब वह बन्द उसी वक्त तय्यार करवाना पड़ा, और तीसरे ईडरवाली महाराणी गुलाबकुंवरके गर्भसे विक्रमी १८५२ फाल्गुन कृष्ण ६ [हि० १२१० ता० १९ शरबान = ई० १७९६ ता० २९ फेब्रुअरी] को राजकुमार अमरसिंहके पैदा होनेकी खुशीमें बहुतसा रुपया खर्च पड़ा.

इन महाराणाके विक्रमी १८४२ [हि० ११९९ = ई० १७८५] से विक्रमी १८८० [हि० १२३८ = ई० १८२३] तक बहुतसी सन्तान हुई, और हर एक राजकुमार व राजकन्याके जन्मोत्सवपर उन्होंने पांचसे दसतक हाथी, बीससे साठतक घोड़े, और पांच सात “ लाख पशाव ” चारणोंको दिये. इसी संवत्में आंबा एंगलियाको सेंधियाने हिन्दुस्तानकी तरफ अपना नाइब मुकर्रर किया, और मेवाड़में पंडित गणेश पंथ रहा. इसके पास जो मेवाड़के अहलकार मुकर्रर हुए, उन्होंने बहुतसी सख्तियां कीं. यह खबर सुनकर आंबा एंगलियाने गणेश पंथके एवज़ रायचन्दको मुकर्रर किया, तोभी बद् इन्तिज़ामी दूर न हुई.

इस आपसकी नाइत्तिकाकीसे चूडावत बहुत बर्बाद होगये; कुरावड़ छीन

लिया गया, सलूबरपर मोर्चा लगा, और सिंधी सिपाही भागकर देवगढ़में जा छिपे.

ईश्वरकी महिमा अपार है, कि वह एक क्षण मात्रमें अपनी विचित्र शक्तिसे अमीरको गरीब, और गरीबको अमीर, जोरावरको कमजोर और कमजोरको जोरावर कर दिखाता है. देखिये, कि पहिले तो चूंडावतोंने, जहांतक उनका पेच पड़ा, अपने दौर दौरमें शक्तावतोंकी बर्बादी और तवाहीपर कमर बांधी, और जब ये अपने जुल्मसे न रुके, तो यकायक शक्तावतोंका सितारा चमक उठा, और उन्होंने भी अपना एवज लेनेकी गरजसे चूंडावतोंपर तरह तरहकी सख्तियां करना शुरू किया, जो अखीरमें उन्हींके फिर्के तथा गांधी प्रधानकी तन-जुलीका कारण हुई, याने ईश्वरने पहिले फिर्केको दोबारह ताकतवर बना दिया. इस वक्त कृष्णावत रावत अर्जुनसिंहका छोटा पुत्र अजीतसिंह, जो चूंडावतोंमें सबसे बढकर सलाहकार और चालाक था, आंबा एंगलियाके पास भेजा गया, जब कि वह मरहटा सर्दार दतियाकी लड़ाईमें मसरूफ़ था. अजीतसिंहने आंबा एंगलियाके पास पहुंचकर उसको दस लाख रुपया देनेके इक़ारसे अपना मददगार बनाया, और आंबाने अपने नाइबको तलब करके भींडरके महाराज मुहकमसिंह व प्रधान सतीदास का साथ छोड़ दिया. जब रावत भीमसिंह वगैरह चूंडावत उदयपुरमें आये, तो महाराणा भी उनके तरफदार बन गये, क्योंकि उन्होंने यही पॉलिसी इस्ति्यार कर रखी थी, कि जो गिरोह गालिब आता, उसीके मददगार बन जाते.

विक्रमी १८५३ मार्गशीर्ष कृष्ण १२ शनिवार [हि० १२११ ता० २५ जमादियुल् अब्बल = .ई० १७९६ ता० २६ नोवेम्बर] को साह सतीदास व जयचन्द कैद किये गये, और शिवदास भाग निकला. विक्रमी मार्गशीर्ष शुक्ल ११ शनिवार [हि० ता० ९ जमादियुस्सानी = .ई० ता० १० डिसेम्बर] के दिन महता अग्रचन्दको प्रधानका पद और रावत भीमसिंहको मुसाहिबीका खिल्अत मिला. इन लोगोंने मुसाहिब बनकर शक्तावतोंसे दस लाख रुपये वुसूल करके हीता व सेमारी दोनों ठिकाने छीन लिये. कर्नेल टॉड इस रियासतकी बढ इन्तिजामी और सर्दारोंकी बाहमी अदावतका हाल अमृतरावके कागज़ोंसे महाराणा दूसरे जगत्सिंहके अहदसे लेकर इस वक्तक बयान करते हैं, उसमेंसे कुछ तो महाराणा जगत्सिंहके प्रकरणमें और बाकी मौके मौकेपर दर्ज हो चुका है, इसलिये अब उसका जियादह लिखना जरूर नहीं.

विक्रमी १८५५ ज्येष्ठ [हि० १२१२ जिल्हिज = .ई० १७९८ मई] में महाराणा अपनी तीसरी शादी ईडरके राजा भवानीसिंहकी बेटी और गंभीरसिंहकी बहिनके साथ करनेको गये. इधर रावत भीमसिंहने दूसरे गिरोहको गारत करने और आंबा

एंगलियाकी फौजको मुल्कसे निकालनेके लिये जोधपुरके महाराजा भीमसिंह को अपना मददगार बनाना चाहा, और सिंगवी जैतकरणकी मारिफत महाराणाकी कन्या कृष्णकुंवर बाईका सम्बन्ध करनेका पैगाम भेजा. इस पैगामका नतीजह बहुत खराब हुआ, जिसका जिक्र मौक़ेपर लिखा जायेगा. चूडावत लोग इसी फ़िक्रमें थे, कि जालिमसिंह भालाके दोस्त आंबा एंगलियाका लश्कर मेवाड़से निकाल दिया जावे; और इसी लिये उन्होंने लखवा दादासे मिलावट की, जो दौलतराव सेंधियाका दूसरा सदार और आंबाका दुश्मन था. वह राजपूतानहका सूबहदार बनकर रवानह हुआ. जब आंबाके नाइब नाना गणेशने मेवाड़से मदद चाही, तो चूडावतोंने दगाबाजी से उसको यह कहलाया, कि तुम मज़बूत होकर लड़ो, हम फौज लेकर आते हैं. नाना गणेशने इन लोगोंकी बातपर यकीन करके लखवासे लड़ाई शुरू की; परन्तु उसने पहिले ही हमलेमें शिकस्त पाई, क्योंकि उसको मेवाड़के सदारोंसे कुछ भी मदद न मिली. चूडावतोंने नानाको लखवाके साथ मुकाबलह करनेके लिये फिर उभारा, लेकिन इस वक्त भी उसको भागकर हमीरगढ़में पनाह लेनी पड़ी, और चूडावत लखवासे मिलगये. इसके बाद महाराणाके हुक्मसे नीचे लिखे हुए सदार मए फौज व जमइयतके हमीरगढ़की तरफ़ रवानह हुए:—

फौज मुसाहिव सलूबरका रावत भीमसिंह चूडावत कृष्णावत, प्रधान सहता अग्रचन्द बछावत, आमेटका रावत प्रतापसिंह चूडावत जगावत, देवगढ़का रावत गोकुलदास चूडावत सांगावत, बदनौरका ठाकुर मेड़तिया जैतसिंह जयमलांत, राणावत रावत धीरतसिंह वीरमदेवोत मए अपने बेटों अभयसिंह और भवानीसिंह के, भदेसरका रावत सदारसिंह चूडावत कृष्णावत, मंडप्याका राणावत उदयसिंह वीरमदेवोत, बाबा अनोपसिंह पूरावत मए अपने तीनों बेटोंके, बाबा गोपालसिंह, बांसडेका राणावत बाबा अर्जुनसिंह गरीबदासोत, लालूड़ाका जागीरदार राठौड़ सूरजमल्ल ईसरोत, कैरियाका बाबा फ़तहसिंह गरीबदासोत, और भगवानपुरेका रावत चूडावत सांगावत जोरावरसिंह वगैरह सदार करीब पन्द्रह हजार फौजके रवानह होकर हमीरगढ़ पहुंचे.

नाना गणेश क़िलेके अन्दर खूब लड़ा, बल्कि उसने कई दफ़ा बाहर निकल निकल कर बहादुरानह तौरपर हमले किये. इस समय रावत धीरतसिंहके बेटों अभयसिंह और भवानीसिंहने एक हमलेमें उससे खूब मुकाबलह किया, और दोनों बहादुर अपने बापके साम्हने दुश्मनसे लड़कर मारे गये. इसी अरसहमें आंबा एंगलियाका मातहत अफसर गुलाबराव कोदव नाना गणेशकी मददको मेवाड़में आया; तब मेवाड़के सदारोंने सूसामूसी गांवके पास लड़ाई की. ग़ालिब था, कि इस लड़ाईमें ये लोग मरहटी फौजपर फ़तह पाजाते; लेकिन लड़ाईके वक्त एक सवार अपना घोड़ा हाथसे छूटजानेके सबब “ भागो,

भागो ” कहकर पुकारा, और दूसरेने उस घोड़ेको पकड़कर “ मिलगया, मिलगया ” कहा. इन लफ़्ज़ोंके सुननेसे मेवाड़की फ़ौज भाग निकली.

इस लड़ाईमें जमादार चन्द्र सिंधी तथा दूसरे भी बहुतसे राजपूत मारे गये, और मेवाड़की फ़ौजने शाहपुरेमें पहुंचकर अपनी दुरुस्ती करने बाद दोबारह हमीरगढ़के किलेको जा घेरा. इस हमलेमें मंडप्याका बाबा उदयसिंह पूरावत, बाबा अनोपसिंह, और चमरदार कायस्थ गोवर्द्धनदास वगैरह काम आये. किलेकी दीवार भी टूट चुकी थी, और करीब था, कि नाना गणेश भाग जावे, या मारा जावे, कि इतनेही में आंवा एंगलियाका बेटा और उसका भाई बालेराव व बापू सेंधिया, और जशवन्तराव सेंधिया झालिमसिंहकी फ़ौज सहित नाना गणेशकी मददको आ पहुंचे. तब लखवा मोर्चा उठाकर मए मेवाड़की फ़ौजके चित्तौड़की तलहटीमें आ ठहरा; और नाना गणेश व बालेराव वगैरह वहांसे खानह होकर घोसूंडा गांवमें बेड़च नदीके किनारे ठहरे. लखवाकी फ़ौज भी उधरसे नदीके दूसरे किनारेपर आ पहुंची, और दोनों लश्करोंमें तोपोंकी लड़ाई शुरू हुई. नाना गणेश और बालेरावके दर्मियान तन्ख्वाहकी बावत तक्रार होगई, इसलिये नाना गणेश वहांसे निकलकर सांगानेर चला गया. जोकि बालेरावको एक दफ़ा गूगल छपरा मकामपर फ़ौजकी कैदमें आजानेके वक्त लखवाने रुपयोंकी मदद देकर छुड़वाया था; इसलिये यातो वह उस इहसानसे या लड़ाई न करनेके इरादे से लखवाके साथ मेल करके वापस चला गया, और महाराणाने आंवाके नाइवों नाना गणेश वगैरहकी मदद छोड़दी, क्योंकि मुसाहिबीका रुतबा चूंडावतोंको मिलगया था. जिस प्रकार झालिमसिंह झाला और शक्तावतोंने चूंडावतोंके तरफ़दारोंकी जागीरें जब्त करली थीं, उसी तरह अब चूंडावतोंने भी उनके तरफ़दारोंकी जागीरें छीनकर अपने साथियोंको दिलाईं. बीजोलियाका ठिकाना राव सवाई केशवदास पुंवारको, हमीरगढ़ रावत् धीरतसिंह वीरमदेवोतको, गाडरमाला बाबा गोपालसिंह पूरावतको, और गुरलां बाबा देवीसिंह पूरावतको दिया गया.

विक्रमी १८५६ [हि० १२१३ = ई० १७९९] में आंवा एंगलियाने अपने नाइब नाना गणेशकी मददके लिये अपने मातहत अफसर सदलैण्ड साहिबको मए फ़ौज व तोपखानहके खानह किया, और उसकी सहायताके वास्ते ज्यॉर्ज टॉमस नामी एक मशहूर व वहदुर शख्सको अपना नौकर बनाकर हरियाणा व पंजावकी तरफ़से बुलाया. इसी ज्यॉर्ज टॉमसके कागज़ात देखकर फ्रैंक्लिन साहिबने एक किताब छपवाई है, उसमेंसे मेवाड़का जुग्राफ़ियह या मुल्की हालत तो हम मेवाड़के भूगोल सम्बन्धी वृत्तान्तमें दर्ज कर चुके हैं; अब यहांपर बाकी किताबका खुलासह याने लखवाकी लड़ाईसे

मुतअलक़ हाल दर्ज किया जाता है:—

ज्यॉर्ज टॉमसकी लखवापर चढ़ाई.

“ उदयपुरकी तरफ़ कूच करनेके वक्त टॉमसके सिपाहियोंने चढ़ी हुई तन्स्वाह मिलनेमें देर होनेके सबब बल्वा मचाया, और यह बहाना किया, कि हम लोग दक्षिण की तरफ़ जाते हैं, पीछेसे बाल बच्चोंको खर्चकी तंगी होगी, इसलिये हमारी तन्स्वाह मिलजाना चाहिये. अगर्चि यह बात किसी कद्र सहीह मालूम होती थी, लेकिन् टॉमसने उनकी अर्जीको मंजूर करलेना मुनासिब न समझकर इन्कार करदिया. इसपर बागी सिपाहियोंने उसे कैद करना चाहा, परन्तु वह थोड़ेसे खैरस्वाह सिपाहियोंके साथ इन लोगोंसे अलग रहता था, इस सबबसे उनके घेरेमें न आसका, और उसने अपनी मददके लिये, सवारोंका एक गिरोह बुलाया. जब कि बागी लोग उसपर हमलह करनेके लिये बन्दूकें लेकर चढ़ आये, तो वह उनको सजा देने या सजा देनेकी कोशिशमें अपनी जान खो देनेका पक्का इरादह करके अपने घोड़ेपर सवार हुआ, और उनका साम्हना करनेके वास्ते गया. इस वक्त उसपर कई गोलियां चलाई गईं, लेकिन् उसने साबित-कदमीसे खास खास आदमियोंको गिरिफ्तार करके कैम्पके बाहर निकाल दिया, और बाकी लोगोंने अपने साथियोंकी यह हालत देखकर दोबारह अपना काम शुरू किया; तब वह लखवाकी तरफ़ चला. रास्तेमें जोधपुर, जयपुर व कृष्णगढ़के वकील अपनी अपनी रियासतोंसे नज़े लाकर उससे मिले, और कहा, कि संधियाने लखवाका कुसूर मुआफ़ करदिया है, इसलिये तुमको उस सर्दारके साथ दुश्मनी करना मुनासिब नहीं है, परन्तु टॉमसको, जो उस वक्त आंबाका नौकर होनेके सबब उसीके फ़ायदोंकी बातपर खयाल रखता था, आंबाने लखवासे लड़नेका साफ़ हुक्म देदिया था, इसलिये उसने लड़ाईको रोकना अपने इस्तिथारमें न समझा; लेकिन् उसके सिपाहियोंकी अगली बगावत, जो अच्छी तरहसे तै न हुई थी, दोबारह दूने जोशके साथ शुरू हुई, इस वक्त भी टॉमसने खास खास फ़सादी लोगोंको गिरिफ्तार करके मुनासिब सजा दी, याने उनमेंसे एकको तो तोपसे उड़वा दिया और बाकियोंको पैरोंमें बेड़ियां डलवाकर कैद करदिया. इस सरुतीका नतीजह बहुत अच्छा हुआ, कि उसकी फ़ौजमें यही आखरी बल्वा होनेके बाद फिर किसी तरहका बखेडा न उठा.

इस वक्त सदलैड साहिब फ़ौजका एक गिरोह लेकर मजबूत इरादहके साथ लखवाका साम्हना करनेको मुस्तइद हुआ, और दोनों (टॉमस और सदलैड) ने अपनी फ़ौज शामिल करके लखवाकी तरफ़ क़दम बढ़ाया. वह सर्दार (लखवा) उस वक्तक अच्छी तरह साम्हना करनेके लाइक़ न था, इसलिये उसने उस घाटेके पास डेरा किया, कि जहांसे उदयपुर

को रास्तह जाता है, और उसी घाटेके भीतर उसने अपना भारी सामान रख दिया, कि जिस तज्वीजसे किसी दूसरे मौकेपर उसकी बर्बादी होना संभव था; लेकिन लखवाको पहिलेसे खबर मिल गई थी, कि उदयपुरके महाराणा उसके दोस्त हैं, और वह उसके साथियोंको आश्रय देनेके लिये तय्यार हैं. गरज कि उस वक्त टॉमस और सदलैंडने मिलकर हमलह करनेकी तज्वीज की और दूसरे दिन सुब्हका वक्त हमलेके वास्ते मुकर्रर हुआ, परन्तु उसी रातको सदलैंड साहिबने बगैर कोई सबब जाहिर करनेके कैम्पसे अलग होना और टॉमसको अकेला छोड़ जाना मुनासिब समझा, जिसपर टॉमसको बड़ा ही तअज्जुब हुआ. इस बातसे लखवाको अपनी काम्याबीका भरोसा हुआ, और वह या तो पहिले खराब हालतमें होनेके सबब नर्म दिल था, या अब हालत बदलजानेसे बड़ा घमंडी होगया, और उसने आस पासके सर्दारोंको चिट्ठियां लिखकर मदद मांगी. सदलैंडके चले जानेके तीन दिन बाद टॉमस आंबाको फौजके साथ सामानकी हिफाजतके लिये छोड़कर लड़ाईके तरीकेसे लखवाकी तरफ बढ़ा, लेकिन बहुत जोरसे बारिश, गरज और विजलीका तूफान आजानेके सबब लड़ाई न होसकी; लखवाने अपनी फौजको ठहरा दिया. टॉमसका मकाम रिसालेके वास्ते अच्छा था, और दुश्मनकी फौजका जियादह हिस्सह सवारोंका ही था, उनका शुमार जियादह होनेके सबब टॉमस अपने मकामको बदलना चाहता था, इसलिये बाईं तरफ हटकर ऊंची जमीनपर ठहरा, जहांपर रिसालेका हमलह उसकी तरफ नहीं होसका था. जब तूफान बन्द होगया, तो लखवा टॉमसकी तरफ हटा, लेकिन उसका अच्छा मकाम देखकर और उसके तोपखानहकी फाइरके नज्दीक आनेके सबब कुछ आदमियोंका नुकसान होजानेसे उसने खेतसे अलग होजाना मुनासिब समझा. टॉमस दिनभर बहुत सरत मिहनत उठानेके बाद थककर शामके वक्त अपने कैम्पमें वापस आया.

आधी रातके वक्त लखवाके वकील सेंधियाकी चिट्ठियां लेकर कैम्पमें आये, जिनमें दोनों तरफसे दुश्मनी खत्म करनेका मन्शा जाहिर किया गया था, और उसने लखवाको नर्मदाके उत्तर तरफके तमाम इलाकोंका हाकिम मुकर्रर किया. सुब्हके वक्त जंगी कौन्सिल हुई और सब सर्दारोंने अपनी अपनी राय दी. टॉमसने अपनी तरफसे यह कहा, कि आंबाने मुझे खास इसी मत्वसे मुकर्रर किया है, कि मेवाड़का इलाकह उस (आंबा)के तावे करलियाजावे, इसीलिये वह (टॉमस) किसी शर्तको संजूर नहीं कर सका, जिसमें कि अक्वल यह बात न लिखी हो, कि लखवा उस मुल्कको खाली करदेवे. बहुतसी बात चीत होनेके बाद यह तज्वीज की गई, कि दोनों फौजें उत्तरी सहदकी तरफ जावें और वहांपर इस वारेमें सेंधियाके नये हुक्मकी मुन्तजिर रहें. टॉमस

लखवाकी बेईमानीको अच्छी तरह जानता था, और यह, कि वह सिर्फ वक्त टाल रहा है, ताकि अजमेरसे उसकी मददके लिये जो फौज आरही है, पहुंच जावे, और उस इलाकेको अपने पीछे करलेवे; क्योंकि अजमेरका किला और शहर उसका था, और ऐसा करलेनेसे उसे सामान बराबर पहुंचते रहनेका भरोसा था. इसलिये टॉमसने यह तज्वीज मंजूर न की. सिवा इसके उसको यह भी मालूम था, कि उनका उदयपुरके नज्दीक कियाम होनेसे मामूली बारिशके मौसममें, जो कि करीब था, बहुत फायदह होगा, क्योंकि टॉमस तो चारे दानेका बन्दोबस्त कर सका था, और उनको इसकी बड़ी हाजत थी. ये बातें उसने आंवाके विचारके लिये लिख भेजीं, लेकिन इससे कुछ फायदह न हुआ; क्योंकि उस सर्दारके खास अफसरोंको रिश्वत देदी गई थी, इस वास्ते उन्होंने संधियाका जवाब आनेतक लखवासे लड़ाई करनेमें इन्कार किया. टॉमसने लाचार होकर नाराजीके साथ इन बातोंको कुबूल किया, और दोनों फौजें खानह हुई; बारिशके सबब उत्तरी सहदपर पन्द्रह दिनमें पहुंचीं, जो सिर्फ पचास कोसका फासिला था. लखवाकी मददको उदयपुर व अजमेरसे फौज पहुंचगई थी, इसलिये उसने मुल्क खाली करनेसे इन्कार किया, और दोबारह दुश्मनी शुरू करके टॉमसकी तरफ कूच किया. आंवाकी फौज एक ऐसे मैदानमें ठहरी थी, कि उसपर रिसालेका हमलह अच्छी तरह होसक्ता था. टॉमसने अपनी जाती होश्यारीके साथ ऐसी जगहपर कदम जमाया, जो नालों व खालोंसे घिरी हुई थी. उस वक्त एक जंगी कौन्सिल हुई, जिसमें यह करार पाया, कि आंवाकी फौज टॉमसके पीछे ठहरे, ताकि दुश्मनके रिसालेका हमलह उसपर न होसके. लेकिन यह बात मालूम होनेसे पहिले फौजके एक गिरोहने रसोई बनाना शुरू करदिया था, इसलिये खाना खालेनेके पहिले लड़ाईमें न जा सकनेके सबब मौकेपर पहुंचनेमें देरी हुई, और इस देरीका नतीजह बहुत खराब हुआ, परन्तु लखवाने भी अपने साम्हनेके मोर्चेपर जा पहुंचने की कोशिश की, और पक्का इरादह करके चला, मगर उसने बहुत जल्द ही पीछा हटनेपर मजबूर होकर पैदल सिपाहियोंको अपने बचावके वास्ते हुक्म दिया, और अपनी नाकाम्यावीका बदला लेनेकी ख्वाहिश से ऊपर लिखे हुए गिरोहपर अचानक टूट पड़ा, जो हमला होनेके खयालसे बिल्कुल बेखबर रहनेके सबब उसका मुकाबलह करनेको तय्यार न था; इसलिये उस गिरोहके कुल आदमी मारे गये. टॉमसने आंवाकी मददके लिये दो गिरोह छोड़कर बाकी सिपाहियोंके साथ लखवाकी फौजपर हमलह करनेको कूच किया, लेकिन उस वक्त सरत बारिश आजानेके सबब नालोंमें एक दम पानी भर गया, और तर्फेनसे लड़ाई बन्द होगई. आठ दिनतक बराबर पानी बरसता रहा, और

इन दिनोंमें छोटी मोटी लड़ाइयां भी होती रहीं. लखवा और उसके खास थोड़े सदांर किसी कद्र चुने हुए सवारोंके साथ रोज़ टॉमससे मिलनेको जाया करते और वे अक्सर कैम्प व शाहपुरेके दर्मियान ठहरते थे, जहांसे बराबर उसे रसद पहुंचा करती थी.

इस मौकेपर दुश्मनको धोखा देनेके लिये टॉमस अपने सिपाहियोंकी पोशाक और भंडेका रंग बदल देता और किसी बहानेसे दुश्मनकी फ़ाइरके भीतर पहुंचकर बड़ी तेज़ीके साथ गोलन्दाजी शुरू करा देता था; एक दफ़ह वह दुश्मनोंके गिरोहके इतना करीब जा पहुंचा, कि जहां लखवा आसानीसे पहिचाना जा सका था. टॉमसने बड़ी तेज़ी और होश्यारीके साथ फ़ाइरसे हमलह किया, जिसमें उनको बहुत जल्द कुछ आदमियों व घोड़ोंका नुक़सान उठाकर पीछा हटना पड़ा. इन छोटी छोटी लड़ाइयोंसे, जिनमें फ़ौजके लोगोंको बड़ी दिक्कतें पेश आती थीं, किसी गिरोहको ज़ियादह नुक़सान न पहुंचा, क्योंकि दोनोंको सेंधियाकी तरफ़से सुलह करनेकी बाबत जवाब पहुंचनेकी उम्मेद हर रोज़ रहती थी. टॉमसकी गैर हाज़िरीका मौका पाकर जैजूरके पर्गनेपर पेरन साहिबके हमलह करने और उसके दूसरे इलाक़हमें लूट मार मचानेकी ख़बर पहुंची, जिसको वह लखवासे पोशीदह रखना चाहता था, परन्तु उस (लखवा) को पहिलेसे ही यह ख़बर मिलगई थी. अब उसने टॉमसको लालच देकर अपने शामिल करनेकी कोशिश की, लेकिन टॉमसने क़ितई इन्कार किया और जवाब दिया, कि मुम्किन है, कि मैं उस (आंवा) की नौकरी इस लड़ाईके ख़त्म होनेपर छोड़ दूं, परन्तु उसका दुश्मन तो किसी हालतमें नहीं हो सका, और न उसके दुश्मनोंसे किसी तरहका सरोकार रख सका. यह सुनकर लखवा नाराज़ हुआ, और उसने अपने दरबारमें टॉमसकी बड़ी शिकायत करके कहा, कि वह एक अजीब चाल चलनका आदमी है; सेंधियाने उसको लड़ाई बन्द करनेका बराबर हुक़म भेजा, तो भी उसने न माना. अख़ीरमें टॉमस पर यह तुहमत लगाई, कि उसका इरादह सेंधियाकी हुकूमत तोड़कर अपनी हुकूमत जमानेका है. इन बातोंकी बनावटसे आसूदह न होकर लखवाने पोशीदह तौरपर टॉमसके कैम्पमें अपने आदमी भेजकर सिपाहियोंको वहकाना चाहा, लेकिन टॉमसके हर्कारोंने उन आदमियोंको गिरिफ़्तार करलिया, और जबतक लड़ाई रही, वे वहां कैद रहे.

जब टॉमसकी कोई बन्दिश इस मौकेपर कारगर न हुई, तो उसने अपने व लखवाके सिपाहियोंको उनके मुल्कमें बहुत जल्द पहुंचानेकी तसल्ली देकर राजी करलिया. उस वक्त लखवा की फ़ौजमें नौ हजार सवार, छः हजार क़वाइद जानने वाले पैदल सिपाही, दो हजार रुहेले और पांच या छः हजारके करीब दूसरे सिपाही मए ९० तोपोंके थे. टॉमसके पास सिर्फ़ छः

पलटनें थीं, जिनमेंसे भी बहुतसे लोग कम होकर सिर्फ़ १५० सवार, ३०० रुहेले और २२

तोपें रह गई थीं. इस थोड़ीसी फ़ौजके साथ उसको आंवाकी हिफ़ाज़त, कैम्पके बचाव और सामान पहुंचानेके गार्ड तथा तमाम लश्करके लिये घास वगैरहका बन्दोबस्त करना पड़ा.

लखवा और टॉमसके दर्मियान कई लड़ाइयां हुई, जिनमें टॉमसने अक्सर फ़तह पाई, और कई बार उसने दुश्मनको कैम्पकी तरफ़ पीछा हटा दिया; बल्कि एक मौक़ेपर तो ऐसी तेज़ीसे हमलह किया, कि लखवा सरुत शिकस्त पानेसे थोड़ा ही बच गया. उसने अपनी कुल फ़ौज कैम्पसे निकालकर टॉमसपर, जिसके पास सिर्फ़ दो ही पलटनें थीं, हमलह किया, इसलिये मजबूर होकर उसे पीछा हटना पड़ा; लखवाने कैम्पतक उसका पीछा किया, लेकिन उसी मौक़ेपर एक बारगी ३ पलटनों और कुछ गोले बारूदकी मदद आ पहुंचनेके सबब टॉमसने पीछा करने वालोंपर अचानक हमलह कर दिया, और उन्हें अच्छी तरहसे रोका. लखवा अपने बहुतसे आदमियोंका नुक़सान होजानेसे घबराकर पीछा फिरा, और लश्करमें इस क़द्र अन्तरी होगई, कि वह सिर्फ़ रातके अंधेरेके सबबसे ही शिकस्त पानेसे बचा, वरनह उसे पूरा नुक़सान उठाना पड़ता. दोनों कैम्पोंके दर्मियान एक नाला था, जिसके उत्तर तरफ़ लखवाकी फ़ौज और दक्षिण तरफ़ आंवा व टॉमसकी फ़ौज थी. आंवाने लखवाके तोपखानहसे बचनेके लिये, जो उसके ऊपर फ़ाइर करना चाहता था, नालेके उत्तर तरफ़ एक मजबूत मोर्चा बनाया; लेकिन फ़ौजके खास गिरोहसे ज़ियादह दूर होनेके सबब हमलेकी हालतमें मदद नहीं पहुंच सकती थी, इसलिये उसकी हिफ़ाज़तके वास्ते तीन गिरोह सिपाहियोंके, छः तोप और एक हज़ार गुसाईं तईनात किये गये, और इनकी मददके वास्ते तीन गिरोह थोड़ी थोड़ी दूरीपर पीछेकी तरफ़ रक्खे गये. चौबीस घंटेतक खूब बारिश हुई, जिससे दो बड़े तालाब किनारेतक भरकर पानी बह निकलनेके सबब नालेमें पानी बहुत बढ़ गया, और दोनों लश्करोंके बीचकी आमद रफ़्त बन्द होगई.

लखवाने यह मौक़ा पाकर ऊपर बयान किये हुए मोर्चेपर बड़ी तेज़ीसे धावा किया, उसके आदमी हमलह करनेको गले तक पानीके भीतर चले गये, यह बहादुरी देखकर मोर्चेके सिपाहियोंकी हिम्मत पस्त होगई, और वे एक गोली भी नहीं चला सके थे, कि ताबे होगये; लेकिन गुसाइयोंने ताबे होनेसे इन्कार किया, और बड़ी बहादुरीके साथ मुकाबलह करके मारे गये, आंवाकी बहुतसी फ़ौज भाग गई. लखवाने शाहपुराके राजाको भी टॉमसका दुश्मन बना दिया, ताकि उसे रसद वगैरहकी मदद न मिल सके. इस वक्त टॉमसके पास बीस दिनका और आंवाके पास सिर्फ़ तीन ही दिनका सामान था, इसलिये कुछ दिक्कत हुई. अगर उन (आंवाकी फ़ौज) को टॉमसकी मददके बिना पीछा हटना पड़ता,

तो जरूर था, कि उनका चालाक और होशियार दुश्मन उनके टुकड़े टुकड़े कर डालता.

टॉमसको गोले बारूदकी तकलीफ थी, क्योंकि उसका बहुतसा सामान बीस (१) कोसके फ़ासिलेपर सांगानेरमें रहगया था; ज़ियादह फ़ासिलेके सबब थोड़ेसे आदमी सामान लानेके लिये नहीं भेजे जासके थे, और ज़ियादह आदमी भेजना मुम्किन न था, इसलिये उसने खुद कूच करना और ज़रूरी सामान लेकर अपने पहिले मक़ामपर वापस जाना मुनासिब समझा, लेकिन आंबाके बहुतसे घायल और बीमार आदमी वहां पड़े रह गये थे, इसवास्ते टॉमसने अपनी ज़ाती नेकी और सखावत से उनको सवारी खर्चके लिये रुपया दिया. लखवाकी फौजके एक गिरोहने उसका पीछा किया, परन्तु उसको कई बार हैरान और परेशान होकर पीछा छोड़ना पड़ा. इसके बाद टॉमसने बाकी सफ़र बे खटके तै किया. पहिले लिखा गया है, कि आंबाने टॉमसके क़बज़ेपर हमलह करनेकी इजाज़त दी थी, और इस ग़लतीको वह जानता भी था, क्योंकि टॉमसने हमेशह ईमानदारीके साथ उसकी नौकरी की थी. आंबाने इन हमलोंका इल्ज़ाम 'पेरन' पर लगाया.

हकीक़त तो यह है, कि आंबा और पेरन दोनोंने यह विचार लिया था, कि लखवाने मेवाड़ तो ख़ाली कर ही दिया है, अब टॉमसकी नौकरीका कुछ काम नहीं; इसलिये यह मौक़ा उसके इलाके छीन लेनेके लिये अच्छा है, लेकिन उसकी दिलेरी और हालकी लड़ाईमें अपनी ख़ैरख़्वाही ज़ाहिर करनेसे बड़े शर्मिन्दह हुए और अपने बद इरादोंसे बाज़ रहे. टॉमसने इस बद सुलूकीसे अपनी नाराज़ी ज़ाहिर करना मुनासिब समझकर उसके ज़िले वापस देदिये, जिससे मुआमलह तै होगया.

सांगानेरमें पहुंचने बाद गोला बारूद वगैरह कुल सामान दुरुस्त करके टॉमस फौरन् लखवाकी तरफ़ चला, जिसने सांगानेरसे बीस कोसपर पूर्वोत्तरकी तरफ़ एक क़िलेको घेर रक्खा था, और उसने धीरे धीरे अगरचन्द महताके इलाक़ह (पर्गनह मांडलगढ़) में होकर उस सद्दरको सज़ा देना मुनासिब समझा, जिसने कि देशी लोगोंको ऐसे मौक़ेपर उसके बख़िलाफ़ बहका दिया था.

टॉमस थोड़े दिनोंमें लखवाके कैम्पसे करीब बारह मीलके फ़ासिलेपर पहुंचा, जिसपर दूसरे दिन सुबहको हमलह करना चाहता था, लेकिन लखवाने अपनी कमज़ोरी पर ख़याल करके उस क़िलेको छोड़दिया, जिसपर कि उसने घेरा डाल रक्खा था, और दो मंज़िल चलकर अजमेरके सूबेमें दाख़िल होगया. दौलतराव संधियाकी चिट्ठियां टॉमसके नाम आगई थीं, कि लखवाको फ़र्माबदर बनाकर लड़ाई ख़त्म करो. लेकिन इन

(१) यह फ़ासिलह फ्रैंक्लिन साहिबने अंदाज़हसे लिखदिया है, वर्नह अस्लमें १२ कोसके अनुमान है.

खतोंका जवाब टॉमस बराबर यही देता रहा, कि मैं आंबाका नौकर हूं, उसके हुक्मके सिवा किसी दूसरेका हुक्म नहीं मान सका, और उसका हुक्म बराबर यही आता रहा है, कि जबतक लखवा उदयपुरका इलाक़ह न छोड़ देवे लड़ाई बन्द न करो.

यह मुराद अब पूरी होगई, इसलिये टॉमसने महसूल जारी करना शुरू किया, कि गुजरातह लड़ाईका खर्च आंबाको चुका देवे. उसने चार लाखके करीब रुपया एकठा करलिया, जो खर्चसे बहुत ज़ियादह था. अगर पेरन साहिब उस वक्त उस अहदनामहको, जो आंबाके साथ हुआ था, न तोड़ता, तो वह इससे भी ज़ियादह रुपया जमा कर सका था. इस अहदनामहकी यह शर्त थी, कि अगर संधिया लखवाको दोवारह इस्तिथार देना मुनासिब समझे, तो वे दोनों मिलकर काम करें. इस तरहसे उन दोनोंके दरजे ज्योंके त्यों बने रहेंगे. यह भी शर्त थी, कि मेवाड़ आंबाके कब्ज़हमें रहे. पेरन इस समय आंबासे डाह रखने लगा, और उसने लखवाके साथ पोशीदह तौरपर एक अहदनामह कर लिया. संधियाकी चिट्ठियां पेश की गईं, जिनमें लिखा था, कि आंबा मेवाड़से फौज हटा लेवे, और लखवा उसके इलाक़हपर काबिज़ रहे. पेरनने आंबाको सलाह दी, कि इस हुक्मकी तामील करो, वरनह लखवाकी मदद करके ज़बर्दस्ती उसके इलाक़े दिलाऊंगा. इस हालतमें आंबाने अपने तहसीलदारों व टॉमसके नाम चिट्ठियां लिखीं, कि मुल्क मुतनाज़ह छोड़कर फौज हटा लो. टॉमसने तामील की, पेरन जयपुरको गया, आंबा पीछे रहा, और थोड़े ही दिनोंमें टॉमसको दतियाकी तरफ़ भेजना चाहा, वह उस तरफ़ जानेकी तय्यारी कर रहा था, कि एक दूसरा हुक्म उसके नाम आंबा और लखवा दोनोंकी फौजमें शामिल जा मिलनेकी बाबत आया. टॉमसको कुछ दगाबाज़ीका शुब्ह मालूम हुआ, कि लखवा मेरी बर्बादीका मौक़ा ढूंढता है, इसलिये वह उस हुक्मको न मानकर उत्तरकी तरफ़ चला गया.

लखवाने एक फौज टॉमसको सज़ा देनेके वास्ते भेजना चाहा, लेकिन् जुरूरतके मुवाफ़िक़ रुपया जमा न कर सका. टॉमसने अजमेरके सूबेमें, जिधरसे सफ़र कर रहा था, बहुतसा रुपया जमा किया, और अपने तई ज़ाहिरा लखवाका दुश्मन समझा. इस वक्त उसकी हालत बहुत नाज़ुक होगई थी, लखवाकी फौज सिर्फ़ बीस कोस फ़ासिले पर पूर्वकी तरफ़ थी; जयपुरकी फौज उसके साम्हने थी, और पेरन उसको नुक़सान पहुंचानेकी कोशिशमें लगरहा था. मेवाड़के पहाड़ी इलाक़हके खराब पानीसे उसकी फौजका तिहाई हिस्सह बीमार था, लेकिन् लखवाकी फौज नाफ़र्माबदार होरही थी, और महाराजा जयपुर व पेरन साहिब, कर्नेल कॉलिस, अंग्रेज़ी एल्चीकी मौजूदगीसे डरगये थे, जोकि विक्रमी १८५६ [हि० १२१४ = ई० १७९९] के

अखीरमें पहुंचा था, कि अवधके बनावटी नव्वाब वजीर अलीको मांग लेवे. इस हालतमें टॉमस उसकी तरकीको रोकनेकी हर एक कोशिश तै करके दो लाख रुपया जमा करने बाद अपने इलाकहमें आराम करनेके इरादहसे पहुंच गया था, लेकिन जियादह आराम न ले सका; मालगुजारी तहसील करनेके लिये जो फौज छोड़ी गई थी, वह भी आमिली; अब वह मरहटोंका फसाद तै होजानेके सबब पंजाबमें जाकर पटियालेके साहिब-सिंहको सजा देना चाहता था, जिसने सालगुजइतहमें टॉमसके साथ पोशीदह खत किताबत करनेके बाइस अपनी बहिनके साथ बंद सुलूकी की थी, और उसकी गैर मौजूदगीमें, जब कि वह मेवाड़के इलाकहमें था, उसके जिलोंमें लूट मार मचा रक्खी थी, लेकिन उस (पटियालाके) सिक्ख सर्दारने कुछ गांव और थोड़ासा नकद रुपया देकर दुश्मनी दूर की. इसके बाद टॉमस बीकानेरके राजाकी तरफ चला, जिसने अखीर झगड़ा खत्म होनेपर जयपुरके महाजनोंके नाम झूठी हुंडियां दी थीं, इस वक्त उस राजाने अपने पड़ोसी भाटियोंसे, जिनके साथ उसकी बहुत दिनोंसे ना इतिफाकी चली आती थी, कुछ काम निकाला."

ज्यॉर्ज टॉमस, जो राजपूतानहमें ज्याज फिरंगीके नामसे मशहूर है, जब मेवाड़में घुसा, तो उसने देवगढ़, आमेट, कोशीथल वगैरह आंवाके बहुतसे मुखालिफ सर्दारोंके ठिकाने बर्बाद किये. उसने सांगानेरसे खानह होकर इस किताबके लिखने वाले (कविराजा श्यामलदास) के गांव ठोकलियाको भी बड़ी सरुतीके साथ लूटा; जिसमें करीबन पचास हजार रुपयेका माल उसके हाथ लगा था. इस मारिकेमें, जो लोग मौजूद थे, उनकी जवानी मैंने सुना है, कि वह अंग्रेज लुटेरा होनेपर भी मुस्लिफ मिजाज था. जब हमारे पुरोहित (ब्राह्मण नाथा सोती) ने उससे जाकर कहा, कि इस मन्दिरमें हमारे ठाकुरोंका जनानह, और गांवकी औरतें धन माल छोड़कर बैठी हैं, अगर आपकी फौजके सिपाही मन्दिरके अन्दर जाना चाहेंगे, तो हम उन औरतोंको मारकर सौ दो सौ आदमी कट मरेंगे. उस नेक खयाल अंग्रेजने एक गार्ड भेजकर हुक्म दे दिया, कि कोई शख्स उस मन्दिरके पास न जाने पावे. यह धावा आंवाके दोस्त जोगीराम कान्हावतकी अदावतसे हुआ, जो पहिलेसे हमारे पूर्वजोंके साथ मुखालफत रखता था.

इन दिनोंमें महता अग्रचन्दने प्रधानेका कुल कारोबार अपने बड़े बेटे देवीचन्दको देकर मांडलगढ़में रहना इस्तिथार किया था. विक्रमी १८५६ पौष शुक्ल ५ [हि० १२१४ ता० ४ शअ्रवान = ई० १७९९ ता० ३१ डिसेम्बर] के दिन वहांसे उसके गुजर जानेकी खबर मिली, महाराणाको

इस खैरख्वाह प्रधानके जहानसे उठ जानेका बहुत रंज हुआ, क्योंकि वह विक्रमी १८१८ [हि० ११७४ = ई० १७६१] से विक्रमी १८५६ [हि० १२१४ = ई० १७९९] तक बराबर अपने स्वामीका खैरख्वाह बना रहा; अलबत्तह वह दोनों पार्टियोंमेंसे चूडावतोंका तरफदार गिना जाता था, लेकिन अपने मालिकके नुकसानमें कभी शरीक नहीं हुआ. वह अपने चारों बेटोंको अपनी जिन्दगीमें यही नसीहत करता रहा, कि मैं खैरख्वाहीके सबब छोटे दरजेसे बड़े रुतबेको पहुंचा हूं, इसलिये तुम लोग भी, चाहे कैसी ही तकलीफें क्यों न उठानी पड़ें, हमेशाह अपने मालिकके खैरख्वाह बने रहना, इसीमें तुम्हारी नेकनामी और इज्जत है.

इस शरूस्ने बड़ी बड़ी तकलीफें उठाकर मांडलगढ़के किलेको गनीमोंके पंजेसे बचाया, और उस पगनेके राजपूत व मीणा वगैरह लोगोंकी बड़ी बड़ी जम्इयतें लेकर फौरन महाराणाकी खिन्नतमें हाजिर होता रहा. यह स्वामिभक्त मुसाहिव प्रधानेका खिताब मिलने, और उस उद्देशसे बर्तारफ किये जानेपर भी, दोनों हालतोंमें अपने मालिकका खैरख्वाह बना रहा. इस किताबके मुसन्निकका प्रपितामह मयाराम भी इस खैरख्वाह प्रधानका सलाहकार गिना जाता था. उसकी नेक नसीहतका असर उसकी औलाद पर भी बना रहा, और महाराणाने भी उसके खानदानकी इज्जत बढ़ाने व पर्वरिश करनेमें कमी न की; हर एकको जुदी जुदी जागीरें और समय समयपर उद्दे दिये.

विक्रमी फाल्गुन कृष्ण १० [हि० ता० २३ रमजान = ई० १८०० ता० १८ फेब्रुअरी] को भींडरके महाराज मुहकमसिंहका इन्तिकाल होगया. यह शरूस् भी अपने मालिकका खैरख्वाह और मुल्कको तरकी देनेवाला था. अगर्चि इसका चूडावतोंसे मुकाबलह होनेके समय मुल्कमें तवाही फैली, लेकिन जब यह मुसाहिव बना, तो महाराणाके खालिसेको बढ़ाने और मुल्की फसाद दूर करनेकी कोशिश करता रहा. यदि ये दोनों पार्टी एक होकर मुल्कको तरकी देना चाहतीं, तो यह जमानह भी महाराणा संग्रामसिंहके अद्दका नमूनह बन सक्ता था, लेकिन आपसकी अदावत और फूटसे हिन्दुस्तानमें बड़ी बड़ी खरावियां पैदा हुईं, और उसी फूटने महाराणा दूसरे जगतसिंहके समय से मेवाड़में भी पैर जमाया. यह कुद्रतका तमाशा है, यदि कोई शरूस् जमानहके फेरफारको देखना चाहे, तो तवारीखकी सैर करनेसे उसको अच्छी तरह मालूम होसक्ता है. इन दिनोंमें रावत् भीमसिंह और रावत् अर्जुनसिंह भी इस दुनूयासे कूच करगये, जिससे कुछ दिनोंके लिये दोनों तरफका फसाद ठंढा होगया.

विक्रमी १८५७ [हि० १२१५ = ई० १८००] में जहाजपुरका किला

भी, जो लखवाने शाहपुरेसे (१) छीनकर महाराणाके खालिसेमें मिला लिया था, महता अग्रचन्दके बड़े पुत्र महता देवीचन्दकी सुपुर्दगीमें किया गया. यह काम भी बहुत ठीक हुआ, क्योंकि अग्र ऐसे खैरखाह आदमीके तहतमें यह सहेदी क़िला न रक्खा जाता, तो संभव था, कि कोई गनीम या सहेदी मुखालिफ उसपर क़बज़ह करके मुल्कका एक बड़ा हिस्सह रियासतसे जुदा करलेता; अलावह इसके और भी कई तरहके फ़ायदे थे, जिनमेंसे सबसे बढ़कर यह था, कि उस ज़िलेमें राजपूत, मीणे, व गूजर हजारों लड़नेवाले आदमियों की आबादी होनेसे वक्तपर रियासतको फौजी मदद मिल सकती थी. हकीकतमें अग्रचन्द और देवीचन्दने इन ज़िलोंको हाथसे न जाने दिया, वरनह पेशतर इनपर कई तरहके ख़तरे गुजर चुके थे. यदि महाराणा और उनके खैरखाह मुसाहिबोंकी कोशिशसे ये दोनों गिरोह एक होजाते, तो बहुत कुछ मुल्की फ़ायदह करते. अगर्चि इस फूटकी बुन्याद तो पहिलेसे ही जमगई थी, जैसा कि हम ऊपर लिख चुके हैं, लेकिन इस समय उसको ज़ियादह तरकी देनेवाला ज़ालिमसिंह भाला था, जो दोनों फ़रीकोंको आपसमें लड़ानेकी कोशिश करता रहा, क्योंकि इसमें वह अपना फ़ायदह जानता था, जैसा कि कर्नेल टॉडने लिखा है.

विक्रमी १८५८ माघ कृष्ण १० [हि० १२१६ ता० २४ रमज़ान = ई० १८०२ ता० २९ जैनुअरी] को नाथद्वारेके गोस्वामी श्री गोवर्द्धननाथकी मूर्तिको उदयपुर लेआये, जिसका हाल इस तरहपर है, कि जब जशवन्तराव हुल्कर फौज समेत नाथद्वारेके करीब आ पहुंचा, और उसका इरादह हुआ, कि इस देवस्थानकी दौलत लेलेवे, तो यह सुनकर उक्त गोस्वामीने एक पत्र महाराणाके नाम भेजा, जिसपर महाराणाने देलवाड़ेके राज कल्याणसिंह भाला, कूठवाके ठाकुर विजयसिंह चूडावत सांगावत, आगस्थाके ठाकुर राठौड़ जगत्सिंह जैतमालोत, मोईके जागीरदार अजीतसिंह भाटी, साह एकलिंगदास बौल्या, तथा जमादार नाथू सिंधीको मए जम्इयतके नाथद्वारेकी तरफ़ रवानह किया. ये लोग वहां पहुंचकर गोस्वामी और श्री गोवर्द्धननाथ, विठ्ठलनाथ तथा नवनीतप्रिय आदिकी मूर्तियोंको लेकर चले; इसी मौकेपर कोठारियेका रावत् विजयसिंह चहुवान भी मददके लिये आ पहुंचा. इन लोगोंका पहिला मक़ाम ऊनवास गांवमें हुआ, जो पहाड़ोंके घेरमें है. आगेकी तरफ़ कुछ ख़तरा न जानकर विजयसिंहने रुख़सत ली, रास्तेमें जशवन्तराव हुल्करकी फौजने उस बहादुर सर्दारको घेरकर कहा, कि घोड़े व शस्त्र दे जाओ. उस शूरवीरको यह बात नागुवार गुज़री, और उसने अपने घोड़े क़त्ल करके क़दीम

(१) शाहपुराके राजाने कुछ दिनों पहिले इस क़िलेमें क़बज़ह करलिया था.

रवाजके मुवाफिक पैदल होकर दुश्मनोंपर हमलह कर दिया. अगर्चि गनीमकी फौजके हजारों आदमी थे, लेकिन विजयसिंहकी बहादुरीपर वे चारों तरफसे शाबाश ! शाबाश !! बोलते, और अपनी जानका खतरा समझे हुए थे; परन्तु हजारों आदमियोंके दलमें यह अपने थोड़ेसे राजपूतोंकी जम्हूरतसे क्या करसक्ता था, आखिरकार उन बहादुर राजपूतों सहित लड़कर वहीं मारा गया.

श्री गोवर्द्धननाथकी मूर्तिको लेकर गोस्वामी घसियार (१) ग्राममें पहुंचा, महाराणा उन्हें पेशवाई करके ऊपर लिखी हुई तारीखको उदयपुरमें ले आये. यहां वह दस महीनेतक ठहरे और घसियारमें मन्दिर व किला बननेके बाद मूर्ति सहित वहां जा बसे. विक्रमी १८६४ [हि० १२२२ = ई० १८०७] में गोस्वामी महाराज मूर्तिको घसियारसे नाथद्वारेको लेगये. जशवन्तराव हुल्करने नाथद्वारेके लोगोंपर बड़ी सख्तियां करके रुपया लेने बाद भीडर पर भी दबाव डाला. इन बातोंको देखकर महता अगरचन्दके नाइब महता मौजीरामने, जो उस समय प्रधान बना था, महाराणासे अर्ज की, कि अब कवाइद जाननेवाली जंगी फौज भरती करके उसका खर्च मेवाड़के सर्दारोंसे वसूल करना चाहिये. यह बात सुनकर मेवाड़के सर्दारोंने मौजीरामको प्रधानसे खारिज करदिया, और उसकी जगह साह सतीदासको वजीर बनाकर उसके भाई शिवदासको कोटासे बुलाया, जो चूडावतोंके खौफसे जालिमसिंहके पास भाग गया था. इन्हीं दिनोंमें आंवा एंगलियाका भाई बालेराव और जालिमगिर गुसाई व ऊदा कंवर (२) आये, और विक्रमी १८५८ फाल्गुन [हि० १२१६ शव्वाल = ई० १८०२ मार्च] में वे तीनों शरूख महाराणाके साम्हने सख्त कलामी करनेके कुसूरपर कैद किये गये. जालिमसिंह भाला कोटेसे एक फौज लेकर मेवाड़की तरफ रवानह हुआ, वह चाहता था, कि महाराणा इन तीनों मरहटोंको छोड़देवें, लेकिन इसके बखिलाफ चूडावत सर्दार इस बात को न मानकर जालिमसिंहकी सजादिहीके वास्ते मए फौजके उदयपुरसे रवानह हुए. महाराणा तो दोनों फरीकोंको खुश रखना चाहते थे, वह इसवक्त जाहिरा चूडावतोंके साथ मुकाबलहको तय्यार होगये, और खानगीमें जालिमसिंहको कहला भेजा, कि तुम थोड़ासा मुकाबलह करना, जिससे हम चूडावतोंको धमकाकर बालेरावको छोड़ देंगे. और ऐसा ही हुआ,

(१) यह स्थान उदयपुरसे वायव्य कोणमें ६ कोसके फासिलेपर है, इसका सविस्तर वृत्तान्त नाथद्वारेके हालमें लिखा जायेगा.

(२) मरहटे लोग गुलामको कंवर कहते हैं.

कि महाराणा मए चूडावत सर्दारों व फौजके नाहर मगरेके करीब मुखालिफोंकी फौजके मुकाबिल पहुंचे, और तर्फेनसे तोपोंके गोले चलने लगे. उस वक्त यह अपने सर्दारोंको घबराये हुए देखकर लौट आये, लेकिन चूडावत सर्दारोंने बदनामी उठानेपर भी अपने पुश्तैनी दरजेको न छोड़ा, याने लड़ाईके वक्त हरावलमें थे, उसी तरह भागते वक्त भी हरावलमें होलिये. चेजाके घाटेमें थोड़ासा मुकाबलह होनेपर महाराणाने जालिमसिंहको बुला लिया, और उसने भी बड़ी नमीके साथ कहा, कि मैंने अपने मालिकसे गुस्ताखी की, उसका कुसूर मुआफ़ होना चाहिये. महाराणाने उसकी खातिर की और तीनों मरहटोंको उसके सुपुर्द किया.

संधियाने हुल्करको बड़ी भारी शिकस्त देकर मेवाड़तक उसका पीछा किया था, और वह जयपुरकी तरफ़ भाग गया, लेकिन संधियाके अफसरोंने महाराणासे भी तीन लाख रुपया गहना व जवाहिरात बिकवाकर वसूल किया, और लखवाको हुकूमतसे खारिज करदिया. वह विक्रमी १८५९ [हि० १२१७ = ई० १८०२] में सलूबरके एक मठमें मरगया. अब जालिमसिंह भालाकी बात तेज होगई, और वह इस वक्त महाराणाकी खैरखाही छोड़कर मेवाड़की बर्वादीको अपनी आंखसे बे फिक्रीके साथ देखने लगा. साह सतीदास प्रधान और बालेशव मेवाड़की हुकूमत लेकर चूडावतोंको जलील करनेपर मुस्तइद हुए.

विक्रमी १८६२ [हि० १२२० = ई० १८०५] में हुल्कर और संधिया, दोनों मेवाड़में बदनामके करीब ठहरे और गवर्मेण्ट अंग्रेजीके खौफसे आपसमें दोस्त बनकर अपने बचावकी तर्कीरें सोचने लगे. लेकिन उनकी कोई हिकमत न चली; उधर अंग्रेजोंने मरहटोंपर तबाही डाली, और इधर मरहटोंने मेवाड़की खराबी की. इस वक्त पूर्वोत्तरी हिन्दुस्तानसे मरहटोंका दखल उठ गया था, और नर्मदासे दक्षिण तरफ़ भी अंग्रेजी निशान उड़ रहे थे. हुल्कर और संधियाने अंग्रेजोंसे मुकाबलह करनेके लिये यह तर्कीर सोची, कि मेवाड़के किलों और पहाड़ोंमें अपने बाल बच्चे तथा सामानको हिफाजतसे रखकर अंग्रेजोंसे लड़ें. इस वक्त महाराणाकी तरफसे रावत सर्दारसिंह संधियाके लश्करमें एल्ची था, और संधियाको उसका मुसाहिव आंवा एंगलिया मेवाड़का दुश्मन बनकर यही सलाह देता था, कि मेवाड़का राज मरहटे सर्दारोंमें तकसीम करदिया जावे, लेकिन सर्दारसिंहके मददगार दौलतराव संधियाकी स्त्री बेजाबाईकी मददके सबब आंवाकी खाहिश पूरी न होसकी. रावत संग्रामसिंह व कायस्थ कृष्णदास महाराणाके भेजे हुए हुल्करके दरबारमें मोतमद थे. जब आंवाका जियादह जोरशोर देखा, तो रावत सर्दारसिंह हुल्करके लश्करमें अपने

दुश्मन रावत संग्रामसिंहसे आ मिला. इन दोनों सर्दारोंने अपने मालिककी खैरखाही के लिये आपसकी खानगी दुश्मनी छोड़कर जशवन्तराव हुल्करको अपना मददगार बनाया, और उसे यह कहनेके अलावह, कि क्या आपने आंबाको मेवाड़का मुल्क बेच दिया है, कि वह अपनी मर्जीके मुवाफ़िक़ रिआयापर जुल्म करता है ? इसी किस्मकी और भी कई बातें कहीं, जिन्होंने जशवन्तरावके दिलपर बहुत कुछ असर किया, और उसने सर्दारसिंह व संग्रामसिंहको तसल्लीके साथ यह कहकर, कि आंबाकी स्वाहिशके मुवाफ़िक़ कुछ न होगा, तुम दोनों आपसकी दुश्मनी छोड़कर एक हो जाओ, उन दोनों सर्दारोंको अफीम दी, और आपसमें इत्तिफ़ाक़ करादिया. हुल्करने सेंधियासे कहा, कि मेवाड़के खानदानका बड़प्पन बर्बाद करना ईमानदारीके बख़िलाफ़ है, क्योंकि महाराणा हमारे मालिकोंके (१) मालिक हैं; और इसके सिवा यह भी कहा, कि जितने मुल्क क़दीमसे महाराणाके हैं, वे सब छोड़कर लाजिम है, कि उनके साथ दोस्ती पैदा करें, और मेवाड़के क़िलोंको अपना क़ियामगाह बनाकर अंग्रेजोंसे लड़ें.

इसके बाद हुल्करने, मेवाड़के कुल ज़िले, जो उसने अपने क़बजेमें ले लिये थे, छोड़ दिये (२). यह बात सेंधियाके दिलपर भी जमगई, लेकिन बर्सात शुरू होजानेके कारण दोनों मरहटे सर्दारोंके बीच दोबारह बात चीत करनेका मौक़ा न मिला. इसी अरसेमें हुल्कर के ख़बर नवीसका एक ख़त उस (हुल्कर) के पास इस मज़मूनका पहुंचा, कि लॉर्ड लेक के कम्पू में महाराणाका एल्ची भैरवबख़्श आया है, वह यह कहता है, कि जो अंग्रेज़ी फ़ौज़ टोंकमें मुक़ीम है, मेवाड़में आकर मरहटोंको निकाल देवे. इस ख़तके पढ़ते ही जशवन्तराव आग़ होगया, और उसने सर्दारसिंह व संग्रामसिंहको बुलाकर वह कागज़ दिखाया. मेवाड़के

(१) हुल्कर व सेंधियाका मालिक पेशवा, और उसके मालिक सितारा वाले थे, जो महाराणाके खानदानकी एक शाखामेंसे गिने जाते थे.

(२) हुल्करने नीवाहेड़ा छोड़ देनेकी बाबत महाराणाके नाम एक कागज़ लिख भेजा था, जिसकी नक़्क़ यहाँपर दर्ज कीजाती है:—

स्वस्तिश्रीमन्निषलनिगदितलीलोमारमणचरणशरणमहाराणाजी श्री भीमसिंहजी जोग्य,
लिखतं महाराज धिराज राज राजेश्वर महाराज सूबेदारजी श्री जशवन्तरावजी हुल्कर
आलीजाह बहादुरकेन श्री वंचजो, अठाका समाचार श्री जीकी
कृपाकर भला छे, आपका सुख समाचार सदा भला चाहिजे, तो परम संतोष हो, अप्रच आपकी
तरफ़सूं याद आई, सो ठाकुर अजीतसिंहजीके विद्यमान मोकलसी वा करार करदीनी वा
नीवाहेड़ाकी तुरंत छोड़ चिट्ठी लिखा भेजी है. यादमें मोकलसी करार किया, जी परमाणे अठासूं
तफ़ावत न पड़शी; परन्तु दोनों तरफकी निभाई पार पड़शी, अठे सारा भला वेव्हार आपहीका
जाण कृपा पत्र हमेशा लिखावता रहोगा जी, मिति प्रथम चैत्र सुद २ संवत १८६०.

वकील कृष्णदास कायस्थने इस वारेमें चन्द उज्र पेश करके हुल्करका गुस्सह ठंढा किया; लेकिन उसका वजीर अलीकर तांतिया बोल उठा, “ कि तुम इन रांघडोंको ईमानदार समझते हो, लेकिन यह तुममें और सेंधियामें बाहम दुश्मनी पैदा कराकर दोनोंको बर्बाद करेंगे, इसलिये राजपूतोंको छोड़कर सेंधियासे इत्तिफाक करना और सरजी-रावको निकलवाकर आंवाको मेवाड़का सूबेदार बनाना चाहिये, वरनह मैं भी तुम्हारा साथ छोड़कर सेंधियाको मालवेमें लेजाऊंगा. ” दूसरे सलाहकारोंने भी तांतियाकी इस बातको पसन्द किया. हुल्कर उत्तरकी तरफ गया, जिसको लॉर्ड लेकने पंजाबतक पीछा करके भगाया; और दोबारह मेवाड़के जियादहतर जेरबार होनेका वक्त आया, कि सेंधियाने १६०००००, सोलह लाख रुपया वसूल करनेपर जयपुरकी (१) फौजको उदयपुर से निकाल देनेके लिये सदाशिवरावको हुकम देकर भेजा. अब महाराणाकी कन्या कृष्णकुंवरवाईकी शादीमें विक्षेप होने और उस निर्दोष राजकुमारीकी जिन्दगी खत्म होनेका हाल लिखाजाता है:-

यह राजकन्या महाराणा भीमसिंहकी बेटी और जवानसिंहकी सगी बहिन थी, जिसका जन्म महाराणी चावड़ीके गर्भसे हुआ था, इसका सम्बन्ध विक्रमी १८५५ [हि० १२१३ = ई० १७९८] में सलूंवरके रावत् भीमसिंहकी मारिफत जोधपुरके महाराजा भीमसिंहके साथ होनेकी बात चीत हुई थी; लेकिन उक्त महाराजा विक्रमी १८६० [हि० १२१८ = ई० १८०३] में गुजर गये, और महाराजा मानसिंह जोधपुरकी गद्दीपर बैठे.

कृष्णकुंवरवाईका सम्बन्ध जयपुरके महाराजासे करार पानेकी हालतमें लोगोंने उक्त रियासतोंमें बखेड़ा पैदा करनेकी कोशिशें करना शुरू किया. उन दिनों महाराजा मानसिंहका उमराव पोहकरणका ठाकुर सवाईसिंह जयपुरमें था, और

(१) महाराणाकी बहिन चन्द्रकुंवरका सम्बन्ध जयपुरके महाराजा प्रतापसिंहके साथ हुआ था, जिसका जिक्र हम ऊपर लिख चुके हैं. इन दिनोंमें उक्त महाराजाका इन्तिकाल होगया, तब चन्द्रकुंवरवाईने कहा, कि मेरा पति तो वही था, जिसके साथ मेरी मंगनी हुई थी, अब मैं अपनी शेष उम्रका खातिमह वैधव्य व्यवहारके साथ करूंगी. उक्त राजकन्या प्रतापसिंहके पुत्र महाराज जगत्सिंहको अपना पुत्र जानती थी, और जगत्सिंह भी अपनी माताके तुल्य उसका सत्कार करते थे, जब मेवाड़में अधिकतर तवाही फैली, तो चन्द्रकुंवरवाईने अपनी भतीजी कृष्णकुंवरवाईका विवाह महाराजा जगत्सिंहके साथ करना चाहा, और जगत्सिंहकी बहिनका विवाह महाराणासे किया जाना ठहराया. यह खानगी तहरीर होचुकी, इस कारण जयपुरसे मददके लिये ३००० तीन हजार फौज

बुलाई गई थी

उसने अपनी पोतीकी शादी महाराजा जगत्सिंहके साथ करनी चाही थी. यह खबर सुनकर महाराजा मानसिंहने उसके नाम इस मज़मूनका एक पत्र लिख भेजा, कि तुम अपनी पोतीकी शादी महाराजाके साथ करो, तो पोहकरणमें करना, अगर जयपुरमें लेजाकर करोगे, तो राठौड़ोंकी बड़ी हतक होगी. जिसके जवाबमें सवाईसिंहने लिखा, कि मेरे भाई उम्मेदसिंहका घर जयपुरमें और गीजगढ़का ठिकाना उसकी जागीरमें है, इसलिये यहां विवाह करनेमें, तो कोई हतककी बात नहीं है, लेकिन उदयपुरके महाराणाकी राजकुमारी, जिसका सम्बन्ध महाराजा भीमसिंहके साथ होचुका था, जयपुरके महाराजासे व्याही जाती है, इसमें अल्बत्तह कुल राठौड़ोंकी हंसी होगी. अब सम्बन्ध करनेके लिये उदयपुरसे टीकेका सामान आने वाला है, इसलिये आपको चाहिये, कि इस बातपर ज़रूर खयाल रखें. यह सुनकर महाराजा मानसिंह जवानीके नशे में जोधपुरसे चढ़ निकले और कहा, कि जयपुरवालोंका क्या मक़दूर है, जो जोधपुरके महाराजाके साथ मंगनी कीहुई कन्याको विवाह लेजावें.

विक्रमी १८६३ [हि० १२२१ = ई० १८०६] के शुरूमें उदयपुरसे टीके का दस्तूर जयपुरकी तरफ़ रवानह कियागया था, कि जोधपुरसे महाराजा मानसिंह के उदयपुरकी तरफ़ कूच करनेकी खबर सुनकर जयपुरके महाराजा भी बड़ी फ़ौजके साथ मुकाबलेको रवानह होगये, इस कारण टीकेका सामान शाहपुरा मक़ामसे वापस लौटाया गया, और इस वक्त जयपुर व जोधपुरके अहलकार बीच बचाव करके सुलहके साथ दोनों राजाओंको पीछे लौटा लेगये. यह हाल मुफ़र्रसल तौरपर दोनों रियासतोंकी तवारीख़ोंमें लिखा गया है— (देखो पृष्ठ ८६२ व १३१७).

दोनों राजाओंमें सुलह होजानेके सबब पोहकरणके ठाकुर सवाईसिंहका मत्लब पूरा न हुआ, इसलिये उसने जयपुर पहुंचकर महाराजा जगत्सिंहसे कहा, कि उदयपुरका सम्बन्ध नहोनेसे आपकी बड़ी हतक हुई; अगर अब भी हिम्मत हो, तो हम सब राठौड़ आपके मददगार रहेंगे. महाराजाने दोवारह फ़ौजकी तय्यारी की; और बीकानेरका महाराजा सूरतसिंह व नव्वाब अमीरखां जयपुरके मददगार बने. महाराजा मानसिंह भी जोधपुरसे रवानह हुए, पुष्करके नज़दीक गांव गींगोलीमें विक्रमी १८६३ फाल्गुन शुक्ल पक्ष [हि० १२२२ सुहरम = ई० १८०७ मार्च] में दोनों फ़ौजोंका मुकाबलह हुआ, कुल राठौड़ जयपुरकी फ़ौजमें आमिले, और जोधपुरके महाराजा भागकर किले जोधपुरमें जा छिपे. जयपुरके दीवान रायचन्दने महाराजासे कहा, कि अब आपको उदयपुर शादी करके वापस जयपुर पधार जाना चाहिये, क्योंकि हमारी फ़तह होगई है; सिर्फ़ वही काम बाकी रहा है, जिसके लिये लड़ाई कीगई, सो वह भी जल्द ही सिद्ध होना चाहिये. उक्त वज़ीरकी यह सलाह बहुत ही मुफ़ीद थी, लेकिन ठाकुर

सवाईसिंह, जो अपना मत्लब किया चाहता था, इस सलाहमें बाधक हुआ, महाराजा ने उसका कहना मानकर जोधपुरको जाघेरा, उस वक्त अमीरखां पोशीदह तौरपर जोधपुर से मिलगया, इस शरूसकी दगावाजीसे महाराजा जगतसिंहको वापस भागना पड़ा. महाराजा मानसिंहने अमीरखांकी मददसे पीछा करके महाराजा जगतसिंहको बहुत तंग किया.

दौलतराव सेंधियाने उदयपुरकी तरफ़ फौजकशी करके विक्रमी १८६२ [हि० १२२० = ई० १८०५] में महाराणासे कहलाया, कि जयपुरके वकीलको, जो शादीका पैगाम लेकर आया है, निकाल दो, परन्तु इसकी तामीलमें देर जानकर वह खुद उदयपुरके करीब आ पहुंचा, और लड़ाई शुरू करदी, महाराणाने समयके अनुसार उसका कहना मंजूर करके फ़सादको दूर किया. सेंधियाकी जयपुरके महाराजासे नाराजगी के दो कारण थे, एक तो यह, कि उसका चढ़ा हुआ खिराज जयपुरसे नहीं मिला था, दूसरे सेंधियाकी फौज पहिले जयपुरसे शिकस्त पा चुकी थी; इस वास्ते उसने इस शादीको रोककर महाराजा जयपुरकी हतक करवाना चाहा. जब महाराणाने उसके कहनेपर अमल करके जयपुरके एल्चीको निकलवा दिया, तो वह वापस चला गया. जिस वक्त जयपुर व जोधपुरके दरमियान लड़ाई होनेके बाद आपसमें सफ़ाई होचुकी, और अमीरखांने सवाईसिंह वगैरहको मारकर महाराजा मानसिंहका खटका मिटा दिया, तब महाराजाने नव्वाबसे कहा, कि अब एक काम और बाकी रहा है, उसको भी तुम उदयपुरमें पहुंचकर खत्म करो; क्योंकि जबतक कृष्णकुंवरबाई जिन्दह है, तबतक कभी न कभी फिर फ़सादकी सूरत पैदा होनेका अन्देशह है. उस जालिम निर्दयी पठानने इस राक्षसी कामके करनेपर कमर बांधी, और चूंडावत ठाकुर अजीतसिंहसे, जो उसके लश्करमें उदयपुरकी तरफ़से एल्ची था, सब हाल जाहिर करदिया. अजीतसिंह उसकी फ़र्माइशको कब टाल सक्ता था, लाचारीके साथ मंजूर करके उसके साथ होलिया. अमीरखांने उदयपुरमें पहुंचकर अजीतसिंहके ज़रीएसे महाराणाको कहलाया, कि या तो आप कृष्णकुंवरबाईको मारडालें, या महाराजा मानसिंहके साथ उसकी शादी करदें, वरनह मैं इस रियासतको बर्बाद करदूंगा. इस पैगामके सुननेसे रियासती लोगोंमें एक तरहका सन्नाटा पड़गया.

अजीतसिंहने महाराणासे कहा, कि इस बातकी तामील होनेमें देर हुई, तो रियासतको बड़ा भारी सन्नह पहुंचेगा. तब महाराज दौलतसिंह भैरवसिंहोत बुलाया गया, और उसे यह हुकम दिया गया, कि जन्तानखानहमें जाकर उस राजकुमारीकी जिन्दगीका खातिमह करे. यह हुकम सुनकर दौलतसिंह अफ़सोसके आलममें खामोश होगया, लेकिन जब दोबाराह कहा गया, तो वह जोरसे बोल उठा, कि ऐसा बेरहमीका हुकम सुनाने वालोंकी ज़बान कटाना चाहिये. अगर मुझको हुकम देना है, तो अमीरखांके लिये दीजिये, कि इसी वक्त

छातीमें खंजर मारकर उसका काम तमाम करूँ, परन्तु कन्यापर घात करना मेरा काम नहीं है, यह काम तो जल्लादोंका है. यह सुनकर सब लोग चुप हो रहे. इसके बाद महाराणा अरिसिंहके पास बानिये पुत्र जवानदासको हुकम दिया गया, तब वह कटार लेकर जनानखानहमें पहुँचा, लेकिन उस राजकुमारीको देखकर उसका भी शरीर कांपने लगा, और कटार हाथसे गिरगया. इस हालको जानकर कृष्णकुंवर बाईकी माता महाराणी चावडीने जवानदासको बहुतसी गालियाँ दीं, और लानत मलामत की, जिससे वह बाहर चला आया, तब उस निरपराध राजकुमारीको शर्वतमें ज़हर दिया गया. उसने खुशीके साथ पियाला हाथमें लेकर कहा, "कि अगर मेरी जिन्दगीके खातिमसे दाजीराजकी तल्लीफ़ रफ़ा हो, तो यह मौका मेरे लिये गनीमत है," और उसे पीलिया. इसी तरह तीन दफ़ा ज़हर दिया गया, लेकिन तीनों बार कैके ज़रीएसे निकल गया. चौथी दफ़ा अफ़यून पिलाई गई, जिसे भी वह खुशीसे पीगई, और परमेश्वरसे अपनी जिन्दगीका खातिमह करनेकी प्रार्थना की. ईश्वरने वैसा ही किया, कि विक्रमी १८६७ श्रावण कृष्ण ५ [हि० १२२५ ता० १८ जमादियुस्सानी = ई० १८१० ता० २१ जुलाई] को सोलह वर्षकी उम्रमें इस राजकन्याका देहान्त होगया. कुल रणवास व रियासतमें ऐसा मातम छाया, और कोलाहल मचा, कि जिसका बयान करना हृदसे बाहिर है. हमने उस हालको यहांपर बिल्कुल घटाकर लिखा है. यदि किसीको पूरे तौरपर देखना हो, कर्नेल टॉडकी किताबमें देखे, जिन्होंने बहुतसे हालात अपनी आंखोंके देखे हुए और बहुतसे देखने वालोंकी ज़बानी सुनकर दर्ज किये हैं.

नववाव अमीरखां तो यमराजका दूत बनकर आया था, जो कृष्णकुंवर-बाईका इन्तिकाल होनेके बाद वापस चला गया; और उक्त राजकुमारीकी माता महाराणी चावडीने अपनी बेटीके रंजमें अन्न जल छोड़कर अपना भी प्राण त्यागन किया. इन महाराणीके गर्भसे जो औलाद हुई थी, उसमेंसे कुंवर जवानसिंह व बाई रूपकुंवर बाकी रही.

जब बालेशवको महाराणाने कैद किया, तब भाला जालिमसिंहने फौज खर्चकी एवज जहाजपुरका पर्गनह अपने कबजहमें करलिया, और धांगड़मऊका जागीरदार विष्णुसिंह शक्तावत, जालिमसिंहकी तरफसे जहाजपुरका हाकिम बना. इन दिनोंमें दाणियोंकी कोटडीका क़िला शाहपुराके राजा अमरसिंहकी तरफसे उसके भाइयोंके तहतमें था, वहाँके जागीरदारने कोटडीके भोमिया कान्हावत शेरसिंहको मारडाला, तब शेरसिंहके बेटे सूरजमल्लने झाला जालिमसिंहके पास पहुँचकर अपनी कुल हकीकत जाहिर की, जिसपर जालिमसिंहने विष्णुसिंह शक्तावतको उसकी मददके

वास्ते लिख भेजा, उसने जहाजपुरसे चन्द तोपें और कुछ फौज सूरजमल्लके साथ करदी. यह मदद लेकर उसने कोटड़ीके किलेको आघेरा, और विक्रमी १८६८ [हि० १२२६ = .ई० १८११] में राणावतोंको निकालकर किलेको मिस्मार करदिया, और कोटड़ीको शाहपुरेके पट्टेसे छीनकर पर्गनह जहाजपुरमें शामिल करादिया. इसी तरह सांगानेर भी देवगढ़ वालोंसे छीना जाकर जहाजपुरमें मिलाया गया. जालिमसिंहका यह इरादह था, कि भीलवाड़ेसे पूर्व तरफका मेवाड़का हिस्सह, जो खैराड़के नामसे मशहूर है, रियासत कोटेमें दाखिल करलिया जावे, क्योंकि पहिले उसने मेवाड़का मुसाहिब बननेकी बहुत कुछ कोशिश की थी, परन्तु उसमें कामयाबी हासिल न हुई, तब महाराणाको दवाकर मांडलगढ़का किला लेना चाहा. महाराणाने जाहिरदारीमें एक खास रुक़ह महता देवीचन्दके नाम इस मज्मूनका लिख भेजा, कि मांडलगढ़का किला जालिमसिंहके हवाले करदेना; लेकिन् उसीके साथ एक सवारको उसके लिये बख़्शिश के तौरपर ढाल व तलवार देकर भेजदिया, जिसका देवीचन्दने यह मतलब समझा, कि महाराणाने यह खास रुक़ह दवावटसे लिख दिया है, वरनह अस्लमें उन्होंने ढाल तलवार भेजकर हमको लड़ाई करनेका इशारह किया है; इसलिये उसने अपने कुल आदमियोंको किलेका बन्दोबस्त करनेके लिये हुकम दिया, और उस खैरखाह प्रधानकी बहादुरी व हिम्मतसे जालिमसिंहका यह मनोरथ सिद्ध न होसका.

विक्रमी १८६९ [हि० १२२७ = .ई० १८१२] में ऐसा सरख्त कहत पड़ा, कि इस तबाहीकी हालतमें वह मेवाड़के लिये मानो क्रियामतका नमूनह बन गया था, जिसमें मेवाड़की रही सही प्रजा और भी वर्बाद होगई. इस वक्त महाराणा ने अपना व अपने रणवासका जेवर बेचकर अपने नौकरों वगैरहकी पर्वरिश की.

विक्रमी १८७० [हि० १२२८ = .ई० १८१३] में हुल्करका मुलाज़िम नव्वाब जमशेदखां फौज लेकर उदयपुर आया. यह शरख्त बड़ा जालिम और लुटेरा था, इसने यहां आकर महाराणासे रुपया तलब किया, लेकिन् यहां तो पेशतर से ही खज़ानह खाली पड़ा था, और रहा सहा जेवर वगैरह कहतमें खर्च होचुका. उस जालिम लुटेरेने रुपया न मिलनेके सबब शहर और गिर्दनवाहकी प्रजापर उस वक्त बड़ी सख्तियां कीं, कि वह जमानह अवतक "जमशेद गर्दी" के नामसे मशहूर है. महाराणाने उसकी सख्तियों और जुल्मसे तंग आकर उसको अपने साथ रखकर मेवाड़के सर्दारोंसे रुपया वसूल करनेपर राजी किया, और मए कुछ फौज व अपने दोनों कुंवर अमरसिंह व जवानसिंहके इलाक़हकी तरफ़ दौरेको रवानह होकर राजनगर तथा दूसरे कई जिलोंमें होते हुए चित्तौड़ पहुंचे, जहांका किलेदार

रावत् धीरतसिंह बड़ी खैरख्वाहीके साथ पेश आया. इस वक्त महाराणाके पास फौजी ताकत भी बढ़ गई. जमशेदखांको कहा गया, कि कुछ रुपया और वसूल करना बाकी है, इसलिये छोटे कुंवर जवानसिंहको तुम्हारे साथ भेजते हैं, कि वह मेवाड़के चन्द किलों और जिलोंसे जमा करादेगा. उस लुटेरेने भी इस बातको कुबूल किया. महाराणाने चन्द मुसाहिबों सहित छोटे कुंवरको उसके साथ देकर बड़े कुंवर अमरसिंहको चित्तौड़की हिफाजतके लिये छोड़ा, और आप उदयपुरको चले आये.

इन दिनों महाराणाने ५०० सिपाही पठान नौकर रखे थे, उन्होंने अपनी तन्खाह न मिलनेसे महलोंमें धरणा (१) दिया. तब महाराणाके हुक्मसे रावत् सर्दारसिंहने इस तरहपर सिपाहियोंको समझाया, कि जबतक तुम्हारा रुपया अदा न हो, मैं तुम्हारी हवालातमें रहूंगा. इसपर पठानोंने उस सर्दारको अपनी सुपुर्दगीमें लेकर धरणा उठादिया. उन दिनों साह सतीदास गांधी महाराणाका प्रधान था, उसने अपने भाई सोमचन्दका बदला लेनेकी गरजसे, जिसको कि सर्दारसिंहने मार डाला था, पठानोंको इशारह करदिया, इससे वे सर्दारसिंहपर सख्तियां करने लगे. एक दिन उक्त रावत्के पीनेको अफीम लाई गई, उसे सिपाहियोंने ठोकर देकर गिरा दिया. यह देखकर सर्दारसिंहको उसके हन्नाही राजपूतोंने कहा, कि अब जिन्दगीकी उम्मेद छोड़ देना चाहिये, क्योंकि यह अदावत रुपयोंके लिये नहीं, बल्कि जान लेनेका उपाय है. सर्दारसिंहने इस बातको सहन करके सब्र किया, लेकिन उसके साथ वालोंमेंसे लहसाड़ियाका चूडावत लालसिंह, आटूणका पूरावत जवानसिंह और बानसीणका भाटी दौलतसिंह, तीनों राजपूत तलवारें निकालकर सिपाहियोंपर टूट पड़े और बड़ी बहादुरीके साथ लड़कर मारे गये. उक्त राजपूतोंके मारे जाने बाद रावत् सर्दारसिंहपर जियादह तर सख्ती होने लगी. फिर साह सतीदास और उसके भतीजे जयचन्दने पठानोंकी चढी हुई तन्खाह देकर सर्दारसिंहको अपनी हिफाजतमें लेलिया, और उसे आहड़की नदीके पश्चिमी किनारेपर पुलके करीब लेजाकर मार डाला. उसकी लाश तीन रोजके बाद जलाई गई. वे पांच सौ पठान सतीदास व जयचन्दके मददगार थे, और महाराणा भी अपनी पॉलिसीके अनुसार उन्हींके सहायक बन गये. थोड़ेही अरसे बाद नव्वाब जमशेदखां, नव्वाब दिलेरखां, शाहजादह खुदादादखां, बापू सेंधिया, और हिम्मत बहादुर, पांचों लुटेरेने उदयपुरको आ घेरा. इस वक्त भी सतीदास और जयचन्दने उन मरहटोंको कुछ रुपया वगैरह देकर ररुस्त किया.

विक्रमी १८७२ [हि० १२३० = ई० १८१५] में जालिमसिंह भालाकी दरखास्तपर महाराणा उदयपुरसे रवानह होकर चित्तौड़, बेगूं व भैंसरोड़ होते हुए कोटे

(१) खाना पीना छोड़कर जब कोई किसीके दरवाजेपर बैठ जाता है, उसको धरणा कहते हैं.

पहुंचे, जहां महाराव उम्मेदसिंहकी कन्या किशोरकुंवरके साथ अपना, और महारावके पुत्र विष्णुसिंहकी कन्याके साथ वलीअहद अमरसिंहका विवाह किया; इन्द्रगढ़के जागीरदार संग्रामसिंहकी बेटीके साथ छोटे कुंवर जवानसिंहकी शादी हुई. जालिमसिंहने सम्बन्ध होनेसे पहिले तो बहुत कुछ मदद वगैरह देनेका वादह किया था, लेकिन शादी हो चुकने बाद कुल वादे झूठे दिखाई दिये, तब महाराणा नाउम्मेद होकर वापस उदयपुर चले आये. इन दिनोंमें चूडावतोंका पेश पड़जानेसे गांधियोंका फिर्कह कमजोर होगया था; ठाकुर अजीतसिंह, रावत जवानसिंह और दूलहसिंहने महाराणासे हुकम लेकर साह सतीदास प्रधानको कैद करलिया, और विक्रमी १८७२ कार्तिक कृष्ण १२ [हि० १२३० ता० २५ जिल्काद = ई० १८१५ ता० २९ अक्टोबर] को पहर रात गयेके करीब रावत जवानसिंह व दूलहसिंह उक्त प्रधानको महलोंसे दिहरी दरवाजेके करीब लेगये और उसका सिर काटकर रावत सदासिंहका बदला लिया. यह खबर सुनतेही पिछली रातके वक्त साह जयचन्द अपनी जान बचानेके लिये शहरसे भागा, लेकिन चूडावतोंने रास्तेहीमें ग्राम नाईके पास उसको भी पकड़कर मार डाला (१).

विक्रमी १८७३ [हि० १२३१ = ई० १८१६] में नवाब दिलेरखांकी फौजने चित्तौड़ जिलेके गांवोंको बर्बाद किया. यह सुनकर विक्रमी आश्विन कृष्ण १२ [हि० ता० २५ शव्वाल = ई० ता० १८ सेप्टेम्बर] को कुंवर अमरसिंहने मए साह शिवलाल और रावत दूलहसिंह वगैरहके उससे मुकाबलह किया, जिसमें दिलेरखांकी फौज शिकस्त खाकर भाग निकली, और राजकुमारके साथियोंमेंसे महन्त सुखराम गिर गुसाई, तथा वानसीणका भाटी हमीरसिंह मारा गया, रावत दूलहसिंहको बर्छेका जख्म लगा, और ओछड़ीका शक्तावत उदयसिंह, मान्यावासका चूडावत चतुर्भुज, राणावत गुलाबसिंह वीरमदेवोत, राठौड़ खूमसिंह, गौड़ जोधसिंह, और भाटी गुलाबसिंह वगैरह जख्मी हुए.

इन दिनोंमें गवर्मेण्ट अंग्रेजीकी अमल्दारी दिन व दिन बढ़ती जाती थी, जालिमसिंह भालाने महाराणाको लिख भेजा, कि अगर हुकम हो, तो मैं अंग्रेजोंके साथ मेवाड़की बाबत अहद पैमान करनेकी बातचीत करूं, लेकिन महाराणाको जालिमसिंहकी तरफसे यह खौफ था, कि जिस तरह उसने कोटाके महारावको बे इस्तिथार कर रक्खा है, उसी तरहका बर्ताव यहां भी करेगा, इसलिये उसको टालाटूलीका जवाब देकर जयपुरके मोतमद चतुर्भुज हल्दियाकी मारिफत अंग्रेजोंसे इस मुआमलेमें बातचीत करना शुरू किया, और ठाकुर अजीतसिंहको, जो उन दिनों कोटेमें था, लिख भेजा, कि तुम फौरन गवर्नर जेनरलके पास पहुंचकर यह मुआमलह तै करो, लेकिन

(१) बाज लोग कहते हैं, कि उसको लुटेरे भीलोंने घेरकर मारडाला.

अजीतसिंहके जानेमें कुछ देर हुई. गवर्मेण्ट अंग्रेजीके साथ अह्दनामहकी शर्तें करार पानेके वक्त मरहटोंने मेवाड़का बहुतसा मुल्क दबा रक्खा था, उसके वापस मिलनेकी बाबत मेवाड़वालोंकी तरफसे बहुत कुछ उज्र किया गया, लेकिन गवर्मेण्टको संधियाका लिहाज जियादह था, इसलिये इस बारेमें तवजुह नहीं की. विक्रमी १८७४ पौष शुक्ल ७ [हि० १२३३ ता० ५ रबीउल्अव्वल = ई० १८१८ ता० १३ जैनुअरी] को गवर्मेण्ट अंग्रेजीके साथ पहिला अह्दनामह हुआ, जिसकी नक़्क़ अखीरमें लिखीजावेगी.

चन्द्र रोज़ पेशतर तो मरहटोंका जोर शोर और ज़ालिम पिंडारोंका जुल्म ऐसा बढ़ा हुआ था, कि जिसको देखकर मेवाड़के बाशिन्दोंने इस मुसीबतके दूर होनेकी विल्कुल आशा छोड़ दी थी, क्योंकि ये लोग मेवाड़की बर्बादी और लूटपर कमर बांधकर मुल्कमें लगातार धावा करने लगे थे. जब एक मरहटा फौज लेकर मेवाड़ में आता और महाराणासे रुपया तलब करता, तो उसको खाली कागज़ लिखकर जैसे तैसे विदा किया जाता, कि इतनेमें दूसरा ज़ालिम शहरकी बर्बादीको आ खड़ा होता, जिसको रुपया अदा करनेके ज़मानह तक रुपयेके एवज़ अपने अजीजोंको सुपुर्द करके पीछा लुड़ाना पड़ता, कि एक तीसरा लुटेरा दौलत एकट्टी करनेको और आ मौजूद होता. ऐसी हालतमें प्रजाकी खुश नसीबीसे गवर्मेण्ट अंग्रेजीका आना और एकदम अम्न फैलाकर आदमियोंके दिलोंको तसल्ली दिलाना ऐसा हुआ, कि मानो चन्द्रमा और सूर्यका ग्रहण लगने बाद एकदम अपनी अस्ली रौशनीको प्राप्त होना.

हमने जो मरहटोंके जुल्मका हाल ऊपर बयान किया है, वह बहुत मुस्तसर है, अगर किसीको सुफ़्फ़सल तौरपर देखना हो, कर्नेल टॉडकी किताबको पढ़े. महाराणा और सरकार अंग्रेजीके दरमियान अह्दनामह होनेके बाद जब गवर्मेण्ट अंग्रेजीका एल्ची कर्नेल टॉड मेवाड़ और खास उदयपुरमें आया और उस वक्तकी हालतका बयान, जो उसने अपनी किताबमें लिखा है, उसका खुलासह हम पाठकोंके अवलोकनार्थ नीचे दर्ज करते हैं :-

“ इस वक्त मेवाड़के खालिसहकी आमदनी फ़सल उन्हालू (रबीअ) की ४०००० चालीस हजार रुपयेसे जियादह न थी, और महाराणाके पास पचास सवारोंसे भी कम जम्इयत बाकी रहगई थी, शहर उदयपुरमें पचास हजार घरोंकी जगह तीन हजारसे भी कम बाकी रहगये थे; सर्दारोंका यह हाल था, कि कोठारियाके रावत, पचास हजार रुपया सालियानहकी जागीर वालेके पास चढ़नेको एक घोड़ा

तक न था, और मुल्ककी यह हालत थी, कि उदयपुरसे नाथद्वारेतक ८ रुपया सैकड़ा बीमाका लिया जाता था. आमद रफ्तकी बे इन्तिजामीसे एक रुपयेके ७ सात सेर गेहूं बिकते थे, लेकिन् अंग्रेजी अमल्दारीके आनेसे एकदम अन्न होगया; अंग्रेजोंका रोव हर एकके दिलपर ऐसा गालिब हुआ, कि आम लोगोंका बयान था, कि अंग्रेज लोग बड़े जादूगर हैं, बड़ी भारी फ़ौजको जैबमें रखकर लेजा सकते हैं, और लड़ाईके वक्त कागज़के आदमियोंसे काम लेते हैं. ऐसी बे बुन्याद अफ़्वाहसे यह फ़ायदह हुआ, कि हर एक आदमी लूट मार करनेसे किनारह करगया, और एकदम अन्न व आमान के आसार दिखाई देने लगे. जब कर्नेल टॉड गवर्मेण्ट अंग्रेजीकी तरफसे एजेण्ट बनकर मेवाड़में आये, तो मानो बे इन्तिजामीके अंधेरेमें अन्नके चरागको रौशनीके साथ लाये. पिंडारे और मरहटे काफ़ूर होगये, लुटेरे लोग अपनी अपनी जगहपर खामोश हो बैठे, सर्दारोंकी अदावतने मुल्कसे खेमह उठाया. ”

कर्नेल टॉड लिखते हैं, कि “ मैं जब विक्रमी १८६३ [हि० १२२१ = ई० १८०६] में आया था, तब भीलवाड़ेमें तीन हजार घरोंकी आबादी थी, जिसमें ज़ियादह तर व्यापारी लोग रहते थे, जो इस वक्त वीरान पड़ा है.” उक्त कर्नेल हमारे मुल्कके खैरख्वाह बाशिन्दोंसे भी ज़ियादह खैरख्वाह थे. उनको महाराणाका नुकसान सहन नहीं होता था. वह महाराणाके खैरख्वाहोंसे खुश और बदख्वाहोंसे नाराज़ थे, जब वह उदयपुरमें पहुंचे, महाराणाने उनको उमराव सर्दारोंसे ऊपर बैठनेकी इजाज़त दी, और कुल उमराव सर्दारोंको तलब किया; सब एकदम हाज़िर होगये. एक दिन बड़ा दर्बार हुआ, जिसमें कुल सर्दार जागीरदार मौजूद थे. ऐसा दर्बार ५० वर्षके अरसेमें कभी न हुआ था. कर्नेल टॉडने खड़े होकर कहा, कि “ महाराणा साहिब आपका जो बदख्वाह हो, उसको मुझे बतलाइये; गवर्मेण्ट अंग्रेजी उसे सज़ा देनेको तय्यार है.” महाराणाने रहमदिली, बुर्दबारी और अहमन्दीसे जवाब दिया, कि “ इस वक्तसे पहिला कुसूर हमने सबका मुआफ़ किया, लेकिन् अब जो कोई करेगा, उसकी इत्तिला साहिबको फ़ौरन् होगी.” महाराणाके इस बड़प्पनके जवाबको लोग आजतक याद करते हैं.

जिन लोगोंने कुसूर किये थे, वे ज़ियादह शर्मिन्दह हुए, मुल्कमें खालिसहके जिलोंपर हाकिम मुक़र्रर किये गये, और एक इश्तिहार जारी हुआ, जिसके ज़रीएसे मालवा व हाड़ौती वगैरह मुल्कोंमें गई हुई रिआया वापस आने लगी. साइरका भी प्रबन्ध हुआ, व्यौपारियोंको एक सालका महसूल मुआफ़ और आइन्दह क्रम क्रमसे बढ़ानेका हुकम हुआ; सर्दारोंसे खालिसहके गांव, जो उन्होंने रिआसती बखेड़ोंके वक्त दबाये थे, छुड़ा लिये गये;

मुल्की आमदनीकी एक दम तरकी हुई. इस वक्त कर्नेल टॉड शाही मुलाजमतके अलावह खानगी तौरपर महाराणाके मुसाहिव बनकर रियासतको सर्सज करनेपर मुस्तइद होगये. हकीकतमें मेवाड़के बाशिन्दोंकी औलादको उनका इहसान न भूलना चाहिये, जो देशको जालिमोंके पंजेसे छुड़ाकर हमारे मुहाफिज बने. जिस तरह पानीमें डूबते हुएको नाव और सूखती हुई खेतीको पानीका सहारा मिलता है, उसी तरह गवर्मेण्ट अंग्रेजीका आना हमारे मुल्कमें समझना चाहिये. थोड़े ही अरसे बाद इस अम्लके वक्तमें महाराणाको एक बड़ा सन्नह पहुंचा, कि विक्रमी १८७५ [हि० १२३३ = .ई० १८१८] में वलीअहद कुंवर अमरसिंहका इन्तिकाल होगया, जिनकी उम्र २२ बाईस वर्षसे कुछ जियादह थी. यह वलीअहद अपने खानदानके मुवाफिक बड़े बहादुर मजबूत और खूबसूरत थे. कर्नेल टॉड लिखते हैं, कि महाराणाके ९५ सन्तान हुई, जिनमेंसे एक कुंवर जवानसिंह वारिस तस्त व ताजका बाकी रहा; इनके अलावह दो बेटियां और एक पोती भी थी, जिनका जिक्र आगे लिखा जायेगा.

कर्नेल टॉडके रहनेके लिये पहिले रामप्यारीकी बाड़ी नियत हुई थी. यह मकान शहरके भीतर है, जहां अब राज्यका तोपखानह व मेगजिन रहता है, और जिसका थोड़ासा हिस्सह बोहिडाके रावतको रहनेके लिये दिया गया है. विक्रमी १८७५ भाद्रपद शुक्ल ५ [हि० १२३३ ता० ३ जिल्काद = .ई० १८१८ ता० ५ सेप्टेम्बर] के दिन महता देवीचन्दको प्रधानेका खिल्अत दिया गया. इस वक्त देवीचन्दने प्रधानेसे इन्कार किया, लेकिन महाराणाने कहा, कि तुम्हारी मौजूदगी में दूसरेको प्रधाना देना बेजा है. इस सबबसे प्रधान तो महता देवीचन्द ही रहा, लेकिन काम कुल उसका भतीजा शेरसिंह करता रहा; मुख्य मुसाहिव कर्नेल टॉड थे, जिनकी सलाहके बिदून कोई काम नहीं होता था, महाराणाके खानगी सलाहकार रावत जवानसिंह, रावत दूलहसिंह, और ठाकुर अजीतसिंह थे.

प्रधान देवीचन्दने दो शादियां की थीं, जिनमेंसे पिछली शादी महता रामसिंहकी बहिनके साथ हुई थी, इसलिये उस प्रधानका अपने सालेपर जियादह भरोसा था, और रामसिंह भी लाइक व होशियार आदमी था, जो महाराणाके सलाहकारोंमें शामिल हुआ; साह शिवलाल गलूज्या बड़े कुंवर अमरसिंहका एतिबारी नौकर होनेके कारण जुदा ही ढंग जमाने लगा. यह इफ़ात तफ़ीत देखकर महता देवीचन्दने प्रधानेका खिल्अत अपने साले रामसिंहको दिला दिया.

महाराणाने अपनी दो बेटियों और एक पोतीका विवाह करना चाहा, उनमें

से अजबकुंवर बाईका सम्बन्ध बीकानेरके महाराजा सूरतसिंहके बड़े कुंवर रत्नसिंहसे और रूपकुंवर बाईका जयसलमेरके रावल गजसिंहके साथ निश्चय करलिया गया; लेकिन कुंवर अमरसिंहकी बेटी और महाराणाकी पोती कीकाबाईका विवाह भी इसी मौकेपर करनेका इरादह हुआ; तब महाराणी राठौड़ गुलाबकुंवरने अपनी पोतीका सम्बन्ध कृष्णगढ़के महाराजा कल्याणसिंहके कुंवर मुहकमसिंहके साथ करनेको कहा. महाराणाने मन्जूर करके चारण बारहट रामदान (१) को एक खास रुकह लिख भेजा, कि तुम कृष्णगढ़के महाराजाके कुंवर मुहकमसिंहका सम्बन्ध निश्चय करके विवाहके मुहूर्तसे विनायक बिठाकर जल्दी आओ; और इसी मज्मूनका एक खास रुकह महाराणी राठौड़ने भी उक्त बारहटको लिख भेजा. उसने हुकमके मुवाफिक महाराजा कल्याणसिंहको कहकर विवाहकी तय्यारी शुरू करादी, और आप तीन रोजमें कृष्णगढ़से उदयपुर आया, लेकिन पीछेसे महाराणाको मलबी लोगोंने बिल्कुल बर्खिलाफ करदिया, और कहा, कि कृष्णगढ़में आपकी पोतीका विवाह करना बिल्कुल बेजा है.

रामदान बारहटको यह सम्बन्ध मुआफ़ रखनेके मन्शासे कहा गया, कि तुमको कृष्णगढ़की जायदादके एवज पांच हजारकी जीविका यहां और मिलेगी, लेकिन रामदान इस बातसे बहुत रंजीदह हुआ; वह कटार निकालकर जनानी ड्यौड़ीपर जा बैठा, और उसने महाराणीसे कहलाया, कि मैंने आपके लिखनेपर कृष्णगढ़के विवाहकी तय्यारी करवादी, और अब इन्कार होता है, इसलिये मैं अपनी जान आपकी ड्यौड़ीपर खो दूंगा; महाराणी भी गुस्सहमें आकर अपना और अपनी पोतीका प्राण श्री दरबारके साम्हने देनेको तय्यार हुई. यह क्लेश देखकर महाराणाने कृष्णगढ़का सम्बन्ध मन्जूर करलिया. फिर तीनों जगहोंसे बरातें आईं; जिनमेंसे दो जगहके दूल्हे तो बड़ी शान शौकत और जुलूसके साथ आये, लेकिन जयसलमेरके रावल गजसिंह किसी खानगी काममें फंसजानेके सबब लवाजमहके साथ जल्द न आसके, वह पिछली रातको अकेले सांडणीपर सवार होकर आये.

विक्रमी १८७७ आषाढ कृष्ण ८ सोमवार [हि० १२३५ ता० २१ रमजान = ई० १८२० ता० ३ जुलाई] को तीनों राजकुमारियोंका विवाह बड़ी धूमधामके साथ हुआ; और बीकानेरके महाराजा सूरतसिंहके दूसरे कुंवर मोतीसिंहकी शादी बागौरके महाराज शिवदानसिंहकी कन्या दीपकुंवरसे हुई. इन शादियोंमें लाखों रुपयोंका इन्आम, इक्राम व त्याग बांटा गया, इसके बाद तीनों बरातें विदा हुईं.

(१) यह शरूख कृष्णगढ़की तरफसे जागीर रखता था, और मेवाड़में भी दो गांव महाराणाके दिये हुए इसके अधिकारमें थे.

विक्रमी १८७८ चैत्र शुक्ल २ [हि० १२३६ ता० १ रजव = .ई० १८२१
ता० ४ एप्रिल] को महाराणाने साह शिवलाल गलूड्याको प्रधानेका
खिल्अत दिया, और टॉड साहिब व महाराज सूरजमल्लको साथ देकर उसे दस्तूर
के मुवाफिक मकानपर पहुंचाया. यह शरूस महाराणाका दिली खैरखाह था. इन
दिनोंमें सेन्ट्रल इण्डियाके एजेण्ट गवर्नर जेनरल सर जॉन माल्कम साहिब उदय-
पुरमें आये, जिनकी महाराणाने उम्दह तौरपर खातिर तवाजो की. इसवक्त
रतलामके राजा पर्वतसिंहका कुंवर बलवन्तसिंह, जो सलूबरके रावत्की बेटीसे पैदा
हुआ, महाराणाके पास मौजूद था, क्योंकि रतलामके लोगोंने उसको अपने हकसे खारिज
करनेके मन्शापर बनावटी बयान करके उक्त राजाके दिलमें उसकी तरफसे शक डाल दिया
था; महाराणाने उस बच्चेको हाथ पकड़कर माल्कम साहिबकी गोदमें बिठादिया और कहा,
कि इस बच्चेको आप अपना फर्जन्द जानकर इसके मददगार रहिये. तब माल्कम साहिब
ने कहा, कि मुझको आपके फर्मानेका बहुत बड़ा लिहाज है, लेकिन इस लड़केकी शादी
आप अपने कुटुम्बमें करदीजिये, ताकि शक दूर होजावे. महाराणाने उक्त साहिबके
कहनेपर उनके साम्हने ही बलवन्तसिंहकी शादी बागौरके महाराज शिवदानसिंहकी
कन्याके साथ विक्रमी १८७८ चैत्र शुक्ल ९ [हि० १२३६ ता० ८ रजव =
.ई० १८२१ ता० ११ एप्रिल] को करदी. इस बातसे माल्कम साहिबको पूरा यकीन
होगया, और विक्रमी १८८२ [हि० १२४० = .ई० १८२५] में राजा पर्वतसिंह
का इन्तिकाल होनेपर बलवन्तसिंह रतलामकी गादीपर बिठाया गया.

विक्रमी १८७८ वैशाख शुक्ल ९ वृहस्पतिवार [हि० १२३६ ता० ७ शअबान
= ई० १८२१ ता० १० मई] को महाराणाके वलीअहद कुंवर
जवानसिंहका सम्बन्ध रीवांके राजा जयसिंहदेवकी पोती और विश्वनाथसिंहकी बेटी
सुभद्रकुमारीसे गवर्मेण्ट अंग्रेजीकी मारिफत करार पाया. विक्रमी १८७९ (१)
वैशाख कृष्ण १३ [हि० १२३७ ता० २६ रजव = .ई० १८२२ ता० १९ एप्रिल]
को उक्त महाराजकुमार विवाह करनेके लिये उदयपुरसे रीवांको खानह हुए, और विक्रमी
आषाढ शुक्ल १३ [हि० ता० १२ शव्वाल = .ई० ता० २ जुलाई] को विवाह हुआ. इसी
विक्रमीकी फाल्गुन शुक्ल ९ [हि० १२३८ ता० ७ जमादियुस्सानी = .ई० १८२३ ता० १९
फेब्रुअरी] को साह शिवलाल गलूड्या कैद किया जाकर उससे दण्ड लिया गया.

इन दिनोंमें कर्नेल टॉडके विलायत चले जानेपर उनकी जगह कप्तान कॉफ़

(१) रीवांकी तवारीखके जरीएसे विक्रमी १८८० में इस शादीका होना वहांके इतिहासमें

छपचुका है, लेकिन अस्लमें यह शादी विक्रमी १८७९ में ही हुई थी.

पोलिटिकल एजेण्ट हुए. मेवाड़के खालिसहके कामदार महाराणाकी तरफसे, और एक एक चपरासी हर जिलेमें पोलिटिकल एजेण्टकी तरफसे मुकर्रर था; क्योंकि पहिले खालिसहकी आमदनी कम होनेके सबब मुल्की आमदनीका चौथा हिस्सह गवर्मेण्ट अंग्रेजीको देना मंजूर किया गया था, लेकिन इस दोहरी हुकूमतकी तछीफों से रिआया आजिज होकर वायवैला मचाने लगी, और यह शिकायत कॉफ साहिब की गैर मौजूदगीमें गवर्मेण्ट अंग्रेजीके कानतक पहुंची. यह खबर पाकर कप्तान कॉफ, जो छुट्टीपर थे, उदयपुरमें आये, और इस कुल शिकायतका मूल साह शिवलालको ठहराकर विक्रमी १८८१ भाद्रपद कृष्ण ११ [हि० १२३९ ता० २४ जिल्हिज = ई० १८२४ ता० २० ऑगस्ट] के दिन उसे प्रधानेके कामसे बर्खास्त करने बाद महता रामसिंहको प्रधान बनाया, और उस मुल्की हिस्सहके एवज, जो गवर्मेण्ट अंग्रेजीको दिया जाता था, हमेशहके लिये तीन लाख रुपया उदयपुरी सालियानह ठहराया गया; लेकिन कुछ अरसे बाद दो लाख रुपया कल्दार सालियानह देनेका इक्कार हुआ, जिसका जिक्र अहदनामहके बयानमें लिखा जायेगा. विक्रमी १८८१ पौष कृष्ण ७ [हि० १२४० ता० २० रबीउस्सानी = ई० १८२४ ता० १२ डिसेम्बर] को महाराणाकी बड़ी बहिन चन्द्रकुंवर बाईका देहान्त होगया, जिसका महाराणा और कुल रियासती लोगोंको बड़ा रंज हुआ, क्योंकि महाराणा उनको अपनी माताके समान समझते थे, और हजारों रियासती आदमियोंको उनके दमसे फायदह पहुंचता था. इसी सन्नेके कुछ दिनों बाद, याने विक्रमी माघ कृष्ण १२ [हि० ता० २६ जमादियुलअव्वल = ई० १८२५ ता० १६ जैनुअरी] को महाराणाकी दूसरी बहिन अनोपकुंवर-बाईका भी इन्तिकाल होगया.

विक्रमी १८८२ वैशाख शुक्ल ११ [हि० १२४० ता० ९ रमजान = ई० १८२५ ता० २८ एप्रिल] को इन महाराणाने रसोड़ाके दक्षिण तरफ पीछोला तालाबके तीरपर अपने बनवाये हुए महलोंके सम्पूर्ण होजानेपर एक बड़ा भारी जल्सह किया, और उनका नाम नया महल रक्खा. इसी विक्रमीकी आश्विन कृष्ण १३ [हि० १२४१ ता० २७ सफर = ई० ता० ११ ऑक्टोबर] को हाथीपौलके बाहर कॉफ साहिबने कोठी तय्यार करवाई, जहां पहिले वेगूके रावत् की हवेली थी, और अब उदयपुरकी रेजिडेन्सीका मकाम है; इस मकानकी तय्यारीका भी जल्सह हुआ, जिसमें उक्त साहिबने महाराणाको मिहमान किया.

विक्रमी १८८४ श्रावण शुक्ल ८ [हि० १२४३ ता० ६ मुहर्रम = ई० १८२७ ता० ३१ जुलाई] को महाराणी बीकानेरी पद्मकुंवर बाईके बनवाये हुए भीमपद्मेस्वर

महादेवके मन्दिरकी प्रतिष्ठा हुई- (देखो शेष संग्रह).


इसी विक्रमी की कार्तिक कृष्ण ११ मंगलवार [हि० ता० २४ रबीउलअव्वल = ई० ता० १६ अक्टोबर] को वलीअहद कुंवर जवानसिंहके फ़र्जन्द पैदा हुआ, जिसकी खुशीसे महाराणा भीमसिंह बाग़ बाग़ होगये, और हजारहा रुपया, ज़ेवर, कीमती सिरोपाव, हाथी, घोड़े, और पालकी चारणों वगैरह को .इन्आममें दिये; लेकिन विक्रमी १८८५ चैत्र शुक्ल १ [हि० १२४३ ता० २९ शअ्वान = .ई० १८२८ ता० १६ मार्च] को यह चराग़ गुल होगया, जिससे महाराणाको जितनी खुशी हुई थी, उससे दोचन्द रंज उठाना पड़ा, और इसी सन्नेसे उन्होंने अपने शरीरका भी खातिमह किया, याने सब लोगोंके कहनेसे तीन दिनतक तो गनगौरकी सवारियां कीं, और जब एक दो सवारी करनेको वलीअहदने फिर कहा, तो जवाब दिया, कि मैंने इतना भी हिम्मतके साथ किया है, क्योंकि मेरे बदनकी हालत ख़राब है. विक्रमी चैत्र शुक्ल ९ [हि० ता० ८ रमज़ान = .ई० ता० २५ मार्च] के दिन उनको तासीरकी बीमारीने बे होश करदिया, लेकिन फिर कुछ होशमें आकर दो तीन रोज़ बाद दोबारह वही हालत होगई; और आख़िरकार तीसरी दफ़ाकी मूर्छासे विक्रमी १८८५ चैत्र शुक्ल १४ [हि० ता० १३ रमज़ान = .ई० ता० ३० मार्च] को पिछली सात घड़ी रात रहे इस दुनयासे कूच करगये, और विक्रमी चैत्र शुक्ल १५ [हि० ता० १४ रमज़ान = .ई० ता० ३१ मार्च] को दग्ध क्रिया हुई.

यह महाराणा हरदिल अज़ीज, अव्वल दरजेके फ़य्याज़, गुनाह बरख़ा और ग़रीब पर्वर थे. इन्होंने अपने हाथसे कभी किसीपर जुल्म नहीं किया, अगर ऐसा हुआ भी, तो दूसरे लोगोंके लिहाज़से हुआ होगा, क्योंकि सख़्ती करना इनको बिल्कुल ना पसन्द था; तवारीख़ी .इल्मसे यहांतक वाक़फ़ियत रखते थे, कि अपनी रियासतके अलावह दूसरी रियासतोंका हाल भी बर्ज़वान याद था; अपने नौकरोंकी पुश्तैनी खिन्नतोंको बयान करके ला वारिस बच्चोंकी हिफ़ाज़त अपने बच्चोंके मुवाफ़िक़ करते थे. हर एक नौकरको यह यकीन था, कि मेरे मरनेके बाद बाल बच्चोंकी पर्वरिशमें कमी न होगी. हिन्दी व राजपूतानहकी शाइरीमें भी वह कमाल रखते थे. कर्नेल टॉड उनकी बहुतसी तारीफ़ें लिखकर ज़ियादह खर्च करनेकी शिकायत लिखते हैं, लेकिन वह राजपूतानह में पैदा होते, तो यहांके रवाजसे वाक़िफ़ होकर उनकी शानमें हर्गिज़ ऐसा लफ़ज़ न कहते, क्योंकि इंग्लिस्तान व हिन्दुस्तानके रवाजमें ज़मीन आस्मानका फ़र्क़ है. इंग्लिस्तानके बाज़ रवाजोंपर हिन्दुस्तानी लोग एतिराज़ करते हैं, परन्तु वे रवाज वहांके मुवाफ़िक़ हैं, और बहुतसे रवाज हिन्दुस्तानियोंके अंग्रेज़ोंको बहाल रखने पड़ते हैं. दूसरा यह कारण था, कि कर्नेल टॉड मेवाड़के मुसाहिव बनकर इस रियासतका प्रबन्ध करना चाहते थे; और मुसाहिवोंका यही काम है, कि खर्चकी ज़ियादतीको

रोकें. अल्बत्तह यह बात महाराणामें शिकायतके लाइक थी, कि ज़वानकी पावन्दी नहीं रखते थे, लेकिन इसका कारण भी मरहटोंका ग़द्र था, क्योंकि ऐसी तक्कीफ़की हालतमें वह काइम मिजाजीको कैसे काममें लाते; चालीस वर्षतक उसी हालतमें रहने से उनमें बेशक यह आदत पड़गई थी.

इन महाराणाका छोटा क़द, पुष्ट और ताक़तवर शरीर, बड़ी पेशानी, मोटी आंखें, और बड़ी डाढ़ी होनेके अलावह चहरा हंसीला, और ज़वान बहुत शीरी थी. इनकी ताक़तका हाल मैं (कविराजा श्यामलदास) ने अपने पिताकी ज़वानी सुना है, कि नवरात्रियोंमें भल्का चौथके दिन उनकी कमानका तीर भैसेके वदनको फोड़कर बहुत दूर चला जाता था. एक दफ़ा नव्वाब जमशेदख़ाने महाराणासे उनकी ताक़तका हाल दर्याफ़्त किया, उस वक्त उन्होंने एक मज्बूत पुरानी ढाल मंगाकर नव्वाबको दी, वह भी ताक़तका घमंड रखता था, उसने खूब जोर किया, लेकिन कुल असर न हुआ, महाराणाने उस ढालको दोनों हाथोंसे पकड़कर चीर डाला. इसी तरह और भी बहुतसी बातें उनकी ताक़तवरीकी बावत मशहूर हैं.

इनका जन्म विक्रमी १८२४ चैत्र कृष्ण ७ गुरुवार [हि० ११८१ ता० २० शव्वाल = ई० १७६८ ता० १० मार्च] को हुआ था. इनके साथ महाराणी भाली, महाराणी बीकानेरी, महाराणी पुंवार, महाराणी भटियाणी, पासवान गुणराय, पासवान मोती, पासवान सैनरूप, और वडारण सहेली जमुना आठ सतियां हुईं. अगर्चि इनका इन्तिकाल साठ वर्षकी उम्रमें हुआ, लेकिन बीस वर्षके जवान मालिक का इन्तिकाल होनेपर जैसा रंज होता है, उससे भी ज़ियादह सबह मेवाड़के लोगोंके दिलोंपर गुज़रा. उनकी नौकरी करने वालोंमेंसे जो लोग अब भी ज़िन्दह हैं, वे उनका नाम आते ही ठंडी सांस भरकर याद करते हैं. उनकी उत्तमता यहांतक थी, कि इस रियासतके कुल छोटे बड़े फ़ज्रके वक्त ईश्वरका नाम लेने बाद उनका नाम लेनेसे दिनभर अन्न चैनसे गुज़रनेका ख़याल रखते हैं.



जयसलमेरकी तवारीख.

जुग्राफियह.

जयसलमेर पश्चिमी राजपूतानहकी अन्तिम सीमापर चन्द्रवंशी खानदानके भाटी राजपूतोंकी एक रियासत है, जिसके उत्तरमें रियासत बीकानेर और इलाक़ह बहावलपुर, पश्चिममें सिन्धका मुल्क, दक्षिणमें जोधपुरका राज्य, और पूर्वमें जोधपुर तथा बीकानेरका इलाक़ह वाके है. पांच सौ वर्ष पहिले यह रियासत बहुत बड़ी थी, परन्तु रावल भीमसिंहके समयसे रफ़्तह रफ़्तह दूसरे लोगों, याने जोधपुर, बीकानेर, बहावलपुर और सिन्धवालोंने तरकी पाकर चारों तरफ़से यहां की ज़मीन दबाली; तोभी यह रेतीला मुल्क, जिसका रक़वह १६४४७ मील मुर्ब्बा है, २६° ५' व २८° २३' उत्तर अक्षांश और ६२° २९' व ७७° १५' पूर्व देशान्तरके दर्मियान ज़ियादहसे ज़ियादह १७२ मीलकी लम्बाई, और १३६ मीलकी चौड़ाईमें फैला हुआ है; लेकिन इलाक़हमें रेता ज़ियादह और सेराबी कम होनेके सबब आबादी केवल १०८१४३ आदमी है. राज्यकी फ़ौज एक हज़ार, खालिसहकी आमदनी सवा लाख रुपया, और इसी क़द्र सर्दारोंकी जागीर समझी जाती है.

मुल्ककी कुद्रती सूरत— इलाक़हमें हर तरफ़ रेतेका मैदान है, सिर्फ़ दक्षिणी भागमें कुछ पहाड़ियां व भाड़ी पाई जाती है, जिसमें जानवरोंके चरनेके लाइक़ चारा पैदा होता है. रेतीले टीबोंके दर्मियान भी अक्सर जगहोंपर कांटेदार भाड़ी और भुरट वगैरह घास होती है, जो यहांके रेवड़ और ऊंटोंके वास्ते बड़े कामकी है. दक्षिणी सहर्दके जंगलमें भड़बेरी, खेजड़ा, आवल, जांट, बवूल, कैर, फोग, आक, ढाक, सांगरी और पीलू वगैरह कस्रतसे होते हैं, बड़ व पीपल शहर तथा जंगलमें केवल दर्शन रूपी कहीं कहीं दिखाई देते हैं. जंगली जानवरोंमें शेर, चीते, बघेरे और गोरखर बाज़ स्थानोंपर पाये जाते हैं; हरिण, चिकारे और रोझ भी कम हैं, लेकिन सूअर, भेड़िये और गीदड़ ज़ियादह पाये जाते हैं, सर्पोंकी इतनी कस्रत है, कि वहांके निवासी उनसे बचनेके लिये चमड़ेके मोड़े पहिनते हैं.

पत्थर व धातु— जयसलमेरमें धातुकी कोई खान नहीं है, परन्तु बाज़ बाज़

मकामोंमें चन्द किस्मका पत्थर और मिट्टी पाई जाती है. पर्गनह देवीकोटमें गेरू, और पर्गनह कोट रामगढ़में मुल्तानी मिट्टीकी खान है, इसके अलावह गांव हाबुरमें संग हाबुर नामका एक उम्दह जौहरदार पत्थर निकलता है, जिससे खूबसूरत पियाले, रकावियां तथा तस्बीह (माला) के मणके बनाये जाते हैं, जिनको मुसल्मान और फ़कीर लोग ज़ियादह पसन्द करते हैं.

नदी, नाले— इस रियासतमें कोई बड़ी या सालभर तक बहने वाली नदी नहीं है, केवल लाठी नामकी एक नदी मारवाड़के डूंगरोंसे निकलकर इस रियासत में दाखिल होती, और अपने किनारोंके गांवोंकी ज़मीनको सेराब करती है; लेकिन यह सिर्फ बर्सातमें और उसके कुछ दिनों बाद तक बहकर सूख जाती है, बारहों महीने जारी नहीं रहती. इसकी पूर्वी सीमापर बड़े गांवके पास गोगड़ी व काकनय नदी और कई बर्साती नाले हैं.

भील, या तालाब— जिनको यहां सर बोलते हैं, उनकी भी वही हालत है, जैसी, कि नदियोंकी, याने वे भी बर्साती नालोंका पानी रोका जानेके सबब थोड़े दिनों तक भरे रहकर जल्द ही सूख जाते हैं, सिर्फ किसी किसी भीलमें सालभर तक पानी रहता है. इस रियासतमें सबसे बड़ी झील बुजकी पच्चीस मीलके घेरेमें है, जो काकनय नदीके पानीसे भरती है. शहर जयसलमेरके पास ही “घड़सी सर” नामी एक मझूर छोटा तालाब है, जिसका जिक्र मझूर मकामातमें किया जायेगा; और अलावह इनके कई छोटी छोटी झीलें तथा कुएं हैं, जिनपर कुल रियासतकी खेतीबाड़ीका दारमदार है. इलाक़ह जयसलमेरमें पानी इतनी गहराईपर है, कि बाज जगह तीन सौ फीट खोदे बिना अच्छा पानी नहीं निकलता; हात्रा ग्राममें, जो पश्चिमोत्तरी सहरदपर वाके है, तीन सौ नौ फीट, खास राजधानी जयसलमेरमें तीन सौ चार फीट, और राजधानीसे ३२ मील अग्नि कोणकी तरफ़ चोरिया ग्राममें ४९० फीट गहरे कुएं हैं.

आब हवा व बारिश— मुल्ककी आब हवा स्वच्छ और नीरोग है, लेकिन बारिश बहुत कम होती है, कभी कभी अकाल पड़नेपर मुल्कके बाशिन्दोंको बड़ी तल्लीफ़ उठानी पड़ती है, यहांतक, कि खेजड़ेके छोड़े, इन्द्रायणके बीज और भुरट वगैरह खाकर गुज़र करते हैं.

जात व फ़िकें— इलाक़हकी आबादीमें ब्राह्मण, क्षत्री, चारण, बनिये, खत्री, सुनार, लुहार, कुम्हार, माली, गूजर, खाती, सिलावट, भोजक, सेवक, साधु, रैबारी, नाई, कलाल, चूड़ीगर, जुलाहा, भील, ढेठ, मुसल्मान व फ़कीर आदि कई कौमोंके लोग बस्ते हैं. पूर्व दक्षिणमें हिन्दुओंकी आबादी अधिक है, जिसमें अक्सर भाटी राजपूत, पल्लीवाल ब्राह्मण और जाट तथा गडरिये हैं; और पश्चिम व उत्तरमें मुसल्मान कौमें ज़ियादह हैं.

पैदावार— इस मुल्ककी खास पैदावार बाजरी, जवार, मूंग, मोठ, तिल,

कपास, गुवार, और सरसू हैं. जहां जमीन जियादह सेराब है वहांगेहूं, चना, अफ़्यून, मूली, बैंगन, पियाज़, धनिया, मिरच, सिंघाड़ा, तर्बूज़, और ककड़ी वगैरह भी पैदा होते हैं. तम्बाकू अक्सर जगह वोई जाती है.

राज्य प्रबन्ध— महता अजीतसिंहने इस रियासतके राज्य प्रबन्धकी बाबत अपने बनाये हुए जयसलमेरके जुग्राफियहमें लिखा है, कि यहांका राजसी इन्तिज़ाम रईस की मर्ज़ीके मुवाफ़िक़ होता है, काइदेके मुवाफ़िक़ कोई इन्तिज़ामी अदालत या क़ानून नियत नहीं है, कुल दीवानी मुक़दमात शहरके इज़तदार और बुद्धिमान लोगोंकी पंचायती कौन्सिलसे फैसल होते हैं, जिसमें रू रिआयत कम होनेके सबब शिकायत पैदा नहीं होती. फ़ौजदारी मुक़दमातमें किसी क़द्र जुर्मानहके अलावह कैदकी सज़ा मुज्जिमों को बहुत कम दीजाती है; चोरीकी वारिदात इतिफ़ाक़से ही कभी होती है, वर्नह जियादह नहीं होती; क्योंकि यहांके लोग खोज लगानेमें बड़े होशियार समझे गये हैं, कि यदि सवेशी वगैरह कोई चीज़ कभी चोरीमें चली भी जाती है, तो फ़ौरन् पता लगाकर उसे दर्याफ़्त करलेते हैं. यहांके रियासती अहलकार दीवानी, फ़ौजदारी तथा दूसरे मुक़दमातमें जहांतक हो सक्ता है, मुज्जिमोंसे रुपया ही वुसूल करते हैं.

जमीनका पट्टा व महसूल वगैरह— मुन्शी ज्वालासहायने अपनी तवारीख़ वक़ाये-राजपूतानहमें लिखा है, कि जयसलमेरकी रियासतमें चौबीस पर्गने और कुल गांव ४६१ (१) हैं, जिनमेंसे २२४ ख़ालिसहके, ७१ जागीरदारोंके, और बाकी इन्अम व पुण्य आदिमें बटे हुए हैं. ख़ालिसहके गांवोंका महसूल पैदावार के चौथे हिस्सहसे लेकर ग्यारहवें हिस्सेतक जमीनकी हैसियत और पैदावारके अनुसार लिया जाता है. जागीरदार लोग महारावलको ख़िराज नहीं देते, अल्बत्तह नये महारावलकी गद्दी नशीनीपर न्यौतेका रुपया देते हैं. सासण गांवोंसे भी, जो चारण व स्वामियोंकी जागीरमें हैं, किसी किस्मका महसूल नहीं लिया जाता, और इस किस्मके गांव हमेशहके लिये जागीरमें दिये गये हैं. भूमियोंसे प्रति मनुष्य रु० १। ७ पाई या १।। रुपया लिया जाता है, और जुहूरतके वक्त इन लोगोंसे तन्स्वाह पर नौकरी भी लीजाती है. ख़ालिसहके गांवोंमें राज्यका महसूल अदा करनेके सिवा जमींदार लोग, गांवके कास्दार व सेणेको भी उनका हक़ देते हैं. जयसलमेरके इलाक़हमें तीन किस्मके जागीरदार हैं— अव्वल “ बसी ”, जिनकी जागीरें हमेशहके

(१) इस तादादमें, जो ज्वालासहायकी तवारीख़से दर्ज की गई है, और महता अजीतसिंहके बनाये हुए जुग्राफियहकी तर्तीव देहातमें फेर फार होनेके सबब फ़र्क़ मालूम होता है, इसलिये उससे ठीक तौरपर तादाद मालूम न होनेके कारण मूलमें गांवों और पर्गनोंकी तादाद वक़ाये राजपूतानहसे ही लिखी गई है.

लिये हैं; दूसरे पट्टादार, कि जिनकी जागीरें जबतक रईस चाहे रखे, या जिस वक्त चाहे छीन ले, परन्तु खिराज यह भी नहीं देते; और तीसरी किस्म कुछ अरसेसे जारी हुई है, जिसमें वे लोग शामिल हैं, जिनको हीन हयात जागीरें मिलती हैं.

पर्गनह - इस रियासतमें कुल २४ पर्गने हैं, जिनके नाम ज्वालासहायकी तवारीखके अनुसार नीचे लिखे जाते हैं:-

१- खास शहर जयसलमेर, २- बीकमपुर, ३- सीररोह, ४- नांचणा, ५- काटोड़ी, ६- काबा, ७- कुलदरा, ८- सतोह, ९- जिंजियाली, १०- देवीकोट (१), ११- बाप या बाफ, १२- बालानह, १३- सतियासा, १४- बारू, १५- चान, १६- लुहारकी, १७- नोनतला, १८- लाठी, १९- डांगरी, २०- बीजोराय, २१- मंडाय, २२- रामगढ़, २३- बरसलपुर, और २४- गिराजसर. इनमेंसे १, ५, ६, ७, १०, ११, २०, २१, २२, नम्बरके तो खालिसहमें और बाकी पटायतोंके कबजहमें हैं.

मरहूर मकामात.

इस रियासतकी राजधानी शहर जयसलमेर, जिसको विक्रमी १२१२ श्रावण शुक्ल १२ रविवार [हि० ५५० ता० ११ जमादियुल अब्बल = ई० ११५५ ता० १४ जुलाई] को रावल जयसलका आवाद किया हुआ बतलाते हैं, कई मील लम्बी चौड़ी पहाड़ीके दक्षिणी किनारेपर बसा हुआ है; शहरपनाह और उसके बुर्ज पत्थरोंसे चुने गये थे, जो अब अक्सर जगहोंसे गिर गये हैं. इस तीन मील लम्बे शहरमें केवल तीन दर्वाजे हैं, और बस्तीके दक्षिणी विभागमें पौन मील मुरब्बा और दो सौ फीटसे ज़ियादह ऊंची पहाड़ीपर रियासतका क़िला बना हुआ है, जिसमें महारावल साहिबका चित्रदार महल दूसरे मकानातसे ज़ियादह खूबसूरत मालूम होता है. शहरमें बहुधा मकान पक्के बने हुए हैं, और महारावल साहिब भी वहीं रहना पसन्द करते हैं; परन्तु क़िलेके साम्हने वाली चन्द उम्दह दूकानोंके सिवा और किसी तरफ़ रौनकदार बाज़ार वगैरह नहीं है.

बीकमपुर- यह रेतके जंगलमें जयसलमेरसे ९५ मील उत्तर पूर्वमें एक क़िला है, जिसकी मज़बूत दीवारें २५ फीट ऊंची हैं, और वह सौ गज मुरब्बाके घेरमें छोटे बुर्जों सहित वाके है, इसके पूर्वोत्तरी कोणपर एक बहुत ऊंचा बुर्ज है, जहांसे चारों ओरका मुल्क दूर दूरतक दिखाई देता है; इस क़िलेमें राज्यके सौ आदमी चार तोपों सहित फौजकी हिफ़ाज़तके वास्ते रहते हैं. अगर्चि यह क़िला मज़बूत है, परन्तु इसपर चढ़नेमें किसी तरहकी तच्छीफ़ नहीं होती, क्योंकि रास्तह सरल है; इसके चारों ओर रेतके ऊंचे ऊंचे टीबे थोड़ी थोड़ी दूरीपर वाके हैं. क़िलेसे दक्षिण पूर्वमें सवा दो सौ घरोंकी आवादीका एक छोटा क़स्बह है.

(१) इस पर्गनहके घोड़े व घोड़ियां ताक़तवर और चालमें उम्दह गिने जाते हैं.

वरसलपुर—यह क़स्बह, जिसमें चार सौ घर और हजार मनुष्योंकी आबादी है, बहावलपुरके रास्तेमें बहावलपुरसे ९० मील दक्षिण पूर्वको वाके है. यहां २० फीट ऊंची पहाड़ीपर एक क़िला है. क़स्बहसे एक मील दूरीपर दक्षिण पश्चिममें एक टीला क़िलेसे ऊंचा है, जिसपर चार सौ वर्ष पहिले हुमायूं बादशाह खड़ा रहा था, जब कि उसको क़िलेमें न आने दिया. यह क़स्बह बहुत पुराना है, यहांके हिन्दुओंके बयानसे सन् .ईसवीके दूसरे शतकमें इसका आबाद होना पाया जाता है; यहांके ठाकुरने विक्रमी १८९२ [हि० १२५१ = .ई० १८३५] में मिस्टर ब्वाइलो साहिब इंजिनिअरकी बड़ी खातिरदारी की थी, जो मुल्की हालात दर्याप्त करनेके लिये सरकारकी ओरसे यहां भेजे गये थे.

चाहिन—यह सौ घरोंकी आबादीका गांव है, जो चोरोंके रहनेका स्थान होनेके सबब इलाक़हमें प्रसिद्ध है.

कानोड—यह क़स्बह शहर जयसलमेरसे उत्तर पूर्वमें एक खारी भीलके किनारेपर, जो ८ मील चौड़ी और १५ मीलके करीब लम्बी है, वाके है. इस भील में पानी सूख जानेपर नमक जमता है, और बर्सातमें पानी भरजानेपर पूर्वकी ओर इसमेंसे एक नदी निकलती है, जो ३० मील बहकर मारवाड़के रेतमें गाइब होजाती है.

काठोड़ी—जयसलमेर और बहावलपुरके रास्तेमें राजधानीसे १६ मील उत्तर पल्लीवाल बौहरा ब्राह्मणोंकी बस्तीका एक गांव है, जो व्यापार करते हैं. इसमें एक उम्दह तालाब भी है.

किशनगढ़—बहावलपुरकी सीमाके पास जयसलमेरसे ८० मील उत्तर पश्चिम में ईंटोंका बना हुआ एक पक्का व मज़बूत क़िला और ग्राम है.

कोरा क़िला—जयसलमेरसे ३८ मील पश्चिममें क़िला और गांव है.

लाठी—इलाक़ह जोधपुरके क़स्बह पोहकरणसे २५ मील जयसलमेरके रास्ते पर उत्तर पश्चिममें है.

मोहनगढ़—जयसलमेरसे ३५ मील उत्तर पूर्वमें जंगलके दर्मियान एक क़िला है, जिस पर्गनहमें यह वाके है, वहां लाठी नदीकी सेराबीसे गेहूं व जव और कई फ़सली चीज़ें क़स्बतसे पैदा होती हैं.

नवा थला—जयसलमेरसे ४८ मील पूर्वोत्तर कोणमें बीकानेर व जयसलमेरके रास्तेपर एक क़िला और गांव है.

वाप या वाफ—रियासतकी पूर्वी सीमापर जोधपुरकी तरफ़ बीकानेर व जयसलमेरके


रास्तेमें जयसलमेरसे १०० मील उत्तर पूर्वमें है. जिस पर्वतका यह सद्र मकाम है, वहांकी जमीन जयसलमेरके कुल पर्वतोंसे बढ़कर उपजाऊ और सेराब व सर्सङ्ग है, और इसी सबबसे उसका नाम “कोट काश्मीर” भी प्रसिद्ध है, इसमें गोरे भैरवका एक प्रसिद्ध देवस्थान है, जिसके दर्शनके लिये मेलेपर और दूसरे वक्तोंमें भी दूर दूरसे यात्री लोग आते हैं.

घड़सीसर तालाब— राजधानी जयसलमेरके करीब ३ मील लम्बा और १ मील चौड़ा महारावल घड़सीका बनवाया हुआ एक तालाब है, जिसमें एक छोटीसी गढ़ी और दो बुर्ज बने हुए हैं, और उसकी पालपर हिङ्गलाज माताका मन्दिर और एक उम्दह महल तथा बागीचह व कई देवालय, शिवालय, धर्मशाला आदि उत्तम स्थान हैं.

ऊपर लिखे हुए किलोंके सिवा रामगढ़, रूपसी और सोदाखोरमें भी छोटे छोटे किले हैं.

व्यापार व पेशह — इस मुल्कमें व्यापार और खेती बहुत कम होती है, अक्सर लोग सांड (ऊंट), भेड़ व बकरी आदि चौपायोंके जरीएसे अपना गुजर करते हैं, विद्याका प्रचार बहुत कम है, दस्तकारी भी जियादह नहीं होती, केवल रूईका मोटा कपड़ा बुना जाता है, लेकिन भेड़की उनके कम्बल व खेस वगैरह, पत्थरके पियाले व रकावियां, और हाथीदांत व हड्डीके जेवर अल्बत्तह उम्दह बनते हैं.

इस मुल्कमें कोई पक्की सड़क और रास्ते नहीं हैं, लेकिन गंगाके किनारेके मुल्क से लगाकर सिन्ध देशतक व्यापारियोंके ऊंटोंकी कतारें एक दूसरी जगहको व्यापारकी वस्तुएं लाते और लेजाते समय इस मुल्कमें होकर गुजरती हैं, इसी सबबसे जयसलमेर व्यापारी स्थानके तौरपर प्रसिद्ध है, बल्कि यही जरीअह राज्यकी जियादहतर आमदनी का है, क्योंकि राहदारीके महसूलकी रकम कुल रियासतकी सालियानह आमदनीके आधे हिस्सहके करीब जमा होती है.



जयसलमेरकी तवारीख.

जयसलमेरके वर्तमान भाटी राजा चन्द्रवंशी यादव राजपूतोंकी एक शाखमें हैं, जो राजपूतानहके बहादुर और नामवर क्षत्रियोंमेंसे गिने जाते हैं. चन्द्रवंशी राजपूतों का जो प्राचीन हाल भागवत और महाभारतादिक ग्रन्थोंमें लिखा हुआ है, उसमें तो इतिहास वेत्ता लोग कुछ हेर फेर कर ही नहीं सके, अल्बत्तह बाज बाज प्राचीन शोधकारक समयके अधिक न्यून होनेमें अपनी राय प्रकाश करते हैं, परन्तु

उसमें कुल विद्वानोंकी सम्मति एक नहीं पाई जाती, इसलिये यहांपर प्राचीन समयके हालात छोड़कर पिछले जमानहका वृत्तान्त लिखा जाता है.

भाटी लोग श्रीकृष्ण के पुत्र प्रद्युम्नके पौत्र वज्रनाभ अर्थात् अनिरुद्धके बेटेकी औलाद कहलाते हैं; परन्तु वज्रनाभसे लेकर गजके समय तकका दर्मियानी हाल सहीह सहीह मिलना बहुत मुश्किल है; और जयसलमेरकी रियासतसे भी हमको इस खानदानका इतिहास सम्बन्धी वृत्तान्त कुछ नहीं मिला, इसलिये गजसे पिछला हाल, जो नीचे लिखा जाता है, वह कर्नेल टॉड और महता नेनसीकी पुस्तक तथा फ़ार्सी किताबोंसे चुनकर लिया गया है; इनके सिवा जयसलमेरके वर्तमान महता अजीतसिंहकी बनाई हुई भाटीनामह नामकी एक छोटी पुस्तक से भी कुर्सी नामह व साल संवत् वगैरहमें किसी क़द्र मदद मिली है.

चन्द्रवंशी यादव वज्रनाभके वंशमेंसे राजा गजका क़िले गज़नीको बनवाना सहीह मालूम होता है, क्योंकि गांधार देश, जिसको अब क़न्धार कहते हैं, प्राचीन समयमें चन्द्रवंशियोंके अधिकारमें था, और चीनी मुसाफ़िर ह्युइन्त्सांग, जो सातवीं सदी ईसवीमें उस तरफ़ होकर भारतवर्षमें आया, हिरातसे क़न्धारतक हिन्दू राजा व प्रजाका होना बयान करता है.

राजा गजका हाल कर्नेल टॉडने बहुत तूल तवील लिखा है, जो यदि सहीह भी हो, तो कुछ आश्चर्य नहीं, परन्तु हमको इसमें यह सन्देह है, कि वह कहांतक सहीह है; सिवा इसके जिन राजाओंके साथ गजकी लड़ाइयां हुईं, उनके नाम, क़ौम तथा देश और साल संवत्तोंका भी प्राचीन शोधके अनुसार पूरा पता लगना कठिन है.

राजा गज खुरासानके राजासे लड़कर मारा गया, और उसके बेटे शालिवाहनने पंजाबमें शालिवाहनपुर आबाद किया; उसका बेटा बुलन्द, और बुलन्दका पुत्र भट्टी हुआ. कर्नेल टॉड लिखते हैं, कि बुलन्दकी सन्तानमेंसे कितने ही मुसल्मान होगये, जिनकी औलाद पश्चिमकी तरफ़ मौजूद है. भट्टीके नामसे यादव राजपूतोंकी शाखामेंसे एक प्रति शाखा भाटी प्रसिद्ध हुई. भट्टीका पुत्र मंगलराव, जिसका मुअज़्ज़मराव, जो लुद्रवामें रहा, उसका खेड़, उसका तणू, उसका विजयराव, और उसका देवराज, जिसने एक जोगीकी बरकत से क़िला देवरावल (१) बनवाया, और राजाका खिताब छोड़कर रावलका पद इस्तिफ़ाज किया; देवराजका पुत्र मंध, उसका बल्लराज, उसका पुत्र दुसाज, और दुसाजका पुत्र १-जयसल हुआ, जिसने विक्रमी १२१२ श्रावण शुक्ल १२ [हि० ५५० ता० ११ जमादियुल-अव्वल = ई० ११५५ ता० १४ जुलाई] को क़िले जयसलमेरकी नींव डाली.

(१) इस क़िलेकी तामीर याने बुनयादका संवत् कर्नेल टॉडने विक्रमी ९०९ माघ शुक्ल ५ सोमवार [हि० २३८ ता० ४ श्रवण = ई० ८५३ ता० २० जैनुअरी] लिखा है.

जयसलके दो बेटे थे, जिनमें बड़ा केलण और छोटा शालिवाहन था; लेकिन केलण गद्दीसे खारिज किया जाकर जयसलके मरने बाद विक्रमी १२२४ [हि० ५६२ = ई० ११६७] में २- शालिवाहन दूसरा गद्दीपर बिठाया गया, यह एक नामी राजा हुआ, जिसके तीन बेटे बीजल, बानर, और हंसू थे; इनमेंसे हंसू एक दूसरे पहाड़ी मुल्कके यदुवंशी राजाका दत्तक माना गया, वह वहां पहुंचते ही मर गया, रास्तेमें उसकी गर्भवती राणीके पेटसे पलासके दरख्तके नीचे एक लड़का पैदा हुआ, जिसका नाम पलासू रक्खा गया, और इसीके नामसे उस रियासतका नाम पलासवा प्रसिद्ध हुआ.

जब शालिवाहन शादी करनेके लिये सिरोही गया, तो रियासत अपने बड़े बेटे बीजलके सुपुर्द कर गया था, पीछेसे ३- बीजल अपने एक धायभाईके बहकानेपर शालिवाहनका शेरकी शिकारमें मारा जाना मश्हूर करके राज्यका मालिक बन बैठा. शालिवाहनने वापस आकर उससे बहुत कुछ नर्मी की, लेकिन उसपर कुछ असर न हुआ, और वह किले देवरावलकी तरफ जाकर बिल्लौचोंके मुकाबलहमें मारा गया. थोड़े ही दिन गुजरने पाये थे, कि एक रोज बीजलने गुस्सेकी हालतमें धायभाईको धमकाया और मार पीट की, जिसपर वह मुकाबलहके साथ पेश आया, और इस शर्मिन्दगीसे बीजल खुदकुशी करके मर गया.

बीजलके मरने बाद विक्रमी १२५७ [हि० ५९६ = ई० १२००] में ४- केलण ५० वर्षकी उम्रमें राज्यका मालिक बना, जो शालिवाहनका बड़ा भाई, और पाहू नामी वजीरकी रंजिशके सबब जयसलके मरनेपर गद्दीसे खारिज किया गया था. इसके छः बेटे चाचकदेव, पालणसाह, जयचन्द, आसराव, प्रथमचन्द और पूर्णसी हुए. १९ वर्ष राज करके केलण मर गया, और विक्रमी १२७५ [हि० ६१५ = ई० १२१९] में ५- चाचकदेव गद्दी नशीन हुआ (१). इसने अमरकोटके राजा रूपसी सोढापर हमलह करके उसकी लड़कीसे शादी करने बाद सुलह की; इसी तरह सोढा राजपूतोंकी मददसे छाडा राठौड़से भी मुकाबलह किया, और उसकी लड़कीसे शादी करके ३२ वर्ष राज्य करने बाद मर गया. इसके एक बेटा तेजराव था, जो अपने दो बेटों जैतसी और करणको छोड़कर ४२ वर्षकी उम्रमें चाचकदेवकी मौजूदगीमें ही मर गया था. चाचकदेव करणसे खुश रहता था, इसलिये उसने अपने आखरी वक्तमें जैतसीके एवज करणको, जो छोटा था, राज्यका मालिक बना दिया.

चाचकदेवके मरने बाद ६- रावल करण गद्दीपर बैठा, और जैतसी वतन छोड़कर

(१) इसकी गद्दी नशीनीका संवत् भाटीनामहमें विक्रमी १२६४ [हि० ६०३ = ई०

१२०७] लिखा है, लेकिन मूलमें कर्नेल टॉडके लिखे मुवाफिक दर्ज किया गया है.

गुजरातमें चला गया. इन दिनों नागौरमें मुजफ्फरखां पांच हजार सवारों समेत रहता था, जिसने नागौरके पास वाले एक भोमिया भगवतीदास झालासे, जो १५०० सवारोंका मालिक था, उसकी लड़कीके साथ शादी करनेकी दस्खास्त की. भोमिया मज्कूरको यह बात मन्जूर न हुई, और वह अपना देश छोड़कर लड़कीको ले-निकला; लेकिन मुजफ्फरखाने उसका पीछा किया, और रास्तहमें मुकाबलह करके लड़कीको मए कई दूसरी औरतोंके छीन लिया. इस मुकाबलहमें भगवतीदासके साथियोंमेंसे करीबन चार सौ आदमी मारे गये, और वह भागकर जयसलमेर पहुंचा. करणने उसकी मदद की, और मुजफ्फरखांको तीन हजार सिपाह समेत क़त्ल करके भगवतीदासको उसके वतनमें वापस आबाद करदिया.

करणके मरने बाद विक्रमी १३२७ [हि० ६६९ = ई० १२७०] में ७- रावल लाखणसेन राज्याधिकारी हुआ. यह बड़ा भोला राजा था. कर्नेल टॉड लिखते हैं, "कि इसने सियालों (गीदड़ों) की आवाज़ सुनकर उनकी तकलीफ़ दूर करनेकी गरजसे उनके लिये दगले (सर्दिके मौसमके कपड़े) और मकानात बनवा दिये थे, जिनमेंसे कई मकान अबतक मौजूद हैं." वह थोड़े ही दिनों बाद कुछ दीवानह होगया, जिससे विक्रमी १३३१ [हि० ६७३ = ई० १२७४] में उसके बेटे ८- पुण्यपालने राज्यका कारोबार अपने हाथमें लिया. यह बड़ा सस्त मिजाज था, इस सबबसे उसके सर्दार उमरावोंने रावल करणके बड़े भाई जैतसीको गुजरातसे बुलाकर पुण्यपालको गद्दीसे खारिज करदिया.

विक्रमी १३३२ [हि० ६७४ = ई० १२७५] में ९- जैतसी राज्यका मालिक बना, इसके दो बेटे मूलराज और रत्नसी थे. इस वक्त दिल्लीपर अलाउद्दीन खिल्जी बादशाहत करता था. उन दिनों ठट्टा और मुल्तानके दिल्ली जाते हुए खिराजको रास्तेमें मूलराज व रत्नसीने लूट लिया; यह खबर बादशाहके पास पहुंचनेपर फौज-कशी हुई. मुकाबलहके दिनोंमें रावल जैतसीके मरजानेपर विक्रमी १३५० [हि० ६९२ = ई० १२९३] में १०- मूलराजने रावलका पद पाया. इसने अपने बेटे देवराजको, जिसके वंशके अर्जुनोत व हमीरोत भाटी हैं, मए उसके बेटे हमीरके किलेसे बाहिर निकाल दिया, और अपने भाई रत्नसी समेत मुकाबलहके वास्ते किलेमें रहा. देवराज बाहिरसे शाही फौजपर धावा करता था, आखिरकार आठ वर्षतक मुकाबलह करने बाद रसदकी कमीसे मूलराज व रत्नसीने अपनी स्त्रियों व बाल बच्चोंको आगमें जला दिया, और आप सात सौ हम्नाही राजपूतों समेत किलेसे बाहिर निकलकर बड़ी बहादुरीके साथ मारा गया.

लिखा है, कि बादशाही फौजके सर्दार महबूबखांसे रत्नसीकी बड़ी दोस्ती होगई

थी, इस सबबसे इसने अपने दोनों लड़कों घड़सी व कान्हड़को, जो नावालिग थे, आखरी हमलह होनेसे पहिले महबूबखांके पास पर्वरिशके वास्ते भेजदिया था. यह मारिका विक्रमी १३५१ (१) [हि० ६९३ = ई० १२९४] में हुआ, जिसमें क़िला बादशाही लोगोंके हाथ आया, और देवराज, जो बाहिरसे बादशाही फ़ौजपर हमले कर रहा था, बुखारकी बीमारीसे मरगया. जब यह क़िला बादशाही लोगोंके क़बजेमें आया, तो इसके दर्वाजे बन्द करवादिये गये, और दो वर्षतक क़िला उन्हीं बादशाही लोगोंके क़बजेमें रहा. जयसलमेरको उसके वीरान होजानेपर जगमाल राठौड़ने अपने क़बजहमें लेना चाहा; लेकिन दूदा व तिलोकसी भाटीने, जो जयसलकी औलादमेंसे थे, भाटियोंको एकट्ठा करके राठौड़ोंको क़िलेसे निकाल दिया, और विक्रमी १३५६ [हि० ६९८ = ई० १२९९] में ११- दूदाने रावलका खिताब इख्तियार किया. यह बड़ा लड़ाकू और दिलेर राजपूत था, जो अजमेरसे बादशाही (२) घोड़े लूट लेगया. जब इसपर हमलह हुआ, तो विक्रमी १३६२ [हि० ७०५ = ई० १३०६] में यह अपनी बहुतसी औरतों व बच्चोंको क़त्ल करके अपने भाई तिलोकसी व दूसरे साथियों समेत लड़कर मारा गया.

इस मारिकेके पेश आने बाद रत्नसीके बेटे १२- घड़सीको, जो अपने भाई कान्हड़ समेत रत्नसीका सौंपा हुआ महबूबखांकी हिफ़ाजतमें था, और उसके मरजाने बाद उसके बेटोंकी निगरानीमें रहा, विक्रमी १३६२ (३) [हि० ७०५ = ई० १३०६] में जयसलमेरकी सनद मिली. इसकी शादी राठौड़ माला (मल्लीनाथ) की बेटी विमलादेवी व कमलादेवीसे हुई थी. विमलादेवी बड़ी होशियार और बुद्धिमान स्त्री थी, इसने अपने पतिके कोई औलाद न होनेके सबब दूदाके बेटे केहर (४) को गोद लेना चाहा, जिसपर देवराजके बेटों हमीर व गैरहने बखेड़ा मचाया, और इसी रंजिशसे वह (घड़सी) आसकरण नामी एक भाटी राजपूतके हाथसे मारा गया.

(१) अलाउद्दीन खिल्जी ऊपर लिखे हुए संवत् १३५१ से १ वर्ष बाद दिल्लीके तख्तपर बैठा था, इसलिये इस संवत्में शक पाया जाता है.

(२) कर्नेल टॉडने फ़ीरोजशाहके घोड़े लेजाना लिखा है, लेकिन यहसमय अलाउद्दीन खिल्जीका है.

(३) कर्नेल टॉड लिखते हैं, कि घड़सीने तीमूरशाहके दिल्लीपर हमलह करनेके वक्त वहादुरी दिखलाई, जिसके बदलेमें उसको जयसलमेरकी सनद मिली थी, और भाटीनामहमें इसका गद्दी नशीन होना विक्रमी १३७३ [हि० ७१६ = ई० १३१६] में लिखा है. लेकिन तीमूर बहुत ही पीछे आया है; इसलिये या तो साल संवत्तोंमें फ़र्क है, या कर्नेल टॉडके नोटके मुवाफ़िक़ यह ज़मानह ऐवक़्वांकी लड़ाईका होगा, क्योंकि अलाउद्दीनके वक्तमें सुग़लोंके कई हमले हुए हैं.

(४) दूदाके मुक़ाबलह करके मारे जानेके वक्त केहर अपनी माताके साथ उसकी ननिहाल

मंडोवर में था.

विमलादेवीने अपने पतिके मारे जाने बाद उसके मन्शाके मुवाफिक केहरको जानशीन मुकर्रर करदिया, और छः महीने पीछे विक्रमी १३९२ [हि० ७३६ = ई० १३३५] में अपने पतिके बनवाये हुए "घड़सी सर" तालाबकी प्रतिष्ठा कराकर सती होगई.

विक्रमी १३९१ [हि० ७३५ = ई० १३३४] में १३- रावल केहर गद्दीपर बैठा. इसके आठ बेटे थे- बड़ा लखमण (लक्ष्मण), जो केहरके बाद गद्दीनशीन हुआ; २- केलण, जिसने अपने पिताके समय बहुतसी लड़ाइयोंमें तारीफके काबिल बहादुरी दिखलाई; ३- सोम, जिसकी औलाद वाले सोमा भाटी कहलाते हैं; ४- कलकरण, ५- तणू, ६- सांतल, जिसने एक पुराने शहरको आबाद करके उसका नाम सांतलमेर रक्खा (१); ७- धीजा, और ८- तेजसी.

केहरके मरने बाद विक्रमी १४५२ [हि० ७९७ = ई० १३९५] में १४- लखमण गद्दीपर बैठा; इसके सात बेटे वैरसी, रूपसी, रायधर, अमरसी, कुम्भा, सादूल और साहसी हुए. रावल लखमणके छोटे भाई केलणने अपनी जवांमर्दीसे एक जुदा इलाकह व्याह नदीके किनारेपर आबाद करके अलहद्दह राजधानी बनाई थी, इसके कबजहमें "किरोहर"के अलावह, जिसको उसने आबाद करके विक्रमी १४७२ [हि० ८१८ = ई० १४१५] में राजधानी बनाया था, पूंगल, बीकमपुर, नांदणा, देवरावल, मारोट, व भटनेर वगैरह बहुतसा इलाकह था. केलणके रणमल्ल और चाचा वगैरह २४ बेटे थे.

केलणके मरने बाद रणमल्ल किरोहरका मालिक हुआ; लेकिन किसी बीमारीसे उसके बदनका नीचेका हिस्सह बे काम होजाने या मरजानेके सबब चाचा जानशीन हुआ; इसने भी अपने पिताकी तरह कई मारिकोंमें बहादुरी दिखलाई. चाचाके बाद उसका बेटा बरसल किरोहरका राव कहलाया; यह भी बड़ा जवांमर्द था, इसने अपने नामपर बरसलपुर आबाद किया और पंजावके रईसोंके साथ बहुतसी लड़ाइयां कीं. कर्नेल टॉड लिखते हैं, कि " गारा नदीके दोनों किनारोंके ऊपरका बहुतसा हिस्सह केलणकी औलादके कबजहमें था, जिसपर बाबर बादशाहने मुल्तानको फतह करके, अपने हाकिम मुकर्रर किये, तब केलणकी औलादवाले, जो किरोहर कोट, दीनापुर, पूंगल, व मारोट वगैरहमें आबाद थे, वे सब मुसल्मान होगये."

रावल लखमणके मरने बाद विक्रमी १४८६ [हि० ८३२ = ई० १४२९] में १५- वैरसी राज्याधिकारी हुआ, जिसके चार बेटे १- चाचा, २- ऊगा, ३- मेला और ४- बनवीर हुए. रावल वैरसी बड़ा दूरन्देश और धर्मात्मा था; इसने मंडोवर के राव जोधाको अपने पास रक्खा, और मदद करके उसको मंडोवरका मालिक बनाया.

(१) जोधपुरकी तवारीखमें लिखा है, कि सांतलमेरको जोधपुरके राव जोधाके बेटे सांतलने आबाद किया था, लेकिन न मालूम किसका कौल सहीह है, अगर यह सांतलमेर दूसरा हो, तो इस्तिलाफ मिट सक्ता है.

विक्रमी १५०६ [हि० ८५३ = .ई० १४४९] में १६- रावल चाचा अपने बाप के मरने बाद गद्दी नशीन हुआ, यह थोड़े ही वर्ष राज्य करके मर गया, इसके एक ही बेटा १७- देवीदास था, जो विक्रमी १५१३ [हि० ८६० = .ई० १४५६] में राज्यका मालिक बना; इसने अमरकोटके सोढा राजपूतों वगैरह पर धावे किये. इसके जैतसी, सांतल, पातल, मदो (माधव), ठाकुरसिंह और रामा छः बेटे हुए. रावल देवीदासके मरनेपर विक्रमी १५४९ [हि० ८९७ = .ई० १४९२] में १८- जैतसी रावल कहलाया, जिसने विक्रमी १५७० [हि० ९१९ = .ई० १५१३] में "जैत वन्द" नामका एक तालाब बनवाकर उसपर बाग लगवाया. इसके लूणकरण, नरसिंह, महारावण, मंडलीक, वैरू, प्रतापसी, मेहरो और भवानीदास आठ बेटे हुए. विक्रमी १५८५ [हि० ९३४ = .ई० १५२८] में १९- रावल लूणकरण राज्यका मालिक बना, जिसके वक्तमें बाबर बादशाहने समकन्दसे आकर इब्राहीम लोदीको मारने बाद दिल्लीपर अपना कबजह किया (१). अलीखां नामी एक पठान जयसलमेर आया, जो कुछ दिन वहां रहकर एक रोज दगासे अपने साथियों समेत किलेमें जा घुसा, और तीन पहरतक बराबर लड़ाई करके वहीं मारा गया. भाटी नामहमें लिखा है, "कि यह मारिका विक्रमी १६०७ ज्येष्ठ शुक्ल ११ [हि० ९५७ ता० १० जमादियुल अब्बल = .ई० १५५० ता० २८ मई] को हुआ." रावल लूणकरणके नौ बेटे मालदेव, हींगलीदास, रायपाल, सूरजमल्ल, शिवदास, रायमल्ल, दुर्जनशाल, दूदा और हरिदास थे.

इसी रावलके वक्तमें हुमायूं शाह जयसलमेरके रेगिस्तानमें होकर गुजरा, जब कि शेरशाहने उसको दिल्लीसे निकाल दिया था, और रावल लूणकरणके लोगों से इसका मुकाबलह हुआ- (देखो पृष्ठ १२९).

विक्रमी १६०७ [हि० ९५७ = ई० १५५०] में २०- रावल मालदेव गद्दी नशीन हुआ. इसके हरिराज, भवानीदास, खेतसी, नारायणदास, सहसमल्ल, नेतसी और पूर्णमल्ल सात बेटे थे, जिनमेंसे रावल मालदेवके मरनेपर विक्रमी १६१८ पौष कृष्ण ६ [हि० ९६९ ता० २० रबीउल अब्बल = .ई० १५६१ ता० २७ नोवेम्बर] को २१- हरिराज गद्दीपर बैठा; और बादशाह अकबरके दरबारमें दिल्ली हाज़िर होकर उसने खिल्अत वगैरह हासिल किया. इसने अपने इलाकहके आसपासकी किसी कद्र जमीन अपने कबजहमें करके मुल्कको भी बढ़ाया. हरिराजके मरने बाद उसके चार बेटों भीम, कल्याण, भाखरसिंह, और सुल्तानमेंसे

(१) बाबर बादशाह विक्रमी १५८५ [हि० ९३४ = .ई० १५२८] से दो तीन वर्ष पहिले

हिन्दुस्तानमें आ चुका था.

बड़ा २२- भीम विक्रमी १६३४ माघ शुक्ल ४ [हि० १८५ ता० ३ जिल्काद = ई० १५७८ ता० १२ जैनुअरी] को जयसलमेरका मालिक बना. यह अक्बर बादशाहके समय शाही फौजके साथ कई मुहिमोंपर भेजा गया, जिनमें खैरखाही और उम्दह कारवाई दिखलानेके सबब उसको कुछ जागीर वगैरह मिली थी. भाटी नामहमें लिखा है, कि बादशाहने उक्त रावलको तीन हजारी मन्सब दिया था. जयसलमेरके किलेमें इन्होंने बहुतसे मकानात बनवाये, जो इस वक्तक मौजूद हैं. रावल भीमके मरजानेपर उनका भाई २३- कल्याण विक्रमी १६७० माघ शुक्ल १५ [हि० १०२२ ता० १३ जिल्हिज = ई० १६१४ ता० २५ जैनुअरी] को गद्दी नशीन हुआ.

विक्रमी १६७३ [हि० १०२५ = ई० १६१६] के बयानमें बादशाह जहांगीर अपनी किताब तुजक जहांगीरी में लिखता है, कि “कल्याण जयसलमेरी, जिसके बुलानेको राजा कृष्णदास गया था, हाजिर हुआ, और उसने १०० अश्रफी, व एक हजार रुपया नज़ किया. उसका बड़ा भाई भीम जागीरदार था, जब वह गुज़र गया, तो उसने दो महीनेका एक वच्चा छोड़ा, वह भी जियादह न जीया. शाहजादगीके दिनोंमें उसकी बेटीको मैंने व्याहा था, और उसको “मलिकए जहां” खिताब दिया था. ये लोग मुदतसे हमारे खैरखाह रहे हैं, और इनसे रिश्तहदारी भी होगई थी, इसलिये मैंने रावल भीमके भाई कल्याणको बुलाकर राजका टीका और रावलका खिताब दिया (१).”

रावल कल्याण, जिसको बादशाह जहांगीरने दो हजारी जात व हजार सवार का मन्सब दिया था, मिजाजका बहुत सीधा सादा था, इसने मुल्कको बहुत कुछ सर्सज़ और आबाद किया. इसके सिर्फ एकही बेटा २४- मनोहरदास था, जो विक्रमी १६८४ [हि० १०३६ = ई० १६२७] में उसके मरनेपर रावल कहलाया. मनोहरदास बड़ा नीतिनिपुण था, जिसने मंडलेतक अपनी सहद काइम की. मनोहरदासके पीछे विक्रमी १७०६ [हि० १०५९ = ई० १६४९] में २५- रामचन्द राज्यका अधिकारी हुआ (२); लेकिन रियासतमें नाइतिफाकी व

(१) तुजक जहांगीरीमें बादशाह जहांगीरने यह हाल हिज्री १०२५ के जिक्रमें लिखा है, और कल्याण की गद्दी नशीनीकी तारीख भाटीनामहमें विक्रमी १६७० माघ शुक्ल १५ [हि० १०२२ ता० १३ जिल्हिज = ई० १६१४ ता० २५ जैनुअरी] लिखी है, इससे मालूम होता है, कि कल्याण गद्दी बैठनेके दो तीन वर्ष बाद बादशाहके बुलानेसे दिखी गया होगा.

(२) कर्नेल टॉडने अपनी किताबमें रावल बरसिंहके बाद रावल रामचन्द तक का कुछ हाल नहीं लिखा, बल्कि कुर्सीनामहमें भी फर्क है, याने उक्त कर्नेलने बरसिंहके बाद रावल जैत, लूणकरण, भीम, मनोहरदास और उसके बाद सबलसिंह लिखा है; इस सबबसे हमने रामचन्द तक का हाल भाटीनामहसे मूलमें दर्ज किया है.

बखेड़ोंके सबब २६- सबलसिंह मालिक बन बैठा, जिसके गद्दी नशीन होनेकी तारीख भाटीनामहमें विक्रमी १७०७ माघ शुक्ल ५ [हि० १०६१ ता० ४ सफर = ई० १६५१ ता० २६ जैनुअरी] लिखी है. कर्नेल टॉड लिखते हैं, कि “ जयसलमेरका अब्बल राजा सबलसिंह हुआ, जिसको जयसलमेरका इलाक़ह बतौर जागीर बादशाहकी तरफसे मिला था, लेकिन यह अस्ली वारिस गद्दीका नहीं था. मनोहरदास ने अपने भाई (भीम) के बेटे नाथूको बीकानेरसे शादी करके वापस आते समय, जो गद्दीका वारिस था, फलौदी मक़ामपर एक औरतके हाथसे ज़हर दिलाया, कि जिससे वह मरगया, परन्तु ईश्वरको यह मन्ज़ूर न था, कि कातिलकी नस्ल हुकूमत करे, इसलिये वह मर्तवह सबलसिंहको नसीब हुआ, जो मालदेवकी तीसरी औलादमें से था (१).”

सबलसिंह आंबेरेके राजा जयसिंह अब्बलका भान्जा और बड़ा नेक मिजाज जवान आदमी था, उसको अपने मामाके मातहत पेशावरमें एक बड़ा उह्दह मिला था, जहांपर उसने अफ़ग़ानोंके हाथसे बादशाही खज़ानहको बचाया था. इस खैरख्वाही के सबब कुल रईस, जो अपनी अपनी फ़ौज समेत बादशाही नौकरी करते थे, उसपर मिहर्बान थे. बादशाहने जोधपुरके महाराजा जशवन्तसिंहको हुकम दिया, कि उसको गद्दी नशीन करे. नाहरखां कूपावत इस कामपर मुक़र्रर हुआ, और इसी कामके पूरा करनेकी वजहसे उसको शहर और इलाक़ह पोहकरणकी हुकूमत दी गई, और इसी वक्तसे वह इलाक़ह जयसलमेरसे अलहदह हुआ.

सबलसिंहके मरने बाद उसके सात बेटों अमरसिंह, रत्नसिंह, राजसिंह, महासिंह, माधवसिंह, बांकीदास और भावसिंहमेंसे बड़ा २७- अमरसिंह विक्रमी १७१६ श्रावण शुक्ल १५ [हि० १०६९ ता० १३ जिल्काद = ई० १६५९ ता० २ ऑगस्ट] को गद्दीपर बैठा. इसने टीकादौड़के वक्तमें पहिला हमलह बिल्लौचोंपर करके फ़तह पाई. उक्त रावलने अपनी बेटियोंके विवाहके लिये, जो जोधपुरके महाराजा अजीतसिंह व उदयपुरके महाराणा अमरसिंहके साथ हुआ था, अपनी रिआयासे बराड़ लेना चाहा. इसपर रघुनाथ नामी एक राजपूतने, जो उसका मुसाहिब था, इन्कार किया, जिसको उसने उसी वक्त मार डाला. फिर रियासतके पूर्वी हिस्सहकी तरफ़ चुन्ना राजपूतोंने लूट मार

(१) लूणकरणके तीन बेटे थे :-

- १- कल्याणदास, जिसका बेटा मनोहरदास, और उसका रामचन्द.
- २- मालदेव, जिसका कायतसी (खेतसी), उसका दयालदास, और उसका सबलसिंह.
- ३- हरिराज, जिसका भीम, और उसका नाथू.

मचाई, तब उनपर चढ़ाई की, और फ़तहयाब होकर उन राजपूतोंसे अह्दनामे लिखा लिये.

कुछ अरसहसे राठौड़ोंने मुल्कमें फ़साद मचा रक्खा था, उसका एवज लेनेके लिये बीकमपुर वाले सुन्दरदास व दलपतकी सलाहसे बीकानेरके इलाक़हपर धावा किया गया, लड़ाई होनेपर भाटियोंने फ़तह पाई. यह ख़बर राजा अनूपसिंह बीकानेर वालेको, जो उसवक्त बादशाही फ़ौजके साथ दक्षिणमें था, पहुंची. तब उसने मक़ाम हंसारसे कुछ फ़ौज एक पठान सर्दारकी मातहतीमें देकर अपने मुसाहिव (प्रधान) को हुक्म दिया, कि राठौड़ोंको एकट्ठा करके जयसलमेरपर हमलह करे, और बीकमपुरको बिल्कुल बर्बाद करदे. यह हाल मालूम होनेपर रावल अमरसिंहने भाटियोंको जमा करके मुक़ाबलहके साथ पूंगलको दोवारह छीन लिया, और वाडमेर व कोतूराके राठौड़ जागीरदारोंको अपना ताबेदार बनाया. इस लड़ाईमें बहुतसे राठौड़ मारे गये

अमरसिंहके जशवन्तसिंह, दीपसिंह, विजयसिंह, कीर्तिसिंह, श्यामसिंह, जैतसिंह, केसरीसिंह, जुभारसिंह, गजसिंह, फ़तहसिंह, मुहकमसिंह, हरिसिंह, जयसिंह, इन्द्रसिंह, महकरण, भीमसिंह, जोधसिंह और सुजानसिंह, अठारह बेटे और दो बेटियां थीं.

उक्त रावलको बादशाह आलमगीरने पोहकरण, फ़लौदी और मालाणी जागीर में दिये थे, जिनको उसके मरनेपर राठौड़ोंने छीन लिया, और कुछ हिस्सह मुल्कसे शिकारपुरके मालिक दाऊदखां अफ़ग़ानने दवालिया.

विक्रमी १७५८ भाद्रपद शुक्ल १३ [हि० १२१३ ता० ११ रबीउस्सानी = ई० १७०१ ता० १६ ऑगस्ट] को २८- रावल जशवन्तसिंह गद्दीपर बैठा; जिसके जगतसिंह, सूरतसिंह, ईश्वरीसिंह, सर्दारसिंह और तेजसिंह, पांच बेटे थे.

कनैल टॉड लिखते हैं, " कि वलीअह्द जगतसिंह, जिसके अक्षयसिंह, बुधसिंह और जोरावरसिंह, तीन बेटे थे, अपने बापकी मौजूदगीमें खुदकुशी करके मरगया. जशवन्तसिंहके मरने बाद २९- अक्षयसिंह गद्दीपर बैठा, बुधसिंह चेचककी बीमारीसे मरगया (१), परन्तु तेजसिंहने, जो जशवन्तसिंहका छोटा भाई था, जब्रन

(१) "भाटीनामह" में लिखा है, कि जगतसिंहका बड़ा बेटा बुद्धसिंह और छोटा अक्षयसिंह था, तेजसिंहने बुद्धसिंहको, जो विक्रमी १७६४ वैशाख कृष्ण १२ [हि० १११९ ता० २५ मुहर्रम = ई० १७०७ ता० २९ एप्रिल] को गद्दीपर बैठा था, ज़हर देकर मारडाला, और विक्रमी १७७८ वैशाख शुक्ल १ [हि० ११३३ ता० २९ जमादियुस्सानी = ई० १७२१ ता० २६ एप्रिल]

राज छीन लिया, तब अक्षयसिंह अपनी जान बचानेके लिये दिल्ली चला गया.

रावल जशवन्तसिंहका एक दूसरा भाई हरिसिंह, जो दिल्ली मकामपर बादशाही तावेदारी में था, तेजसिंहका जयसलमेरपर जब्रनू काबिज होजाना सुनकर जयसलमेरकी तरफ आया, और उसने तेजसिंहसे मुकाबलह किया. इस लड़ाईमें तेजसिंह बहुत ज़रूमी हुआ, और उन्हीं ज़रूमोंसे कुछ दिनों बाद वह मरगया. उसके बाद उसका बेटा सवाईसिंह गद्दीपर बैठा. यह नाबालिग था, जिससे अक्षयसिंहने भाटियोंको मिलाकर किलेपर हमलह करदिया, और सवाईसिंहको निकालकर दोबारह आप अपने हकपर काबिज होगया.

अक्षयसिंहने बहुत अरसेतक राज्य किया. इसके वक्तमें दाऊदखांके बेटे बहावलखाने देवरावल और खंदालका कुल इलाकह फतह करके बहावलपुरमें मिला- लिया. अक्षयसिंहके मूलराज, कुशालसिंह, और पद्मसिंह तीन बेटे हुए.

३०- रावल मूलराज दूसरा, विक्रमी १८१९ कार्तिक कृष्ण ५(१) [हि० ११७६ ता० १९ रबीउल अब्बल = ई० १७६२ ता० ८ ऑक्टोबर] को अपने बापके बाद गद्दीपर बैठा; इसके तीन बेटे रायसिंह, लालसिंह, और जैतसिंह हुए. मूलराजने महता स्वरूपसिंहको अपना प्रधान मुकर्रर किया था. इस प्रधानकी एक तवाइफसे आशनाई थी, और उसको सर्दारसिंह नामी एक राजपूत चाहता था, जिसने रायसिंहके साम्हने प्रधानकी शिकायत की. मुल्की आमदनी कम होजानेके सबब वलीअहदकी उक्त प्रधानपर नाराज़गी तो पहिलेसे ही थी, इस वक्त सर्दारसिंहके बहकानेसे उसने जियादह गुस्सहमें आकर स्वरूप- सिंहको मारडाला, और सर्दार व जागीरदारोंके कहनेसे मज्वूरन अपने बापको भी बेदखल करके हुक्मरानी करने लगा, परन्तु उसने गद्दीपर बैठने व अपने पिताको मारडालने से पर्हेज किया. इसके तीन महीने बाद अर्जुनसिंह, मेघसिंह और ज़ोरावरसिंह वगै- रह सर्दारोंने मूलराजको कैदसे छुड़ाकर पीछा मालिक बनाया, और महता स्वरूपसिंहके बेटे सालिमसिंहको, जिसकी उम्र ग्यारह वर्षकी थी, प्रधानेका काम दिया. रायसिंह अपने बाप के हुक्मसे जिलावतन होकर जोधपुर चला गया, और वहांसे वापस आनेपर एक किलेमें कैद

को आप मालिक बन बैठा. तेजसिंह एक वर्ष बाद हरिसिंहके साथ मुकाबलहमें ज़रूमी होकर मरगया, और उसका बेटा सवाईसिंह विक्रमी १७७९ [हि० ११३४ = ई० १७२२] में रावल कह- लाया, जिसको निकालकर अक्षयसिंहने जयसलमेरपर विक्रमी १७८० श्रावण शुक्र १४ [हि० ११३५ ता० १२ जिल्काद = ई० १७२३ ता० १५ ऑगस्ट] को कबजह करलिया.

(१) कर्नेल टॉड विक्रमी १८१८ (ई० १७६२) में मूलराजका गद्दी नशीन होना

लिखते हैं.

रक्खा जाकर कुछ दिनों बाद मरवाडाला गया, और उसके दो बेटे अभयसिंह व धौंकलसिंह भी इसीतरह ज़हरसे मारे गये.

रावल मूलराजका तीसरा बेटा जैतसिंह था, जिसका बेटा महासिंह हुआ, और महासिंहके सात बेटे तेजसिंह, देवीसिंह, फ़तहसिंह, गजसिंह, जोधसिंह, केसरीसिंह और छत्रसिंह हुए, जिनमेंसे गजसिंह (१) अपने पड़दादाके बाद गद्दीपर बैठा. रावल मूलराजके वक्तमें बहुतसा इलाक़ह रियासत जयसलमेरसे निकल गया था. इसी रावलके साथ विक्रमी १८७५ [हि० १२३३ = ई० १८१८] में पहिला अहदनामह गवर्मेण्ट अंग्रेज़ीके साथ हुआ. मूलराजके वक्तमें रियासतके कारोबारपर प्रधान महता स्वरूपसिंह व उसके मारेजाने बाद उसका बेटा सालिमसिंह ऐसे बाइखितयार अफसर रहे, कि जिनकी रंजिशके सबब रावल मूलराजकी औलादमें से कई मारेजाने व बाज़ जिलावतन किये जाने वगैरह के अलावह सिर्फ़ गजसिंह ही बाकी रहा था.

विक्रमी १८७६ फाल्गुन शुक्ल ५ [हि० १२३५ ता० ३ जमादियुलअव्वल = ई० १८२० ता० १८ फेब्रुअरी] को ३१- रावल गजसिंह गद्दी नशीन हुए, इनकी शादी उदयपुरके महाराणा भीमसिंहकी बेटीके साथ विक्रमी १८७७ आषाढ कृष्ण ८ [हि० १२३५ ता० २१ रमज़ान = ई० १८२० ता० ३ जुलाई] को हुई थी - (देखो पृष्ठ १७४६).

इस मौक़ेपर वीकानेर व जयसलमेरके सहदी भूगडोंमें किसी क़द्र कमी हुई. विक्रमी १८८० [हि० १३३९ = ई० १८२४] में प्रधान महता सालिमसिंह मरगया, जिसका दवाव महारावलके ऊपर बहुत कुछ था. इसके बाद महारावलने उसके दो बेटोंको किसी जुर्मपर कैद करके सालिमसिंहके फ़िर्केका ज़ोर बिल्कुल तोड़ डाला.

सिन्धकी लड़ाईके वक्त उक्त महारावलने गवर्मेण्ट अंग्रेज़ीको बारबर्दारी वगैरह मौजूद करनेमें बहुत कुछ मदद दी थी, जिसके एवज़, सिन्धका इलाक़ह फ़तह होने पर, विक्रमी १९०० [हि० १२६० = ई० १८४४] में नव्वाब अली मुरादखांसे

(१) कर्नेल टॉड लिखते हैं, कि मूलराजके तीन बेटे थे:-


१- रायसिंह, जो अपने दो बेटों धौंकलसिंह व अभयसिंह समेत ज़हरसे मारा गया.

२- जैतसिंह, जो काणा था, और उसका बेटा महासिंह अन्धा होगया.


३- मानसिंह, जो घोड़ेसे गिरकर मरगया, और उसके चार बेटों फ़तहसिंह, गजसिंह, देवीसिंह और तेजसिंहमेंसे गजसिंह राज्यका मालिक बना और बाकी जिलावतन किये गये.

शाहगढ़ वगैरह पगने, जो पहिले वक्तमें इस रियासतके तहतसे निकल गये थे, वापस दिलाये गये. इनके कोई बेटा नहीं था, इसलिये विक्रमी १९०२ आषाढ़ शुक्ल ५ [हि० १२६१ ता० ३ रजव = ई० १८४५ ता० ९ जुलाई] को रावल गजसिंहके इन्तिकाल करने बाद महाराणी राणावतने उनके छोटे भाई केसरीसिंहके बेटे रणजीतसिंहको जानशीन मुकर्रर किया.

विक्रमी आषाढ़ शुक्ल ६ [हि० ता० ४ रजव = ई० ता० १० जुलाई] को ३२- रणजीतसिंह जयसलमेरके रावल कहलाये. इनको विक्रमी १९१९ [हि० १२७९ = ई० १८६२] में राजपूतानहके दूसरे रईसोंके शामिल सर्कार अंग्रेजीसे गोद लेनेकी सनद मिली. यह भी विक्रमी १९२१ ज्येष्ठ शुक्ल ११ [हि० १२८१ ता० ११ सुहरम = ई० १८६४ ता० १६ जून] को लावलद इन्तिकाल करगये, तब इनके छोटे भाई ३३- वैरीशालको जानशीन करनेकी तज्वीज हुई, और यह रावल माने गये. उस वक्त वैरीशालकी उम्र १५ वर्षकी थी, इन्होंने रियासतमें बड़ इन्तिजामी व भगड़ोंके सबब गद्दीपर बैठनेसे इन्कार किया, परन्तु दो वर्ष बाद कर्नेल ईडन (Edon.) एजेण्ट गवर्नर जेनरलने राज्यका प्रबन्ध करके इनका रंज व अन्देशह दूर करदिया. उक्त रावलका विवाह विक्रमी १९३० [हि० १२९० = ई० १८७३] में डूंगरपुरके महारावल उदयसिंहकी बेटाके साथ हुआ, जिसमें दोनों तरफसे शादीके खर्च व जहेज वगैरहमें बहुत रुपया खर्च हुआ था. यह महारावल, जो हालमें विद्यमान हैं, स्वभावके अच्छे और सादा चलन सदार हैं.



जयसलमेरका अहदनामह.



अहदनामह नम्बर ५०.

एचिसन साहिबकी अहदनामोंकी किताब जिल्द ३, पृष्ठ १२८-१२९.

अहदनामह दर्मियान ऑनरेब्ल अंग्रेजी ईस्ट इण्डिया कम्पनी और जयसलमेरके राजा महारावल मूलराज बहादुरके, जो ऑनरेब्ल कम्पनीकी तरफसे हिज एक्सलेन्सी दि मोस्ट नोब्ल मार्किंस ऑफ हेस्टिंगज़, के० जी०, गवर्नर जेनरल बहादुर

के दिये हुए पूरे इस्तियारातके मुवाफिक सर चार्ल्स थिओ फिलस मेट्कोफकी मारिफत, और महाराजा धिराज महारावल मूलराज बहादुरकी तरफसे उनके दिये हुए इस्ति-यारातके अनुसार मिश्र मोतीराम और ठाकुर दौलतसिंहकी मारिफत करार पाया.

पहिली शर्त- दोस्ती और एकता हमेशहके लिये ऑनरेब्ल कम्पनी और जयसलमेरके महारावल मूलराज बहादुर और उसके वारिसों व जानशीनोंके दरमियान काइम रहेगी.

दूसरी शर्त- महारावल मूलराजके वारिस जयसलमेरकी गद्दीपर रहेंगे.

तीसरी शर्त- किसी सरूत हमलहकी सूरतमें, कि जिससे रियासत जयसलमेर के ग़रत होनेका अन्देशह हो, या ऐसे बड़े अन्देशोंका खतरह हो, जो उक्त रियासतकी निस्वत पैदा होंगे, गवर्मेण्ट अंग्रेजी रियासतकी हिफ़ाज़तके लिये कोशिश करेगी, उस सूरतमें, कि जयसलमेरके राजाकी निस्वत तक्रारका कोई सबब पैदा न होगा.

चौथी शर्त- महारावल और उसके वारिस व जानशीन हमेशह गवर्मेण्ट अंग्रेजीके मातहत रियासत और उसकी बुजुर्गीका इक्रार करेंगे.

पांचवीं शर्त- यह अह्दनामह पांच शर्तोंका करार पाकर उसपर मिस्टर चार्ल्स थिओ फिलस मेट्कोफ साहिब और मिश्र मोतीराम व ठाकुर दौलतसिंहकी मुहर और दस्तख़त हुए; और इस अह्दनामहकी तारीखसे छः हफ़तेके अन्दर हिज़ एक्सिलेन्सी दि मोस्ट नोब्ल गवर्नर जेनरल बहादुर और महाराजाधिराज महारावल मूलराज बहादुरके दस्तख़तोंसे तस्दीक की हुई नक़्क़ एक दूसरेको दीजावेगी.

मक़ाम दिल्ली ता० १२ डिसेम्बर सन् १८१८ ईसवी.

दस्तख़त- सी० टी० मेट्कोफ.

मुहर.

दस्तख़त- हेस्टिंगज़.

गवर्नर
जेनरलकीछोटी
मुहर.

कम्पनी
कीमुहर.

दस्तख़त- जी० डाउड्स वेल.

दस्तख़त- जे० स्टुअर्ट.

दस्तख़त- सी० एम० रिकेटस्.

फोर्ट विलिअम मक़ामपर तारीख़ २ जैनुअरी सन् १८१९ .ईसवीको कौन्सिल
के इज्लासमें गवर्नर जेनरलने तस्दीक़ किया.

दस्तख़त- जे० ऐडम,
चीफ़ सेक्रेटरी गवर्मेण्ट.

ऊपर लिखे हुए अह्दनामहके सिवा मुजिमोंके लेन देनकी बावत एक अह्दनामह
होकर गोद लेनेकी सनद भी राजपूतानहकी दूसरी रियासतोंके मुवाफ़िक़ इस रियासतको
मिली है.

शेषसंग्रह.

१- उदयपुरमें रामप्यारीकी वाड़ीके मन्दिरकी प्रशस्ति.

श्री गणेशायनम : अथभाषाप्रशस्तिअर्थलिप्यते. श्रीगणपतपाय प्रणाम करि
संस्कृतको लेसार ॥ भाषाप्रसस्ति अथ लिखे सबहीको अधिकार ॥ १ ॥ अथ भाषा ॥
सिद्धश्रीमहाराजाधिराजमहिमहेंद्रसूर्यवंशावतंस श्रीजगतसिंहजी सुत श्रीदीवाणजी
श्रीअरिसिंहजी सुत श्री ६ श्रीसकलगुणिजनप्रतिपालकअनेकगुणनिधानक्षत्रीधर्म-
धुरंधरश्रीएकलिंगेश्व (र) चरणशरणशत्रुमातंग पंचानन अर्थिजनकल्पद्रुम ॥
श्रीकृष्णैकभक्तिपरायणदाक्षणात्यमालजित्प्रभृतिसुभट मौलिमाणिक्यनीराजितपद-
पद्म । शास्त्रशास्त्रविचारचतुर । महाराजाधिराजमहाराणाजी श्री १०८ श्री
भीमसिंहजी विजयराज्ये ॥ संवत् १८४७ वर्षे जेष्ठमासे शुक्ल पक्षे १३ तिथौ चन्द्र


वासरे श्री उदयपुरनगरे मारुपुरामध्ये श्रीरामनारायणजीरो देवरो, बावडी, बाडी, श्री दरबार लायक महल, धर्मशाला, और पण जायगा बडारण रामप्यारी करापितं श्री दिवाणजी श्रीश्रीभीमसिंहजीरी माता श्री ५ श्री सरदारकुंवर-बाई झालांरी बेटी धर्ममूरत श्री बाईजीराजरी कृपा सुनजररी पात्र पूर्वोक्तभक्ति-संबंधिश्रीदिवाणजीरा अंतःपुरमें बडो अधिकार लीया जात गूजर रामाजीरी बेटी बाई रुक्मारी कुक्षे जाई धर्ममूर्त दयासागर वाचाअविचल बाई रामप्यारीरे धर्मपुत्र मयारामजी सुत रतनजी जात आदगोड़ श्रीदरबारमें पड्याररो अधि-कार पाया धर्मपुत्री चंदणा जात सनावड जमाई किसनजी बाई रामप्यारी श्री-रामनारायणजीरो देवरारो सारी जायगारो महोछव कीदो जदी श्रीदिवाणजी, श्रीबाईजीराज, तथा राण्या तथा नानीवायां, रावला मायली डावड्यां, चाकर बावर, तथा भींडररो ठाकुर, देलवाडारो ठाकुर, कानोडरो ठाकुर, सहा शिवदास जी, सतीदासजी, जेचंदजी गांधी, अग्रजी, मोजीरामजीमेहता, किसोर-दासजी, कोटारो साथ, सेररा चोवट्या, सारा भलामनष, आदमी, लुगायां सुदी आवे दिन १२ सुदी रह्या, बडो उच्छव हुवो, ब्राह्मण अनेक जीम्यां, यथायोग्य दक्षणा दीधी, श्री दरबार सारो साथ घणा पुशी हुवा, श्री दरबाररी, श्री बाईजीराजरी घणी नछरावल कीधी, श्री दिवाणजी रामनारायणजीरे भेट गाम वरनोकडो प्रगणे कुभलमेररे चढायो, बाडी १ रसवागरी श्री बाईजीराज चढाई, राण्यां आप आपरा गाम माहे धरती चढाई, श्री रामनारायणजीरे पूजा सारू, श्री रामानुजसंप्रदाय श्री महंत ध्यानदासजी सुत पूर्णदासजी सुत मोती-दासजी अणाहे मेल्या, भटमेवाडा शिवलालहे कथा वांचवा मेल्या, चत्रभुज गजधरहे कडा दीधा, गोड़ ब्राह्मण चतुर्भुजहे अणी काम बावत गहणो सिर-पाव देवाणो, और साराहें राजी कीधा, बाईहे राजी वेने श्री जी तथा बाई-जीराज हुकम कीधो सो ओजूं कोहो सो करां, जदी बाई रामप्यारी घोडा, सरपाव, गेणो साराहे जूदा जूदा नजर करे हाथ जोडे अरज कीदी, सो मोने मोटी कीधी, इवे अरज या हे सो, कसारांरी ओलमें मारा घर हे, सो सारो साथ ले श्री प्रथीनाथ सनाथ केजे. आ अरज सुणे श्री दिवाणजी, श्री बाईजीराज साराहें लेने उठे पधार्या, आखो दिन रह्या नजराणो फेर अठारो लेने पाछा महलां पधार्या. इसी तरह अठे उच्छव घणो हुवो, सारो साथ तालेवर सूं ले गरीब सुदि जीमण वीचे, कायदा वीचे, घणा कुशी हुवेने घरे सदाया, जायगांरी चाकरी में महतो फतो, वेटो दोलो, गूजर सवो, जाट नंगो, छडीदार जेकिसन.

श्लोक.

ॐ ॥ श्रीगुरुं गणनाथं च नत्वा वागीश्वरीं परां ॥ कुर्वे प्रशस्तिं रांप्यार्या रम्यां
 विबुधरंजिनीं ॥ १ ॥ श्रीसूर्यवंशे जगति प्रसिद्धोभून्महीपतिः ॥ जगत्सिंह
 इति ख्यातस्तद्वंश्यान्वर्णये धुना ॥ २ ॥ आसीजगत्सिंहसुतो रिसिंहः क्षात्रैक-
 सिंहोरिमृगत्रजेषु ॥ तस्यात्मजौ द्वौ हि हमीरसिंहो यो भीमसिंहः स जगत्प्रशास्ति ॥ ३ ॥
 कृष्णोक्तानी सुकृतार्थदानी शास्त्राभिमानी सदसि प्रमाणी ॥ कल्पद्रुपाणि
 र्न्वनीतवाणि भीमो धराजानिरमानिविश्वैः ॥ ४ ॥ जित्वा दिल्लीश्वराद्यान्
 धरणिधरवरान् गृह्यतेभ्यः करार्थानुदामश्रीर्जगत्यां प्रथितगुणयशा मालजिद्वा-
 क्षिणात्यः ॥ यस्यांघ्रिद्वंद्वमृगोपमिति मुदवहत्स्वात्मनैव प्रसिद्धां स श्रीभीमो
 नरेन्द्रः स्पृहयतु जगदानंदसंवर्द्धनाय ॥ ५ ॥ दृष्ट्वा यत्खड्गनागं समरभुविचल
 त्कालकल्पं करालं द्विप्राणव्रातपानव्रतजनितधृतिं लेलिहानं समंतात् ॥ कीर्तिस्त्रै-
 णस्वभावाच्चकिततरमनाः प्राद्रवत् सर्वभूमौ देशांस्तेभ्यो नरेशानथ सुरविपयान्
 दिग्विशेषानशेषान् ॥ ६ ॥ मातास्ति तस्य नृपते र्जनदुःखहर्त्री नारायणां
 घ्रिजनितात्ममनोभिलापा ॥ सद्धार पूर्वकुवरीति पतिव्रतासञ्ज्भालान्वयाचलभवा
 भवशेखरेव ॥ ७ ॥ सद्धर्मैकपरंपराखिलजनश्रेयस्करीसत्करा भास्वद्वंशधरारिसिंह
 नृपतेरग्रेसरा योपितां ॥ दीनानाथदयाशयार्द्रहृदया या पुत्रपौत्रान्विता मान्या सर्व-
 पतिव्रतासु सुतरां श्रीवार्डराजाख्यया ॥ ८ ॥ पात्रकृपाया नृपमातुरस्या वडा-
 रणेति प्रथितप्रभावा ॥ परोपकारैकमना हि रामप्यारीति विख्यातयशा जगत्यां ॥ ९ ॥
 नरेश्वरांतःपुरमाननीया रामस्य पुत्री किल गुज्जरस्य ॥ रुक्मांगजा गोऽतिथिदेवसेवा-
 श्रद्धावती शुद्धिमती चरित्रैः ॥ १० ॥ यस्या मयारामइति प्रसिद्धः पुत्रश्च पुत्री चदणा-
 ख्ययेति ॥ धर्मार्थमेतौ द्विजजौ गृहीतावुभौ सगौडश्च सनावडीसा ॥ ११ ॥ पुरोगवत्वे
 धिकृतोनृपेण वालोपि सुज्ञैककुलानुसारी ॥ आस्ते पड्यारेत्युपनामधेयः सद्भिः
 सुगेयः सदसोमुखे यः ॥ १२ ॥ लब्ध्वा प्रसादमतुलं नृपतेः समातुः सैषाशुमो-
 दयपुरे रचयांचकार ॥ प्रासादमुन्नतशिखं रुचिरां च वर्षीं पांथाश्रमान् नृपविनोद-
 गृहाणि वार्टीं ॥ १३ ॥ यत्प्रासादसमाश्रितोहि भगवान् श्रीरामनारायणो लोकानां
 शुभमिच्छुरुन्नतयशा भूपार्चितांघ्रिद्वयः ॥ भास्वद्वंशभुवनृपस्य ससुतस्येष्टंविधा-
 तुं पुरे सनूस्वीयायुधमूर्तिभूषणधरोवासीजगच्छेयसे ॥ १४ ॥ यः सोपा-
 नपरंपरासु नगराद्यांतः पयोहेतवे कामिन्यः कनकश्रियाप्रतिफलत्कांत्यारतीयंति च ॥
 या दृष्ट्वा रविरप्सरोगणमकार्पान्मानसेमानसे वासंजातमनोभवाः स्मितलस-

द्वक्का मनोहारिणी ॥ १५ ॥ त्रिवेदानां वर्गे द्वितियरहिते संवदुदये पुरे मासे ज्येष्ठे
 विशदसमये मन्मथतिथौ ॥ इयंरामप्यारी सकलनरनारीसुखकरी चकार प्रासाद-
 प्रभृति सुकृतं पूर्णविभवं ॥ १६ ॥ यदुच्छवे भूमिपतिः सदारः स्फुरत्प्रतापः पुर
 वासि लोकैः ॥ सहैत्य सामंतयुतो निवासमचीकरद्वादशवासराणि ॥ १७ ॥
 स्नुषोल्लसच्छ्रीर्हि नृपस्य माता समन्विता सेवनकारिणीभिः ॥ मुमोद दृष्टोच्छव-
 भारमस्या नस्यादयं कुत्रचिदित्यभाणि ॥ १८ ॥ चंद्रानोपेभगिन्यौ द्वे उदेदोलत-
 संज्ञके ॥ आत्मजे वरनाथस्य समेत्यापुरिमासुदं ॥ १९ ॥ तथा नृपकलत्राणि
 पवित्राणि शुभैर्व्रतैः ॥ विचित्राणि विभूषाद्यैर्मित्राणि पतिपादयोः ॥ २० ॥
 मद्रराजविजयाधिपसूनुर्भागिनेयपदभूषणरत्नं ॥ जाल्मसिंह इति यः सकलत्रो-
 त्राजगाम निजभृत्यसमेतः ॥ २१ ॥ भीडरेशश्च देल्वाडाधिपः कानोडनायकः ॥
 इत्यादयो हि सामंता मानिताः समुदोऽ भवन् ॥ २२ ॥ शिवदासाभिधोऽ मात्यो
 आतृभिः सह संगतः ॥ परिवारयुतो धीरो मुमोदोच्छवदर्शनात् ॥ २३ ॥ बांध-
 वाश्च सुहृदः कुटुंबिनो गोत्रजा नगरवासिनो जनाः ॥ आप्रधान मधमावधि व्यधु-
 र्मीनमाननसमं समंततः ॥ २४ ॥ इत्थं नानाभावतृप्ताश्च लोकाः कोटादेशादाग-
 ता ये विशोकाः ॥ ऊचुः सम्यक् सम्यगेवं मुखेभ्यः सार्द्धं वाद्यैर्भैरिभिः काहलाभिः
 ॥ २५ ॥ औदुंबरो निर्भयरामनामा ज्योतिर्विदग्नेसरजातधामा ॥ तेनैवदत्ते
 सुशुभे मुहूर्ते चक्रुर्द्विजाः सर्वमिदं यथोक्तं ॥ २६ ॥ येषामध्ययनं सम्यक् शास्त्रे श्रु-
 तिचतुष्टये ॥ वृतानामत्र यद्वत्ता दक्षिणाभूच्च तुष्टये ॥ २७ ॥ श्रीचंद्रसूनुर्भगडोः पि-
 ता यश्चतुर्भुजो गौडकुलप्रसूतिः ॥ वस्त्रैर्विभूषादिभिरन्वमानि प्रासादकार्याधि-
 कृतौ नृपेण ॥ २८ ॥ राज्ञश्च राजमातुश्च राजपत्नीगणस्य च ॥ तथान्येषां च लोकानां
 सन्मानेऽ स्यैवदक्षता ॥ २९ ॥ अश्वैर्विभूषणभरैर्वसनैश्च भोज्यैः संमानितो
 नरपतिः पृतिगृह्यतोषं ॥ सर्वैः प्रसूप्रभृतिभिः सहितोर्थितः सन्नस्यागृहं प्रतिय-
 यौ विनयान्वितायाः ॥ ३० ॥ अंतः पुराधिकृतिना मोजीरामेण धीमता ॥
 रक्षितानि कलत्राणि ननद्रा सार्द्धमन्वयुः ॥ ३१ ॥ यामद्वयं मात्रयुतो वसित्वा
 विख्यापयन् प्यार्युपरिप्रसादं ॥ महोच्छवं शौल्विकहृदमार्गं प्रदर्श्यलोकान् स्वगृहं
 नृपोऽ गात् ॥ ३२ ॥ विविधभोजनतृप्तमनोरथैरनुचरैरथ पत्तनवासिभिः ॥ गदि-
 तमित्थमपूर्वमलोकि यन्न कथितं चिरजन्मिभिरप्यदः ॥ ३३ ॥ अमात्यौ श्रीनृपेन्द्रस्य
 रामप्यार्यासुसत्कृतौ ॥ अग्रश्च किशोरश्च प्रसन्नौ जग्मतुर्गृहे ॥ ३४ ॥ यः पूर्णादासस्य
 पिता जितात्मा पौत्रो यदीयः किल मुक्तिदासः ॥ चकार रामानुजसंप्रदायी सध्यानदासो
 भगवत्सपर्या ॥ ३५ ॥ वर्णोकडो नाम जगत्प्रसिद्धो ग्रामोऽ स्ति यः कुंभलमेरुपार्श्वे

श्रीरामनारायणसेवनार्थं भूपेन रामार्पणतोर्पितः सः ॥ ३६ ॥ नृपस्य मात्रा
 भगवत्सपर्याहेतोर्मुदा दायि कुशोदकेन ॥ आचंद्रसूर्य रसवाटिका सा पुराद्वहिः
 प्राग्दिशियार्द्धकोशे ॥ ३७ ॥ भूमिप्रदेशैर्निजनामचिन्हैः स्वग्रामसंस्थैर्नृपद्वारवर्गः ॥
 पृथक् पृथक् पूजन माचकार श्रीरामनारायणपादपद्मे ॥ ३८ ॥ रामप्यार्याः
 प्रियः प्राणो मयारामतनूद्भवः रत्नाख्यः सेवनं चक्रे प्रभोरत्नादिभिः परं ॥ ३९ ॥
 शिवा च शंभुः पितरौ प्रशस्तिकृद्द्वैघनाथो भ्रजएकतः परः ॥ भट्टमेदजातिर्विदुषां-
 विभूषणं पुराणवक्ता शिवलाल आससः ॥ ४० ॥ कृत्वा प्रतिष्ठां हरिमंदिरादीन्नकेवलं
 भूषयतिस्मसेयं ॥ कुलं च शीलं च वपुर्वयश्च स्वं स्वामिधर्मं पितरौ यशश्च ॥ ४१ ॥ प्रासा-
 दाद्युत्पादकर्मण्यदीनारामप्यार्याश्चित्तवित्तप्रवीणाः ॥ आसन्सेवाधर्मकार्ये सहायाः
 सव्जीनगुजीजेकिसन्कालुरायाः ॥ ४२ ॥ प्रशस्ति लिखिताटकैर्गंगारामतनूभुवा ॥
 शिवरामेणभंगोरगोत्रिणा शिल्पशालिना ॥ ४३ ॥ श्रीविश्वकर्मादित्तशिल्पसिंधौ
 चंद्रायमानेन चतुर्भुजेन ॥ भंगोरगोत्राभरणेन वेणीरामात्मजेनाकृत सूत्रिताऽत्र ॥ ४४ ॥
 जलजारिलसत्स्थितीरयान् महदानंदनिधीरसांबुधेः ॥ प्रभुताचरणौवचोभरः
 कुरुतांनः सुखसंपदो हरेः ॥ ४५ ॥ संवत् १८४७ वर्षे ज्येष्ठमासे शुक्लपक्षे १३
 तिथौ उदयपुरमध्ये वडारण रामप्यारी बाईकारित श्री रामनारायण प्रासाद वापी
 वाटी राजगृह प्रशस्तिः समाप्ता ॥ श्रीरस्तु.



२- उदयपुरके पीछोली मुहल्लेमें लक्ष्मीनारायणके मन्दिरके आगेकी सुरे.

सिद्धश्रीगणेशजीप्रसादात् महाराजाधिराज महाराज श्री भीमसिंहजी
 आदेसात् प्रत दुवे पंचोली प्रताव भट देवेसर गांम पीछोली श्री राजा रामचंद्रजी
 रो दत्त तींरा ब्राह्मण गरास्या चंद्राप्रण गोतरा हांस ४ नागदा कस्य अप्रंच ॥
 गाम पीछोलीमें पीछोलो तलाव तीमहे संवत् १८४० मे तथा संवत् १८४१ मे
 तलावरी रूण निकली तीवखत केणवत उपजी जदी श्री दरवारथी यो थाप ठेरावे
 सीम काढे दीदी, अठा पछे आयो आपणी हदमें चाल्यां जासी, या रीत कर सुरे
 रोपावी जणीमें सुरे १ पीछोल्यांरा तलावमें रूणमें रुपी, ने सुरे १ भोम पीछोली
 रे चोरे ठाकुर श्री लछ्मीनारायणजीरे देवरे रोपावी, महता मालदासरे दुवे रुपी,
 पीछोलीरा बामणारी हांस ४ रा कपालभागरी अणी परमाणे सीम काढे सुरे रुपाई,
 १ अरसीविलासरी रासणा मंगरी थी लंकाउ बाजु डोरी १ अलोइरा खांचा सुदी,
 जगनीवास री नीम थी उगमणी बाजु कुंवर सरदारसिंहजी रा महलां रा गरभ सुदी
 गरास्या, आथमणी बाजु सीसारमारी पाली सुदी, धराउ बाजु डोरी १॥ डोट

रासणा मगरी थी ठेट ओटा सुदी षालस्या हे, ए सुरे दोई संवत् १८४१ महा विद् ५५ अमावस सोमे मकर संक्रांतरी पर्वणी मांहे श्री रामाअर्पण करे उदक आघाट करे सुरे दोय २ रोपावी, अबे अणी सुरेने अठा पाछे थुवादार, कामदार व ता - - कोई उथापे तथा चोलण करेगा तिहे श्री एकलिंगजी दोषसी, श्री हजूर रो हुकम हे हांस ४ चार री १ हांस एक जोसी पोषररी समसतरी, हांस १ जोसी नीलकंठरी समसत, हांस १ जोसी जीवारी समसत, हांस १ जोसी दयाराम री समसतांरी, संवत् १८४१ वर्षे महा विद् ५५ अमावस सोमे. नामा १ प्रत वीगा २ पासी, अणी सुरेमें नामा ४ हे, सो बावत वीघा ८ आठ पासी; सुरे १ दसगत प(चो)ली परताप कालावतरा हाथरा हे, सुरे १ अणी परमाणे तलावमै वामणीने रावली सीम वचै रासणा मगरीरा गरब परमाणे रोपी हे, जो काम पडे तो ऊठे सुजा - - - -

३- ऊपर लिखीहुई सुरेके पास वाली दूसरी सुरे.

॥ श्री रामजी ॥

स्वस्ति श्री श्री रामचंद्रजी सीतामातारो दत्त गाम पीछोली माहे हांस ४ रा लिषतां जोसी पोषर, जोसी नीलकंठ, जीवा, दयाराम, इणारी हांसरा समसत गरास्यां गाम मांहे धरती पेत चांब १ ओठे वेचणी नही, सरीपे साटे गेणाड मेलणी सो लोपे, तो श्री दरबारको पुनी, रुप्या ५०१ रो पंचारो पुनी, अमावस मास १२ री तथा ग्यारस मास ४ री पाल्यां जासी, बलदरे खांधे जुडा दवे नहीं, गाम जुमाण्या सुदी इतरी बात लोपे जणी हे श्री रामचंद्रजी, श्री एकलींगजी, श्री अचलेश्वरजी, श्री लछमीनारायणजी पोंचसी. मतो जोसी पोषर, मतो जोसी नीलकंठ, मतो जोसी जीवा, मतो जोसी दयाराम, हांस ४ रा समसत गरास्या उपलो लप्यो सही, संवत् १८४८ रा असाड शुदी ११ शनौ, तथा गामरा नामरो पैसो आवे सो समसत पंचारो पग दोड करे जणी हे पंच भरा (यो) दोष नही ॥

४- उदयपुरसे १४ मील उत्तरको श्रीएकलिंगजीकी पुरीमें सुरे.

श्रीगणेशप्रसादातु.

श्रीएकलिङ्गप्रसादातु.

स्वस्ति श्रीउदयपुरसुथाने महाराजाधिराज महाराणा श्री भीमसिंहजी आदेशातु गाम(नाग)दारा गरास्या समसत प्यावत, कचरावत, जगावत, बलावत, लषावत, भोजावत, पालडा रुणा कस्य, अप्र गाम मगरारी धरती काछा गोरमा

गोठलाई - - - चागल तथा वागेलारी रूप, करावाडी, रायणांवाडी, पालसारी कोदमालरो वीडो चढायो सो चोलण करो मती, बामणी धरती टाल दुजा पालसारी धरती काछोरा देलवाडे तथा रामे पटेल जाने भोग हासल देता था जणी प्रमाणे परो देवांगा, सो उत्थपेगा नही, आ धरती उथापेगा जीने श्री एकलिंगजी पूगेगा, आ धरती संवत् १८४८ वेशाक विदी १४ श्री एकलिंगजी चडाइ, सो लोपासी नही, तीरी सुरे रोपी प्रत दुवे कपडदार सहा सतीदास, भट जोतेसर सं० १८५० भादवा शुदी ९ सने.

—*—

५- मेवाड़ इलाकेमें मांडलगढके तालावकी पालपर गणेशपौलके बाहिरकी सुरे.


॥ सिध श्री गणेशजी प्रसादातु ॥ श्री एकलिंगजी प्रसादातु ॥ महाराजाधिराज महाराणाजी श्री ५ श्री भीमसिंहजी आदेसात, प्रत दुवे महता अगरा प्रगणे मांडलगढके हुवाल महता देवीचन्द हंसराज अपरंच ॥ मांडलगढका तलाव जालेसर जीमही जीव जनावर मारे सो दरवाररो तगसीरवार होसी, या सुरे लोपसी जीने श्री एकलिंगजी पूगसी, जनावर मारपासी, तो हिंदु तो गाय पासी, मुसलमान सूर पासी. श्लोका अपदत्तं परदत्तं जेपालंती वसुंधरा जेनरा सुरग जायंती जावचंद्र दिवाकरा १ अपदत्तं परदत्तं जेलोपंती० संवत् १८५२ श्रावण शुद १५ सुक्रवासरे श्री रस्तु तलावमायली धरती हाकवा पावे नही.

—*—

६- मांडलगढ किलेके ऊपरके दर्वाजहमें मंदिरके पास वाली सुरे.

सिध श्री दिवाणजी आदेसातु प्रत दुवे महता अगरा अपरंच मांडलगढ सराको दरवाजो श्री माताजी वीसहतीजीरो देवरो सथानक जूनो थो, सो गढ तथा तलेटीरा पंचा भेला होय अर दरवार आए अरज करी सो देवरो मातारो करावणो, जठा सवाय देवरा नवेसर करायर पंचतीरथी पांच मूरत पदरावणी, हर आगे माताजीरी पूजा पाजरू भेसा तथा दारुरी छाकरी पूजा छी, सो सारी माफ कर हर उजली पूजा ठहराई, सो उजली पूजा करणी, अठा पाछे आगे देवरे माता वीजासणजीरा देवरामें अठे जीव जंत्र मरवा पावे नही. या थाप ठहराय मूरत श्रीरामचंद्रजी, श्री महालपमीजीरी, श्री सदासोजीरी, श्रीगणेशजीरी, श्री हनुमानजीरी मूरत पदराई, हर सुरे रुपाई, सो या थाप जो उथापसी जणी हे श्री एकलिंगजी पूगसी. या पूजा श्री जीरा दुवा थी हीदुने ता हीदुरा

सम अपदत्तं परदत्तं जेपालंती वसुंधरा ते नरा सरग जायंती जबलग चंद्र दिवा-
करा अपदत्तं परदत्तं येलोपंती वसुंधरा ते नरा नरकं यांती यावत् चन्द्र दिवाकरा
संवत् १८५३ सषणक १२८ मतला.



७— उदयपुरसे १४ मील उत्तर तरफ एकलिंगजीकी पुरीमें
नन्दकेश्वरकी पावटीके पास सुरे.

॥ श्रीरामोजयति ॥

॥ श्री एकलिंगजी प्रसादातु ॥

॥ श्री गणेशजी प्रसादातु ॥

जो लोपे जीने श्रीजी पुगे

सही.


स्वस्तिश्रीमहाराजाधिराज महाराणाश्रीभीमसिंहजी आदेशातु, श्री जी हे गाम सरे
प्रगणे मगरारे वास लउवारो तथा भीलारो नीम सीमसुदी श्री हजूर रा दुसमनारे डीले
पेद हुइ तीरो अंगोल्यो कीदो संवत् १८५७ रा मगसर सुदी ७ रे दन, सो यो गाम भेट
कीदो बोलमां मांहे उदक आघाट श्री शिवार्पण करे चढायो, लागत विलगत सरव
सुदी सो कणी वातरी चोलण वेगा न्ही, चोलण करेगा जणीहे श्रीजी पोछेगा, अठा
पाछे अणी गामरी चोलण करेगा तथा लोपेगा जणीहे श्रीएकलिंगजी पोछेगा,
तथा गद्वेगाल हे, संवत् १८५८ रा वर्षे चेत वीद ५ भोमे ताबापत्र
भेट कीदो. स्वदत्तं परदत्तं वाये हरंति वसुंधरां षष्टिवर्ष सहस्राणि विष्टायां
जायते क्रमी १ परवानगी सहा किशोरदास वरदभाणदेपरा, पडियार मयाराम,
भट नागेसर या सुरे संवत् १८५९ रा वर्षे अशाढ शुदी १५ सोमे रोपी.



८— उदयपुरसे २ मीलके फासिलेपर गांव सीसारमामें
वैद्यनाथ महादेवके नन्दिरकी सुरे.

॥ श्री गणेशायनमः श्री एकलिंगजी श्री रामोजयति श्री वैद्यनाथजी महाराजा-
धिराज महाराणा श्री भीमसिंहजी आदेशातु दुअे श्री मुख प्रतदुवे मेता मालदास,
भट्ट देवेशर अप्रच ॥ गाम सीसारमो प्रगणे गिरवारे आघाट बाभणारे तीरा

भाग ४ च्यारां रा गोत ४ च्यार रा जुदा जुदा तीरा समसत गरास्या जात नागदा कस्य अप्रच ॥ गाम सीसारमो आगे राजा श्री रामचंद्रजी दत्त तींकरे, घणा वरपरी वात करे कठेक ठिकाणो रहे गयो हुवेगा, जठा पछे संवत् १८४० आसोज शुदी १४ गुरे रा दसवासरो करे तावापत्र करे देवाणो सो सावत, ने मारा वंशरो वेन थारा वंशरा थी थुवादार, कामदार, सकदार, वतागरावे चोलण करेगा नहीं, थारी सीम, मेरमुरजाद आगे राजा श्री रामचंद्रजीरा वारा थी चली आवे हे, सो सावत हे, जुनी मिटेगा न्ही, नवी वेगा न्ही. या सुरे भाद्रवा शुदी १५ सोमे चंद्र परवमे उदक आघाट करे रोपी श्रावण शुद ९ सोमे श्री जी ब्राह्मण भोजन करावेन सुरे रोपावारो हुवो दीधो, श्री जी वैजनाथजी दरशण करवा पदारचा जदी हुकम हुवो. गोत ४ च्यार तीरी विगत व्यास हुगो गोत्र गोतम, जोसी वजेराम गोत्र कपिल, जोसी चतरा गोत्र गोत कौस, मेता पेमा गोत वसिष्ठ, गोत ४ च्याररा ब्राह्मणा वे आसरी वचन दीधो जदी सुरे रोपवारो हुकम हुवो-संवत् १८४१ भाद्रवा शुदी १५ सोमे चंद्र ग्रहण मांहे रोपी श्री रस्तु स्ही.



९- ऊपर लिखी हुई सुरेके पास की दूसरी सुरे.

॥ श्री रामचंद्रजी प्रसादात् ॥

जो लोपे जीनेई पूगेगा स्ही.

स्वस्ति श्री महाराजाधिराज महाराणा श्री भीमसिंहजी आदेशातु प्रत दुवे सहा वीरभाण, भट अमरेसर अपरंच ॥ गाम सीसारामे प्रगणे गिरवारे ब्राह्मण ४ च्यार गोतरा जुदा जुदा वीठण गोत वसिष्ठ, मेता ठाकुरसी गोत कपिल, जोसी वालाउ गोतरा ब्राह्मण, व्यास नंदा गोत कउछ जोसीजी थारा गोतरा समसत ब्राह्मणा जात नागदा अप्रच फोज फांटारो दंगो आवे पडे जीशुं डरोगा न्ही नवाब जमसेदखां गाम सीसारमो सु - - दोसो आगे हुवो, सो गोहवाई वे अठा पाछेकी वफथीदा देणा वेगा न्ही, राजा श्री रामचंद्रजीरा दिया दत्त हे, सो आगला मारा वंशरा पालता आवा जणी प्रमाणे श्री जीरा वंशरो पाल्यां जासी, थारा वंशरा बरामणा थी कामदार, थुवादार, गरवारो सकदार, कोद दंगो ठंगो भूलेने करेगा जीने श्री जीरा राजा श्री रामचंद्रजी, श्री वैजनाथजी पूगसी; हुलकर सुदां देसी प्रदेसीरा असवार पालो, फोज, महला मालक वे सो ज्यो अणी गामरा बरमाणारी चोलण करेगा जणी है हिंदूने गाया मुसलमानने सूर मुरदारी सोगन है, यथी कोद करेगा जीने श्री जी पूगसी. अणी सुरे रोपावारो हुकम मोती पासवान संवत् १८७२ फागण वीदी १४ सोमेरे दिन शिव रात्री उजमी जदी

मोती पासवानरे घरे पदाच्या सो फागण वीद SS अमावस बुधरे दिन महावर
देपातजीरे घरे होकम दीधो वीराजा होकम दीधो.

१०— उदयपुरसे पश्चिम तरफ़ दो मीलके फ़ासिलेपर सीतारमा गांवके करीब
सीता माताकी प्रशस्ति.

श्रीगणेशायनमः ॥ को यज्ञाधिपतिः किपातिकरण ब्रह्माति किं पार्थिवो लोका-
न् काप्सरसश्च किं तु जगति काभिर्हरिः क्रीडते ॥ कः सारोस्ति रणे परं गुणकरं
मार्गं च किं किं तयो मत्प्रश्नोत्तरपूर्ववर्णनिचयः श्री भीमसिंहास्तु ते ॥ १ ॥ भीमसिं-
हस्य नृपतेः पुत्रः श्रैव धनुर्धरः ॥ युवा युवानसिंहस्तु संग्रामेत्रासयन् रिपून् ॥ २ ॥
श्रीमत्पुण्यपवित्रमूर्ति रनघो राज्ञां सपुज्यो महान् । द्वैताद्वैतविवेकशांतनिपुणः
कमैकनिष्ठः श्रुतिः ॥ ज्ञानं लेजनमंदिरैकधिपणा चित्तैकहीरः स्तुतः सीता-
ख्यानककेसरी विजयते मुद्रैकदर्शः कपिः ॥ ३ ॥ शीश्यामां संज्ञके ग्रामे
भूमिं दत्त्वा द्विजान् परान् ॥ सीताप्रासादमकरोन्मदास्यांजनिसुनुना ॥ ४ ॥ वापी-
मनोरमांपुण्यां मछनक्रांकगामिनी ॥ शरयुसहितां तन्यां तडागांतरभूमिकां ॥ ५ ॥
केतकीपुष्पपुन्नागभ्रमरांकितशोभितां ॥ तत्रस्थले वाटिकां च मार्गं सीमाविभागतः
॥ ६ ॥ क्षेपरासभकैर्मत्तै रासनैशोभितः स्थलः स्यषिभिः सांबजुष्टं च मीनके-
रिवापरं ॥ ७ ॥ तदूपरात्परध्वंशाद्भवकं सून्वकरथं कृत्वा गताजले वैदेहीमनसा
तन्यो वालिकी रचयन् सुतः ॥ ८ ॥ जनकस्याग्निहोत्रत्ये जानकीप्रभवाहलात्
सीमत् करगारांमे गताभूम्यां नृवाक्यत ॥ ९ ॥ अयोगोलकरेतसा दत्तरामे-
ण धीमता तत्रां तर्गतिमापन्ना सीता साक्षात् सती परा ॥ १० ॥ सीतात्रिवर्णी
सितश्यामरक्तां त्रिलोचनांचक्रगदाञ्जशंखां यद्गस्थितां ब्रह्ममहेद्रपूज्यां लभेत मु-
क्ति स्मृतिस्ववाला ॥ ११ ॥ रत्नैरलंकृताजनूहोः पुत्री भागीरथीत्पुनः पूर्वेषां
पावनकरी गंगा भूयात् शिवे शिवा ॥ १२ ॥ चारणी विकली गोत्रा गंगा नाम्नी
ति विश्रुता ॥ कर्णपुत्रं प्रसूता सा तस्य रंता च पत्निका ॥ १३ ॥ श्रीमत् हनू-
मानदास जिता प्रासादः श्रीमति सीतायां कृतचारणी गंगा तस्य पुत्रपत्नी रता
नाम्नी परिरहिता तथा च प्रसादार्थं द्रव्यं व्यापारितं तत्र जीर्णं प्रासादं भंजनं
तत्सदृशं तस्मिन्नेव कृतं स्थले कृतं सीतायाः तत्र संस्कृतं रचयत् सुबुद्धिभिर्ज्ञा-
तव्यश्च ज्योतिर्वित्कृपानाथेन कृतेयं प्रशस्तिश्चयं गोलवालज्ञातिदेवकृष्णेन प्र-
तिष्ठा कृता भटमेदपाटकस्तु नातिकृपानाथस्तु गजधरदेवकृष्णेन प्रासादं कृत-
श्च धनेकै नवचंद्रेयुकशकेत्युत्तरगोलके त्वयनोत्तरगे लर्तौ ग्रीष्मे त्वाषाढे

शुद्धपक्षके ॥ १४ ॥ रामाब्धिक्रतियुकदंते स - विक्रमे स्तथा नवमी सुरपुज्येच प्रासाद प्रतिनिर्मितं श्री रस्तु शुभं भवतु नित्यं नागदा बडे गछ गोतम, व्यास दीपो गोत्र कौछ, जोसी पीथो गोत्र कपिल, जोसी हीरो गोत्र वशिष्ठ, मेतो ठाकुरसी गोत्र च्याररा ब्राह्मणाहे गोत्र चंदण नरो ब्राह्मण भट जसु बाबो- जी श्री हनुमानदासजीरा कयाथी तथा गाम सीसारमारा कयाथी टेलबंदगी करी हे संवत् १८८१ शाक सतरेसे छयालीस १७४६ प्रवर्तमाने आशाढ शुद्ध पक्षे ९ गुरुवासरे बाबाजी श्री हनुमानदासजी देवरो करायो कल्याण मस्तु.

(यह प्रशस्ति अशुद्ध है, जिस तरह पत्थरमें पढी गई उसी तरह छपवाई गई.)

११- उदयपुरमें भीमपद्मेश्वर महादेवके मन्दिरकी प्रशस्ति.


॥ श्रीगणेशायनमः ॥ देयं किंचनदेयमित्यविदुषां कोयं विकल्पभ्रमः कैवल्या-
त्तपुमर्थसत्सुखनिधेर्नेत्थंविचारोस्त्यतः वासोलंकृतिमाल्यलेपककृतेवैराग्यमुद्धोधयन्
कृत्यस्थ्यर्कजपुष्पभस्मभिरयं देवो ऽभिदद्याच्छिवं ॥ १ ॥ नमामि पदपंकजं जनि-
भवोद्भयत्रासकं सुखैकनिलयं विदां सरसिजासने धिष्टितं ॥ नखेंदुभवकौमुदी-
बुधचकोरसंतोषदं सुरासुरनुतं मुदा प्रथममेव सारस्वतं ॥ २ ॥ निर्माता खिल-
संपदां सुरगणाधीशार्चितांघ्रिद्वयः सत्सेवाजनितैकनिर्मलधियां सौख्यार्थसच्छेव-
धिः ॥ शीशोदान्वयभीमभूपसकलाभिष्टप्रदः सांबिको जीयात्सर्वसुखैकभूः प्रतिदिनं
श्रीभीमपद्मेश्वरः ॥ ३ ॥ शर्वप्लुष्टो मनसिजो ऽनंगतां प्रापयः पुरा ॥ बाष्पान्व-
ये तत्कृपया भूपोभूत्सांग एषकिं ॥ ४ ॥ सांगोराडिवराहिमंबुजफरं म्हेमंदसाहं
च सः जिग्ये चैव बबंध दिल्यहमदावादाङ्गमांडूधवान् ॥ अश्वाः पावकलक्षका
द्विगुणिताः पद्माः सहस्रं गजाः साप्ताशीतिसहस्रमुष्टनिचया यस्य प्रयाणेभवन्
॥ ५ ॥ चेदीगुर्जरमालवाब्धिजरणस्थंभोरुसिंधूद्भुजः मांडूदुर्गसकान्यकुब्जकमरू-
ग्वालेरजालोरुपः ॥ यो दिह्लीपतिवब्बरं किल हमाउच्चैवतत्य पुनः खंधारेश
सिकंदरं यमसखं चक्रेतिवीराग्रणीः ॥ ६ ॥ तस्मादभूदुदयसिंह इति क्षितीशो-
दोकार्यथोदयपुरं प्रवरं हि येन ॥ यत्र स्थिताप्रकृतिवत्प्रकृतिः प्रसक्तान् रूपै
र्विमोहयति नामगुणैश्च पुंसः ॥ ७ ॥ तत्तनूजनिरयं प्रतापको यत्प्रतापमिहिरां-
शुजनिर्यः ॥ वैरिवर्गवनितास्त्रपयोदः ख्यापयत्यतितरां निजकीर्तिं ॥ ८ ॥ तस्मा-
दभूदमरसिंह उदारकीर्तिं यौरिव्रजार्णवलये किमु कुम्भयोनिः ॥ यत्कीर्तिभिर्धव-
लिताखिलभूतधात्रीत्येवंविधो ह्यमरता किमु नो व्यदर्शि ॥ ९ ॥ कर्णः किंपुन-
रागादानाणायैव सिंहइति किं तत् ॥ भेतुं हरिगजमवितुं युष्मानाकर्ण्यमुज्जाता
॥ १० ॥ तस्यात्मजो जगत्सिंहः शत्रुवर्गेभनाशकः ॥ अकारिभुवनशस्य जगन्नाथ-

स्य मन्दिरं ॥ ११ ॥ तत्पुत्रोभूद्राजसिंहः पुरारेर्भक्त्या लेभे राजराजत्वमेषः ॥
 अब्धेस्तुल्यं सागरं कृतवान्यो माधुर्यांबुं राजपूर्वं समुद्रं ॥ १२ ॥ तत्पुत्रो जय-
 सिंहो जयैकभूररिकुलव्रजध्वंसी ॥ यो निर्ममे सुधाढ्यं यशः समुद्रं समुद्रमिव
 ॥ १३ ॥ तस्यांगजन्मामरसिंहवीरो वीरैकसूरस्मिमदं विधत् ॥ यस्य प्रसूरासुरि-
 तीत्यनिद्रा देवाः समासे परिसंदिहानाः ॥ १४ ॥ तस्मात्संग्रामसिंहोभूत् म्लेच्छेभमद्
 नाशकः ॥ ग्रामे ग्रामे यशो यस्य गीयते निभृतं नरैः ॥ १५ ॥ ततो
 भवज्जगसिंहो जगन्नाथालयं पुनः ॥ जीर्णोद्वारात्कृतं पित्रा दिद्रक्षुः स्वकृतं पुरा
 ॥ १६ ॥ तस्मात्प्रतापसिंहो ह्यरिसिंहो द्वौ सुतौ तयोर्मध्ये ज्येष्ठे राज्यं ॥ भुक्त्वा
 स्वयति राजसिंहोभूत् ॥ १७ ॥ नयेन नयतः क्षोणीं राजसिंहस्य भूपतेः ॥ भ्रात्री
 यस्याप्यपुत्रस्याथारिसिंहोग्रहीत्पदं ॥ १८ ॥ तस्यपत्यमणित्रयंसमभवद्वम्मीरवीरोग्रजो
 मध्या चन्द्रकुमारिकातदनुजः श्रीभीमसिंहो जयी ॥ गोगुंधाधिपराजकानजिगिरौ स-
 त्सारशुद्धाकरसर्दारादिकुमारिकोदरपुटानिर्दुष्टमेतत् स्फुटं ॥ १९ ॥ आपंचशरदं-
 क्षोणीं भुक्त्वा भूपे दिवं गते ॥ धीरहम्मीरवीरेवो भीमसिंहोभजन्वृषः ॥ २० ॥
 पायं पायं सुरेश्वरणकमलतः स्त्रावियन्मेघपुष्पं स्मारं स्मारं पुरारेश्वरितमति-
 तरां तध्ववंशप्रतिष्ठः ॥ ध्यायं ध्यायं भवानीस्तवनमघहरं निर्मलैकाग्रचेता ज्ञायं
 ज्ञायं सुतत्वं ह्यमरतिभुवने भीमसिंहो नरेंद्रः ॥ २१ ॥ तस्यात्मजोप्यस्ति युवान-
 सिंहो वाङ्माधुरीनिर्जितसत्सुधौघः ॥ कामः किमु स्कंद उदारतेजाः सौंदर्यजैतेंद्रिय
 वृत्तिधर्मात् ॥ २२ ॥ अथ राज्ञीवंशः ॥ रायसिंह इति सूरसिंह कृत्कर्णसिंह इति
 तत्सुतोभवत् ॥ तत्तनूजनिरनोयसिंहको ऽ एंदसिंह इति तत्तनूद्रवः ॥ २३ ॥
 तस्माच्छ्रीगजसिंहभूपतिमहाराजान्वयायो ह्यभूत् तस्मात्सूरतसिंह इन्द्रविभवो राठोड
 वंशैकभूः तद्भाता सुरतानसिंह इति यः क्षात्रैकनिष्ठोभवत्तज्जा पद्मकुमारिकेयमतु-
 ला श्रीभीमसिंहप्रिया ॥ २४ ॥ पद्मावतीव सकलाश्रितपद्मसद्मा पद्मासनातिरु-
 चिभीरचितास्वपद्मा ॥ ईशांघ्रिपद्मकृतशोभितद्रुत्सुपद्मा तेनेयमस्ति किल पद्मकु-
 मार्यतुल्या ॥ २५ ॥ धर्मस्य ध्वजिनीव दुःखनिवहद्राणाय दुष्टद्विषामर्थस्यप्रतिमे-
 व कल्पलतिका पूज्या दरिद्रद्रुहां ॥ कामस्य प्रियवादिनीव सुखदा स्मर्तुः स्वभर्तुः
 सदा मोक्षे सत्कृतधीरियं मतिमतीकृतत्रिनेत्रालयात् ॥ २६ ॥ किं पद्मा किमु
 पार्वती किमदितिर्मूर्तिर्हि सारस्वती किं वा वाडवभूषणस्य च मुनेरत्रेः कलत्रं नु
 किं ॥ किं पद्मात्मजमीनकेतनवधूरित्युत्सवोत्प्रेक्षिता जीयात्पद्मकुमारिकेयमतुला
 श्रीभीमसिंहालये ॥ २७ ॥ महाराणो भीमः शयनमधिरूढः स्वनिजया रमण्या
 विज्ञप्तस्त्रिपुरहरसंस्थापनकृते ततो सारं ज्ञात्वा जगदिदभरातिव्रजनुतो नृपः शर्वे-

शानावसथककृते चित्तमकरोत् ॥ २८ ॥ श्रवणनाथमहापुरुषार्पिते नृपतिरुत्सुकचि-
त्तउमाधवे ॥ शुभशिवालयनिर्मितये स्वयं स्वमहिषीमुरुकीर्तिमथाकरोत् ॥ २९ ॥
शिवस्य जगतीशिवस्य शुभकृन्मनोभिष्टदं भवस्य जगदुद्भवस्य सकलाभितापाप-
हं ॥ अचीकरदियं प्रियं नृपतिभीमसिंहाज्ञया शुभालयमिहालयं ह्यमरकुंडखंडाश्र-
ये ॥ ३० ॥ प्रासादाः संति पृथ्व्यां कति कति सुकृतिप्राणिनिर्माप्यमाणाः किं
स्वित्किंचित्खिलांगानसकमलसरः पूर्णसोपानमार्गाः सर्वत्वानंद एष क्व हिमगि-
रिरिव स्वच्छसन्मानसाद्रौ दंतैः किं स्फाटिकैः किं किमपि च रजतैरेव निर्मापि-
तांगः ॥ ३१ ॥ वर्षे वेदेभनागौषधिपतिसुयुते श्रावणश्वेतपक्षे सत्यां भूतेशतिथ्यां
तुहिनकरयुते वासरे वैश्वभे च ॥ आयुर्योगे सुलग्ने विबुधगणयुतो भीमभूजानि-
रेष श्रीशंभोः स्थापनं यो कृतयुवतियुता मन्दिरेस्मिन्महाग्यैः ॥ ३२ ॥ तुलामारूढा
सा क्षितिपतिमता पटमहिषी सुवर्णैरूप्यैर्वानिखिलजनताश्चर्यजनिकां ततो
द्रव्यै भव्यैरकृतसुकृतान्नैः पुरुरसैः सुतृप्तंतदृप्तं द्विजचतुरशीतिब्रजमिदं ॥ ३३ ॥

अथ श्री पूर्वपट्टिकाशेषमापूर्यते ॥ प्रासादं ह्यमुमेकलिंगचरणांभोजार्चना-
स्वादिहृत्पारिव्राजकभूषणायविजयानंदायराजापर्पयत् ॥ सोपिस्वच्छहृदामदं भवि-
मदं सद्ब्रह्मचर्यव्रतं सोमेशस्य गणेशमर्चनविधौ प्रायुक्तवेधाइव ॥ ३३ ॥
भवनिगमविधोक्तस्वर्चनाराधितेशः स्वहितकृदनुनीतप्रेमवल्ल्यौषधीशः निखि-
लजनमनोज्ञोद्वेवयः कार्तिकेय क्षितिपतिबहुमान्यो ब्रह्मचारी गणेशः ॥ ३४ ॥
भोपासागरवद्धनित्यवसतेश्रौआणवंशस्थितेः पौत्री देवसुसिंहबाहुजजनेः पुत्री
प्रतापस्य सा ॥ दौहित्री च जगद्धरेर्नरपतेः प्रख्यातकीर्तेरियं स्वस्त्रीयैजनवाइ
रस्त्यधिपतेः श्रीभीमसिंहस्य या ॥ ३५ ॥ राज्ञा एजनवाइरेव हि पुरः कर्त्री च
हर्त्री पुनः प्रासादोद्भवभावनाय सुकृपापात्री प्रदात्री मतेः ॥ नेत्री सर्वजनस्य
शर्मनिवहं भव्यं प्रपत्री सदा तद्वारैवसुपर्वसर्वमभवद्धर्मार्थकार्यं प्रभोः ॥ ३६ ॥
दिग्गजाइव गजागजांगजाः सप्तसप्ततितताश्च सप्तयः ॥ वस्त्रभूषणचयानगोच्छ्रया
स्वर्णरूप्यबहुमुद्रिकालयः ॥ ३७ ॥ चारणद्विजसुशिल्पिचारकादिभ्यइभ्य-
सहितानृपेण च ॥ तस्त्रिया वितरिता यथाक्रमं तन्महोत्सवविधौ विधानतः ॥ ३८ ॥
॥ युग्मं ॥ यो विष्णुदत्तोद्भुतचित्तवृत्तः स्वबुद्धिकौशल्यजितप्रमत्तः ॥ अत्राधिकारकृत
आत्तसत्तः परोपकारव्रत्तसंप्रवृत्तः ॥ ३९ ॥ कोष्ठागारी मोतिरामो राज्ञा सुसचिवः
परः ॥ सर्वकामकरो मान्यो धीमान् सर्वसुखालयः ॥ ४० ॥ भूयांसः क्षितिमंडलेति
रचना शीलासुशिल्पीश्वरा स्ते सर्वे तुलनां प्रयांति कृतिनो गोवर्द्धनस्याथ किं ॥ मन्येयं
कृतिवीक्षणात्सुरपतिर्मोहं परं प्राप्तवान्स्वीयं शिल्पिवरं हसत्यनुदिनं लज्जाविनश्चाननः


॥ ४१ ॥ श्रीशंभुर्जनकशिवार्चजननी ताभ्यांसुतानांत्रयी वेदानामिवमूर्तितामधि
गता जातावदातार्जितैः ॥ ज्यायान्तेष्वथवैद्यनाथउरुधिः प्राप्तः कथाभट्टतां तत्प-
श्चाद्भ्रजलालएवशिवलालोस्मात्कनीयानभूत् ॥ ४२ ॥ कृष्णलालरामलालनामभूषितौ
चयौ भट्टमेदपाटजातिजातभूसुरान्वयौ ॥ वैद्यनाथतोनुजद्वयीतमूह्यनुक्रम मनूनसद्य
सत् प्रशस्तिनिर्मितंवितन्वतु ॥ ४३ ॥ देवकृष्णेनचोत्कीर्णा प्रशस्तिः शिल्पिनामुना
॥ शुभायभवतांभूयात्सर्वेषांसुखमिच्छतां ॥ ४४ ॥ श्रीरस्तु.



छन्द गीतिका.




लघुवेष रान हमीरके दिवगौन शोक अथाहको ।
जन थाह दैन विराज गदिय भीम भंजक आहको ॥
भट्ट कृष्ण वंश कुमार जालम मार रावत लालने ।
युग शक्तवंशरु कृष्णकेकुल द्वेष उद्भव ज्वालने ॥ १ ॥
नृप भीमसिंह विवाह ईडर होनको सब हाल व्है ।
फिर सोमचन्द प्रधान जालम भ्रल्ल चुंडन शाल व्है ॥
मरहट्ट थट्ट मिटाय जावद् मेदपाट मिलायके ।
बल छायके दल आयके बहु शूरवीरन घायके ॥ २ ॥
फिर भीम अजुन सोमचंदहि मार बागिय होनको ।
इतिहास चुंडरु शक्त वंश विरुद्ध जुद्धसु दोनको ॥
मतिमान जालम भ्रल्लके मत देश वेष प्रबन्ध भौ ।
फिर व्याह ईडर रान द्वे लखि शैल पत्तन अंधको ॥ ३ ॥
दे दंड वांशवहाल देवलियादितें बहु भेट ले ।
अमरेश राज्यकुमार उद्भव ईश दर्शन भेट ले ॥
मरहट्ट अंबरु लक्ष युद्ध फिरंग टॉमस वीरता ।
फिर नाथ मंदिर लोभतें जशवंत दुष्ट अधीरता ॥ ४ ॥
तिहिं बाद कृष्ण कुमारिका निरदोष जीवन पात भौ ।
सिरदार रावत मार वैर विचार गंधिय घात भौ ॥
करनेल टॉड फिरंग दूत अभूत सजन आयके ।
नृप भीम संधि बनाय द्वंध मिटाय मंगल छायके ॥ ५ ॥

अमरेश राज्य कुमार त्यागन देहते अति शोक व्हे ।
 वह राज्य भक्त अनन्य टांड प्रबंध कारक ओक व्हे ॥
 त्रिक राज पुत्रिय व्याहते नृप भीम कीरति मन्त भौ ।
 फिर सृष्टि पालनहार ईश उदार जीवन अंत भौ ॥ ६ ॥
 इतिहास जैसलमेर संग्रह शेष सज्जन रानको ।
 उर सिद्ध शासन पाय श्यामल फतेसिंह दिवानको ॥
 यह भीम खंड अखंड पूरन ईश भेट मनायके ।
 कविराज इष्ट मनायके फल आज जीवन पायके ॥ ७ ॥



महाराणा भीमसिंह २,

पन्द्रहवां प्रकरण समाप्त.



महाराणा भीमसिंहका देहान्त होने बाद विक्रमी १८८५ चैत्र शुक्ल १५ [हि० १९३३ ता० १४ रमजान = ई० १८२८ ता० ३१ मार्च] की शामको महाराणा जवानसिंहका राज्याभिषेक हुआ. यह महाराणा बड़े पिताभक्त थे, इनको अपने पिता के देहान्तका बहुत ही रंज हुआ, और कुल देशके लोगोंपर भी अत्यन्त शोक छागया, क्योंकि वैकुण्ठवासी महाराणा अपनी प्रजापर पिताके समान दृष्टि रखकर उसका पोषण करते थे. जब महाराणा जवानसिंहने इस सन्नेसे प्रजाको जियादह रंजीदह देखा, तो उन लोगोंका शोक दूर करने और तसल्ली देनेकी गरजसे कहा, कि अगर्चि मैं अपने पिताके शोकमें निमग्न हूं, लेकिन वह तुम्हारा पालन करनेको मुझे छोड़-गये हैं, इसलिये कुल लोगोंको निश्चिन्त रहना चाहिये. यह सुनकर सब लोगोंके दिलोंको सल्ली हुई, क्योंकि युवराजपनेकी हालतमें इनकी नेक आदतें दीखपड़ने और इससे सबको दिलासा देनेसे पूरा विश्वास होगया. इन्होंने गद्दी नशीन होकर अपने पिताके नौकरोंका बड़ा लिहाज बरता, जो आदमी जिस उद्दहपर था, उसको उसीतर बहाल रक्खा, कोई तब्दीली नहीं की; मेवाड़के मुल्कमें दिन ब दिन तरकीकी सूरतभङ्गर आने लगी, मुमकिन था, कि अगर महाराणाकी निव्यतके मुवाफिक रियासतमें कुल छोटे बड़े अहलकार भी नेक निव्यतीको काममें लाते और अपने मल्लवकी तरफ

रुजू न होते, तो रियासतकी तंगी और रिआयाकी मुफ्लिसी एक दम दूर होजाती.

महाराणाका यह मन्शा था, कि रियासतके जमा खर्च वगैरह कुल काम हभारे सामने हुआ करें; लेकिन जवान उम्र होनेके कारण कुछ तो ऐश व इश्रतके कामोंसे खुद महाराणाकी कम फुर्सती, और खासकर जमा खर्च न दिखलानेके मत्त्वसे अहलकारोंकी पेचीदगियोंने इस मन्शाको सिद्ध न होने दिया. जब जमा खर्चके लिये अहलकारोंसे सवाल किया जाता, तो वे लोग यही जवाब देते, कि हुजूर तो बादशाह हैं, हुजूरके हुकमकी तामील करनेके लिये हम लोग मौजूद हैं, और इसी लिये हम पैदा हुए हैं, कि जमा खर्च वगैरह कुल कामोंमें तछीफें उठाकर हुजूरके हुकमकी तामील करें. पान्त तामील ऐसी होती थी, कि जब वैकुण्ठवासी महाराणाका इन्तिकाल हुआ, उस वक्त अहलकारोंने वलीअहदसे कहा, कि इस वक्त दस हजार रुपयोंकी इस खर्चके निजुरुरत है, और साहूकार लोग वगैर तसल्लीके नहीं देते, इसलिये हुकम हो, कि किया जावे. तब वलीअहद, याने महाराणा जवानसिंहने कमाल रंजकी हालतमें गुस्सा होकर कहा, कि इस वक्त कर्जहकी जमानतके लिये बेड़ियां मौजूद हैं. इस कलाम सुननेसे वे लोग डरकर चुप हो रहे, और उस कामको पूरा किया, लेकिन गवमें अंग्रेजीका खिराज हरसाल बाकी रहने लगा, और पोलिटिकल एजेन्ट ताकीद करने लगे. जब खिराजकी वावत गवमेंएटकी तरफसे ताकीद आती महाराणा प्रधानको हुकम देते, जिसपर साफ़ यही जवाब मिलता, कि खर्च जिय और जमा कम है; परन्तु जमा खर्चका मुफ़रसल आंक नहीं बतलाते. जिस साल की विह्वूदी होती, तो बचतके रुपयोंका पता नहीं लगता, और कमीके महाराणा तंग कियेजाते थे. परन्तु इसमें शक नहीं, कि उन दिनोंके अहल दंड देकर अपनी जान बचानेके लिये भी दौलत एकट्टी करते थे, क्योंकि उ ईमानदारीके साथ काम करनेपर भी मौकूफीसे बचकर अपने उह्दहपर एक अरसे काइम रहनेकी उम्मेद न थी, जिसका कारण यह था, कि महाराणाके पासवान मरजीदां लोगोंके मन्शाके बखिलाफ़ कुछ भी कार्रवाई होती, तो उसी वक्त अ कारोंपर आफ़त सवार होजाती थी; याने पासवान लोगोंमेंसे, जब एक आ कोई बात महाराणाके सामने पेश करता, तो दूसरा उसको मजबूत करके, तीसरा ग दे देता. महाराणा भी मनुष्य शरीर थे, धोखेमें आकर जरूर उस बातपर क करलेते. अगर्चि इन बातोंसे रियासती कामोंमें बहुत कुछ हर्ज होसक्ता था, लेकिन सर्दार और रिआया सब महाराणासे खुश होनेके सबब उनके अहद हुकूम किसी तरहका खलल न आया, बल्कि मौकेपर हुकमकी तामील भी होती रही.

विक्रमी १८८५ फाल्गुन शुद्ध १० [हि० १२४४ ता० ९ रमजान = .ई० १८२९ ता० १५ मार्च] को गवर्मेण्ट अंग्रेजीकी तरफसे कप्तान कॉफ़ साहिब टीकेका दस्तूर लेकर आये, जो एक बड़ा दर्बार किया जाकर महाराणाके सामने पेश हुआ, उसमें हाथी १, घोड़ा २, ढाल १, तलवार १, सरोपाव १, मोतियोंकी माला १, और सर्पेच १ था. महाराणाने उक्त कप्तानको फ़तहदौलत नामका एक हाथी, तुरंगराज घोड़ा, कंठी, सर्पेच व सरोपाव और उनके लड़केको हाथोंकी सोनेकी पट्टियां व सरोपाव, और असिस्टेंट साहिबको सर्पेच व मोतियोंकी माला दी. इसी विक्रमीकी चैत्र कृष्ण ६ [हि० ता० २१ रमजान = .ई० ता० २७ मार्च] को कॉफ़ साहिबने रेजिडेन्सीकी कोठीपर महाराणाको मिहमान करके दात दी, और हाथी १, घोड़ा १, सर्पेच १, मोतियोंकी माला १, और सरोपाव २ वरह सामान नज़के तौरपर पेश किया. गद्दी नशीनीका खिल्अत आनेपर महाराणाकी तरफसे लाठ साहिबके नाम, जो खरीतह भेजागया, और उसके जवाबमें लॉर्ड बेंटिक साहिबने खरीतह भेजा, उसका तर्जमह नीचे लिखा जाता है:-

लॉर्ड विलिअम बेंटिक साहिबके फ़ार्सी
खरीतह (१) का तर्जमह.

महाराणा साहिब बड़े दरजेके मिहर्बान दोस्त, मिहर्बानी और इहसानके खज़ानह सलामत रहो.

बुजुर्ग मुलाकातकी स्वाहिशके बाद, जिसकी कैफ़ियत क़लम और ज़बान से अदा नहीं होसकी, आपके रौशन दिलपर ज़ाहिर किया जाता है, कि आप का मिहर्बानीका ख़त बसूल हुआ, जिसमें आपने उस खिल्अतके मिलनेसे, जो गद्दी-

(१) نقل خریطه لارت ولیم بینتنک گورنر جنرل مند بنام مهارانا جوان سنگه جي *

مہارانا صاحب عالی شان مشفق مہربان مصدر لطف و احسان سلامت *
بعد از تبلیغ مراسم آرزوے گرامی مواصلت سرا سر عاطفت کہ گنجایش گیر تحریر
خامہ نوزبان و تقریر بزیرو نامہ وسیع البیان نیست مشہوں ضمیر منیر گرن انیدہ می آید * مہربانی
نامہ شفقت ختامہ متضمن دستاویز مسرت و ابتہاج فراوان بخاطر آن مہربان از وصول خلعت
کہ بتقریب مسند نشینی آن عالی شان بر راج اوں کے پورا از طرف این سرکار دولت مدار معرفت

नशीनीके वक्त उस आलीशान दोस्तके लिये इस बड़ी सरकार (अंग्रेजी) की तरफसे बहादुर जात कप्तान टॉमस अलेग्जैण्डर कॉफ़ साहिबकी मारिफ़त भेजागया था, खुशी जाहिरकी, और यह बात लिखी है, कि आप पुरानी दोस्तीके तरीकेपर सफ़ाई और मुहब्बतके दस्तूरोकी हिफ़ाज़तमें ज़ियादहसे ज़ियादह मस्खूफ़ रहेंगे; और दूसरी कई बातें दोस्ती और सादगीकी, जो कप्तान साहिबके साथ बरती गईं, वे हद खुशीका सबब हुईं. खिल्अतके मिलनेसे खुशी जाहिर करना, और वैकुण्ठवासी महाराणा साहिबके दोस्ती व सच्चाईके तरीकेका बयान करना, और पुरानी दोस्ती व वफ़ादारी के तरीकेको जारी रखना, उन दोस्तकी साफ़दिलीका पूरा सुबूत है, जो इस ख़ालिस दोस्तको भी खुशी बख़शने वाला हुआ. बुजुर्ग़ खुदा उस बड़े दरजेके दोस्तको एकता और मुहब्बतके तरीकेपर काइम रखे. इस हालतमें इस मुन्सिफ़ सरकारके काइम मक़ाम, याने अहलकार सच्चाईका तरीक़ह, जो कैलासवासी महाराणा साहिबके साथ बरता जाता था, उन दोस्तके साथ भी बग़ैर किसी फ़र्क़के जारी रखेंगे.

ऐ आलीशान दोस्त, बहुतसा रंज और अफ़सोस महाराणा साहिबके इन्तिक़ालके बाद उनकी नेकियां और खूबियां याद करनेसे इस दोस्तकी ख़ातिरमें जम गया था, लेकिन अब इस खुशख़बरीसे, कि वह दोस्त राज्य उदयपुरकी गद्दीपर बैठे हैं,

شجاعت و تہور و ستگاہ کیتان طامس الکسندر کا صاحب بہادر مرسل شدہ بود و اینمغنی کہ آن مشفق بیاس سررشتہ دوستی و اتحاد مستوثقہ قدیمہ فیما بین در حفظ لوازم مودت و صفوت جانبین بیش از پیش مائل و مصروف خواہند بودہ بان یگر مراتب لغت و یکرنگی و خورمی و خورسندی از خوبی و پاسداریہاے کیتان صاحب موصوف و وصول مباحثت شمول گردیدہ مسرور موفور و منشوح نامحصور ساخت۔ ارقام کلمات بہجت و انبساط بوصول خلعت مزبور و اظہار مدارج موالفت و مصادقت مہارانا صاحب بیکنڈہہ باشی ملحوظ و مرعی داشتہن پاس روابط خلت و وفاق دیرینہ بیشتر از پیشتر از آثار سنیہ مخالفت و مصادفات باطنی آن مصدر لطف و احسان متصور شدہ ذریعہ کمال بہجت و انتعاش خاطر اخلاص مظاہر گشت * ایزد تعالیٰ شانہ آن عالیشان را با اینہمہ حفظ شرایط یکجہتی و توان سلامت با جمعیت داراد۔ ہمانا اندرینصورت اہالی نامدار این سرکار معدلت و نارلوازم صداقت ایتلاف نہجیکہ بامہارانا صاحب کیلاس باشی مرعی و مسلوک داشتندہ بلا تفاوت نسبت بانمشفق ملحوظ و مطمح نظر خواہند داشت * عالیشانانہر قدر نام و تحسرو تشتت و تکدر کہ بعد انتقال مہارانا صاحب بیاد محاسن و خوبیہاے آن رفگراے عالم بقابخاطر اخلاص مائثر جا گرفتہ بودہ بمثابہ آن بل فزون تر از ان از ادراک مزوئہ بہجت آمادہ تمکن میمنت تضمن آن مہربان بروسادہ راج او دیے پور شادمانی و نشاط و خورمی و انبساط بدل

बहुतसी खुशी मेरे दिलको हासिल हुई; इज़तदार और बुजुर्ग खुदा उस आलीशान दोस्तके मुबारक जुलूसको उस रियासत, उन दोस्त और खैरखाहों और दोस्तोंपर नेक और मुबारक करे. कप्तान कॉफ़ साहिबकी खातिरदारी और दोस्ती वगैरहकी रस्मोंके मजबूत काइम रखनेकी बाबत, जो लिखा था, वह इस दोस्तके मन्शाके मुवाफ़िक़ था, इसलिये बहुतही खुशीका सबब हुआ. उम्मेद है, कि इस दोस्तको हमेशह अपनी खैरियतका स्वाहिशमन्द जानकर मिहर्बानीके खतोंसे खुश करते रहें— ज़ियादह क्या लिखा जावे. (दस्तखत) — विलिअम बेंटिंक.

(कागज़की पुरतपर)
(दस्तखत) — स्टर्लिंग,
सेक्रेटरी सकार अंग्रेजी.

इन दिनों प्रधानेका काम महता रामसिंह करता था; इस प्रधानने वैकुण्ठ-वासी महाराणा (भीमसिंह) के समयमें प्रधानेका काम मिलनेके वक्त एक मुचल्का

دوستی منزل رونمود— حق عزوجل جلوس فرخنده مانوس آن عالیشان برراج مزبور بانمصد راطفو احسان وجمع اصدقا و احبامبارک ومهناگرداناد وانچه از مصروفیت ودلدھی کبتان صاحب معزی الیه در ترقی واستحکام مبانی مودت واستیناس فیما بین وخوبیهای ایشان بخامه یکجهتی نگارداورده بوندء چون عین بروفق خواش وحسب دلخواه دوستی دوست استء لهذا مسرت برمست افزود— ترصدکه مخلص را همواره خواهان مؤنه خیریتهاے مزاج موالفت امتزاج خود انکاشته بارقام مهربانی نامجات توجه علامات مسرور ومهبور مینموده باشند—
(sd.) W. Bentink. * زیادہ چہ برطوازد *

(sd.) A. Stirling,
Secretary to Government.

अठारह शतोंका लिखकर उक्त महाराणाके नज़ किया था, जिसकी नक़ नीचे लिखी जाती है:-

मुचल्केकी नक़ल (१).

॥ श्रीरामजी ॥


॥ सीध श्री श्री श्री श्री श्री १०८ श्री अनदाताजी हजुर पानाजाद बणाया मनष म्हेता रामसीधको धरथी हाथ लगाए मुजरो मालम होये अप्रच, श्री हजुरमे अरज कराई स्यो पावद मन बदगी भलावे तो बदगी सामधरमासु कीया जाऊ, हजुर राजी रेह जीणी प्रमाणे चाकरी - - ऊ, ई मुदा मांड्या जीमे कसर पाडु, तो मने श्री अकलीगजीकी आण हे, ईमे कसर पाडु, तो पावद मुरजी व्हे जो कीजे

- १ साहेबकेर हजुरके दनभर दन दोसती बदे न गणा राजी रेन कणी वातकी मुरजी सवाए नी वे
- २ साहब लोगाको पडीस्यो देणो जीकी तनपाव लगाए देणी न तनपाव बोठे न्ही परचणी, सापकी साष पुछ नजर करणी, ऐक रपो चढावणो नी, साहेबकी अरज ई तनपाव तावे हजुर आवे नी
- ३ ज्मा वारु हे जी स्वाए वदावणी, राजरा काम काजमे कसर पाडणी नही, छतीस ही कारषानारी वालींगी रापणी, आरी पुकार आवे नी, दन चढावणा नी ही
- ४ देसरो वदोवसत रापणो षालस्यो वदावणो
- ५ हजुरसु अरज कीया बना हुकम टाल काई हरफ बोलणो नीही, नाव पथाव, वोर ही काई हुकम बना करणो नही
- ६ कणी सु कस्यो रापणो न्ही
- ७ नाव रुपरो नही करणो, सुप पाकरी नगे रापणी, आ चाल भेटणी, ई स्वाए मुडो आगो करे, तो जीनु सजा देणी

(१) इस मुचल्केका अस्ल कागज़ कई जगहसे फटजानेके सबब वाज़ वाज़ शब्द और

अखीरमें थोड़ासा मज्मून व संवत् मितती जाते रहे हैं.

- ८ जनानी परची तथा सरदार परची पावे जाकी चढावणी नी _____
- ९ बना हुकम माथे करज करणो नही _____
- १० भी: चाकरी कर वतावणी न कसम कसर नही पडजु _____
- ११ धणीरो हुकम माथा ऊप्रे राषणो, कीरो सरोदो राषणो नही _____
- १२ - - - - - ऊप्र घर सर हाजर रेणो _____
- १३ जुठी साची कडी करणी नही, जीमे तगसीर होवे, तो साची दषाए देणी, पछे हुकम करे जो करणो _____
- १४ जा ज्मी गडी हे जो आणवो तो श्री ऐकलीगजीके हाथ हे, पण मेनत कर चाकरी कर - - - - - _____
- १५ अबारु देसको बदोवसत हे ज्णीसु वतो बदोवसत राषणो, इमे कसर पाडणी नही _____
- १६ काम कारषाना आगे हे जारे रहे, फेर मरजी होअे जारे राषणा _____
- १७ वारु परच हे जीमे गटावणो नही, कोडी राज हे काम आए पडे, तो हुकम बाल राषणो _____
- १८ - - - - - तनषाव लगाए देणी स्यो ष - - - - - व _____
- - - - - माडा जीमे कसर पाडु तो श्री हजुरकी - - - - - व ध्रमका सोग - - - - - सावधमा सु व - - - - - चाकरी करणी, इमे कसर पाडु, तो धणीरी मरजी होऐ के, धणीने दोस नही.



इस मुचल्केकी अक्सर कल्मोंका अमल दरामद न होनेके सबब लोगोंने चारों तरफसे रामसिंहकी शिकायत करना शुरू किया, जिनमें सबसे बढ़कर शिकायत यह थी, कि गवर्मेण्ट अंग्रेजीके खिराजका सात लाख रुपया चढ़ गया, और उसकी बाबत पोलिटिकल एजेण्टने भी बढ़ इन्तिजामी जाहिर करके ताकीद लिखी. इसपर महाराणाने महता रामसिंहको उन बातोंका बन्दोबस्त करनेके लिये हुकम दिया, जिनसे रियासतमें बढ़ इन्तिजामीकी शिकायत फैलरही थी. उक्त प्रधानने जवाब दिया, कि “ग्यारह लाखकी रियासती आमदनी और बारह लाखका खर्च है, इसलिये खर्चकी कमी हुए बिदून बन्दोबस्त होना कठिन है.” तब प्रधानकी सलाहके मुवाफिक महाराणाने महासाणी वरूता, कायस्थ विशननाथ, और पुरोहित रामनाथ को खर्च घटानेपर मुकर्रर किया, और पहिले कोठारका खर्च कम करनेकी तजवीज हुई.

लेकिन इन तीनों शख्सोंने यह सोचकर, कि प्रधाना अर्थात् नियाबतका काम तो महता

रामसिंह करे, और बुराई व बदनामी हम लोगोंको मिले, जो हमारे हकमें ठीक नहीं है, अपनी बुराईके बचावके लिये शुरूमें अनुमानसे जमा खर्चकी एक फ़र्द बनाई, जिसमें बारह लाखकी सालानह आमदनी और ग्यारह लाखके खर्चका तख्तीनह था, और महाराणासे खानगी तौरपर निवेदन किया, कि हुजूरकी आज्ञानुसार कोठारका ढंग देखा गया, तो मालूम हुआ, कि हिमायती और ज़बर्दस्त लोगोंकी पावण तो बन्द नहीं होसकी, सिर्फ़ बेवा और लावारिस बच्चोंका सींगह उन लोगोंसे अलग है, जिनका गला घोटनेसे बमुश्किल तीन चार हजार रुपया सालानहकी बचत हो सकती है; परन्तु ऐसा करनेमें हजारों ग़रीब हम लोगोंको गालियां और हुजूरको बद दुआ देंगे, जिसमें किसी तरहका फ़ायदह नज़र नहीं आता, आइन्दह जैसा हुजूर फ़र्मावें वैसा कियाजावे. यह सुनकर महाराणाने फ़र्माया, कि जमा खर्चका बन्दोवस्त करना तो बहुत जरूर है, इसकी तद्वीर जिस तरहपर होसके, करना चाहिये, तब उन लोगोंने वह कागज़ पेश किया, जिसमें एक लाख रुपया सालानहकी बचतका हिसाब था. इस फ़र्दसे महाराणा को प्रधानके फ़िरेवका यकीन होगया, और उन्होंने महता शेरसिंहको प्रधान बनानेकी गरज़से बुलाना चाहा, जो पहिले भागकर गैर इलाक़हमें चलागया था. पैगामके पहुंचतेही विक्रमी १८८६ माघ कृष्ण ५ [हि० १२४५ ता० १९ रजव = ई० १८३० ता० १४ जैनुअरी] को शेरसिंह महाराणाके पास हाज़िर होगया, लेकिन कप्तान कॉफ़ साहिव रामसिंहका मददगार होनेके कारण शेरसिंहको प्रधाना मिलनेमें तअम्मुल हुआ, और रामसिंहको फ़िक्र हुई, कि रियासती बन्दोवस्त न कियाजानेसे अब मुझको भी खतरह है, इसलिये मुनासिब है, कि गवर्मेण्ट अंग्रेज़ीकी सफ़ाई करके पोलिटिकल एजेण्टको मददगार बना लिया जावे. उसने सात लाख रुपयेमेंसे, जो गवर्मेण्टको देना वाजिब था, कॉफ़ साहिवकी मददसे दो लाख रुपया मुआफ़ करवाकर महाराणाको अपनी नौकरी व खैरखाही दिखाई, और कई लोगोंसे दंड व जुर्मानह वगैरह वसूल करके जोड़ तोड़ लगाकर पांच लाख रुपया सर्कारी खिराजका अदा करदिया. इस कार्रवाईसे रामसिंहकी बहुतसे आदमियोंके साथ दुश्मनी बढ़कर जियादह शिकायतें पैदा हुईं; और विक्रमी १८८७ माघ कृष्ण ८ [हि० १२४६ ता० २१ रजव = ई० १८३१ ता० ६ जैनुअरी] को जब कप्तान कॉफ़ साहिव विलायत जानेके लिये महाराणासे रुख़सत हुए, उसी वक्तसे रामसिंहकी ताक़तमें फ़र्क़ आगया.

विक्रमी १८८८ द्वितीय वैशाख शुक्ल १ [हि० १२४६ ता० २८ जिल्काद = ई० १८३१ ता० १२ मई] को रामसिंह कैद हुआ, और शेरसिंहको प्रधाने

का सरोपाव मिला. उसवक्त शेरसिंहने एक इक्रारनामह लिखकर पेश किया, जिसकी नक़्क नीचे लिखी जाती है:-

महता शेरसिंहके इक्रारनामहकी नक़्क.

॥ श्रीनाथजी.

॥ श्रीरामजी.

॥ सीधश्री श्री श्री श्री श्री १०८ श्री श्री श्री श्री प्रथीनाथ हजूर अरज षानाजाद कीधो मनष महता सेरसीधकी अरज मालम होऐ अप्रच ॥

सरब जंमो ब्रस १ रो १०॥, साडा दसको हे जीमे कस्त्र न्ही, अप्र ज्मा सुदी मेनत कीदा ग्यारा बाराको बदे, सो वदावणो साडा दसमें तो कस्त्र पडे न्ही, ओ ज्मा अतो घजी होऐ जठे पूचाजे

वोर काम में हरकत पडे न्ही घजी प्रमाणे रा शीमे बाद दे जीमे तफावज पडे न्ही

देसको बंदोवसत राषणो, चोरी चषारीको रांषणो, हरकत पडे न्ही

साऐबका पूणीका तीन लाष जणीको जंमो जुदी तणषावकाड देणी, सो हुकम करे जठे वोर ताल्पे

फोज पूचरो जंमो जुदो काड देणो, वोर ऐकरे हात रहे श्री द्रबारका हुकमको

कोठारको जंमो जुदो बादणो, सो अनको धान नुद कोठार चडे

शीमे षजानाको जंमो बांद दैणो, सो षजाने पडे, वोठे पूचाणो न्ही

शी प्रमाणे श्री षावद बाद दे जीमे कस्त्र पाडु, तो श्री द्रबारकी आणहे- सं० १८८७ का बेसाष बुद १०.

इन्हीं दिनोंमें नाथद्वारे वालोंने मुखिया राधिकादासको एजेण्ट गवर्नर जेनरल राज-पूतानहके पास वकील बनाकर भेजा, और खुद मुस्तार बननेकी कोशिश की, लेकिन उस

वकीलको रिचर्ड कैविंडिशने, जो जवाब दिया उसकी नक़ खरीतहके साथ महाराणाके पास उक्त साहिबने भेजी, जिसका तर्जमह यहांपर मए खरीतहके तर्जमेके दर्ज किया जाता है:-

एजेण्ट गवर्नर जेनरल रिचर्ड कैविंडिश साहिबके खरीतहका तर्जमह,
ब नाम महाराणाजी श्री जवानसिंहजी,
ता० ३१ मई सन् १८३१ ई०.

मामूली अल्काब व आदाब वगैरहके पीछे. एक खत पुजारी मन्दिर नाथद्वारेका यहांकी हाजिरवाशीके लिये अपना वकील भेजनेके मज्मूनसे मेरे नाम मए राधिकादास वकील नाथद्वाराके इन दिनोंमें पहुंचा था; जवाब उसका जो कुछ कि मेरी तरफसे लिखा गया, उसकी नक़ वास्ते इत्तिला दर्बारके इस खरीतहके साथ भेजी है, सो उसका मज्मून मुलाहज़ह करनेसे रौशन दिल दोस्ती भरे हुएके होगा, जियादह दिन खुशीका हमेशह हूजियो.

(दस्तखत)- रिचर्ड कैविंडिश.

तर्जमह नक़ हुक्म बनाम राधिकादास
वकील नाथद्वारा.

(फ़ार्सीमें)
नक़ मुताविक अस्त,
अल्-अब्द मुहम्मद शफीअ्,
मुन्शी एजेन्सी.

(अंग्रेजीमें)
(दस्तखत)- रिचर्ड कैविंडिश.

हुक्म बनाम राधिकादास वकील पुजारी मन्दिर श्री नाथद्वाराके यह है, कि खत मालिक तुम्हारेका, जो बमुक़दमे भेजने तुमको उह्दे विकालतपर वास्ते हाजिरवाशी यहांके था, सो हमारे पढ़नेमें आया. जोकि मक़ाम नाथद्वारा राज रियासत जुदा

नहीं है, इसवास्ते तुम्हारा नाथद्वारेकी तरफ़से यहां हाज़िर रहना ज़रूर नहीं, तुम्हारे मालिकको जो कुछ ज़रूरत कहने और लिखनेकी हमसे हो, उसका सवाल जवाब मारिफ़त दर्बार उदयपुरके करते रहें, नाथद्वारे वालोंके कहनेकी सुनवाई बिना वसीले दर्बार महाराणा साहिबके इस जगह नहीं होसकी है, क्योंकि नाथद्वारा तअज़ुक़ात रियासत मौसूफ़केसे है; अगर्चि लिखना जवाब ख़त तुम्हारे मालिकका उन्हींके नाम मन्ज़ूर था, परन्तु जोकि तुम्हारे मालिकका अलकाव दफ़तर उदयपुर तथा इस दफ़तरमें नहीं पाया, इसवास्ते यह हाल तुम्हारे नाम लिखा गया; चाहिये, कि हमारे लिखे हुए इस तमाम हालकी इत्तिला अपने मालिकको करदेवें— फ़क़त, लिखा ५ मई सन् १८३१ ई०.

रामसिंहके कैद होने और शेरसिंहको प्रधाना मिलनेकी ख़बर कप्तान काँफ़ साहिबने कलकत्तेमें सुनकर रामसिंहकी सिफ़ारिशके लिये एक ख़रीतह महाराणाके नाम भेजा, जिसकी नक़ नीचे लिखी जाती है:—

कप्तान काँफ़ साहिबके ख़रीतहकी

नक़ल.

॥ श्रीरामजी.

(अंजोम)
(दस्ताख़त)— काँफ़ साहिब.

॥ सीध श्री ऊदेपुर सुभसुथाने सरब औपमा बीराजमान लाऐक श्री माहाराजा धीराज माहाराणा साहेब श्री जुवानसीधजी अेतान, कलकताका मुकामसु मेजर काफ़ साहेब लीषावता सलाम मालम हुवे, अठाका समीचार भला हे, आपका समीचार सदा कुसीका आवे तो हमारे ताडी बोहोत कुसी होऐ, आप बडा हो, सीरदार हो, सदा क़पा महेरवानगी रापो तीसु जादा रहे अप्रच ॥ आपको षलीतो अन्यात हुवो, समीचार वाच्या कुसी हुडी, सरकारमे हमारा हाथकी फ़ारगती सरकार कंपनीका रुप्याके बासते आपके हाथ आऐगडी होगा, आजकी रोज हमकु षबर मीले पाच लाष रुप्या सके ऊदेपुरी सेठ जोरावरमलकी मारफ़त सरकार कंपनीका षजाना महे

पुछगया, अस परचका बोज आपके राज ऊपरेसे ऊठगया, आगेकी बात आपका हाथ महे है, इस नोकरी करणेमहे महेता रामसीघजीकी ऊपरे हजारु दुसमण पेदा हुवा, अबे आपने काम ऊतारचा, अबे सब कोई आपणे रुप्या डंड बदले इसकी इजत ऊतारणेकी सला करेगा, आपके सीवाएे ऊसके कसीका आसरा भरोसा हे नही, ऊसकी इजत ज्यान आपके हाथ महे है. अगर आप इसकी नोकरी आद करके इजत बंचावे तो बचेगा, अर आप नही बचावेगा तो दुसमणीसे मारचा जावेगा. हमारी सलासे आपके दोऐ लाख रुप्या माफ कराया, इन सबकु बेराजी कीया, इस बासते हम आपको तकलीप देते हे, और महेता मोतीराम हाथे कीताब १ अकबराबादका मुकामसु भेजी ही, पीछेसु मीमच हेडी साहेबके पास कीताब २ भेजी हे, हमकु भरोसा हे, अे तीनु कीताब आपके पास पुची होगा. आपके परसण महे हुवे कदी कदी आपकी कुसपवर और मेवाडका अेवालकी अन्याएत करोगे, अठा लाएक काम काज लिखावोगे, अठे हुकम आपको हे. सं० १८८७ (१) रा जेठ सुद १४ मास जुन ता० २४ सन १८३१ .ई०.

इसके बाद हिन्दुस्तानके गवर्नर जेनरल लॉर्ड बेंटिक (Lord William Bentinck.) ने अजमेर आनेके इरादहसे महाराणाको भी अजमेरमें आकर मुलाकात करनेके लिये पोलिटिकल एजेण्ट की मारिफत कहलाया. इस बातपर उदयपुरके सर्दारों वगैरहमें बहुत कुछ सोच विचार और सलाह मश्वरा हुआ, कि उदयपुरके महाराणा पहिले दिल्लीके बादशाही दरवारमें नहीं गये, तो इस वक्त उनका अजमेर जाना किस तरह वाजिव समझा जासक्ता है ? इसपर पोलिटिकल एजेण्ट स्पीअर साहिबने कहा, कि मुसल्मान बादशाह अब्बल तो आप लोगोंके दुश्मन थे, दूसरे जो राजा उनके दरवारमें जाते, उनकी इज्जत नौकरोंके दरजेपर होती थी, इसलिये अगले महाराणा साहिब उनके पास नहीं गये, लेकिन बखिलाफ उसके ब्रिटिश गवर्मेण्ट आपकी दोस्त है, और गवर्नर जेनरल हिन्द और महाराणाकी जो मुलाकात होगी वह दोस्तोंके तरीकेपर होगी, इसलिये महाराणा साहिबका अजमेरमें चलकर गवर्नर जेनरलसे मुलाकात करना बेजा नहीं है. इन दोनों वाजिव बातोंसे महाराणा ला जवाब होगये, लेकिन बहुतसे मुसाहिबोंने उनका अजमेर जाना ना मुनासिव बयान किया, तब महाराणाने कुल सर्दारों व अहलकारों को फर्माया, कि अब्बल तो स्पीअर साहिबने, जो दोनों बातें कहीं उनमें किसी

(१) यहांपर श्रावण महीनेसे प्रारम्भ होनेके हिसाबसे विक्रमी १८८७ लिखागया है, लेकिन चैत्रके हिसाबसे विक्रमी १८८८ होता है.

तरहका एतिराज या दलील नहीं होसकी. दूसरे मरहटोंके गद्दके जमानेकी तछीफें, जिनको मैं खुद श्री बड़े हुजूरके साथ रहकर उठा चुका हूं, इसी गवर्मेण्टकी मददसे दूर हुई, इसलिये हमको हर सूरतमें उसके साथ दोस्तानह बर्ताव रखना लाजिम है. तीसरे शाहपुराके फूलिया जिलेपर, जो अंग्रेजी पुलिस (जब्ती) बैठी हुई है, वह भी लॉर्ड बेंटिंककी दोस्तीके बिना नहीं उठ सकती, और उसकी जब्ती उठवाना जरूर है, क्योंकि वह ठिकाना हमारे रिश्तहदारोंमेंसे खैरस्वाह व फर्मावदार राजा धिराज अमरसिंहका है, जिन्होंने इस रियासतकी नौकरी करते करते अभी उदयपुरमें वफात पाई है. चौथे दाजीराज (वैकुण्ठवासी महाराणा) का गयाश्राद्ध करना भी मुझपर फर्ज है, जिसमें कई महीनोंका सफर मए लश्कर व सिपाहके अंग्रेजी इलाकहमें करना पड़ेगा, जो बिदून मदद ब्रिटिश गवर्मेण्टके नहीं होसका; इसलिये हमको अजमेरमें जाकर लॉर्ड बेंटिंकसे मुलाकात करना ही बिहतर है. तब सब लोगोंने महाराणाकी इस आकिलानह सलाहको पसन्द किया; और महाराणाने कुल सदार व उमरावोंके नाम उदयपुर हाजिर होनेका हुकम भेजा. हुकमनामे पहुंचते ही सब लोग हाजिर होगये. इस सफरमें मेरा (कविराज श्यामलदासका) पिता और पुरोहित श्यामनाथ भी साथ थे. इन दोनोंकी जबानी इस सफरका हाल मैंने कई बार सुना है, उनका बयान था, कि महाराणाके लश्करमें उस वक्त पैदलोंके अलावह सवारोंकी संख्या दस हजार थी.

विक्रमी १८८८ माघ कृष्ण ५ [हि० १२४७ ता० १८ शरबान = ई० १८३२ ता० २२ जैन्युअरी] को राजधानीसे लश्करका कूच होकर पहिला मकाम ग्राम गुडलीमें हुआ. माघ कृष्ण ६ को महाराणा दर्शनोके लिये श्री एकलिंगेश्वरकी पुरीमें रहे. माघ कृष्ण ७ को ग्राम खेमलीमें कियाम किया, अष्टमीको ग्राम सनवाड़में पहुंचे, नवमीको गलंडमें, दशमीको जोगण खेड़ीमें, एकादशी व द्वादशीको भीलाडेमें मकाम होकर त्रयोदशीको वनेडेमें पहुंचे, जहां राजा उदयसिंहने दस्तूरके मुवाफिक पेशवाई वगैरहकी रस्म अदा करके बड़ी उम्दगीके साथ महाराणाकी जियाफत की. माघ कृष्ण १४ को बीचमें एक मकाम होकर अमावास्याको सखराणीमें कियाम हुआ. अजमेर और मेवाड़की सहदपर ब्रिटिश गवर्मेण्टकी तरफसे एक पोलिटिकल अफसर पेशवाईको आया, माघ शुक्ल १ को नांदला ग्राममें ठहरकर द्वितीयाको अजमेर पहुंचे; दो कोसतक लॉकट (१) साहिव वगैरह ८ अंग्रेजी अफसर महाराणाकी पेशवाईको आये, और महाराणाको डेरोंमें पहुंचाकर रुस्तत हुए. दूसरे रोज बूंदीके राव राजा

(१) राजपूतानहके एजेण्ट गवर्नर जनरल.

रामसिंहके अजमेरमें आने और मेवाड़की फौजके दर्मियान होकर निकलनेके इरादेकी खबर मिली, इसपर महाराणाने महता शेरसिंह, रावत जवानसिंह, रावत दूलहसिंह और पुरोहित श्यामनाथ वगैरहको बुलाकर कहा, कि राजा रामसिंह हमारे दादाको मारने वाले दुश्मनका पोता है, इसका लश्करमें होकर निकलना हमारी बदनामी और हतकका बाइस होगा. तब रावत जवानसिंह व दूलहसिंहने अर्ज की, कि इस वक्त सलाहकी बात कहना हम लोगोंका काम नहीं है, हमारी तो यही राय है, कि नकारे का हुक्म देदिया जावे, ताकि हम लोग लड़ाई करके बहादुरीके हाथ दिखलावें; और अगर मस्लिहतकी बात दर्याफ्त करना हो, तो अहलकारोंसे पूछें. इसपर महता शेरसिंह ने कहा, कि लॉर्ड बेंटिंकको इत्तिला करने बाद लड़ाई करनेमें कोई हर्ज नहीं है, इसलिये अक्वल उनको इत्तिला होजानी चाहिये. लाला चिरंजीलाल, जो उस समय पोलिटिकल एजेण्टके पास मेवाड़की तरफसे वकील था, उक्त लॉर्डको इत्तिला करनेके लिये भेजा गया; वह लॉर्ड बेंटिंकके डेरेकी ड्योढीपर जाकर कह आया, कि यदि बूंदीवाले मेवाड़के लश्करमें होकर निकलेंगे, तो तलवार चलेगी; लेकिन लॉर्ड बेंटिंकने ऐसा बन्दोबस्त किया, कि अंग्रेजी अफसरोंको भेजकर राव राजा बूंदीको दूसरे रास्तेसे निकलवा दिया, जो मेवाड़की फौजसे बहुत दूर था; और इस कदम दुश्मनी देखकर उक्त लॉर्डने दोनों रियासतोंके आपसमें मेल करा देनेकी बहुत कुछ कोशिश की, परन्तु महाराणाने उक्त लॉर्डकी सलाहको मन्जूर न किया.

विक्रमी भाघ शुक्र ४ [हि० ता० ३ रमजान = ई० ता० ५ फेब्रुअरी] को महाराणा हाथीपर सवार होकर जुलूसकी सवारीसे लॉर्ड बेंटिंकके डेरेपर गये; डेरोंकी ड्योढीतक पेशवाई और दस्तापोशी करके उक्त लॉर्ड महाराणा तथा उन सिकतर वगैरह पांच अंग्रेजोंको, जो महाराणाको लेनेके लिये गये थे, अपने डेरेमें लेगये, और १९ तोपोंकी सलामी सर हुई; डेरेमें एक बड़ा तरुत तय्यार था, जिसपर एक तरफ गवर्नर जेनरल हिन्द और उसके पास वाली कुर्सीपर गवर्नर बम्बई और दूसरी कुर्सियोंपर अंग्रेज अफसर, और तरुतके दूसरी तरफ महाराणा और कुर्सियोंपर उनके सदाँर व अहलकार बैठे; फिर गवर्नर जेनरलकी तरफसे सोने चांदीके सामान समेत २ घोड़े, मरूमली ज़रदोज़ी झूल व सामान समेत १ छोटा हाथी, सरोपाव और मोतियोंकी माला वगैरह जेवर, पश्मीनेका १ शामियाना मए चांदीके वांसों व टाटवाफ़ी पर्दोंके, २ फ़र्शकी दरियां, २ ग़ालीचे, विलायती साज सहित १ तलवार, फ़ौलादी जड़ाऊ ढाल और १ हुनाली बन्दूक पेश हुई, जिनको महाराणाने खुशीके साथ कुबूल किया. गवर्नर जेनरलने महाराणाको इत्र पान देने बाद पेशवाईकी जगहतक पहुंचाकर रुखसत कियां, जाते आते वक्त १९

तोपोंकी सलामी सर हुई.

विक्रमी माघ शुक्ल ५ [हि० ता० ४ रमजान = .ई० ता० ६ फेब्रुअरी] को महाराणाकी मुलाकातके लिये लॉकट साहिब लश्करमें आये. माघ शुक्ल ६ को जयपुर महाराजाकी तरफसे टीकेका दस्तूर आया, और सप्तमी की सुबहको साढ़े दस बजेके करीब गवर्नर जेनरल हिन्द महाराणाके डेरेपर तग्रीफ लाये. रावत जवानसिंह, रावत दूलहसिंह, महता शेरसिंह, महता सवाईराम, और महता मोतीराम वगैरह मुसाहिव गवर्नर जेनरलकी पेशवाईको गये, ड्योढीतक महाराणाने पेशवाई की, और दस्ता पोशी करके खेमेमें लेगये. महाराणा और गवर्नर जेनरल हिन्द एक तरफपर और गवर्नर बम्बई कुर्सीपर और उनके बाद एक तरफ साहिब लोग और दूसरी तरफ सदांर लोग कुर्सियोंपर बैठे; शौकिया बातें होने बाद दूसरे खेमेमें गये, जहां लॉर्ड बेंटिक, गवर्नर बम्बई, व लॉकट साहिब वगैरह चार अंग्रेज, और महाराणा मण रावत जवानसिंह, रावत दूलहसिंह, महता शेरसिंह, महता सवाईराम, महता मोतीराम व पुरोहित श्यामनाथ वगैरहके तख्तियेमें रहे; शुरूमें जावद, नीमच व गोड़वाड़ वगैरह एर्गनोंके मेवाड़के कबजहसे निकल जानेकी बावत जिक्र हुआ, जिसके बारेमें उक्त लॉर्डने शीरीकलामीके साथ जवाब दिया, लेकिन कुछ मत्लब हासिल न हुआ, तब महाराणा ने कहा, कि मैं दो बातके लिये आपकी मुलाकातको यहां आया हूं— अक्वल तो यह, कि शाहपुरा व फूलियासे जंती उठाली जावे, और दूसरे सुभको गयाश्राद्धके लिये जाना है, जिसमें आपकी मदद बहुत कुछ दर्कार होगी. गवर्नर जेनरलने इन दोनों बातोंको मन्जूर करके शाहपुराकी जंती उठानेका तो उसी वक्त हुक्म देदिया, और सफरके बन्दोबस्तका जिम्मह अपने ऊपर लेकर महाराणाका इत्मीनान करदिया. यह बात चीत होचुकने बाद फिर तरफपर आ बैठे; लॉर्ड साहिब व गवर्नर बम्बईको महाराणाने और बाकी अंग्रेजोंको अह्लकारोंने इत्र पान दिया, फिर कपड़ेकी किश्तियां ५१, सरसोभा १, मोतियोंकी माला १, पहंचियां २, ढाल १, तलवार १, बन्दूक १, बुग्दा १, पेशकब्ज १, कटार १, ज़रदोजी जीन सहित घोड़े २, और हाथी १ पेश किये गये, जिनको उक्त लॉर्डने खुशीके साथ कुबूल किया. इस के बाद पेशवाईकी जगहतक महाराणा उनको पहुंचानेके लिये गये, आते जाते वक्त २१ तोपोंकी सलामी सर हुई.

इसी दिन घड़ी भर दिन रहे कोटाके महाराव रामसिंह मण अपने दीवान माधवसिंह भालाके महाराणाकी मुलाकातको आये, और दस्तूरके मुवाफिक मुलाकात व खातिर तवाजो होने बाद वापस गये.

विक्रमी माघ शुक्ल ९ [हि० ता० ८ रमजान = .ई० ता० १० फेब्रुअरी]

को जयपुरके महाराजा जयसिंह मुलाकातके लिये आये; पेइवाई वगैरह सब रस्में दस्तूरके मुवाफिक अदा हुई. इसी रोज महाराणा भी पिछला छः घड़ी दिन रहे हाथी सवार होकर जुलूसकी सवारीसे जयपुर महाराजाके डेरेपर तशरीफ लेगये, और दस्तूरके मुवाफिक मुलाकात करके वापस आये.

विक्रमी माघ शुक्ल १० [हि० ता० ९ रमजान = ई० ता० ११ फेब्रुअरी] की शामको महाराणा कोटाके महाराव रामसिंहसे वापसीकी मुलाकात करनेको सिधारे, और द्वादशीको पुष्कर स्नान के लिये गये, वहां ब्राह्मणोंको दान दक्षिणा वगैरह देकर चतुर्दशीके दिन वापस अजमेरमें आये; पूर्णिमाके दिन नांदले, फाल्गुन कृष्ण १ को भिणाय, और द्वितीयाको धनोप मकाम रहा, तृतीयाके दिन शाहपुरमें दाखिल हुए (१); राजाधिराज माधवसिंहने अपने कद्रदान और पर्वरिश करने वाले मालिककी मिहमानी व अदब आदावमें किसी तरहकी खामी न रक्खी. इस वक्त शाहपुरके लोग मारे खुशीके बदनमें फूले नहीं समाते थे; क्योंकि पर्गनह फूलियासे अंग्रेजी पुलिसकी जब्ती उठजानेसे तो वे खुशी मना ही रहे थे, महाराणाके शुभागमनने उसे दोचन्द बढ़ादिया. बड़े उत्साह व हर्षसे दो दिनतक महाराणाकी मिहमानी हुई. फाल्गुन कृष्ण ६ को महाराणा महुवे पहुंचे, और सप्तमी को बारिश आजानेके सबब वहीं मकाम रहा, अष्टमीको भीलाड़े, नवमीको गाडर-माले, दशमीको रास्मी, और एकादशीको सनवाड़ होते हुए, फाल्गुन कृष्ण १२ के दिन चम्पावागमें पहुंचे, और तमाम दिन वहीं आराम करके पिछला तीन घड़ी दिन रहे राजधानीके महलोंमें दाखिल हुए.

दूसरे रोज, याने फाल्गुन कृष्ण १३ को बम्बईके गवर्नर अर्ल ऑफ क्लेअर (Earl of Clare.) अजमेरसे वापस लौटते हुए उदयपुरमें आये, दस्तूरके मुताबिक महाराणाने उनकी मुलाकात और मिहमानी की.

(१) इस ठिकानेके अधिकारी हमेशह सच्चे दिलसे अपने स्वामीके फर्मावर्दार बने रहे— महाराजा उम्मेदसिंह तो क्षिप्रा नदीपर उज्जैनकी लड़ाईमें महाराणाके अर्थ मारा गया; उसके प्रपौत्र भीमसिंहको महाराणा अरिसिंहने स्वामि भक्त सेवक समझकर पूर्ण अनुग्रहमें रक्खा, और भीमसिंहने भी मरहटोंके ग़दमें तन मनसे महाराणा भीमसिंहकी सेवा की; राजा अमरसिंहने उम्रभर अपने मालिककी नौकरीमें ही चित्त रक्खा, और विक्रमी १८८२ माघ कृष्ण ३ [हि० १२४१ ता० १७ जमादियुस्तानी = ई० १८२६ ता० २६ जैनुअरी] को जब राजधानी उदयपुरमें डाका पड़ा, तो उन डाकुओंको मारकर गया हुआ माल वापस लाये, जिसके इन्आममें महाराणा भीमसिंहसे राजाधिराजका खिताब पाया. विक्रमी १८८४ [हि० १२४३ = ई० १८२७] में राजाधिराज अमरसिंहने राज्य सेवामें रहकर उदयपुर में ही इस दुन्यासे कूच किया, और इसी तरह राजाधिराज माधवसिंहने भी पूर्ण स्वामिभक्त पनेसे अपने मालिककी सेवा की, जिसका बदला महाराणा जवानसिंहने उनको पूरे तौरपर दिया.

विक्रमी १८८९ आषाढ़ शुक्ल २ [हि० १२४८ ता० १ सफ़र = .ई० १८३२ ता० ३० जून] को साह जालिमचन्द भंवरने रु० १२७५०००, में कुल मेवाड़का एक सालके वास्ते ठेका लिया, जिसको महाराणाने मन्जूर फ़र्माया, और उसे मोतियोंकी माला व सरोपाव देकर महता शेरसिंह, महता सवाईराम व पुरोहित श्यामनाथ सहित बड़ी इज्जतसे उसके मकानपर पहुंचाया, लेकिन जालिमचन्दको उस ठेकेमें बहुत नुकसान रहा. इसी वर्षकी श्रावण शुक्ल २ [हि० ता० १ रबीउलअव्वल = .ई० ता० २९ जुलाई] को रीवाके महाराज विश्वनाथसिंहकी बेटी महाराणी बाघेलीका इन्तिकाल हुआ, जिसका महाराणाके दिलपर एक सरत्त सन्नह पहुंचा. विक्रमी १८८९ चैत्र कृष्ण १२ [हि० १२४८ ता० २६ शव्वाल = .ई० १८३३ ता० १८ मार्च] को महाराणाने कप्तान कॉफ़ साहिबकी सिफ़ारिश पहुंचनेके सबब महता रामसिंहको वापस बुलाया, जो कैदकी हालतमें उदयपुरसे भाग गया था; लेकिन जब वह उदयपुरमें आया, तो उक्त महाराणाने यही कहा, कि इस तरहपर भागा हुआ शरत्त हमारा प्रधान बननेके लाइक नहीं है.

विक्रमी १८९० ज्येष्ठ शुक्ल ९ [हि० १२४९ ता० ७ मुहर्रम = .ई० १८३३ ता० २७ मई] को महाराणाने अपने बड़े भाई अमरसिंहकी पत्नी चांपावतको अपनी माताके स्थानमें मानकर बड़े आदर भावसे बाईजीराजकी गद्दीपर बिठाया. विक्रमी आषाढ़ शुक्ल ११ [हि० ता० १० सफ़र = .ई० ता० २८ जून] को ताणाके राज भैरवसिंहकी कन्याका विवाह बेदलाके राव तरत्तसिंहके साथ हुआ. महाराणा भी इस मौकेपर ताणेकी हवेली पधारे, लेकिन दैव योगसे उसीवक्त महाराणी देवडीका इन्तिकाल होगया, और लोगोंने आकर महाराणाको खबर दी. यह खबर सुनकर उन्होंने फ़र्माया, कि इसवक्त इस बातको पोशीदह रखना चाहिये, क्योंकि मैंने राज भैरवसिंहसे उनके आखरी वक्तमें यह वादह करलिया था, कि तुम्हारे बेटेकी पर्वरिश और तुम्हारी कन्याका विवाह मैं अपने हाथसे करूंगा, इसलिये चाहे कुछ ही हो, मैं अपने वाक्यको पूरा किये बिना महलोंमें नहीं आ सकता. महाराणाके ये शब्द सुनकर सब लोगोंके दिलोंपर ऐसा असर हुआ, कि यदि कोई मौका आ पड़े, तो वे अपनी जानतक महाराणापर निछावर करनेमें कोताही न करें. आखरकार उस रात्रिको कन्यादान वगैरहसे फ़ुर्सत पाने बाद महलोंमें पधारे, और सुब्ह होनेपर महाराणीकी यथोचित दग्ध क्रिया करवाई.

फिर तीर्थ यात्राकी तय्यारी करने लगे, और विक्रमी १८९० प्रथम भाद्रपद शुक्ल ३ [हि० १२४९ ता० २ रबीउस्सानी = ई० १८३३ ता० १८ ऑगस्ट] को उदयपुरसे रवानह होकर चंपाबागमें ठहरे, और प्रथम भाद्रपद शुक्ल ७ को चंपाबागसे कूच करके श्री एकलिंगेश्वरकी पुरीमें पहुंचे, और वहांसे पलाणा, बनेड़िया, जूणदा, लाखोलां, गुरलां व भीलाड़े होते हुए विक्रमी द्वितीय भाद्रपद कृष्ण २ [हि० ता० १६ रबीउस्सानी = ई० ता० १ सेप्टेम्बर] को शाहपुरेमें दाखिल हुए; राजाधिराज माधवसिंहने पेशवाई व पगमंडा वगैरहके साथ दस्तूरके मुवाफिक आतिथ्य किया. शाहपुरेसे कूच करके द्वितीय भाद्रपद कृष्ण ५ को ग्राम सांगरे, कादेड़े, केकड़ी, बघरे, राजमहल, हमीरपुर, गलोल, नवाई और दतवास होते हुए लालसोटमें पहुंचे, जहां जयपुरकी तरफसे दुणीका राव जीवणसिंह और दीवान अमरचन्द महाराणाकी खिदमतमें हाजिर हुए, जिनको बहुत कुछ खातिर तवाजोके बाद विदा किया गया. विक्रमी द्वितीय भाद्रपद शुक्ल ९ [हि० ता० ८ जमादियुल-अव्वल = ई० ता० २२ सेप्टेम्बर] को डीगमें पहुंचे, वहां रियासत भरतपुरकी तरफसे दीवान भोलानाथ व नन्दराम दर्बारमें आये, जिनको खिल्अत वगैरह देकर विदा किया. फिर वहांसे द्वितीय भाद्रपद शुक्ल १० को गोवर्द्धनगिरिपर पहुंचे, और वहांसे अपने मज़हबी फर्ज अदा करने बाद रवानह होकर द्वितीय भाद्रपद शुक्ल १२ को चन्दावनमें दाखिल हुए. वहां जप, पूजा व दान पुण्य वगैरह, जैसाकि चाहिये, करके आश्विन कृष्ण २ को मथुरामें मकाम किया; वहां भी तीर्थ यात्रा अच्छी तरहपर की. विक्रमी आश्विन कृष्ण ५ [हि० ता० २० जमादियुलअव्वल = ई० ता० ४ ऑक्टोबर] को गोकुलमें पहुंचे और छठको वहांसे रवानह होकर विक्रमी आश्विन शुक्ल ५ [हि० ता० ३ जमादियुस्सानी = ई० ता० १७ ऑक्टोबर] को कानपुरमें दाखिल हुए, और गंगा स्नान किया. आश्विन शुक्ल १५ को प्रयागमें पधारे, और त्रिवेणीका स्नान व यथोचित दान पुण्य वगैरह करके विक्रमी कार्तिक कृष्ण ७ [हि० ता० २१ जमादियुस्सानी = ई० ता० ४ नोवेम्बर] को वहांसे कूच हुआ, और अयोध्यामें लश्करके डेरे हुए. इस इलाकहमें लखनऊ के बादशाह नसीरुद्दीन हैदरकी तरफसे बहुत कुछ खातिर हुई, और निहायत ही दोस्तीका वर्ताव जाहिर किया गया. मैं (कविराज श्यामलदास) ने अपने दादा और पिताकी जबानी, जो सफरमें महाराणाके संग थे, सुना है, कि महाराणाकी खूबसूरती और सरलता व खानदानकी प्रसिद्धिसे हजारहा आदमियोंकी जबानी जिधर देखिये, यही शब्द सुनाई देते थे, कि “ राजा रामचन्द्रजीकी गद्दीके वारिस एक अरसे दराजके बाद अपनी राजधानी अयोध्याको देखनेके लिये आये हैं.”

राजा दर्शनसिंह (१) महाराणापर उसी तरह हर्ष प्रगट करके फूल उछालते थे, जैसे कि प्राचीन समयमें श्री रामचन्द्रजी महाराजपर इन्द्रादि देवता फूलोंकी वृष्टि किया करते थे. महाराणाने भी वहांकी प्रजासे दिली मुहब्बतका वर्ताव रक्खा. मेरे पिताका बयान है, कि मेवाड़की प्रजासे भी वहांकी रञ्जय्यतने महाराणाके साथसेवा आदिमें जियादह मुहब्बत दिखलाई. अयोध्या की यात्रा समाप्त होने बाद लङ्करका कूच हुआ, और रास्तेमें लखनऊके मोतमद, याने राजा दर्शनसिंहको खिल्अत देकर विदा किया गया. विक्रमी कार्तिक शुक्ल १४ [हि० ता० १४ रजब = ई० ता० २६ नोवेम्बर] को बनारसमें क्रियाम हुआ, जहांपर कुल क्षेत्रों और पंचकोशीकी यात्रा बड़े प्रेमसे की, और वहांके विद्वान पंडितोंकी एक सभा एकत्र करके बहुत कुछ दान पुण्य किया; फिर विक्रमी पौष कृष्ण ३ [हि० ता० १७ शरबान = ई० ता० २९ डिसेम्बर] को वहांसे कूच करके पौष कृष्ण ५५ को गयाजीमें पहुंचे, और वहांपर भी अष्ट तीर्थी व बुध गया वगैरहकी यात्रा और विधि पूर्वक श्राद्ध करके तीर्थ गुरु आसारामको हाथी, घोड़ा, ऊंट, पालकी, रथ, मियाना, सरोपाव, गहना, और ढाल, तलवारके अलावह बहुतसा कीमती सामान सोने चांदीका और १०००० रुपया नकद दक्षिणामें दिया. आसारामके बेटेको कड़ा, डोरा, सरोपाव व पालकी और उसके भतीजेको कड़ा, डोरा, तथा सरोपाव वगैरह बख्शा. तीर्थ गुरु गंगाधरको हाथी, घोड़ा, सरोपाव, गहना व नकद भेंट किया गया. विक्रमी १८९० माघ शुक्ल १ [हि० १२४९ ता० २९ रमजान = ई० १८३४ ता० ९ फेब्रुअरी] को गयाजीसे कूच करके विक्रमी फाल्गुन कृष्ण १ [हि०

(१) ब्राह्मण जातिका राजा दर्शनसिंह लखनऊके नव्वाबकी तरफसे अयोध्याका नाजिम था, जिसके बड़े भाई बख्तावरसिंहको नव्वाब सआदतअलीखांके वक्तमें जागीर और राजाका खिताब मिला था; दर्शनसिंहके बेटे मानसिंहने विक्रमी १९१४ [हि० १२७४ = ई० १८५७] के गद्दमें बहुतसे यूरोपिअन प्रतिष्ठित लोगोंकी सहायता की थी, जिसके एवज गवर्मेण्ट अंग्रेजीकी तरफसे उक्त राजाको महाराजा तथा के० सी० एस० आइ० का खिताब और तअल्लुकह विशम्भरपुरकी जीविका मिली. मानसिंहका इन्तिकाल होजाने बाद उनकी राणीको इस्तिथार रहा, जिसने महाराजा मानसिंहके भाई रघुबरदयालसिंहके बेटे त्रिलोकीनाथसिंहको रियासत लिखदी थी, परन्तु कौन्सिलसे महाराजा साहिबके नवासे लाल प्रतापनारायणसिंह रियासतके वारिस करार दिये गये, जो अवधके तअल्लुकहदारोंमें बड़े दरजेके माने जाते हैं. इस इलाकहमें फैजाबाद, गौंडा, नव्वाबगंज, बारहबंकी, लखनऊ और सुल्तानपुरके जिलोंमेंसे महदूना, भरोली, अहियार, उहेरा, तुलसीपुर और विशम्भरपुर आदि ६६९ गांव हैं, जिनकी सालानह आमदनी ४७९३४८८ ≡ ॥११ है. महाराजाके खानदानमें गद्दी नशीनीका दस्तूर शुरूसे

चला आता है.

ता० १४ शव्वाल = .ई० ता० २४ फेब्रुअरी] के दिन मिर्जापुरमें पहुंचे, और विन्ध्यवासिनी देवीके दर्शन किये. यहांपर रीवांके महाराजकुमार विश्वनाथसिंह भी मण्डौजके आ मिले; फिर वहांसे लश्करका कूच होकर फाल्गुन शुक्ल १ को चित्रकोट में कियाम हुआ, और विक्रमी चैत्र कृष्ण ८ [हि० ता० २१ जिल्काद = .ई० ता० १ एप्रिल] को वहांसे खानह होकर दशमी को रीवांमें पहुंचे, महाराजा जयसिंहदेव अपने पुत्र व पौत्रों सहित पेशवाईको आये, और बड़ी मुहब्बतके साथ हर्ष पूर्वक महाराणाका आदर सन्मान किया; लेकिन जोकि पहिला विवाह महाराणाका महाराजा जयसिंहदेवकी कन्या सुभद्र कुमारीके साथ हुआ था, और उनका देहान्त होजानेसे महाराणाका दिल बहुत रंजीदह व उदास था, इसलिये उन्होंने शुरूमें रीवां पधारनेसे इन्कार किया, और दूसरा कारण यह था, कि रीवां वाले फिर दूसरी शादी करनेके लिये महाराणाको मजबूर करते, जो उनको मजबूर न था, लेकिन विश्वनाथसिंहने शादीकी बाबत जिक्र न करनेका इक्कार करके रीवां पधारनेके लिये अर्ज की; और उसी इक्कारके मुवाफिक चैत्र कृष्ण १४ को नीचे लिखा हुआ सामान नज़में दिया जाकर दस्तूरके मुताबिक महाराणा विदा किये गये.

महाराजा जयसिंहदेवकी तरफसे हथनी १, घोड़े २, सरोपाव ६, बहुतसा गहना, तथा २१०००) हजार रुपया नकद कंठीका; राजकुमार विश्वनाथसिंहकी तरफसे २ हाथी, ४ घोड़े, सरोपाव, गहना, २००००) बीस हजार नकद; दूसरे राजकुमार लक्ष्मणसिंहकी तरफसे हथनी १, घोड़ा २, सरोपाव, ४०००) चार हजार नकद व गहना; और तीसरे राजकुमार बलभद्रसिंहकी तरफसे हाथी १, और घोड़े २ मण्डौज सरोपाव व गहने वगैरहके नज़ हुए.

विक्रमी १८९१ चैत्र शुक्ल १ [हि० १२४९ ता० ३० जिल्काद = .ई० १८३४ ता० ११ एप्रिल] को कूचकी तय्यारी होचुकी थी, कि महाराजा जयसिंहदेव महाराणाकी ड्योढ़ीपर आबैठे, और कहा, कि हमने इक्कारके मुवाफिक महाराणा को विदा करदिया, लेकिन अब हम सम्बन्धकी बाबत अर्ज करनेको आये हैं, और बहुत कुछ स्नेह व नम्रताके साथ महाराणासे अर्ज मारूज की, जिससे लाचार होकर महाराणाको उक्त महाराजाकी अर्ज पूरी करना पड़ा. फिर दूसरे दिन याने चैत्र शुक्ल २ को रीवांकी तरफसे नारियल, हाथी व घोड़ा वगैरह टीकेका सामान पेश होकर सम्बन्ध स्वीकार कराया गया.

विक्रमी चैत्र शुक्ल ५ [हि० ता० ४ जिल्हिज = .ई० ता० १४ एप्रिल] को महाराजा जयसिंहदेवके छोटे राजकुमार लक्ष्मणसिंहकी कन्याके साथ महाराणाका विवाह हुआ. विवाहके उत्सवकी रस्में अदा होचुकनेपर चैत्र शुक्ल १२ को रीवांसे कूच हुआ, और

एक महीना आठ रोज़का सफ़र तै करके विक्रमी ज्येष्ठ कृष्ण ५ [हि० १८५० ता० १७ मुहर्म्म = .ई० ता० २८ मई] को कोटे पहुंचे; कोटाके महाराव रामसिंहने बड़ी मुहब्बत व उत्साहसे पेइवाई वगैरह दस्तूरी रस्में अदा कीं. इन्हीं दिनोंमें वहांका दीवान माधवसिंह गुज़रगया था, इसलिये उसके बेटे मदनसिंहको महाराणाने तलवार बंधाई. ज्येष्ठ कृष्ण ९ को वहांसे कूच करके एकादशीको भैंसरोड़ पहुंचे, और रावत् अमरसिंह की तरफसे मिहमानी हुई; ज्येष्ठ कृष्ण १४ को भैंसरोड़से कूच हुआ, और अमावास्याके दिन वेगममें पधारे; रावत् किशोरसिंहने बहुत अच्छी तरह मिहमानी की, और वहांपर महाराणा ने दो शेरोंका शिकार भी किया. इसके बाद ज्येष्ठ शुक्ल ३ को वेगमसे खानह होकर पंचमीको चित्तौड़गढ़में सकाम किया, और विक्रमी ज्येष्ठ शुक्ल १२ [हि० १२५० ता० १० सफ़र = .ई० ता० १८ जून] को उदयपुरमें दाखिल हुए. यह तीर्थ यात्रा उक्त महाराणाने बड़ी धूम धामके साथ की, जिसमें करीब दस हजार आदमियोंकी फौज उनके साथ रही. पहिले मुसल्मान बादशाहोंके जमानहमें उदयपुरके महाराणाओंको तो ऐसी तीर्थ यात्रा करना कठिन था ही, लेकिन मरहटोंके ग़दके जमानहसे राजपूतानहके दूसरे राजाओंको भी यात्रा करना मुश्किल होगया था, जिसका रास्तह अंग्रेजी अमल्दारीके प्रभावसे पहिले पहिल इन्हीं महाराणाने खोला; और ब्रिटिश गवर्मेण्टके मुलाजिमोंने भी सफ़रमें उनकी इस तरहपर खातिरदारी की, कि महाराणा और उनके साथियोंको यह मालूम न हुआ, कि यह इलाक़ह महाराणाका है, या गवर्मेण्ट अंग्रेजीका.

विक्रमी १८९१ श्रावण कृष्ण ५ [हि० १२५० ता० १७ रबीउलअव्वल = .ई० १८३४ ता० २५ जुलाई] को सलूंवरके रावत् पद्मसिंहने महाराणाको अपनी हवेलीपर मिहमान करके उनके साथ कुल रियासतके लोगोंको ज़ियाफ़त दी, और हाथी १, घोड़ा १, सिरसोभा १, मोतियोंकी माला १, सरोपाव ७ तथा १००००, रुपया नक़द महाराणाके नज़ किया. इसी विक्रमीकी श्रावण शुक्ल १३ [हि० ता० ११ रबी-उस्सानी = .ई० ता० १७ ऑगस्ट] को पीछोला तालावके किनारेपर " जल निवास " नामके महल बनाये, जिसके उत्सवमें बहुतसा इन्आम इक्राम तक़सीम किया गया, और गोठ हुई, याने सर्दार, उमराव, पासवानों तथा सर्कारी मुलाजिमोंको खाना खिलाया गया.

विक्रमी १८९२ चैत्र शुक्ल १५ [हि० १२५० ता० १४ ज़िल्हिज = .ई० १८३५ ता० १३ एप्रिल] को शिवरतीके महाराजा सूरजमल्लका देहान्त हुआ. महाराणाको इनके इन्तिकालका बहुत रंज हुआ, क्योंकि अव्वल तो उक्त महाराजा महाराणाके नज़दीकी रिश्तहदार थे, दूसरे उन्होंने महाराणा भीमसिंहकी तल्लीफ़ोंमें शरीक रहकर बड़ी

खैरखाही और फर्माबदारीसे खिन्नत की थी. इसी वर्षकी वैशाख शुक्ल ६ [हि० १२५१ ता० ५ मुहर्म्म = .ई० ता० ५ मई] को महाराणा भीमसिंहकी छत्रीकी प्रतिष्ठा हुई, जिसमें बहुत कुछ दान पुण्य व इन्आम इक्राम बांटा गया. विक्रमी १८९३ माघ शुक्ल ५ [हि० १२५२ ता० ४ जिल्काद = .ई० १८३७ ता० १० फेब्रुअरी] को बांकीके मगरमें श्री महाकालिकाका मन्दिर संपूर्ण होनेपर उसकी प्रतिष्ठा हुई.

विक्रमी १८९३ माघ शुक्ल ९ [हि० १२५२ ता० ८ जिल्काद = .ई० १८३७ ता० १४ फेब्रुअरी] को रावत् पद्मसिंहकी बेटी अनोपकुंवरकी शादी राजधानीके महलोंमें कोटाके महाराव रामसिंहके साथ हुई. इस विवाहका संपूर्ण खर्च महाराणाकी तरफसे हुआ.

विक्रमी १८९३ फाल्गुन् कृष्ण ३ [हि० १२५२ ता० १७ जिल्काद = .ई० १८३७ ता० २३ फेब्रुअरी] को महाराणाने आबूकी यात्राके लिये उदयपुरसे कूच किया, और गोगूंदे होकर पहाड़ी रास्तेसे आबूकी यात्रा करके फाल्गुन् शुक्ल ११ को वापस उदयपुरमें आये.

यह ऊपर लिखा हुआ हाल मुल्की रवाज व मामूली बातें दिखलानेको लिखा गया है, वरन्ह तवारीखमें दर्ज करनेके काविल इसमें कोई रियासती इन्कलावकी बात नहीं है.


इन दिनोंमें गवर्मेण्ट अंग्रेजीका किसी कद्र खिराज बाकी रहने लगा, जिससे बाज बाज लोग, जो महता रामसिंहके तरफदार थे, उसको प्रधानका उह्दह दिलानेकी कोशिशमें लगे, और रामसिंहकी तरफसे भी एक अर्जी इक्रारनामहके तौरपर पेश हुई, जिसकी नक़ नीचे दर्ज कीजाती है :-

महता रामसिंहकी अर्जीकी
नक़ल.

॥ श्रीरामजी.

सीधश्री श्री श्री श्री १०८ श्री अनदाताजी हजुर, षानाजाद रहेता रामसीध को धरथी हाथ लगाए मुजरो अरज मालम होये, श्री अनदाताजी डीस्वर छे अप्रच, आगे धणी मने बदगी भलाडी, सो मे अरज करी जणी प्रमाणे धणी तो प्रवसती करी, प्या मारी वे समालसे धणी वदगी मोकुब करी, ने अटक हुडी, जदी मारी भोलप से,

वे अकली से नीसर जावारी सला करी, सो या मे बडी बे अकली करी, धणी तो सारारी वरदास राषे है, तो हु तो धणारो कीयो मनष हु, तो मारी तो राषे ही राषे. अब धणी आगली भोलप सामो तो न्ही देषे, आपरा कीयारी पाल देष, मारी प्रतीत जाण सुनजर राषे, जणी में म्हारो नरभाव रहे, अब हु कठे वना मरजी काडी सटपट करु, के कपीरी अरजरो पषत राषु, के धणी वना वोर कीने जाणु, तो मने श्री ऐकलीगजी पुहचे, के म्हारा असट धम पुहचे, धणी मारी सला जत्री बना मरजीरी देषे, पकी साच जसी देषे, तो भलाडी धणी मरजी हो ज्या सज्या दे, जणीरो धणीने दोस न्ही, ने मारी कोडी अरज करे जणीने डी श्री ऐकलीगजीरी आण. या अरज मे मारा तन मनसु मालम कराए लषी सं० १८९४ सावण सद १०.



इस इक्रार नामहके साथ ही अंग्रेजी खिराज बाकी रहजानेकी बाबत महता शेरसिंहकी शिकायतें हुई, लेकिन महाराणाके दिलपर उन शिकायतोंका कुछ भी असर न हुआ, क्योंकि अक्वल तो अजमेरका जल्सह, और दूसरा तीर्थ यात्राका बड़ा सफ़र, जिनमें लाखों रुपया खर्च हुआ था, महता शेरसिंहकी बरिच्यतके लिये काफ़ी सुबूत थे; और शेरसिंह बहुत मुलाइम दिल व दोस्तीका पक्का होनेके कारण उसके बखिलाफ़ बहुत थोड़े आदमी थे, जब शिकायत होती, तो उसीके साथ सिफ़ारिश भी पहुंच जाती थी; और महता अग्रचन्दकी खैरख्वाहियोंका असर भी महाराणाके दिलसे दूर नहीं हुआ था, इसलिये प्रधानेमें किसी तरहकी तब्दीली न होने पाई.

विक्रमी १८९४ कार्तिक कृष्ण ११ [हि० १२५३ ता० २४ रजब = ई० १८३७ ता० २५ अक्टोबर] को इंग्लिस्तानके तरुतपर क्वीन विकटोरियाकी मस्नदनशीनीकी खबर मिलनेपर जशका दर्बार किया गया, और हाथियोंकी लड़ाई तथा २१ तोपोंकी सलामी सर हुई.

विक्रमी १८९५ भाद्रपद शुक्ल ४ [हि० १२५४ ता० ३ जमादियुस्सानी = ई० १८३८ ता० २४ अगस्ट] की रात्रिका जिक्र है, कि महाराणा महलोंमें पौढ़े हुए थे, यकायक उनके सिर (खोपरी) में ऐसा दर्द मालूम होने लगा, कि मानो किसीने कील ठोकदी हो. इस दर्दका बहुत कुछ इलाज किया गया, परन्तु किसीसे कुछ फ़ायदह न हुआ, दिनपर दिन बढ़ता ही गया; और अखीरमें अष्टमीके दिनसे वह यहांतक बढ़ा, कि विक्रमी भाद्रपद शुक्ल १० वृहस्पतिवार [हि० ता० ९ जमादियुस्सानी = ई० ता० ३० अगस्ट] को महाराणाका परलोक वास होगया. इन नेक मिजाज महाराणाके देहान्तका मेवाड़

और राजपूतानहमें अत्यन्त शोक होनेके अलावह हिन्दुस्तानके कई दूसरे हिस्सोंमें भी बहुत कुछ रंज हुआ. नयपालके अमात्य व केटियां (दासी), जो कुछ दिनों पहिले वहांके महाराजाकी तरफसे गजनायक हाथी वगैरह तुहफे लेकर आये थे, वे भी इस शोकके सागरमें डुबकियां लेने लगे, और चारों ओर जहां देखिये, सिवा हाहाकारके और कुछ नहीं सुनाई देता था.

इन महाराणाका जन्म विक्रमी १८५७ मार्गशीर्ष शुक्ल २ [हि० १२१५ ता० १ रजव = ई० १८०० ता० १८ नोवेम्बर] को हुआ था. यह ३७ वर्ष ९ महीना ८ दिनकी उम्रमें परलोकको सिधारे. इनका मझला कद, गेहुवां रंग, पुष्ट शरीर, चौड़ा सीना, गहरी और बड़ी डाढ़ी, सुर्खी माइल सियाह और बड़ी आंखें, व बड़ी पेशानी थी, खूबसूरत इस दरजेके थे, कि जिसकी तारीफ हर एक आदमीकी जवानसे इस वक्त तक जारी है. जैसे कि वह खूबसूरत थे, वैसे ही हंसमुख और शीर्षी कलाम भी थे; अलावह इन खूबियोंके उनमें यह भी गुण था, कि अपने पिताकी तरह हर एक आदमीकी पुश्तैनी खिद्यतोंको याद करके उसकी पर्वरिश करते, किसी नौकरके मरनेपर उसका वारिस बच्चा रह जाता, तो कहते कि इसके पिता हमहैं, और उसी तरह उसकी पर्वरिश करते; नौकरोंको, गलती होने पर भी, बार बार नसीहतके तौरपर समझाते; आम लोगोंपर सख्ती बिल्कुल नहीं करते थे, और रहम दिली तो गोया उनका एक खास हिस्सह था, जो रियासत भरमें किसीको सुयस्सर न हुआ होगा. सब नौकर उनको इष्टदेवके मुवाफिक मानते थे. उक्त दोनों अधीशों अर्थात् महाराणा भीमसिंह व जवानसिंहको आज तक लोग ठंडी सांस भरकर याद करते हैं, और प्रातः कालके समय ईश्वरकी जगह उनका नाम लेकर उठते हैं. स्वामी सेवकोंका जैसा सम्बन्ध इनके जमानहमें रहा, यकीन है, कि उससे बढ़कर कभी न रहा होगा; ऐश, इश्रत व शिकारकी तरफ इनकी तवज्जुह जियादह थी, और रियासती प्रबन्धपर भी ध्यान रखते थे; लेकिन उनका रियासतके जमा व खर्चको अपने हाथमें लेलेनेका विचार पूरा न होसका, मुम्किन था, कि कुछ अरसे बाद यह इरादह पूरा होजाता, परन्तु ईश्वरने उन्हें पहिले ही इस दुन्यासे उठालिया. इनके साथ महाराणी बड़ी भटियाणी, महाराणी बाघेली, पासवान जमुनाबाई, पासवान बाई उदां, पासवान बाई डाई, सहेली प्रवीणराय, सहेली हीरां, और सहेली मनभावन, आठ सतियां हुई.

नयपालका इतिहास.

महाराणा जवानसिंहके समय नयपालके राजाकी तरफसे कुछ आदमी और स्त्रियां मेवाड़के दरवारका मर्दानी व जनानी ढंग तथा रीति रवाज दर्यापत करनेकी गरजसे उदयपुरमें आये थे, और उसी समयसे वहाँके लोगोंका मेवाड़में आने जाने का सिलसिलह जारी हुआ, इसलिये यह सम्बन्ध देखकर उक्त रियासतका कुछ थोड़ासा इतिहास इस जगहपर दर्ज कियाजाता है.

नयपालका जुग्राफियह.

नयपालका राज्य हिमालय पर्वतके दर्मियानी हिस्सहके दक्षिणी ढालके किनारे ५१२ मीलकी लम्बाई और १२० मीलकी औसत चौड़ाईमें ८०° ६' से ८८° १४' पूर्व देशान्तर और २६° २५' से ३०° १७' उत्तर अक्षांशतक फैला हुआ है. इस राज्यके उत्तरमें हिमालय पर्वत और तिब्बत, पूर्वमें मेची नदी व सिक्किम, दक्षिणमें हिन्दुस्तान का सूबह अवध तथा बंगालके जिले, और पश्चिममें महाकाली नदी तथा सर्कार अंग्रेजी के कमाऊं व रुहेलखण्ड नामके जिले बाके हैं. इसका रकबह ५४००० मील मुरब्बा, और आवादी अनुमानसे ४० लाख (१) मनुष्योंकी समझी जाती है; क्वाइदी फौजकी तादाद करीबन् बीस या बाईस हजार (२) है, जिसमेंसे १५००० पन्द्रह हजार खास राजधानीमें, १५०० पन्द्रह सौ पाल्पा स्थानमें, ५०० पांच सौ ठाड़ामें, ५०० पांच सौ धनकुटामें, और ४००० चार हजार इलाकहमें मुत्फरक मकामातपर तर्जनात है. खालिसहकी सालानह आमदनी १००००००० एक करोड़ रुपयेके करीब और इसीके

(१) डॉक्टर हंटर यहांकी आवादी सिर्फ २० लाख लिखते हैं, और नयपाली लोग ५० लाखसे भी अधिक बतलाते हैं, लेकिन यहांपर जो मूलमें ४० लाख दर्ज की गई है, वह हेनरी एम्ब्रोजके लेखके अनुसार है.

(२) हेनरी एम्ब्रोज सन् १८८० ई० के हालमें लिखते हैं, कि आज कल इस रियासतमें लड़ाईके वक्त काम देनेवाली सेनाकी संख्या ५६५८० है, जिसमें क्वाइदी तोपखानह सहित २७११४ सवार व पैदलोंके सिवा २९४६६ हथियार बन्द लोग दूसरे हैं, जिनकी संख्या सिपाहियोंमें नहीं समझी जाती; और ३६ बड़ी तथा ८ कई प्रकारकी छोटी छोटी तोपें हैं; लेकिन मूलमें जो फौजकी तादाद दर्ज है, वह नयपालके रहनेवाले पंडित टंकनाथके जबानी बयानके मुताबिक लिखी गई है.

लगभग खर्च समझा जाता है. सरकार अंग्रेजीकी तरफसे राज्यकी सलामी २१ तोपके अलावह वजीरकी सलामी १९ तोप, कमाण्डरइञ्जीफकी १७, चार कमांडिङ्ग जेनरलोंकी पन्द्रह पन्द्रह तोप, और इनके सिवा दूसरे जेनरलोंकी भी सलामी १३ से ११ तोपतक है. ये ऊपर लिखे हुए उद्देदार वजीरोंके खानदानमेंसे होते हैं.

हेनरी एम्ब्रोज अपने बनाये हुए नयपालके इतिहासमें लिखते हैं, कि विक्रमी १८७२ [हि० १२३० = ई० १८१५] के पहिले नयपालका राज्य बहुत ही बड़ा था, और कमाऊं व सतलज नदीतक कुल पहाड़ी जमीन इसमें शामिल थी, लेकिन डेविड ऑक्टरलोनी साहिबने उन सूबोंको गोरखा लोगोंसे छीन लिया, और विक्रमी १८७३ [हि० १२३१ = ई० १८१६] में सरकार अंग्रेजी व नयपालके मुल्ककी दर्मियानी सीमा महाकाली नदी करार पाई.

देशके कुद्रती हिस्से व सूरत- नयपालके राज्यकी कुल भूमि पहाड़ी और ऊंची नीची है, जगह जगह गहरी घाटियां और ऊंची पहाड़ियां नजर आती हैं. पहाड़ियोंके भीतर पश्चिममें कमाऊंसे पूर्वकी ओर सिकिमतक नयपालके राज्यको बहुत बड़े और ऊंचे पहाड़, जो नन्ददेवी, धवलगिरि, गुसाईंस्थान और किंचिजिंगा पहाड़ोंकी ऊंची चोटियोंमेंसे क्रमसे निकले हैं, तीन बड़े कुद्रती हिस्सोंमें तकसीम करते हैं, जो करीब करीब चारों ओर पहाड़ोंसे घिरे हुए हैं; इन सब का ढाल दक्षिणकी तरफ है, और उनमेंसे पहिला करनाली अर्थात् घाघरा नदीका पहाड़ी खाल, दूसरा बीचका हिस्सह या गंडक नदीका पहाड़ी खाल, और तीसरा पूर्वी हिस्सह अथवा कोशी नदीका पहाड़ी खाल कहलाता है. इन तीन बड़े हिस्सोंके अलावह एक चौथा छोटा हिस्सह अथवा जिला अलग है, जिसमें वर्तमान राज्यकी राजधानी है. राज्यके दक्षिणी भागमें पाल्पा और बटव पहाड़ियोंके नीचे तथा उरेका नदीसे पूर्व मेची नदीके किनारेतक बाहिरी पहाड़ियों व अंग्रेजी सहरदके बीचकी नीची जमीन, जिसका विस्तार २०० मीलसे अधिक है, नयपालकी तराई कहलाती है, जहां यूरोप तथा अन्य देशोंके सैर करनेवाले प्रतिष्ठित लोग, जो हिन्दुस्तानकी यात्राको आते हैं, अक्सर शिकारके लिये जाकर वहां क्रियाम करते हैं. तराईके ऊपर अर्थात् उत्तरको, दस दस बारह बारह कोसतक पहाड़ हैं, उन पहाड़ोंको तै करने बाद बड़ी बड़ी लम्बी चौड़ी दूनें मिलती हैं, जिनमें कोसोंतक सिवा मिट्टीके पत्थर नजर नहीं आता, और उनसे आगे बढ़कर उत्तरकी तरफ बर्फिस्तानी हिमालय पहाड़ है. पहाड़ियोंके नीचे कहीं कहीं जंगलमें और कहीं कहीं नदियोंके तीरपर, जहां जंगल कटकर खेड़े तथा गांव बसगये हैं, छोटे छोटे

खेत फैले हुए हैं. मोरंगको छोड़कर तराईकी जमीन अक्सर अधिक सेराव व उपजाऊ है, जिसमें बालू, काली मिट्टी और चिकनी मिट्टी पाई जाती है; हर किस्मका अनाज, ऊख, अफयून, और तम्बाकू वगैरह चीजें इस जमीनमें अच्छी तरह पैदा होती हैं.

पहाड़—इस राज्यके उत्तर और हिमालय पहाड़ सिलिसलेवार बहुत दूर तक फैला हुआ है, जो नयपाल और चीनी सूबोंके दरमियान एक कूद्रती सीमा है; हिमालय पर्वतके उस भागकी ऊंचाई, जो नयपालकी ओर झुका हुआ है, १६००० फीट से लेकर २८००० फीट तक है; यह हमेशा बर्फसे ढका रहता है, और जगह जगहसे पानीके भरने जारी रहते हैं; इसकी सबसे ऊंची चोटियों अथवा शिखरोंमेंसे गुसाईस्थान और मुक्तिनाथ अथवा धवलगिरि पहाड़ तो नयपालकी सीमामें हैं, और नन्ददेवी, तथा किंचिजिङ्गा कुछ फ़ासिलेपर बाके हैं. गुसाईस्थान और मुक्तिनाथका पहाड़ २४००० फीटसे भी अधिक ऊंचे हैं.

गुसाईस्थान पहाड़ धवलगिरिसे १८० मील पूर्वकी ओर नयपालकी घाटीके उत्तरमें बाके है.

धवलगिरि या मुक्तिनाथका पर्वत नन्ददेवीसे २०० मीलके अनुमान पूर्वकी तरफ गोरखपुरके उत्तरमें बाके है.

नन्ददेवी नामका पहाड़ नयपालसे सम्बन्ध रखनेवाले हिमालयके भागकी पश्चिमी सीमापर कमाऊके अंग्रेजी सूबेके बीचमें है. इस पर्वतसे वह धारें निकलती हैं, जिनके संयोगसे काली नदी बनी है.

किंचिजिङ्गा पर्वत गुसाईस्थान पहाड़से १३० मील पूर्व दिशामें नयपाली हिमालयकी सबसे पूर्वी चोटी है; यह पहाड़ सिक्किम देशके ऊपर और किसी कूद्र नयपालके चन्द पूर्वी सूबोंपर भी झुका हुआ है; इसके दक्षिणी ओरसे निकलने वाली शाखा सिक्किम और नयपालके बीचकी सीमाका एक भाग है.

जंगल—यह इलाक़ह पहाड़ी और सेराव होनेके सबब चारों ओर जंगलसे ढका हुआ है, आवादी बहुत कम हिस्सोंमें पाई जाती है, जंगलोंमें जहाँपर बर्फ गिरता है, देवदारू व निगाला (छोटी गांठों वाला बांसकी किस्मका एक वृक्ष) आदि वृक्ष और बर्फके नीचे वाले जंगलोंमें साल (साखू), चीढ़, साग, सेमल, चंपा, आम, महुवा, जामुन और कहीं कहीं बड़, पीपल, नीम, खनाया और खसरता (१), बांस, बकायन, सीताफल और भिलामा वगैरह बहुतसी किस्मके दरख्त होते हैं. तराई अर्थात् कजलीवनमें, जिसका जिक्र पहिले भी होचुका है, साल, शीशम, साग आदि अनेक प्रकारके दरख्तोंका गुंजान जंगल फैला हुआ है, कहीं कहीं

(१) नयपालके लोग इन दरख्तों को काटकर गाय, भैसोंको खिलाते हैं.

नींबू, नारंगी और दो प्रकारके जंबीर (१) भी पाये जाते हैं. जंगली जानवरोंमेंसे ऐसे जानवर बहुत ही कम होंगे, जो इस इलाक़हके जंगलोंमें न पाये जाते हों. हरिण, थार, सांभर, चीता, सिंह, रीछ, बुवासा (२), खरगोश और चीतल वगैरह जानवर चारों ओर फिरते दिखाई देते हैं. बर्फिस्तानके आस पास कस्तूरिया हरिण, मुश्कबिलाई और नाहर पायेजाते हैं. तराईके जंगलमें हाथी अधिक होनेके अलावह अरना भैंसा, नील गाय, और गौरी गाय वगैरह सब तरहके जानवर रहते हैं. गौरी गायके सींगोंसे नयपाली लोग शिवके लिये जलहरी बनाते हैं; यह जानवर मनुष्यको मारनेके लिये बहुत पीछा करता है, यहांतक, कि अगर आदमी दरख्तपर भी चढ़जावे, तो तीन तीन दिनतक उसी वृक्षके नीचे घूमा करता है. पक्षियोंमें बाज़, बहरी, मैना, पट्टू, चकोर, तीतर, मोर व जंगली मुर्गे वगैरह जानवर देखनेमें आते हैं, और बर्फिस्तानी मकामातमें मुहनाल नामका बहुत खूबसूरत और मोरसे कुछ छोटा लाल रंगका एक पक्षी पायाजाता है, जिसके कुल शरीरपर सिफ़ेद व हरे छींटे होते हैं. नयपाली लोग नर पक्षीको ' डांफे ' और मादहको ' मुहनाल ' नामसे पुकारते हैं.

धातुकी खानें— इस राज्यमें राजधानी काठमांडूसे दस बारह कोसके फ़ासिलेपर इलाक़हमें पश्चिमकी तरफ़ तांबेकी बहुतसी खानें और उत्तर पश्चिम कोणमें करीबन् १८ कोस की दूरीपर गंधककी एक खान है. लोहेकी खानें यहां बहुतसी जगह पाई जाती हैं, और राजधानीसे कुछ दूर एक शोरेकी खान तथा इलाक़हके बाज़ बाज़ स्थानोंमें सीसे, रांगे, हरिताल, और सिंदूरकी खानें भी हैं.

नदियां— महाकाली या सरजू नदी, करनाली या घाघरा नदी, राप्ती, सप्त गंडकी और सप्त कोशी इस राज्यकी प्रसिद्ध नदियां हैं, जिनका मुफ़स्सल हाल मए उनकी सहायक धाराओंके नीचे लिखा जाता है:—

महाकाली या सरजू नदी— यह नदी नन्ददेवी पहाड़के पूर्व तरफ़ बहती हुई पहाड़ियोंके भीतर ९० मीलके करीब दक्षिण दिशामें जाती और नयपालके राज्यको सर्कार अंग्रेज़ीके सूबह कमाऊंसे जुदा करती है. यह रेतीले पहाड़की एक घाटीमें होकर मैदानमें

(१) यह फल सूरत, शकल व रंगमें नारंगीसे बहुत कुछ मिलता जुलता और स्वादमें उससे बढ़कर होता है.

(२) यह जानवर क़दमें कुत्तेसे किसी क़द्र बड़ा और सूरतमें सूअरके समान होता है, इसके पंजों व पूंछके सिरेपर, याने अखीरमें गुच्छेदार बाल होते हैं. इसकी निस्वत कहा जाता है, कि यह हर एक चौपायेके पेटसे आंति निकालकर उसे मार डालता है, और वही उसकी खुराक है.

पहुंचनेके बाद दक्षिण और पूर्वकी ओर गुजरती हुई ५० मीलतक नयपाल और अंग्रेजी सूबह रुहेलखण्डकी दर्मियानी सीमा काइम करती है, और वहांसे हिन्दुस्तानके सूबह अवधमें दाखिल होकर घाघरा या करनाली नदीमें शामिल होजाती है.

करनाली या घाघरा नदी- इसका पहिला नाम खासकर उस हिस्सहका है, जो पहाड़ियोंके दर्मियान होकर गुजरता है, और जब खुले हुए मैदानमें दाखिल होती है, तो वहां घाघरा नामसे पुकारी जाती है. इसकी सबसे बड़ी शाखा करनाली बर्फके पहाड़के उत्तर मानसरोवर झीलके पाससे निकलती है, और तकलखर घाटीमें होकर नयपालके राज्यमें प्रवेश करती है, यहांसे नयपालकी कई छोटी छोटी नदियों और नालोंका पानी लेती हुई पहाड़ियोंके बाहर गुजरकर चौड़े मैदानोंमें दाखिल होती है, और वहांपर बहुत छोटे नदी नाले और काली तथा राप्ती नदियों को अपने शामिल लेती हुई दीनापुरसे कुछ ऊपरकी तरफ चौड़े पाटसे गंगा नदी के साथ जा मिलती है.

राप्ती नदी- यह धवलगिरि पर्वतके पश्चिमी ढालसे निकलकर करनालीकी ओर आजाती है, और आसपासकी पहाड़ियों व भीतरी पहाड़ी सिलिसलेसे निकली हुई बहुतसी नदियोंको अपने शामिल करती हुई पहाड़ियोंमेंसे गुजरकर अवधके उत्तर पूर्व कोणको पार करती और वहांसे गोरखपुरके जिलेमें होकर घाघरा नदीसे जा मिलती है.

गंडक नदी- जो सप्त गंडकीके नामसे भी प्रसिद्ध है, हिमालय पहाड़से निकलकर रियासत नयपालके मध्य भागमें बहती है, और १- बरीगर, २- नारायणी या शालिग्रामी, ३- इवेत गंडकी, ४- मरस्यंगदी, ५- दर्मदी, ६- गंडी, और ७- त्रिशूल गंगा नामकी सात नदियोंको साथ लेती हुई, जो बर्फ या आस पासकी पहाड़ियोंके मुत्फर्रक मकामातसे निकलकर मैदानकी तरफ आती हुई एक दूसरीके निकट चली आती हैं, और जिनसे इसका नाम सप्त गंडकी मशहूर है, गंडक घाटीमें होकर पहाड़ियोंसे बाहिर निकलती हैं, और यहांसे पूर्व तथा दक्षिणकी तरफ बहकर सारनके अंग्रेजी सूबहमें बहती हुई पटना नगरके साम्हने हरिहर क्षेत्रमें गंगाके शामिल होजाती है. इस नदीकी शाखाओंमेंसे बरीगर नदी धवलगिरि पर्वतके पूर्वी ढालसे निकलकर दक्षिण और पूर्वकी तरफ सूबह खांची और इसके दक्षिण ओर गुल्मीके जिलेको सूबह मलीवूसे जुदा करती हुई नारायणी नदीमें जा मिलती है. नारायणी नदी धवलगिरि पहाड़में कई धाराओंसे निकलती है, जिनमें मुख्य और सबसे बड़ी सहायक

धारा या तो मुक्तिनाथपर अथवा इससे कुछ दूर उत्तरकी ओर मुस्तांको जानेवाली

सड़कपर निकलती है, इस नदीको शालिग्रामी इस कारण कहाजाता है, कि इसके पेटमें और खासकर उस स्थानके पास जहांसे, वह निकली है, शालिग्रामकी मूर्तियां अर्थात् छोटे छोटे गोल कीमती पवित्र पत्थरके टुकड़े पाये जाते हैं; इस नदीका बालू धोनेसे कुछ सोना भी निकलता है. ये दोनों नदियां मिलकर काली गंडकके नामसे दक्षिण तथा पूर्वकी तरफ बहती हुई पाल्पा सूबहकी दक्षिणी सीमा काइम करती हैं, और इसको गढ़-हून जिलेसे जुदा करती हुई चितवनकी घाटीतक पहुंचकर देवघाटपर दूसरी गंडकों के संगमसे जा मिलती है. श्वेत अथवा सेती गंडकी नदी मुस्तां घाटीके पूर्व तरफ मछिया पूंछर (मछलीकी पूंछ) नामी पहाड़के बर्फसे निकलती है, और ठीक दक्षिणमें बहती हुई देवघाटके निकट कैफुलघाटपर त्रिशूल गंगासे मिलजाती है. मरस्यंगदी नदी बर्फिस्तानी पहाड़के रुईभोट डूंगरमें लमजुंके उत्तर और गोरखाके पश्चिमोत्तर लकवाबसियारी स्थानसे निकलकर दक्षिणकी ओर श्वेत गंगा नदीके बराबर बहती और गोरखा सूबहकी पश्चिमी हद काइम करती हुई देवघाटके निकट त्रिशूल गंगासे जा मिलती है. दर्मदी नदी टाकू पहाड़पर माला पर्वतके पश्चिम और गोरखाके उत्तर बर्फमेंसे निकलकर, और दक्षिणकी तरफ गोरखा सूबहमें बहने बाद धरबंङ्ग घाटपर गंडी नदीसे मिलजाती है. गंडी नदी माला नामी पहाड़से निकलकर गोरखा सूबहमें गुजरती हुई दर्मदी नदीसे मिलने बाद त्रिशूल गंगामें मिलती है, और त्रिशूल गंगा, जो गंडककी शाखाओंमेंसे सबसे पूर्वी है, गुसाईंस्थान पर्वतके बहुत ऊंचे शिखरोंके नीचे वाली एक घाटीके बाईस भील या कुंडोंमें सबसे बड़े झीलसे निकल कर पश्चिम और दक्षिणकी तरफ बहने बाद नयपालसे गोरखा सूबह और लमजुं व तनहुं जिलोंको अलग करती है. इस नदीका भी बालू धोकर सोना निकालते हैं; इस में रसूआ नामकी एक नदी शामिल हुई है, जो केरुं घाटीके पाससे निकलती है, रमचा स्थानके नीचे यह बड़ी गंडकसे जा मिली है, और उस शहरसे ३ या ४ मील नीचे हटकर तादी या सूरजवती नदी इसमें गिरती है, जो त्रिशूल गंगाके निकाससे २ या ३ मीलकी दूरीपर गुसाईंस्थानकी बाईस झीलोंमेंसे सूर्यकुण्ड नामके सबसे पूर्वी भीलसे निकली है. तादी नदी पहिले कुछ कुछ पूर्वकी ओर बहती है, और बाद इसके पश्चिमको फिरकर जिवजिवियाके दक्षिणी आधारको तर करती और अपनी मददगार लिखू तथा सिंदूरिया नदियोंको साथ लेती हुई नुवाकोटकी घाटीमेंसे गुजरकर देवीघाट मकामपर त्रिशूल गंगासे जा मिलती है. तादी और त्रिशूल गंगाके संगमसे ३ या ४ मीलके फासिलेपर एक लकड़ीका पुल त्रिशूलीपर बना है, जिसपर होकर काठमांडूसे गोरखाको सड़क गई है; इस पुलपर रियासतकी तरफसे सिपाहियोंका पहरा रहता है, जबतक कि कोई मुसाफिर गोरखाका हो अथवा

नयपालका हो, राज्यसे पर्वानह हासिल न करले, इसको पार नहीं कर सका. बर्सातके मौसममें त्रिशूली तथा तादीका पानी बहुत जल्द बढ़ता और बड़े वेगसे बहता है, यहांतक, कि बड़े बड़े पत्थर और चटानोंके टुकड़े उसके साथ देवीघाटतक टकराते हुए बहकर चले आते हैं.

ऊपर बयान की हुई नदियोंके अलावह और भी कई छोटी पहाड़ी नदियां गंडक नदीमें मिलती हैं, जिनमेंसे राप्ती नदी, जो भीमफेदीके पाससे निकलकर हथवाराके पास और चितवनकी घाटीमें होती हुई पश्चिमकी तरफ सोमेश्वर पहाड़से १५ मील उत्तर गंडक नदी में गिरती है, अधिक प्रसिद्ध है.

सप्त कोशी नदी— यह नदी नयपालके उस पहाड़ी भागसे निकली है, जो हिमालय पर्वतके ऐवरेस्ट नामी शिखरके पश्चिममें बाके है. इसमें उन सात मुख्य नदियों अर्थात् मिलम्ची, भोटे कोशी, तांबा कोशी, लिखू, दूध कोशी, अरुण और तमोर के सिवा, जिनके मिलनेसे इस नदीका नाम सप्त कोशी रक्खा गया है, कई छोटी नदियां और भी गिरती हैं. ऊपर लिखी हुई तमाम नदियां बर्फिस्तानी पहाड़ोंसे निकलकर पहाड़ियोंके दरमियान एक दूसरीके बराबर बहती हुई नीचेकी तरफ बाराह क्षेत्र स्थानके पास आपसमें मिलजाती हैं, जहांसे इन सबका पानी एक बड़ी नदी बनकर मैदानमें दाखिल होता है. पहाड़ियोंके बाहिर निकलने बाद कोशी नदी अपने दाहिने किनारेकी तराईको बाएं किनारे परके मोरंग नामी नयपाली सूबहसे जुदा करती, और बाद उसके इलाकह अंग्रेजीमें दाखिल होकर पुर्निया जिलेमें बहती हुई बगलीपुरके कुछ नीचे तथा राजमहल पहाड़ियोंके पूर्वोत्तरी कोणके साम्हने गंगा नदीमें गिरती है. मिलम्ची नदी गुसाईस्थान पर्वतके पूर्व तरफ जिवजिबियासे निकलती और पहाड़ियों तथा घाटियोंमें बहती हुई दौलतघाट मकामपर भोटे कोशीसे संगम करती है. भोटे कोशी नदी तिब्बतमें टिंगरी मैदानसे निकलकर एक घाटी में बहने बाद मिलम्चीसे जा मिलती है, और वहांसे दोनों एकत्र होकर सुन् कोशी नामसे बाराह क्षेत्र घाटपर अरुण और तमोरके संगमसे मिलजाती हैं. तांबा कोशी, लिखू और दूध कोशी, ये तीनों कुती और हथिया घाटियोंके दरमियानी बर्फके पर्वतसे निकलती और दक्षिण पश्चिमकी तरफ एक दूसरीसे समानान्तर रेखापर बहती हुई सुन् कोशी नदीमें दाखिल होती हैं, जो इसी तरहपर जिलेकी पांच नदियोंका पानी लेती हुई कोशीमें जा मिलती है. अरुण नदी सप्त कोशीकी सबसे बड़ी सहायक नदी है. इसके कई निकास हैं, जिनमेंसे चन्द बर्फिस्तानी पहाड़के उत्तरी अथवा तिब्बतकी तरफ और चन्द दक्षिणकी तरफ हैं, परन्तु मुख्य निकास भोटे कोशीके

निकाससे निकट ही है, जहांसे यह निकलकर हथिया घाटीमें होती हुई नयपालमें प्रवेश करती है, और इलाकहकी कई छोटी नदियोंका पानी लेकर मैदानमें दाखिल होनेसे पहिले बीजापुर नगरसे २० मील पश्चिमोत्तर कोणपर बाराह क्षेत्र घाटके पास सुन्नू कोशीसे जा मिलती है. तमोर नदी, किंचिजिंगा पहाड़के पश्चिमी ढाल तथा सींगीलैला पहाड़से निकलती, और दक्षिण पश्चिम तरफ बहकर बाराह क्षेत्र घाटपर अरुण व कोशी नदियोंमें जा गिरती है.

झील या तालाव—नयपालके राज्यमें मुख्य तीन झील हैं, जो काठमांडूसे ४६ कोस पश्चिम पोखरा नामी कस्बहके आसपास दो दो तीन तीन कोसके फासिलेपर एक ही जगह हैं, जिनमें सबसे बड़ा फेवा ताल है, जिसका घेरा अनुमान तीन कोस के समभा जाता है, और दूसरे दो भी इसीके लगभग अथवा कुछ कम लम्बे चौड़े हैं; इनके सिवा और कोई कुद्वती झील या बांधा हुआ प्रसिद्ध ताल नहीं है. करीब करीब कुल मुल्क पहाड़ी और बर्फिस्तानी होनेके सबव झरनोंके छोटे छोटे कुंड अल्बत्तह हर एक जगह कस्त्रतसे दिखाई देते हैं.

आव हवा व बारिश—पहाड़ी आव हवा यहांकी अच्छी है, और खासकर उन स्थानों की, जहां बर्फ गिरता है; वहांके रहनेवाले लोग बहुत कम बीमार होते हैं, बल्कि अन्तकाल के समयसे पहिले बीमार ही नहीं होते; पहाड़ोंके बीच बीच व्यासी (खोल या खादरे) में, जहांपर चावल वगैरह पैदा होते हैं, आव हवा विल्कुल खराब है. इस जगह “अवल” नामक एक प्रकारका बुखार इस कस्त्रतसे होता है, कि अगर मनुष्य एक रात भी वहां रहजावे, तो बुखार जरूर उसको लिपट जाता है. कहते हैं, कि इस ज्वरका रोगी या तो पांच दस रोजमें मर ही जाता है, या छः महीनेसे तीन वर्ष तक बराबर कष्ट भोगता है; यह बीमारी आठ महीने, याने चैत्रसे कार्तिकतक बड़े जोर शोरके साथ रहती है, केवल चार महीनेके लिये लोगोंको आराम लेने देती है.

नयपालके चितवन नाम एक स्थान (जंगल) में यह बुखार अपना इसकद्र जहरीला असर करता है, कि गत समयमें यदि नयपालके राज्यमें किसी अपराधीको मौतकी सजा देना होता, तो उस मनुष्यको उक्त जंगलमें लेजाकर दही व चिवड़ा खिलाने वाद वृक्षोंके हरे पत्तोंपर सुलाकर ऊपरसे पत्ते ढक देते थे; थोड़ी देर वाद उस बुखार (अवल) का अपराधीके शरीरपर ऐसा तेज असर होता था, कि मानो हुकम होते ही जल्लादने काम तमाम किया हो, एक ही शतमें मनुष्य मरजाता था; परन्तु यह रवाज हालमें बन्द है. तराईके वाशिन्दे थारू (किसान जाति) इस रोगके मारे एक बुरी शकलके

और हमेशह बीमार रहते हैं, उनके हाथ पैर पतले और पेट बड़ा होजाता है, आंखें और बदन बिल्कुल जर्द दिखाई देने लगता है. इसी ज्वरके भयसे व्यासी (खादरों) में तो चावल आदि की खेती करनेके अलावह कोई शरूस दिन या रातको वहां नहीं रहता; इस बीमारीका हमलह नींदकी हालतमें एक दम होता है, इस कारण ऐसे स्थानोंमें किसान लोग भी रातको नहीं रहते. सप्त कोशी व सप्त गंडकी नामी नदियोंकी धाराओंके किनारे चालीस पचास कदमके फ़ासिलेतक तो सोने बैठनेमें कुछ हर्ज नहीं, क्योंकि वहांपर इस ज्वरका असर नहीं होता. नयपाल राज्यके सब स्थानों (व्यासी) में पहाड़ोंकी ऊंचाईपर पाव कोसतक अवल अपना पूरा पूरा असर करता है, जहां सर्दिके दिनोंमें पहरभर दिन चढ़ेतक सूर्य नहीं दीख पड़ता, केवल धुंध छाया रहता है. बर्फ़के स्थानोंमें सदैव थोड़ी बहुत वर्षा होती रहती है, बाकी मकामातपर वर्षा ऋतुमें मेह खूब बरसता है, और वैशाख महीनेमें भी अवश्य एक दो बार पानी अच्छा होजाता है, बल्कि यों कहना चाहिये, कि आश्विन महीनेसे पौषके अखीरतक केवल चार मास छोड़कर बाकी आठ महीनोंमें थोड़ा बहुत पानी बराबर बरसता रहता है, और यही कारण वहांपर अकाल कम पड़नेका है. नयपालकी तराईमें वर्षा ऋतुमें मामूली तौरपर पानी बरसता है. इस मुल्कके पहाड़ी ग्रामोंमें कुएं नहीं हैं, वहांके निवासी झरनोंसे काम चलाते हैं, अल्बत्तह नयपालके बड़े शहरों काठमांडू, भदगांव व पाटण आदिमें अक्सर हरएक शरूसके घरमें इंदार (कुएं) हैं, जिनमें ज़ियादहसे ज़ियादह दस हाथकी गहराईपर पानी पाया जाता है.

पैदावार— यहांकी मुख्य पैदावारी चीजें चावल, मक्का, कोदूं, उड़द, मूंग, चवला, कुछ कम जवार, गेहूं, जव, तिल, कपास, दो प्रकारका मटर, तीन चार प्रकारका सांठा (ऊख), और आलू, पिंडालू, मूली, बैंगन, खुरसानी (लाल मिर्च), धनिया, हल्दी, अजवाइन, सौंठ, बड़ी इलायची, सरसों, राई, पाट (सण), पियाज व लहसुन, वगैरह कुल चीजें थोड़ी बहुत होती हैं. तराईमें चना, मसूर, अरहड़, तम्बाकू, अफ़यून और किसीक़द्र कुसुम भी पैदा होता है. भंग, गांभा, और चरस कस्त्रतसे निपजता है.

जात और फ़िके— इस देशमें नीचे लिखे मुवाफ़िक जातियोंके मनुष्य रहते हैं:—

ब्राह्मण— पूर्विया और कुर्माचली ब्राह्मणोंके सिवा, जो अस्लमें कान्यकुब्ज हैं, नयपालमें चन्द महाराष्ट्र और मैथिल ब्राह्मण भी रहते हैं. जैसी (गोलक) जातिके ब्राह्मण, जो इस देशमें विशेष पायेजाते हैं, अस्लमें ब्राह्मण नहीं हैं, बल्कि वह एक दोगली नस्ल है, अर्थात् पतिके मरजाने बाद जब कोई विधवा ब्राह्मणी किसी दूसरे ब्राह्मणसे

संगम करती है, और उससे जो सन्तान उत्पन्न होती है, वह जैसी (गोलक) कहलाती है.

क्षत्रियोंमेंसे, जिनको नयपालके देशमें ठकुरी कहते हैं, सिंह, साही, मल्ल, शेन और चन आदि जातियोंके लोग पहाड़ी और वहांके प्राचीन बाशिन्दे तथा उत्तम राजपूत समझे जाते हैं. इनके सिवा हमाल नामकी एक और जाति है, जिसकी उत्पत्ति ब्राह्मण जातिके पुरुष और क्षत्री जातिकी कन्यासे बतलाते हैं. इन सबके आपसमें सम्बन्ध होते हैं.

खस भी एक प्रकारके क्षत्री हैं, ये लोग पांडे, थापा, बोहरा, पन्थ, वस्न्यात, कारकी, विष्ट, अधिकारी, बानिया, घरती, कंवर, भंडारी, और मांभी आदि पदसे पुकारे जाते हैं, इन सबके आपसमें विवाह शादी होते हैं. जो सन्तान ब्राह्मण पुरुष और दूसरे किसी अन्य वर्णकी स्त्रीसे उत्पन्न होती है, वह यहांपर खत्री जातिके नामसे प्रसिद्ध है. तीन पीढ़ीतक खत्रियोंका विवाह सम्बन्ध खत्रियोंमें ही होता है, और इसके बाद वे खसोंमें मिलजाते हैं.

सिपाहगरीका पेशह इस राज्यमें मुख्य सात जातिके लोग करते हैं, अर्थात् ठकुरी, खस, मगर, आगरी, गुरुं, लिम्बू, और किरांती. भाट, सन्यासी, जोगी कंवर, खवास, चेपांग और लामा जातिके लोगोंके हाथका जल ब्राह्मणतक पीलते हैं. सारकी, कामी, दमाई और गांयने जातिके लोग ओछी कौममें समझे जाते हैं, इनके हाथका जल उच्च जातिवाले नहीं पीते. ये ऊपर लिखी जातिवाले पर्वते कहलाते हैं.

नेवार-नेवारोंमें दो फिकें हैं- १- शिवमार्गी, और २- बौद्धमार्गी; इन दोनोंमें परस्पर बेटी व्यवहार नहीं होता, और जो श्रेष्ठ समझे जाते हैं, उनके यहांका जल ब्राह्मण आदि लोग पीते हैं. शिवमार्गी नेवारोंमें श्रेष्ठ, जोसी, और आचार्य नामकी तीन जातियां हैं. ये लोग पूजा, महाजनी व्यापार, मुन्शीगरी और वैद्यका काम करते हैं.

बौद्धमार्गीयोंमें बांडा, और उदास शामिल हैं, उनका पेशह महाजनी व्यापार, दस्तकारी तथा हिसाबी काम है. इन लोगोंमें जब कोई मर्द या औरत मरती है, तो उसे मरने से कुछ काल पहिले सबसे ऊंचे मकानमें लेजाते हैं, और जब वह मरजाता है, तो उसके कुटुम्ब तथा रिश्तहके लोग शामिल होकर दो तीन दिनतक मुर्देके आगे बाजा बजाते, और पूजन तथा भोजन करते हैं. तीन दिन बाद मुर्देको एक खट (विमान) पर कपड़े पहिनाकर बिठा देते हैं, और पूजा करके बाजा बजाते, दीप धूप देते, और पाठ करते हुए उसको श्मशानमें लेजाकर जलादेते हैं. सातवें दिन ऊपर लिखी हुई रीतिसे भात देते, और

अपने जातिवालोंको भोजन कराते हैं; इसी दिन उनके यहां सूतकसे शुद्धि होना माना जाता

है. नीची जातिके नेवार, पुतुवार, ज्यापू, सालमी और नाऊ (नाई) हैं, जिनके हाथका पानी सब लोग पीते हैं. कसाई, कुशल्ये और कूलू कनिष्ठ जातिके नेवार हैं, जिनमेंसे कसाईका काम मांस बेचना, कुशल्येका काम देवाल्योंमें बाजा बजाना तथा कपड़ा सीना, और कूलूका पेशह ढोल, डफ़ आदि बाजोंपर खाल मंढने का है. सबसे नीच जातिके नेवार, जिनसे दूसरी जातियोंके लोग स्पर्श नहीं करते, पोढ़े और च्यामाखलक हैं. इनमेंसे पहिली जातिवाले जल्लाद और इमशानके चांडालका काम करते हैं, और दूसरी जातिका पेशह भंगीका कर्म है.

ऊपर लिखी जातियोंके सिवा पहाड़ी, कुम्हाले (कुम्हार), दनुवार, मांभी, ब्राह्मू, दर्री, सुरमी, कुसुंडा (भिल्ल), मुसल्मान, धोबी और कई पेशहवाले लोग आवाद हैं.

भिल्लोंकी बावत कहा जाता है, कि ये लोग हमेशह जंगलमें रहते और जंगली जानवरों तथा कन्द मूल आदिपर अपना निर्वाह करते हैं, वे गांवोंमें बहुत कम आते हैं, और सात दिनसे जियादह एक जगह नहीं रहते.

हेनरी एम्ब्रोज़ अपनी पुस्तकमें लिखते हैं, कि नयपालके नेवार लोगोंमें एक तिहाई हिस्सह तो शिवकी पूजा करनेवाला और बाकी, याने दो तिहाई, बौद्ध मज़हब को माननेवाला है, अर्थात् इस देशमें जियादह तर बौद्ध मज़हब माना जाता है. शिवमार्गी नेवारोंमें उक्त साहिबके बयानके मुवाफ़िक़ नीचे लिखे हुए चौदह भेद हैं:-

१- उपाध्याय पुजारी, अर्थात् सबसे ऊंची जातिके ब्राह्मण, जिनको तलेजूके मन्दिरमें जानेका अधिकार है; २- लवरजू, यह भी ब्राह्मण और पुजारी हैं, परन्तु उपाध्यायसे उतरते हुए समझे जाते हैं; ३- देवभाजू ब्राह्मण, जो वहांके लोगोंको बीमारीकी हालतमें आत्मा सम्बन्धी शिक्षा करते हैं, लेकिन वह वैद्यका कार्य नहीं करते, अर्थात् औषधि नहीं देते.

४- थकूजू या मल्ल, क्षत्री जो वहांके अस्ली राजाओंकी जातिके हैं; उनमेंसे अक्सर लोग पहिले पल्टनोंमें सिपाहगरी करते थे, लेकिन वे सौदागरी और दूसरे लोगोंकी नौकरी कभी नहीं करते; ५- निक्खू क्षत्री, जो चन्द धर्म सम्बन्धी लीलाओंकी चित्रकारी करते और देवताओंकी मूर्तियोंको रंगते हैं, लेकिन वे आम दरजहके चित्रकार नहीं हैं; ६- शियागू क्षत्री, और ७- शरिस्ता क्षत्री, जो पल्टनोंमें सिपाहगरीकी नौकरी करते थे. इन सब जातियोंमें परस्पर भोजन

व्यवहार तथा बेटी व्यवहार होता है.

८- जोशी वैश्य, जो न ब्राह्मण हैं और न पुजारी, उनका काम शास्त्र समझानेका है; ९- आचार्य वैश्य, जिनका कार्य काठमांडू और भदगांवके तलेजू के मन्दिरोंमें पूजन करना है, लेकिन ये ब्राह्मण नहीं हैं; १०- भत्री वैश्य, जो तलेजूके मन्दिरोंमें देवताओंके लिये नैवेद्य तय्यार करते हैं; ११- गावक आचार्य वैश्य, जो केवल छोटे मन्दिरोंके पुजारी हैं, वे ऐसे मन्दिरोंमें श्राद्ध इत्यादि कर्मोंके सर्वराहकार होते हैं, लेकिन मुख्य श्राद्ध कर्मोंसे हकीकतमें कुछ सम्बन्ध नहीं रखते.

१२- मांखी शूद्र, आम दरजेके रसोईदार, अर्थात् खाना पकाने और खिलाने वाले लोग हैं; १३- लखिपर शूद्र, ये भी मांखियोंसे मिलते हुए, लेकिन उनसे कुछ घट कर हैं, इनका काम घरेलू नौकरी है, उत्तम जातिके कुल हिन्दू लोग इनके हाथका छुआ हुआ खाना खाते हैं; और १४- बाघोशा शूद्र, जो रसोईका काम छोड़कर कुल आम काम करने वाले नौकर हैं.

ऊपर लिखे हुए १४ जातिके हिन्दू आपसमें एकट्ठा नहीं खाते, और न इनमें परस्पर बेटी व्यवहार होता है, कुल १४ जातियोंमें पहिली ३ ब्राह्मण, ४ क्षत्री, ४ वैश्य और अखीरकी ३ शूद्र समझी जाती हैं.

बौद्धमार्गी नेवारोंके तीन बड़े दरजे, याने १- सच्चे बंध्य या बंधड़, २- सच्चे बौद्ध, जो उदास भी कहलाते हैं, और ३- वे लोग, जो बौद्ध और शिव दोनोंको मानते हैं. इन तीनों जातियोंमें प्रथक प्रथक कई उपजाति अथवा भेद हैं, और हरएकका खास पेशह है.

सच्चे बंध्ययाबंधड़ोंकी ९ उपजाति हैं- १- घूगरजू, जिनमें सबसे ऊंचे दरजहके पुजारी, अर्थात् बज्राचार्य (बौद्ध मन्दिरोंके पुजारी) होते हैं; लेकिन ये लोग केवल पूजा करनेके वास्ते ही बद्ध नहीं हैं, बल्कि इनमेंसे जो कम लिखे पढ़े हैं, वे खेती, नौकरी और दस्तकारीका पेशह करते हैं, २- बर्हजू, ३- विक्खू, ४- भिक्षु (१); और ५- नेभर. पिछली चारों जातिके लोग सुनारका काम करते हैं. ६- निभरभरही, जिनका पेशह पीतल और लोहेके वर्तन, देवताओंकी धातुकी मूर्तियां बनाना और वर्तनोंपर कलई करना है; ७- टकरमी, अर्थात् भरावे, जो लोहे पीतल या दूसरे धातुकी तोपें और बन्दूकें बनाते हैं; ८- गंगस भरही और ९- चिवर भरही; इन दोनों जातिके लोग खाती और सिलावट, याने मकानों वगैरहपर चूना और आराइश लगानेका काम करते हैं.

ऊपर लिखे हुए ९- जातिके बंधड़ आपसमें विवाह शादी करते और एक दूसरे के साथ खाते पीते हैं.

(१) इनका मुख्य खानदानी पेशह सोने चांदीका काम बनाना है, लेकिन छोटे दरजे वाले लोग पुजारीका काम भी करते हैं.

सच्चे बौद्धोंमें ७ भेद हैं- १- उदास, याने महाजन (१) और विदेशी सौदागर, जो खासकर तिब्बत तथा भूटानमें सौदागरी करते हैं; २- कसारे या ठठरे; ३- लोहार कर्मी, अर्थात् संगतराश, जो पत्थरकी मूर्तियां, मन्दिर व मकानात बनाते हैं; ४- शिकर्मी या बढई; ५- थम्बत- पीतल, तांबा और जस्तेके बर्तन वगैरह बनानेवाले; ६- अवाल, याने खपरेल (केलू) बनानेवाले; ७- मद्यकर्मी, रोटी बनानेवाले. ये सातों जातिवाले आपसमें खाते पीते और शादी विवाह करते हैं, बंधड़ लोगोंके हाथका ये सब खालेते हैं, लेकिन बंधड़ोंको इनके हाथके बनाये हुए भोजनसे पर्हेज है, और वे इनके साथ सम्बन्ध भी नहीं रखते.

छोटे दरजहके बौद्ध, जो आम तौरपर शिव और बौद्ध दोनोंको पूजते हैं, उनमें नीचे लिखे हुए ३८ फिकें हैं:-

१- मू, अर्थात् एक प्रकारके माली; २- डूंगल, याने जमीन नापने वाले; ३- ज्यापू (किसान); ४- कुम्हार; ५- करबुझा (मृत कर्मोंमें बाजा बजाने वाले); और ६- बोनी याने खेत जोतने वाले.

ऊपर लिखी हुई ६ जातियोंमेंसे हरएक जातिवाले थोड़ी बहुत खेतीबाड़ी अवश्य करते, और आपसमें भोजन तथा बेटी व्यवहार रखते हैं.

७- चित्रकार; ८- भट्ट, अर्थात् ऊनी कपड़ोंपर रंगत करनेवाले; ९- छीपा; १०- कव्वा या नकर्मी, अर्थात् तलवार छुरी आदि लोहेके हथियार बनानेवाले; ११- नाई; १२- सालमी (तेली); १३- टिप्या, याने शाक भाजी बोलनेवाले; १४- पुलपुल, जो मृत कर्मोंमें मश्रुअल जलाते हैं; १५- कौसा (शीतलाका टीका लगानेवाले); १६- कोनार (केवल चरखा बनानेवाले खाती); १७- गढठो (माली); १८- कठार (जर्राह); १९- ताती (कफनके वास्ते कपड़ोंमें रूई भरने वाले); २०- बलहेजी, और २१- यूगवार. ये दोनों एक प्रकारके खाती हैं; २२- बाह्ला; २३- लामू (पालकी उठानेवाले कहार); २४- दल्ली, एक प्रकारके सिपाही; २५- पीही टोकरी (गांछे); २६- गौवा; २७- नन्द-गौवा; ये दोनों चर्वाहे हैं, और आपसमें भोजन तथा बेटी व्यवहार रखते हैं; २८- वल्लहमी, लकड़ी काटनेवाले; २९- गवकव, और ३०- नल्ली. ये तीस प्रकारके बौद्ध अर्गर्चि बंधड़ों और सच्चे बौद्धोंसे घटकर हैं, तोभी उत्तम समझेजाते हैं, और प्रत्येक हिन्दू इनके हाथका जल पीलेता है.

(१) वनियोंकी इस देशमें कोई खास कौम नहीं है, जो कोई व्यापारका पेशा करता है, उसीको महाजन कहते हैं,

नीचे लिखे हुए ८ प्रकारके मिलेहुए नेवार सबसे नीची जातिके समझेजाते हैं, अर्थात् उनके हाथका जल कोई हिन्दू नहीं पीता:-

३१- कसाई, जिनको वहांके लोग नय्या कहते हैं; ३२- जोगी, और ३३- धूत नेवार (त्यवहारोंमें बाजा बजानेवाले); ३४- धैवी, याने लकड़ी काटने और कोयला बनानेवाले; ३५- कूलू (चमड़ेका काम बनानेवाले); ३६- पूरिया, जिनका पेशह मछली पकड़ना और जल्लादका काम है; ३७- च्यामाखलक (भंगी); और ३८- संघर (धोबी).

ऊपर लिखी हुई जातोंमें, सिवा महाराष्ट्र ब्राह्मणोंके, जो वहांके अस्ली वाशिन्दे नहीं हैं, बरन थोड़े अरसहसे नयपाल देशमें जाबसे हैं, कुल जातियोंके मनुष्य मांस खाते हैं, परन्तु ब्राह्मण और क्षत्री आदि उच्च कौमोंमें मद्यपान बिल्कुल नहीं होता, और नेवार लोग मांस व मदिरा, दोनों वस्तु खाते पीते हैं; उनमें भैंसेका मांस खानेका भी रवाज है. नयपालके राज्यमें सन्यासी, कुशल्या और जोगी कंवर लोगों के सिवा, जिनके मुर्दे गाड़ेजाते हैं, बाकी कुल शिवमार्गी अथवा बौद्धमार्गी जातोंमें मुर्दह जलायाजाता है.

ब्राह्मण, क्षत्री आदि पहाड़ी कौमोंमें जन्मसे मरण तककी कुल रस्में शास्त्रोक्त विधिसे होती हैं, लेकिन हिन्दुस्तानियों और उन लोगोंकी रस्मोंमें बहुत कुछ भेद रहता है. इन लोगोंमें विवाहके समय जब दूल्हा दुलहिनके दर्वाजेपर पहुंचता है, तो उसका श्वसुर, साले, और नज्दीकी रिश्तहदार आदि लोग कलस बंधाकर दूल्हेकी आरती करते हैं, और अक्षत, रोली, दही और ताज़ह मछलीको दूल्हा व बरातियोंपर डाल देते हैं. इन जातियोंमेंसे जब किसीके यहां मृत्यु होजाती है, और उसकी पुछारी (मातमपुर्सी) को कोई रिश्तहदार जाता है, तो अपने घरसे एक पाथी (१) चावल और उसीके अनुमानसे घी, खांड और कुछ अदरख लेजाता है; और नेवारोंमें ऐसे अवसरपर मिठाई लेजानेका दस्तूर है. नेवारोंकी श्रेष्ठ, जोसी और आचार्य आदि कुल कौमोंमें विवाहकी एक अनोखी रीति है, जो यह है, कि दूल्हा विवाह करनेके लिये दुलहिनके घर नहीं जाता, केवल उसके रिश्तहदार और बराती लोग ही कन्याको उसके घरसे लेआते हैं. जब दुलहिन दूल्हेके घर पहुंचती है, तो उसकी सास व ननद अपनी रीतिके अनुसार उसको दर्वाजहसे घरमें लेजाती हैं; इसके बाद चन्द महीनोंतक इस उत्सवकी खुशी और खाना वगैरह होता रहता है. इन लोगोंमें

(१) यह तोलमें करीब चार सेरके होता है.

स्त्री विधवा कभी नहीं होती, क्योंकि शुरूमें वह एक वृक्षके फलके साथ, जिसको बीला कहते हैं, व्याही जाती है; और पुनरविवाहका भी इस कौममें रवाज है. दनुवार जातिमें, जिसका बयान ऊपर होचुका है, सगाई सम्बन्ध अजीब तौरपर होता है, याने शुरूमें जब बेटेवाला कन्याके घर सम्बन्ध करनेकी गरजसे जाता है, और कन्यावालेको सम्बन्धके लिये कहता है, तो वह उसे उसके साथियों सहित बहुतसी गालियां देकर घरसे बाहिर निकाल देता है. जब वे दूसरी बार आते हैं, तो उनको बेपर्वाईके साथ घरके किसी स्थानमें बैठनेकी इजाजत देता है, और जब तीसरी बार आते हैं, तो उन्हें आदर सन्मानके साथ भोजन कराता है, और तब वह सम्बन्ध पक्का माना जाता है. यदि कन्याका पिता लड़के वालेको शुरूमें जाते ही आदर सत्कारके साथ भोजन करादे, तो जानना चाहिये, कि लड़की वालेने उस सम्बन्धको स्वीकार नहीं किया. उनके यहां ऊपर बयान किया हुआ पहिला तरीक़ह सम्बन्धको स्वीकार करनेका चिन्ह मानते हैं.

नयपाल राज्यके आम लोगोंका पहिराव पायजामह, अंगरखा और टोपी है, बाजे पंडित लोग धोती भी पहिनते हैं, लेकिन बांडा व उदास लोगोंमें जियादहतर जांघियेका रवाज है. नेवार जातिकी स्त्रियां चोटी गुथानेके एवज बालोंका जूड़ा बांध लेती हैं, और आम औरतोंका पहिराव फरिया (१), साड़ी व अंगिया है, किसी किसी कौममें फरिया के एवज घेरदार पायजामह भी पहिनती हैं.

राज्यप्रबन्ध — नयपालके राज्यका मुल्की व माली कुल इन्तिजाम वजीरके हाथमें है, महाराजाधिराज किसी राज्य प्रबन्धसे सरोकार नहीं रखते, केवल सरिइतह के कागजात व अर्जियों वगैरहमें उनका नाम मात्र रहता है. प्रजा आदि लोगोंमेंसे, जब कोई मनुष्य राजाको अर्जी देता है, तो उसमें श्री ५ महाराजाधिराज करके लिखता है, और वजीरको श्री ३ महाराजाके पदसे अर्जी दीजाती है. इन दोनों लिखावटोंमें जितना कुल फर्क है, उससे जानलेना चाहिये, कि नयपालके वजीर वहां के नाइव राजा या कुल राजसी कारवारके मालिक हैं. इस समय वजीरके उहदहपर खस जातिके महाराजा जंगवहादुर (जो गत समयमें रियासत नयपालका एक बड़ा नामवर वजीर हुआ) के छोटे भाई धीरशमशेरजंगके पुत्र वीरशमशेरजंग नियत हैं.

रियासती इन्तिजामके लिये खास राजधानी काठमांडूमें मुख्य पांच कचहरियां हैं :—

१— कोटिलिंग, अर्थात् दीवानीकी एक शाखा, जिसमें भाई बट या किसी दूसरी किस्म

(१) इसको नयपालकी औरतें घाघरेकी एवज पहिनती हैं, और यह पन्द्रह गजसे लेकर एक हजार गजतक लम्बा होता है.

की स्थावर जंगम जायदादके हिस्सहकी बाबत मुकदमातका फैसलह होता है, और मुअ्फ़ी-दारों व ख़ालिसहके दर्मियानी सर्हदी मुकदमोंके फैसले भी यहांसे ही होते हैं. अदालतका आला अफ़सर सूबह कहलाता है, जिसको सोलहसे पच्चीससौ रुपयेतक सालानह तन्स्वाह मिलती है. सूबहके मातहत दो बड़े अह्लकार सरिश्तहदार और नाइब सरिश्तहदारके तौरपर रहते हैं, जिनको वहांके लोग डिवा और विचारी कहते हैं; परन्तु ये दोनों सिवा ज़बानी तहकीकात और बात चीत करनेके लिखा पढ़ीका काम बिल्कुल नहीं करते. तहरीरी कार्रवाईकी निगरानी रखनेवाले अह्लकारोंको ख़रीदार और मुखिया कहाजाता है, और बाकी अह्लकार नौशिंदह (नवीसिन्दह) कहलाते हैं. डिवाको ६०० से १००० तक, विचारी को ५००, ख़रीदारको ३००, नाइब मुखियाको २४०, तहवीलदारको २००, और नवीसिन्दों को १०८ रुपया सालानहके हिसाबसे तन्स्वाह मिलती है. हरएक कचहरीके मुत्अल्लक बीस या पच्चीस सिपाही मए तीन अफ़सरों सूबहदार, जमादार व हवालदारके रहते हैं.

२- फ़ौजदारी, जिसको नयपाली लोग ईटा चपली कहते हैं, मुकदमात फ़ौजदारीकी समाअतके लिये एक अदालत नियत है, जिसमें खून व मारपीट तथा चोरीके अलावह जाति सम्बन्धी बहुतसे मुकदमात हर साल दाइर होते हैं. यहां भी कोटिलिंगकी तरह अफ़सर आला सूबह और उसके तहतमें डिवासे लेकर नवीसिन्दोंतक १५ अह्लकार काम देते हैं, और २५ के अनुमान सिपाही तईनात हैं.

३- धनसार (एक प्रकारका हदबस्ती महकमह)- यहां ख़ालिसहके सर्हदी मुकदमे फैसल होते हैं. सूबह, अर्थात् अफ़सर आलाके तहतमें १० या १२ अह्लकार और २५ सिपाही रहते हैं.

४- टकसार- जहां लेनदेनके दीवानी मुकदमोंकी समाअत होती है. इस कचहरीमें भी धनसारके मुवाफ़िक अह्लकार और सिपाही मुकरर हैं.

५- ठाना (थाणा), जिसको हमारे यहांकी पुलिस कहना चाहिये; इस महकमहके तहतमें जेल आदिकी निगरानी और सफ़ाईका काम भी है. कचहरीका मुख्य अधिकारी कर्नेल अथवा कप्तान होता है, जिसको तन्स्वाह फ़ौजी सीगहसे मिलती है, और उसके तहतमें डिवा, विचारी व नवीसिन्दह आदि १० या १२ अह्लकार तथा २०० चपड़ासी और २५ सिपाही रहते हैं.

ऊपर लिखी हुई पांच अदालतोंके सिवा नयपालके राज्यमें कौन्सिल नामका एक मुख्य न्यायालय है, जिसका अफ़सर ख़ास वज़ोर ही समझा जाता है; उसके तहतमें अदालती

कार्रवाईके वास्ते १० अथवा १२ अहलकार और सिपाही आदि लोग नियत हैं. वजीर व अहलकारोंके अलावह जेनरल, कर्नेल वगैरह अफसर और रियासतके कई दूसरे प्रतिष्ठित लोग भी मुकदमातके पेश होने व फैसल होनेके समय बतौर मेम्बरोंके इस न्यायालयमें बैठा करते हैं. मुकदमातके दाइर व फैसल होनेका यह काइदह है, कि जब किसी शख्स को किसी प्रकारकी नालिश फर्याद करना हो, तो वह महाराजाधिराजके नाम अपने मुफ़्स्सल अहवालका इज़हार (अर्जी) लिखकर कौन्सिलमें पेश करता है, और वहांसे वह इज़हार (अर्जी), जिस सीगह या अदालतसे तअल्लुक रखता हो, उसमें भेज दिया जाता है; और उस अदालतका हाकिम पूरी तहकीकात करने और मुद्दाअल्लैहके इज़हार लेने बाद मुकदमहको फैसल करता है. अगर्चि ऊपर लिखी हुई पांचों अदालतोंका अपील कौन्सिलमें होता है, परन्तु वहांपर अपील करनेकी नौबत बहुतही कम पहुंचती है; क्योंकि उक्त अदालतोंमें रियासती काइदह के अनुसार गवाहों वगैरहके इज़हार लेने और सरिश्तहकी कार्रवाई कीजाने के अलावह डिट्टा व विचारियोंके द्वारा जबानी तहकीकात जियादह होती है, और मुद्दई व मुद्दाअल्लैहकी रूबकारीमें जबानी तौरपर मुकदमह बिल्कुल फैसल किया जाकर जवान वन्दी और काइल नामह (फैसलह) लिखाजाता है, जिसको अदालतका सूबह मए मिस्ल और मुद्दई व मुद्दाअल्लैहोंके अफसर कौन्सिलके पास लेजाकर कानूनके मुवाफिक समझादेता है, और बाद उसके मुज्जिमको वहांके आईनके मुवाफिक सजा दीजाती है. अलावह संगीन मुकदमोंके खफीफ मुआमलातमें मामूली सजा होती है, और कत्लके जुर्ममें मुज्जिमको सिर काटेजानेकी सजा (१) दीजाती है, लेकिन ब्राह्मण और जोगीको

(१) हेनरी एम्ब्रोज़ने एक अपराधीको कत्लकी सजा देनेका आंखों देखा हाल, जो अपने बनाये हुए नयपालके इतिहासमें वयान किया है, उसमें वह लिखते हैं, कि नयपालमें कत्लकी सजा मंगल या शनिवारके दिन, जो वहां अशुभ मानेजाते हैं, दीजाती है. कत्ल कियेजानेके समय अपराधीके कुल कपड़े, सिवा एक लंगोटके उतार लिये जाते हैं, और उसको घुटनोंके बल बिठाकर उसके हाथ पीछेकी तरफ कसकर बांधने बाद दो आदमी उसे मजबूत पकड़े रहते हैं, ताकि वह जल्लादके तलवार मारनेके समय आगेको न झुक जावे. अपराधीके अजीज रिश्तहदारों या नौकरोंमें से वाज लोग उसके सिरको काटेजानेके समय अपने हाथोंसे पकड़ लेते हैं, क्योंकि उनका यह विश्वास है, कि जब कोई बेगुनाह आदमी इस तरहपर अन्यायसे माराजाता है, तो उसका सिर पकड़ने वाले दोस्त दूसरी दुनयामें हमेशाहके वास्ते मोक्षको प्राप्त होते हैं. सिर काटे जानेके बाद अपराधीकी लाश वहीं छोड़दी जाती है, जिसको गीदड़, गृध्र और कुत्ते बहुत जल्द खाजाते हैं; लाशको गाड़ने या जलानेका हुक्म नहीं है. लेकिन जबसे वजीर जंगबहादुर इंग्लिस्तान होकर वापस आया, तबसे कत्ल बहुत कम होता है, और मनुष्यहिंसाके लिये अपराधीको बहुत सजा मिलती है.

मौतकी सजा नहीं होती, वे क़त्ल किये जानेके एवज़ जन्म कैद कियेजाते हैं. हेनरी एम्ब्रोज़ लिखते हैं, कि ब्राह्मणको बड़ा दण्ड अर्थात् मौतकी सजा कभी नहीं दीजाती; उसका सिर मूँडकर सूअरका मांस व जूठा खिलाने तथा मदिरापान करानेके बाद देशसे निकालदिया जाता है. औरतें क़त्ल नहीं कीजातीं, वे कैद कीजाती और दागीजाती हैं, और जाति बाहिर कीजाकर या तो गुलामकी तरह बेचदी जाती हैं, अथवा देशसे निकालदी जाती हैं.

पर्वतिये लोगोंमें जाति सम्बन्धी मुक़द्दमे, जो खासकर व्यभिचार आदि कर्मोंसे सम्बन्ध रखते हैं, इस राज्यमें अधिक दाइर होते हैं, और उनकी सजा भी बनिस्बत दूसरे देशोंके बहुत ही सख्त दीजाती है; इस अपराधका हाल यदि लिखा जाये, तो बहुत कुछ लम्बा चौड़ा है, परन्तु तवालतके खयालसे मुख्तसर तौरपर यहां लिखाजाता है:-

यदि कोई पुरुष अपनी स्त्रीको किसी दूसरे मनुष्यके साथ संगम करते देख ले, तो उसे अपराधीको स्वयं जीवसे मारडालनेका अधिकार रहता है, और स्त्री जातिसे अलग करदी जाती है; अगर उसपर किसी शरूस्ससे व्यभिचारिणी होनेका शुब्ह होगया हो, तो उसका पति उससे दर्याफ्त करके लिखालेने बाद व्यभिचारीको मारडालता और स्त्रीको घरसे बाहिर निकाल देता है. यदि उस देशका कोई शरूस्स चाहे, कि व्यभिचारको छिपा लेवे, तो ऐसा हर्गिज नहीं होसक्ता, क्योंकि वहांके व्यभिचारका भेद छिपानेवालेको भी रवाजके मुवाफ़िक़ पूरी पूरी सजा दीजाती है. वहां प्रत्येक जातिमें इस अपराधपर बहुधा मनुष्योंको दण्ड मिलता है, और वे जातिसे बाहिर निकाल दियेजाते हैं. हालमें ऐसा दस्तूर है, कि जब किसी मनुष्यको किसी स्त्रीकी निस्बत व्यभिचारका शुब्ह पैदा हो जाता है, तो वह फ़ौरन् उसकी इत्तिला सर्कारी अपसरसे करता है, जिसकी तहकीकात होने बाद उस मनुष्यको, जो स्त्रीको पहिले-पहिल व्यभिचारिणी बनानेमें अपराधी ठहरता है, मारनेके वास्ते स्त्रीके पतिको आज्ञा दीजाती है, इसके बाद उसको इस्तिथार है, कि चाहे वह उसे मारे, या न मारे. भेद छिपाने वालों तथा व्यभिचारिणी जाने बिना दूसरी या तीसरी बार व्यभिचार करने वालोंपर दण्ड होता है, अर्थात् ब्राह्मण जातिकी स्त्रीको किसी ब्राह्मण पुरुष अथवा क्षत्री या शूद्र आदि दूसरी जातिके पुरुषसे व्यभिचार करना जान लिया, और उसका भेद प्रकट न किया, तो मालूम होजानेपर वह मनुष्य उसी नीची जातिके शामिल कियाजावेगा, जिस जातिके पुरुषसे उसने स्त्रीको व्यभिचारिणी जाना हो. यदि कोई ब्राह्मण, ब्राह्मण जातिके पुरुषके साथ उसी जातिकी

स्त्रीको व्यभिचारिणी होना जान जावे, और उस भेदको छिपावे, तो व्यभिचारी और व्यभिचारिणीकी तरह वह भी जैसी (गोलक) जातिमें शामिल करदिया जाता है; और अपनी जातिसे उच्च वर्णका भेद गुप्त रखनेपर दण्डकी सजा दीजाती है. ब्राह्मण और क्षत्री आदि उत्तम जाति वालेसे संगम करनेपर स्त्री जातिसे बाहिर कीजानेके अलावह व्यभिचार छिपाकर जातिवालोंको अपने हाथसे रोटी खिलानेके जुर्ममें छः महीने तक कैद रखी जाती है; और नीच जातिके पुरुषसे, जिसके हाथका जल उत्तम कौमवाले नहीं पीते, जार कर्म करनेका भेद छिपाकर अपने हाथसे पानी पिलानेके अपराधमें बीस महीनेकी कैद भुगतने बाद (१) घर व जातिसे बाहिर निकालदी जाती है; इसके बाद उसे इस्तिथार है, कि वह चाहे जहां रहे. और इसी प्रकार नीच जातिकी स्त्रीसे व्यभिचार करनेपर उच्च जातिके पुरुषको सरकारसे सजा मिलती है. स्त्रीके घरवालों तथा उन लोगोंको, जिन्होंने उसके हाथका भोजन खाया अथवा पानी पीया हो, धर्म शास्त्रके अनुसार प्रायश्चित्त करना पड़ता है. क्षत्री आदि दूसरी जातिकी स्त्री अपनी खास जातिवाले एक ही पुरुष के पास जानेसे जाति बाहिर नहीं कीजाती, उसको वह जार पति, यदि जीता बचे तो, अपने पास रख सकता है, और यदि काइदहके मुवाफिक मारा गया, और स्त्रीने फिर दूसरा पति नहीं किया, तो वह जातिमें रह सकती है, परन्तु उसका खास पति उसे अपने घरमें नहीं रखता.

अगर कोई स्त्री विवाह होनेसे पहिले ही बिगड़ जावे, तो जार कर्म करने वाला पुरुष उस भेदको विवाहके पहिले जाहिर करदेता है, और कदाचित् उसने स्त्रीका विवाह होनेसे पहिले जाहिर नहीं किया, और वह भेद पीछे मालूम हुआ, तो उस व्यभिचारी पुरुष और स्त्रीको ऊपर लिखी हुई रीतिके अनुसार ही सजा दीजाती है. ब्राह्मण पुरुषको, उसी जातिकी स्त्रीके साथ व्यभिचार करके भेद छिपानेपर सरकारसे २॥ वर्ष कैद और नीच जातिके पुरुषको ६ वर्ष कैदकी सजा होती है.

नेवार जातिमें व्यभिचारकी विशेष सजा नहीं है, इन लोगोंमें व्यभिचारी पुरुषको ६०) रुपया जुर्मानह और ६०) रुपया स्त्रीके पतिको विवाह खर्चका देना पड़ता है.

डाकू लोगोंको भी इस राज्यमें सरुत सजा (२) दीजाती है, और इसी कारण वहां पर बनिसबत हिन्दुस्तानी रियासतोंके इस किस्मकी वारिदातें बहुतही कम होती हैं. पहाड़ी मकामातमें चोर व उचके भी कम हैं.

(१) स्त्रीके चिहरेपर जिस जातिसे उसने संगम किया हो, उसी जातिका चिन्ह करदिया जाता है.

(२) महाराजा सुरेन्द्र विक्रमशाहके समयमें, जहां कहीं जितने डाकू लोग पाये जाते, वे सब जानसे मारडाले जाते थे, इस कारण उस वक्तसे अब नयपालमें डाका नहीं पड़ता.

उन महकमोंके अलावह, जिनका जिक्र ऊपर होचुका है, राजधानी काठमांडूमें और भी कई कचहरियां अथवा कारखाने हैं, उनके नाम नीचे लिखे जाते हैं:-

सद्र दफ्तरखानह, जिसको महकमह माल कहना चाहिये; इसमें रियासतके माल सम्बन्धी हिसाब किताबका काम होता है, और इसका हाकिम सूबह है.

तोशहखानह, अर्थात् खज़ानह, जिसमें महाराजाधिराजके कुल खर्च व आमद वगैरहका हिसाब रहता है. महकमहके आला अप्सर खज़ानचीको ५५००) रुपये सालानह तन्स्वाह मिलती है.

कोट भंडार या रसोड़ा- यह भी राज्यका एक बड़ा कारखानह है, जहां राजा और राणियों आदिके लिये खाना बनता है; इसका अप्सर कवरदार कहलाता है, और उसे १२००) से ४०००) रुपयेतक सालानह तन्स्वाह मिलती है.

किताबखानह- इस महकमहमें कुल रियासतके नौकरोंके नाम, उनकी बहालीके समय लिखे और मौकूफीके वक्त काटदिये जाते हैं. यहांका हाकिम खरीदार ६००) रुपये सालानह तन्स्वाह पाता है.

भनसार (साइर) का हाकिम १२००) रुपये सालानह तन्स्वाहका एक कप्तान है, जिसके मातहत सद्र और इलाकहमें दाण (साइर) की चौकियोंपर बहुत से अहलकार और सिपाही हैं.

कुमारी चौक, अर्थात् हिसाब दफ्तर - यह एक बहुत बड़ी कचहरी है, जिसमें क़रीबन् २०० अहलकार काम करते हैं; यहां राज्यके कुल जमा खर्चका नामह समझा जाता है. महकमहके हाकिमकी तन्स्वाह, जो काजी कहलाता है, ६४००) रुपये सालानह है, और उसका नाइब सूबह कहलाता है.

मूठ तहवील - यह वाकियात वुसूल करनेका महकमह है, जिसका अप्सर खरीदार १०००) रुपये सालानह पाता है.

मुल्की खान या खज़ानह - यहांपर राज्यकी आमदनीका रुपया जमा होता है, और यहांसे ही तन्स्वाहदारों तथा दूसरे खर्चोंके लिये रुपया दिया जाता है. हाकिम, जिसको सर्दार कहते हैं, ३६००) रुपये सालानह पाता है.

गूठी कचहरी, अर्थात् महकमह देवस्थान - यहां सदावर्त आदि धर्म पुण्यका काम होता है. महकमहके हाकिम कप्तानकी तन्स्वाह १२००) रुपये सालानह है.

महकमह फ़ौज, एक बड़ी कचहरी है, जिसका हाकिम सूबह है; इस कचहरीके तअल्लुक फ़ौजी या जंगी मुलाजिमोंकी तन्स्वाहका इन्तिज़ाम है.

सेना सम्बन्धी सीग़ह नयपालकी रियासतमें बहुत बड़ा है; क्योंकि यहां साधारण

सिपाहियोंको, जिन्हें मिलसिया कहते हैं, छोड़कर २०००० से अधिक क़वाइदी फ़ौज है, जिन सबका कुल हिसाब किताब इसी फ़ौजी दफ़्तरमें रहता है. क़वाइदी सेनामें हर एक पल्टनके साथ १ जेनरल, १ कर्नेल, १ मेजर कप्तान, १ कप्तान, १ मेजर अजीटन, १ अजीटन, १० सूबहदार, १० जमादार, ४० हवालदार, ४० अमलदार; और अहलकारी कामके लिये १ खरीदार, १ राइटर, और एक बहीदार नियत है. एक पल्टनमें कुल ५०० से ७०० तक सिपाही गिने जाते हैं. मेगज़िन्के मातहत ८००० पीपा (कुली) राजधानी काठमांडूमें रहते हैं, जिनका काम सामान वगैरह उठाना, धरना या लाना लेजाना है, और इनमें पचास पचास मनुष्योंपर " कोत्या " पदका एक एक अफ़सर नियत है. वज़ीरसे लेकर सिपाही तक ऊपर बयान किये हुए कुल फ़ौजी व अदालती अफ़सरों वगैरहको मुरतलिफ़ शरह पर तन्ख्याहें मिलती हैं, और हर एकके लिये एक खास किस्मकी वर्दी (१) नियत है.

(१) नयपालके राज्यमें वज़ीरसे लेकर अदना अहलकारों तक नीचे लिखे अनुसार सालानह तन्ख्याह पाते हैं:-

वज़ीरको १००००० रुपया सालानह नक्द और ख़ानगी खर्च, कमांडरइन्चीफ़को ५०००० रुपया, कमांडिंग जेनरलोंको ३६००० से ४५००० तक, जेनरलोंको १५००० से २०००० तक, कर्नेलोंको ५००० से ७००० तक, मेजर कप्तानको २००० से ३००० तक, कप्तान, और मेजर अजीटनको ९०० से १८०० तक, लेफ़्टिनेएट और खरीदारको ६०० से ९०० तक, सूबहदार और राइटरको २०० से ५०० तक, जमादारको ८० से ४०० तक, हवालदारोंको ७० से २०० तक, सिपाहीको ६० से १५० तक, पीपाको ५० रुपया. काजी, सूबह, डिटा, विचारी और नवीसिन्दों आदिके अलावह, जिनकी सालानह तन्ख्याहका जिक्र महकमोंकी तफ़्सीलके साथ मूलमें हो चुका है, और भी कई उहदहदार व खिदमतगार मुत्फ़रक़ शरहसे तन्ख्याह पाते हैं.

वज़ीरसे लेकर कुल छोटे बड़े उहदहदारों व अहलकारोंके लिये अलहदह अलहदह एक खास तौरकी वर्दी भी मुकर्रर है- वज़ीरकी वर्दीमें जड़ाऊ टोपीके ऊपर काली पघड़ी, जिसपर पन्ना व आणिक जड़ित मोतियोंकी सेली, आगेकी तरफ़ हीरेके तीन चांद, जिनमें पन्ना लटका हुआ, और बीचवाले चांदमें हुमाकी कल्गी, और हीरेका पर्तला व चपड़ास है. जेनरलसे लेकर वज़ीरके भाई बेटों व कर्नेलोंतक सबोंके हीरेका एक चांद होता है, बाकी कुल आभूषण उसी प्रकारका रखते हैं, जो वज़ीरकी वर्दीमें दर्ज है, लेकिन कर्नेलके हीरेका चांद तथा काली पघड़ीपर सोनेका तोड़ा बंधा रहता है. मेजर कप्तानके सोनेमें जड़ाहुआ तीन हीरों और एक पन्नेका जड़ाऊ चांद, तथा सोनेका तोड़ा. कप्तान व मेजर अजीटनके एक हीरे और पन्नेका जड़ाऊ चांद और सोनेका तोड़ा. लेफ़्टिनेएट, खरीदार और दारोगहके एक पन्नेका सोनेमें जड़ा हुआ चांद और सोनेका तोड़ा. कर्नेलसे लेफ़्टिनेएटतकके साधारण कल्गी होती है. सूबहदार, राइटर तथा कोत्याके सोनेका चांद और चांदीका तोड़ा. जमादार और हवालदारके अर्द्ध चन्द्राकार

कचहरियों व इलाक़हके पर्गनातमें, जो सिपाही वगैरह रहते हैं, तथा वे लोग जो प्रजामेंसे इलाक़हके मुत्फ़रक़ मक़ामातपर तीन महीने (१) तक क़वाइद सिखानेके लिये रखे जाते हैं, उनका तञ्जुक़ महकमह फ़ौजसे नहीं है, उसमें केवल क़वाइदी जंगी सेनाका ही काम होता है.

कंडेल चौक-सेना सम्बन्धी एक कारख़ानह है, जिसमें सिपाहियोंके टूटे फूटे तमगे दुरुस्त किये जाते हैं, इसका हाकिम एक कप्तान है.

पुस्तकालय- रियासत नयपालमें एक पुस्तकालय भी है, जिसको वहांके लोग पुस्तक ख़ानह कहते हैं; इस महकमहका हाकिम ख़रीदार कहलाता है.

फ़राशख़ानह - यहां भी पुस्तक ख़ानहकी वराबर तन्ख़्वाह पानेवाला डिठ्टा नामी एक अफ़सर मए चन्द मातहतोंके मुक़रर है.

टकशाल - जहां रुपये (२) व पैसे वगैरह सिके बनते हैं; यहांका अफ़सर सूबह कहलाता है.

चांदमें सोनेका गिलट होता है. वहीदारके सोनेके गिलट वाला चांदीका चन्द्रमा और चांदीका तोड़ा; और कुल सिपाहियोंके काली पघड़ीपर चांदीका चन्द्रमा तथा चांदी का तोड़ा है. वज़ीरसे लेकर कर्नेलतकके चन्द्रमामें ध्वजा पकड़े हुए सिंहकी तस्वीर रहती है, और बाकी पलटनोंमें, जो पलटन जिस देवताके नामसे प्रसिद्ध है, उसीकी मूर्तिकाचिन्ह चन्द्रमामें भी रहता है. वज़ीरसे लेकर जमादारतक वर्दीमें तलवार और किरच रखते हैं, और हवालदारसे सिपाहीतकका शस्त्र बन्दूक व खुकुड़ी (एक प्रकारका लम्बा और चौड़ा छुरा) है. काजीकी वर्दीमें सिफ़ेद पघड़ी, ताशका कोट, पायजामह, और दुशाला तथा शख़ोंमें खुकुड़ी है. सर्दारकी वर्दीमें सिफ़ेद पघड़ी, कमखावका कोट व पायजामह और दुशाला व खुकुड़ी; सूबहकी वर्दीमें सिफ़ेद पघड़ी, कमखावकी नीमास्तीन व पायजामह और दुशाला तथा खुकुड़ी. द्वारे (ज्यौदीवान) और मुन्शीकी पघड़ी लाल व सिफ़ेद होती है, और उनका कोट गहकुचिन नामके चीनी रेशमी कपड़ेका, गरारेदार पायजामह और अंगरखा तथा दुशाला सिफ़ेद रंगका होता है; खुकुड़ी ये भी रखते हैं. डिठ्टा और मुखियाकी पघड़ीका रंग क़िर्मिजी होता है; और विचारी, व नवीसिन्दोंकी पघड़ी लाल होती है, इनके पास भी ऊपर लिखे दूसरे उद्दहदारोंकी तरह खुकुड़ी शस्त्र रहता है. जंगी सेनाकी कुल वर्दी अफ़सरों सहित अंग्रेज़ी ढंगकी है.

(१) तीन मासके लिये भरती कियेजाने वाले लोगोंको, जिनकी संख्या करीब ५०००० के प्रति वर्ष होजाती है, तीन मासतक ३॥१॥ रुपया मासिक वेतन मिलता है. इन लोगोंके भरती होनेका यह क़ाइदह है, कि इलाक़हकी प्रजामेंसे १६ वर्षसे लेकर ४५ वर्ष उम्रतकके आदमी साल भरमें तीन महीनेके लिये वारी वारीसे हरएक ज़िलेके मुख्य स्थानोंमें क़वाइद सीखनेके लिये आते हैं, जिनसे ज़ूरतके वक्त लड़ाईमें काम लिया जाता है.

(२) नयपालका रुपया, जिसको "महेन्द्र मलि" कहते हैं, कल्दार रुपयेसे अनुमान ॥१॥ का होता है. यहां की टकशालमें पहिलेसे अठन्नी ही बनाई जाती है, लेकिन अभी थोड़े अरसहसे कुछ रुपया भी बनने लगा है.

डाकखानह- नयपालके राज्यमें दो डाकखाने हैं, जिनमेंसे पहिला खास राजधानी काठमांडूके महलों (जैसी कोठा) में और दूसरा महलसे पौन कोसके फ़ासिलह पर अंग्रेजी रेजिडेंसीकी कोठीपर है. हिन्दुस्तान आदि दूसरे देशोंकी चिट्ठियां वगैरह राज्यके डाकखानहकी मारिफ़त आती जाती हैं; और कुल इलाक़हमें राज्यकी डाक है.

मद्रसह- इस राज्यमें कोई मद्रसह अथवा अंग्रेजी ढंगका स्कूल प्रजाकी शिक्षाके लिये नहीं है, अल्बत्तह षट्शास्त्रविद्या तथा वेदका पठन पाठन करनेके लिये एक देशी पाठशाला है.

शिफ़ाखानह या हॉस्पिटल- नयपालमें पहिले कोई शिफ़ाखानह नहीं था, केवल एक देशी वैद्यखानह था, जो इस वक़्तक मौजूद है; लेकिन हालमें विक्रमी १९४७ श्रावण कृष्ण ८ [हि० १३०७ ता० २१ जिल्काद = ई० १८९० ता० ९ जुलाई] को राजधानी काठमांडूमें वहांके लोगोंके लिये एक हॉस्पिटल खोला गया है.

जेलखानह- राजधानी काठमांडूमें दो बड़े जेलखाने हैं, जिनमेंसे एक उक्त राजधानीसे पूर्वकी तरफ़ मर्दीके लिये, और दूसरा पश्चिमकी तरफ़ पौन कोसके फ़ासिलह पर स्त्रियोंके लिये है. इनके सिवा पाल्पा और धनकुटा जिलोंमें कम मीआदी कैदी रखनेके लिये स्थान नियत हैं, परन्तु जिलेके जन्म कैदी यहांपर नहीं रखे जाते, वे काठमांडूके जेलको चालान करदिये जाते हैं. कैदी लोगोंमें मर्दीसे केवल रास्ते वगैरह साफ़ करनेका, और औरतोंसे बारूद पीसनेका काम लिया जाता है; इन कामोंके सिवा सरकारमें उनसे और कोई काम नहीं लिया जाता. जो लोग ऊनी मोज़ा वगैरह बना जानते हैं, उनको अपने तौरपर बनाने व बेचनेका इख्तियार है, सरकारमें इन चीज़ोंकी कीमत जमा नहीं होती. जेलखानहका दारोग़ह अर्जबेगी कहलाता है.

जमीनका कबजह व महसूल वगैरह- इस राज्यमें किसानोंसे हासिल बुसूल करनेका यह काइदह है, कि जिस जमीनमें चावल नहीं बोये जाते, उसका हासिल उन किसानोंसे, जो बैलोंकी जोड़ी रखते हैं, सालानह १) एक रुपया घर प्रति लिया जाता है, जमीनकी कुछ तादाद नहीं है, जितनी बोई जा सके, बोवें. अगर पचास जोड़ी बैल हों, तो भी वही एक रुपया देना पड़ेगा. जिस किसानके घरमें सिर्फ़ एक ही बैल हो, उससे ॥) बारह आना सालानहके हिसाबसे हासिल बुसूल किया जाता है. और जिसके यहां बैल बिल्कुल नहीं होते, और वह दूसरों के मांगे हुए बैलोंसे अपनी जमीन हांकता बोता है, उसको केवल ॥) आठ आना ही देना पड़ता है. इन तीन प्रकारके जमींदारोंमेंसे पहिले हल, दूसरे पाटे और तीसरे कुदाले कहलाते हैं. इसके अलावह दो आने सालानह सावन्या और फ़ागू नामसे देने पड़ते हैं; और एक आना सर्व चन्द्रायण नामका लगता है, जिसका यह तरीक़ह है, कि महाराजाधिराजकी तरफ़से एक धर्माधिकारी पंडित नियत है, जो कुछ

कागज़ों (१) पर छाप लगाकर और एक श्लोक (२) तथा प्रायश्चित्तका विधान और सांसर्गिक पापसे शुद्ध होना लिखकर गांवों व मुहल्लोंमें भेजदेता है, जिनको वहां वाले एक एक आना देकर लेलेते हैं. यह धर्माधिकारी उन लोगोंसे भी, जो व्यभिचारिणीके हाथका भोजन खालेते हैं, वही कागज़ देकर, जिसमें व्यभिचारका व्यवरेवार हाल दर्ज होता है, ३ ॥) रुपये, और इनके हाथसे खाने वाले दूसरे लोगोंसे १ ॥) रुपये और तीसरे लोगोंसे चौदह आने लेता और उन्हें शुद्ध करदेता है. जिन लोगोंका स्पर्श किया हुआ पानी नहीं पीया जाता, उनके साथ संगम करने वाली स्त्रीके हाथका जल पीनेके दोषपर ऊपर लिखी हुई शरहका आधा आधा रुपया लेने बाद प्रायश्चित्तकी शुद्धिका कागज़ देता है. यदि किसीकी गाय बंधनमें मरजावे, तो बांधने वालेसे १ ॥) पौने दो रुपया लेकर शुद्धि पत्र दिया जाता है, और इनके अलावह और भी कई कारणोंमें इसका रवाज है; जबतक अपराधी या दूषित लोग इस कागज़को हासिल नहीं करलेते, तबतकवे खाने पीनेमें जातिके शामिल नहीं समझे जाते हैं. चावल बोई जानेवाली जमीनका महसूल आध बटाईके हिसाबसे लियाजाता है, और इसके सिवा महाराजाधिराजके पाटवी पुत्रके यज्ञोपवीत धारण करनेके उत्सवपर तथा गद्दी बैठनेके समय हल, पाटे और कुदाले किसानोंसे १) एक रुपया, ॥) बारह आना और ॥) आठ आना क्रमसे लिया जाता है; ज्येष्ठ पुत्रीके विवाहमें भी उन्हें इसीके अनुसार रुपया देना पड़ता है. जब नया राजा गद्दीपर बैठता है, तो वहांके नाज नापनेके पैमानोंपर, जिनको ढक, पाथी, कुरुवा, और माना कहते हैं, नई छाप लगाई जाती है, और इस दस्तूरका प्रति घर आठ आना रअग्र्यतसे लिया जाता है. अगर्चि सुआफ़ीदारों और महाजनोंसे भी ऊपर लिखे हुए मौकोंपर रुपया वसूल होता है, लेकिन उनके लिये कोई खास शरह मुकर्रर नहीं है, वह सिर्फ वजीरकी तज्वीजपर ही मुनहसर है; और सर्व साधारण रअग्र्यतसे, चाहे सर्कारी नौकर हो अथवा नहीं, घर प्रति ॥) आठ आना लिया जाता है. जब कभी लड़ाई होती है, तो उस मौकेपर रसदके नामसे हल किसानोंसे सोलह पाथी, याने डेढ़ मनसे कुछ ऊपर, पाटोंसे बारह पाथी या सवा मन, और कुदालोंसे आठ पाथी या पौन मन अन्न घर प्रति ड्यौंढे भाव से रुपया देकर लिया जाता है, और वह अन्न उन्हीं लोगोंको, जिस स्थानपर

(१) इस कागज़को नयपाल वाले पतिया कहते हैं.

(२) श्लोक- श्री महोरक्ष भूपेन्द्र प्रेरितं स्मृति संमतम् ॥ दुरित छेदनो पायम् प्रायश्चित्तं समाचर ॥ १ ॥

लेजानेका हुकम हो, पहुंचाना पड़ता है. जिस किसानके खेतमें दो सौ मन चावल पैदा होते हैं, उससे पांच मन चावल लिया जाता है; और इसी तरह सब किसान लोग देते हैं. मुआफ़ीकी ज़मीन वालोंको पैदावारके तिहाई हिस्सेका रुपया देना पड़ता है, जिसमें विर्ता, वेख, फिकडार, मर्वट, ज्युनि, मानाचामल, पेटिया और छाप नामकी ज़मीन दाखिल है. जो ज़मीन ताम्रपत्रपर दस्तावेज़ लिखकर ब्राह्मणको दी जाती है, उसको विर्ता, और क्षत्री आदि लोगोंको बख़्शी जाने वाली भूमिको वेख कहते हैं; ब्राह्मणों तथा क्षत्रियोंके सिवा जिस ज़मीनका पट्टा शूद्रोंको करदिया जाता है, वह फिकडार कहलाती है, जिसका कारण यह है, कि महाराजाधिराज भूमिके पट्टेपर पानका पीक अर्थात् थूक डाल देते हैं. सर्कारी नौकरीमें जानसे मारे जाने वाले शरूस्की सन्तानको बख़्शी जानेवाली ज़मीनको मर्वट कहते हैं. ऊपर लिखी हुई चारों प्रकारकी ज़मीन कोई राजा किसी समयमें वापस नहीं लेसक्ता, वह उन्हीं लोगोंकी सन्तानके क़बज़हमें पीढ़ी दर पीढ़ी चली जाती है, जिन्होंने उसको हासिल किया था; और उनको उसे बेचनेका भी अधिकार है. जो ज़मीन किसी शरूस्को जीवनभरके लिये दीजाती है, वह ज्युनि नामसे, और जो खाने पहिरने आदि खर्चके लिये दीजाती है, वह मानाचामलके नामसे प्रसिद्ध है; इस प्रकारकी भूमिके पट्टेमें खर्च वगैरहकी तफ़्सील दर्ज रहती है. पेटिया ज़मीन वह है, जो विदेशी लोगोंको खान पानके लिये, राज्यसे मिलती है, और छाप वह जो इज़तदार लोगोंको बख़्शी जावे. महाजन याने व्यापारी लोगोंसे लड़ाईके शुरूमें कर नहीं लिया जाता, लेकिन ज़रूरतके वक्त उनसे भी उनकी हैसियतके मुवाफ़िक रुपया वुसूल किया जाता है; और कुल स्थानोंकी प्रजासे १६ पाथी अथवा डेढ़ मन चावल प्रति घर हुकमके मुवाफ़िक वुसूल किये जाकर उन्हींके द्वारा स्थानों स्थानोंपर पहुंचाये जाते हैं. अगर्चि इन लोगोंको रुपयेके मालके एवज़ ग्यारह अथवा बारह आना कीमतके तौर मिल जाते हैं, परन्तु रसदको दूर दूर पहाड़ी स्थानोंमें अपनी पीठपर लादकर पहुंचाना उनके लिये एक भारी दुःख है, क्योंकि बिकट पहाड़ी स्थानोंमें सिवा आदमीके घोड़े, टट्टू या किसी दूसरे जानवरका गुज़र नहीं होसक्ता; अलावह इसके जहां कहींसे सर्कारी सामान लाया या लेजाया जाता है, उसको भी उन्हें गांव दर गांव पहुंचाना पड़ता है.

बड़े बड़े नगरोंके आस पासकी ज़मीनका हासिल, चाहे उसमें किसी प्रकार का अन्न बोया जावे, पैदावारकी आध बटाईके हिसाबसे लिया जाता है, और तराईकी ज़मीनका हासिल फ़ी बीघा ५ रुपये से २ रुपये तक ज़मीनकी हैसियतके

अनुसार वुसूल होता है; सिवा सर्वचान्द्रायणके ऊपर लिखा हुआ सर्व प्रकारका कर वहांके किसानों व प्रजाको भी देना पड़ता है, लड़ाईके अवसरपर वहां वालोंसे अन्न आदि रसद वुसूल करनेके काइदहमें केवल इतनाही भेद है, कि वह वजीरकी तज्वीजके अनुसार ली जाती है.

नयपालकी रियासत शुरूसे खुद मुस्तार है, वहांके राजा किसी बादशाह या सरकार अंग्रेजीको खिराज नहीं देते; राजधानी काठमांडूमें सरकार अंग्रेजीकी तरफसे एक रेजिडेन्ट बतौर वकीलके रहता है, लेकिन वह वहांके राजसी मुआमलों तथा प्रबन्धमें दरूल देनेका कुछ अधिकार नहीं रखता; और इसी तरह एक शरूस रियासत नयपालकी तरफसे कलकत्तेमें रहता है. इन दोनोंको तन्स्वाह वगैरह खर्च अपनी अपनी सरकारोंसे मिलता है. अल्बत्तह विक्रमी १८४९ [हि० १२०६ = ई० १७९२] की लड़ाईके समयसे, जो नयपाल और चीन वालोंसे हुई, सुलह होनेपर एक सन्धि दोनों राज्योंके दरमियान काइम होकर आभूषण, वस्त्र, तथा शस्त्र वगैरह कुछ सौगात हर पांचवें साल चीनके बादशाहको भेजा जाना करार पाया, तबसे उस सन्धिके अनुसार वह सौगात हर पांचवें साल वहां भेजी जाती है, जिसका मुफ़स्सल हाल तवारीखमें मौकेपर दर्ज किया जायेगा; और चीनसे भी ऊपर लिखे अनुसार समयपर खिल्अतके तौर सरोपाव वगैरह, जिसको वहांके लोग तुहफ़ह कहते हैं, महाराजाधिराजके लिये यहां आता है.

तहसील व पर्गनह- नयपालके पहाड़ी मुल्ककी तहसीलों, पर्गनों और ग्रामोंका कुछ ठीक ठीक शुमार हमको नहीं मिला, क्योंकि वहां पहाड़ोंमें जहां कहीं आबादीके काबिल ज़मीन मिल गई है, उसी जगह दो दो चार चार अथवा इससे कुछ अधिक तादादमें करीब करीब घर बसे हुए हैं, और उनमें मुख्तलिफ़ मक़ामातपर बहुतसे छोटे छोटे पर्गने नियत किये जाकर मौके और जुरूरतके मुवाफ़िक़ प्रबन्ध कर्ता लोग रख दिये गये हैं. अल्बत्तह तराईमें, जहांकी ज़मीन बराबर है, १- परसा, २- बारा, ३- रौतड़, ४- जलेश्वर, ५- सरलइया, ६- हनुमान नगर, और ७- मोरंग नामके सात बड़े जिले, और इनके अलावह पाल्पामें चार छोटे जिले जुदे हैं, जिनको वहांके लोग टप्पा कहते हैं. तराईके हर एक जिलेमें तहसीलदार या नाज़िमके तौरपर एक एक मेजर कप्तान अथवा सूबह रहता है, और टप्पोंमें कप्तान नियत हैं, जिनको पहिले दीवानी व फ़ौजदारी वगैरह कुल मुआमलातका इस्तिथार था, लेकिन हालमें फ़ौजदारीका काम अलग कर दिया गया है.

मशहूर मक़ामात.

काठमांडू- यह शहर राजाके रहनेका मुख्य स्थान अर्थात् राजधानी है, जिसमें कई राजसी महल हैं. पहिले यहांकी आबादी अनुमान १८००० घरोंके समझी जाती

थी, लेकिन हालमें उनकी तादाद करीब २४००० के हैं. राजधानीके महलोंमेंसे बसन्तपुर नामी सात मंजिला महल सबसे ऊंचा और बड़ा है, जिसके ऊपरसे कुल शहर (काठमांडू) दिखाई देता है; यह रणबहादुरशाहका बनवाया हुआ है. महलोंके मुख्य दर्वाजहका नाम हनुमान ढोका है, जिसपर सुवर्णके पतरे लगे हुए हैं. दर्वाजहके बाहिर वीरआसनसे बैठी हुई करीब १० फुट ऊंची हनुमानकी एक मूर्ति है; और इससे कुछ आगे बढ़कर पचास कदमके फ़ासिलहपर बाज़ारमें एक बहुत बड़ा नक्कारह अनुमान ४५ फुट घेरेका है, जो पहिले ज़मानहमें सुवहके वक्त्र पिछली पांच घड़ी रात रहे बजाया जाता था, लेकिन अब उसके एवज़ तोप चलती है; नक्कारेके पास वाले गुम्बदमें दो ढाई सौ मन वजनका एक बहुत बड़ा घंटा भी है. ये दोनों चीज़ें महाराजा रणबहादुरशाहके समयकी बनी हुई हैं. प्राचीन समयमें यहांके अक्सर महल सुवर्णके पत्रोंसे जड़े हुए थे, लेकिन हालमें वे सब गिराये जाकर उनके स्थानमें अंग्रेज़ी ढंगकी इमारत तय्यार कराली गई है.

काठमांडूमें निम्न लिखित प्रसिद्ध मकानात हैं:-

महलोंमें एक बहुत बड़ा और ऊंचा प्राचीन मन्दिर तलेजू (तुलजा) देवीका है, जिसको नेवार जातिके किसी राजाने बनवाया था. इस देवीका पूजन आचार्य (नेवार जातिके) लोग करते हैं, और इसके खान पान व सेवा सामग्रीके लिये उसी समयसे कुछ जागीर नियत है.

काला भैरव- महलोंके दर्वाजहके बाहिर दाहिनी तरफ़ चबूतरेपर केवल एक खड़ी हुई मूर्ति अनुमान २० फुट ऊंची है, जिसकी सेवा नेवार जातिवाले करते हैं, जब किसी मनुष्यको किसी न्यायपर शपथ दिलाना हो, तो इसी भैरवकी मूर्तिके चरण छुवाकर उससे धर्म उठवाया जाता है.

महलोंके पीछे दक्षिण पूर्व तरफ़ झुकता हुआ शहरके दर्वाजहसे बाहिर २०० फुट ऊंचा धरारा नामका एक स्थान कीर्तिस्तंभके ढंगपर महाराजा रणबहादुरशाहका बनवाया हुआ है. जब कभी कोई जुरूरतका काम पड़ता है, तो उसपर चढ़कर विगुल बजानेसे पांच पांच सात सात कोसकी दूरीके मनुष्य एकट्टे होजाते हैं, इसके चारों ओर एक बहुत बड़ा इहातह खिचा हुआ है.

धराराके पास ही सुन्धारा नामका एक स्थान है. ये जल धारा बड़े अंदाज़से बनी हुई हैं, जिनमें नलोंके द्वारा पहाड़ोंमेंसे पानी लाया गया है; और जिस स्थानमें, वे गिरती हैं वहां पांचों धाराओंके मुंहपर डेढ़ फुट मोटे सुनहरे नल पर्वतसे चार चार फुट बाहिरकी तरफ़ निकले हुए हैं. यह जलाशय एक चौकोर कुण्डकी तरह पचास साठ कदमके अनुमान चौड़ा और लम्बा बना हुआ है, जिसके तीन तरफ़ सीढ़ियां और अन्दरको बहुत साफ़ पत्थर जड़े

हुए हैं. इसमें एक तरफ पांच धाराओंमें होकर पानी गिरता है, और दूसरी तरफसे निकलकर जमीनके भीतर होता हुआ बागमतीमें जा मिलता है. शहरके बाहिर पूर्व तरफ टूंडीखेल नामका एक बड़ा मैदान आध मील लम्बा और पाव मीलके अनुमान चौड़ा सेनाकी कवाइदके लिये है, जिसके पास सर्कारी मेग्ज़िन और तोपखानह भी है. शहरसे पश्चिम तरफ सिपाहियोंकी परेडके लिये एक दूसरा मैदान करीब आध मील लम्बा और है, जिसे छावनी कहते हैं. प्राचीन देवाल्योंमेंसे स्तम्भूनारायण, वैकुण्ठनारायण, अटकनारायण, ईखनारायण, लुमड़ीदेवी, कंकेश्वरीदेवी, नटदेवी और शोभा भगवती नामक देवताओंके आठ मन्दिर उसी समयके बने हुए हैं, जबकि शहर काठमांडू आबाद हुआ था. इनके सिवा कुमारीदेवी, पचली भैरव, मरुगणेश, मछेन्द्रनाथ (मत्स्येन्द्रनाथ), महंकाल भैरव, संकटा देवी और नृसिंह आदि और भी कई प्रसिद्ध देवस्थान हैं. कुमारी देवीकी यात्रा अथवा मेलेमें, जो भाद्रपद शुक्ल १२ से शुरू होता है, प्रथम दिन (भाद्रपद शुक्ल १२ को) राज्य महलोंके सामने इन्द्रध्वज नामका एक बड़ा भारी निशान खड़ा किया जाता है, जिसके मूलमें सुवर्णकी बनी हुई इन्द्रकी छोटी मूर्ति पूजन करके रखदी जाती है. इस उत्सवपर महाराजाधिराज बड़े जुलूसके साथ राज्यके मन्त्री तथा कुल अफसरों सहित सवारी करके उस स्थानपर आते हैं. द्वादशीके दिनसे ८ दिनतक बराबर मेला रहता है, हर एक मुहल्लेमें इन्द्र और भैरवकी मूर्तियां स्थापित कीजाकर उन का पूजन होता है. मेलेके शुरूसे अखीरतक रात्रिके समय हर रोज नगरमें रौशनी होती है, और सन्ध्या समयसे आधी रात गयेतक हर एक किस्मके नाच व रागरंग हुआ करते हैं, नाचने वालोंको सर्कारसे इन्आम मिलता है, इसमें एक स्वांग भी होता है, याने रात्रिके समय भकू (भूत) नामके एक मनुष्यके मुंहपर भैरवका चिहरा बांधकर उसके हाथमें खड्ग देदिया जाता है, और उसके साम्हने एक भैसेको मद्य पिलाकर छोड़ देते हैं, जिसे वह खड्गसे मारकर उसका खून पीलेता है. द्वादशीकी रात्रिको तमाम नगरके स्त्री व पुरुष हाथोंमें धूप लेलेकर नगर प्रदक्षिणा करते हैं; चतुर्दशीको कुमारी देवीकी रथयात्रा होती है, और उसी दिन महाराजाधिराज भी फौज सहित जुलूसकी सवारी करते हैं. जब यह रथ नगर प्रदक्षिणा करके महलोंमें पहुंचता है, उस समय महलके बाहिर एक बड़े चबूतरेपर महाराजाधिराज सिंहासन पर विराजमान होकर एक बड़ा दर्बार करते हैं, जिसमें नगरके कुल महाजन लोग राजाके दर्शनोंको आते हैं. इसी रात्रिको नेवार जातिकी लड़कियां नगरके कुल देवताओंके स्थानोंपर दीपक जलाती हैं. आश्विन कृष्ण ४ के दिन फिर रथयात्रा होती है, और रात्रिके समय ऊपर बयान किया हुआ इन्द्रध्वज गिराया जाकर

बागमती नदीमें बहादिया जाता है. और पचली भैरवका मेला आश्विन शुक्ल ५ को होता है. काठमांडूके गिर्द शहरपनाह नहीं है; नेवार जातिके राजा लक्ष्मणसिंहका बनवाया हुआ काष्ठका एक बहुत बड़ा मकान शहरके बीचमें है, जिसके कारण वह काठमांडू नामसे प्रसिद्ध हुआ; इस मकानकी निस्वत बयान किया जाता है, कि यह ३०० वर्ष पहिले याने, विक्रमी १६४३ [हि० १९४ = ई० १५८६] में तय्यार कराया गया था.

पाटण— यह शहर काठमांडूसे २ मील फ़ासिलहपर दक्षिण पूर्व कोणमें करीब २०००० बीस हजार घरोंकी बस्तीका है, जहां चार पल्टनें और एक जेनरल रहता है. यहांपर अगले नेवार राजाओंके बनवाये हुए तथा लाल मछेन्द्रनाथ व श्रीकृष्णके मन्दिर हैं. लाल मछेन्द्रनाथकी यात्रा सालमें वैशाखसे आषाढ़के महीनेतक होती है, इनका पूजन बौद्ध लोग करते हैं. मूर्तिको वैशाख कृष्ण १ के दिन स्नान कराने बाद वैशाख शुक्ल १ को रथमें बिठाकर मन्दिरसे बाहिर लाते, और प्रति दिन एक एक मुहल्लेमें फिराकर “जावलाखेल” नामक मैदानमें लेजाते हैं. यह रथ (१) बहुत बड़ा है, जिसको बैलों वगैरहकी एवज आदमी रस्सोंसे खेंचते हैं, और वह बड़ी मुश्किलसे कई दिनोंमें नगरके भीतर घूमकर मैदानमें पहुंचता है. यह स्थान पाटण शहरके बाहिर दक्षिण ओर आध मीलके फ़ासिलहपर मए एक छोटे तालाबके वाके है, इस मैदानमें यात्राकी समाप्तिके दिन राजा भी काठमांडूसे सेना समेत सवारी करके आते हैं. फिर लाल मछेन्द्रनाथका एक बहुत पुराना कुर्ता, जो मन्दिरमें रहता है, मैदानमें रथके ऊपरसे सब लोगोंको दिखाया जाता है, और बाद उसके मूर्तिको खट (विमान) में बिठाकर बुंगमती नामके ग्राममें, जो पाटणसे १ मील पूर्व रुखको वाके है, लेजाते हैं, जहांपर एक मन्दिर बना हुआ है, उसमें उस मूर्तिको लेजाकर स्थापित कर देते हैं और छः महीनेतक वहां रखने बाद खट (विमान) पर बिठाकर पाटणके मन्दिरमें लेआते हैं. ग्यारह वर्ष पर्यन्त इसी तरहपर यात्रा होती रहती है, बारहवें वर्ष सालभरके लिये इस मूर्तिको बुंगमतीके मन्दिरमें ही रहने देते हैं, और वैशाख शुक्ल १ को खट (विमान) में बिठाकर रीतिके अनुसार शहरके अन्दर घुमाने तथा “जावलाखेल” मैदानमें लेजाने बाद वापस उसी (बुंगमतीके) मन्दिरमें लेआते हैं.

भदगांव— काठमांडूसे ६ मील पूर्व १२००० घरोंकी बस्तीका एक बड़ा नगर है; जहां चार पल्टनें व एक जेनरल रहता है. इसमें नेवार राजाओंके महलोंके अलावह दत्तात्रेय स्वामीका एक बहुत बड़ा सुन्दर और प्रसिद्ध देवालय और आकाश-भैरवका एक मन्दिर है. इस स्थानपर सालभरमें एक बार मेष संक्रांतिको बिसक्याट

(१) नयपालमें कुल देवताओंके रथोंको यात्राके समय आदमी ही खेंचते हैं.

यात्राके नामसे एक प्रसिद्ध मेला भरता है, जिसमें नयपालके राजा भी जुलूसकी सवारीसे आते हैं. भैरवकी पूजा आचार्य (नेवार) लोग करते हैं; यात्राके प्रारंभसे एक दिन पहिले मन्दिरके बाहिर वाले मैदानमें, जहां एक लम्बा काठका स्तम्भ गाड़ दिया जाता है, पंडे लोग भैरवकी मूर्तिको रथमें बिठाकर लेजाते हैं, और उस स्तम्भको गिराने बाद, जो मेलेका चिन्ह है, मूर्तिको रथमें बिठाकर वापस मन्दिरमें लेआते हैं.

कीर्तिपुर—पहाड़की एक छोटी टेकरीके ऊपर काठमांडूसे १ कोस दक्षिण, अनुमान ७०० घरोंकी आबादी है, जहां बाग भैरवका एक प्रसिद्ध मन्दिर है.

ठीमी— काठमांडूसे पूर्व तरफ दो कोसके फ़ासिलहपर ७००० घरोंकी बस्तीका एक छोटा कस्बह है, जहां बालकुमारी नामक देवीका एक प्रसिद्ध देवालय है; इस देवीकी खटयात्रा मकर संक्रांतिकी रात्रिको होती है, जिसमें यहांके सर्व साधारण लोग जलती हुई मशुअलें हाथोंमें लिये हुए देवीको खटमें बिठाकर बस्तीके भीतर घुमाते हैं.

देव पाटण— काठमांडूसे दो मील पूर्वोत्तरको किरांति वंशी राजाओंके समय नयपालके देवपाल नामी क्षत्रीका बसाया हुआ एक छोटासा ग्राम है; यहांपर पशुपतिनाथ महादेव (१) का एक बहुत बड़ा लिंग और प्रसिद्ध मन्दिर है, जिसकी पूजा दक्षिणी महाराष्ट्र लोग करते हैं. इस देवस्थानकी यात्रा (त्रिशूल यात्रा) में, जो आपाढ़ महीनेमें होती है, नेवार जातिके बहुत से लोग एकट्टे होते हैं, और अपनी जातिके तीन छोटे बालकोंको एक तरुतमें त्रिशूलोंके ऊपर सीधे लिटाकर बस्तीमें घुमाते हैं. इसके सिवा शिवरात्रिपर एक बड़ा भारी मेला होता है. जिसमें बहुत दूर दूर स्थानोंके यात्री आते हैं.

गुह्यकाली देवी— यह स्थान पशुपतिनाथ महादेवसे पाब मीलके फ़ासिलहपर वाके है; यहां कोई मूर्ति नहीं है, सिर्फ मन्दिरके भीतर बहुत सकड़े मुंहका एक अथाह गहरा कुण्ड है, जिसमें हाथका पंजा समा सके. कहते हैं, कि यह हमेशह भरा रहता है, और इसके पानीमें एक प्रकारका उबाल आता रहता है. कुण्डके आसपास मन्दिरमें सुवर्णके पतरे जड़े हुए हैं, और मूर्तिकी जगह कुण्डकी पूजा होती है.

(१) बौद्धोंके समयमें यह ज़ियादह प्रख्यात नहीं थे, लेकिन पीछेसे शंकराचार्यने इनको अधिक प्रसिद्ध किया, और दक्षिणसे महाराष्ट्र लोगोंको बुलाकर उनकी सेवाके लिये नियत किया, उस समयसे अभीतक वहां यही दस्तूर चला आता है, कि जब कोई पुजारी मरजाता अथवा किसी कारणसे पूजन करनेके अयोग्य समझा जाता है, तो दक्षिणी हिन्दुस्तानसे ही नया पुजारी बुलाया जाता है, नयपालमें उत्पन्न होनेवाली सन्तानको पूजनका काम नहीं सौंपा जाता.

सांखू- काठमांडूसे चार कोस उत्तर पूर्व एक छोटा ग्राम है. इस ग्रामके पास ही पूर्वोत्तर कोणमें एक पहाड़के ऊपर आध कोस चढ़कर बद्रजोगिनी देवीका मन्दिर है, जहां चैत्र शुक्ल १५ को खट यात्रा होती है. इस यात्रामें दो तीन दिनतक कोई मनुष्य जूता पहिरकर नहीं जासका.

नयपालके सूर्यवंशी खानदानके ग्यारहवें राजा हरिदत्त वर्मनके बनाये हुए चांगू-नारायण, शिखनारायण, इचंगूनारायण और विशंखूनारायणके चार मन्दिर काठमांडूसे चारों दिशाको वाके हैं; इनमेंसे चांगूनारायणका मन्दिर काठमांडूसे पूर्वोत्तर कोणमें ३ कोसके फासिलहपर एक अति प्रसिद्ध स्थान है, जहां डेढ़ सौ अथवा दो सौ घरोंकी आबादी है. बर्सातके दिनोंमें काठमांडूके मैदानके तालाबों तथा नदियोंके दहोंमेंसे जो एक प्रकारका धूआं सर्पकी तरह बल खाता हुआ निकलता है, वह चांगू-नारायणके मन्दिरके ऊपर होकर ऊंचा चले जाने बाद दिखाई नहीं देता (१). प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल ११ को नयपालके निवासी एक दिनमें ऊपर लिखे हुए चारों स्थानोंके दर्शन करते हैं, जिसमें उनको बीस या बाईस कोसका सफर करना पड़ता है.

वालाजी - काठमांडूसे एक कोसके फासिलहपर पचास कदम लम्बा चौड़ा एक कुण्ड है, जिसमें सर्कारी पाली हुई मछलियां रहती हैं. यहांका पानी २२ धाराओंमें होकर निकलता, और अखीरमें विष्णुमती नदीसे जा मिलता है. इस कुण्डके पास ही पूर्वकी तरफ एक छोटासा दूसरा कुण्ड है, जिसके बीचमें जलशाईनारायण (वालाजी) की एक सोती हुई चतुर्भुज मूर्ति रखी है.

बूढ़ा नीलकण्ठ - काठमांडूसे उत्तर तीन कोसकी दूरीपर अनुमान १०० घरोंकी बस्तीका एक छोटा गांव है, यहां दश पन्द्रह हाथ लम्बी एक चतुर्भुज मूर्ति एक कुण्डके बीचमें आड़ी रखी हुई है; लेकिन इस स्थानपर किसी कारणसे नयपालके राजा नहीं जाते, इसलिये उक्त जलशाई मूर्तिकी एक छोटीसी नङ्गी प्रतिमा बनाकर वालाजीके कुण्डमें जलके अन्दर शयन करा दी गई है.

ये ऊपर लिखे हुए स्थान चारों तरफ पहाड़ोंसे घिरे हुए एक बड़े मैदानमें, जिसकी लम्बाई १५ मील और चौड़ाई १३ मील है, करीब करीब वाके हैं, और

(१) चांगू नारायणके मन्दिरमें विष्णुकी रीतिके अनुसार गरुड़की मूर्ति भी है. लोग कहते हैं, कि इन तलाइयोंमेंसे गरुड़ सर्पको लेजाता है, जो धुंकी मानिन्द दीख पड़ता है, उस वक्त गरुड़की मूर्तिपर पसीनेकी तरह पानी निकलने लगता है, जिसको वहांके लोग वस्त्रसे पूछ लेते हैं. ऐसा भी कहते हैं, कि जहांकहीं वह वस्त्र रहता है वहां सर्पका भय नहीं होता.

इनके आस पास होकर बागमती, विष्णुमती, रुद्रमती अथवा धोबीखोला और मनोहरा आदि कई छोटी बड़ी नदियां बहती हैं.

नवाकोट— यह काठमांडूसे उत्तर पश्चिम दस कोसके फ़ासिलहपर अनुमान एक हजार घरोंकी आवादीका छोटा कस्बह है; यहां एक भैरवी देवीका प्राचीन मन्दिर है, जिसकी सेवा नेवार जातिकी उपजातियोंमेंसे ज्यापू लोग करते हैं. इसकी यात्रा हर साल चैत्र शुक्ल १५ को होती है, जिसमें वहांके मुख्य पुजारी या भोपा, जिनको नयपालमें धामी कहा जाता है, अपने मुंहपर एक चिहरा (देवीका) बांध लेते हैं. इन धामी (भोपा) लोगोंमें जब कोई पुरुष मरजाता है, तो उसके साथ एक सती भी जुद्ध होती है; ये लोग हमेशह नंगे सिर रहते हैं, और राजा अथवा किसी अन्य मनुष्यको सलाम कभी नहीं करते.

गोरखा— काठमांडूसे २६ कोस पश्चिममें, पांच सौ या छः सौ घरोंकी बस्ती है. यहांपर गोरखनाथ, महाकाली और मनोकामना देवीके प्रसिद्ध मन्दिर हैं, जिनकी यात्राके लिये नयपाल देशके सैकड़ों यात्री प्रति साल एकत्र होते हैं. मनोकामना की यात्रामें बकरोंका बलीदान अधिक होता है.

गुसाईंस्थान — काठमांडूसे उत्तर तरफ़ २५ कोसकी दूरीपर एक पहाड़ी शिखर है, जिसके दक्षिणी विभागमें एक स्थानसे जलकी तीन धारा निकलकर उस कुण्डमें गिरती हैं, जो त्रिशूली (१) नदीका निकास है. इस कुण्डको गुसाईं कुण्ड (नीलकुण्डका कुण्ड) कहते हैं. पहाड़की चोटीपर ज़ियादहंतर बर्फ़ जमा रहता है, जिसके कारण वहां कोई मनुष्य नहीं जासक्ता. श्रावण शुक्ल १५ को महादेवकी यात्रापर यहां बहुतसे लोग एकट्टे होते हैं.

मुक्तिनाथ— काठमांडूसे पश्चिम अनुमान ६५ कोसके फ़ासिलहपर पहाड़में शिवका एक प्रसिद्ध स्थान है, जिसकी यात्राके लिये हर साल बहुतसे देशी व विदेशी लोग आते हैं. कृष्णा गंडकी नदी भी इसी स्थानसे निकली है.

पाल्पा (तानसेन)— राजधानी काठमांडूसे पश्चिम, ६१ कोसके फ़ासिलहपर १००० घरोंकी बस्ती है, जहां १५०० सिपाही तथा एक जेनरल रहता है. यह नगर एक ऊंचे पहाड़के ऊपर बसाहुआ है, यहांके सिपाही वगैरह लोग सर्दिके मौसममें नीचेकी तरफ़ बटोल स्थानमें आकर रहते हैं.

(१) इसकी निस्वत नयपाली लोग कहते हैं, कि जब महादेवने ज़हर पीया था, तब इस पहाड़ में त्रिशूल खोसा, और उसके गाड़नेसे जो जलकी तीन धारा उत्पन्न हुईं उनके नीचे शयन करके उन्होंने ज़हरकी तापको बुझाया, और इसी सबवसे इसका नाम त्रिशूली नदी पड़ा.

बटोल - काठमांडूसे ६८ कोसकी दूरीपर तानसेनके नीचे एक छोटासा ग्राम है। यहां आबादी नहीं है, सिर्फ सदीके दिनोंमें तानसेनकी फौज और वहांके दूकानदार वगैरह आकर निवास करते हैं।

प्यूठाना- राजधानी काठमांडूसे ८६ कोसके अनुमान पश्चिम रुखको, राज्यके खास बड़े मेगजिनका स्थान है, जहां एक कप्तान चालीस या पचास जवानों सहित रहता है।

सल्ल्याना- यह कस्बह राजधानी काठमांडूसे करीब ११० कोसके फ़ासिलह पर पश्चिमकी तरफ़ वाके है, जिसमें १ कम्पनी और कर्नेल रहता है।

शिलगढी- राजधानीसे १७० कोस दूर, पहाड़के ऊपर एक गढी है, जहां १ कर्नेल और १०० जवान रहते हैं, परन्तु यह फ़ासिलह केवल पहाड़ी रास्तहके घुमावके सबबसे है।

देवघाट- यह काठमांडूसे दक्षिण, चितवनकी भाड़ीके पास अनुमान ३० कोस के फ़ासिलहपर, जिस जगहमें होकर त्रिशूलगंगा निकली है, वाके है। यहां हर साल मकर संक्रांतिपर एक बड़ा मेला होता है, जिसमें नयपालके बहुतसे यात्री लोग त्रिशूलगंगाका स्नान करनेको आते हैं। यह मेला एक महीनेतक बराबर रहता है, इसमें किसीकद्र हिन्दुस्तानी व पहाड़ी मालकी खरीद व फ़रोस्त भी होती है, याने कपड़ा व बर्तन वगैरह हिन्दुस्तानसे और कम्मल, खुकुड़ी (छुरा) तथा लोहेके बर्तन पहाड़ी मक़ामातसे आते हैं। इस मेलेमें राजा और वज़ीर भी अक्सर आते हैं। देवघाटमें राज्यकी तरफ़से एक सूबह मए सिपाहियों वगैरहके रहता है।

धनकुटा- काठमांडूसे पूर्व, ७७ कोसपर ४०० घरोंकी आबादी है, यहां ५०० सिपाही और एक जेनरल रहता है।

इलाम- राजधानीसे पूर्व, ९० कोसकी दूरीपर एक छोटासा ग्राम है, जहां ५०० सिपाही और एक कर्नेल रहता है।

उदयपुर गढी- जो राजधानीसे पूर्व ८० या ८५ कोस दूर एक पहाड़ीके ऊपर वाके है, यहां १ कर्नेल और १०० सिपाही रहते हैं।

सींधुली गढी- यह एक छोटी गढी है, जो राजधानीसे २४ कोस पूर्व दिशाको वाके है; यहां एक कर्नेल और २०० सिपाही राज्यकी तरफ़से नियत हैं।

चीसापानी- यह भी एक मुख्य गढी है, जो राजधानीसे ९ कोस दक्षिण उस सड़कपर वाके है, जो हिन्दुस्तानकी तरफ़ आती है। यहां २०० सिपाही, दो अथवा तीन तोप और एक मेजर कप्तान रहता है। इनके सिवा और कई छोटी छोटी गढियां और बहुतसे स्थान हैं, जहां अक्सर सर्कारी सिपाही वगैरह जाबितहके वास्ते नियत हैं।

सिम्भू- राजधानीसे १ मील पश्चिम, एक छोटी टेकरीके ऊपर बौद्धका मन्दिर है. इस मन्दिरमें एक दीपक घृतका हमेशा जलता रहता है, जिसकी बाबत वहाँके लोग कहते हैं, कि इसको एक अरसह गुजरा, जबसे यह जलाया गया है, इस वक्तक बीचमें कभी नहीं बुझा.

पोखरा- यह स्थान काठमांडूसे ४६ कोस पश्चिमकी तरफ श्वेतगंडकी नदीपर सतहुं और तनहुंके बीच एक बड़ा शहर है, जहाँ एक कर्नेल मए ५०० सिपाहियोंके रहता है. इस मकामपर प्रति वर्ष एक बड़ा मेला होता है, जिसमें तांबेकी बनी हुई उम्दह कारीगरीकी चीजें और उनके अलावह जिलेकी अन्न आदि पैदावारी वस्तुएं बेची जाती हैं. यह कस्बह गोरखा लोगोंके कबजहमें आनेसे पहिले उन छोटी छोटी २४ स्वाधीन रियासतोंकी राजधानियोंमेंसे एक था, जो प्राचीन समयमें सप्त-गंडकी नदीके सबसे बड़े भागपर फैली हुई थीं. इसका नाम पोखरा रखे जानेकी वजह यह है, कि नयपाली भाषामें पोखरा शब्दका अर्थ एक तालाब या बांधा हुआ पानीका झील है, और जोकि इस स्थानके पास घाटीमें बहुतसी झीलें हैं, इसलिये घाटी और स्थान, दोनों पोखरा नामसे प्रसिद्ध हैं.

मशहूर मेले- इस देशमें पोखरा व देवघाटके सिवा और कोई ऐसा मेला नहीं होता, जिसमें किसी किस्मकी खरीद व फ़रोख्त होती हो, अल्बत्तह जहाँ जहाँ प्रसिद्ध देवालय आदि हैं, वहाँ हर एक जगह नियत समयपर यात्राके लिये देश वासियोंकी एक बड़ी भीड़ जमा होती है.

व्यापार- नयपालमें कपड़ेके सिवा, जो हिन्दुस्तानसे जाता है, दूसरे देशोंकी और किसी चीज़का व्यापार नहीं होता, अल्बत्तह तिब्बतसे कस्तूरी, सोना, चमर और चाय वगैरह चीजें आती हैं, जो हिन्दुस्तानमें आकर बिकती हैं; तिब्बतके टांगन और घोड़े केवल नयपालतक आते हैं, आगे नहीं बढ़ते, परन्तु नयपालकी तराईसे जो हाथी पकड़े जाते हैं, वे हिन्दुस्तानमें लाये जाकर पटना और हरिहरक्षेत्र मकामोंपर बिकते हैं. हिन्दुस्तानमें ज़ियादहतर हाथी दांत इसी जगहसे आता है, और चीन वाले भी हाथी दांत व मोरपंख यहांसे ही ले जाते हैं. उदयपुरगढ़ीके गिर्द व नवाहमें बड़ी इलायची पैदा होती है, जिसके बन्दोबस्तके लिये उदयपुरगढ़ी व पटनामें, जो इस व्यापारकी आड़तके मुख्य स्थान हैं, एक एक कर्नेल राज्यकी तरफसे रहता है. इन इलायचियोंकी आमदसे एक बड़ी रकम नयपालके खज़ानहमें जमा होती है.

सड़कें व रास्ते- नयपालके मुख्य रास्तोंमेंसे पहिली सड़क नयपालसे सीधी पश्चिमी ओर महाकाली (सरजू) नदीके झूल घाटपर निकली है; दूसरी नयपालसे पूर्व

दार्जिलिंगके पास निकलती है; और तीसरी हिन्दुस्तानसे आने जानेकी मुख्य सड़क है, जो चीसापानी गढ़ीसे उतरकर पश्चिम तरफ हेटोंडा और सीमरावास स्थानोंमें होकर अंग्रेजी अमल्दारीमें आदापुरके पास निकलती है. इसके सिवा हिन्दुस्तानसे आने जानेका कोई दूसरा मुख्य रास्तह नहीं है, लेकिन वहांके देशी लोग पूर्व तरफ सींधुली गढ़ी, और पश्चिमी तरफ पाल्पा व बटोलके रास्तोंसे भी आ जा सकते हैं. उत्तर दिशामें तिब्बत और चीनकी तरफसे आने जानेके दो रास्ते हैं, जिनमेंसे पहिला रास्तह कुती स्थानके पास और दूसरा केरुंकी तरफ होकर गुजरता है.

नयपालका प्राचीन
इतिहास,

नयपालके देशमें वर्तमान खानदानसे पहिले कई मुस्तलिफ़ खानदानोंके राजा जुदा जुदा इलाकोंमें राज्य करते थे, जिनके कुर्सीनामे और किसी क़द्र तवारीखी हालात, पंडित भगवानलाल इन्द्रजी और डॉक्टर बूलरने, उन चन्द पुस्तकोंसे चुनकर, जिनमें नयपालके प्राचीन राजाओंकी वंशावली दर्ज हैं, और जो उनको वहांके पुस्तकालयोंमें मिली हैं, इंडियन ऐन्टिकेरीकी तेरहवीं जिल्दके ४११ पृष्ठसे ४२८ तक में दर्ज करवाये हैं, उन्हींके अनुसार संवतोंको छोड़कर केवल राजाओंके नाम और उनका किसी क़द्र तवारीखी हाल मुस्तसर तौरपर यहां भी दर्ज किया जाता है. संवतोंको छोड़ देनेका कारण यह है, कि उनका कुछ ठीक पता नहीं लगता, बल्कि उक्त पंडित और साहिवको भी उनके सहीह होनेपर विश्वास नहीं है. इस वंशावलीके बहुत से नाम, जिस क्रमसे नयपालके लेखमें दर्ज हैं, उसी तरह मिलते हैं, इससे मालूम होता है, कि वंशावली बनाने वालेके पास ऐतिहासिक साधन होंगे, परन्तु साल संवतों वगैरहमें राजपूतानहकी तवारीखोंके मुवाफ़िक ही हेर फेर हुआ है.

नम्बर १- माता तीर्थका गोपाल वंश:-

१- भुक्तमानगत, २- जयगुप्त, ३- परमगुप्त, ४- हर्षगुप्त, ५- भीमगुप्त, ६- मणिगुप्त, ७- विष्णुगुप्त और ८- यक्षगुप्त, जो लावलद मरा.

नम्बर २- अहीर वंश (हिन्दुस्तानका):-

१- वरसिंह, २- जयमत्तिसिंह, और ३- भुवनसिंह, जिसको पूर्व (किरांति)

वालोंने जीता.

नम्बर ३- किरांति खानदान, जो गोकरणमें काबिज़ रहा:-

१- यलम्बर; २- पवी; ३- स्कंधर; ४- वलम्ब; ५- हती; ६- हूमति; ७- जितेदस्ती; ८- गली; ९- पुष्क; १०- सूर्यर्म; ११- पर्व; १२- थुंक, जिसको राइट साहिबने "बंक" लिखा है; १३- स्वनन्द; १४- स्थुंको; १५- गिध्री (गिध्री); १६- नने; १७- लुक; १८- थोर; १९- थोको; २०- वर्म; २१- गुज; २२- पुष्कर; २३- केसू; २४- सुन्स, जिसको राइट साहिबने सुगलिखा है; २५- सम्मू, जिसका नाम राइट साहिबने सन्स, और किरकपैट्रिक साहिबने जुश लिखा है; २६- गुणन; २७- खिम्भू; २८- पटुक, जिसपर सोमवंशी राजाओंने हमलह किया था; और २९- गस्ती, जिसने सोमवंशियोंके मुकाबलहसे भागकर गोदावरीके पास पुलोच्छा नामी मकामपर एक नया किला बनाया, और अखीरमें इस खानदानका राज्य सोमवंशियोंके हाथमें गया.

नम्बर ४- सोम वंशी:-

१- निमिष; २- मनाक्ष, जिसको राइट साहिब मताक्ष पढ़ते हैं; ३- काक-वर्मन्; ४- पशुप्रेक्षदेव, इसने पशुपतिनाथके मन्दिरका जीर्णोद्धार कराया था; और ५- भास्कर वर्मन्, जिसने संपूर्ण भारतवर्षपर विजय पाई, और देवपाटण नगरको बड़ाकर पशुपतिनाथके पूजनके नियम ताखपत्रपर खुदाकर चारुमती विहारमें रखवाये; इसके कोई सन्तान नहीं हुई, इसलिये इसने सूर्य वंशी खानदानके पहिले राजाको गोद लिया.

नम्बर ५- सूर्य वंशी या लच्छवी:-

१- भूर्मि वर्मन्, इसने वाणेश्वरको अपनी राजधानी बनाया; २- चन्द्र वर्मन्; ३- जय वर्मन्; ४- वर्ष वर्मन्; ५- सर्व वर्मन्; ६- पृथ्वी वर्मन्; ७- ज्येष्ठ वर्मन्; ८- हरि वर्मन्; ९- कुबेर वर्मन्; १०- सिद्धि वर्मन्; ११- हरिदत्त वर्मन्, जिसने चांगू-नारायण, शिखनारायण, इचंगूनारायण, और विशंखूनारायण नामी चार देवताओंके मन्दिर और बूढा नीलकण्ठमें जलशयनका मन्दिर बनवाया; १२- वसुदत्त वर्मन्; १३- पति-वर्मन्; १४- शिववृद्धि वर्मन्; १५- वसन्त वर्मन्; १६- शिव वर्मन्; १७- रुद्रदेव वर्मन्; १८- वृषदेव वर्मन्; इसने कई विहार बनवाये, और लोकेश्वर आदि बौद्ध देवताओंकी मूर्तियां स्थापन कीं; इसका भाई बालार्चन भी बौद्ध था. इसी वृष-देवके वक्तमें शंकराचार्यने दक्षिणी हिन्दुस्तानसे नयपालमें आकर, बौद्ध धर्मका नाश किया. १९- शंकरदेव वर्मन्, इसने पशुपतिनाथमें एक त्रिशूल बनवाया; २०- धर्मदेव; २१- मानदेव, जिसने चक्र विहार बनवाया, और कोई कहते हैं, कि इसने खासा चैत्य बनवाया था; २२- महीदेव, जिसको राइट और किरकपैट्रिक महादेव

लिखते हैं; २३- वसन्तदेव; २४- उदयदेव वर्मन्; २५- मानदेव वर्मन्; २६- गुणकाम- देव वर्मन्; २७- शिवदेव वर्मन्, जिसने देवपाटणको एक बड़ा शहर बनाकर उसे अपनी राजधानी करार दिया, और शाक्त धर्मका पुनरोद्धार करके आपभिक्षू बना, इसके बेटे पुण्यदेव वर्मन्ने भी अपने बापका अनुकरण किया; २८- नरेन्द्रदेव वर्मन्; २९- भीमदेव वर्मन्; ३०- विष्णुदेव वर्मन्; और ३१- विश्वदेव वर्मन्, जिसने अपनी बेटी ठकुरी वंशके राजा अंशु वर्मन्को व्याही.

नम्बर ६- ठकुरी खानदान:-

१- अंशु वर्मन्, जो सूर्य वंशके आखरी राजा विश्व वर्मन्का दामाद (जमाई) था; २- कीर्ति वर्मन्; ३- भीमार्जुन; ४- नन्ददेव; ५- वीरदेव; ६- चन्द्रकेतुदेव; ७- नरेन्द्रदेव; ८- वरदेव; ९- शंकरदेव; १०- वर्धमानदेव; ११- बलिदेव; १२- जयदेव; १३- बालार्जुनदेव; १४- विक्रमदेव; १५- गुणकामदेव; १६- भोजदेव; १७- लक्ष्मीकामदेव; और १८- जयकामदेव; इस राजाके औलाद न होनेसे नवाकोटके ठकुरी खानदान वाले राज्यके मालिक बने.

नम्बर ७- नवाकोटका ठकुरी खानदान:-

१- भास्करदेव; २- बलदेव; ३- पद्मदेव; ४- नागार्जुनदेव; और ५ शंकर- देव, जिसके मरजानेपर अंशु वर्मन्के वंश वालोंमेंसे वामदेव नामी पुरुषने ललितपट्टन और कांतिपुरके सर्दारोंकी मददसे नवाकोटके ठकुरी खानदान वालोंको निकालकर अपना अमल जमाया.

नम्बर ८- अंशु वर्मन्का दूसरा ठकुरी खानदान:-

१- वामदेव; २- हर्षदेव; ३- सदाशिवदेव; ४- मानदेव, यह राजा चक्रविहारमें यति होगया था; ५- नरसिंहदेव; ६- नन्ददेव; ७- रुद्रदेव; ८- मित्रदेव; ९- अरिदेव, जिसने अपने पुत्रको मल्लका खिताब दिया; १०- अभयमल्ल; ११- जयदेव- मल्ल, जिसने कांतिपुर और ललितपट्टनमें राज्य किया; इसके छोटे भाई १२- आनन्दमल्लने भक्तपुर (भदगांव) बनेपा, पनौती, नाला, धुलीखेल, खंडपू, चौकोट और सांगा नामके आठ शहर बसाये, और भदगांवमें रहना इस्तिथार किया. इन दोनों भाइयोंके अहद हुकूमतमें दक्षिणी हिन्दुस्तानके कर्णाटक प्रान्तसे चन्द लोग नयपालमें आये, और इसी समयसे उस देशमें उनका जमाव हुआ.

नम्बर ९- कर्णाटक खानदान:-

१- नान्यदेव, जिसने नयपालका कुल मुल्क जीतकर दूसरे ठकुरी वंशके आखरी

राजा जयदेवमल्ल व आनन्दमल्लको तिरहुतकी तरफ भगादिया, और आप राज्यका मालिक बना; २- गंगदेव; ३- नरसिंहदेव; ४- शक्तिदेव; ५- रामसिंहदेव; और ६- हरिदेव, जिसने काठमांडूको अपनी राजधानी बनाया, और पाटन (ललितपट्टन) का लश्कर बागी होजानेके समय वहांसे भागकर ठमेलमें पनाह ली. कहते हैं, कि हरिदेवने मगर जातिके एक पुरुषको नौकरीसे वर्तरफ करदिया था, इस अदावतके सबब वह (मगर) मुकुन्दसेन नामी एक राजाको काठमांडूपर चढ़ालाया, जिसके सिपाहियोंने कई वहांकी पवित्र मूर्तियोंको तोड़ डाला, और वे मछेन्द्रनाथके मन्दिरमेंसे भैरवकी मूर्तिको उठाकर पाल्पामें लेगये; लेकिन नयपाल वालोंके एतिकाद और दन्त कथाके अनुसार, जिसको पण्डित भगवानलाल और डॉक्टर बूलरने भी इंडियन एन्टिकेरीमें दर्ज कराया है, पशुपतिनाथके कोपसे मुकुन्दसेनका सारा लश्कर हैजेमें आकर तबाह होगया, और वह (मुकुन्दसेन) भी योगीके वेषमें निकलकर देवीघाटपर जाकर मरगया.

इसके बाद ७ या ८ वर्षतक नयपालमें लगातार बढ इन्तिजामी फैलती रही और यह मौका पाकर नवाकोटके बैस ठकुरी खानदान वालोंने मुल्कपर दोवारह काबिज होनेकी तय्यारियां कीं; ललितपट्टनके हरएक टोल (शहरके मुहल्ले) में अलहद्दह अलहद्दह राजा बन बैठे, और कान्तिपुर (काठमांडू) में एकही समय बारह राजा राज्य करने लगे. भदगांवपर भी ठकुरी वंश वालोंने अपना कब्जह जा जमाया, और वहां बौद्ध मण्डपके बहुतसे मन्दिर तथा विहार बनवाये. इसके बाद सूर्य वंशके राजा हरिसिंहदेवने, जो मुसल्मानोंके हाथसे निकाला जानेके कारण अयोध्या छोड़कर तराईमें आबसा था, नयपालमें दाखिल हुआ, और उसने भदगांवपर अपना अमल दरूल जमाया. नयपाली दन्त कथामें ऐसा मशहूर है, कि उसको तुलजा भवानी देवीकी तरफसे इस देशमें आनेका हुक्म हुआ था.

नम्बर १०- भदगांवका सूर्य वंशी खानदान:-

१- हरिसिंहदेव; २- मत्तिसिंहदेव; ३- शक्तिसिंहदेव; और ४- श्यामसिंहदेव, जिसकी बेटी तिरहुतके मल्ल खानदानमें व्याही गई थी, और उसके मरने बाद तीसरे ठकुरी खानदानका राज्य काइम हुआ.

नम्बर ११- तीसरा ठकुरी खानदान:-

१- जयभद्रमल्ल; २- नागमल्ल; ३- जयजगत्सल्ल; ४- नागेन्द्रमल्ल; ५- उग्रमल्ल; ६- अशोकमल्ल, जिसने बैस ठकुरियोंको पाटनसे निकाला, और स्वयंभूनाथके पास काशीपुर नामका शहर बसाया; ७- जयस्थितिमल्ल, इसने जाति तथा स्त्रियोंके लिये कानून बनाये और बहुतसी मूर्तियां स्थापन कीं, और कई मन्दिर भी तय्यार कराये; ८- यक्षमल्ल,

इसने भदगांवकी शहर पनाह तय्यार करवाई, और उसके मुख्य दरवाजहमें एक प्रशस्ति

काइम की, जिसमें नयपाली संवत् ५७३ = विक्रमी १५१० [हि० ८५७ = ई० १४५३] है. इसके तीन बेटे थे, जिनमेंसे सबसे बड़े और सबसे छोटेने तो भदगांव और काठमांडूमें क्रमसे राज्य जमाया, और दूसरा बेटा वनेपा नामके शहरका राजा बना.

तीसरे ठकुरी खानदानके आठवें राजा यक्षमल्लका बेटा ९- जयरायमल्ल भदगांवका राजा हुआ; और उसके बाद १०- सुवर्णमल्ल; ११- प्राणमल्ल; १२- विश्वमल्ल; १३- त्रैलोक्यमल्ल; १४- जगज्योतिर्मल्ल (जयज्योतिर्मल्ल); १५- नरेन्द्रमल्ल; १६- जगत्प्रकाशमल्ल; १७- जितामित्रमल्ल; १८- भूपतीन्द्रमल्ल; और १९- रणजीतमल्ल, जिसके वक्तमें गोरखा राजा नरभूपालशाहने नयपालपर चढ़ाई की; क्रमसे राज्य करते रहे, और इसी आखरी राजा (रणजीतमल्ल) के मरनेपर भदगांवके वंशका खातिमह हुआ.

ऊपर लिखे हुए आठवें राजा (यक्षमल्ल) का सबसे छोटा बेटा १- रत्नमल्ल था, जिसने काठमांडूमें राज्य किया, और कांतिपुरके ठकुरी खानदानवाले बारह राजाओंको मारकर नवाकोटके ठकुरी राजाओंपर फतह पाई; इसीके वक्तमें मुसलमानोंने नयपालपर हमलह किया था. २- अमरमल्ल; ३- सूर्यमल्ल; ४- नरेन्द्रमल्ल; ५- महीन्द्रमल्ल, जिसने भदगांवके त्रैलोक्यमल्ल राजासे दोस्ती की; ६- सदाशिवदेव, जो अपनी प्रजाके हाथसे निकाला जाकर भदगांवकी तरफ गया, और वहां पहुंचने बाद कैद किया गया. सदाशिवके बाद उसका छोटा भाई ७- शिवसिंहमल्ल राज्यका मालिक बना; इसके दो बेटे हुए, जिनमेंसे बड़े बेटे लक्ष्मीनरसिंहमल्लने कांतिपुरमें राज्य किया, और छोटे हरिहरसिंहने अपने बापकी मौजूदगीमें ललितपट्टन पाया; ८- लक्ष्मीनरसिंहमल्ल, इसके वक्तमें गोरखनाथका एक काष्ठका मन्दिर तय्यार कराया- जाकर उसकानाम काठमांडू रक्खा गया, और उसी समयसे शहर कांतिपुर भी काठमांडू नाम से प्रसिद्ध हुआ; ९- प्रतापमल्ल, जिसको कविताका अधिक शौक था, और खुद भी कवि था; १०- महीन्द्रमल्ल; ११- भास्करमल्ल, यह राजा बे औलाद मरगया, तब उसकी राणीने अपने पतिके एक दूरवाले रिश्तहदार जगज्जयमल्लको गद्दीपर बिठाया; १२- जगज्जयमल्ल, जिसके राजेन्द्रप्रकाश, जयप्रकाश, राज्यप्रकाश, नरेन्द्रप्रकाश, और चन्द्रप्रकाश नामके पांच बेटे हुए, उनमेंसे १३- जानशीन जयप्रकाशको नयपाली संवत् ८८८ = विक्रमी १८२५ [हि० ११८१ = ई० १७६८] में गोरखा राजा पृथ्वीनारायणशाहने गद्दीसे खारिज किया.

काठमांडूके राजाओंमेंसे सातवें राजा शिवसिंहका छोटा बेटा, जिसने अपने बापकी मौजूदगीमें ललितपट्टन पाया, पहिला राजा हरिहरसिंह हुआ, २- सिद्धिन्तसिंह; ३- श्रीनिवासमल्ल, इसको काठमांडूके राजा प्रतापमल्लसे लड़ना पड़ा; ४- योगनरेन्द्रमल्ल, जो अपने पुत्रके मरनेसे संसारको छोड़कर विरक्त होगया; ५- महिपतीन्द्र या महीन्द्रमल्ल (काठमांडूका); ६- जययोगप्रकाश; ७- विष्णुमल्ल,

जो इसी शाखाके चौथे राजा योगनरेन्द्रमल्लकी बेटीका लड़का था; ८- राज्यप्रकाश, जो काठमांडूके राजा जगज्जयमल्लका तीसरा बेटा था, और जिसको राजा विष्णुमल्लने राजा बनाया था, लेकिन प्रधान लोगोंने इसको अन्धा बनाकर एक वर्षके बाद राज्यसे खारिज करदिया; ९- जयप्रकाश, जो पहिले काठमांडूका राजा था, यह भी दो वर्षतक राज्य करने बाद प्रधानोंकी मिलावटसे निकाला गया; १०- विश्वजितमल्ल, जो सातवें राजा विष्णुमल्लकी बेटीका बेटा था, और प्रधानोंके हाथसे मारा गया; ११- दलमर्दन शाह (१), जो नवाकोटसे बुलाया जाकर विश्वजितमल्लके बाद राजा बनाया गया, परन्तु चार वर्ष बाद प्रधानोंने इसे भी निकाल दिया; और इसके पीछे दशवें राजा विश्वजितमल्लके वंशमेंसे १२- तेजनरसिंहको, गद्दीपर बिठाया, यह तीन वर्ष राज्य करने पाया था, कि उसी अरसहमें पृथ्वीनारायण शाहने नवाकोटसे आकर मुल्कको जीत लिया.

वर्तमान खानदानका इतिहास.

नयपाल देशके वर्तमान राजा सूर्य वंशी सीसोदिया राजपूतों, याने मेवाड़के महाराणाओंके खानदानमेंसे गिने जाते हैं, परन्तु इनका प्राचीन इतिहास पृथ्वीनारायण-शाहसे पहिलेका बिल्कुल नहीं मिलता, अल्बत्तह पृथ्वीराजरहस्य नामक ग्रंथसे जाना गया है, कि रावल समरसिंहके कनिष्ठ पुत्र कुम्भकरणकी औलादमें इस खानदानके राजा हैं, जो उज्जैन वगैरह स्थानोंमें होते हुए उत्तरा खंडकी ओर गये; उनके नाम और किसीकद्र हाल, जो हमको मिला, यहांपर दर्ज किया जाता है:-

रावल समरसिंहके कनिष्ठ पुत्र १- कुम्भकरण थे, जिनके वंशमें २- अयुत, ३- वरावर्म, ४- कविवर्म, ५- यशवर्म, ६- उदम्बरराय, ७- भट्टराय, ८- जिल्लराय, ९- अजलराय, १०- अटलराय, ११- तुत्थाराय, १२- भीमसीराय, १३- हरिराय, १४- वृहन्निकराय, १५- मन्मथराय, १६- भूपालखान, जिसके खाचा और मीचा नामके दो बेटे हुए, उनमेंसे खाचाने मगर लोगोंको मारकर ढोर, गरहुं, सतहुं, और भीरकोट स्थानोंमें अपना अमल किया, और १७- मीचाखानने नवाकोटको अपनी राजधानी बनाया, जिसका पुत्र, १८- जयन्तखान, १९- सूर्यखान, २०- मीयांखान, २१- विचित्रखान, २२- जगदेवखान, २३- कुलमण्डनशाह, जिसने काश्कीका राज्य और दिल्लीके बादशाहसे शाहका खिताब हासिल किया. कुलमण्डनशाहके सात बेटोंमें

(१) यह पृथ्वीनारायण शाहका छोटा भाई था, और उसीका भेजा हुआ ललित पट्टनमें आया था.

से बड़ा तो अपने पिताके पीछे काश्कीका राजा बना, और छोटोंमेंसे कालूशाहको लम्जुंके लोग अपना हाकिम बनानेके लिये कुलमंडनशाहके पाससे मांगकर लेगये, लेकिन् कुछ दिनोंतक अपना मालिक मानने बाद उसे शिकारके बहानेसे एक ऊंचे पहाड़पर लेजाकर मारडाला, और दोबारह कुलमण्डनशाहके पास आकर बहुत कुछ अर्ज मारुज करने व मुआफ़ी चाहने बाद इकार करके दूसरे बेटे २४- असोवन शाहको लेजाकर लम्जुंका राजा बनाया. असोवनशाहके दो बेटोंमेंसे पहिला नरहरिशाह लम्जुंका मालिक रहा, और दूसरे २५- द्रव्यशाह (१) ने गोरखाकी तरफ़ कदम बढ़ाकर खस जातिके एक राजाको, जो उस समय वहाँकी हुकूमत करता था, मारकर उसके राज्यको अपने कबजहमें करलिया; इसी समयसे इस खानदानका नाम गोरखाली मशहूर हुआ. उस जमानहमें वर्तमान नयपाल राज्यकी सीमाके भीतर नेवार आदि भिन्न भिन्न जातिके कई बड़े छोटे खुद मुख्तार राजा थे.

द्रव्यशाहके पीछे २६- पुरन्दरशाह गद्दीपर बैठा, जिसके बाद २७- पूर्णशाह और उसके पीछे उनका छोटा भाई २८- रामशाह अपने मातहत राज्यका मालिक कहलाया, इसने इलाक़हमें ऐसा उत्तम बन्दोवस्त किया, कि जो अबतक रामशाहका स्थित प्रबन्ध कहलाता है; इनके बाद २९- डम्बरशाह, ३०- श्री कृष्णशाह, ३१- पृथ्वी-पतिशाह, ३२- वीरभद्रशाह, और ३३- नरभूपालशाह क्रमसे एक छोटी रियासतके राजा बने. नरभूपालशाहके मरने बाद उनका बेटा, ३४- पृथ्वीनारायणशाह बारह वर्षकी उम्रमें गोरखाके राज्य सिंहासनपर बैठा. इस जमानहमें गोरखाका राज्य बहुत छोटा था.

—*—
३४- पृथ्वीनारायणशाह.


३४- पृथ्वीनारायणशाहने गद्दीपर बैठकर अपने इलाक़हको बढ़ाना और इसी ग़रज से आसपासके दूसरे राजाओंपर चढ़ाई करना शुरू किया, यहाँतक, कि रफ़तह रफ़तह वह धादिके राजाको मारकर नवाकोटका भी मालिक बनगया. पाटणकी राजधानीमें उस समय प्रधान लोगोंका ऐसा जोर था, कि उन्होंने नेवार जातिके कई राजाओंको लगातार गद्दीसे खारिज व क़त्ल करदिया; आख़रकार पृथ्वीनारायणशाहका भेजा हुआ उसका छोटा भाई दलमर्दनशाह पाटणका राजा माना गया, परन्तु वह भी चार वर्ष बाद खारिज कियाजाकर उसके बाद अगले राजाओंके वंशमेंसे तेजनरसिंहशाह गद्दीपर बिठाया गया.

विक्रमी १८२५ [हि० ११८२ = ई० १७६८] में पृथ्वीनारायणशाहने

(१) इसकी निस्वत ऐसा भी सुनाजाता है, कि इसको शालिवाहनी शक १४८१ = वि० १६१६ [हि० ९६६ = ई० १५५९] के लगभग गोरखनाथ मिले थे, और इसी सालमें गोरखाका राज्य उसके कबजहमें आया.

काठमांडूके राज्यपर चढ़ाई की, और कुछ अरसहतक लड़ने बाद नयपाली लोगों की मददसे सेना समेत काठमांडूमें पहुंचकर वहांके राज्य सिंहासनपर बैठ गया, जिसवक्त कि वहांका पहिला राजा (नेवार जातिका) तलेजू देवीके स्थानमें पूजन कर रहा था (१). अगर्चि नेवार राजाको इनके आनेकी खबर होगई थी, परन्तु पूजन करते समय नियमके अनुसार मन्दिरसे बाहिर न निकल सका, और पूजन समाप्त होने बाद अपनेमें मुकाबलह करनेकी ताकत न देखकर वहांसे भाग गया. पृथ्वीनारायणशाहने काठमांडूपर काबिज होकर पाटण और भक्तपुर (भदगांव) का राज्य छीन लिया; वहांके राजाओंने भी काठमांडू वालेकी तरह बिल्कुल मुकाबलह नहीं किया, अल्बत्तह कीर्तिपुरकी रअग्र्यत कुछ अरसहतक इनकी हुकूमतको न मानकर बागी रही, और कई हमले होते रहे, जिनमें पृथ्वीनारायणशाहका भाई दलमर्दनशाह व प्रधान कालू पांडे मारा गया, और मुसाहिबीके कामपर कालू पांडेका बेटा दामोदर पांडे नियत हुआ. आखरकार पृथ्वीनारायणशाहने कीर्तिपुरको, जो बाकी रह गया था, जीतकर शहरके बाशिन्दोंमेंसे बारह वर्षसे अधिक अवस्था वाले कुल आदमियोंकी, मुकाबलह करनेके अपराधमें, नाकें कटवा डालीं, और नयपालके तीनों राज्योंको अपने अधिकारमें लेने बाद गोरखा व नयपालका राज्य शामिल करके एक बहुत बड़े मुल्कका मालिक बन गया.

इस (सूर्यवंशी गोरखाली) खानदानमेंसे नयपालका मूल पुरुष या पहिला राजा पृथ्वीनारायणशाहको ही समझना चाहिये, जिसने बहादुरी और हौसिलहको काममें लाकर मुल्कके एक छोटेसे हिस्सहको इतना बढ़ाया, कि उसकी सीमामें कोशी नदीके पार वाला किरांति देश भी अपने राज्यमें मिला लिया, लेकिन तो भी राज्य-सीमाके अन्दर कई छोटे छोटे खुद मुख्तार रईस बाकी रह गये थे, जिनको भी वह अपना मातहत बनाने या राज्यसे निकाल देनेकी फ़िक्र और कोशिशमें लग रहा था; परन्तु विक्रमी १८२८ [हि० ११८५ = ई० १७७१] में यह बहादुर राजा नवाकोटके जंगलमें शिकार खेलते समय एक शेरके हमलह करनेसे जख्मी होकर, थोड़ी देर जिन्दह रहने बाद उसी दिन इन्तिकाल कर गया. पृथ्वीनारायणशाहके दो बेटे, सिंहप्रतापशाह और बहादुरशाह थे, जिनमेंसे सिंहप्रतापशाह गद्दीपर बैठा.



(१) काठमांडूमें भाद्रपद शुक्ल १४ को श्री कुमारीकी रथयात्राके दिन नेवार राजा अपने हाथसे तलेजू देवीका पूजन करते, और महलके आगे राज्य सिंहासन बिछाया जाकर देवीका पूजन करने बाद उसपर बैठते थे, जिसके अनुसार वर्तमान खानदानके राजा भी रथयात्राके दिन उसी जगह सिंहासनपर विराजकर दबार करते हैं.

३५— सिंहप्रतापशाह.

३५— सिंहप्रतापशाह भी बड़ा बहादुर और जवांमर्द था, जिसने अपने पिताकी मौजूदगीमें तनहुं व सोमेश्वर आदि कई जिलोंको नयपालमें शामिल किया. इस राजाने गद्दीनशीन होने बाद किसी सबबसे अपने छोटे भाई बहादुरशाहको कैद करदिया था, जो कुछ दिनों पीछे राज्यगुरु गजराज मिश्रकी जमानतपर छोड़ा जाकर देशके बाहिर निकालदिया गया. सिंहप्रतापशाहके दो बेटे, रणबहादुरशाह और शेरबहादुरशाह थे, जिनमेंसे दूसरेकी पैदाइश नेवार जातिकी एक स्त्रीसे थी. विक्रमी १८३२ [हि० ११८९ = ई० १७७५] में जब सिंहप्रतापशाहका परलोकवास हुआ, उस समय रणबहादुरशाह, जो बहुत कम उम्र, याने दूध पीता बच्चा था, नयपालका राजा बनाया गया.

३६— रणबहादुरशाह.

३६— रणबहादुरशाहके बालक होनेके सबब बहादुरशाह, जो नयपालसे निकाला हुआ बेतियामें रहता था, सिंहप्रतापशाहके मरनेकी खबर सुनकर फौरन नयपालकी राजधानी काठमांडूमें आया, और अपने छोटी उम्र वाले भतीजे रणबहादुरशाहको गादी पर बिठाकर आप राज्यमंत्रीके तौर रियासतका काम करने लगा; परन्तु सिंहप्रतापशाहकी राणी (रणबहादुरशाहकी माता) राजेन्द्रलक्ष्मीसे, जो बड़ी बुद्धिमान थी, हमेशह नाइतिफाकी रहनेके कारण कुछ असह पीछे वह दोबारह कैद किया जाकर देशसे निकाला गया, और राज्यका कारवार राजाकी माता राजेन्द्रलक्ष्मी चलाने लगी. यह महाराणी राजनीतिमें बड़ी होशियार थी, इसने सेनाका प्रबन्ध बहुत उत्तम रीतिसे किया, और गोरखा राज्यके पश्चिमी तरफ पाल्पा व काश्की आदि कई छोटी छोटी रियासतोंको जीतकर नयपालके राज्यमें शामिल करलिया; परन्तु कुछ दिनों बाद राजेन्द्रलक्ष्मीका भी इन्तिकाल होगया. तब बहादुरशाहने तीसरी बार फिर नयपालमें आकर कुल राज्य प्रबन्धको अपने हाथमें लिया, और हर हालतमें रणबहादुरशाहका खबरगीर या शिक्षक बना रहा.

बहादुरशाहने अपने प्रबन्धमें नयपालके राज्यको बहुत कुछ तरक्की दी, इन्होंने पहाड़ी जातिके क्षत्रियोंकी कई छोटी छोटी रियासतोंको, जो पश्चिमकी ओर गोरखा राज्यसे मिली हुई और पहिले जमानहमें जुम्लाके राजाकी खिराज गुज़ार थीं. फतह करके नयपालके राज्यमें शामिल किया; और वहांके रईसोंसे नयपाल राज्यकी नौकरी तथा अपने खानदानके साथ विवाह शादी आदि राह व्यवहार रखना स्वीकार कराकर, गुल्मीवाले राजाकी कन्यासे रणबहादुरशाहका विवाह करादिया. इसी जमानहमें बेतियाकी तराईका मुल्क, जिसको

विक्रमी १८२४ [हि० ११८१ = ई० १७६७] में गोरखा खानदानका कबजह

होनेसे पहिले कप्तान किनलॉक साहिबने नयपालके प्राचीन राजाओंसे जीतकर अंग्रेजी राज्यमें मिला लिया था, वापस नयपालके राज्यमें शामिल हुआ, और सर्कार अंग्रेजीके साथ व्यापारकी बाबत विक्रमी १८४९ [हि० १२०६ = ई० १७९२] में पहिला अहदनामह काइम हुआ, जिसमें दोनों तरफसे आने जाने वाले मालपर सैकड़ा पीछे २॥१० रुपया महसूल लिया जाना करार पाया, परन्तु उसपर अमल दरामद न हुआ.

रणबहादुरशाहके गद्दीनशीन होने बाद नयपालके राज्यमें भीरकोट, गर्हुकोट, मूसीकोट, धूरकोट, पर्वत, पाल्पा, थलाहार, बाजूरा, जुम्ला, अछाम, वभां, जाजरकोट और सल्ल्याना आदि स्थान शामिल होजानेके अलावह गोरखा लोगोंने सिकिमके इलाकहको लिम्बुवान् जिलेतक अपने तहतमें करके तिब्बतके लामा राजापर, जो चीनका हिमायती था, चढ़ाई की, और अपनी सीमासे पन्द्रह सोलह मंजिल डिगर्चा नामी नगरको जा लूटा. तब तिब्बत वालोंकी मददपर चीनकी तरफसे वहांके वजीर तुंथाङ्गकी मातहतीमें ७०००० के अनुमान सेना गोरखोंके मुकाबलह को खानह हुई, जिसने विक्रमी १८४९ आश्विन [हि० १२०७ सफर = ई० १७९२ सेप्टेम्बर] में उनको शिकस्त देकर वेत्रवती नदीके पार उतार दिया. यहांपर भी एक बड़ी भारी लड़ाई हुई, जिसमें नयपालकी बहुतसी सेना कत्ल व ज़ख्मी हुई. लड़ाईके बाद वजीर दामोदर पांडे व चौतरिया बमशाहकी तज्वीजसे वेत्रवती नदीका पुल तोड़कर नदीके किनारे वाली पहाड़ी श्रेणीपर रस्सोंके आधारसे बड़े बड़े पत्थर रखवा दिये गये, और नयपाली सेनाको, जो बाकी रही थी, नदीके किनारों पर इधर उधर जंगलमें छिपा दिया. जब चीनी फौज नदीके किनारेपर आ पहुंची, तो फौरन रस्से काट दिये गये, उसवक्त इधर तो एकदम पहाड़परसे पत्थर गिरने लगे, और उधर छिपी हुई सेनाने तीर, बन्दूक व तोप आदिसे हमलह करदिया, जिससे चीनी सेनाका भी किसीकद्र नुकसान हुआ; कई आदमी पत्थरोंके गिरने तथा शस्त्रोंसे मारे गये, परन्तु इस मारिकहके अखीरमें गोरखा लोगोंको हर पांचवें वर्ष खिराजके तौरपर तुहफह भेजना मन्जूर करके सुलह करनी पड़ी (१).

(१) सुलह होनेके समयसें अब हर पांचवें वर्ष इक्रारके मुवाफिक नयपालकी रियासतसे चीनके बादशाहके पास मोरपंख, मोती, मूंगा, हाथीदांत, कम्बाब, वानात, अफ्यून और खड्ग आदि शस्त्र, जिन सबकी कीमत अनुमान बीस हजार रुपयेके होती है, लेकर राज्यके चन्द अफसर, खिद्यतगार व सिपाही आदि कुल ४० या ४५ मनुष्य चीनको भेजे जाते हैं, उनको सवारी और खुराक आदि खर्च तिब्बतकी सीमामें दाखिल होनेसे वापस नयपालकी सीमामें आनेतक चीनके बादशाहकी तरफसे मिलता है. चीनमें पहुंचने

बाद नयपाली अफसर सिर्फ दो बार, याने तुहफह नज़ होने व रुखसत पानेके वक्त, बादशाहसे सलाम करने

चीनी सेनासे लड़ाई होनेके समय नयपाल वालोंने सर्कार अंग्रेजीसे मदद लेना चाहा था, परन्तु लॉर्ड कॉर्नवालिसने उनकी दरखास्तको मन्जूर नहीं किया, इस सबबसे जब विक्रमी १८५० [हि० १२०७ = ई० १७९३] में कम्पनीका पहिला एल्ची क्लिर्कपैट्रिक साहिब नयपालके राजाके साथ व्यापार सम्बन्धी अह्दनामह काइम करने और सर्कार अंग्रेजीकी तरफसे नयपालमें एक रेजिडेण्ट रक्खा जाना मन्जूर करानेकी गरजसे वहां भेजा गया, तो गोरखा लोगोंने उसकी किसी बातपर ध्यान नहीं दिया, और उक्त साहिबको नाकाम्याब होकर वापस लौट आना पड़ा.

जब रणबहादुरशाह होशयार हुआ, तो उसने राज्यमें अपना हुक्म व रोब जमानेके लिये बहादुरशाहको गर्मीके मौसममें कैद करके चितवनकी भाड़ीको भेजदिया, जहां उसे दही व चिचडा खिलायाजाकर किसी ऐसे वृक्षके ताजह पत्तोंपर सुलवादिया गया और उन्हींसे ढक दिया गया, कि जिससे वह उसी रातको, एक किस्मका सस्त बुखार (अवल) पैदा होजानेके सबब, मरगया. इसके मारेजाने बाद विक्रमी १८५२ [हि० १२०९ = ई० १७९५] में रणबहादुरशाह स्वतन्त्र राज्य करने लगा, लेकिन पांच वर्षसे कुछ अधिक समय गुजरा होगा, कि उन्होंने अपनी एक महाराणीका इन्तिकाल होजानेके सबब, जिससे उनको जियादह मुहब्बत थी, राज्य छोड़कर काशीवास करना चाहा; और विक्रमी १८५७ [हि० १२१५ = ई० १८००] के करीब अपने दो बेटों गीर्वाणयुद्धविक्रमशाह और रणोद्योतशाहमेंसे पहिलेको, जो मृतक महाराणीसे पैदा हुआ था, राज्यका मालिक बनाने बाद अपनी दूसरी राणी रणोद्योतशाहकी माता

पाते हैं. जब वे लोग सलामके लिये बादशाहके सामने पहुंचते हैं, तो उन्हें जमीनपर लम्बे पड़कर धोक देना पड़ता है, जैसा कि हिन्दुस्तानमें हिन्दू लोग अपने मज्हबी देवताओंके सामने करते हैं; और बाद उसके बादशाहके हुक्म देनेपर खड़े होते हैं. चीनसे भी हर पांचवें वर्ष खिल्अतके तौर नयपालवाले महाराजाके लिये किसीकद्र रेशमी कपड़ा, सुवर्ण और ट्योफी (एक प्रकारका चूहा) की खालका कुड़ता (कोट) वगैरह करीब बीस हजार रुपये कीमतका सामान आता है, उस वक्त उसकी पेशवाईके लिये नयपालकी सहायतक कुछ फौज भेजी जाती है, और राजधानीके निकट पहुंचनेपर चीनी लोगोंको बड़े आदर सत्कारके साथ शहरके बाहिर ठहराया जाता है. फिर दरबारके दिन कई नयपाली अफसर और नगरके बाशिन्दे नाच व रौशनी आदि उत्सवके साथ रास्तहमें धूप जलाते व पुष्प उछालते हुए दोबारह पेशवाई करके चीनी लोगोंको खिल्अत समेत दरबारमें लाते हैं, महलकी ब्यौढीतक वजीर पेशवाई करता है; महाराजाके सामने पहुंचकर चीनी अफसर भी नयपाली अफसरोंकी तरह लम्बे पड़कर सलाम करने बाद राजाके हुक्मसे उठकर कुर्सियोंपर बैठ जाते हैं. महाराजा सिंहासनपर खड़े होकर खिल्अत लेते, और उसे सिरसे लगाकर रख देते हैं, उस वक्त २१ तोपोंकी सलामी सर होती है.

तथा दामोदर पांडे वजीरकी संभालमें राज्यका कुल कारोबार छोड़कर आप काशीको चले आये. कुछ दिनों काशीमें ठहरनेके पीछे इनका विचार हुआ, कि नयपालको फिर देखें, और इसी इरादहपर अपने साथियों समेत वहांसे रवानह हुए, लेकिन जब वे नयपालकी सीमापर पहुंचे, तो दामोदर पांडे (वजीर) उनका देशमें वापस आना अपने हकमें नामुनासिब समझकर उन्हें रोकनेके लिये सेना समेत मग़ शेरबहादुरके सीमापर गया. ज्योंही कि सेना महाराजाके समीप पहुंची, उन्होंने बेखौफ़ लश्करमें आकर कहा, कि “ऐ मेरे वीर गोरखा लोगो तुममेंसे कौन शाहकी ओर और कौन पांडेकी ओर है ?” यह बात सुनतेही कुल सवार व पैदल, महाराजाको नयपालमें आनेसे रोकनेके बदले शेरबहादुर सहित उनकी खिन्नतमें हाज़िर होगये. इसके बाद भीमसेन थापाकी सलाहके मुवाफ़िक़ महाराजाने दामोदर पांडेको कैद करके काठमांडूकी तरफ़ कूच किया, और वहां पहुंचते ही दामोदर पांडेको उसके दो बेटों रणकेसर व गजकेसर सहित गिरिफ़्तार करके विष्णुमती नदीके पास खुट्याड़ स्थानमें भेजदिया, जहां उन तीनोंके सिर कटवा डाले गये.

रणबहादुरशाहने दोवारह नयपालमें आकर गद्दीपर तो गीर्वाणयुद्धविक्रम-शाहको ही रक्खा, लेकिन रियासतका कुल कारोबार अपने हाथमें लेकर भीमसेन थापाको वजीर नियत करदिया (१), जिसने महाराजाके नयपालमें वापस आनेके समय रास्तह रोकनेवाली नयपाली सेनाके मुकाबलहमें उम्दह कारगुज़ारी दिखाई थी.

उक्त महाराजाने काशीमें निवास करनेके समय सर्कार अंग्रेज़ीकी तरफ़से अपनी ख़बर-गीरीपर कप्तान नौक्स पोलिटिकल एजेण्टके नियत कियाजाने, और बड़ी खातिरदारी के साथ रक्खेजानेसे खुश होकर, नयपालमें दोवारह काविज़ होजानेकी शर्तपर वहां अंग्रेज़ी रेज़िडेण्ट रखनेका वादह करलिया था, और विक्रमी १८५८ [हि० १२१६ = ई० १८०१] में व्यापार सम्बन्धी एक अह्दनामह भी आपसमें करार पाया; लेकिन जब काठमांडूमें पहुंचगये और कप्तान नौक्स वहां आया, तो उसका आदर सत्कार करनेके सिवा अह्दनामहके मुवाफ़िक़ कुछ भी अमलदरामद न किया, इसलिये उक्त कर्नेलको नाकामीके साथ वापस लौट आना पड़ा.

हेनरी एम्ब्रोज़ साहिव, जो कुछ अरसहतक नयपालमें एजेन्सी सर्जन रहे थे, अपनी

(१) रणबहादुरशाहके काशीवास करनेके समय भीमसेन भी उनके साथ था. एक दिनका जिक्र है, कि मणिकर्णिका घाटके करीब महाराजा नाव सवार होकर सैर कर रहे थे, कि अचानक कमरसे तलवार निकलकर गंगामें गिर गई, भीमसेन भी उसके साथ ही फ़ौरन् पानीमें कूदा और तलवारको निकाल लाया, जिसके धन्यवादमें उसको वजीरका पद मिला.

किताबमें लिखते हैं, कि रणबहादुरशाह अपनी राणीका इन्तिकाल होजाने बाद कुछ दीवानह होगयेथे, अगर्चि उनके चन्द राणियां और भी थीं, परन्तु उनसे उनको बिल्कुल मुहब्बत न थी. इन महाराजाने देवालय आदि मज्दबी स्थानोंकी बहुत कुछ बे इज्जती की, और विक्रमी १८६२ [हि० १२२० = ई० १८०५] में ब्राह्मणोंको दिया हुआ कुल दत्त खालिसह करलिया. इसी वर्षमें उनकी जियादहतर सख्तियोंसे तंग आकर राज्यके कई लोगोंने उन्हें रियासती कारोबारसे अलग करनेके लिये शेरबहादुरशाहसे सलाह की, जो रणबहादुरशाहके काशी जाने बाद राजसी मुआमलातमें महाराणीका सलाहकार रहा था. यह खबर रणबहादुरशाहको मिली, जिसपर उन्होंने शेरबहादुरशाहको उस सेनामें जानेका हुक्म दिया, जो पश्चिमी इलाकहके रईसोंको ताबे करनेके लिये भेजी गई थी. शेरबहादुरशाहने सख्तीके साथ जवाब देकर हुक्मकी तामील करनेसे इन्कार किया, तब रणबहादुरशाहने उसको जानसे मरवा डालनेका हुक्म दिया, लेकिन शेरबहादुरशाहने गुरसहमें आकर फौरन मियानसे तलवार निकाली, और महाराजाके पेटमें ऐसी मारी, कि जिससे उनका वहीं काम तमाम होगया, और उसी जगह जंगबहादुरके पिता काजी बालनसिंह कुंवरके हाथकी तलवार लगनेसे शेरबहादुर भी मारागया.

३७- गीर्वाणयुद्धविक्रमशाह.

३७- गीर्वाणयुद्धविक्रमशाह, जिनका जन्म विक्रमी १८५२ [हि० १२०९ = ई० १७९५] में हुआ था, गद्दीपर तो अपने पिताकी मौजूदगीहीमें बैठचुके थे, परन्तु गद्दीनशीनीके वक्त कम उम्र होने और अपने पिताके काशीसे वापस आकर हुक्मत करनेके सबब राज्यके कामोंसे बिल्कुल बे खबर थे, और इस वक्त भी उनकी अवस्था केवल १० वर्षकी ही थी, इसलिये राज्यका कुल काम रणबहादुरशाहकी महाराणी (त्रिपुरासुन्दरी) दीवान भीमसेन थापाकी सलाहसे करती रही.

गोरखाली लोगोंको ऊपर बयान किया हुआ बहुत बड़ा इलाकह हाथ आजानेपर भी सत्र न आया, और वे पश्चिम तरफ लगातार बढ़ते ही गये, यहांतक, कि इस वक्त (गीर्वाणयुद्ध विक्रमशाहके राजा माने जाने बाद) भी मंडी, टिड्डी और कोटकांगड़ाकी तरफ वाला मुल्क फतह करनेके लिये भीमसेन थापाका भाई काजी नेनसिंह थापा बहुतसी सेना समेत नियत था, जिसने कोटकांगड़ेकी सीमातक कुल मुल्क जीतकर नयपालके राज्यमें शामिल करलिया, जबकि वहां (कोटकांगड़ा) का राजा संसारचन्द्र था. संसारचन्द्रने मुल्क छीने जानेके भयसे अपनी लड़की महाराजाको व्याह देने, और हमेशाके

लिये खिराज गुज़ार बननेका इक्रार किया, लेकिन नयपाली मुसाहिबोंने यह बात मन्ज़ूर नहीं की, और नेनसिंहको लड़ाई करनेका दोवारह हुकम मिला.

नेनसिंह थापा बड़ा दिलेर और आजमूदहकार मनुष्य था, हुकम पहुंचते ही युद्ध करनेको सेना साजकर तय्यार होगया, और कोटकांगड़ाके इलाक़ह सालकांगड़ाकी सीमामें पहुंचकर राजा संसारचन्द्रके सेनापति कीर्तिसिंहसे उसका मुकाबलह हुआ, जिसमें कीर्तिसिंहके मारेजाने बाद उसकी सेना भाग निकली, और सालकांगड़ापर क़बज़ह करने के लिये नेनसिंह शहरमें दाखिल हुआ, लेकिन अन्दर पहुंचनेपर कीर्तिसिंहकी स्त्री (१) ने अपने पतिका एवज़ लेनेकी गरज़से अपने मकानमेंसे उसके एक ऐसी गोली मारी, कि जिससे थोड़ी देर बाद उसका दम निकलगया, और नयपाली सेना सालकांगड़ा छोड़कर अपनी पहिली हदपर आ जमी. नयपाल वालोंने यह ख़बर पाकर नेनसिंहकी जगह पाल्पा (बटोल) की हुकूमतपर उसके बेटे वजीरसिंहको, जो करीब पन्द्रह वर्ष उम्रका था, और लड़ाईके कामपर काजी अमरसिंह थापाको मुकर्रर करके भेजदिया. अमरसिंह भी बड़ा बहादुर था, इसने लड़करमें पहुंचकर सालकांगड़ाको अपने क़बज़हमें करलेनेके अलावह राजा संसारचन्द्रको निकालकर कोटकांगड़ामें भी अपना अमल दख़ल करलिया. राजा संसारचन्द्र भागकर लाहौरके राजा रणजीतसिंहके पास पहुंचा, और कुछ दिनों बाद उससे फ़ौजी मदद लेकर वापस कोटकांगड़ेकी तरफ़ आया; रणजीतसिंहकी दीहुई फ़ौजके मुकाबिल छः महीनेतक बराबर लड़ाई करके शिकस्त पाने बाद अमरसिंहको वहांसे हटकर सेना समेत सालकांगड़ामें वापस आजाना पड़ा. सिक्खोंने यहां भी उसका पीछा करके मुकाबलह किया, परन्तु अख़ीरमें सइ मकामपर उन्हें शिकस्त नसीब हुई, और सुलह होकर सालकांगड़ेतक नयपाली सीमा क़ाइम होगई.

(१) जब यह औरत गिरिफ़्तार होकर नेनसिंहके सामने लाई गई, तो नेनसिंहने उसकी बहादुरानह कार्रवाईपर खुश होकर कहा, कि मैं तुम्हारे वास्ते महाराजाको सिफ़ारिश लिख देताहूं, मुनासिब है, कि तुम नयपाल जाना मन्ज़ूर करो, वहां तुम्हारे वास्ते खान पानका अच्छी तरह बन्दोबस्त होजावेगा; लेकिन उस नेकबख़्तने इस बातको मन्ज़ूर न करके उसके जवाबमें यह कहा, कि मैंने अपने पतिके एवज़ तुम्हारे बन्दूक मारी है, अब तुम भी अपने प्राणके बदले मुझे मारडालो, कि इसीमें मेरा उद्धार है, क्योंकि मैं पतिके बिना स्त्रीका जीना ठीक नहीं समझती. उस पतिव्रता स्त्रीकी इन दिलेरानह बातोंपर नेनसिंह और भी प्रसन्न हुआ, और उसे अपना दिली मन्शा जाहिर करनेको कहा, जिसपर उक्त स्त्री बोली, कि यदि आप मुझपर प्रसन्न हुए हैं, तो मेरे पतिका मृतक शरीर मंगवाकर मुझे उसके साथ जल जानेकी आज्ञा दीजिये. नेनसिंहने उसकी दरख़ास्तके मुवाफ़िक़ कीर्तिसिंहकी लाश मंगवादी, और उसे बहुतसा द्रव्य दानपुण्य करनेके लिये दिया, जिसको वह ख़ैरातमें लुटाकर अपने पतिके साथ सती होगई.

संसारचन्द्रसे सुलह होजाने बाद अमरसिंहने दक्षिणी सीमाकी बाबत अंग्रेजोंसे लड़ाई करना चाहा. उसवक्त मरहटा लोगोंने हिन्दुस्तानमें बल्वा मचा रक्खा था, इस कारण सरकार कम्पनीने ऐसे वक्तमें एक नया बखेड़ा पैदा होजाना नामुनासिब समझकर हर तरहसे सुलह काइम करनेके लिये अमरसिंह थापाके पास अपना एल्ची भेजा, परन्तु गोरखाली लोगोंने सुलह करना स्वीकार न करके कम्पनीकी सहादी सेनासे लड़ाई करना शुरू करदिया. तब तो अंग्रेजोंको भी लाचार होकर मुकाबलह करना पड़ा, और जेनरल ऑक्टरलोनी साहिब ७०००० सत्तर हजार सेना सहित मुकाबलहके लिये मुकर्रर हुए. इन्होंने किसीकद्र फौज साथ देकर जेनरल जलेस्पी साहिबको, जो इनके मातहत थे, पाल्पाकी तरफ, जहां वजीरसिंह था, भेजा, और आप अमरसिंहसे मुकाबलह करनेके लिये सालकांगडाकी ओर गया. अगर्चि वजीरसिंहकी उम्र बहुत कम थी, लेकिन अकड़ व जवांमर्दीमें वह अपने पितासे भी बढकर था; उसने जेनरल जलेस्पी साहिबके मुकाबलहमें बड़ी बहादुरी और बुद्धिमानीका काम किया, कि जिससे कम्पनीकी सेनाने शिकस्त पाई, और सैकड़ों फौजी सिपाहियों सहित जेनरल जलेस्पीके जानसे मारेजानेके अलावह कई अफसर व सिपाही वगैरह नयपाली सेनाकी कैदमें पड़ने बाद बाकी फौज भागकर ऑक्टरलोनीसे जा मिली, और बटोलमें वजीरसिंहने अपना कबजह करलिया.

जेनरल ऑक्टरलोनीने सालकांगडाके करीब अमरसिंहसे मुकाबलह किया, यहां भी कम्पनीकी सेनाको शिकस्त नसीब हुई, और उक्त साहिबको कई एक जगह छोटी छोटी लड़ाइयां करने बाद फौज कम होजानेके सबब मुकाबलह छोड़कर अंग्रेजी सीमामें वापस लौट आना पड़ा, लेकिन कुल दिनों पीछे सरकार कम्पनीकी तरफसे एक दूसरी सेना तय्यार कीजाकर उक्त साहिबकी मातहतीमें दोबारह नयपालपर भेजी गई. जेनरल ऑक्टरलोनीने इस वक्त बड़ी होश्यारीका काम किया, कि चन्द अफसरोंको थोड़ी थोड़ी फौज देकर अलहदह अलहदह स्थानोंको घेरने और लड़ाई करनेके लिये मुकर्रर करके आप बहुतसी फौज समेत अमरसिंहकी तरफ बढ़ा, और वहां जाकर बड़ी बहादुरीके साथ नयपाली सेनाको शिकस्त दी. अंग्रेजी फौजने इस समय नयपाल-वालोंका यहांतक पीछा किया, कि अमरसिंहको सालकांगडा छोड़कर महाकाली (सरजू) नदीतक हट जाना पड़ा, और बहुतसी नयपाली सेना मारी गई.

इसवक्त अमरसिंहका इरादह हुआ, कि चीनसे मदद लेकर मुकाबलह करे, लेकिन यह खबर नयपालमें पहुंचनेपर भीमसेन थापा वगैरह कई सर्दारोंने गीर्वाण-युद्धविक्रमशाहकी कम उम्रके सबब लड़ना नामुनासिब समझकर सुलह करलेना

चाहा, परन्तु अंग्रेजोंने उसको मन्जूर नहीं किया, क्योंकि नयपाली लोग तो अपने जीते हुए मुल्कके अलावह तराईका इलाक़ह (१), जो इस वक्त नयपालके राज्यमें शामिल है, लेना चाहते थे, और अंग्रेजोंको यह बात मन्जूर नहीं, इसलिये फिर लड़ाई शुरू हुई.

इस लड़ाईके दोबारह शुरू होनेपर बटोल आदि दश ग्यारह स्थानोंमें बड़े बड़े मुकाबले हुए. आखरकार जेनरल ऑक्टरलोनी मए फौजके काठमांडूसे १८ कोस इसतरफ़ चिरवा घाटीके पार जा पहुंचा, और वहांपर सर्दार रणवीरसिंह थापासे उसका मुकाबलह हुआ, जिसमें नयपाली सेनाके शिकस्त पानेपर गोरखाली सर्दारोंने हरतरह सुलह करना ही मुनासिब समझा और उसके लिये अंग्रेजी लश्करमें पैगाम भेजा; अंग्रेज लोग भी इसवक्त मरहटोंके गढ़के सबब सुलह करना चाहते थे, बहुत कुछ बहस होने बाद महाकाली (सरजू) नदीसे पश्चिम सालकांगडातकका पहाड़ी इलाक़ह, जो अनुमान सौ डेढ़ सौ कोस लम्बा और पच्चीस या तीस कोस चौड़ा है, सर्कार कम्पनीने अपने क़बज़हमें रखकर तराई का ज़िला गोरखाली लोगोंको देदिया. यह लड़ाई विक्रमी १८७१ [हि० १२२९ = ई० १८१४] से शुरू होकर विक्रमी १८७३ [हि० १२३१ = ई० १८१६] में ख़त्म होनेपर वज़ीर भीमसेन थापाके भाई रणवीरसिंहकी मारिफ़त जेनरल ऑक्टरलोनीसे सुलह होकर सौ वर्षके लिये बाहमी दोस्तीका एक अह्दनामह करार पाया, और वर्तमान सीमा क़ाइम कीजाकर अंग्रेजी रेज़िडेण्ट नयपालमें व नयपाली वकील कलकत्तेमें रहना तय पाया. नयपालमें सर्कार अंग्रेजीकी तरफ़से पहिला रेज़िडेण्ट गार्डनर साहिब मुक़र्रर हुआ. इन महाराजाके वक्तमें प्रुशिया (जर्मनी) का शाह-ज़ादह (२) सैर करनेके लिये नयपालमें आया था. लड़ाई ख़त्म होनेके पीछे कुछ दिनों

(१) इस तराईपर नयपाल वाले इस सबबसे दावा करते थे, कि यह मुल्क नयपाल राज्यकी सीमाके भीतर वाले प्राचीन राजाओंके क़बज़हमें था, परन्तु गोरखाली लोगोंने जब उन राजाओंको रियासतोंसे बे दरुल किया, और उनके पहाड़ी इलाक़हमें अपना अमल दरुल क़ाइम करके नावाक़फ़ियतसे तराईको छोड़दिया, इसलिये वहां अंग्रेजोंने दरुल करलिया था.

(२) इस शाहज़ादहका ठीक हाल मालूम नहीं हुआ, कि उसका क्या नाम था. नयपाल निवासी पंडित टंकनाथकी ज़वानी सिर्फ़ इतना मालूम हुआ है, कि यह शाहज़ादह फौजका प्रबन्ध व युद्ध सम्बन्धी क़वाइद सिखानेके लिये अपने साथियोंमेंसे चार जेनरल नयपालमें छोड़ गया था, जिन्होंने एक एक हजार जवानोंकी आठ पल्टनें और एक हजार जवान तोपख़ानह के लिये मुक़र्रर कराकर उनको क़वाइद वगैरह कुल काम सिखाया. कुछ दिनों बाद वे चारों जेनरल भी वापस चले गये.

जिन्दह रहकर इसी वर्षमें शीतलाकी बीमारीसे गीर्वाणयुद्धविक्रमशाहका परलोक वास होगया (१), जब कि उसकी उम्र केवल २१ वर्षकी थी.

इन महाराजाका जन्म होनेके समय ज्योतिषी लोगोंने लिखदिया था, कि इनको शीतलाका भय है, इस कारण महाराजा रणबहादुरशाहने इस बातका बहुत कुछ बन्दोबस्त किया, यहांतक कि जब किसीके बालक पैदा होता, तो उसे उसकी माता समेत नयपालके बाहिर भिजवादेते, और शीतला निकलनेतक वह राजधानीके भीतर, बल्कि आसपासके ग्रामों (पहाड़के बीच) में भी नहीं रहने पाता था, परन्तु भावी प्रबल है, उसमें किसीका वश नहीं चलता; आखरकार वही बीमारी इन महाराजाकी मृत्युका कारण हुई. उक्त महाराजाके राजेन्द्रविक्रमशाह नामका एक ही पुत्र था, जिसकी उम्र महाराजाका देहान्त होनेके समय दो वर्षके अनुमान थी.

३८- राजेन्द्रविक्रमशाह.

राजेन्द्रविक्रमशाहके गद्दी नशीन होने बाद राज्यका काम गीर्वाणयुद्धविक्रमशाहकी सौतेली माताके हुक्मके मुवाफिक भीमसेन थापा ही एक असहतक करता रहा; इसके वक्तमें थापा लोगोंका बहुत कुछ जोर बढ़ गया था. यह एक बड़ा लाइक व होशियार मनुष्य था, जिसने बहुत असहतक राज्यका काम उत्तम रीतिके साथ चलाया, बल्कि राज्यकी आमद और सेनाको भी अच्छे प्रबन्धके साथ बहुत कुछ तरकी दी. महाराणी (त्रिपुरासुन्दरी) ने अपने नाती (राजेन्द्रविक्रमशाह) के दो विवाह अपने हाथसे किये; इसके बाद विक्रमी १८८८ चैत्र कृष्ण ११ [हि० १२४७ ता० २९ शन्वाल = ई० १८३२ ता० १ एप्रिल] को उक्त महाराणीका इन्तिकाल होगया, और इसी समयसे थापा लोगोंके इस्तिथार में भी फर्क आने लगा, क्योंकि त्रिपुरासुन्दरीका देहान्त होनेके वक्त राजेन्द्रविक्रमशाह १८ वर्षके थे, जो कम हौसिलह होनेके अलावह राणियोंके कहनेमें अधिक चलते थे; ऐसा भी सुना जाता है, कि राजेन्द्रविक्रमशाहकी बड़ी महाराणी पांडे लोगोंकी सहायक और छोटी भीमसेन आदि थापा लोगोंकी मददगार थी.

ईश्वरकी कृपासे छोटी अवस्थामें इन महाराजाके पांच बेटे पैदा हुए, जिनमेंसे तीनका जन्म बड़ी महाराणीसे और दोका छोटी महाराणीसे हुआ था. इस कारण महाराजाको राज्यके दूसरे खर्चोंमें कमी करके अपनी औलादके लिये बचत निकालने की जरूरत हुई, और इसी विचारके अनुसार हर एक अपसरकी तन्स्वाह वगैरहमें

(१) गीर्वाणयुद्धविक्रमशाहके साथ सिर्फ एक महाराणी सती हुई.

कमी होने लगी. विक्रमी १८९४ [हि० १२५३ = .ई० १८३७] में भीमसेन थापाके कई एक रिश्तहदार निकाले जाकर रणजंग पांडे (१) महाराजा का सलाहकार मुकर्रर हुआ, और उसीका एक रिश्तहदार भाई रणदल पांडे गोरखाकी हुकूमतपर भीमसेनके भतीजे माथवरसिंह थापाकी जगह नियत हुआ. अबतो थापा लोगोंका इस्तिथार बिल्कुल घटकर एक अरसहके बाद पांडे लोगों का सितारह चमकने लगा, और विक्रमी १८९४ आषाढ़ [हि० १२५३ रबी-उस्सानी = .ई० १८३७ जुलाई] में महाराजाने रणजंग पांडेको उसके पिताका कुल मर्तबह व जागीर भी देदी. थोड़ेही दिनों बाद बड़ी महाराणीके तीन बेटोंमेंसे छोटा बेटा अचानक मरगया, जिसकी बाबत यह मझूर किया गया, कि भीमसेन थापाने बड़ी महाराणीको जहर दिलवाया था, लेकिन वह जहरीली चीज़ महाराणीको खाने वगैरहमें खिलाईजानेके .एवज़ छोटे कुंवरको देदी गई, जिससे वह मरगया. इस अपराधमें भीमसेनने अपने भाई, भतीजों आदिके अलावह कई दूसरे रिश्तहदारों समेत कैद होकर बड़ी सख्तियां उठाई. इन लोगोंका कुल माल अस्वाब ज़ब्त करलिया गया, और उनकी स्त्रियां, बच्चे व नौकर वगैरह बड़ी बेइज़्जतीके साथ शहरसे निकाले गये; इनके सिवा वैद्य आदि कई मनुष्योंको, जो थापा लोगोंके हिमायती समझे जाते थे, बड़ी बड़ी सज़ाएं दीगई, बल्कि नेवार जातिका एक वैद्य बड़ी बेरहमी के साथ मारा भी गया.

महाराजाका यह हाल था, कि कभी तो वह बड़ी महाराणीकी इच्छानुसार राज्य सम्बन्धी कार्रवाई कराते, और कभी छोटी महाराणीसे प्रसन्न होकर बड़ी महाराणीके विरुद्ध बर्ताव करने लगते; इससे बड़ी महाराणीने नाराज़ होकर एक दफ़ह महाराजासे किनारह करके पशुपतिनाथ महादेवकी धर्मशालामें रहना इस्तिथार किया, लेकिन कुछ दिनों बाद वापस महलोंमें आगई.

विक्रमी १८९४ चैत्र कृष्ण पक्ष [हि० १२५३ जिल्हिज = .ई० १८३८ मार्च] में मौका पाकर माथवरसिंह कैदसे निकल भागा; और विक्रमी १८९६ आषाढ़ शुक्ल ९ [हि० १२५५ ता० ८ जमादियुल्अव्वल = .ई० १८३९ ता० २० जुलाई] को भीमसेनने अपनी ज़ियादह बे .इज़्जती होनेके भयसे गलेमें छुरी मारली, और वह उसी ज़रूमसे नव रोज़ बाद मरगया, जिसकी लाश विष्णुमती नदीके किनारेपर फिकवा दीगई. हेनरी एम्ब्रोज़ लिखते हैं, कि यह अपराध भीमसेनका खातिमह करनेके लिये झूठा लगाया गया था.

(१) यह दामोदर पांडेका तीसरा बेटा था, जो महाराजा रणबहादुरशाहके समयमें अपने पिता व दो भाइयोंके क़त्ल किये जानेके वक्त निरा बच्चा होनेके सबब बचगया था.

थापा लोगोंके बाद दोबारह पांडे लोगोंका भी कुछ अरसहतक खूब दौर दौरह रहा, यहांतक कि रियासतके कुल कामोंपर रणजंग पांडेके रिश्तहदार करबीर पांडे, कुलराज पांडे, जगतबाम् पांडे, और दलबहादुर पांडे आदि नियत थे.

विक्रमी १८९६ [हि० १२५५ = .ई० १८३९] में रणजंग पांडे विजारतका पूरा इश्तियार हासिल करके वजीर कहलाने लगा. इसने अपनी सहायक बड़ी महाराणीकी सलाहसे रुपया एकट्टा करनेके लिये रियासती लोगोंपर जुल्म व जियादती करना शुरू किया, और कितने ही लोगोंका माल व अस्बाब जब्त करके उस जुल्मका कारण महाराजाको ठहराया, इस मन्शासे, कि सब लोग महाराजाके विरुद्ध होजावें और वह राज्यसे खारिज करदियेजावें.

रणजंग पांडे (वजीर) ने सिपाहियोंकी शरह घटाकर, तन्ख्वाहकी कमीका हुक्म सुनानेके लिये विक्रमी १८९७ आषाढ कृष्ण ६ [हि० १२५६ ता० २० रबीउस्सानी = .ई० १८४० ता० २१ जून] के दिन कुल सेनाको टूंडीखेल मैदानमें एकट्टा किया; सिपाही लोगोंने पहिलेसे ही इस हुक्मकी बाबत सुन लिया था, उन्होंने इस तज्वीजसे नाखुश होनेके कारण एक साथ हथियार जमीनपर रखदिये, और अपनी अगली पिछली बहुतसी तल्लीफें जाहिर करके इन्साफ कियेजानेकी दख्वास्त की, परन्तु उसपर कुछ गौर व तवज्जुह न हुई, तब राजधानीके आसपासकी कुल सेना (अनुमान ६०००) ने एक मत होकर उन कई सर्दारोंके घर जालूटे, जो उन दिनों सभाके मेम्बर और पांडे लोगोंके सलाहकार थे, और दूसरे दिन राज्य महलमें जमा होकर महाराजाको तंग करना चाहा. उक्त महाराजा कई बार बुलायेजानेपर सेनाके सामने आये, और उसवक्त उन्होंने सिपाहियोंकी कुल तल्लीफें दूर करनेका इक्कार करलिया. इन दिनों महाराजा तो विल्कुल बड़ी महाराणीके आधीन होरहे थे; और उस (महाराणी) की वजीरसे यह सलाह हो चुकी थी, कि किसी रीतिसे यह महाराजा रियासतसे बेदखल किये जायें. महाराणीने सेनाकी तन्ख्वाह कम करनेके लिये महाराजाको बहुत कुछ बहकाया, और इसी विक्रमीकी आषाढ कृष्ण ८ [हि० ता० २२ रबीउस्सानी = .ई० ता० २३ जून] को खुद महाराजाके साथ रहकर सेनाकी परेड जमवाने बाद उनकी जवानसे यह कहलाया, कि “ मुझे अंग्रेजोंके साथ लड़ना है, लेकिन लड़ाईके लिये खजानहमें रुपया नहीं है, इसलिये तुम लोग कुछ दिनोंके वास्ते कम तन्ख्वाहपर नौकरी करो, कि जिससे कुछ रुपया एकट्टा करके लड़ाईका बन्दोबस्त किया जावे. ” इसके जवाबमें फौजी लोगोंने अर्ज की, कि आपको लड़ाईके लिये रुपया जमा करनेकी कोई जरूरत नहीं है, अगर ऐसा विचार है, तो हुक्म दीजिये, कि पहिले अंग्रेजी रेजिडेण्टका काम तमाम करें, और बाद उसके कमाऊं व

सिकिमके जिले, जो अरुममें अपने (नयपालके) हैं, वापस मिलनेके बहानेसे लड़ाई शुरू करदें, और लड़ाईका खर्च लखनऊ व पटना वगैरहकी लूटसे चलजायेगा. इसपर महाराजाने कुछ भी जवाब नहीं दिया, और खामोश होरहे.

थोड़े दिनों बाद महाराजाने अंग्रेजोंसे लड़ाई करनेका विचार करके हिन्दुस्तानके रईसोंसे भी अपने एल्ची भेजकर सलाह लेना चाहा, और रामनगरके जिलेका कुछ हिस्सह जबरदस्ती नयपालके राज्यमें मिला लिया; परन्तु इसी विक्रमीके आश्विन [हि० शव्वाल = ई० अक्टोबर] में सर्कार अंग्रेजीने कर्नेल ऑलिवरको उसकी मात-हतीमें कुछ पलटन, तोपखानह और रिसालह देकर मुल्ककी हिफाजत व नयपालियोंको हटानेके लिये भेजा. इसवक्त महाराजाने वह हिस्सह, जो रामनगरके जिलेसे छीन लिया था, वापस देकर सुलह करली.

सुनाजाता है, कि रणजंग पांडे मिजाजका बहुत अच्छा था, लेकिन विजारत मिलनेके कुछ दिनों पीछे वह दीवानह होगया; उसके रिश्तहदार कुलराज पांडे व करबीर पांडे वगैरह इस बातको पोशीदह रखकर महाराणीकी सलाहसे रियासतका काम करने लगे; और इन्हीं लोगोंके जालिम मिजाज होनेसे रियासती लोगोंपर कई तरहके जुल्म और सख्तियां हुई. इन लोगोंने अनुमान तीन वर्षतक किसीपर यह बात जाहिर न होने दी, कि वजीर दीवानह होगया है, लेकिन वह कब छिपी रहसक्ती थी; अखीरमें जाहिर होनेपर रणजंग पांडे विजारतसे वर्तरफ किया गया, और राज्यका काम रघुनाथ पंडित व फ़तहजंग चौतरिया (१) की सलाहसे होने लगा. कुछ दिनों पीछे दलभंजन पांडे और अभिमान राणा भी उन लोगोंके शामिल किये गये.

विक्रमी १८९८ द्वितीय आश्विन [हि० १२५७ रमजान = ई० १८४१ अक्टोबर] में बड़ी महाराणी काशीकी यात्राके लिये हिन्दुस्तानमें आनेके समय हितौड़ा मक़ामपर बुखार (अवल) की बीमारीसे मरगई, जिसकी निस्वत ऐसा मशहूर हुआ, कि महाराजाने उसे ज़हर दिलाकर मरवाडाला. हेनरी एम्ब्रोज़ लिखते हैं, कि यह ख़बर किसी हिन्दुस्तानी अरख़वारमें भी दर्ज होगई थी, जिसके वास्ते महाराजाने खुद रेज़िडेन्सीमें जाकर वहाँके रेज़िडेण्टकी मारिफ़त गवर्नर जेनरल हिन्दके नाम बहुत कुछ तूल तवील तहरीर करवाई, इस ग़रजसे, कि वह इस झूठी ख़बर छपवाने वालेको दर्याफ़्त करके सख्त सजा दिलवावें.

फ़तहजंग चौतरिया व रघुनाथ पंडित वगैरह लोगोंकी मुसाहिबी में महाराजा व महा-

(१) नयपाल राज्यमें खास महाराजाके खानदानी रिश्तहदार चौतरिया कहलाते हैं.

राजकुमार सुरेन्द्रविक्रमशाहके दरूल देनेके सबब, जिनकी उम्र १२ वर्षकी थी, राज्य-प्रबन्धमें बद्धिन्तिजामी ही रही; क्योंकि महाराजाको राज्य सम्बन्धी कार्योंमें अच्छी तरह अभ्यास नहीं था, और महाराजकुमार बड़े सरुत मिजाज होनेके अलावह जाहिरा पांडे लोगों से सलाह किया करते थे; कुछ अरसह पीछे इन्होंने महाराजाको बेदरूल करके कुल कारोबार अपने हाथमें लेना चाहा. इन्हीं बातोंसे नयपाली सदांर तंग आकर राज्यका उत्तम प्रबन्ध करनेकी तज्वीज सोचने लगे. इस वक्त पालपाके सूबह गुरुप्रसादशाह ने बड़ी खैरख्वाही व वफादारी जाहिर की, किसलिये कि यह शरुत महाराजाका रिश्तहदार होनेके कारण इस बातसे डरता था, कि कहीं युवराज भी राज्यसे महरूम न रहजावें, या छोटी महाराणी कारोबारकी सरुतार बनजावे; क्योंकि इन दिनों रघुनाथ परिडत उक्त महाराणीका सहायक बन रहा था. गुरुप्रसादशाहने राज्यके कुल सदांरोंको एकठा करके एक बड़ी सभा की, जिसमें आम लोगोंकी तरफसे यह विचार मालूम हुआ, कि महाराजकुमारकी तरफसे उनपर बड़ा जुल्म होता है, और उसके जुल्मको रोकनेके लिये महाराजा कुछ उपाय नहीं करते, इसलिये अब हम लोग राजा और युवराज, दोनोंको नहीं मानेंगे. इन बातोंपर किसीकद्र सोच विचार होने बाद, यह बात करार पाई, कि कुल रियासतके लोगोंकी तरफसे चन्द बातें लिखकर महाराजा के सामने इस गरजसे पेश कीजावें, कि वह प्रजाके जान व मालकी रक्षा और राज्यका मुनासिब तौरपर उत्तम प्रबन्ध करें. महाराजा यह चाहते थे, कि खुद नयपालमें रहकर अपनी मौजूदगीमें ही युवराजको महाराजा बनादेवें, और आप भी राज्य सम्बन्धी कार्योंमें दरूल देनेका इस्तिथार रखें; परन्तु यह बात रियासती लोगोंने मन्जूर नहीं की, और दूसरी सभामें चन्द शर्तें लिखकर विक्रमी १८९९ मार्गशीर्ष शुद्ध ५ [हि० १२५८ ता० ४ जिल्काद = ई० १८४२ ता० ७ डिसेम्बर] को उनपर महाराजासे भी मन्जूरीके दस्तखत करालिये. इन शर्तोंके अनुसार कुछ अधिकार महाराणीको मिला, परन्तु मुसाहिबीका काम चौतरिया फत्हजंगशाह वगैरह लोगोंके ही सुपुर्द रहा. उक्त चौतरिया सदांर मिजाजका सीधा सादा होनेके सबब राज सम्बन्धी काम उसके भाई गुरुप्रसादशाह की सम्मतिसे होता था, जिसके साथ महाराणी द्वेष रखती थी. महाराजाने जाहिरा तौरपर तो विजारतका कुल काम चौतरिया फत्हजंगशाहके सुपुर्द करदिया, परन्तु महाराणीके कहनेके मुवाफिक पोशीदह तौरसे माथवरसिंहके पास शिमला (१) मकामपर

(१) माथवरसिंह विक्रमी १८९५ [हि० १२५४ = ई० १८३८] में नयपालसे निकलकर गोरखपुरमें आ रहा था, और इन दिनों शिमलाकी तरफ चला गया, जहां उसको पेशानके तौर एक हजार रुपया माहवार खर्चके लिये सकार अंग्रेजीसे मिलता था.

बुलावेका पैगाम भेजा. इस पैगामके साथ महाराजाने माथवरसिंहसे यह इक्रार भी करलिया था, कि तुमको विजारत मिलनेके सिवा, तुम्हारे रिश्तहदारों तथा सलाहकार लोगोंको पुराने उह्दे और उनका कुल माल अस्बाब, जो ज़ब्त होगया है, वापस दिलादिया जावेगा. महाराजाने चौतरिया लोगोंको भी विजारतका पूरा इस्तिथार इसी मन्शासे दिया था, कि जिसमें रियासती लोग उनके मुखालिफ बनजावें, और वह आसानीके साथ कामसे अलहद्दह कियेजाकर विजारतका काम माथवरसिंहके सुपुर्द करदिया जाये; लेकिन महाराणीका भीतरी विचार कुछ और ही था, वह यह चाहती थी, कि किसी रीतिसे युवराज राज्यके हकसे खारिज कियाजाकर, वर्तमान महाराजाके पीछे मेरे दो पुत्रोंमेंसे बड़ा महाराजाधिराज कहलावे.

माथवरसिंह महाराजाके मिजाजसे अच्छी तरह वाकिफ था, कि वह अपनी बुद्धि से कोई बात नहीं करसके हैं, शायद इस वक्त मुझको किसी और विचारसे धोखा देकर बुलाने का पैगाम भेजा है. वह पहिली बार बुलानेपर एक साथ नयपालमें नहीं आया, बल्कि महाराजा और रियासती लोगोंके अन्दरूनी विचार मालूम करनेके लिये शिमले से खानह होकर नयपाली सीमाके पास ही गोरखपुर स्थानमें आ ठहरा, जहांसे कि नयपाल का हाल अच्छी तरह मालूम होसके. माथवरसिंहके गोरखपुरमें आजानेकी खबर सुनकर महाराजाने विक्रमी १८९९ माघ [हि० १२५९ मुहर्रम = ई० १८४३ फेब्रुअरी] में चन्द सर्दारोंको अपनी खास लाल मुहर (१) का पर्वानह देकर उसे नयपालमें लानेके लिये भेजा. ये लोग गोरखपुरमें पहुंचे, और माथवरसिंहको दिलजमई करके राजधानीमें ले आये.

विक्रमी १९०० वैशाख कृष्ण ३ [हि० १२५९ ता० १६ रवीउलअव्वल = ई० १८४३ ता० १७ एप्रिल] को माथवरसिंह काठमांडूमें दाखिल हुआ, और महाराजाके सामने हाजिर होकर उसने अपने चचा भीमसेनके बदलेमें उन लोगोंको सजा दिलाना चाहा, जिन्होंने उसपर महाराजकुमारको जहर दिलानेका झूठा अपराध लगाया था. माथवरसिंह की इच्छानुसार इस बातकी तहकीकात शुरू हुई और थापा लोगोंके मुखालिफोंके लिये सजा तज्वीज करनेको एक सभा कीगई, जिसमें पांडे लोगोंसे यह मन्ज़ूर करालिया गया, कि हमने भीमसेनपर झूठा अपराध लगाया था. इसपर महाराजाने कुल सभाके लोगोंकी सम्मतिके अनुसार पांडे लोगोंको उनके मददगार या सलाहकार लोगों समेत कत्ल करवाने और थापा लोगोंका ज़ब्त किया हुआ कुल माल व अस्बाब वापस दिलानेका हुकम लिखा दिया. इस हुकमके अनुसार करबीर पांडे व कुलराज पांडे आदि कितने एक मनुष्योंको बड़ी बेरहमीके साथ भाचाकुशीमें लेजाकर उनके सिर कटवाडाले गये,

(१) यह लाल मुहर खास राजाकी आज्ञा व मन्जूरीका चिन्ह है.

और रणजंग पांडेके वास्ते भी यही हुकम दिया गया, लेकिन वह बहुत सख्त बीमारीकी हालतमें होनेके सबब वापस अपने मकानको लौटा दिया गया, और कुछ देर जिन्दह रहकर मर गया. बहुतसे आदमियोंको नाक कान काटे जाने वगैरह कई तरहकी सजाएं दी गईं, और थापा लोगोंको उनका कुल माल अस्वाब, जो जूत हुआ था, वापस मिला; लेकिन माथवरसिंहको विजारत मिलनेमें कई कारणोंसे देरी हुई, तोभी वह महाराजाका बड़ा सलाहकार माना गया.

महाराजाने सोचा, कि अगर चौतरिया फ़तहजंगशाहको मौकूफ़ करके माथवरसिंहको इसी वक्त एकदम वा इस्तिथार वजीर बना दिया जावे, तो मुम्किन है, कि शायद यह महाराणीका तरफ़दार होनेके कारण उसकी इच्छानुसार युवराजको राज्यके हकसे खारिज कराकर महाराणीको राजसी कारोबारकी मुख्तार और उसके पुत्रको युवराज बनानेकी कोशिश करे; और माथवरसिंह भी पूरे तौरपर मजबूती कराये बिना वजीर बनना नहीं चाहता था. ग़रज़कि आठ महीनेतक विजारतका काम फ़तहजंगशाहके ही हाथमें रहा, और माथवरसिंह थापा व उसके रिश्तहदार वगैरह लोग अपनी ज़मीन, जायदादपर काबिज़ होकर केवल महाराजाके सलाहकार बने रहे.

विक्रमी पौष शुक्ल ५ [हि० ता० ३ ज़िल्हिज = ई० ता० २५ डिसेम्बर] के दिन माथवरसिंहको पूरे इस्तिथारके साथ विजारतका काम मिला, लेकिन थोड़े दिनों बाद उसने महाराजा और युवराज, दोनोंकी हुकूमतसे नाराज़गी जाहिर की और काम छोड़कर वापस अंग्रेज़ी अमल्दारीमें चला जाना चाहा, मगर महाराजाने इसवक्त उसको तसल्ली देकर रोकलिया. इन दिनों युवराजका यह हाल था, कि वह अपने पिताको भी बेदखल करके राज्यका कुल काम अपने आधीन कर लेनेकी कोशिश करने लगा, परन्तु वह अपना मन्शा पूरा न होनेके कारण यह बात जाहिर करके, कि जबतक महाराजा राज्य नहीं छोड़ेंगे, मैं हर्गिज़ वापस नहीं आऊंगा, किसीक़द्र फ़ौज और अपने चन्द सलाहकारोंके साथ राजधानीको छोड़कर तराईमें चला गया.

महाराणीका मुख्य सलाहकार गगनसिंह नामी एक ख़वास और उसका मित्र अभिमान राणा था. ये लोग चाहते थे, कि अगर कुल रियासती प्रबन्ध महाराणीके इस्तिथारमें आजावे, तो वजीर वगैरह सबको अलग करके हम लोग हुकूमत करें. लेकिन उन लोगोंके ये विचार माथवरसिंहको मालूम होगये, इसलिये वह महाराजाको गद्दी पर रखकर युवराजको कारोबारी बना देना और महाराणीको रियासती मुअमलातसे बेदखल कर देना अपने दिलमें तज्वीज़ करके महाराजा व कुछ सेना समेत युवराजको लानेके

लिये तराईकी तरफ़ रवानह हुआ. हिटौंडा मक़ाममें युवराजके पास पहुंचनेपर माथबरसिंह के कहनेके अनुसार कुल लोग महाराजासे बागी होकर सुरेन्द्रविक्रमशाहसे मिलगये. आखरकार वज़ीरकी इच्छानुसार उसी जगह १६ मनुष्य, जो थापा लोगोंके विरोधी थे, क़त्ल किये जाकर युवराजको वापस राजधानीमें ले आये, और उन्हींकी सम्मतिसे राज्यका काम होने लगा; इसके बाद फ़तहजंगशाह चौतरिया तीर्थ यात्राका बहाना करके हिन्दुस्तानमें चला आया.

युवराजके राजधानीमें वापस लायेजानेपर महाराणी माथबरसिंहसे द्वेष रखने लगी. महाराजाका तो यह स्वभाव था, कि थोड़ीसी बातमें इधरके उधर होजाते थे, इसवक्त उन्हींने महाराणीके कहनेमें आकर माथबरसिंहका माराजाना मन्ज़ूर कर लिया, और जब यह बात निश्चय होचुकी, तो महाराणीने एक रोज़ काजी बालनरसिंहके बेटे काजी जंग-बहादुर (१) को अपने पास बुलाया और उसे माथबरसिंहके मारडालनेके लिये कहा, जिसको उसने मन्ज़ूर करलिया, और शस्त्र लेकर दोचार आदमियों समेत महाराणीकी इच्छा पूरी करनेके वास्ते उसके पास आ मौजूद हुआ. विक्रमी १९०२ वैशाख शुक्ल ११ [हि० १२६१ ता० १० जमादियुलअव्वल = ई० १८४५ ता० १७ मई] की रातको करीब ग्यारह बजेके वक्त महाराणीने अपना सीढ़ीसे गिरजाना और चोट लगना जाहिर करके माथबरसिंहको बुलवाया. जब वह खबर पहुंचते ही महलमें आया, और उसने महाराणीके सोनेके मकानमें पहुंचकर पलंगके पास (२) सलाम करनेके लिये सिर झुकाया, तो अचानक एक पर्देकी ओटसे चन्द्र बन्दूकें चलीं, और एक साथ तीन चार गोलियां लगजानेसे वह उसी जगह मरगया. जंगबहादुरने उसीवक्त महलसे बाहिर आकर माथबरसिंहके बाल बच्चोंको मर माल व अस्वाबके उनके घरसे अपने पास बुलवा लिया, और रातभर अपने मकानपर रखने बाद सुवह होते ही भगा दिया.

दूसरे दिन जब माथबरसिंहकी लाश खिड़कीके रास्तेसे निकाली जाकर उसके रिश्तह-दारोंको सौंपी गई, तो उस वक्त युवराज और बहुतसे फ़ौजी लोग उसके मारने वालेसे बदला

(१) जंगबहादुर माथबरसिंहका भानजा था, और उसको माथबरसिंहने ही एक छोटे दरजेसे १८०००) रुपया सालियानह पानेवाला काजी बनाया था; परन्तु जंगबहादुर, माथबरसिंहके हुक्मसे अपने एक चचेरे भाई भैरवबहादुरके बे कुसूर क़त्ल किये जानेके कारण उसके साथ दिलमें ईर्ष्या रखता था.

(२) इसवक्त राणीको चोट नहीं लगी थी, और न वह सीढ़ीसे गिरी थी, सिर्फ़ माथबरसिंहको धोखा देनेकी गरज़से यह कार्रवाई की गई थी. जब वह मकानसे आया, तो पलंगके ऊपर कुछ कपड़ा वगैरह रखकर उसको रज़ाई उढ़ा दी गई, और महाराजा व महाराणी महलके एक झरोखेमें बैठे हुए इस माजरेको देखते रहे.

लेनेके इरादहपर वहां जमा होगये, लेकिन फ़साद बढ़ता हुआ देखकर महाराजा महलसे बाहिर आये, और उन्होंने सब लोगोंको यह सुना दिया, कि कोई बल्वा मत करो, माथबरसिंहको मैंने मारा है. यह सुनकर सब खामोश हो रहे. इसके बाद एक मुदत तक कातिलकी तलाश होती रही, मगर उसका कुछ पता न लगा.

माथबरसिंहके मारेजाने बाद मुसाहिबीके लिये चौतरिया फ़तहजंगशाह काशी से बुलाया गया, और उसके पहुंचनेतक जंगबहादुर ही काम करता रहा. जब फ़तहजंगशाह व अभिमान राणा वगैरह काठमांडूमें आ पहुंचे, तो महाराजाने विक्रमी भाद्रपद [हि० रमजान = ई० सेप्टेम्बर] में मुख्य मंत्री फ़तहजंगशाहको नियत करके गगनसिंह खवास, अभिमान राणा, और जंगबहादुरको उसका सलाहकार व मददगार मुकर्रर किया, और इन लोगोंको अलहदह अलहदह काम भी बांट दिये गये. इनके प्रबन्धमें एक वर्षतक बराबर सुभीतेके साथ काम होता रहा, मगर इन दिनों कुल काम महाराणीकी रायके सुवाफ़िक होनेके कारण युवराजका दरूल विल्कुल उठ गया था. अगर्चि उक्त मुसाहिव लोग ज़ाहिरा तौरपर बड़े मेलके साथ काम करते रहे, परन्तु दिलोंमें एक दूसरेके रंज भरा हुआ था.

महाराणीको गगनसिंहपर बहुत कुछ भरोसा था, बल्कि ऐसा कहाजाता है, कि वह उसीके कहनेके अनुसार कुल काम करती थी, इस कारण महाराजा उससे नाराज़ रहने लगे. हेनरी एम्ब्रोज़ लिखते हैं, कि महाराजाने युवराज सुरेन्द्रविक्रमशाह और दूसरे कुंवर उपेन्द्रविक्रमशाहसे यह बात ज़ाहिर की, कि महाराणी गगनसिंहसे स्नेह रखती है, इसलिये उस (गगनसिंह) को क़त्ल करानेका विचार करना चाहिये. यह हाल उपेन्द्र-विक्रमशाहने फ़तहजंगशाह आदि चौतरिया लोगोंपर ज़ाहिर किया, और गगनसिंहके मारनेको एक मनुष्य मुकर्रर किया गया; गरज कि विक्रमी १९०३ आश्विन कृष्ण ९ [हि० १२६२ ता० २२ रमजान = ई० १८४६ ता० १४ सेप्टेम्बर] की रातको १० बजेके वक्त, जब कि गगनसिंह अपने मकानमें बैठाहुआ था, सामनेसे किसी शरूसने आकर गोली मारी, और उसका वहीं काम तमाम होगया. यह ख़बर उसके पुत्र कप्तान बजीरसिंहने महाराणीके पास पहुंचाई.

महाराणी गगनसिंहका माराजाना सुनतेही उसके मकानपर पहुंची, और उसकी स्त्रियों आदिको तसल्ली देने बाद उसने वापस लौटकर गोली मारनेवालेकी तहकीकात करने की गरजसे एक सभा एकत्र करनेको बिगुल बजवाया, जिसकी आवाज़ सुनतेही जंगबहादुर अपने भाइयों व तीन पलटनों समेत आकर हाज़िर हुआ. महाराणीने उसको गगनसिंहके कातिलकी तहकीकात करनेका हुक्म दिया. जंगबहादुरने अर्ज की, कि चौतरिया आदि लोग बड़े बड़े रूतबेके सर्दार हैं, और मैं इसक़द्द हैसियत नहीं

रखता, कि उनके बखिलाफ़ रहकर तहकीकात करसकूं; अगर सब सर्दारोंको न्यायकी जगहमें बिना शस्त्र आनेका हुकम हो, तो अल्बतह कुछ कार्रवाई कर सक्ताहूं. महाराणीने उसकी अर्ज मन्ज़ूर की, और आप एक ऊंचे मकानकी खिड़कीमें जाबैठी.

जंगबहादुर अपनी तीन पलटनोंका बाड़ा बांधकर आप तो महाराणीके पास बैठ गया, और पलटनोंके बीचमें अपने भाई बम्बहादुर, बदरीनरसिंह, कृष्णबहादुर, रणो-द्वीपसिंह, जगतशमशेरजंग और धीरशमशेरजंग वगैरहको तहकीकातके लिये बिठादिया. महाराणीके हुकमके मुवाफ़िक़ फ़तहजंग चौतरिया वगैरह सर्दार लोग अपनी मातहत पलटनोंको कुछ फ़ासिलहपर खड़ी रखकर बिना शस्त्र न्यायकी जगहमें दाखिल हुए. तहकीकात शुरू होनेपर बम्बहादुर व कृष्णबहादुरने कहा, कि गगनसिंहको चौतरिया लोगोंने मारा या मरवाया होगा; इसपर फ़तहजंगशाहके बेटे खड्गविक्रमशाहने गुस्सहमें आकर कृष्णबहादुरपर छुरेका एक वार किया, जिससे उसके हाथकी दो अंगुलियां कटगईं. खड्गविक्रमशाहने उसी छुरेसे एक वार बम्बहादुरपर और दूसरा जंगबहादुरकी पलटनके एक सिपाहीपर भी किया, जिसमें सिपाही तो जानसे मारागया, और बम्बहादुरके सिरमें किसी-कद्र ज़रूम आया, इसके बाद एक दम हल्ला होगया. यह देखकर जंगबहादुरने खड्गविक्रम-शाहको मारनेके लिये धीरशमशेरजंगको इशारह किया, उसने फ़ौरन छुरीसे उसका काम तमाम किया. जंगबहादुरने महाराणीसे इजाज़त लेकर उन कुल चौतरिया आदि लोगोंको, जो तहकीकात कीजानेके लिये बुलाये गये थे, एकदम क़त्ल करडालनेका हुकम अपने भाइयों तथा दूसरे लोगोंको देदिया. फिर तो जंगबहादुरके लोगोंने फ़तहजंगशाह चौतरिया, काजी दलभंजन पांडे, काजी रणजोरसिंह थापा, और अभिमान राणा आदि २७ बड़े बड़े अफ़सरोंके सिवा बहुतसे दूसरे आदमी भी मारे. गरजकि गगनसिंहके साथ ही उसी रातमें जंगबहादुर की मंडलीके सिवा कुल रियासतके मुसाहिबों व उनके सलाहकारोंका काम तमाम होगया, और उसी क़त्लकी हालतमें महाराणीने जंगबहादुरको राज्यमंत्री बनादिया.

दूसरे दिन सुबह होते ही महाराणी जंगबहादुर समेत महलमें आई, और जंगबहादुर विज़ारतका नज़ानह करनेके लिये महाराजाके पास गया. इस वक्त महाराजाने क्रोधित होकर इस अन्यायका कारण पूछा, तो उसने साफ़ कहदिया, कि यह क़त्ल महाराणीके हुकमसे हुआ है. यह बात सुनतेही महाराजा तुरन्त महाराणीके पास गये, और उससे इस क़त्लका सबब दर्याफ़्त किया. इसपर महाराणीने जवाब दिया, कि जबतक मेरे दो पुत्रोंमेंसे एकको गद्दी न मिलेगी, तबतक इसी तरह क़त्ल होता रहेगा. महाराणी

का यह कलाम सुनकर महाराजाके दिलमें भय उत्पन्न हुआ, और वह सर्दार भवानीसिंह व

वीरध्वज विष्ण्यातको साथ लेकर पाटणमें चले आये, परन्तु जंगबहादुरने अपने भाईको भेजकर उन्हें रातके वक्त पीछा महलमें बुलवा लिया.

महाराजाके पास सर्दार भवानीसिंह रहा करता था, उसकी निस्वत वीरध्वज ने महाराणीसे कहा, कि वह महाराजासे पोशीदह तौरपर सलाह करता है. इस शुब्हमें महाराणीके हुक्मसे भवानीसिंह भी क़त्ल कराया गया.

फिर महाराणीने युवराज सुरेन्द्रविक्रमशाह और उनके छोटे भाई उपेन्द्रविक्रमशाहको कैद करके उन कुल लोगोंका, जो क़त्ल कराये गये थे, माल व अस्बाब ज़ब्त कराकर उनके बाल बच्चोंको देशसे बाहिर निकलवा दिया, और फ़तूहजंगशाहके भाई गुरुप्रसादशाह व माथबरसिंह थापाके चचेरे भाई तिलविक्रम थापाको भी, जो पाल्पामें कैद थे, मारनेके लिये कुछ फ़ौज भेजी, लेकिन तिलविक्रमको इस बातकी ख़बर फ़ौजके पहुंचनेसे पहिले ही मिल गई, इसलिये वे दोनों जो कुछ माल अस्बाब हाथ लगा, लेकर वहांसे भाग गये.

इस मारिकहके बाद जंगबहादुरने वज़ीर बनकर कुल उद्दोंपर अपने रिश्तहदारोंको नियत कर दिया, परन्तु वह दिलसे महाराणीकी इच्छा पूरी करना न चाहकर पोशीदह तौरपर युवराजकी जान बचानेके उपायमें लगा रहा. यह बात वीरध्वज विष्ण्यातने महाराणीसे कही, कि जंगबहादुर बहुत दिनोंसे युवराजके साथ मिला हुआ है, वह कभी उनको नहीं मारेगा; मुनासिब है, कि अब्बल जंगबहादुरका काम तमाम कर दिया जावे. इसपर महाराणीने जंगबहादुरके मारनेका उपाय करनेके लिये वीरध्वजको पोशीदह तौरपर विज़ारत देकर मुस्तज़द किया. वीरध्वजने गगनसिंहके बेटे वज़ीरसिंह और कई दूसरे लोगोंसे इस विषयमें सलाह ली, जिनमें विजयराज पंडित भी शरीक था, उसने यह कुल हाल जंगबहादुरको जा कहा. वह भी बड़ा होशियार था, सावधान होकर अपनी और युवराजकी रक्षाके लिये उद्योग करने लगा.

विक्रमी कार्तिक शुक्ल १२ [हि० ता० १० ज़िल्काद = ई० ता० ३१ अक्टोबर] को सुब्ह होते ही महाराणीके हुक्मके मुवाफ़िक़ वज़ीरसिंहने अपने चन्द मातहत हथियारबन्द सिपाहियोंको पोशीदह तौरपर कोतमें लाकर एक मकानके अन्दर छिपा दिया, और महाराणीने जंगबहादुरको बुलानेके लिये आदमी भेजा, परन्तु वह न आया, तब वीरध्वज भेजा गया. यह रास्तह ही में था, कि जंगबहादुर अपने रिश्तहदारों व साथियों समेत तलवार व बन्दूक वगैरह हथियारोंसे आरास्तह होकर महलकी तरफ़ आता हुआ दिखाई दिया. वीरध्वजने नज़दीक पहुंचकर बड़ी नम्रताके साथ कहा, कि महाराणीने आपको अभी कोतमें बुलाया है,

जंगबहादुरको उनका विचार पहिलेसे मालूम होगया था, उसने जवाब दिया, कि वजीर तो तुम नियत हुए हो, हमारी क्या जरूरत है ! यह सुनते ही वीरध्वज मारे डर के कांपने लगा, और कुछ न बोल सका, और उसी जगह जंगबहादुरके इशारहके मुवाफिक कप्तान रणमिहर अधिकारीके हाथसे मारा गया.

जंगबहादुरने महलमें पहुंचकर महाराजा और युवराजके पैरोंमें अपनी पधड़ी रखदी, और अर्ज किया, कि या तो हुजूर मुझे नालाइक समझकर मौकूफ करदें, या युवराजके शत्रुओंका नाश करनेके लिये आज्ञा दें. इसपर महाराजा और युवराजने उसको अपने शत्रुओंकी सजादिही और राज्यकी रक्षाके लिये उत्तम प्रबंध करनेका हुकम देदिया. यह हुकम पाकर जंगबहादुरने पहिले वीरध्वजकी मण्डलीके लोगोंको कत्ल करवाया, और शामके वक्त महाराणीके पास पहुंचकर उसे युवराजकी तरफसे यह हुकम सुनाया, कि वह अपने दोनों बेटों समेत देशसे बाहिर निकल जावे. महाराणीसे इस वक्त और तो कुछ भी उपाय न बन पड़ा, लेकिन उसने महाराजाको बहकाकर अपने साथ चलनेके लिये तय्यार करलिया. विक्रमी मार्गशीर्ष शुक्ल ५ [हि० ता० ३ जिल्हिज = ई० ता० २३ नोवेम्बर] को महाराजा और महाराणी मए अपने दोनों बेटोंके काशीकी तरफ रवानह हुए, और युवराज सुरेन्द्रविक्रमशाह राज्यके मालिक माने जाकर जंगबहादुर उनके सामने साबिक दस्तूर पूरे इस्तिथारातके साथ विजारतका काम करने लगा.

उक्त महाराजा काशीकी यात्रा करने बाद वापस नयपालमें जानेके इरादहसे महाराणी और उसके दोनों पुत्रोंको काशीमें छोड़कर (१) विक्रमी १९०४ चैत्र शुक्ल ९ [हि० १२६३ ता० ७ रबीउस्सानी = ई० १८४७ ता० २५ मार्च] को सींगोली मकामपर पहुंचे, और महाराणी समेत नयपालमें पहुंचनेकी कोशिश करने लगे.

(१) महाराजा राजेन्द्रविक्रमशाह काशी जानेके समय बहुतसा नकद और जवाहिरात साथ लेगये थे, जो उनके वापस आनेके वक्त महाराणीके पास रहा; उसमेंसे बहुतसा तो महाराणी और उसके पुत्रोंने बर्बाद करदिया, और बाकी नकद व जेवर जो बचा, वह सर्कार अंग्रेजीने अपने कबजहमें लेकर ६००००० छः लाखसे कुछ अधिक रुपया ५, रुपये सैकड़ेके सूदपर रखवा दिया, और महाराणीके स्वर्च वगैरहका बन्दोबस्त बनारसके कमिश्नरको सौंपा गया. विक्रमी १९०७ [हि० १२६७ = ई० १८५१] में जंगबहादुरने विलायतसे लौटकर वापस आनेके समय काशी मकामपर दोनों महाराजकुमारोंको नयपालमें चलनेके लिये कहा, परन्तु उन्होंने इन्कार किया, तब उसने उस कुल नकद व जिन्सके तीन हिस्से कराकर उसका सूद दोनों कुंवरों और महाराणीको जुदा जुदा मिलते रहनेका प्रबंध करदिया था. इसके कुछ अरसह बाद दोनों कुंवरोंका इन्तिकाल काशीमें ही होगया.

युवराज व जंगबहादुरने कई मर्तबह महाराजाको अर्जी भेजी, कि आप अकेले राजधानीमें चलेआवें; परन्तु महाराजाने इस बातको मन्जूर न किया, और गुरुप्रसादशाह चौतरिया वगैरह नयपालसे निकले हुए लोगोंको एकट्ठा करके जंगबहादुरको मरवाडालनेकी कोशिश करने लगे. आखरकार गुरुप्रसादशाह और जगत्बम् पांडेकी सलाहके मुवाफिक एक शस्त्रके हाथ नयपाली अप्सरों व सेनाके नाम इस मज्मूनका खत लिखकर भेजा गया, कि वे जंगबहादुरको मारडालें, जिसपर महाराजाकी मुहर भी लगाई गई थी; लेकिन खत लेजाने वाला आदमी नयपालमें पहुंचनेपर पकड़ा गया, और वह पर्वानह जंगबहादुरके हाथ लगा. उक्त वजीरने कुल फौजको एकट्ठा करके पर्वानह सुनाया, और कहा, कि तुम्हारे नाम महाराजाका हुकम मुझे मारनेके लिये आया है, और मैं इस वक्त तुम्हारे सामने मौजूद हूं, इसमें जैसा तुम मुनासिब समझो करो. उस समय कुल रियासती लोगोंने एक मत होकर यह जवाब दिया, कि अब महाराजाका हुकम एतिवारके काबिल नहीं समझा जाता, मुनासिब है, कि देशकी रक्षाके लिये युवराज गादीपर बिठादिये जावें. यह सलाह ठहरकर महाराजाको पकड़नेके लिये कप्तान सनकसिंह किसी कद्र फौज समेत भेजा गया.

कुछ दिनोंतक कई झगड़े बखेड़े होने बाद महाराजा राजेन्द्रविक्रमशाह इलाकह नयपालके अलौ नामी ग्राममें उक्त कप्तानके हाथसे पकड़े जाकर विक्रमी श्रावण कृष्ण १३ [हि० ता० २६ श्रवण = ई० ता० ८ ऑगस्ट] को राजधानीमें लाये गये, और गुरुप्रसादशाह वगैरह लोगोंमेंसे, जो इनसे काशी तथा दूसरे स्थानोंमें मिले थे, चन्द शस्त्र मारे जाने बाद बाकी लोगोंने भागकर जान बचाई. जब राजेन्द्रविक्रमशाह काठमांडूमें पहुंचे, तो उनकी सलामी वगैरह ताजीमी बातोंमें तो कुछ भी कमी न की गई, परन्तु राज्यगद्दीपर युवराजके स्थापित करदिये जानेसे राज्याधिकार उनके हाथमें न रहा, और उसी दिन वह भदगांवके महलोंमें पहुंचा दिये गये, फिर कुछ अरसह बाद काठमांडूमें वापस बुलाये गये, लेकिन मरण पर्यन्त राज्य सम्बन्धी कामोंमें उनका कुछ भी दखल न रहा.

महाराजा राजेन्द्रविक्रमशाहने अपनी हुकूमतके दिनोंमें चन्द मोतमदों तथा केटियों (दासी) को महाराणा जवानसिंहके समय रियासती रीति रवाज दर्याफ्त करनेके लिये उदयपुरमें भेजा था. इन महाराजाका देहान्त गादीसे खारिज कियेजानेके बहुत अरसह पीछे विक्रमी १९३८ के श्रावण [हि० १२९८ रमजान = ई० १८८१ जुलाई] में हुआ.

३९- महाराजा सुरेन्द्रविक्रमशाह.

महाराजा सुरेन्द्रविक्रमशाह विक्रमी १९०४ प्रथम ज्येष्ठ कृष्ण १३ [हि० १२६३ ता० २६ जमादियुलअव्वल = .ई० १८४७ ता० १२ मई] को अपने पिताकी मौजूदगीमें जंगबहादुर वजीर तथा दूसरे रियासती लोगोंकी सम्मतिसे गादीपर बिठा दिये गये थे. इन महाराजाके वक्तमें जंगबहादुरका रियासतमें बहुत कुछ इस्तिथार बढ़ा, और कुल काम उसीके हुक्मके मुवाफिक होता रहा, महाराजा सिर्फ नामके लिये ही राजा माने गये थे; अल्बत्तह कुछ अरसहतक सुरेन्द्रविक्रमशाहके छोटे भाई उपेन्द्रविक्रमशाह, जो मायला साहिब कहलाते थे, राज्यका काम करते रहे. विक्रमी मार्गशीर्ष कृष्ण ८ [हि० ता० २१ जिल्हिज = .ई० ता० ३० नोवेम्बर] को उक्त महाराजाके बड़ी महाराणीसे महाराज-कुमार त्रैलोक्य विक्रमशाहका जन्म हुआ. विक्रमी १९०५ पौष [हि० १२६५ मुहर्रम = .ई० १८४८ डिसेम्बर] में उन्हीं महाराणीके एक दूसरा पुत्र पैदा हुआ, परन्तु एक साल बाद उसका इन्तिकाल होगया.

विक्रमी १९०६ वैशाख [हि० जमादियुलअव्वल = .ई० १८४९ एप्रिल] में लाहौरके महाराजा रणजीतसिंहकी राणी चन्द्रकुंवर, जो चुनारगढ़में नजरबन्द थी, वहांसे भागकर नयपालकी राजधानी काठमांडूमें पहुंची, जिसको महाराजाने भोजन आदिके सिवा ८०० रुपया माहवार हाथ खर्चके लिये मुकर्रर करदिया.

विक्रमी १९०६ माघ शुक्ल २ [हि० १२६६ ता० १ रबीउलअव्वल = .ई० १८५० ता० १५ जैन्युअरी] को वजीर जंगबहादुर मण कर्नेल् जगतशमशेरजंग, कर्नेल् धीर-शमशेरजंग, कप्तान रणमिहरसिंह अधिकारी, काजी करबीर खत्री, काजी दिल्लीसिंह विशन्यात, काजी हिमदलसिंह थापा, लेफ्टिनेण्ट लालसिंह खत्री, लेफ्टिनेण्ट करबीर खत्री, लेफ्टिनेण्ट भीमसेन राणा, और चक्रपाणि नेवार वैद्य वगैरह लोगों समेत महाराजा की तरफसे महाराणी विक्टोरियाकी खिदमतमें मित्रता प्रगट करनेके लिये इंग्लिस्तानकी तरफ खानह हुआ, और इसी समयसे महाराजाने सर्कार अंग्रेजीके साथ दोस्ती बढ़ाना शुरू किया.

विक्रमी १९०७ वैशाख शुक्ल १४ [हि० ता० ११ रजब = .ई० ता० २४ मई] को महाराणी विक्टोरियाकी सालगिरहपर २१ तोपकी सलामी सर कराई गई. जंग-बहादुरके विलायत जानेसे वापस आनेतक रियासतका काम उपेन्द्रविक्रमशाहकी मात-हतीमें बम्बहादुर (जंगबहादुरका छोटा भाई) करता रहा. इसी विक्रमीके आश्विन [हि० जिल्हिज = .ई० अक्टोबर] में महाराजाकी बड़ी महाराणी (त्रैलोक्य-

विक्रमशाहकी माता) का इन्तिकाल होगया, जिसका शोक महाराजाने एक साल तक रक्खा.

विक्रमी १९०७ माघ शुक्ल ५ [हि० १२६७ ता० ४ रबीउस्सानी = .ई० १८५१ ता० ६ फेब्रुअरी] को जंगबहादुर अपने साथियों समेत विलायतसे वापस आया, और एक सन्मानपत्र महाराणी विक्टोरियाकी तरफसे महाराजाके नाम लाया, जिसको उक्त महाराजाने दर्बार करके बड़े सत्कारके साथ लिया, उस वक्त २१ तोपकी सलामी सर हुई. इसके बाद जंगबहादुर अपना विजारतका काम मामूली तौरपर करने लग गया. थोड़े दिनों पीछे कप्तान करबीर खत्रीने महाराजाके छोटे भाई उपेन्द्रविक्रमशाह, जंगबहादुरके छोटे भाई बदरीनरसिंह तथा उसके चचेरे भाई जयबहादुरको कहा, कि जंगबहादुरने इंग्लिस्तानमें अंग्रेजोंके हाथका लुआ हुआ मांस व मद्य खाया पीया है, और इसके सिवा धर्मके विरुद्ध और भी कई अनाचार करके वह जाति भ्रष्ट होगया है. इस बातपर उपेन्द्रविक्रमशाहकी सम्मतिके अनुसार जंगबहादुरको मरवाडालने और विजारतके कामपर उसके छोटे भाई बम्बहादुरको नियत कियेजानेकी तज्बीज होकर यह हाल बम्बहादुरको कहा गया, लेकिन उसने यह कुल साजरा जंगबहादुरसे जाहिर करदिया. इसपर उपेन्द्रविक्रमशाह (महाराजाके भाई), बदरीनरसिंह, और जयबहादुर गिरिफतार किये गये, और तहकीकात होनेके बाद तीनों पांच वर्षके लिये अंग्रेजोंके सुपुर्द होकर विक्रमी १९०८ आषाढ कृष्ण ९ [हि० ता० २३ शरव्वान = .ई० ता० २४ जून] को प्रयागके जेलखानह (किले) में भेजदिये गये (१), और इन लोगोंके खान पान आदिका कुल खर्च तथा उस अफसरकी तन्ख्वाह, जो सरकार अंग्रेजीकी तरफसे उनकी निगरानीपर नियत कियागया, नयपालके राज्यसे दियाजाना मन्जूर हुआ. कप्तान करबीर खत्री बड़ा चालाक था, इसलिये अगर्चि उसपर यह कुसूर पूरे तौरसे साबित न होसका, तोभी जंगबहादुरने उसको दमाई जातिके एक मनुष्यसे निरादर कराकर जाति भ्रष्ट करादिया, परन्तु वह कुल असह बाद वापस अपनी जातिमें शामिल करलियागया.

विक्रमी आश्विन कृष्ण १२ [हि० ता० २५ जिल्काद = .ई० ता० २२ सेप्टेम्बर] को महाराजाकी छोटी महाराणीसे एक पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम नगेन्द्रविक्रमशाह रक्खा गया. महाराजा सुरेन्द्रविक्रमशाहके दो लड़कियां भी

(१) जयबहादुर तो हिन्दुस्तानमें ही मरगया, और उपेन्द्रविक्रमशाह व बदरीनरसिंह मीआद पूरी होने बाद वापस नयपालमें बुलालिये गये; इसके बाद उपेन्द्रविक्रमशाह राजधानीमें और बदरीनरसिंह पाल्पामें रहा.

थीं, जिनमेंसे पहिलीका विवाह उन्होंने जंगबहादुरके बड़े बेटे जगतजंगके साथ और दूसरीका छोटे जीतजंगके साथ किया (१).

विक्रमी १९११ [हि० १२७० = .ई० १८५४] में नयपालके एक सौदागरसे तिब्बतकी राजधानी लासामें वहाँके किसी व्यापारीके साथ लेनदेनकी बाबत कुछ तक्रार हुई, जिसमें नयपाली सौदागरोंका बहुतसा माल व अस्बाब लूटे जानेके अलावा वह एकदो शख्स जानसे भी मारे गये, परन्तु तिब्बतमें उसका कुछ इन्साफ न हुआ, बल्कि इस बारेमें तिब्बतके चीनी अम्बान (एजेण्ट या वकील) की मारिफत लिखा पढ़ी होनेपर भी तिब्बत वालोंने कुछ खयाल न किया, तब नयपालकी रियासतने बदला लेनेकी गरजसे तिब्बतके साथ लड़ाई करना विचारा, और उस देशके रास्तोंपर हर एक जगह मुनासिब फौज तईनात करदी. इन्हीं दिनोंमें याने विक्रमी १९११ फाल्गुन [हि० १२७१ जमादियुलअव्वल = .ई० १८५५ फेब्रुअरी] में कैदियोंके लेनदेनकी बाबत सर्कार अंग्रेजीके साथ एक नया अह्दनामह करार पाकर उसपर महाराजा, वजीर, और रेजिडेण्टके मुहर व दस्तखत हुए.

तिब्बत वालोंने महाराजा नयपालका इरादह लड़ाई करनेका देखकर सुलह होजानेकी गरजसे एल्चीके तौर अपने एक लामाको नयपालमें भेजा था, जिसने सुलह काइम रखनेकी बाबत वजीर (जंगबहादुर) से बातचीत की, लेकिन उसको यह जवाब मिला, कि अगर तुम्हारा राजा एक करोड़ रुपया देना मन्जूर करे, तो लड़ाई मौकूफ रक्खी जावे, वरनह केरंग और कुतीके पारवाले जिले, जो कदीमसे नयपालके हैं, वापस लेलेनेके अलावा वह मुकाबलह होनेकी हालतमें डिगरचा और लासा भी लूट लिये जायेंगे.

लेकिन तिब्बतके राजाकी तरफसे इसका कुछ उत्तर न मिला, तब विक्रमी चैत्र कृष्ण ३ [हि० ता० १६ जमादियुस्सानी = .ई० ता० ६ मार्च] को पैदल पलटनों व तोपखानह समेत सर्दार बम्बहादुर केरंगकी तरफ रवानह हुआ. तिब्बतकी सीमामें पहुंचनेके समय अनुमान ५००० भोटियोंने नयपालकी दो पलटनोंको, जो धीरशम्शेरजंगके साथ कुती मकामको जाती थीं, चूसन गांवके पास रोका, और इस जगह कुछ लड़ाई भी हुई, जिसमें भोटिया लोग शिकस्त पाने बाद अपने कितनेही मुर्दों तथा जख्मी लोगोंको छोड़कर भाग गये. गोरखाली सेना सिर्फ १००० के करीब थी, लेकिन इन लोगोंने ऐसी होश-

(१) जगतजंगका विवाह विक्रमी १९११ वैशाख शुक्ल ११ [हि० १२७० ता० १० शअ्वान = .ई० १८५४ ता० ८ मई] को और जीतजंगका विक्रमी १९११ फाल्गुन शुक्ल ८ [हि० १२७१ ता० ६ जमादियुस्सानी = .ई० १८५५ ता० २४ फेब्रुअरी] को हुआ था.

यारीसे काम किया, कि उनमेंसे कोई शस्त्र ज़रूमीतक न होने पाया. इन लोगोंने भोटियोंका पीछा करना चाहा, परन्तु बर्फके सबब आगे न बढ़ सके, और दूसरे दिन कुती घाटीको अपने क़बज़हमें लेलिया. इस फ़तहकी ख़बर नयपालमें पहुंचनेपर २१ तोपोंकी सलामी सर हुई. केरंग घाटीकी तरफ़ जो फ़ौज गई थी, उसने बिना मुक़ाबलह किये उस मक़ामको छीन लिया. इसके बाद जगत्शमशेरजंगने विक्रमी १९१२ वैशाख शुक्ल १० [हि० ता० ८ शअ़्वान = .ई० ता० २६ एप्रिल] को अपनी हथ्वाही फ़ौज समेत झूंगा गढ़ीपर, जहां बहुतसे तिब्बती लोग जमा थे, जाकर हमलह किया, नौ दिनतक भोटियोंने गोरखा लोगोंके हमलोंको बड़ी तकलीफ़ोंके साथ रोका, और आख़रकार गढ़ी छोड़कर भाग गये; इस मुक़ाबलहमें नयपाली सिपाहियोंमेंसे सिर्फ़ पांच आदमी मारे गये, और ४५ ज़रूमी हुए. इस समय किसीक़द्र नमक वगैरह करीब २०००० बीस हज़ार रुपयेका माल नयपाली सेनाके हाथ लगा.

धीरशमशेरजंगने कुतीसे चार पांच कोस आगे बढ़कर सोना गुम्बाके (१) शहर और गढ़को लेलिया. यहांपर करीब २५०० सिपाही तिब्बतवालोंके थे, जिनमेंसे ४०० के अनुमान मारेजाने तथा ज़रूमी होनेके अलावह २० आदमी नयपाली सेनाकी कैदमें आये. बम्बहादुरके नयपालकी तरफ़ लौट आनेपर उसकी जगह कृष्णबहादुर और कई दूसरे लोग भेजे गये.

जंगबहादुर रियासतका काम बम्बहादुरके सुपुर्द करके आप अपनी मातहत पलटन समेत विक्रमी ज्येष्ठ कृष्ण ६ [हि० ता० १९ शअ़्वान = .ई० ता० ७ मई] को तिब्बतकी तरफ़ ख़ानह हुआ. इस वक्त उन कुल नयपाली आदमियोंकी तादाद, जो लड़ाईके मौक़ेपर जमा किये जासकें, ५६००० से अधिक समझी गई थी. जंगबहादुरने झूंगा गढ़ी और सोना गुम्बाका मुनासिब बन्दोबस्त करने बाद उस मौसममें आगे बढ़ना उचित न समझा, और तिब्बतके सैठ्या काजी वगैरह अफ़सरों की अर्ज़पर सुलह करनेके लिये अपना एक एल्ची शिकर्जुनमें भेजा. इसके बाद वह नयपाली सेनाको बड़ी सावधानीके साथ उक्त स्थानों (केरंग और कुती) में रहने और उनकी हिफ़ाज़त रखनेका हुक़म देकर मए जगत्शमशेरजंग और धीरशमशेरजंगके नयपालमें चला आया.

(१) तिब्बती लोग मन्दिरको गुम्बा कहते हैं, जो बौद्ध लोगोंका पवित्र स्थान या लामा लोगोंके रहनेकी जगह होती है; लामा लोग बौद्धोंके पूजनीय (फ़कीर) समझे जाते हैं, तिब्बतका राजा भी लामा ही होता है, जिसका शादी विवाह वगैरह नहीं किया जाता, राजा लामामें रहता है, और उसके मातहत चार काजी राज्यका काम करते हैं.

नयपाली एल्चीने शिकर्जुनमें पहुंचकर चीनी अम्बान व तिब्बती सर्दारोंसे जंगवहादुरके कहनेके मुवाफिक़ बात चीत की, लेकिन नयपाल वालोंके मन्शाके मुताबिक़ कोई बात करार न पाई, और वह चीनी अम्बानके भेजे हुए एक चीनी अप्सर तथा कई तिब्बती सर्दारों समेत काठमांडूमें लौट आया. उसवक्त चीनी अप्सर व तिब्बती सर्दारोंको महाराजाकी तरफसे यह जवाब मिला, कि नये जीते हुए मुल्कपर हमारा कबज़ह रहे, और ९०००००० रुपया फौज खर्चका मिले, तो सुलह काइम होसक्ती है. यह सुनकर तिब्बती लोग वापस लौटे और उनके साथ महाराजाकी तरफसे कर्नेल तिलविक्रम थापा (१) एक पत्र लेकर, जिसमें ऊपर बयान किया हुआ आशय था, चीनी अम्बानके पास भेजा गया. जब वह तिब्बतमें पहुंचा और अम्बान से मिला, तो कुछ बातचीत होने बाद अम्बानने यह जवाब दिया, कि अगर गोरखा लोगोंको सुलह करना मन्ज़ूर है, तो २००००० दो लाख रुपया फौज खर्चकी बावत उन्हें दिया जाकर आइन्दहके लिये नयपाली सौदागरोंके मालपर महसूल मुआफ़ करदिया जायेगा, और यदि यह मन्ज़ूर न हो, तो इस लड़ाईका हाल चीनके बादशाहको जाहिर करके वहांसे जंगी सेना मंगाई जावेगी, जो नयपालमें लूटमार करने और देश छीन लेनेके अलावह गोरखाली राजाको भी गिरफ़्तार करके पेकिन (चीनकी राजधानी) में लेजावेगी; क्योंकि तिब्बतका मुल्क चीनी सरकारने लामा लोगों और बौद्धके मठों (गुम्बों) को पुण्यार्थ दे रक्खा है, इसपर और किसीका कुछ इख्तियार नहीं है. यह वृत्तान्त पत्र द्वारा लेकर तिलविक्रम काठमांडूमें आया, जिसका जवाब महाराजा की तरफसे वज़ीर जंगवहादुरने बड़ी नमी और किसीकद्र सख्तीके साथ विक्रमी भाद्रपद [हि० १२७२ सुहरम = .ई० सेप्टेम्बर] में यही भेजा, कि जीता हुआ मुल्क कभी नहीं छोड़ा जायेगा; यदि चीनी सेनाकी चढ़ाई होगी, तो गोरखा लोग भी अपनी शक्तिके मुवाफिक़ आखरी दमतक लड़ेंगे.

विक्रमी कार्तिक [हि० रबीउलअव्वल = .ई० नोवेम्बर] के शुरू में तिब्बती भोटिया लोगोंने कुतीकी मुहाफ़िज़ नयपाली सेनापर, जो तादादमें ढाई हजारसे कम न थी, अचानक धावा किया, जिसमें नयपाली सेनाके बहुतसे आदमी मारेजाकर बाकी बचे हुए १३०० सिपाही लिस्तीकी तरफ़ भाग आये. यह खबर नयपाल में पहुंची, और वहांसे पांच पल्टनें धीरशम्शेरजंगकी मातह्तीमें लिस्तीकी तरफ़ तथा पांच पल्टनें सनकसिंहकी मातह्तीमें केरंगकी ओर भेजी गईं.

(१) यह वह शख्स है, जो पाल्पासे गुरुप्रसादशाहके साथ भागा था, और जिसको जंगवहादुरने वापस बुलाकर कर्नेल बना दिया था.

विक्रमी कार्तिक शुक्ल १० [हि० ता० ८ रबीउलअव्वल = .ई० ता० १९ नोवेंबर] को काठमांडूमें यह खबर पहुंची, कि भोटिया लोगोंने रातके वक्त झूंगापर हमलह किया, जिसमें उनके करीब १००० एक हजार आदमी मारे जाने व घायल होने बाद बाकी लोग भाग गये; नयपाली मददगार फौजने नियत स्थानोंपर पहुंचकर उनके आस पास कई जगह भोटिया लोगोंसे मुकाबले किये, जिनमें सैकड़ों मुखालिफ़ और भी मारे गये, और उन तोपों वगैरह सामानमेंसे, जो भोटिया लोगोंने कुटी मक़ामके पास अचानक हमलह करके नयपालियोंसे छीन लिया था, बहुतसा सामान वापस हाथ लगा. इन लड़ाइयोंमें करीबन् २०० गोरखा और १८०० तिब्बती भोटिया मारे गये. आखरकार तिब्बत वालोंने जान व मालका बहुत कुछ नुक़सान उठानेसे लाचार होकर सुलह करली, और उसी समयसे उन्होंने १०००० दस हजार रुपया सालानह नयपालके महाराजाको देना, नयपाली सौदागरोसे अपने इलाक़हमें किसी मालपर कुछ भी महसूल न लेना, और व्यापारियोंके मुक़दमे फ़ैसल करनेके वास्ते तिब्बतमें नयपाली रेज़िडेण्ट रक्खा जाना मन्ज़ूर किया.

विक्रमी १९१३ श्रावण शुक्ल १ [हि० १२७२ ता० २९ जिल्काद = .ई० १८५६ ता० १ ऑगस्ट] को जंगबहादुरने विज़ारतका काम अपने छोटे भाई बमबहादुरको सौंप-दिया, और उसका सबब अपनेमें रियासती कारोबारकी निगरानी और मुल्की मूआम-लातमें परिश्रम करनेकी शक्ति न होना जाहिर किया. महाराजाने जंगबहादुरके मन्शाके मुवाफ़िक़ विज़ारतका उहदह बमबहादुरको देकर कुछ दिनों बाद जंगबहादुरको महाराजा का खिताब, और एक लाख रुपया सालानह आमदनीके काश्की और लमजुं नामी दो सूबे जागीरमें बरक़ा दिये (१).

विक्रमी १९१४ ज्येष्ठ शुक्ल २ [हि० १२७३ ता० १ शव्वाल = .ई० १८५७ ता० २५ मई] को बमबहादुर मरगया (२). इसके बाद जंगबहादुरने

(१) इसवक्त महाराजाने जंगबहादुरको बहुत कुछ इस्तिथारातके साथ एक सनद लिखदी थी, जिनमेंसे अव्वल तो उसको अपनी जागीरमें मुजिमोंको मौतकी सज़ा देने, दूसरे अपने विरोधीको खास अपनेही इस्तिथारसे रियासत नयपालके हर एक स्थानमें जहां चाहे सज़ा देनेका इस्तिथार था; तीसरी शर्त यह थी, कि चीनी तथा अंग्रेज़ी सर्कारोंसे, जो वर्ताव जारी है, उसमें किसी तरहकी कमी बेशी उसकी रायके बिदून महाराजा या वज़ीर न करसकें, परन्तु इस बातको अंग्रेज़ी रेज़िडेण्टने मन्ज़ूर नहीं किया; और चौथे यह, कि नयपालके राज्यमें उसीके भाइयों तथा बेटोंमेंसे क्रमशः एकके बाद दूसरा विज़ारतका उहदह पाता रहे.

(२) इससे पहिले नयपालके कुल वज़ीर किसी न किसी कारण शस्त्र वगैरहसे मारे गये; लेकिन सिर्फ़ यही एक वज़ीर हुआ, जो बिना मारे मौतसे मरा.

विक्रमी आषाढ़ शुक्ल ४ [हि० ता० २ जिल्काद = ई० ता० २५ जून] को महाराजाके बड़े पुत्र त्रैलोक्यविक्रमशाहके साथ अपनी बड़ी लड़कीका विवाह करदिया। यह शादी आनन्द व उत्साहके साथ बड़ी धूमधामसे हुई, जिसमें अंग्रेजी रेजिडेण्ट मिहमानके तौरपर शामिल हुए, और जल्सह देखनेके लिये जंगबहादुरने रेजिडेन्सीसे मेम लोगोंको भी अपने मकानपर बुलाया।

विक्रमी आषाढ़ शुक्ल ७ [हि० ता० ५ जिल्काद = ई० ता० २८ जून] को बम्बहादुरके मरनेका शोक और युवराजकी शादीका जल्सह खत्म होने बाद जंगबहादुरने महाराजा और अपने रिश्तहदारोंके कहनेपर दोबारह विज़ारतका काम अपने हाथमें लिया।

विक्रमी १९१४ [हि० १२७३ = ई० १८५७] के ग़द्दमें जंगबहादुरने सर्कार अंग्रेजीको मदद देनेके लिये फ़ौज तय्यार की, लेकिन गवर्मेण्टने कुछ दिनोंतक, याने जबतक कि बागी लोगोंको शिकस्त न हुई, मदद लेना मन्ज़ूर नहीं किया; क्योंकि अक्वल तो अंग्रेज लोग हिन्दुस्तानियोंको यह बात दिखलाना चाहते थे, कि सर्कार अंग्रेजी अपनी ताकतसे ही इस फ़सादको दूर कर सकती है, और दूसरे जंगबहादुरने मदद देनेके एवज अन्न काइम होजाने पर अवधके सूबहमेंसे कुछ मुल्क मांगा था। जब दिल्ली व लखनऊ वगैरह स्थानोंमें गवर्मेण्ट अंग्रेजीका क़बज़ह होगया, तब ग़द्दको रफ़ा करनेके लिये उक्त गवर्मेण्टने गोरखाली लोगोंसे मदद लेना सिर्फ़ इस शर्तपर मंज़ूर किया, कि जो आदमी मारेजावेंगे उनके बालबच्चोंको पेनशन दी जायेगी, और जो ज़ख्मी होंगे उनको इन्आमके तौरपर रुपया मिलेगा, और इसके सिवा गोला, बारूद वगैरह सुतफ़रक़ खर्च भी दिया जायेगा। जंगबहादुर खास अपने फ़ायदेके लिये अंग्रेजोंको हर हालतमें मदद देना मुनासिब समझकर खुद फ़ौज समेत हिन्दुस्तानकी तरफ़ आनेके लिये तय्यार हुआ, कि इसी अरसहमें गगनसिंह ख़वासके बेटेकी ज़बानी कई लोगोंकी निस्वत जंगबहादुरको उसके भाइयों व दूसरे सलाहकारों समेत मारडालनेका इरादह जाहिर हुआ, जिसपर दस बारह आदमी गिरिफ़्तार होकर क़त्ल कराये गये।

इसके बाद जंगबहादुर मए रणोद्वीपसिंह व धीरशमशेरजंगके क़रीब ११००० फ़ौज साथ लेकर अंग्रेजोंको मदद देनेके लिये नयपालसे खानह हुआ; यह फ़ौज थोड़े दिनों तक सींगोली व विसोलियामें ठहरकर विक्रमी पौष शुक्ल १३ [हि० १२७४ ता० ११ जमादियुलअक्वल = ई० ता० २९ डिसेम्बर] को गंडक नदीके पार गोरखपुरके रास्तहपर पहुंची, जहां जेनरल मैकग्रैंग साहिबसे जंगबहादुरकी मुलाकात हुई, और उक्त जेनरलके कहनेके मुवाफ़िक़ जंगबहादुरकी सेनाने सर्कार अंग्रेजीको

मदद दी, जिसका मुफ़्फ़सल हाल कप्तान ट्रौटर साहिबकी किताब “ ब्रिटिश एम्पाइर इन इण्डिया ” में लिखा है.

जंगबहादुरने रियासतका प्रबन्ध बहुत उम्दह तौरपर किया, और सेनाकी तादाद भी किसीकद्र बढ़ाई. इसके सिवा धर्मशास्त्रके अनुसार एक क़ानून (ऐन) बनवाकर कुल राज्यभरमें जारी किया, जिसमें मुल्की मुआमलातके प्रबन्ध और मुक़दमात वगैरहकी तफ़्सील व सज़ाओंका तरीक़ह बयान किया गया है. इस क़ानूनके जारी होनेसे पहिलेकी बनिस्बत इस वक़्त मुज्जिमोंकी सज़ादिहीमें बहुत कुछ कमी होगई है, और ज़मींदारोंके पाससे इज़ाफ़ह करनेपर भी किसी दूसरेको ज़मीन नहीं दिलाई जाती.

विक्रमी १९१८ [हि० १२७७ = ई० १८६१] के करीब जंगबहादुरकी दूसरी लड़कीका विवाह युवराज त्रैलोक्यविक्रमशाहके साथ हुआ; और कुछ अरसह बाद अपनी तीसरी लड़कीकी भी शादी उक्त वज़ीरने इन्हीं महाराजकुमारके साथ करदी.

विक्रमी १९२९ [हि० १२८९ = ई० १८७२] में महाराजकुमार त्रैलोक्य-विक्रमशाहके दूसरी महाराणीसे एक कुंवर उत्पन्न हुआ, जिसका बड़ा भारी उत्सव माना गया. लाखों रुपये नक़्द, ज़ेवर व ज़मीन वगैरह बहुतसे लोगोंको इन्-आममें दीगई, और कुल रियासतके नौकरोंके अलावह रेज़िडेण्टकी सेनाको भी सरोपाव दिये गये. छठीके जल्सहमें महाराजकुमारने रेज़िडेण्टको मिहमान किया; परन्तु अफ़सोस, कि वह कुंवर एक महीनेका होकर इन्तिक़ाल करगया. इसके बाद विक्रमी १९३२ श्रावण शुक्ल ७ [हि० १२९२ ता० ६ रजब = ई० १८७५ ता० ८ अग़स्त] के दिन इन्हीं महाराणीके गर्भसे पृथ्वीवीरविक्रमशाहका जन्म हुआ. इनके सिवा त्रैलोक्यविक्रमशाहके दो तीन लड़कियां भी निज महाराणियोंसे पैदा हुईं, जिनमेंसे सिर्फ़ एक बाकी रही. उक्त युवराजके महाराणियोंके अलावह कई एक ख़्वासों भी थीं, जिनसे ६ लड़के पैदा हुए.

विक्रमी १९३३ [हि० १२९३ = ई० १८७६] की शरद ऋतुमें जंग-बहादुर अपने भाई जगत्शम्शेरजंगके बेटे जेनरल अमरजंग व कई राणियों और ख़्वासों समेत शिकारके लिये तराईमें आया था, जहां नयपालसे चालीस कोस दूर बाघमती नदीके किनारे पत्थरघटा मक़ामपर कुछ दस्त लगजानेसे विक्रमी फाल्गुन शुक्ल १२ [हि० १२९४ ता० ११ सफ़र = ई० १८७७ ता० २५ फ़ेब्रुअरी] को उक्त वज़ीरका इन्तिक़ाल होगया, और एक राणी व दो ख़्वासोंने उसके साथ सती होनेकी इच्छा प्रगट की. यह ख़बर अमरजंगने नयपालमें अपने पिता व चचा (जंगबहादुरके छोटे भाई) रणोद्दीपसिंह व धीरशम्शेरजंगके पास भेजी.

जब दूसरे रोज़ यह हाल इन लोगोंको मालूम हुआ, तो इन्होंने वज़ीरके देहान्तको छिपाकर

पहिले राजधानीका कुल बन्दोबस्त किया, और इसके बाद रातके वक्त धीरशम्शेरजंगने युवराज त्रैलोक्यविक्रमशाहके पास जाकर अर्ज किया, कि जंगबहादुर बहुत बीमार हैं, इसलिये आपको महाराणियों समेत बहुत जल्द वहां पधारकर उन्हें दर्शन देना चाहिये, मैं भी आपके हम्माह चलता हूं. धीरशम्शेरजंगके कहनेके मुवाफिक युवराज उसी वक्त महाराणियों समेत तय्यार होगये, तब विक्रमी फाल्गुन शुक्ल १४ [हि० ता० १२ सफ़र = ई० ता० २६ फेब्रुअरी] को पिछली नौ घड़ी रात बाकी रहे धीरशम्शेरजंगने जंगबहादुरके बेटे जगत्जंग, जीतजंग, पद्मजंग और रणवीरजंग आदि (१) को भी कहलाया, कि जंगबहादुर सख्त बीमार हैं, इस सबबसे महाराजकुमार वहां पधारते हैं, अगर तुम लोगोंको भी चलना हो, तो चलो; लेकिन उनमेसे कोई चलनेके लिये तय्यार न हुआ. आखरकार युवराज अपनी तीनों महाराणियों तथा धीरशम्शेरजंग, बम्बहादुरके बेटे बम्बिक्रम, जीतजंग और रणवीरजंग समेत नयपालसे खानह होकर विक्रमी फाल्गुन शुक्ल १५ [हि० ता० १३ सफ़र = ई० ता० २७ फेब्रुअरी] को पत्थरघटा मकामपर पहुंचे, और उसी रोज उक्त वजीरका दाह कर्म हुआ. इस वजीरके साथ एक राणी और दो ख्वासें सती हुई.

जंगबहादुरके भाइयोंने युवराजको जंगबहादुरके बीमार होनेकी खबर इस विचारसे दी थी, कि कहीं ऐसा न हो, कि युवराज, जंगबहादुरके मरनेकी सहीह खबर सुनकर उसके बेटे जगत्जंगको, जो अपने पिताकी आज्ञानुसार उसकी मौजूदगीमें ही रियासती कारोबारमें एक बड़ा सलाहकार माना जाता था, वजीर बनानेकी कोशिश करें, या हम लोगोंके खानदानको बिल्कुल विजारतसे खारिज करा दें; इसलिये अस्ल हाल जाहिर नहीं किया. उन्होंने यह सोचा, कि त्रैलोक्यविक्रमशाह नयपालसे खानह होजावेंगे, तब महाराजासे अर्ज करके रणोद्वीपसिंहके नामपर विजारत करालीजावेगी. युवराजके नयपालसे खानह होने बाद प्रभात होते ही ये लोग महाराजा सुरेन्द्र-विक्रमशाहके पास पहुंचे, और उनसे वजीरका मरना जाहिर करके विजारतका काम रणोद्वीपसिंहके नाम करालिया. इस वक्त आम लोगों व जंगबहादुरके बेटों जगत्जंग आदिको मालूम हुआ, कि जंगबहादुर मरगये, और उनकी जगह रणोद्वीपसिंह वजीर बनाये गये हैं.

रणोद्वीपसिंहने विजारतका उद्दह पानेसे पहिले ही जगत्जंगके भयसे इस कद्र बन्दोबस्त करा दिया था, कि राजधानीके चारों तरफ पलटनें तईनात कर देनेके

(१) जंगबहादुरके बहुतसी राणियां और ख्वासें थीं, जिनके गर्भसे कई लड़के व लड़कियां उत्पन्न हुईं, लेकिन उसके मरनेके वक्त कुल ९ बेटे और १५ बेटियां बाकी रही थीं.

सिवा जंगबहादुरके बेटोंमेंसे किसीको महाराजाके पासतक नहीं जाने दिया. जब युवराज (त्रैलोक्यविक्रमशाह) जंगबहादुरका दाह कर्म कराकर विक्रमी चैत्र कृष्ण १ [हि० ता० १४ सफ़र = ई० ता० २८ फ़ेब्रुअरी] के दिन वापस राजधानीमें आ पहुंचे, और उन्होंने रणोद्दीपसिंहका नज़ानह लेलिया, तब पलटनें वगैरह बन्दोबस्त उठाया गया.

महाराजा सुरेन्द्रविक्रमशाहके मिजाजका हाल तो पाठक लोग उनके बचपनकी आदतोंसे मालूम करही सक्ते हैं, कि वह सिवा वाहियात खेल तमाशों व हर एकपर जा बेजा सरुती करनेके राज्य प्रबन्ध सम्बन्धी कामोंपर कुछ भी खयाल नहीं करते थे, और राज्यका कुल काम महाराजा राजेन्द्रविक्रमशाहके राज्यसे खारिज होने व इनके गादीपर बिठाये जानेके पहिलेसे जंगबहादुर ही खास अपनी तज्वीजके मुवाफ़िक़ करता था; जबतक यह वज़ीर जीता रहा, राज्यमें किसी तरहकी खराबी पैदा न होने पाई; क्योंकि जंगबहादुरको प्रथम तो महाराजा राजेन्द्रविक्रमशाहने काशी जाते वक्त राज्यका पूरा इस्ति्यार देदिया था; दूसरे उस वक्त सुरेन्द्रविक्रमशाह बालक होनेके अलावह अव्वल दरजेके बद् चलन थे, जो इस वक्तक केवल नामके लिये राजा रहे; और तीसरे युवराज त्रैलोक्यविक्रमशाह उक्त वज़ीरके साथ अपना एक नज्दीकी रिश्तह होजानेके सबब उसका बहुत कुछ लिहाज रखते थे. इन कारणोंसे जंगबहादुरने नयपालके राज्यपर एक अरसहतक खुद मुस्तारीके साथ हुकूमत की, इसकी विज़ारतके वक्तमें अगर कोई बन्दिश उसके बख़िलाफ़ हुई, तो फ़ौरन जाहिर होकर मुख़ालिफ़ोंको सज़ा दीगई.

रणोद्दीपसिंह अपने भाई जंगबहादुरके वक्तमें एक बड़ा अफ़सर या नाइब वज़ीर माना जाता था, लेकिन कुछ अरसहसे रियासती काम काजमें जियादहतर जगत्जंग दरुल देने लगगया था. अब युवराज त्रैलोक्यविक्रमशाहको धोखा देकर उनके मन्शाके बख़िलाफ़ रणोद्दीपसिंहको उसके भाइयोंने वज़ीर बना दिया, और राज्यका काम जंगबहादुरके इस्ति्यारके मुवाफ़िक़ रणोद्दीपसिंह, जगत्शमशेरजंग व धीरशमशेरजंग करने लगे, इनके अलावह युवराजने भी किसी किसी बातमें दरुल देना शुरू किया, जिसके लिये वज़ीरने कई बार उनको रोका, बल्कि एक मर्तबह वह सरुत कलामीसे भी पेश आया, और कहा कि तुमको हर्गिज किसी मुअामलेमें दरुल न देना चाहिये. यह बात महाराजकुमारको बहुत ही नागुवार गुज़री, और इसी नाराजगीपर उन्होंने वज़ीरके खानदान व उनके साथियोंका बिल्कुल खातिमह करा देनेके लिये बहुतसे मनुष्योंको भी एक मत करलिया था, परन्तु अखीरमें कुछ नतीजह न निकलने पाया, याने विक्रमी १९३४ चैत्र कृष्ण १२ [हि० १२९५ ता० २५ रबीउलअव्वल = ई० १८७८ ता० ३० मार्च] को उक्त महाराजकुमार, एक रातभर शरीरमें जलन रहकर, प्रभात होतेही यकायक इस दुनयासे इन्तिकाल करगये.

त्रैलोक्यविक्रमशाहके बाद रणोद्वीपसिंहने उनके सलाहकार लोगोंके उद्दामोंमें कमी और कई प्रकारसे उनका अपमान करना शुरू किया, जिसपर बहुतसे आदमियोंने महाराजाके छोटे कुंवर नगेन्द्रविक्रमशाहसे सलाह लेकर थापा लोगोंमेंसे श्रीविक्रम या अमरविक्रम (१) को वजीर बनाने और रणोद्वीपसिंह आदिको मारडालनेका विचार निश्चय करलिया. इस सलाहमें जंगवहादुरका बेटा पद्मजंग भी शामिल था, लेकिन उसको यह बात नहीं जतलाई गई थी, कि विज्जारतका पद थापा लोगोंको दिया जायेगा. नगेन्द्रविक्रमशाहके सलाहकारोंने यह सलाह ठहराई, कि जिस वक्त रणोद्वीपसिंह अपने कुल सलाहकारों व रिश्तहदारों समेत कचहरीमें बैठे, उस वक्त एकदम सब लोग वहां कत्ल करडाले जावें. इसी अरसहमें, याने विक्रमी १९३७ मार्गशीर्ष [हि० १२९८ सुहरम = ई० १८८० डिसेम्बर] में युवराज त्रैलोक्यविक्रमशाहकी महाराणियां तीर्थ यात्राका मनोर्थ प्रगट करके हिन्दुस्तानकी तरफ रवानह हुई, और उनके साथ रणोद्वीपसिंह भी चला गया. उक्त महाराणियां जगदीश, रामेश्वर और द्वारिका तीन धामकी यात्रा करके बम्बईमें पहुंची थीं, कि उसी मकाम पर महाराजा सुरेन्द्रविक्रमशाहके सख्त बीमार होनेकी खबर उनको मिली, जिससे कुल लश्कर एकदम सीधा नयपालकी तरफ रवानह होकर विक्रमी १९३८ के वैशाख [हि० १२९८ जमादियुलअव्वल = ई० १८८१ एप्रिल] में राजधानीके अन्दर दाखिल हुआ; और विक्रमी ज्येष्ठ शुक्ल १५ [हि० ता० १४ रजव = ई० ता० १२ जून] को क्षई रोगसे महाराजा सुरेन्द्रविक्रमशाहका इन्तिकाल होजानेपर नयपाल राज्यकी रीतिके मुवाफिक वर्तमान महाराजाधिराज पृथ्वीवीरविक्रमशाह गादीके मालिक बनाये जाकर मृतक महाराजाका दाह कर्म कियागया.

४०- महाराजा पृथ्वी वीरविक्रमशाह.

महाराजा पृथ्वीवीरविक्रमशाह, जिनका जन्म विक्रमी १९३२ श्रावण शुक्ल ७ [हि० १२९२ ता० ६ रजव = ई० १८७५ ता० ८ अगस्त] को हुआ था, ७ वर्षकी उम्रमें अपने पितामह (दादा) के देवलोक होनेपर गद्दी नशीन कियेगये; इनका राज्याभिषेकोत्सव छः महीने पीछे विक्रमी १९३८ मार्गशीर्ष [हि० १२९९ सुहरम = ई० १८८१ नोवेम्बर] में हुआ. इन महाराजाके कम उम्र होनेके कारण राज्यका कुल काम रणोद्वीपसिंह वगैरह लोग करते थे; और नगेन्द्रविक्रमशाह, ऊपर लिखे मुवाफिक, दूसरा

(१) श्रीविक्रम माथवरसिंहका पोता, और अमरविक्रम तिलविक्रमका बेटा था.

वज़ीर नियत करनेकी कोशिश कर रहे थे, जो इस समयतक प्रगट नहीं हुई. कुछ दिन हुए, कि वर्तमान महाराजाधिराजके गद्दी बैठने बाद, जब रणोद्दीपसिंह शिकारके लिये तराईमें आया, और जगत्शमशेरजंगके कुछ अरसह पहिले मरजानेके सबब निया-बतका काम धीरशमशेरजंग करने लगा, तब रणोद्दीपसिंहके सुखालिफोंने पुरतह सलाह करके उसको क़त्ल करनेका दिन नियत करलिया था.

विक्रमी पौष [हि० सफ़र = ई० डिसेम्बर] में ऊपर बयान कीहुई सलाहके मुवाफ़िक नगेन्द्रविक्रमशाहके फ़िके वाले लोगोंने यह इरादह किया, कि शुक्रवारके दिन धीरशमशेरजंग आदि लोगोंको तो एकदम यहींपर (राजधानीमें) क़त्ल करदिया जावे, और यह ख़बर पहुंचनेपर रणोद्दीपसिंहको अमरविक्रम थापा (जो रणोद्दीपसिंहके साथ था) सफ़र में मारडालेगा. इस विचारमें रियासतके बहुतसे आदमी शामिल थे, जिनमेंसे गगनसिंह ख़वासके पोते उत्तरध्वजने यह कुल माजरा धीरशमशेरजंगसे ज़ाहिर करदिया; इसपर बहुतसे आदमी गिरिफ़्तार हुए, और १५ रोज़तक तहकीक़ात होने बाद रणोद्दीपसिंहके काठमांडूमें पहुंचनेके दूसरे दिन, याने विक्रमी माघ कृष्ण १४ [हि० ता० २७ सफ़र = ई० १८८२ ता० १८ जैनुअरी] को इस इरादहके जुर्ममें कर्नेल् श्रीविक्रम थापा, कर्नेल् अमरविक्रम थापा, कर्नेल् इन्द्रसिंह, मेजर कप्तान शमशेरजंग थापा, मेजर कप्तान संसारविक्रम थापा, मेजर कप्तान संग्राम सूर विष्ट, कप्तान समरविक्रम थापा, कप्तान बरतवार शाही, कप्तान रणध्वज अधिकारी, इनसेन रणध्वज कारकी, सूबहंदार पहलवानसिंह कारकी, कप्तान कैल्या विष्ट, महाकोत्या सेते विष्ट, और सूबहदार चौबा पाण्डे आदि बीस मनुष्य क़त्ल कराये गये; और तहकीक़ात बदस्तूर जारी रही, जिसमें त्रैलोक्यविक्रमशाहके समयतककी बन्दिशका हाल ज़ाहिर होगया. आख़रकार विक्रमी माघ शुद्ध १४ [हि० ता० १२ रबीउलअव्वल = ई० ता० २ फ़ेब्रुअरी] को कर्नेल् अमृतसिंह अधिकारी, कर्नेल् विर्मानसिंह विश्न्यात और सूबहदार लोकबहादुर थापा, तो क़त्ल हुए, और ख़जान्ची शिवप्रसाद, सूबह दिग्विजय, मुखिया टंकनाथ, सूबह होमनाथ (१), और भट्ट श्यामविलास जातिके ब्राह्मण होनेके सबब क़त्लसे बचकर पालपामें कैद किये गये. इनके अलावह कई मनुष्य छः वर्षकी भीआदके लिये नयपालमें कैद हुए.

(१) टंकनाथ और होमनाथ दोनों, महाराजकुमार त्रैलोक्यविक्रमशाहके धायभाई हैं, जो पालपामें कैद थे, और वहांसे भागकर हिन्दुस्तानमें आने बाद अरसह सात आठ वर्षसे वर्तमान समय विक्रमी १९४७ [हि० १३०८ = ई० १८९०] पर्यंत रियासत उदयपुरमें ठहरे हुए हैं, जिनको खानपान आदिका खर्च उदयपुरके दरबारसे मिलता है.

महाराजाके चचा नगेन्द्रविक्रमशाह, जेनरल बम्बिक्रम, और जेनरल पद्मजंगमेंसे, जो ऊपर बयान किये हुए बखेड़ेकी बुन्याद डालनेवाले समझे गये थे, नगेन्द्रविक्रमशाह और बम्बिक्रम तो तीन वर्ष कैद रहनेके लिये हिन्दुस्तानमें भेजे गये, और पद्मजंग छः महीनेतक नवाकोटमें कैद रहा. मीआद पूरी होजाने बाद नगेन्द्रविक्रमशाह गोरखामें, बम्बिक्रम धनकुटामें रखे गये, और पद्मजंग पीछा अपने उह्देपर नियत किया गया. त्रैलोक्यविक्रमशाहके समयकी बन्दिशमें शामिल होनेका जुर्म जंग-बहादुरके बेटे जगत्जंगपर भी साबित हुआ था, जो उन दिनों हिन्दुस्तानमें होनेके सबब उस समय सजासे बचगया, लेकिन रणोद्वीपसिंहने कुछ दिनों बाद तसल्लीका पर्वानह भेजकर उसे धोखेसे बुलाया, और जब वह नवपालकी सीमामें पहुंचा, तो फौरन् बेड़ी डालकर कैदी बनालिया गया. रणोद्वीपसिंहकी स्त्री जगत्जंगको बचपनसे पुत्रके समान चाहती थी, इस सबबसे राजधानीमें पहुंचने बाद कुछ अरसहतक वह कैद रहकर रिहा करदिया गया. इसके बाद एक अरसहतक रणोद्वीपसिंहने वा इस्त्रियार विजारतका काम किया.

अब रणोद्वीपसिंहने विजारतका काम जगत्जंगको दिलाकर तीर्थ यात्राके लिये हिन्दुस्तानमें आनेकी तय्यारी की. यह बात महाराजाकी माताको नागुवार गुजरी, और उसने धीरशमशेरजंगके बेटे वीरशमशेरजंग तथा खड्गशमशेरजंगसे सलाह करके रणोद्वीपसिंह आदिको मरवाडालना चाहा. वीरशमशेरजंगने विजारतके लालचसे विक्रमी १९४२ के मार्गशीर्ष [हि० १३०३ रबीउलअव्वल = ई० १८८५ डिसेम्बर] में रणोद्वीपसिंहको यात्राकी खानगीसे एक दिन पहिले अपने भाई खड्गशमशेरजंग तथा दूसरे कई मनुष्यों समेत उसके मकानपर जाकर खड्गशमशेरजंगके हाथसे मरवा डाला, और जगत्जंगके मकानपर सिपाही वगैरह भेजकर उसका भी उसके बेटे युद्धप्रताप-जंग समेत काम तमाम कराया.

रणोद्वीपसिंहके मारेजाने बाद विजारतका काम वीरशमशेरजंगके सुपुर्द हुआ, और नियाबतका काम खड्गशमशेरजंग करने लगा. कुछ अरसह बाद खड्गशमशेरजंगने महाराजा राजेन्द्रविक्रमशाहके दूसरे बेटे उपेन्द्रविक्रमशाहके बेटेकी स्त्री कान्छीमय्यासे सलाह लेकर उसके बेटेको गादी बिठाने और वर्तमान महाराजा पृथ्वीवीरविक्रमशाहको किसी तरहपर राज्यसे अलग करनेकी सलाह की, परन्तु यह हाल जाहिर होगया, और वजीर वीरशमशेरजंगने मुज्जिमोंको राजधानीसे निकलवाकर खड्गशमशेरजंगको पाल्पामें, कान्छी मय्याको लेंगलेंगमें, और कर्नेल् केसरसिंह थापाको प्यूठानामें भिजवा दिया. वर्तमान महाराजाधिराजके समयमें विजारतका काम वीरशमशेरजंग करता है.


शेषसंग्रह.

नयपालमें पशुपतिके मन्दिरके पश्चिमी दर्वाजहका लेख
(इण्डियन ऐंटिकेरीकी जिल्द ९ के पृष्ठ १७८-८० तक).

अक्षस्रय्यव्ययात्मा त्रिसमयसदृशस्त्रिप्रतीतस्त्रिलोकीत्राता त्रेतादिहेतुस्त्रिगुण
सयतया त्र्यादिभिर्वर्णितोलं ॥ त्रिस्त्रोतोर्धोतमूर्धा त्रिपुरजिदजितोनिर्विवन्ध त्रि-
वर्गो य [स्योत्तुङ्ग] स्त्रिशूल स्त्रिदशपतिनुतः - - - तापनोभूत् ॥ १ ॥ राजद्रा-
वणमूर्धपङ्क्तिशिखरव्यासकचूडामणिश्रेणीसङ्गतिनिश्चलात्मकतयालङ्काम्पुनानाः-
पुरीं ॥ - - - द्व (न्ध्यपराक्रमा) - - - - - णिसङ्गताः श्रीबाणासुर
शेखराः पशुपतेः पादाणवः पान्तु वः ॥ २ ॥ सूर्याद्ब्रह्मप्रपौत्रान्मनुरथ भगवाञ्जन्म
लेभे ततोभूदिक्ष्वाकुश्चक्रवर्ती नृपतिरपि ततः श्रीविकुक्षि (बभूव) ॥ जात - -
- - - - - विदितोभूमिपः सार्वभौमोभूतोस्माद्विश्वगण्वः प्रबल
निजबलव्याप्तविश्वान्तरालः ॥ ३ ॥ राजाष्टोत्तरविंशति क्षितिभुजस्तस्माद्व्य-
तीत्यक्रमात्संभूतः सगरः पतिः - - - - - (साग) रायाः क्षितेः ॥ जातो
स्मादसमंजसो नरपतिस्तस्मादभूदंशुमान्स श्रीमन्तमजीजनन्नरवरो भूपं दिली-
पाव्हयं ॥ ४ ॥ भेजे जन्म ततोभगीरथइति ख्यातो नृपोत्रान्तरे भूपाला - - - - -
- - - - - (जातो) रघोरप्यजः ॥ श्रीमत्तुङ्गरथस्ततो दशरथः पुत्रैश्चपौत्रैस्समं
राज्ञोष्ठावपरान्विहाय परतः श्रीमानभूल्लिच्छविः ॥ ५ ॥ अस्त्येव क्षितिमंडनैकतिलको
लोकप्रतीतो महाना - - - - - प्रभावमहताम्मान्यः सुराणामपि ॥ स्वच्छं लिच्छ-
विनामविभ्रदपरो वंशप्रवृत्तोदयः श्रीमच्चन्द्रकलाकलापधवलो गङ्गाप्रवाहोपमः ॥ ६ ॥
तस्माल्लिच्छवितः परेण नृपतीन्हित्वाप - - - - - रं श्रीमान्पुष्पपुरे कृतिः क्षिति-
पतिर्जातस्सुपुष्पस्ततः ॥ साकं भूपतिभिस्त्रिभिः क्षितिभृतां त्यक्त्वान्तरे विंशतिं
ख्यातः श्रीजयदेवनामनृपतिः प्रादुर्बभूवापरः ॥ ७ ॥ एकादशक्षिति - - -
- - - - - (त्य) क्त्वान्तरे विजयिनो जयदेवनाम्नः ॥ श्रीमान्बभूव नृप-
देव इति प्रतीतो राजोत्तमः सुगतशासनपक्षपाती ॥ ८ ॥ अभूत्ततः शंकरदेव-
नामा श्रीधर्मदेवो प्युदपादि तस्मात् ॥ श्रीमानदेवो नृपतिस्ततोभूत्ततो महीदेव
इति प्रसिद्धः ॥ ९ ॥ वसन्त इव लोकस्य कान्तः शान्तारिविग्रहः ॥ आसीद्वस-
न्तदेवोस्माद्दान्तसामन्तवन्दितः ॥ १० ॥ अस्यान्तरे प्युदयदेव इति क्षितीशाजा-
तास्त्रयोदश (तत) श्च नरेन्द्रदेवः ॥ मानोन्नतो नतसमस्तनरेन्द्रमौलिमालारजो
निकरपांशुलपादपीठः ॥ ११ ॥ दाता सह्रविणस्य भूरिविभवो जेता द्विषत्संहतेः

कर्ता बान्धवतोषणस्य यमवत्पाता प्रजानामलं ॥ हर्ता संश्रितसाधुवर्गविपदां सत्यस्य
वक्ता ततो जातः श्रीशिवदेव इत्यभिमतो लोकस्य भर्ता भुवः ॥ १२ ॥ देवी
बाहुबलाढ्यमौखरिकुलश्रीवर्मचूडामणिख्यातिह्रेपितवैरिभूपतिगणश्रीभोगवर्मोद्भवा ॥
दौहित्री मगधाधिपस्य महतः श्यादित्यसेनस्य या व्यूढा श्रीरिव तेन सा क्षिति-
भुजा श्रीवत्सदेव्यादरात् ॥ १३ ॥ तस्माद्भूमिभुजोप्यजायत जितारातेरजग्यः
परै राजश्रीजयदेव इत्यवगतः श्रीवत्सदेव्यात्मजः ॥ त्यागी मानधनो विशालन-
यनः सौजन्यरत्नाकरो विद्वा (न्सक्त) चिराश्रयो गुणवतां पीनोरुवक्षस्थलः
॥ १५ ॥ माद्यदन्तिसमूहदन्तमुसलक्षुण्णारिभूमृच्छिरो गौडोद्गादिकलिङ्गकोसलप-
तिश्रीहर्षदेवात्मजा ॥ देवी राज्यमती कुलोचितगुणैर्युक्ता प्रभूता कुलैर्येनोढा भग-
दत्तराजकुलजा लक्ष्मीरिव क्षमाभुजा ॥ १५ ॥ अद्भुश्रिया परिगतोजितकामरूपः
काञ्चीगुणाढ्यवनिताभिरुपास्यमानः ॥ कुर्वन्सुराष्ट्रपरिपालनकार्यचिन्तां यः सा-
र्वभौमचरितं प्रकटीकरोति ॥ १६ ॥ राज्यं प्राज्यसुखोर्जितद्विजजनप्रत्यर्पिताज्या-
हुतिज्योतिर्जातशिखाविजृम्भणजिताशेषप्रजापद्भुजं ॥ बिभृत्कण्टकवर्जितं निज-
भुजावष्टंभविस्फूर्जितं शूरत्वात्परचक्रकाम इति योनाम्ना परेणान्वितः ॥ १७ ॥
सश्रीमाञ्जयदेवाख्यो विशुद्धवृहदन्वयः ॥ लब्धप्रतापः संप्राप्तबहुपुण्यसमुच्चयः
॥ १८ ॥ मूर्तिरष्टाभिरष्टौ महयितुमतुलैः स्वैर्दलैरष्टमूर्तेः पातालादुत्थितं किं कम-
लमभिनवं पद्मनाभस्य नाभेः ॥ देवस्यास्यासनायोपगतमिह चतुर्वक्त्रसादृश्य-
मोहाद्विस्तीर्णं विष्टरं किं प्रविकसितसिताम्भोजमम्भोजयोनेः ॥ १९ ॥
कीर्णा किम्भूतिरेषा सपदि पशुपतेर्नृत्यतोत्रप्रकामं मौलीन्दोः किम्मयूखाः शरद-
मभिनवां प्राप्य शोभामुपेताः ॥ भक्त्या कैलासशैलाद्विमनिचयरुचः सानवः
किं समेतादुग्धाब्धेरागतः किं गलगरसहजप्रीतिपीयूषराशिः ॥ २० ॥ राज्ञः ॥
देवं वन्दितुमुद्यतोद्युतिमतो विद्योतमानद्युतिः किं ज्योत्स्नाधवलाफणावलिरियं
शेषस्य संदृश्यते ॥ अन्तर्दूररसातलाश्रितगतेर्देवप्रभावश्रिया (:) किं क्षीरस्न-
पनं विधातुमुदिताः क्षीरार्णवस्योर्मयः ॥ २१ ॥ विष्णोः पातालमूले फणिपतिश-
यनाक्रान्तिलीलासुखस्थादाज्ञां प्राप्योत्पतन्त्या स्त्रिपुरविजयिनोभक्तितोभ्यर्चनाय ॥
लक्ष्म्याः संलक्ष्यते प्राक्करतलकलितोत्फुल्ललीलासरोजं किं वेतीत्थं वितर्कास्पद-
मतिरुचिरं मुग्धसिद्धांगनानाम् ॥ २२ ॥ नालीनालीकमेतन्नखलुसमुदितं राजतो
राजतोहं पद्मापद्मासनाव्जेकथमनुहरतोमानवामानवाभे ॥ पृथ्व्यां पृथ्व्यान्नमादृग्भ-
वतिहतजगन्मानसे मानसे वा भास्वान्भास्वान्विशेषंजनयतिनहिमे वासारोवासरोवा
॥ २३ ॥ इतीवचामीकरकेसरालीसिन्दूररक्तद्युतिदन्तपङ्क्त्या ॥ राजीवराजीम्प्रति

जीवलोके सौन्दर्यदर्पादिवसप्रहासं ॥ २४ ॥ एषा भाति कुलाचलैः परिवृताप्राले-
यसंसर्गिभिर्वेदी मेरुशिलेव काञ्चनमयी देवस्य विश्रामभूः ॥ शुभ्रैः प्रान्त वि-
कासिपंकजदलैरित्याकलय्य स्वयं रौप्यं पद्ममचीकरत्पशुपते : पूजार्थमत्युज्वलम्
॥ २५ ॥ राज्ञः ॥ यं स्तौति प्रकटप्रभावमहिमा ब्रह्माचतुर्भिर्मुखैः यञ्च श्लाघयति
प्रणम्य चरणे षड्भिर्मुखैः षण्मुखः ॥ यन्तुष्टाव दशाननोपि दशभिर्वक्त्रैः स्फुरत्कंधरः
सेवां यस्य करोति वासुकिरलं जिह्वासहस्रैः स्तुवन् ॥ २६ ॥ ख्यात्या यः परमेश्वरोपि
वहते वासोदिशां मंडलं व्यापी सूक्ष्मतरश्च शङ्करतयाख्यातोपि संहारकः ॥ एकोप्यष्ट-
तनुः सुरासुरगुरुर्वीतत्रपो नृत्यति स्थाणुः पूज्यतमो विराजति गुणैरेवं विरुद्धैरपि
॥ २७ ॥ राज्ञः ॥ तस्येदं प्रमथाधिपस्य विपुलं ब्रह्माब्जतुल्यं शुभं राजद्राजत
पङ्कजं प्रविततं प्रान्तप्रकीर्णैर्दलैः ॥ पूजार्थं प्रविधाप्य तत्पशुपतेयत्प्रापि
पुण्यम्मया भक्त्या तत्प्रतिपाद्यमातरि पुनः संप्राप्नुयान्निवृत्तिम् ॥ २८ ॥
राज्ञः ॥ किं शंभोरुपरिस्थितं ससलिलं मंदाकिनीपङ्कजं स्वर्गोद्भिन्नवाम्बुजेक्षणधिया-
सम्प्राप्तमम्भोरुहम् ॥ देवानां किमियं शुभा सुकृतिनां रम्या विमानावली पद्मं किङ्करुणा
करस्य करतो लोकेश्वरस्यागतम् ॥ २९ ॥ राज्ञः ॥ स्रोतः स्वर्गापगायाः किमिद-
सवतरल्लोलकल्लोरम्यं किं ब्रह्मोत्पत्तिपद्मं तलकमलवरप्रेक्षणायोपयातम् ॥ संप्रा-
प्तञ्चन्द्रमौलेरमलनिजशिरश्चन्द्रबिम्बं किमत्रेत्येवं यद्वीक्ष्य शङ्कां वहति भुवि जनो
विस्मयोत्फुल्लनेत्रः ॥ ३० ॥ श्रीवत्सदेव्या नृपतेर्जनन्या समं समन्तात्परिवारपदैः ॥
रौप्यं हरस्योपरि पुण्डरीकं तदादरैः कारितमत्युदारम् ॥ ३१ ॥ पुण्यं पुत्रेण दत्तं श-
शिकरविमलं कारयित्वाब्जमुख्यं प्राप्तं शुभ्रं शुभञ्च स्वयमपि रजतैः पद्मपूजां-
विधाय ॥ सर्वं श्रीवत्सदेवी निजकुल धवलाञ्जित्तृप्तिन्दधाना प्रादात् कल्याणहेतो-
श्चिरमवनिभुजे स्वाभिने स्वर्गताय ॥ ३२ ॥ कः कुर्यात्कुलजः पुमान्निजगुणश्ला-
घामनिर्हीच्छया राज्ञा सत्कविनापि नो विरचितं काव्यं स्ववंशाश्रयं ॥ श्लोकान्पञ्च
विहाय साधु रचितान्प्राज्ञेन राज्ञा स्वयं स्नेहाद्भुजिबुद्धकीर्तिरकरोत्पूर्वामपूर्वा-
मिमाम् ॥ ३३ ॥ योगक्षेमविधानबन्धुरभुजस्संवद्वर्यन्वान्धवान् स्निह्यत्पुत्रकलत्रभृत्य-
सहितो लब्धप्रतापो ॥ नृपः दीर्घायुर्नितरान्निरामयवपुर्नित्यप्रमोदान्वितः पृथ्वीम्पा-
लयतु प्रकामविभवस्फीतानुरक्तप्रजाम् ॥ ३४ ॥ संवत् (१) १५३ कार्तिक शुक्ल
नवम्याम्.




(१) कॉर्पस इन्स्ट्रुप्शनम् इंडिकेरम्की जिल्द तीसरीके पृष्ठ १८४ में फ्लोट साहिबने लिखा है, कि यह
हर्ष संवत् है, और इसके मुताबिक .ईसवी ७५८ ता० १६ अक्टोबर होता है.

त्रोटक छन्द.

शिवलोक हि भीम दिवान गये । सब शोक निमग्न जु लोक भये ॥
 जिनके सुत रान जवान बली । नृप आसन बैठिय भांति भली ॥ १ ॥
 जिनके दृगदान, दयादि भरे । पितु पुत्र दुहूं प्रज इष्ट करे ॥
 शुभ नीतिरु रीति सुराज कियो । भुवि भारतको यश लूट लियो ॥ २ ॥
 निज देश विनीति बयान करी । अंगरेजन नीति जु रीति भरी ॥
 सुविधान प्रधानन फूट परी । अपने अपने हित व्यूह करी ॥ ३ ॥
 नृपगे अजमेर विचार मतै । मिलि लारड बैण्टिक प्रीति रतै ॥
 फिर तीरथके हित नीति करी । जिहिते रजवारन रीति परी ॥ ४ ॥
 जयसिंह बघेल सुता परनी । शिवरूप महीप शिवा घरनी ॥
 फिर अब्बुव आदिक सैर करी । शिवलोक प्रयान जवान हरी ॥ ५ ॥
 इतिहास लिख्यो नयपाल जितो । हम जानत ग्रंथन मान इतो ॥
 यह खण्ड जवान नृपाल भयो । नृप सजन आशय जान लयो ॥ ६ ॥
 फतमाल सुशासन सीस लियो । कविराज सु श्यामलदास कियो ॥
 यह ग्रन्थ सुपन्थ चिरायु रहो । कवि पाठक वंश विधान कहो ॥ ७ ॥

महाराणा जवानसिंह,

सोलहवां प्रकरण समाप्त.



महाराणा जवानसिंहकी उत्तरक्रिया करके महलोंमें वापस आने बाद राज्यके कुल कारखानह वालोंने (१) महाराणाके कोई वलीअहद न होनेके कारण रियासती क़ाइदह के अनुसार कुल कारखानोंकी कुंजियां महाराणा भीमसिंहके बड़े कुंवर अमरसिंहकी पत्नी चांपावतके पास पहुंचादीं. उक्त बाईजीराजने दूसरे सब कारखानह वालोंको तसल्लीके साथ कुंजियां वापस देकर ४ कारखानों, याने पांडेकी ओवरी (जिसमें जेवर वगैरह रहता है), सिलहखानह, सेजकी ओवरी और कपड़ेके भंडारकी कुंजियां अपने पास रखलीं, इस

(१) मेवाड़में यह क़ाइदह है, कि जब कोई महाराणा गुजर जाते हैं, तो कुल शहरके दरवाजे बन्द होकर राज्यके कारखानोंके भी ताले लगादिये जाते हैं, और उत्तरक्रिया करके वापस आनेपर कुल कारखानह-वाले अपने अपने कारखानहकी कुंजियां वलीअहदको नज़र करदेते हैं, कि वह, जो कारखानह जिस शख्सको सौंपना मुनासिब समझें, उसीको उसकी कुंजी देदें; और अगर किसीको कारखानहसे अलग करना चाहें, तो उसकी कुंजी अपने पास रखलें. लेकिन अक्सर ऐसा होता रहा है, कि जो कारखानह जिस शख्सकी सम्भालमें पहिलेसे रहता है, उसीके सुपुर्द किया जाता है, मगर यह बात खासकर मालिककी मर्जीपर मुन्हसर है; और रसोड़ा व पाणेराका कारखानह तो अक्सर बदल ही दियाजाता है.

गरजसे, कि किसी तरहका नुकसान न हो. इसके बाद कुल सर्दार व अहलकार जमा होकर स्वर्गवासी महाराणाकी जगह गादीपर बिठायाजानेवाला शरूख तज्वीज करनेकेलिये आपसमें सलाह करने लगे. इस वक्त बागौरके महाराज शिवदानसिंहके तीन बेटे सर्दारसिंह, शेरसिंह और स्वरूपसिंह गद्दीके हकदार थे; बाज मुसाहिबोंकी राय बागौरके महाराज सर्दारसिंह को, और बाजोंकी शेरसिंहके पुत्र शार्दूलसिंहको गद्दी नशीन करानेकी हुई, लेकिन पुस्तह तौरपर कोई जानशीन तै न पाया जानेसे गद्दी नशीनीका वह दिन टल गया, बल्कि इसी बहसमें तीन चार रोज और भी गुजर गये. आखरकार विक्रमी १८९५ भाद्रपद शुक्ल १५ [हि० १२५४ ता० १४ जमादियुस्सानी = .ई० १८३८ ता० ४ सेप्टेम्बर] को यह क़रार पाया, कि महाराज सर्दारसिंह गद्दीपर बिठाये जावें. उक्त महाराज महाराणाकी दग्धक्रिया करके सेठ जोरावरमल्लकी बाड़ीमें जा ठहरे थे, और महाराणाकी उत्तरक्रिया उनके हाथसे होने लगी थी. इस दिन कुल उमराव, सर्दार व अहलकार जोरावरमल्लकी बाड़ीमें जाकर उनको महलोंमें ले आये, और जब वह जनानहमें जाकर सलाम करके वापस बाहिर आये, तो चारणोंने उन्हें महाराणा जवानसिंहके क्रमानुयायी होनेकी आशिस दी. इसके बाद विक्रमी आश्विन कृष्ण ४ शुक्रवार [हि० ता० १७ जमादियुस्सानी = .ई० ता० ७ सेप्टेम्बर] को मातमी द्वार हुआ, जिसमें बेदलाके राव बरूतसिंहने दस्तूरके मुवाफ़िक महाराणाके सिरसे मातमी पछेवड़ी (१) उतारकर ज़ेवर नज़ किया. विक्रमी आश्विन कृष्ण ८ [हि० ता० २१ जमादियुस्सानी = .ई० ता० ११ सेप्टेम्बर] को पोलिटिकल एजेण्ट स्पीअर साहिबने महलोंमें आकर मातमपुरीका दस्तूर अदा किया.

विक्रमी आश्विन शुक्ल ६ [हि० ता० ५ रजव = .ई० ता० २५ सेप्टेम्बर] को नयपालके महाराजा राजेन्द्रविक्रमशाहके भेजे हुए मोतमद व दासियों वगैरहको रुख़सत दी गई, जो महाराणा जवानसिंहके समयमें यहां आये थे, और उक्त महाराणाका देहान्त होजानेके कारण बड़े रंजके साथ वापस गये.

महाराणा सर्दारसिंहके गद्दीनशीन होतेही रियासतमें फ़सादकी बुन्याद पड़ी, और उसका शुरू कारण यह हुआ, कि महाराणाने गद्दीनशीनीके दूसरे रोज गोगूँदाके राज शत्रुशालके बेटे लालसिंहको बुलाकर धमकाया, जिसने वैकुंठवासी महाराणाका इन्तिकाल होने बाद उनकी जगह शार्दूलसिंहको गद्दीपर बिठानेकी कोशिश की थी, और रावत दूलहसिंहके बख़िलाफ़, जो महाराणा सर्दारसिंहको गद्दीनशीन कराना चाहता था, उक्त महाराणाकी बुरी आदतें बयान करके सब लोगोंके

(१) मातमी द्वारके वक्त जानशीनकी पघड़ीपर जो सिफ़ेद चादर रहती है उसको हटाना, मातम दूर करनेका चिन्ह है.

सामने उनका अपमान किया था, क्योंकि वह दूलहसिंहके साथ पहिलेसे कुछ अदावत रखता था. महाराणाके धमकानेपर लालसिंहने ऊपर बयान कियेहुए कुसूरोंकी मुआफ़ी चाहने और आगेको नमकहलाली व वफ़ादारीके साथ नौकरी करते रहनेकी गरजसे इक्रारनामहके तौर एक अर्जी महाराणाकी खिन्नतमें पेश की, लेकिन इसी अरसहमें उसपर एक दूसरा शुब्ह पैदा हुआ, जिसका मुफ़स्सल हाल यहां दर्ज किया जाता है:-

विक्रमी कार्तिक कृष्ण १३ [हि० ता० २६ रजब = ई० ता० १६ अक्टोबर] को लालसिंहका कामदार माणकचन्द और एक ब्राह्मण कुछ मन्त्र विधान करते हुए भीमपद्मेश्वर महादेवके मन्दिरके पास तालाबकी तीरपर पकड़े गये, और दर्याफ़्त कियेजानेसे उक्त ब्राह्मणने महाराणापर लालसिंहका जादू कराना बयान किया. इसी दिन पोलिटिकल एजेण्ट स्पीअर साहिब महलोंमें आये, जिनसे महाराणाने सर्दारोंकी उदूल हुकमी और नौकरी तथा छटूंदके बारेमें उनके बेजा उज्जोंका बयान करके, उस विषयमें कुछ बात चीत की, और लालसिंहको जादू करानेके कुसूरमें कत्ल करनेके लिये शाहपुराके राजाधिराज माधवसिंहको सर्कारी फ़ौज व तोपखानह समेत गोगूदाकी हवेली (जहां लालसिंह ठहरा हुआ था) पर जानेका हुकम दिया. यह खबर सुनकर बेगूके रावत् किशोरसिंहने शाहपुराके राजाधिराजको कहलाया, कि पेशतर हमसे लड़कर बाद उसके लालसिंहके पास जाना चाहिये; और इसी तरह सलूबरके रावत् पद्मसिंह, कोठारियाके रावत् जोधसिंह और आमेटके रावत् सालिमसिंहने भी महाराणासे अर्ज किया, कि जबतक पूरी पूरी तहकीकात होकर लालसिंहपर कुसूर साबित न होजावे, फ़ौज भेजना मौकूफ़ रखें, वरनह हम लोग भी उसके शरीक होंगे. महाराणाने वखेड़ा बढ़ता हुआ देखकर पहिले हुकमको मुल्तवी रक्खा, और गोगूदापर खालिसह भेजदिया. इसके बाद विक्रमी कार्तिक शुक्ल ११ [हि० ता० ९ शरबान = ई० ता० २९ अक्टोबर] को पीछोला तालाबके किनारे जलनिवास महलमें पोलिटिकल एजेण्ट स्पीअर साहिबके रूबरू कुल सर्दार बुलाये गये, और महाराणाके साथ सर्दारोंका एक अहदनामह हुआ, जिसके अनुसार अमलदरामद करनेके लिये उक्त साहिबने सर्दारोंको हिदायत की, और कहा, कि अगर इसमें किसी तरहका फ़र्क़ होगा, तो महाराणा साहिब तुमको सजा देंगे. सर्दार लोग भी उस वक्त ऊपरी दिलसे बड़ी नमीके साथ साहिबकी बातोंको मन्जूर करते रहे, लेकिन इस बहसका कुछ नतीजा न निकला, बल्कि महाराणा और सर्दारोंके दर्मियान दिन ब दिन ज़ियादह रंज बढ़ता गया.

गोगूदापर खालिसह जानेके सबब लालसिंहका पिता शत्रुशाल उदयपुरमें आया और

उसने रावत् पद्मसिंहकी मारिफत एक अर्जी लिखकर महाराणाकी खिन्नतमें पेश की, जिसकी नक़ नीचे लिखी जाती है:-

गोगूदाके राज शत्रुशालकी अर्जीकी नक़.

॥ श्रीरामजी.

॥ स्वस्ती श्री श्री श्री श्री श्री हजुर जाला चत्रसाल लीषावता मुजरो अरज मालम वे, श्री जी हजुर मोटा है, अकलीग अवतार हे, अप्रच ॥ अवार चरण लालसीघ हरामपोरीरी कसुरमे आया अर बात वंणा ऊपरे साबत वेगडी, जंणी ताबै श्री दरबार गोगुदो पटा सुदी षालसेकर जपती मेली, सो कसुर तो वारो अणी मुजबडी हो; पण सेवग अठे आयो अर श्री दरबारहजुर अरज कराडी, सो श्री दरबार सारो गुनो सेवगने ममारक करे ठीकाणो गोगुदारो पटा सुदी पाछो मीया कीदो, सो अठा पछे मारा ठीकाणारी त्या मारा राजकी कोई बातकी लालसीघ भाजगड करवा पावे न्ही, मारा ठीकाणा म्ह ठेठसु कुवरपदारी सदामद जाअेगा, आजीवका हे, ज्या तो लालसीघने करे देणी, सो मुरजी वे, तो गोगुदे रो, त्या देस परदेस रहो, जठे षाया जासी, अणी सवाअे कोडी देणी न्ही, ओर सेवग बेठोजतरे, तो मालक ठीकाणारो सेवग हे, अर सेवगरा सोडी बरस पुरा होयां केडे सेवगरी अरज हे सो मानजीने ठीकाणारो मालक करे तरवार बंदाअे देवाअे. अणी ताबै लालसीघ ऊजर करवा पावे न्ही, अतरी बातमे कसर पडे तो श्री दरबारको ठीकाणो हे, सो मुरजी आवे सो कराअे. दसगत रावल भोपारा राज साबरा कीयाथी लण्या, सं० १८९५ रा मगसर वद ११ सोमे.

जोकि दश वर्ष पहिलेसे लालसिंहने गोगूदापर कबजह करके अपने बापको बे दरूल करदिया था, इसलिये शत्रुशाल भी उसका ठिकानेसे खारिज किया जाना और अपने पोते मानसिंहको बलीअहद बनाना दिलसे चाहता था. गोगूदा वालों का बयान है, कि यह सब फसाद रावत् दूलहसिंहने अपनी जाती अदावतके सबब पैदा कराया था. लेकिन थोड़े ही अरसह बाद महता रामसिंहने महाराणासे लालसिंहकी सफाई करवादी, जिसका जिक्र आगे किया जावेगा.

लालसिंहकी तरह महता शेरसिंह भी शार्दूलसिंहकी गद्दी नशीनी चाहने वाले फ़िर्कहमेंसे था, जिसको महाराणाने मसूद नशीन होनेके चन्द रोज़ बाद ही कैद करके प्रधानेका ख़िल्अत अपने मददगार महता रामसिंहको बरूदा दिया. अगर्चि शेरसिंह अपने बाप दादोंकी तरह राज्यका ख़ैरख़्वाह था; लेकिन उसके रिश्तहदारोंने कैदकी हालतमें उसकी जान व माल और इज़्जतका ख़तरह देखकर यह हाल पोलिटिकल एजेण्टके कानतक पहुंचा दिया, जिसपर उक्त पोलिटिकल एजेण्टने महाराणासे इस मुअामलेकी बाबत दर्याफ़्त कराया, और उसी समयसे शेरसिंहपर सख़्ती कियाजाना कम होकर उक्त साहिबको उनके ख़तके जवाबमें एक ख़रीतह इस मज़मूनका लिखागया, कि हमारे यहां शेरसिंहपर किसी तरहकी बेजा सख़्ती नहीं कीजाती, ख़बर देने वालेने झूठी शिकायत बयान की है. इसपर स्पीअर साहिबने महाराणा साहिबके नाम फिर एक ख़रीतह भेजा, जिसमें महता शेरसिंहपर सख़्ती न कीजानेकी ख़बर सुननेसे खुशी जाहिर करनेके अलावह नसीहत और ख़ैरख़्वाहीके तौर महाराणाको अपनी नेक नामी व रियासतकी बिह्तरीका ख़याल रखकर कार्रवाई करनेके लिये लिखा था.

इसके बाद महता शेरसिंहकी तरफ़से मुख़ालिफ़ लोगोंने महाराणाके दिलमें और भी ज़ियादह नाराज़गी पैदा की, कि वह आपको अंग्रेज़ी हिमायतसे डराना चाहता है. आख़रकार जब महता शेरसिंहने इस हालतमें अपनी इज़्जत व जानका ज़ियादह ख़तरह देखा, और कैदमेंसे निकल भागनेके सिवा और कोई तद्दीर बचावकी उसे नज़र न आई, तब उसने रिहाईकी गरज़से महाराणाके हुक्मके मुवाफ़िक़ दश लाख रुपया दण्ड देना कुबूल करके रुक़ा लिखदिया, जोकि उसकी हैसियतसे ज़ियादह था. लेकिन इसपर भी पीछा न छूटा, दुश्मनोंने उसकी ख़लासीके बाद फिर महाराणाके कान भरे, और उसे दोबारह गिरिफ़्तार कराकर उसकी जान लेनेके उपायमें लगे, तब शेरसिंह मए अपने बेटोंके भागकर मारवाड़की तरफ़ चला-गया, और कुछ अरसह बाद महाराणाकी तरफ़से तसल्ली कीजानेपर वापस उदयपुरमें आया.

महता शेरसिंहका भाई मोतीराम (१) भी, जो पहिले जहाज़पुरका हाकिम और शेरसिंहके प्रधानेमें शरीक था, शेरसिंहके साथ रसोडेमें कैद किया गया, जिसकी निस्वत

(१) महता पृथ्वीराजके दो बेटे अगरचन्द और हंसराज थे, जिनमेंसे अगरचन्दका पुत्र सीताराम और उसका शेरसिंह हुआ; और हंसराजके बेटे दीपचन्दका पुत्र मोतीराम था.

कहाजाता है, कि वह कुछ दिनों बाद कर्णविलास महलके कई मंजिल ऊंचे भरोखे से नीचेको गिरा दिया गया, और गिरते ही उसका दम निकल गया, जिसका बेटा फूलचन्द हालमें मौजूद है. मोतीराम बड़ा अक्लमन्द और कारगुज़ार शरूस था, इसलिये शेरसिंहकी ताकत घटानेके वास्ते उसकी जान लीगई.

इसी तरह पुरोहित श्यामनाथ भी महाराणा जवानसिंहपर जादू करानेकी तुहमतमें कैद किया गया, जो कुछ अरसह बाद ३००००, रुपया दण्ड देकर छूटा; कायस्थ किशन्नाथसे ७५०००, रुपये दण्डका रुक़ा लिखाया गया, और महता गणेशदास से ६००००, रुपया दण्ड लिया गया. इसी समयसे कुल रियासती कामोंका मुस्तार महता रामसिंह और महाराणाका मुसाहिब आसींदका रावत दूलहसिंह बना.

इन दिनों कुल सर्दार महाराणाके मुखालिफ़ बनरहे थे, अल्बतह शाहपुराका राजा-धिराज माधवसिंह महाराणाकी मर्जीके मुवाफ़िक़ काम करता रहा, और महाराणाकी भी उस पर पूरी मिहर्बानी रही, जिसका सुबूत इस बातसे अच्छी तरह हो सक्ता है, कि गवर्मेण्ट अंग्रे-ज़ीने जो फूलियाकी चौरासी ज़ब्त करके शाहपुरामें सर्कारी पुलिस रखदी थी, और महाराणा जवानसिंहने लॉर्ड वैण्टडूसे सिफ़ारिश करके ज़बती उठवाई, उसकी निस्बत तस्फ़ियह होजाने या ज़बती उठजानेकी कोई तहरीरी सनद शाहपुरा वालोंको इस वक्तक नहीं मिली थी, महाराणाने उन्हें सर्कारी सनद दिलानेकी गरज़से एजेण्ट गवर्नर जेनरल राजपूतानहके नाम एक खरीतह भेजा, जिसके जवाबी खरीतहकी नक़ल यहांपर दर्ज कीजाती है:-

एजेण्ट गवर्नर जेनरल राजपूतानहके
खरीतहकी नक़.

॥ श्रीरामजी.

॥ स्वस्तिश्री उदेपुर सुभसुथानै सर्वोपमा विराजमान महाराजा धिराज महाराणाजी श्री सिरदारसिंघजी वहादुर अतान करनेल नथानेल अलिविस साहब वहादुर लिषा-वतुं सलांम मालुम हुवै, अठारा समाचार भला छै, आपका सदा भला चाहीजै; अपरंच परीता आपका साहापुराके मुकदमेमें आया मजमुन मालुम हुवा, और छ सात वरस

हुवे महाराणाश्री जुवांसिंघजी वैकुंठवासी अजमेरके मुकांम नवाब गवरनर जनरल लाट साहब वहादुरसुं मिलै, अर इस मुकदमेमें श्रीमहाराणाजी मोसुफनै जो लाट साहब वहादुरकुं कहा, वो सब अेहवाल सदरमें मालुम है, ओर मैंने वी कुल अेहवाल इस्मुकदमे का सदरकुं लिषा है, सो इस मुकदमेमें नवाब लाट साहब वहादुर जो तजबीज करेगै, सो मुनास्ब ही करेगै, ओर इस आपके भेजे हुवे परीतेका मजमुन में सदरकुं भेजुंगा, ओर आपके मिजाजकी पुसीका स्माचार हमेसां लिषावोगै. तारीष १८ जनवरी सन १८३९ ईस्वी, मिती माघ सुदी ३ संवत १८९५. अंग्रेजीमें एजेण्ट गवरनर जेनरलके दस्तखत.

अगर्चि इन महाराणाके मर्जीदां मुसाहिबोंने पुराने अह्लकारों वगैरहपर दण्ड व जुर्मानह करके बहुतसा रुपया एकट्टा किया, लेकिन कर्जखाहोंको एक पैसा भी नहीं दिया- गया, और न गवर्मेण्टके खिराजकी बाकियातका कुछ रुपया जमा कराया, जिसकी क्तिस्तबन्दी महाराणा जवानसिंहके वक्तमें होचुकी थी. इसपर पोलिटिकल एजेण्टने बहुतसी ताकीदे लिखीं, परन्तु मुसाहिब लोगोंने उनपर कुछ भी खयाल न किया, तब लाचार होकर पोलिटिकल एजेण्ट रॉविन्सन साहिबने फिर एक खरीतह भेजा, जिसकी नक़्क नीचे लिखी जाती है:-

पोलिटिकल एजेण्टके खरीतहकी नक़्क.


७३ नंबर.

॥ श्रीरामजी १.

॥ सीध श्री ऊदेपुर सुभसुथान सरव ऊपमां ब्राज्मान लायक महाराज धिराज महाराणाजी श्री सीरदारसींघजी जोग्ये, मेजर तांस राबिनसन साहेब बहादुर ली ॥ सलांम मालुम करावसी, डीठारा स्माचार भला छे, आपके सदा भले चाहेजे; अपरंच आगे परीता १ तारीष २५ अपरेल सन १८३९ डीसवीके रोज सीरकारके टांके तथा ओर मुकदमां बावत आपके नाम भेजा उसका जवाब आजत्क आया नहीं, ओर टांकेका हीसाब बनके श्री सदरमें खाने हुवा, सो सन १२४६ फसलीके आपर मुताबीक प्रथम जेठ वदी १ स्मत १८९५ ता ३० अपरेल सन १८३९ डीसवी तक श्री सीरकारके टांका रु ७३२५००, उदेपुरके राजपर बाकी नीकले, ओर साल गुजसते

मेहता सेरसीघ परधानने श्री दरबार बेकुठवासीके हुकम माफीक श्री सीरकारकी बाकी बावत करारनांमां लीषदीया, लाष रुपीया सालीयांना अदा करनेका जो आपने देषा होगा, कदाचत नही देषा हो, तो अब मुलाहजे करें और उस करार माफीक सीरकारके रुपीये तारीष ३१ दीस्मबर सन १८३८ ईसके आपर मुताबीक माह बदी १ सं० १८९५ तक रुपीया दो लाष भरना चाहेजे, सो बी आज तक नही पोहचा और अब १ महीने २६ रोज बाद पेहला कीसत तारीष १ जोलाही सन १८३८ का आया, सो बी भरना वाजीब हे, और चंद रोज पेसतर आपके परधानने मेरवाडेकी आमदनी वासते लीषा था, जीसकी सीरकारसे मंजुरी आही, आप कपतांन डीगसन साहेब बहादुर पाससे मंगा-लेवेगे; ओर इीन दीनामे आमदनी सीवाय दस ग्यारे लाष रुपीये राज्मे ओर आये हे, इीस-वासते मनासीब हे, अब सीरकारकी कुल बाकी या कुछ कम ज्यादा भेजो, ओर जो इीतना नही होसके, तो च्यार लाष रुपीये पहली जोलाही सन १८३८ मु ॥ असाड बदी ५ स्मत १८९५ की कीस्त तक भेजणेकी जरुर तजबीज कर ताकीदसे मेलावसी, इीस बातकी जेज करावसी नही; ओर जो रुपीया मजकुरके पोहचने ओर परीताका जवाब आनेमे ढील होगी, तो हम श्री सद्रमे लीषेगे और श्री गवरनर जनरल साहेब बहादुरकु राजकी बेबदोवसती ओर करार तुटना जाहर होगा, जीसु बोहत वाजीब हे. आप इीस बातकुं षुब षयालकर चीत लगाय सीरकारका टांका भेजणे अर मुलकके बदोवसतका ध्यान रबो, जीस्मे आपका नेकनांमी जाहर होवे, ज्यादा क्या लीषे, थोडे लीषेकु बसेस जांणसी, और मीजाज मुबारीककी षुसीके स्माचार हमसे लीषावसी. स्मत १८९५ रा जेष्ट बदी ६, तारीष ४ मै सन १८३९ इीसवी मुकाम छावणी मीमच, रोज सनीवार.

अंग्रेजीमें पोलिटिकल एजेण्टके दस्तखत.



खिराजकी बावत तो साहिव एजेण्टकी ताकीदें आही रही थीं, कि इतनेमें महता रामसिंह व रावत दूलहसिंहके दर्मियान नाइतिफाकी पैदा होने लगी. दूलहसिंह चाहता था, कि रियासतमें जो कोई काम हो मुझसे पूछे बगैर नहो; रामसिंहका मन्शा था, कि मेरे सिवा रियासती कामोंमें कोई दूसरा दरूल न दे; और महाराणाके दिलमें तीर्थयात्रा करनेकी जल्दी लगरही थी, क्योंकि जब वह बागौरकी गद्दीपर थे और महाराणा जवानसिंहके साथ तीर्थयात्राको गये, उसवक्त काशीमें गंगाके किनारेपर महाराणा और इनके दर्मियान यह अहद हुआ था, कि हम दोनोंमेंसे जो कोई पहिले गुजर-जावे, उसका गया श्राद्ध पीछे रहनेवाला अपने हाथसे करे; इसलिये महाराणा अपना इकार पूरा करनेके वास्ते गया जानेकी तय्यारी करने लगे. लेकिन इसी अरसहमें

जोधपुरके महाराजा मानसिंहपर अंग्रेजोंकी फौजकशी हुई, और बीकानेर व रीवां आदि रियासतोंसे महाराणाके नाम इस मज़मूनके खरीते आये, कि जिला गोड़वाड़ पीछा मेवाड़में शामिल कियेजानेका वक्त यही है; इसलिये बीकानेरके प्रधान हिन्दूमल्लकी मारिफ़त, जो छावनी नीमचमें था, इस विषयमें कोशिश कीगई, लेकिन मेवाड़के सर्दारों व मुसाहिवों में परस्पर नाइत्तिफ़ाकी होनेके कारण उस कोशिशका कुछ भी नतीजा न निकला. बाज़ लोग गोड़वाड़का मेवाड़में आना न चाहकर कहने लगे, कि महाराणाकी ताक़तका बढ़ना मातहतोंकी बर्बादीका सामान है. पाठक लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं, कि जहां इस किस्मके ताबेदार हों, वहां मालिकका मल्लब सिद्ध होनेकी उम्मेद किसतरह कीजा-सक्ती है? इसके बाद रावत दूलहसिंहकी मारिफ़त बीकानेरके महाराजा रत्नसिंहके कुंवर सर्दारसिंहकी शादी महाराणाकी राजकन्यासे, और महाराणाकी शादी बीकानेरकी राजकुमारीके साथ होना करार पाया, इस कारण गयाश्राद्धके लिये जानेमें और भी देर हुई.

विक्रमी १८९६ पौष कृष्ण पक्ष [हि० १२५५ शव्वाल = ई० १८३९ डिसेम्बर] में श्रीनाथजीके दर्शनोंके लिये महाराणा नाथद्वारे गये थे, उधरसे बीकानेरके महाराजा रत्नसिंह भी अपने राजकुमार सर्दारसिंहकी शादी करनेको आये, और नाथद्वारेमें दोनों रईसोंकी मुलाकात हुई. उक्त दोनों महाराजा वहांसे खानह होकर कांकड़ौलीमें पहुंचे, और द्वारिकाधीशके दर्शन करने बाद उदयपुरमें आये. विक्रमी पौष शुक्ल १२ [हि० ता० १० जिल्काद = ई० १८४० ता० १६ जैनुअरी] को महाराणाकी राजकुमारी महताबकुंवरबाईका विवाह महाराजा बीकानेरके कुंवर सर्दारसिंहके साथ हुआ; और पोलिटिकल एजेण्ट रॉबिन्सन साहिब भी इस शादीके जल्सहमें शरीक हुए. विक्रमी पौष शुक्ल १४ [हि० ता० १२ जिल्काद = ई० ता० १८ जैनुअरी] के दिन महाराणाकी तरफसे महाराजा रत्नसिंहको फौज समेत दावत दीगई; इस शादीका उत्सव बड़ी खुशी और बाहमी मुहब्बतके साथ खत्म हुआ. विक्रमी माघ कृष्ण २ [हि० ता० १५ जिल्काद = ई० ता० २० जैनुअरी] को महाराजा रत्नसिंहके डेरेपर बरातको विदा करनेके लिये महाराणा पधारे, और वहां नज़, निछावर वगैरह मामूली रस्में अदा हुई.

बरातको रुख़सत करने बाद महाराणाने तीर्थयात्राकी तय्यारी की, और सर्दारोंको सफ़रके लिये तय्यार होनेका हुक़म दिया, लेकिन बहुतसे उमराव व सर्दारोंने वहानह-बाज़ी करके साथ चलनेको हामी न भरी, सिर्फ़ वेदलाका राव बरूतसिंह और कोठारिया का रावत जोधसिंह वगैरह चन्द सर्दार मुस्तज़्ज़दीके साथ हम्माह होलिये. विक्रमी माघ

कृष्ण १३ [हि० ता० २६ जिल्काद = ई० ता० १ फ़ेब्रुअरी] को उदयपुरस

कूच होकर महाराणाका पहिला मकाम चम्पा बागमें हुआ, और विक्रमी माघ शुक्ल ७ [हि० ता० ५ जिल्हज = .ई० ता० १० फ़ेब्रुअरी] को वहांसे चलकर श्री एक-लिंगेश्वरकी पुरी, नाथद्वारा और कांकड़ौली होते हुए विक्रमी माघ शुक्ल १५ [हि० ता० १३ जिल्हज = .ई० ता० १७ फ़ेब्रुअरी] के दिन गढ़बोर पहुंचे. जोकि रावत दूलहसिंहने महाराणाके साथ चलनेमें टालाटूली की, और महता रामसिंहसे उसकी नाइत्तिकाकी होगई थी, इस कारण रामसिंहने मौका पाकर दूलहसिंहके मुखालिफ़ गोगुंदाके कुंवर लालसिंहसे दोस्ती पैदा करके उसे गढ़बोरमें महाराणाके पास बुलवा-लिया, और उसकी तरफसे महाराणाकी नाराजगी दूर करादी. इस बारेमें जो रुका महाराणाने लालसिंहके नाम लिखा, उसकी नक़ यहाँपर दर्ज कीजाती है:-

लालसिंहके नामके खास रुकेकी नक़.

॥ श्रीरामजी.

॥ स्वस्ती श्री लालसीधजी जोग अप्रच । : अबे थे रुको बाचता गढबोरका डेरा श्री हुजुर आअ्रे हाजर वीजो, कोई बातको अंदेसो राषो मती, आज में थाने हात अपरा रुको लीष देवाणो, जणी अपराम्हे तफ़ावज पड़े न्हीं; ओर अबार थारे डोड ब्रसमें बषेडो रयो जीमें काम कीदो वे ज्या तीरासु वाजबी साऊकारी लेषो समज लीजो, लेषामें पाएकी ब्रसे जीरी मालम कीजो, सो देवाड्यो जावेगा; अर आगे दस ब्रस था गोगुदारी मालकी कीदी जीमें थाका मुडा आगे काममें रया वे ने पाएकीदार वे जी तीरासु थे लीजो, ओर थारो सावधमी वे जीने राषजो, ने थाहारो चाकर वना राहरी पुकार करेगा, तो सुणाएगा नही, थे षुसी राषजो. थारो सावधमो हे जी मुजब बंदगी कीदा जाजो, और थारा ताबारा राज अपर करदीया सो रद छे, सं० १८९६ वषे म्हा सुद १४ रवे.

ऊपर लिखे हुए रुकेके साथ रामसिंहने भी लालसिंहको महाराणाकी खिन्नतमें जल्द हाज़िर होनेके लिये एक खानगी खत लिखा था. इसी समयसे रावत दूलहसिंहपर महाराणा की नाराजगी होजानेके कारण रामसिंहका इस्तिथार ज़ियादह बढ़ने लगा.

विक्रमी फाल्गुन कृष्ण १३ [हि० ता० २६ जिल्हज = .ई० ता० २ मार्च] को महाराणा पुष्कर मकामपर पहुंचे, और वहां धर्मशास्त्रके मुवाफ़िक तीर्थ गुरु तथा ब्राह्मण

आदिको दान दक्षिणा देकर विधि पूर्वक स्नान किया. यहांसे चलकर विक्रमी फाल्गुन शुक्ल ३ [हि० १२५६ ता० १ मुहर्रम = .ई० ता० ६ मार्च] को ग्राम चावड्येमें मकाम हुआ, जहां विक्रमी फाल्गुन शुक्ल ४ [हि० ता० २ मुहर्रम = .ई० ता० ७ मार्च] को सदलैण्ड साहिब आये, और दस्तूरके मुवाफिक उनसे मुलाकात हुई. इसी मकामपर विक्रमी फाल्गुन शुक्ल १० [हि० ता० ८ मुहर्रम = .ई० ता० १३ मार्च] को महाराणा भीमसिंहके कुंवर अमरसिंहकी बेटी कीकीवाई महाराणासे मिलनेके लिये कृष्णगढ़से आई, जो वहांके महाराजा मुहकमसिंहके साथ व्याही गई थीं. विक्रमी फाल्गुन शुक्ल १२ [हि० ता० १० मुहर्रम = .ई० ता० १५ मार्च] को हरमाड़ेमें मकाम हुआ; इस मकामपर कृष्णगढ़के महाराजा मुहकमसिंह भी महाराणाकी मुलाकातको आये, दस्तूरके मुवाफिक पेशवाई वगैरह रस्में अदा हुईं. यहांसे कूच होकर विक्रमी चैत्र कृष्ण ४ [हि० ता० १७ मुहर्रम = .ई० ता० २२ मार्च] को चौमूमें किया हुआ; ठाकुर लक्ष्मणसिंह नाथावतने बड़े आदर सत्कारके साथ पेशवाई करके महाराणा को कुल फौज सहित दावत दी, और घोड़ा व जेवर वगैरह सामान नज़ किया. दूसरे रोज सामोदमें पहुंचे, जहां रावल शिवसिंहने भी चौमू वालोंकी तरह सब दस्तूर अदा किये. ये दोनों सदासिंह जयपुरके मुसाहिब और बागौरके रिश्तहदार थे.

इन दिनों जयपुरके महाराजा रामसिंह कम उम्र होनेके कारण जनानहसे बाहिर नहीं निकलते थे, इसलिये महाराणाने जयपुर जाना मुलतवी रक्खा; लेकिन रियासतकी तरफसे इलाक़ह भरमें, जहां जहां होकर वह गुजरे, बड़ी मुहब्बतके साथ उनकी खातिर तवाजो कीगई. विक्रमी चैत्र कृष्ण ९ [हि० ता० २२ मुहर्रम = .ई० ता० २७ मार्च] को सैथल मकामपर महाराजा जयपुरकी तरफसे लवाणका राजा हरिदेवराम महाराणाके लिये गद्दीनशीनीके टीकेका सामान लेकर आया, जो दस्तूरके मुवाफिक पेश हुआ; और विक्रमी चैत्र कृष्ण १२ [हि० ता० २५ मुहर्रम = .ई० ता० ३० मार्च] को कस्बह राजगढ़में अलवरके रावराजा विनयसिंहके मोतमद लोग हाज़िर हुए, यहां कुल फौजको अलवर रावराजाकी तरफसे दावत दीगई. विक्रमी चैत्र कृष्ण १५ [हि० ता० २८ मुहर्रम = .ई० ता० २ एप्रिल] को कस्बह नगर इलाक़ह भरतपुरमें मकाम हुआ, जहां भरतपुरके राजाकी तरफसे भी मोतमद लोग आये. इन दोनों रियासतों (अलवर व भरतपुर) की तरफसे बड़ी मुहब्बतका बर्ताव जाहिर किया गया, लेकिन मुलाकातकी दस्तूरी रस्मोंमें कुछ एतिराज़ पेश आनेके सबब रईसोंमें बाहम मुलाकात न होने पाई.

विक्रमी १८९७ चैत्र शुक्ल २ [हि० ता० ३० मुहर्रम = .ई० ता० ४ एप्रिल]

को महाराणा गिरिराज मकामपर ठहरकर विक्रमी चैत्र शुक्ल ४ [हि० ता० २ सफ़र]

= .ई० ता० ६ एप्रिल] को वृन्दावन पहुंचे, और वहांसे रवाना होकर विक्रमी चैत्र शुक्ल ७ [हि० ता० ४ सफ़र = .ई० ता० ८ एप्रिल] को मथुरामें दाखिल हुए; इस मक़ामपर जयसलमेरके रावल गजसिंह और बाई रूपकुंवर, जो तीर्थ यात्राको आये थे, मिले. महाराणाने उक्त रावलको फ़ौज समेत दावत दी, और विक्रमी चैत्र शुक्ल १० [हि० ता० ७ सफ़र = .ई० ता० ११ एप्रिल] को बलदेवमें मक़ाम हुआ. यहांसे कूच होकर रास्तहमें कई जगह क़ियाम करने बाद विक्रमी वैशाख शुक्ल ६ [हि० ता० ४ रबीउलअव्वल = .ई० ता० ७ मई] को प्रयागमें पहुंचे; यहां भी विधि पूर्वक यात्रा हुई, दान पुण्य आदिके सिवा तीर्थ गुरुको हाथी, घोड़ा, वस्त्र, शस्त्र, और जेवर वगैरह कई चीजें दक्षिणामें दी गई. विक्रमी वैशाख शुक्ल १५ [हि० ता० १३ रबीउलअव्वल = .ई० ता० १६ मई] को काशीमें पहुंचे, जहां साहिब कमिश्नरने पेशवाई वगैरह मामूली रस्मोंके साथ महाराणा का आतिथ्य किया. विक्रमी ज्येष्ठ कृष्ण ३ [हि० ता० १६ रबीउलअव्वल = .ई० ता० १९ मई] को काशीसे रवाना होकर विक्रमी ज्येष्ठ कृष्ण ११ [हि० ता० २८ रबीउलअव्वल = .ई० ता० ३१ मई] के दिन महाराणाका लश्कर गया मक़ामपर पहुंचा, वहां भी ज़िलेके साहिब कमिश्नर वगैरह प्रतिष्ठित लोग पेशवाईको आये, तीन दिनतक मक़ाम रहा, महाराणाने अपने हाथसे स्वर्गवासी महाराणा जवानसिंहका गया श्राद्ध किया, और तीर्थगुरु आसारामको हाथी, घोड़ा, नक़द व जेवर वगैरह देकर खुश किया. विक्रमी आषाढ़ कृष्ण ४ [हि० ता० १८ रबीउस्सानी = .ई० ता० १९ जून] को वहांसे रवानगी हुई, और विक्रमी श्रावण कृष्ण १ [हि० ता० १५ जमादियुलअव्वल = .ई० ता० १५ जुलाई] के दिन वापस काशीमें दाखिल हुए; यहांकी यात्रा करके विक्रमी श्रावण कृष्ण ३ [हि० ता० १७ जमादियुलअव्वल = .ई० ता० १७ जुलाई] को प्रयागकी तरफ़ कूच हुआ, और विक्रमी श्रावण कृष्ण ७ [हि० ता० २१ जमादियुलअव्वल = .ई० ता० २१ जुलाई] को वहां पहुंचे. विक्रमी भाद्रपद कृष्ण १३ [हि० ता० २६ जमादियुस्सानी = .ई० ता० २५ ऑगस्ट] को फिर बलदेवमें पधारे, और वहांसे मथुरा तथा वृन्दावनकी यात्रा करते हुए विक्रमी आश्विन शुक्ल ८ [हि० ता० ७ शअबान = .ई० ता० ४ ऑक्टोबर] को बीकानेरमें दाखिल हुए, जहां आश्विन शुक्ल ९ [हि० ता० ८ शअबान = .ई० ता० ५ ऑक्टोबर] को महाराजा रत्नसिंहकी कन्याका विवाह महाराणाके साथ हुआ. महाराजा रत्नसिंहने बड़ी मुहब्बतके साथ लश्कर सहित महाराणाकी मिहमानदारी की. बागौरके महाराज शेरसिंहके पुत्र शार्दूलसिंह और शिवरतीके महाराज दलसिंहकी शादी भी महाराजा रत्नसिंहके नज़दीकी रिश्तहदारों (१) की लड़कियोंके साथ इसी समय हुई.

(१) शार्दूलसिंहकी शादी शक्तिसिंहकी बेटी नन्दकुंवरबाईके साथ, और दलसिंहका विवाह

अक्षयसिंहकी बेटी अजीतकुंवरबाईके साथ हुआ.

विक्रमी कार्तिक कृष्ण ४ [हि० ता० १७ शरद्वान = .ई० ता० १४ अक्टोबर] को बीकानेरसे महाराणाके लश्करका कूच हुआ, और विक्रमी कार्तिक शुक्ल २ [हि० ता० १ रमजान = .ई० ता० २७ अक्टोबर] को अजमेरमें प्रवेश हुआ. इस मकामपर राजपूतानहके एजेण्ट गवर्नर जेनरल सदलैण्ड साहिबसे मुलाकात हुई. उक्त साहिबने मुलाकातके वक्त बेदलाके राव बरतसिंहका बहुत कुछ आदर सन्मान और तारीफ़ की, और कहा, कि महाराणा साहिबके साथ इस सफ़रकी खिदमतोंमें हाज़िर रहनेके सबब गवर्मेण्ट अंग्रेज़ी आपसे बहुत खुश है. इसवक्त रावतू दूलहसिंह भी महाराणाकी पेशवाईके लिये यहां आगया था, सदलैण्ड साहिबने उसे बहुत कुछ उलाहना दिया, और महाराणाके साथ सफ़रमें हाज़िर न रहनेके सबब सरत नाराजगी जाहिर की. इसी तरहकी बहुतसी बातें होने बाद महाराणाको तीर्थयात्राका धन्यवाद देकर उक्त एजेण्ट गवर्नर जेनरल साहिब रुस्तत हुए. उसी दिनसे बेदलाके राव बरतसिंहका अंग्रेज़ी अप्सरों के साथ जियादह मेलमिलाप शुरू हुआ, और लाइक सर्दार होनेके कारण उसने इस विषयमें दिन ब दिन और भी अधिक तरकी की. यहांसे कूच होकर भिणाय व बागौर होते हुए विक्रमी मार्गशीर्ष कृष्ण ८ [हि० ता० २१ रमजान = .ई० ता० १६ नोवेम्बर] को महाराणा उदयपुर पहुंचे, और विक्रमी मार्गशीर्ष कृष्ण ११ [हि० ता० २४ रमजान = .ई० ता० १९ नोवेम्बर] को राज्य महलोंमें दाखिल हुए.

विक्रमी १८९८ वैशाख कृष्ण ३ [हि० १२५७ ता० १६ सफ़र = .ई० १८४१ ता० ९ एप्रिल] के दिन महाराणा अपनी ससुराल (गोगूदा) को पधारे, जहां गणगौरके उत्सव पर जानेका इरादह था, लेकिन उन दिनों राजपूतानहके एजेण्ट गवर्नर जेनरल सदलैण्ड साहिबके उदयपुरमें आजानेके कारण वह विचार मुलतवी रहकर धींगा गणगौर (१) के दिन वहां मिहमान हुए, और तीन दिनतक ठहरे. इस जगह महाराणाने आड़ा स्वरूपसिंह, रोहड़िया बारहट लक्ष्मणदान, आड़ा चिमनसिंह; तथा महडू प्रभूदान वगैरह चारणोंको हाथी व सरोपाव आदि इन्आम दिया, और राज शत्रुशालकी तरफसे कुल फ़ौज व हम्नाहियोंको दावत दीजानेके अलावह, चारणों व पारुबानोंको सरोपाव दियेगये. तीन दिनतक क्रियाम करनेके बाद महाराणा वापस उदयपुर आये. फिर चारभुजाकी यात्राके लिये विक्रमी ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष [हि० रबीउस्सानी = .ई० मई] में उदयपुरसे रवानह

(१) राजपूतानहमें यह त्यौहार चैत्र शुक्ल ३ को बड़ी धूम धामसे होता है, लेकिन महाराणा राजसिंह अठवलने किसी खानगी बर्तावको बढ़ानेके लिये वैशाख कृष्ण ३ के दिन भी यह त्यौहार स्थापन किया, जो प्राचीन समयसे प्रचलित न होने और धींगाई (सुठमर्दी) से जारी करनेके कारण “ धींगा गणगौर ” नामसे प्रसिद्ध हुआ.

होकर देलवाड़ा व कोठारियामें मिहमान रहते हुए चारभुजा, कांकड़ौली और नाथद्वाराके दर्शन करके विक्रमी आषाढ़ कृष्ण ३ [हि० ता० १६ रबीउरूसानी = .ई० ता० ७ जून] को वापस उदयपुरमें दाखिल हुए.

इस वक्त महाराणाको अपने कोई खास वलीअहद न होनेके कारण किसी रिश्तहदारको गोद लेनेका विचार हुआ, जिसकी बाबत सदलैण्ड साहिब और रॉबिन्सन साहिबसे भी पेशतर कुछ बात चीत करली गई थी. उन्होंने वागौरपर हुकूमत करनेके जमानहमें अपने छोटे भाई शेरसिंहके साथ नाइतिफ़ाकी रहनेके सबब उसका हक खारिज करके तीसरे भाई स्वरूपसिंहको दत्तक (१) मान लिया था, और इस वक्त भी उन्हींको युवराज बनाना चाहा. लेकिन शेरसिंहका हक खारिज किये जानेमें महाराणाने गवर्मेण्ट अंग्रेजीसे इस मुअामलहकी मंजूरी हासिल करना मुनासिब समझा, और साहिब लोगोंने भी यही सलाह दी. तब विक्रमी द्वितीय आश्विन शुक्ल ९ [हि० ता० ७ रमजान = .ई० ता० २३ अक्टोबर] के दिन वागौरके महाराज शिवदानसिंहके तीसरे पुत्र स्वरूपसिंहको दत्तक लेकर वलीअहद बनाया, और उनसे इक्रारनामहके तौर एक अर्जी लिखाई गई, जिसकी नक़ल नीचे दर्ज कीजाती है:-

युवराज स्वरूपसिंहकी अर्जीकी नक़ल.

॥ श्रीरामजी.

॥ सीध श्री श्री श्री श्री श्री १०८ श्री अंदाताजी हजुर सरूपसीधकी अरज मालुम होवे. श्री हजुर बडा हे, प्रमेसुर हे, छोरु ओपमा अरज करे जतरी ही थोडी,

(१) इन महाराणाने वागौरकी हुकूमतके वक्त स्वरूपसिंहको दत्तक लेनेका इक्रारनामह लिखदिया था, जिसकी नक़ल नीचे लिखी जाती है:-

॥ श्रीरामजी.

॥ श्रीनाथजी.

॥ श्रीवाणनाथजी.

॥ रुको ॥ १ ॥ भाडी सरूपसिंहजी सु म्हारो मुजरो बंचै, अप्रंच थाने मे बेटा करे राष्या, सो म्हारा कआ माफक चाल्या जाजो, म्हारो हुकम माथा पर राष्या जाणो, ने मन राजी राषणो, ने मारे बेटो होअेजावे, तो पछे थाने हजार रुप्यारो ऊपजतारो गाम मे काड देस्यां, वोर पछे म्हारा पटासु थारे सली जतरो दावो न्ही, ने श्री दरवाररी कानीरी कोडी लागे, तो पटा साडी थारेडी पाती आवे सो देकाडवो करजो; ओ मे मारी मनरी कुसीसु लपदीओ छै. वोर भाडी सेरसीधजी तथा वारा बेटा, कोडी थामु दाडीओ करे न्ही, म्हारी राजी कुसीसु मे थाने राष्या छे, संवत १८९१ असाठ बीद १२.

अप्रंचे मने श्री हजुर कुवरपदो बगस्यौ अर जोल्या राष्यौ, सो सु हजुरका हुकम सवाअे चालु न्ही, हजुर हुकम करे ज्या करणी, ओर बायांका ब्याव करदेणा, ओर राण्याहे ज्यो आजके दीन श्री हजुर बगसे हे जी मुजब कसर पाडु न्ही, ओर श्री हजुर क्रोड़ दीवाली राज करो. कदाचीत श्री हजुरके कंवरजी होजावे तो गादीसु मारे दावो न्ही अर मने छोटा कवरकी रा बरते अर रुपीया २५०००, पचीस हजारको पटो बगसे, सो राजी होअने वुरो लेवु, ओर कोई सटपटमे कणीके कीआ लागु न्ही; ओर मारी तथा मारी ओलादकी धणीकी नजरमे गेर चाल दीषे, तो धणी तार काडे, अने कसुर सावत दीषे, तो काडदेवे जीको वुजर कोही करवा पावे न्ही. ओर हजुरका हुकममे कवरपदाकी टसक लाअेन हजुरको हुकम लोपु न्ही, लष्यामे कसर पाडु, तो हजुर बचे रे मो वचे श्री अकलीगजी है, जठा सवाअे जठा सवाअे कसर पाडु तो अंगरेज सरकारसु मने दुर करदेवे हजुरका लषवासु, ओर गया सराद तावे होकम फरमायो सो श्री जी वु दीन बादलामे राषे, कदाचत भगवत रजा हे, तो डीला तथा प्रोतजी दुदारे आ चाकरी न्ही करु, तो मने ईसटदेव पुगै, संवत १८९८ रा दुती आसोज सुदी ९ नोमी.

इसके वाद एजेण्ट गवर्नर जेनरल राजपूतानह व पोलिटिकल एजेण्ट मेवाड़के नाम खरीते लिखे गये, जिनमेंसे पहिलेकी नक़ यहाँ लिखी जाती है:-

नक़ल मुस्वदह खरीतह वनाम कर्नेल जॉन सदलैण्ड
साहिब, एजेण्ट गवर्नर जेनरल राजपूतानह.

अप्र साहेब अठे आया हा जद कोठीके मुकाम साहेब डी हा, अर करनेल तामस रावीसन साहेब डी हा, सो दोडी साहेब बेठा म्हे कय्यो, के प्रभु म्हारेडी ओलाद करदेगा, ने कदाचीत न्ही वे, तो म्हारो मनोरथ सरूपसिघजीने पाछायी अठे राज उप्र राषवारो हे; जीप्र साहेब कय्यो, सो आप वीराज्या थका, तो आप मालक हे, जीसकुडी रषलेवे, जोडी हो-सकता हे, अर पीछेसे तो असा होणा मुसकल हे, सो म्हे साहेबका केवाप्र चीत देर अवार दसरावारो मोरथ आछो हो, सो म्हे चीरणजीव सरूपसिघजीने षोल्या राष्या हे, सो

साहेब जस्या दोसत म्हाके ओर कुण हे, जीसु डीकी कुसी मानेगा; ओर सरुपसिघजी म्हाने अरज लीष दीदी हे, जीकी नकल साहेब नषे भेजी हे, सो बाच वाकब वोगा, ओर साहेबकी कुसीकी षवर सासता लषवो करोगा; संवत १८९८ व्षे दुती आसोज सुद १० भोमे दुवे म्हेता बगतावरजी रे.

इसी मज्मूनका एक खरीतह मेवाड़के पोलिटिकल एजेण्ट कर्नेल टॉमस रॉबिनसन साहिबके नाम लिखा गया, जो तवालतके खयालसे यहां दर्ज नहीं किया गया.

इन्हीं दिनोंमें इस मुआमलहकी बाबत महाराज शेरसिंहकी एक अर्जी महाराणाकी खिदमतमें पेश हुई, जिसका मज्मून नीचे लिखे हुए मुस्वदहके मुवाफिक था:-

महाराज शेरसिंहकी अर्जीके मुस्वदहकी नकल.

॥ श्रीरामजी.

अप्रंच ॥ श्री हजुर भाडी सरुपसीघजीने षोल्या लीदा, सो या गणी आछी बीचारवामे आझी, अणी वात सु तो मारोडी मन राजी हुवो, मु तो श्री हजुरको छोरु जु श्री हजुरकी बदगीमे हु जुडी श्री कुवरजी सरुपसीघजी री बदगीमे जाणेगा; अणीमे तफावज जाणु, तो मने श्री ऐकलीगजी री आण, वा श्री हजुरकी आण. या अरजमे मारा मन सु राजी वे लपी हे.

गोदनशीनीका मुआमलह तो शेरसिंहकी अर्जी पेश होने और गवर्नर जनरलकी मन्जूरी आजानेसे तै होगया, लेकिन सर्दारोंका बखेडा दिन ब दिन बढ़ने लगा, और चाकरीके मुआमलहमें भी छेड़छाड़ शुरू हुई; परन्तु महाराणा अपनी तन्दुरुस्ती बिगड़जानेके कारण इस तरफ तवज्जुह न कर सके, क्योंकि उनके बदनमें जलनकी बीमारी बड़े जोरके साथ बढ़ने लगी थी, और वह उसके रोकनेकी फिक्रमें थे. यह बीमारी पहिले पैरोंके तलवोंसे शुरू होकर सरूत जलनके साथ बढ़ते बढ़ते कुल शरीरमें फैल गई; देशी वैद्योंने इसके इलाजमें बहुत कुछ कोशिश की, लेकिन किसीसे कुछ फायदह न हुआ, तब महाराणाने अपनी जानका खतरह समझकर कुल रियासती इन्तिजाम युवराज स्वरूपसिंह और महता रामसिंहके सुपुर्द करने बाद मज्हबी अकीदेके मुवाफिक

वृन्दावनको चला जाना चाहा; लेकिन महता रामसिंहने अर्ज किया, कि एक दफा अंग्रेजी

डॉक्टरके इलाजको भी आजमालेना वाजिब है. महाराणाको उसका कहना मन्जूर हुआ, और पोलिटिकल एजेण्ट रॉबिन्सन साहिबकी मारिफत एक यूरोपिअन डॉक्टर बुलाया गया. उक्त डॉक्टरने उदयपुरमें आकर अपना इलाज शुरू किया, और वह महाराणाको तसल्ली दिलानेकी गरजसे बीमारीमें सिहत होना बयान करता रहा, लेकिन् अस्लमें कुछ भी फर्क न दिखाई दिया. आखरकार महाराणाने वृन्दावन जानेका पुरतह इरादह करके पोलिटिकल एजेण्टको बुलाया, जिसके जवाबमें उक्त साहिबने एक खरीतह लिखा, उसकी नक़ नीचे दर्ज कीजाती है:-

पोलिटिकल एजेण्ट कर्नेल टॉमस रॉबिन्सन
साहिबके खरीतहकी नक़ल.

॥श्रीरामजी.

॥ १३६ ॥ नंबर.

॥ सिधश्री उदेपुर सुभ सुथाने सरब उपमां ब्राज्मांन लायक महाराज ध्राज महाराणाजी श्री सीरदारसींघजी अेतांन करनेल तांमीस रावीनसन साहब बहादुर ली॥ सलाम मालुम करावसी. इीठारा स्मांचार भला हे, आपके सदा भला चाहेजे, अप्रंच परीते २ आपके बेसाप सुदी ९ तथा १५ का लीषा आया, स्मांचार बांचा, तथा ओर अेह-वाल मेहताजी श्री रांमसींघजीके कहणेसे वाकीफ हुवे, राजे श्री डाकतर साहब बहादुर के लीषेसे मालुम हुवा दीन बदीन आपकी तबीयतकु आरांम होता हे, जीकी हमकुं बहोत पुसी हुई. आपके लीषे माफीक हमने श्री डाकत्र साहेबकुं लीषदीया हे, साहेब आपकी मरजी माफीक सीष लेंगे, और हमारे बुलाणे वासते बहोत लीषा, तथा महताजीकी जुवांनी दरसाया, सो हम तो अपणेही इीरादेसे चहाते थे आपसे मीलाप हो, दोनु त्रफकी बातां होवेसे मन राजी होवे, पण इीन दीनांमें सीरकार कांम ज्यादेके सबब फुरसत नही, जीसु अभी हमारा आणा हो सषता नही, ओर आपके लीषे प्रमाणे साहेब १ साथ जावाने मुकरर हुवे, सो तारीष १० जुनसन १८४२ इीसवी जेठ सुदी २ सं० १८९८ के रोज तक उदेपुर, या देरा होगा जहां पोहचेंगे; ओर श्री दरवारके सरीरमे आरांम हुवा हे, तो जलदी जांणा चाहीये, ओर राजके बदोबसत ओर टांके बाबत तथा महताजीकी सीफारस लीषी, सो ठीक हे, आप पात्र ज्मेसे श्री ब्रदावनजी पधारें, महा-राजकुवरजी श्री सरुपसींघजी तथा महताजी मीलकर राजका कांम करसी जीस्मे

हम मनासिब देषेगे जो मदद ओर सलाह देगे, आप अंदेसा रषावसी नही अर हमारी मुलाकात नही होवासें कीसी बातका हरज जाणसी नही, कारणमें आपके राजके कामसे अच्छे वाकीफ हुं, ओर आगे सारु महताजीकुं लीषो वांकी मारफत जुवाब पोहचेगा, ओर मीजाज सुबारकी पुसीके र्मांचार हमसे लीषावसी रमत १८९८ रा जेठ बदी ६ तारीष ३० मै सं० १८४२ ईसवी.

(अंग्रेजीमें)

दस्तखत- टॉमस रॉबिन्सन.

बीमारीमें आरामकी कोई सूरत न दिखाई देनेपर महाराणाने विक्रमी १८९९ ज्येष्ठ कृष्ण १० [हि० १२५८ ता० २३ रबीउस्सानी = ई० १८४२ ता० ३ जून] के दिन डॉक्टरको इन आम इकाम देकर रुखसत करनेके बाद विक्रमी ज्येष्ठ शुक्ल २ [हि० ता० ३० रबीउस्सानी = ई० ता० १० जून] को वृन्दावनकी यात्राके लिये कूच किया, और राजधानीसे चलकर पहिला मकाम आंबेरीमें हुआ; वहांसे देलवाड़ा, नेगड़्या, राबचा, नाथद्वारा, बडारड़ा तथा दोऊंदा नामक स्थानोंमें होते हुए विक्रमी ज्येष्ठ शुक्ल १२ [हि० ता० १० जमादियुलअव्वल = ई० ता० १९ जून] को राजनगर पहुंचे, और विक्रमी आषाढ कृष्ण १ [हि० ता० १४ जमादियुलअव्वल = ई० ता० २३ जून] को मोरचणामें मकाम हुआ; परन्तु वहां बीमारी अधिक बढ़जानेके कारण कुल हज्जाही लोग एक मत होकर विक्रमी आषाढ कृष्ण ४ [हि० ता० १७ जमादियुलअव्वल = ई० ता० २६ जून] को उन्हें वापस राजनगरमें लेआये. इस सफरमें साथ रहनेके लिये गवर्मेण्ट अंग्रेजीकी तरफसे कप्तान क्रॉस्मिन साहिब भी मुकर्रर होकर आगये थे.

राजनगरमें पहुंचकर महता रामसिंह, रावत दूलहंसिंह, और पुरोहित श्यामनाथ वगैरह मुसाहिबोंको बड़ी खबरहत और विचार हुआ, कि अब क्या कियाजावे ? क्योंकि बीमारीके आखरी दरजहपर पहुंचजानेके सबब महाराणा बेहोशीकी हालतमें थे, और यह नौबत पहुंचगई थी, कि मथुरा जाना छोड़कर वापस उदयपुर पहुंचना भी उनके लिये मुश्किल होगया. तब उक्त हज्जाही सर्दारोंने देशी वैद्य साधु रामरत्न दादूपंथीको बुलाकर महाराणाकी नब्ज दिखलाई, उसने नब्ज और शरीरके चिन्ह देखकर उन्हें वापस उदयपुरमें लौटालानेकी सलाह दी, और कुल मुसाहिबोंने भी यही मुनासिब समझा; लेकिन वाज लोगोंने उनके मिजाजसे डरकर कहा, कि यदि अच्छे होजायेंगे, तो मथुरा लेजानेके एवज उदयपुर लौटालानेपर सख्त नाराज होकर सबकी खबर लेंगे. आखरकार कुल लोग एक मत होकर महाराणाको उदयपुरकी तरफ ले

निकले, जब उन्हें रास्तहमें होश आया, तो फर्माया, कि “ मुझे कहां लिये जाते हो ? ”



इसपर सबने वृन्दावनको लेजाना बयान किया. यह सुनकर “ बहुत अच्छा ” कहते ही फिर बेहोश होगये, और इसी हालतमें राजधानी उदयपुरसे बाहिर रेजिडेन्सीकी कोठी में लाये गये, जहां वलीअहद भी आ पहुंचे. इन महाराणाके गुस्सहसे सब लोग बहुत डरते थे, लेकिन जुअ्त करके उसी दिन, याने विक्रमी आषाढ शुक्ल ६ [हि० ता० ४ जमादियुस्सानी = ई० ता० १३ जुलाई] को उन्हें राज्य महलोंमें लेआये, जहां पिछली रातको उनका इन्तिकाल होगया. विक्रमी आषाढ शुक्ल ७ [हि० ता० ५ जमादियुस्सानी = ई० ता० १४ जुलाई] को उनकी दग्धक्रिया हुई, और लच्छूबाई नामक एक ख्वास उनके साथ सती हुई.

इन महाराणाका जन्म विक्रमी १८५५ भाद्रपद कृष्ण ३ [हि० १२१३ ता० १६ रबीउलअव्वल = ई० १७९८ ता० २९ ऑगस्ट] को हुआ था; यह बहुत खूबसूरत थे, इनका कद मझला, गौर तेजस्वी वर्ण, और चिहरेपर बहुत कम मालूम चेचकके दाग थे. यह दिलके बहुत साफ और ज़बानके पूरे पाबन्द थे, लेकिन मिजाज किसी कद्र तेज था, जिसका कारण शराबकी जियादती थी.

छप्पथ.

श्रीमत रान जवान, जबहि सुरलोक सिधारे ॥
जिनके चामर छत्र, रान सादल सिर धारे ॥
स्वामी सुभट विवाद, बढत तब अहद बनाये ॥
महता शेर प्रधान, दूर कर राम मनाये ॥
निज सुताव्याह विक्रमनयर, तीरथ न्हान प्रथानकर ॥
राना विवाह बीकानयर, कर प्रवेश मेवार धर ॥ १ ॥
राना दत्तक लैन, मत्त सिर्दारसिंह किय ॥
बंधु त्रतिय बागौर, लेख सारूपसिंह लिय ॥
जबहि किये जुवराज, चक्र आमय तन चल्लिय ॥
स्वर्ग गौन सिर्दार, होन सत्ती इक हल्लिय ॥
सादल सुखंड आशय सजन, मयशासन फतमालके ॥
कविराज इयाम पूरन कियउ, सम मुत्तिय विच लालके ॥ २ ॥

महाराणा सद्दरसिंह,
—
सत्रहवां प्रकरण समाप्त.



विक्रमी १८९९ आषाढ शुक्ल ८ [हि० १२५८ ता० ६ जमादियुस्सानी =
.ई० १८४२ ता० १५ जुलाई] की शामको यह महाराणा २८ वर्ष ६ महीना और
१० दिनकी उम्रमें गद्दीपर बैठे, विक्रमी श्रावण शुक्ल १३ [हि० ता० ११ रजब
= .ई० ता० १८ ऑगस्ट] को इनके राज्याभिषेकोत्सवकी सवारी व दर्बार हुआ,
जिसमें राज्यके कुल सर्दार, पास्वान तथा अहलकारों वगैरहने हाजिर होकर नज्में गुजराती,
और चारणोंने उन्हें महाराणा सर्दारसिंहका जानशीन होनेकी आशिस दी. इसके बाद
हिन्दुस्तानके गवर्नर जनरल लॉर्ड एलेन्बराका एक फ़ार्सी खरीतह (१) मातमपुरी और
गद्दी नशीनी की बाबत महाराणाके नाम आया, जिसका तर्जमह नीचे दर्ज किया जाता है:-

लॉर्ड एलेन्बराके फ़ार्सी खरीतहका तर्जमह.

महाराणा साहिब आलीशान मुश्फ़क़ मिहर्बान जगह निकलने मिहर्बानी व
इहसानके सलामत-

पीछे पहुंचाने दस्तूरों रूवाहिश वड़ी मुलाक़ात बिल्कुल खुशीके, जो क़लम दो-

(१) نقل خريطة لارة ايلنبره گورنر جنرل هند بنام مهارانا سروپ سنگه *

مہاراٹھ صاحب عالی شان مشفق مہربان مصدر لطف و احسان سلامت

بعد از تبلیغ مراسم آرزوی گرامی موصلت سرا سرعاطفت کہ گنجایش گیر تحریر خامہ و زبان

जबानकी लिखावट और खत कुशादह बयानकी तक्रारकी गुंजाइशसे बाहिर है, रौशन दिलपर जाहिर कियाजाता है. मिहर्बानीका खत मिहर्बानीकी मुहर किया हुआ, जिसमें महाराणा सदासिंहके इस दुनूया नापायदारसे इन्तिकाल करजानेका भयानक वाकिअह और दर्दमन्द मुसीबत, और इस जिगर जलाने वाले हादसहसे निहायत रंज और गमका हासिल होना, और उस आलीशानका अपने दागदार सीनेपर सब्रका पहाड़ रखकर अच्छे मुहूर्तमें महाराणा वैकुण्ठवासीकी जगह रियासत मेवाड़की गद्दीपर विराजना वगैरह मरातिब दोस्ती, एक दिली और मिहर्बानीके दर्ज थे, मुहब्बतके साथ वुसूल होकर मुख्लिसोंके दिलोंमें गमका बढानेवाला और दोस्तोंके दिलोंको खुशी बख्शनेवाला हुआ. अर्घि उसका पहिला मज्मून बड़े रंजका सबब था, मगर पिछले मत्लबके मुलाहजहसे बहुत खुशी पैदा हुई. जोकि ऐसे जरूरी हादसों और बे इस्तियारी वारिदातोंमें सब्रके सिवा और कोई इलाज नहीं है, इसलिये अपने नाजुक दिलको रंज और गममें न फंसाकर बड़ी होश्यारी और मुस्तकिल मिजाजीसे रअग्र्यतके पालने और इन्साफ करने और रियासतके इन्तिजाम व बन्दोबस्तके काममें मशगूल रहें, कि अस्लमें यही बात परमेश्वरकी बख्शिशोंका शुक्रियह अदा करनेकी है; और दोस्तदारको बड़ी ख्वाहिश इस बातकी है, कि परमेश्वर उस आलीशानको जमानह दराजतक मुल्क मेवाड़की रिआयाके सिरपर हमेशह काइम रखे, जियादह क्या लिखे.

(अंग्रेजीमें)

दस्तखत- एलेन्बरा.

و تقریر پذیر نامہ وسیع البیان نیست، مشہود ضمیر منیر گردانیدہ سے آید * مہربانی نامہ شفقت ختامہ متضمن واقعہ مائلہ و سانحہ مولمہ ارتحال مہارانا سرورسنگہ ازینعالم نا پایدار و دستدان کمال اندوہ و تکدر ازین حادثہ آتش بجگرہ و آنکہ آنعالیشان کوہ صبر و قرار برسینہ داغدار خود نہادہ در ساعت سعید و زمان حمید مسند ریاست ملک میوزرا بجائے مہارانا متوفی زیب و زینت بخشیدندہ با دیگر مراتب لغت و یکجہتی و مودت و یکرنگی بوصول مہبت شمول خود تکدرا فرمایے قلوب مخلصان و مسرت پیرایے خاطرہ وستان گردید * اگرچہ مضامین مصدرہ آن باعث حسرت و رنج فراوان بود، مگر بملاحظہ مطالب موخرہ فرحت و مسرت نمایان دستداد * از انجاکہ در ہمچوحوادث ضروریہ و واقعات لابدیہ چارہ کار بجزاز صبر و شکیبائی نیست، لازم کہ خاطر نازک خود را پابند حزن و ملال نگردانیدہ بکمال ہوشیاری و استقلال مصروف برعایا پروری و معدلت گستری و انتظام ریاست و امتدال سیاست باشندہ کہ این امراصل شکرانہ عطایاے حضرت آفریدگار جلت عظمتہ است، و مخلص را نہایت آرزوی اینمعنی است کہ او تعالیٰ آنعالیشان را تا زمانہ راز بر سر رعایا و بر ایای مملکت میواز

Elle:borough.

قائم و پایندہ داران- زیادہ چہ بر طراز *

गद्दी नशीनीके शुरू जमानहमें महाराणाको रियासतका काम चलानेमें बड़ी होश्यारी बरतनी पड़ी, क्योंकि मत्लबी लोगोंका हरएक गिरोह उनको अपनी अपनी तरफ खेचना चाहता था; लेकिन महाराणा उन सब लोगोंको अपने महाराजगीके जमानहमें अच्छी तरह देख चुके थे, याने उसवक्त बागौरके छोटे होनेके सबब उनका किसीको खयाल न था, कि यह मेवाड़के महाराणा होंगे, इसलिये वह बगैर किसी पॉलिसीकी रोक टोकके रियासती कारोबार और आदमियोंके ढंगोंको खूब देखते रहे, और वही तजर्बह उनको इस वक्त मुफ़ीद हुआ, कि जिसके जरीअहसे वह हरएक आदमीकी मत्लबी कार्रवाईको दिलमें पहचानकर नुकसान उठानेके एवज उनसे अपना मत्लब निकालने लगे. महाराणा ने गद्दीपर विराजकर सलूबरके कुंवर केसरीसिंहको अपना मर्जीदां बनाया, जिससे आसींद का रावत् दूलहसिंह और प्रधान महता रामसिंह दोनों दबे रहे; और केसरीसिंहने गोगूदाके कुंवर लालसिंहकी मारिफत अपना गिरोह काइम करना शुरू किया; उसका इरादह था, कि दूलहसिंह और रामसिंह दोनोंको अलग करके मुसाहिबीका काम अपने इस्तियार में लेलेवे. महता रामसिंह बड़ा होश्यार मुत्सदी था, वह केसरीसिंहका मन्शा पाकर दोनों तरफ दम देता रहा; लेकिन रावत् दूलहसिंह, जो एक अरसहसे मुसाहिबीमें दखल रखता था, कुंवर केसरीसिंह और महाराणाके दर्मियान नाइत्तिफ़ाकी पैदा करा देनेकी कोशिश करने लगा. उसने शुरूमें सलूबरके रावत् पद्मसिंहको महाराणासे कुंवर केसरीसिंहकी शिकायत करनेके लिये उभारा, जिसने ठिकाने सलूबरसे उक्त रावत्की हुकूमत बिल्कुल उठादी थी, और उससे इस विषयकी एक अर्जी लिखवाकर महाराणाकी खिदमतमें पेश की, जिसकी नक़्क नीचे लिखी जाती है :-

रावत् पद्मसिंहकी अर्जीकी नक़्क.

॥ श्रीरामजी १.

॥ सीध श्री ऊदैपुर सुभसुथानै सरब ओपमा वीराजमान अनेक ओपमा लाऐक
महाराज धीराज महाराणाजी श्री। श्री। श्री। श्री। श्री सरुपसीधजी त्ररणजीवी त्ररण कुम-

लाञ्छेण अेतान, सलुवरथी सेवक छोरु रावत पदमसीघ कहेने मुजरो मालम वेसी, अठारा समीचार श्री जीरी सुनजस्थायी करेने भला हे, श्रीजीरा सदा सीरबदा दीन १ प्रत गडी गडी पुल पुलरा सदा आरोग चाईजे, तो छोरुने प्रम सुप वेसी राज; श्रीजीरा स्हेण, भडार, कपुर, कसतुरी, गगाजल अरोगवारा तथा असवारी सकारी, चडवा ऊतरवारा घणा जतन रषायारो हुकम वेसी राज, जतन तो श्री अेकलीगजी राषे हे, तो पण छोरुने तो अरज लषी चाईजे; श्री जी बडा हे मोटा हे मावीत हे, सदा सुनजर रषावे जुडीज रषायारो हुकम वेसी राज. अप्रच । अणा दीनामे रुको मया हुवो न्ही, सो लषवा म्हे आवसी, अठे मारो हक केरीग ऊठावामे कसर मेली न्ही, आगे पण ऐक दोऐ भलामनषाने पकडे ने लेगया, ने गाम छाछदे पड्या पण हे, ने फेरे अबार गाम वसीथी षरवड पुमाणसीघने पकडे ने लेगया, सो आज दीन पेली अठे बडा रावतजी केसरीसीघजी थी लेने आज दीन ताई सलुवर म्हे रजपुत सीरदार सपाडीरो धरम कणी लीदो न्ही, ने मातीरे चाकरी करे जीरा कसाथी अणी अबार या कीदी, सो असी वाता श्री जीरा हुकमथी करे हे के अणारे मनरे जाणे करे हे, अबे मारो हक न्ही सो ऊठाथी श्री दरवार रो भलो मन (ष) मेलेगा सो सेररी कुच्या अणाने श्री हजुररा हुकम थी सुपे ने श्री हजुर मने मेलेगा जठे रेऊगा, ओर अरज काकोजी रावत दुलेसीघजी मालम करेगा, छ १८९९ रा काती व्दी २ सुकरे.

यह अर्जी नज़र करके दूलहसिंहने महाराणासे अर्ज किया, कि यदि हुज़ूर रावत पद्मसिंहकी तसल्ली करदेवें, तो मैं और वह दोनों शामिल रहकर हुज़ूरकी सर्जिके मुवाफ़िक़ मेवाड़के कुल सर्दारोंसे छटूंद चाकरीका फैसलह करादेंगे, क्योंकि जिस हालतमें हम दोनों शरूख़ इक्रारनामह लिखदेंगे, तो और कोई सर्दार इन्कार नहीं करेगा. महाराणा तो यही चाहते थे, उन्होंने फ़ौरन् पद्मसिंहको बुलानेके लिये उसके नाम तसल्लीका रुका लिख भेजा.

इन्हीं दिनोंमें विक्रमी कार्तिक कृष्ण १३ [हि० ता० २६ रमजान = .ई० ता० ३१ अक्टोबर] को कोटाके महाराव रामसिंहकी तरफ़से राज्यतिलकके दस्तूरमें हाथी व घोड़ा वगैरह सामान आया, और विक्रमी कार्तिक शुक्ल ४ [हि० ता० २ शव्वाल = .ई० ता० ६ नोवेम्बर] को खुद महाराव रामसिंह मातमपुरीके लिये उदयपुरमें आये; महाराणाने दस्तूरके मुवाफ़िक़ पेशवाई वगैरह रस्मोंके साथ उनका आतिथ्य किया. उक्त महाराव कुछ दिन ठहरकर वापस कोटे चलेगये.

इसके बाद रावत् दूलहसिंहने महाराणासे अर्ज किया, कि कुंवर केसरीसिंह बड़ा घमंडी है, वह हुजूरके हुक्मकी तामील नहीं करेगा, इसलिये साहिब एजेण्टके नाम दोनों बाप बेटोंकी तक्रारका हाल लिखकर उन्हींको इस फैसलेका इख्तियार देदिया जावे, कि वह किसी अंग्रेजी अह्लकारको सलुंबर भेजकर केसरीसिंहका इख्तियार ठिकानेसे उठवादेवें; इसमें एजेण्ट साहिबको हुजूरकी मुन्सिफ़ मिजाजी मालूम होगी, और वह हुजूरके मन्शाके मुवाफ़िक़ फ़ौरन् तामील करावेंगे. महाराणाने दूलहसिंहकी सलाहको पसन्द फ़र्माकर इस बारेमें पोलिटिकल एजेण्टके नाम एक खरीतह लिखभेजा, जिसपर उक्त पोलिटिकल एजेण्टने महाराणाके लिखनेके अनुसार ठिकानेके बन्दोबस्तकी बाबत् एक तज्वीज़ लिखकर उसपर रावत् पद्मसिंह व कुंवर केसरीसिंहके दस्तख़त करालिये और केसरीसिंहसे रावत् पद्मसिंहके नाम एक तहरीर बतौर इक्रारनामह लिखाकर उनकी नक़्क़े अपने जवाबी खरीतहके साथ महाराणाके पास भेजदीं, जो मए नक़्क़ खरीतह साहिब एजेण्टके नीचे दर्ज कीजाती हैं:-

पोलिटिकल एजेण्ट टॉमस रॉबिन्सन साहिबके खरीतहकी नक़्क़.

१ श्रीरामजी १.

॥ ३६ ॥ नंबर

॥ सिधश्री उदेपुर सुभसुथाने सरबउपमां ब्राजमांन महाराज धिाज महाराणाजी श्री सरुपसींघजी बहादुर ऐतांन करणेल तामीस राबीनसन साहेब बहादुर ली ॥ सलाम बचावसी, डीठारा स्मांचार भला छे, आपका सदा भला चाहीजे, अपरंच परीता आपका माह बदी ९ का लीषा कुवर केसरीसींघजीके मारफत आया, स्मांचार बांच वार्कीफ़ हुवा, आपने पेसतर मुजसे कै बार फरमाया ने अब परीतेमे लीषा, जीसु सलुबरका राज सुधरनेकी तद्बीर बतलाणेमे आडी, और उसकु बीचार श्री रावतजी तथा कुवरजीने आपसमे बदोबसत कर करारनांमे मेरे पास भेजे, उसकी नकल डीस परीताकी साथ आपके मुलाहजे सारु भेजताहुं, बांचेसे सब अहेवाल जाहर होगा. डीकीन हे डीस बदोबसतसे राजके घरका सुधारा हो करज उतर जावेगा, और श्री रावजी

राजी रहेगे; और मीजाज मुबारककी घुसीके स्मांचार हमसे लीषावसी, सं० १८९९ रा
माह सुदी ७ तारीष ६ फरवरी सन् १८४३ ईसवी.

(अंग्रेजीमें)

दस्तखत- टॉमस रॉबिन्सन.

पोलिटिकल एजेण्टकी तजवीजकी नकल.

नकल.

॥ श्रीरामजी.

(अंग्रेजीमें)
दस्तखत- टॉमस रॉबिन्सन.

॥ तजवीज बंदोबसत राज सलुंवर आज तरफ करणेल तामस राबीनसन साहेब
बहादुर माफीक मरजी श्री महाराणाजी साहेब बहादुर

आपरंच मेरी सीरकार दौलतमदार कंणी ईंगरेज बहादुरकी मरजी हींदु-
सतानी सीरदारोके घरके काममे दपल करनेकी न्ही, ने इसी सबब मै बी घर
कामोसे आलग रहेता हुं, पण श्री महाराणा साहेबने सलुंवरकी बेबंदोबसती फरमाके
कै बार बंदोबसत और बाप बेटेका मीलाप मेरी मारफत चाहा, सो श्री महाराणा
साहेब बहादुरकी पातर आर घुसी सारु नसीहतके तोर ऐसा पयालमे आता हे,
और इससे बहतर दुसरी कोई तजवीज फीसाद दुर होणेकी नजर आई न्ही, जो
मेरी नसीहतसे बंदोबस्त अर घरका फायदा स्मझा जाय, तो इस कागदपर दसषत
सही कीजावे, और न्ही तो फेर मेरा कहेना कुल जरुर न्ही.

बंदोबसतरी बीगत.

१- रावतजीकी मालकी तथा हुकम, और कुवरजीकी मुषतीयारी रावतजीकी ताबेदारीसे.

२- षटाकी आमदनीमेसे आगला करार माफीक रु ॥ १२०००, रावतजी ने रु ८०००,

कुंवरजी सालीना आपणे आपणे षरचके लेवे, दोनुसे ज्यादे षरच करे न्ही, बाकी रहे जीमेसे भाग प्रमाणे करजदारोकु देवे.

३- ओर सीवाय पेदायस उपज दोनुवाकी सलाहसे होणा चावे, ओर वोह उपज बाईका बीवाह तथा करज वालाकु जथा जोग बरताणा चावे.

४- बाप बेटा नषे फीतुरी आदमी रेहेके काम बीगाडे हे, ज्याने कामसु न्यारा करे ने राजको काम दोही ऐषटसु चलावे.

४

ही प्रमाणे मंजुर करवापरे हमारा भला आदमी मागेगे, तो थोडे दीना वासते भला आदमी रहेगा, ओर दोनु कानीका चलन देष कामकी मदद वाजबी राषेगा, सं० १८९९ रा माहा सुदी ३ तारीष २ फरवरी सन् १८४३ ईसवी.

श्रे कलमा लषी सो कबुल हे.

श्रे कलमा लषी सो कबुल हे केसरीघके.

रावत् पद्मसिंहके नाम कुंवर केसरीसिंहकी तहरीरकी नकल.

नकल.

॥ श्रीरामजी.

(अंग्रेजीमें)
दस्ताखत-दामस राविन्सत.

॥ सीधश्री महाराज धीराज महारावतजी श्री श्री श्री श्री श्री १०८ श्री श्री काकाजी साहेब श्री पदमसीधजी हजुर अरज छोरु चाकर बेटा कुंवर केसरीसीधको धरती हाथ लगावे न मुजरो मालम होवेगा, अप्रंच श्री हजुर मने मुंडा आगे कामकी बंदगी चाकरी बतावी सो श्री हजुरका हुकम परमाणे काम करुंगा, कणी बातसुं श्री हजुरको हुकम लोपुंगा न्ही, और वरस ४ च्यार मांहे करज उतारे देउंगा और श्री हजुर क (पीके) सीषाअ्रे चाले लागसी न्ही, और वरस ४ पाछे श्री हजुरकी मरजी आवेने सुदारे ज्णीने काम देसी ज्णीसुं हुं राजी रेउंगा, सं० १८९९ का महा सुदी ६ रवेउ.

केसरीसिंहने अक़मन्दीके साथ ऊपर लिखा हुआ इक्रारनामह लिखकर अपना घरू बखेड़ा मिटा देनेके बाद अपने मालिक (महाराणा) की तरफसे रंजीदगी जाहिर करके रावत दूलहसिंहको कहलाया, कि आपको हमारे पितामह होकर घरू बखेड़ा मिटानेके एवज बढ़ाना वाजिब नहीं है. इससे रावत दूलहसिंह बहुत शर्मिन्दह हुआ, लेकिन साथ ही इसके उसे खुशी भी हुई, कि महाराणा और केसरीसिंहके दरमियान रंजकी सूरत पैदा होगई.

इन्हीं दिनोंमें गवर्मेण्ट अंग्रेजीको काबुल और गज़नीपर फ़तह हासिल होकर मन्दिर सोमनाथके सन्दली किवाड़ हिन्दुस्तानमें लाये जानेकी मुबारकवादका फ़ार्सी खरीतह (१) गवर्नर जेनरल हिन्द लॉर्ड एलेन्बराने मए एक हिन्दी इश्तिहारके महाराणाके पास भेजा, जिसका तर्जमह और इश्तिहारकी नक़्क़ पाठकोंके अवलोकनार्थ यहांपर दर्ज कीजाती है :-

लॉर्ड एलेन्बराके खरीतहका तर्जमह.

महाराणा साहिव आलीशान मुश्फ़क़ मिहर्बान जगह निकलने मिहर्बानी और इहसानके सलामत-

पीछे पहुंचाने दस्तूरों ख़्वाहिश बड़ी मुलाक़ात बिल्कुल खुशीके, जो कलम दो-जबानकी तहरीर और ख़त कुशादह वयानकी तक़ीरकी गुंजाइशसे बाहिर है, रौशन दिलपर जाहिर कियाजाता है. जोकि वे मुश्फ़क़ हिन्दुस्तानके सर्दारोंमेंसे क़दीमी रियासत और बड़े मर्तबहके साथ मुस्ताज़ हैं, इसलिये वह ख़त, जो दोस्तदारकी तरफसे हिन्दुस्तानके सब सर्दारों और तमाम रिआयाके नाम जारी हुआ, खास अपनी तरफसे

(१) نقل خریطه لارن ایلنبره گورنر جنرل هند بنام مهارانا سروپ سنگه *

مہارانا صاحب مالیشان مشفق مہربان مصدر لطف واحسان سلامت، بعد از تبلیغ مراسم آرزوی گرامی مواصلت سرا سر عاطفت کہ گنجایش گیرتھریر خامہ نوزبان و تقریر پندیر نامہ وسیع البیان نیست، مشہود ضمیر منیر گردانیدہ مے آید * از انجا کہ آن مشفق بزمورہ سروران ہندوستان بقدمت ریاست وجلالت قدر ممتاز اندہ بان مشفق ارسال خطیکہ از طرف مخلص بجملہ سروران وتامامی خلائق ہندوستان جاری شدہ بدون تہنیت خاص


ऐसे बड़े कामके ज़ाहिर होनेकी मुबारकबादके बिना, कि जो हिन्दुओंकी नामवरीका बाइस और हमेशाके वास्ते इस ज़मानहकी .इज़तका सबब है, उन मुश्फ़क़को भेजना मुनासिब न समझकर उस ख़तके साथ लिखताहूं, और यकीन करताहूं, कि उन मुश्फ़क़से ज़ियादह हिन्दुओंमेंसे किसी शरूस्को ऐसे बड़े कामके ज़ाहिर होने, याने मन्दिर सोमनाथके सन्दली किवाड़ वापस हाथ लगनेसे खुशी हासिल न होगी; और पाकीज़ह दिलको यकीन हो, कि इस ग़नीमत (किवाड़ों) के मुल्क हिन्दुस्तानमें वापस ला देनेका, जिसे सुल्तान महमूद लूटकर लेगया था, मैं दोस्तदारही ज़रीअह हुआ हूं, इसलिये इस कामको अपनी .इज़तका सबब ख़याल करता हूं. और जोकि दोस्तदारके मुसाहिबोंमेंसे बहादुरीकी निशानी कप्तान हेरल्स बहादुर दोस्तदारके खास हद्दाही रिसालहके चन्द सवारों समेत मन्दिर मज़कूरके किवाड़ोंके मुहाफ़िज़ोंके साथ उस मुश्फ़क़के राजमें होकर जाते हैं, लिहाज़ और .इज़त उन मुश्फ़क़की जैसी कि मेरे मुहब्बत भरेहुए दिलमें नक़श है, वह रौशन करेंगे, और इस दोस्तदारकी वह ख़्वाहिश भी, जो वास्ते तरकी और पायदारी ख़ानदान उन मुश्फ़क़के है, ज़ाहिर करेंगे. उम्मेद कि, दोस्तदारको हमेशाह अपने मिहर्बान मिज़ाजकी ख़ैरियतका ख़्वाहिशमन्द समझकर उसकी इत्तिलासे खुश फ़र्माते रहें, ज़ियादह क्या लिखे.

(अंग्रेज़ीमें)

दस्तख़त— एलेन्बरा.

ومبارکباد بالاخصاص ازطرف خود بظهور چنان واقعه که باعث ناموری هندوان و براے دوام سبب اعزاز این زمان است. مناسب ندیده همراہ آن امینمایم و به یقین میدانم کہ زیادہ از ان مشفق بکدام کس از هندوان ظہور چنان واقعه عظیم یعنی بازیافت دروازہ ماے صندل مندر سومنات مسرت و حبور نخواهد بخشیدہ و یقین خاطر خاطر باشد کہ چون دوستدار ذریعہ بہیہ واپس دادن بولایت ہندوستان آن غنیمت کہ سلطان محمود انتزاع کردہ بود گردیدہ ام. این امر را موجب اعزاز خود تصور میکنم؛ و شجاعت شعار کپتان ہرلس بہادر یکے از مصاحبین مخلص کہ با معدودے چند از سواران رسالہ خاص ہمراہی دوستدار بہ معیت محافظین دروازہ ماے مندر مذکورہ براہ مملکت آن مشفق میروند؛ پاسداری و اعزاز آن مشفق کہ منقوش خاطر محبت مظاہر است حالی خواهند ساختہ و نیز تمنا و آرزوے این دوستی دوست کہ بہ ترقی و بہبودی آن مشفق و دوام و قیام خاندان آن مشفق است؛ ظاہر خواهند نمود * ترصد کہ اخلاص پیرارا مدام آرزو مند دریافت خیریت مزاج عطوفت امتزاج خود تصویریدہ باطلاع آن مسرور و محبوب مے فرمودہ باشند۔ زیادہ چہ بر طراز *
Ellenborough.

नकल इतिहास.



* नवाव गविरनर जनरल की तरफ से हिन्दुस्तान के *
* सब राजा प्रजा को *

भाइयो और मित्रो ।

हमारी युद्ध जीत सेना सोमनाथ के मंदिर के किवाड अफगान देश ते धूम धाम के साथ लिये आवती है और सुलतान महमूद के अंगभंग मकबरे परसे अब सारी गजनी उजार परी दीखती है आठ सै बरस की हतक का अंत बदला लिया गया सोमनाथ के मंदिर के किवाड जो इतने दिनों से तुहारी पिछली आधीनता का पता खडे हुये थे वेई किवाड अब तुहारे देश की सामर्थ्य और प्रकाश के बडे प्रतापवान निशान बने रहेंगे सिंधु पारवालों से तुहारे शस्त्रों की अधिकता को सदा अनुमान करवावते रहेंगे सहर्ंध रजवाडा मालवा और गुजरात के तुह सब राजों सरदारों को मैं विजयी संग्राम का यह बड़ा सुंदर फल समर्पण करता हूं और तुह आपही इन्ह चंदन के कवांडों को बडे आदर सन्मान साथ आप अपने मुलक से सोमनाथ के संस्कार किये हुये मंदिर में पहुंचाय दोगे जिस समै यह सारी विजयवती फौज वे किवाड सहर्ंध के राजों को सुतलज के किनारै सौंपने लगैगी, तब उन्ह राजों को खबर दिई जायगी * भाइयो और मित्रो । मुझे

तुहारे और सरकार अंगरेजीके आपस के आश्रय पै निश्चय और बडा भरोसा

रहा है तुझ देखते हो वह सरकार कैसी तुझारे आश्रय की योग है जो तुझारी और अपनी शोभा को एक समान समझती है जो किवाड अफगानों के आगे तुझारी पिछली अधीनता को इतने दिनोंते याद करवावते थे उन्हे के तुझे फेर लयाय देणेमें अपने शस्त्रों का बल लगाती है मैं जो तुझारे मनोरथ प्रयोजनको अपना ही समझता हूं, इसी ते इस शूरवीर सेनाके अतुल लाभको तुझारे जैसे उतसाहसे देखता हूं, के यह लाभ मेरे जन्मदेश और इस निवास देश पै एक अचल शोभा बराबर बर्षाता है, इन्हे दोनो मुलकके आनंददायक मेलापका बना रहना और बढ़ाना, जो दोनोंके वास्ते जरूर है सो मेरी अभिलाषा है, और जो उपद्रव पहले समयमें हिंदुस्तानको सताते थे उन्हे सबसे मित्रोंकी और सारी रइयत अंगरेजीकी रक्षा करणी इसी मेलाप के आधीन है, और इसी मेलापके कारणसे इस सारी फौजने उजार गजनी, काबल और बालाहिसार पै अपनी जयकी धजा फरराई, और और परमेश्वर जिसने अबतक हमारी ऐसी रक्षा की, आगे भी हमारे उपर ऐसी कृपा दृष्ट करै के जितना बल मेरे हाथ सौंपा गया है, सो सब तुझारे ऐश्वर्यके बढ़ाने, माल गांउं और तुझारा सुख बना रखूं और इन्हे दोनो मुलकके मेलापकी ऐसी नीव रखूं। जो सदा अजर अमर रहे *



सलूंवरका कुंवर केसरीसिंह तो महाराणासे रंजीदह होकर उनके विरुद्ध कार्रवाइयां करनेकी फिक्रमें ही था, कि इसी अरसहमें एक मुज्जिम ब्राह्मणी, जिसपर कुछ जुर्म साबित हुआ था, भागकर सलूंवरकी हवेलीमें जा बैठी। क़दीम ज़मानहमें कुल हिन्दुस्तान और ज़ियादहतर राजपूतोंकी कौममें यह काइदह था, कि जब कोई मुज्जिम भागकर किसी देवस्थान अथवा धर्मगुरु, वा राजा, या राजपूत सर्दारकी पनाहमें चला जाता, तो राजपूत लोग उसके बचानेके लिये अपनी जानतक देनेमें कोताही न करके शरणमें आने वाले शरूखको राज्य वालों या उसके दुश्मनको हर्गिज नहीं सौंपते थे; अगर वह किसी मन्दिर अथवा धर्मगुरुकी पनाहमें आता, तो मन्दिरोंके पुजारी तथा धर्मगुरु भी उसके बचानेके लिये खुदकुशी करने और उनके पक्षपर राजपूत सर्दार अपने मज़हबी आईनको काइम रखनेकी गरजसे जान देनेको तय्यार होजाते थे. इस रवाजकी बुनयाद क़दीम ज़मानहमें इस तरहपर पड़ी, कि भारतवर्षमें पहिले जुदा जुदा ज़िलोंके अलहदह अलहदह खुदमुख्तार राजा थे, उस हालतमें जहां कहीं कोई ज़ालिम राजा होता, और किसी ग़रीब बेकूसूरकी जान लेनेको हुकम देता, तो उसको बचानेके लिये मज़हबी पेशवा व राजपूत लोग सहायक बन जाते, और


राजाका गुस्सह ठण्डा होनेपर इन्साफ़ करादेते थे. मुसल्मान लोगोंकी हुकूमत

हिन्दुस्तानमें काइम होनेके जमानहसे मज़हबी जोशके सबब इस रवाजने और भी ज़ियादह तरकी पाई, और उसी ढंगपर मेवाड़में भी यह दस्तूर जारी रहा, याने श्री एकलिंगेश्वर, नाथद्वारा, कांकड़ौली, चारभुजा, रूपनारायण और ऋषभदेव आदि बड़े बड़े देवस्थान इलाक़हमें, और राजधानी उदयपुरमें जगदीश आदिके प्रतिष्ठित मन्दिर और चित्तौड़-गढ़पर कालिकादेवी व अन्नपूर्णाके मन्दिर तथा धर्मगुरु, राजपुरोहित, सवीनाखेड़ाके गुसाई और लादूवासके आयसका ठिकाना पनाहकी जगह समझे जाते थे. इसीतरह बहुतसे सर्दारोंकी हवेलियां भी थीं, जिनमेंसे सलूबरकी हवेली, सबसे बढ़कर पनाहकी जगह गिनी जाती थी, और उसकी हद पीछोलीसे उत्तरी तरफ़ ताणाकी हवेलीतक रावतजीकी हाटां कहलाती थी; इस इहातहमें यदि कोई मुज्जिम चलाजाता, तो सर्कारी आदमी उससे किसी तरहकी मुज़ाहमत नहीं करने पाते थे. पिछले जमानहमें यह रवाज ज़ियादह बढ़जानेके सबब बड़े बड़े मुज्जिम सज़ासे बचकर दोबारह जुर्म करने लगगये थे. महाराणा स्वरूपसिंहको खास शहरमें जुर्मोंकी ज़ियादती देखकर यह बात नागुवार गुज़री, और उन्होंने उस ब्राह्मणीके लिये, जो सलूबरकी हवेलीकी पनाहमें थी, कोतवालको हुकम दिया, कि जब वह रावतजीकी हाटोंसे बाहिर निकले, फ़ौरन् गिरिफ़्तार करलो. इसवक्त यह रवाज यहांतक बढ़गया था, कि यदि सलूबरकी हवेलीका एक आदमी भी मुज्जिमके साथ रहता, और वह कुल शहरमें फिरता, तो उसको कोई गिरिफ़्तार नहीं करसक्ता था. वह ब्राह्मणी एक रोज़ अपनी जाति वालोंके यहां खाना खानेके लिये गई, और इत्तिफ़ाक़से उसके साथ वाला सलूबरकी हवेलीका आदमी अपने घर चलागया. यह मौका पाकर कोतवालके आदमियोंने औरतको गिरिफ़्तार करलिया, और कुंवर केसरीसिंहको इसकी ख़बर मिली. केसरीसिंहने सुनते ही फ़ौरन् अपने सौ पचास आदमियोंको भेजा, जो सर्कारी सिपाहियोंसे उस ब्राह्मणी को जबरन् लुड़ायाये. महाराणाको इस बातपर बहुत गुस्सह आया, और उन्होंने रावत दूलहसिंहको, जो केसरीसिंहका तरफ़दार बनकर इस बारेमें अर्ज़ करने लगा था, नाराज़ होकर कहा, कि तुम दोनों तरफ़ मिलावट रखकर अपना मत्लब निकालना चाहते हो; और तोपखानह लेजाकर सलूबरकी हवेलीको मए केसरीसिंह के उड़ादेनेका हुकम दिया. उसवक्त महता रामसिंहने महाराणाके कानमें अर्ज़ किया, कि हुजूरकी शुरू गद्दी नशीनीमें ऐसी बड़ी ख़ूरेजी होना बदनामीका बाइस है, अगर यही मन्ज़ूर हो, तो पोलिटिकल एजेण्ट रॉबिन्सन साहिबको इत्तिला देकर कार्रवाई शुरू करना मुनासिब है. महाराणा भी अक्कमन्द थे, उन्होंने

रामसिंहकी सलाहको मानकर कुंवर केसरीसिंहकी सर्कशीका मुफ़्फ़सल हाल

पोलिटिकल एजेण्टके पास लिखकर भेजदिया, और उसके जवाबमें रॉबिन्सन साहिबने एक खरीतह महाराणाके नाम भेजा, जिसकी नक़ नीचे दर्ज कीजाती है:-

पोलिटिकल एजेण्ट रॉबिन्सन साहिबके खरीतहकी नक़.



॥ श्रीरामजी १

॥ १६६ ॥ नंबर.

॥ सिधश्री उदेपुर सुभसु ने सरब उपमां त्रिज्मान लायक महाराज धिाज महाराणाजी श्री सरूपसींघजी साहेब बहादुर ऐतान करनेल तांभीस राबीनसन साहेब बहादुर ली ॥ सलांम बंचावसी, ईठारा स्मांचार भला छे, आपका सदाभला चाहीजे अपरंच, षरीता आपका बैसाष बदी ४ का ली ॥ कुवर केसरीसींघकी नादांनी ताबे आया, स्मांचार बांच वाकीफ हुवा, ईस्मुकदमेके सुणबेसे कुवरजीकी नादानीका बहोत अफसोस मालुम होता हे, ताबेदारोंकु ऐसा चाहीजे नही, ऐसी बे-अदबी करणेसे कसुरवार होते हे, लेकन मेरे षयालमे आता हे, के कुवरजीपे आपकी मेहरवांनी ज्यादे थी वीसें गफलतमें आ गएँ होंगे; ओर जो आगे के ऐक कसुर कीये थे, तो उसी बषत मने करना चाहीये था, फेर ऐसा काहेकु करता, ने आपणा दरजा मरातबा हाथसे क्यु छोडता. अब आपके लीषे माफीक कुंवरजीकु लीषा हे, ने षरीताकी साथ वीसकी नकल भेजताहुं, वीसे आप वाकीफ होंगे; अबभी जो आप मेहरवांनीसे माफ करे, तो आयंदे नोकर चाकरोपर ऐसी नीगाह चाहीये, जीमे श्री दरवारका डर दीलमे राष चाकरी मनसे बजावे, ओर बेअदबी, अदुलहुकमी करने पावे नही, आगे आप दाना हे. मीजाज मुबारककी षुसीके स्मांचार हमेसे लीषावसी सं० १८९९ (१) रा बेसाष बदी १० तारीष २४ अप्रैल स० १८४३ ईसवी.

(अंग्रेजीमें)

दस्तखत- टॉमस रॉबिन्सन, पो० ए०



(१) यह संवत् चैत्रादि हिसाबसे १९०० होता है.

ओर ओहवाल वकी(ल)
के कहणेसे जाहर हुवा,
जीसका मुफसील जवा-
ब वाके लीषेसे जाह-
र होसी.

इन बातोंसे महता रामसिंहका दिली खौफ दूर होगया, क्योंकि उसको पहिले यह धोखा था, कि अब्बल तो महाराणाही बड़े अक्लमन्द और होशयार रईस हैं, दूसरे वैसा ही अक्लमन्द सलूबर रावतका पुत्र केसरीसिंह उनका मुसाहिब हो, और ये दोनों रियासतका प्रबन्ध करनेपर तय्यार होजावें, तो मेरा कुछ भी इस्तिथार न रहेगा. इसी तरह रावत दूलहसिंहसे भी महाराणाकी निगाह खिचगई, जो एक तजर्बहकार मुसाहिब था; लेकिन महता रामसिंहको रावत दूलहसिंहकी तरफसे अन्देशह था, कि शायद वह महाराणासे फिर अपनी सफाई करलेवे; इसलिये उसने महाराणासे खानगी तौरपर अर्ज की, कि रावत दूलहसिंहने जो सर्दारोंकी छठूंद चाकरीका अमल दरामद करा देने के लिये इक्कार किया था, उसकी तामील अब कराना चाहिये. महाराणाने रामसिंहकी अर्जके मुवाफिक दूलहसिंहको कहा. इसपर दूलहसिंहने कुल सर्दारोंसे सलाह करके अपने इक्कारके मुवाफिक अमल दरामद कराना चाहा, लेकिन उसके मुखालिफ गोगूदाके कुंवर लालसिंहने, जो केसरीसिंहका दोस्त और होशयार शख्स था, कुल सर्दारोंको दूलहसिंहके बखिलाफ करदिया, और महाराणाके कानतक यह बात पहुंचाई, कि दूलहसिंह पोशीदह तौरपर सर्दारोंसे मिलकर सर्कारी प्रबन्धमें खलल डालता है; इस सबबसे महाराणा दूलहसिंहपर जियादह नाराज हुए, और हुक्म दिया, कि रावत पद्मसिंह व दूलहसिंह दोनों अपने ठिकानोंकी छठूंद चाकरीका इक्कारनामह सर्रि-इतहके मुवाफिक लिखकर उसके अनुसार तामील करें. तब दूलहसिंहने कहा, कि रावत पद्मसिंह तो मेरे कहनेमें नहीं हैं, और मुझ अकेलेको तामील करनेमें कुल मुल्क बदनाम करेगा, इसलिये हुजूर इस बातको कुछ अरसहके लिये मुल्तवी रक्खें, तो मैं आहिस्तह आहिस्तह इस मुअमलहमें कोशिश करूंगा. महाराणाने दूलहसिंहकी बातको बहानहबाजी समझकर उसपर जियादह दबाव डाला, और कहा, कि महाराणा जवानसिंह के वक्तमें जो तुमने अपने छोटे छोटे गांव बदलकर उनके एवज जियादह आमदनीके गांव लेलिये हैं, उन्हें छोड़कर अपने कदीम गांव लेलो. इसपर भी दूलहसिंहने बड़ी नमीके साथ अपने उज्र पेश किये, लेकिन वे मन्जूर न हुए, और उसका दर्बारमें आना जाना बन्द होकर वह अपनी हवेलीपर सर्कारी निगहबानीमें रहने लगा; निगहबानीके अलावह उसकी खबरके लिये जासूस भी मुक्कर करदिये गये थे. अगर्चि इसवक्त दूलहसिंहका इतना कुसूर न था, कि उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जाता; लेकिन आपसकी अदावतसे इतना तूल खिचा, कि उसको उदयपुरसे निकलकर अपने ठिकानेमें चलेजानेका हुक्म होगया. उसने अपनी जागीरको खानह होते समय महाराणासे केवल इतना ही अर्ज कराया, कि मेरी खैरख्वाहीका हाल हुजूरको कुछ अरसहके बाद मालूम होजावेगा;

और इसी कौलके मुवाफिक उसने अमल दरामद रक्खा, जिसका जिक्र आगे किया जायेगा. रावत दूलहसिंहपर महाराणाकी नाराजगी तो कुछ दिनों पहिलेसे ही थी, लेकिन इसवक्त और भी जियादह बढ़जानेके सबब रियासती मुआमलातसे उसका दरुल बिल्कुल उठगया, इसके बाद वह केवल नामके वास्ते अपने ठिकाने आसींदसे राजधानीमें आता जाता, और उदासीन हालतमें रहता था.

ऊपर बयान कीहुई दोनों पार्टियोंके टूटजानेसे महता रामसिंह बे खटके रियासत का काम करने लगा, और दिन ब दिन उसका पेच फैलने लगा. महाराणा इसवक्त अपना मल्लब निकालनेकी कोशिशमें लग रहे थे, याने वह मुल्क मेवाड़का तफ्सीलवार जमा खर्च देखकर बन्दोबस्त करना चाहते थे, इसलिये रामसिंहपर दिन ब दिन जियादह मिहर्बानी बढ़ाते रहे, यहांतक कि विक्रमी १९०० चैत्र कृष्ण २ [हि० १२६० ता० १६ सफ़र = ई० १८४४ ता० ६ मार्च] को उसकी हवेलीपर मिहमान हुए और उसे ताजीम व काकाजी (चचा) का खिताब दिया, जो मेवाड़के अगले प्रधानोंमेंसे किसीको नहीं मिला था. लेकिन रामसिंह बड़ा चालाक था, वह जबानी खैरखाही दिखलाने में तो किसी तरहकी कोताही नहीं करता, परन्तु जब महाराणा उससे रियासती जमा खर्चका हिसाब सुनना चाहते, उस वक्त यही अर्ज करता, कि इस कामके लिये हम गुलाम लोग पैदा हुए हैं, मैं यह मुनासिब नहीं समझता, कि हुजूर ऐसे कामोंमें तक्लीफ़ उठावें; खैरखाह नौकर वही है, जो अपने मालिकके ऐश व इश्रत और आराममें खलल न डाले, बल्कि उनकी खुशीके हुकमोंकी तामील करे. महाराणाने महता रामसिंहकी इन बातोंसे नाउम्मेद होकर महता शेरसिंहको बुलाया, जो वैकुण्ठवासी महाराणा के समयसे मेवाड़के बाहिर अपने दिन गुज़ारता था, जिसका जिक्र मुफ़स्सल तौरपर परलोकवासी महाराणा सर्दारसिंहके हालमें लिखा जाचुका है. यह बात महता रामसिंहको बहुत नागुवार गुजरी, लेकिन शेरसिंहकी पार्टीके बहुतसे लोग मौजूद थे, उन्होंने महाराणाके दिलमें उसकी जगह करदी, और महाराणाने उसे मेवाड़का जमा खर्च दिखलानेके लिये हुकम फ़र्माया. जोकि शेरसिंह पहिले प्रधाना करचुका था, और रियासती कामोंसे अच्छी तरह वाफ़ि़ था, उसने साफ़ दिल होकर महाराणाके हुकमको मन्ज़ूर किया, और कहने लगा, कि मेरा दादा अगरचन्द अपनी औलादको हमेशह यही नसीहत करता था, कि अपने मालिककी मर्जी और खैरखाहीके बख़िलाफ़ हर्गिज़ न चलना; उसी नसीहतके मुवाफ़िक़ उसकी औलादने आजतक अमल दरामद रक्खा है, जिसको हुजूर अच्छी तरह जानते हैं. इस

पर महाराणाने शेरसिंहकी बहुत कुछ खातिर की, और थोड़े अरसहतक वह रामसिंहसे

पोशीदह तौरपर हर रोज़ रातके वक्त बाड़ीमहलकी नालके रास्तहसे अकेला बुलाया गया; उस खैरखाहने इस अरसहमें मेवाड़का कुल तफ़्सीलवार जमाखर्च महाराणाको लिख दिया. अब महाराणाको रामसिंहसे दिन ब दिन नफ़्त होने लगी, लेकिन वह बड़ा रोबदार और मजबूत दिल अह्लकार था, उसने अपने घमंडमें किसीकी पर्वा न की, सिवा इसके रामसिंहके बेटे बरूतावरसिंहपर महाराणाकी पूरी मिहर्बानी होने के सबब वह और भी बे फ़िक्र रहा. आखरकार विक्रमी १९०१ प्रथम श्रावण कृष्ण ११ [हि० ता० २४ जमादियुस्सानी = ई० ता० ११ जुलाई] को महता रामसिंह अपने बालबच्चों सहित कैद कियागया, और महता स्वरूपचन्दको मोतियोंकी कण्ठी तथा खिल्अत और महता शेरसिंहको प्रधानेका काम सुपुर्द हुआ. इसके बाद विक्रमी आश्विन शुक्ल ९ [हि० ता० ७ शव्वाल = ई० ता० २० ऑक्टोबर] को दशहराके रोज़ महाराणाने महता शेरसिंहको प्रधानेका खिल्अत इनायत किया, और अपने काका (चचा) दलसिंह व कायस्थ प्राणनाथको साथ देकर उसे अपने मकानपर पहुंचाया. रामसिंहके बेटे बरूतावरसिंहपर महाराणाकी ज़ियादह मिहर्बानी थी, इसलिये उन्होंने मार्गशीर्ष शुक्ल १० [हि० ता० ८ जिल्हिज = ई० ता० १९ डिसेम्बर] के दिन उसको अपने पास बुलालिया. इस बातसे लोगोंके दिलोंमें यह खयाल पैदा हुआ, कि रामसिंहका पैर रियासतमेंसे उखड़ना मुश्किल है, इसलिये उसके निकालेजानेकी कोशिश शुरू हुई, और अखीरमें १००००००) दश लाख रुपये दण्डका रुक़ा लिखवाकर फाल्गुन कृष्ण १३ [हि० १२६१ ता० २६ सफ़र = ई० १८४५ ता० ६ मार्च] को महता रामसिंह महाराणा की खिल्अतमें सलामके लिये बुलाया गया. अगर्चि इसवक्त प्रधानेका काम शेरसिंह करता था, लेकिन दोनों पार्टिके लोग अपनी अपनी कोशिशमें पूरे तौरपर लगे हुए थे, कि इसी अरसहमें विक्रमी १९०३ माघ शुक्ल १४ [हि० १२६३ ता० १२ सफ़र = ई० १८४७ ता० ३० जैनुअरी] को पोलिटिकल एजेण्ट रॉबिन्सन साहिब उदयपुर में आये, और इन्हीं दिनों यह खबर उड़ी, कि बागौरके महाराज शेरसिंहके बड़े बेटे शार्दूलसिंहने गद्दी बैठनेके इरादहसे महाराणाको ज़हर देनेका विचार किया, जिसमें महता रामसिंह और पाणोरी गंगाराम वगैरह कई लोग शरीक बतलाये गये. यह खबर सुनते ही महता रामसिंह तो अपने मकानसे भागकर पोलिटिकल एजेण्टके कैम्पमें चला गया, और बाकी कई लोगोंको सज़ा दी गई, जिसका जिक्र आगे लिखा जायेगा. महता रामसिंह तो पोलिटिकल एजेण्टके साथ खुद ही राजधानीसे निकलकर चला गया था, जो कुछ दिनों शाहपुरामें ठहरनेके बाद नया शहर याने छावनी ब्यावरमें जारहा; और थोड़े ही अरसहके बाद उसके बालबच्चे भी उदयपुरसे निकाल दिये गये. कुछ समय पीछे रामसिंहको

वापस बुलानेकी कोशिश हुई थी, लेकिन उसी असहमें उसका इन्तिकाल होगया (१).

विक्रमी १९०० वैशाख कृष्ण ७ [हि० १२५९ ता० २० रबीउल्अव्वल = .ई० १८४३ ता० २१ एप्रिल] को महाराणा स्वरूपसिंहने परलोकवासी महाराणा जवानसिंहके बनवाये हुए जवानस्वरूपेश्वर महादेवके मन्दिर (२) की प्रतिष्ठा कराई. विक्रमी ज्येष्ठ कृष्ण ५ [हि० ता० १७ रबीउस्सानी = .ई० ता० १८ मई] को रीवाके महाराजा विश्वनाथसिंहकी तरफसे राज्यतिलकका दस्तूरी सामान आया, और नज़्र हुआ; विक्रमी आश्विन शुक्ल ३ [हि० ता० १ रमज़ान = .ई० ता० २६ सेप्टेम्बर] को जोधपुरके महाराजा मानसिंहके इन्तिकालकी ख़बर आनेके सबब मातमी दरबार (३) हुआ.

विक्रमी पौष शुक्ल ३ [हि० ता० २ जिल्हिज = .ई० ता० २४ डिसेम्बर] को महाराणा तीर्थयात्राके लिये मातृकुण्डकी तरफ़ पधारे, जो मेवाड़में राजधानी उदयपुरसे ईशान कोण को ४० मीलसे कुछ ज़ियादह दूर बनास नदीके तीरपर है. लोगोंका बयान है कि इस जगह परशुरामने अपनी माताका श्राद्ध किया था. इसी समय महाराणाने वहां एक महादेवका मन्दिर और एक घाट भी बनवाया. विक्रमी माघ कृष्ण १२ [हि० ता० २५ जिल्हिज = .ई० १८४४ ता० १६ जैनुअरी] को जयसलमेरके महारावल गजसिंहकी तरफ़से राज्यतिलकका दस्तूरी सामान आया, और नज़्र हुआ.

विक्रमी १९०१ आषाढ़ शुक्ल १० [हि० १२६० ता० ८ जमादियुस्सानी = .ई० ता० २५ जून] को महाराणाने नाथद्वारे पधारकर अपना चौथा विवाह घाणेशवके

(१) रामसिंहका एक बेटा ज़ालिमसिंह विक्रमी १९२१ [हि० १२८१ = .ई० १८६४] में महाराणा शम्भुसिंहकी खिन्नतमें हाज़िर हुआ, जिसके तीन बेटे अक्षयसिंह, केसरीसिंह और उग्रसिंह इसवक्त मेवाड़के जुदे जुदे जिलोंपर हाकिम हैं.

(२) यह मन्दिर राज्यमहलोंके बड़ीपौल दरवाज़हके बाहिर पूर्वी लाइनमें है.

(३) इस रियासतमें दस्तूर है, कि जब कोई रिश्तहदार अथवा क्षत्रिय राजा गुज़र जावे, तो पासबान लोग महाराणाको ख़बर सुनानेसे पहिले कानके मोती खोलनेके लिये अर्ज़ करते हैं, और बाद उसके कुल ज़ेवर उतारकर मृत्युके समाचार सुनाये जाते हैं. इसके पश्चात् महाराणा स्नान करते हैं, और नौबत नफ़ीरी वगैरह शादियाने बंद होकर कुल सदाँ उमरावोंको मातमी दरबारके लिये इत्तिला दीजाती है, और महाराणा सिफ़ेद पोशाक पहिनकर दरबारमें विराजते हैं, फिर बेदलाके राव वगैरह सम्बन्धी सदाँमेंसे कोई सदाँ महाराणाको कानके मोती व कुल ज़ेवर पीछा पहिनाकर शादियानह बजनेकी इजाज़त देने के लिये अर्ज़ करता है, और पानके बीड़े तक्सीम होकर दरबार बर्खास्त होजाता है.

मेड़तिया ठाकुर अजीतसिंहकी बेटी अभयकुंवर बाईसे किया. यह ठिकाना क़दीम ज़मानह से उदयपुरके उमरावोंमें था, लेकिन अब ज़िले गोड़वाड़के साथ रियासत जोधपुरके मातहत है, जिसका जिक्र महाराणा तीसरे अरिसिंहके हालमें लिखा गया है— (देखो पृष्ठ १५७२). इन महाराणाके तीन विवाह तो पहिले होचुके थे, जिनमेंसे पहिला विवाह ठिकाने बागौरपर गद्दी नशीन होनेके पेशतर सेंट्रल इण्डियामें राघवगढ़के राठौड़ गुमानसिंहकी बेटी गुलाबकुंवर-बाईके साथ, दूसरा विवाह युवराज नियत कियेजानेपर विक्रमी १८९८ मार्गशीर्ष कृष्ण १ [हि० १२५७ ता० १५ शव्वाल = ई० १८४१ ता० २९ नोवेम्बर] को चावड़ा ज़ालिमसिंह की बेटी फूलकुंवर बाईके साथ राजधानी उदयपुरमें, और तीसरा गद्दी विराजनेके बाद विक्रमी १९०१ माघ कृष्ण ४ [हि० १२६१ ता० १८ मुहर्रम = ई० १८४५ ता० २७ जैनुअरी] को बीसलपुरके भाटी साहिबसिंहकी बेटी चांदकुंवर बाईके साथ देलवाड़ाकी हवेलीमें हुआ.

विक्रमी १९०२ वैशाख कृष्ण ७ [हि० ता० २० रबीउस्सानी = ई० ता० २८ एप्रिल] को जयपुरके महाराजा रामसिंहकी तरफसे राज्यतिलकका दस्तूरी सामान आया, जो नियमानुसार पेश हुआ. विक्रमी कार्तिक शुक्ल ९ (अक्षय नवमी) [हि० ता० ७ जिल्काद = ई० ता० ८ नोवेम्बर] को महाराणाने श्री एकलिंगेश्वरकी पुरीमें पधारकर कुल सीसोदियों सहित मद्यपान त्यागन किया; क्योंकि इस वंशमें पहिले शराब पीनेका रवाज बिल्कुल नहीं था, बल्कि यहांतक मशहूर है, कि महाराणा राहपको किसी सख्त बीमारीकी हालतमें हकीमोंने धोखेसे दवाके साथ शराब पिलादिया था, महाराणाको आराम होनेपर भेद ज़ाहिर होगया, और उन्होंने पिघला हुआ सीसा पीकर शरीर त्यागन करदिया, तबसे उनकी औलाद सीसोदिया (१) कहलाने लगी; परन्तु इस बयानका कोई तहरीरी सुबूत नहीं है, और बयानमें भी बहुतसे इख्तिलाफ़ हैं, अल्बत्तह इसमें शक नहीं, कि सीसोदिया लोग क़दीम ज़मानहमें शराब नहीं पीते थे. इस नशने सिर्फ़ महाराणा दूसरे अमरसिंहके समयसे, जो विक्रमी १७५५ [हि० १११० = ई० १६९८] में मेवाड़की गद्दीपर बैठे, रवाज पाया, जिसको इन्होंने अपनी कुल मर्यादाके विरुद्ध तथा हानिकारक समझकर दोबारह अपने पुराने रवाजको मज़बूत करनेके लिये छोड़दिया, और एकलिंगेश्वरकी पुरीमें एक पाषाण लेख काइम कराकर सीसोदिया क्षत्रियोंको शराब पीनेकी मनादी करादी.

(१) सीसा एक धातु है, जिससे बंदूककी गोली बनाते हैं, और उद नाम पीनेका है, ये दोनों शब्द मिलकर सीसोद लक़ब हुआ, और उसी लफ़्ज़से सीसोदिया बना है; बाज़ लोगोंका कौल है, कि सीसोदा ग्रामके नामसे सीसोदिया कहलाये. इस शब्दका जिक्र पहिले भी पृष्ठ ६७३-७४ में होचुका है, परन्तु यहाँ मौक़ा देखकर दोबारह लिखा गया.

उक्त महाराणा यहांसे खानह होकर नाथद्वारा व कांकड़ोली होते हुए उदयपुर पधारे.

महाराणाको मुल्की इन्तिजामकी दुरुस्ती और रियासती कर्जह अदा करनेकी बहुत फ़िक्र थी, जिसमें महता शेरसिंह और सेठ ज़ोरावरमल्लने बड़ी तन्दिही और खैरख्वाहीके साथ महाराणाके हुक्मकी तामील की. विक्रमी १९०३ चैत्र शुक्ल १ [हि० १२६२ ता० २९ रबीउलअव्वल = .ई० १८४६ ता० २८ मार्च] को महाराणा सेठ ज़ोरावरमल्लकी हवेलीपर मिहमान हुए, जहां उक्त सेठने घोड़ा, हाथी, जेवर, पोशाक तथा दस हजार १००००) रुपया नक़द नज़ करनेके अलावह जो कुछ कर्जह रियासतकी तरफ़ अपना बाकी था उसका फ़ैसलह भी महाराणाकी मर्जीके मुवाफ़िक़ करदिया. महाराणाने खुश होकर सेठ ज़ोरावरमल्लको पुरानी जागीरके सिवा ग्राम कूंडाल, उसके बेटे चांदनमल्लको पालकी और उसके पोते गम्भीरमल्ल व इन्द्रमल्लको मोतियोंकी कंठी तथा सरोपाव .इनायत किये. इस फ़ैसलहको देखकर रियासतके कुल कर्जख्वाहोंने भी रज़ामन्दी और सुहूलियतके साथ फ़ैसले करलिये, और इन नेक खिद्यतोंसे महता शेरसिंह व सेठ ज़ोरावरमल्लकी खैरख्वाही बहुत कुछ प्रसिद्ध हुई.

जोकि महाराणाकी तबज़ुह रियासतके सुधारकी तरफ़ पूरी थी, और वह रफ़्तह रफ़्तह हरएक कामकी दुरुस्ती करते जाते थे, उन्होंने खज़ानहके प्रबन्धकी गरज़से रोकड़का भंडार (खज़ानह) कोठारी छगनलालके सुपुर्द किया; और एक सर्कारी दूकान इस गरज़से मुकर्रर की, कि उसमें साहूकारी तरीक़ेसे रुपयेका लेन देन कियाजावे. यह दूकान जो अब " रावली दूकान " के नामसे प्रसिद्ध और बहुत कुछ तरक्की पर है, लक्ष्मीदास गणेशदासके नामसे मशहूर कीजाकर कोठारी केसरीसिंहके सुपुर्द कीगई. कोठारी छगनलाल और केसरीसिंह दोनों भाई महाराणाके खानगी और मोतबर नौकरोंमेंसे थे. विक्रमी श्रावण कृष्ण ९ [हि० ता० २२ रजब = .ई० ता० १७ जुलाई] को महाराणा भीमसिंहके दामाद जयसलमेरके रावल गजसिंहके परलोकवासकी ख़बर आई, जिसके सुननेसे राज्यमें बहुत अफ़सोस हुआ, और दस्तूरके मुवाफ़िक़ महाराणाने मातमी दर्बार किया. विक्रमी कार्तिक शुक्ल १२ [हि० ता० १० ज़िल्काद = .ई० ता० ३१ ऑक्टोबर] को बड़ी महाराणी गुलाबकुंवर बाईने तुलसीका विवाह बड़े उत्साहके साथ किया, और सर्दार पासवानोंको ख़िल्अत तथा चारणोंको हाथी, घोड़े, और सरोपाव दियेगये. विक्रमी माघ शुक्ल १४ [हि० १२६३ ता० १२ सफ़र = .ई० १८४७ ता० ३० जैनुअरी] को पोलिटिकल एजेण्ट रॉबिन्सन साहिब नीमचकी छावनीसे उदयपुरमें आये, और १० दिनतक यहां ठहरे.

इन्हीं दिनोंमें एक बड़ा भारी उपद्रव खड़ा हुआ, याने बागौरके महाराज

शेरसिंहका बड़ा पुत्र शार्दूलसिंह, जिसकी निस्वत अक्वल तो शेरसिंहने महाराणासे अर्ज की, कि वह (शार्दूलसिंह) मेरी निगाहसे बाहिर और बदस्वाह लोगोंकी बहकावट सिखावटमें आकर बदचलन होरहा है, और दूसरी तरफसे यह मालूम हुआ, कि वह गद्दी बैठनेकी उम्मेदसे महाराणाको जहर देनेकी कोशिश कररहा है. इसपर महाराणाने शार्दूलसिंहको अपने पास बुलाकर धमकाया, और पूछा, मगर वह उसवक्त मारे खौफके कांपने लगा, तब उसको तसल्ली देकर साजिशमें शरीक रहने वाले शस्त्रोंके नाम दर्याफ्त किये. उसने महता रामसिंह व पाणेरी गंगाराम वगैरह कई आदमियोंके नाम लिखवादिये. यह खबर सुनते ही महता रामसिंहने तो भागकर शहरके बाहिर पोलिटिकल एजेण्टके डेरोंमें पनाह ली, और पाणेरी गंगाराम व कुंवर शार्दूलसिंह वगैरह लोग कैद कियेगये. महाराणाने रामसिंहको सौंप देनेके लिये पोलिटिकल एजेण्टसे बहुत कुछ कोशिश की, लेकिन वह महाराणाके सुपुर्द नहीं किया गया. पाणेरी गंगाराम मादड़ी ग्रामका रहने वाला ब्राह्मण था, महाराणाको जल, शराब और दवाई वगैरह पिलाने खिलानेका काम उसीके सुपुर्द था (१), और वह मुसाहिब भी था; महाराणाने उसके जिम्महका कुल कारखानह अपने खानगी नौकर तेजराम व उदयरामके सुपुर्द करदिया. विक्रमी १९०४ द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल ४ [हि० ता० २ रजब = .ई० ता० १६ जून] को बड़ीपौल दर्वाजहके बाहिर एक सुरह (पाषाण लेख) खड़ी करवाईगई, जिसमें यह मज़मून लिखवाया, कि कुंवर शार्दूलसिंह और उसकी औलाद राज्यके हकसे, और महता रामसिंह तथा उसकी औलाद रियासती कामसे हमेशहके लिये खारिज कियेजावें. विक्रमी आषाढ कृष्ण ५ [हि० ता० १९ रजब = .ई० ता० ३ जुलाई] को महता रामसिंहकी औरत, बेटे और कुटुम्बके लोग शहर तथा मुल्क मेवाड़से बाहिर निकलवाये जाकर उसका कुल माल अस्वाब व जायदाद ज़ब्त करली गई. विक्रमी आषाढ कृष्ण ८ [हि० ता० २१ रजब = .ई० ता० ५ जुलाई] को रावत दूलहसिंह महलोंमें बुलवाया गया, लेकिन वह कैद कियेजाने या मारडाले जानेके खौफसे न आया, क्योंकि महाराणा तो उसपर पेशतरसे ही नाराज़ थे, और उसके विरोधी फ़िर्केका इन दिनों जोरशोर था. तब


(१) इस रियासतमें पुराने ज़मानहसे यह दस्तूर था, कि जब कोई महाराणा गद्दी बैठते, तब ग्राम मादड़ीके कुल ब्राह्मण बुलायेजाकर उनमेंसे एक आदमीको महाराणा अपनी नौकरीके लिये खुद चुन लेते थे, और वही उनकी जिन्दगीतक इस कामपर मुक़रर रहता था, जब दूसरे महाराणा गद्दी-नशीन होते, तो फिर उसीतरह ग्रामके ब्राह्मणोंमेंसे कोई दूसरा आदमी चुनलिया जाता, लेकिन थोड़े अरसहसे यह तब्दीलीका रवाज दूर होगया है.

महाराणाने कायस्थ हरनाथ, ढाँकड़्या उदयराम, कायस्थ धीरजलाल, तथा ज्योतिषी विजयरामको उसके पास भेजकर कहलाया, कि तुम भी कुंवर शार्दूलसिंहकी सलाहमें शरीक होनेके सबब सजावार हो; इसपर उसने महाराणाकी खिन्नतमें बहुतसे उज्र पेश किये, लेकिन एक भी मन्जूर न हुआ, और विक्रमी आषाढ़ शुक्ल १२ [हि० ता० १२ शरब्बान = ई० ता० २५ जुलाई] को वह अपने कुटुम्ब सहित निकालाजाकर अपनी जागीरके गांव आसींदमें जा रहा. कहते हैं, कि दूलहसिंहपर महाराणाको जहर देनेकी साजिशमें शार्दूलसिंहके शामिल रहनेकी तुहमत अदावतके सबबसे लगाईगई थी.

अब हम यहांपर वह हाल लिखते हैं, कि जिसके सबबसे महाराणाने ठिकाने लावा (सर्दारगढ़) को फौजकशीके साथ रावत् चत्रसिंहशक्तावतसे छीनकर ठाकुर जोरावरसिंह डोडियाको दिया. महाराणा लाखाके जमानहसे डोडिया धवलकी औलाद वाले मेवाड़के महाराणाओंकी सेवामें बड़े खैरख्वाह और इज्जतदार नौकर बने रहे थे, जिसका जिक्र इस इतिहासमें कई मौकोंपर लिखा गया है, और उसी वंशमें डोडिया ठाकुर नवलसिंहके दो बेटे हटीसिंह और इन्द्रभाण थे, जिनमेंसे हटीसिंहकी जागीरमें कंबारियाका पट्टा रहा, और इन्द्रभाणके बेटे सर्दारसिंहको महाराणा दूसरे जगतसिंहने लावाका पट्टा देकर उसे अपना उमराव बनालिया था. सर्दारसिंहने विक्रमी १७९५ श्रावण शुक्ल १० [हि० ११५१ ता० ८ रबीउस्सानी = ई० १७३८ ता० २७ जुलाई] के दिन लावाके किलेकी नींव डाली, और विक्रमी १८०० [हि० ११५६ = ई० १७४३] में किला व महल वगैरह कुल इमारत २१०८७९९ ॥ -- ॥ रुपये लागतसे बनकर तय्यार हुई. इस अवसरपर सर्दारसिंहने महाराणाको किलेमें मिहमान किया, और उसी समय किलेका नाम सर्दारगढ़ रक्खा गया. सर्दारसिंहके बाद उसका बेटा सामन्तसिंह किले और जागीरका मालिक बना, लेकिन वह बिल्कुल कम अकल था, उसने एक तेलीको अपना मुसाहिब बनाकर अपने छोटे भाइयोंसे नाइतिफाकी पैदा की. इसी अरसहमें शिवगढ़के जागीरदार रावत् लालसिंहको कुरावड़के रावत् अर्जुनसिंह कृष्णावतने अपने बेटे जालिमसिंहके वैरमें मारडाला, जिसका हाल महाराणा दूसरे भीमसिंहके वृत्तान्तमें लिखा गया है— (देखो पृष्ठ १७१२-१३). लालसिंहका बेटा संग्रामसिंह इन दिनों आपसकी अदावतके सबब अपने बचावके लिये पनाहकी जगह ढूंढता फिरता था; उसने डोडिया सामन्तसिंहको, अपने ठिकानेके इन्तिजामसे गाफिल पाकर विक्रमी १८४० [हि० ११९७ = ई० १७८३] में किले सर्दारगढ़ (लावा) से निकाल दिया, और उसपर अपना कबजह जमालिया. सामन्तसिंह

तो ठिकाना वापस लेनेके लाइक न होनेके कारण उसी हालतमें मरगया, और उसके बेटे रौड़सिंहने भी तकलीफकी हालतमें अपनी उम्र पूरी की; लेकिन उसका बेटा जोरावरसिंह, जो सभाचतुर और अकलमन्द होनेके अलावह हिन्दी कवितासे भी वाकिफ था, महाराणा जवानसिंहकी खिन्नतमें हाजिर रहकर अपनी जागीर (सर्दारगढ़) वापस मिलनेकी कोशिश करने लगा, और उसके पूर्वजोंकी खिन्नतोंको याद करके महाराणा भी उसपर बहुत कुछ मिहर्बानी रखने लगे; इसी तरह दो पीढीतक लगातार कोशिश व मिहनत करते रहनेपर तीसरी पीढीमें महाराणा स्वरूपसिंहने गद्दी नशीन होकर उसे उसकी कदीम जागीर वापस दिलाई जानेका हुक्म फर्माया. लेकिन इसवक्त सर्दारगढ़पर शक्तावत रावत संग्रामसिंहके पुत्र जयसिंहका पोता, याने अभयसिंहका बेटा रावत चत्रसिंह काबिज था, इसलिये महाराणा चाहते थे, कि उसपर कोई कुसूर साबित करके उसे जागीरसे खारिज करें, कि इसी अरसहमें उदावतोंके खेड़ावाले राठौड़ मानसिंह उदावतको, जो पहिले बागी होगया था, रावत चत्रसिंहके काका सालिमसिंहने मारडाला. इसपर महाराणाने फर्माया, कि हमने देवगढ़के रावत नाहरसिंह की मारिफत खातिरदारीके साथ मानसिंहको अपने ग्राममें बिठादिया था, उसको सालिमसिंहने दगासे मारडाला, यह उसका बड़ा भारी कुसूर है; और इस कुसूरमें सालिमसिंहका ग्राम कुंड़ेई जब्त होकर सर्दारगढ़पर भी खालिसह भेजदिया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद रावत चत्रसिंहकी तरफसे महाराणाकी खिन्नतमें एक अर्जी बतौर इक्रारनामह पेश होनेपर, जिसकी नक़ नीचे दर्ज कीजाती है, सर्दारगढ़से खालिसह उठा लियागया:-

रावत चत्रसिंहकी अर्जीकी नक़



॥ श्रीरामजी.

॥ स्वसती श्री श्री श्री श्री १०८ श्री श्री श्री श्री अनदाताजी हजुर षानाजाद चाकर छोरु रावत चत्रसीघरी अरज मालम वे अप्रंच ॥ उदावत मानो दोडतो हो सो श्री हजुर देवगढ़ रावजीने षातरी रुको बगसेने रावजीरी षातरी वीने देवाअने पाछो षेडा महे बेसायो, जीने सगतावत सालमसीघ मार नाष्यो, जीप्र श्री हजुर बेराजी हुवा ने गाम कुंड़ेई षालसो कीदो, सो वाने पकडलावो, जीप्र नटेन अरज कराई न वाने पकड्या नही जीरी भोलप कीदी, जी तावे श्री हजुर बेराजी वेने लावे षालसो

मेल्यो, न पांच रुप्या तगसीरीका लीदा न श्री हजुर धयाप करे न प्रवस्ती करे न पाछी उठत्री करायने बगसी, सो अबे मु सालमसीघ ताबारी कदी अरज करु नही, मारो जोर पुगे जठे ठावो वे तथा मारा गाम म्हे पटा म्हे आवे जावे, तो पकडेन नजर कर-दुं, ओर सालमसीघने कठे ठावो वेन वाने श्री हजुर बंदोबसत करे जीरो मु वारे तावे अरज करु नही, करु तो तगसीरवार.

अगर्चि इस अर्जीके पेश होनेसे लावा (सर्दारगढ़) का खालिसह उठगया, लेकिन चत्रसिंहपर हमेशाह इसी बातका तकाजह होता रहा, कि सालिमसिंह तुम्हारे ठिकानेमें आता जाता है, उसे गिरिफ्तार करके हाजिर न करोगे, तो सरूत सजा पाओगे. रावत् चत्रसिंह भी किसीकद्र जुनूनी और कमअक़ था, वह कभी नम्रता और कभी हठधर्मीके साथ जवाब देता. आखरकार विक्रमी १९०४ [हि० १२६३ = .ई० १८४७] के शुरूमें उसपर जियादह दबाव डाला गया, लेकिन उसने कुछ पर्वान की. इन्हीं दिनोंमें एक रोज महाराणाने उसको सरूत होनेके वक्त बीड़ा (१) न दिया, जिसपर उसने महलोंके अन्दर रसोड़ेके महलमें डेरा करदिया, और अपनी हवेलीपर नहीं गया. महाराणाने नाराज होकर चन्द अफ़सरोंको सौ पचास सिपाहियों समेत लावाकी जब्तीके लिये भेजदिया. जब चत्रसिंहको यहसाफ़ मालूम होगया, कि मुझसे लावाका क़िला छीनलिया जायेगा, वह जल्द ही उदयपुरसे भागकर लावेको चला-गया. इसके बाद महाराणाने पैदल सिपाहियोंके दो तीन निशान साथ देकर पुरोहित शम्भुनाथको लावे भेजा, और उसने वहां पहुंचकर किलेके गिर्द पहरे बिठादिये. चत्रसिंहके काका हमीरसिंहने भी थोड़ासा अन्न तथा गोली बारूद एकट्टा करके किलेके दरवाजे बन्द करलिये. महाराणाने फिर फौज व जम्इयत भेजी, और पीछे से कुछ तोपखानहके साथ प्रधान महता शेरसिंहका पुत्र ज़ालिमसिंह हुकम पाकर वहां पहुंचा. विक्रमी आश्विन [हि० शव्वाल = .ई० ऑक्टोबर] के शुरूमें किलेकी दीवारपर गोलंदाजी शुरू हुई, और सुबह शाम बराबर फ़ाइर होते रहे, जिससे किलेकी पूर्वी दीवार दो दो तीन तीन हाथ ऊपरकी तरफ़से गिराकर कुछ हिस्सह किलेका तोड़ डाला गया, लेकिन उसके नीचेकी तरफ़ एक बहुत ऊंची और मज़बूत दीवार और खड़ी थी, इसलिये सिपाहियोंको किलेके अन्दर जानेका उम्दह रास्तह न मिला. पुरोहित शम्भुनाथने फौजी अफ़सरोंसे ताकीद करना शुरू किया, कि सीढ़ियें लगाकर एकदम हमलह करदिया जावे, और महाराणाकी खिन्नतमें एक अर्जी इस मज्मूनकी

(१) अब्बल दरजहके उमराव और बाज़ बाज़ दूसरे दरजहके सर्दारोंको भी सरूतके वक्त

महाराणा पानका बीड़ा हमेशाह देते हैं.

लिखभेजी, कि अफसर लोग हमलह नहीं करते. विक्रमी आश्विन शुक्ल ६ शुक्रवार [हि० ता० ५ जिल्काद = .ई० ता० १५ अक्टोबर] के दिन जालिमसिंहने कुल अफसरों व सर्दारोंको एकट्ठा करके उनसे यह राय ली, कि हमलह किया जावे या नहीं. इसपर सब लोगोंने मुतफिक राय होकर कहा, कि बाहिरके पड़कोटेकी फिरनी (फसील) ऊपरकी तरफ सिर्फ एकही जगहसे किसीकद्र गिरी है, और उससे आगे भीतरका किला बहुत ऊंचा है, इसलिये ऐसी हालतमें हमलह करना बिल्कुल बेफायदह, और सिपाहियों की जान मुफ्तमें खोना है. लेकिन उसवक्त पुरोहित शम्भुनाथ बोला, कि यह सिर्फ अफसरोंकी बहानहवाजी है, ये लोग अपनी नौकरीका खयाल न रखकर, जिसके लिये महाराणा उन्हें तन्ख्वाह देते हैं, अपना आराम और बचाव ढूढते हैं. इसी अरसहमें महाराणाका एक खास ताकीदी रुक्का इस गरजसे पहुंचा, कि किलेपर फौरन हमलह करदो. जालिमसिंहने वह हुक्म तमाम सर्दारों और अफसरोंको सुनाया, जिसपर सिपाहियोंने जोशमें आकर विक्रमी आश्विन शुक्ल ८ [हि० ता० ७ जिल्काद = .ई० ता० १७ अक्टोबर] को चार घड़ी रात बाकी रहे किलेकी दीवारपर सीढियां जा लगाईं. हमलह करनेवाले लोगोंका शोर व गुल सुनकर किलेके लोगोंने भी बन्दूकें चलाना शुरू किया, और बड़े भारी भारी पत्थर, जो किलेकी दीवारपर पहिलेसे जमा रक्खे थे गिराये, जिनसे दो तीन सीढियां टूटनेके अलावह कई आदमियोंका नुकसान हुआ, और कई बहादुर सिपाही दीवारपर चढ़कर मारे गये. इस दीवारके आगे एक दोहरी दीवार और भी थी, इसलिये बाज सिपाही काबू न पाकर पीछे कूद पड़े. अगर्चि इस मौकेपर फौजके लोगोंने बहादुरीमें किसी तरहकी कमी न की, लेकिन पुरोहित शम्भुनाथकी खामखयालीसे सिपाहियोंको लौटकर मोर्चोंपर आना पड़ा. इस बारेमें जालिमसिंहने अपने पिता महता शेरसिंहके नाम एक कागज़ लिखा था, जिसकी नक़ नीचे दर्ज है:-

जालिमसिंहके कागज़की नक़ल.

॥ श्रीरामजी.

॥ सीधश्री ऊदपुर सुभसुथाने सरब ओपमा अनेक ओपमा लाअेक भाडीजी स्हेब श्री ५ श्री सेरसीधजी अेतान लावाका डेराथी छोरु जालमसीध लीषावता मुजरो मालम होसी, अठाका स्माचार भला ह, आपका र्दा आरोग च्हेजे जु छोरुन

प्रमसुष हुवे रूदा सुनजर हे जुहीज रषावसी, डीलाका घणा जतन रषावसी, डीला पाछे सारो मुदो हे अप्रंच। आपको कागद आयो स्माचार बाच्या, अर काले श्री जीको रुको आयो जी म्ह हलाकी हदसुदी ताकीदी आडी, सो आ जगडो १ रात रीयो, हलो कीदो जीका स्माचार तो साडीवालरे हाते लप्योडीज हो, अर वोतो ठाम पगाडी लप्यो हो सो बीस पचीस आदमी अकलीग पलटणरा चड्या, सो वतरा तो चड्या न्ही अर पाच जणा चड्या अर नसरण्या २ टुट गडी अर अक नीसरणीरा गात्या नीसर गया, वलाअेती चड्यो सो नसरण्या पडगडी अर कल्याणसीघ सो चड्यो न्ही सो बाकी हलो चड्यो न्ही, सो अकलीग पलटणरो हवालदार मरजो गवरवेग तो म्ह जाऐने काम आयो अर म्ह जाअे तरवार बजाडी, अर बाकीरा आदमी पाछा कुदेन आया, ओर जमीत लोग फेरु आवे अर तोपा जबरी आवे सो सारी सारकर जलदी भेजसी अर अकलीग पलटण हाला हदसुदी मरदमी कीदी, पण नसरणी टुटगडी, जीरो तो हात काडी ओर दुसरा लोगा पण तन हद सुदी दीदो, जीकी अठारी अरज करवा तावे सवलालजीने भेजा हे, सो अे मालम करेगा अर ओर स्माचार सारा पाछाथी लषा हा. अठे मे गणा कुसी हा, ओर अकलीग-पलटणका जषमीना तावे केवे सो म्हारा सरसते परमाण मले जीदी तो लेवा, सो स्माचार पाछा लषसी सो काडी प्रम्ण देवावा; जगडो गतरस होअेगीओ, अर काम पेस पुगो न्ही जीरी म्हारे हद सुदी चंता लागरही हे, सो जीरी वदासीरा स्माचार कठा सुदी लषु, लषबाजु हे न्ही. कागद स्माचार लषबो करसी, छ० १९०४ आसोज सुद ८. ओर गोलो तोपरो मगायो सो पाछाथी भेजा हा, जषमी हुवा मुवा २० आस्त्रे.

भंडारी गोकुलचंदको मुजरो बाचसी रूदा सुनजर राषसी.

इस लड़ाईमें मारेजाने वाले तथा जख्मी होनेवाले आदमियोंका हाल, जो फौजमेंसे अजीटन शैख चांदने मेजर लालमुहम्मदके नाम लिखकर उदयपुर भेजा था, उस कागजके देखनेसे मालूम होता है, कि बारह तेरह आदमी तो हमलह करनेके वक्त ही जानसे मारेगये, और बहुतसे जख्मी होकर डेरोंमें लायेजानेके बाद मरे; जिन सब की संख्या ५० या ६० के करीब थी, और इतने ही आदमी घायल होकर बचे. यह खबर सुनकर महाराणाको बहुत गुस्सह आया, और उन्होंने कई सर्दारोंको मए उनकी जम्झयतों तथा पैदल सिपाहके, और मांडलगढ़से शम्भुवाण तोप तथा खैराड़के राज-पूतोंकी जम्झयत साथ देकर महता गोकुलचन्दको लावे भेजा; और किलेपर बड़ी तेजीके साथ गोलन्दाजी होने लगी. इसके बाद महाराणाने प्रधान महता शेरसिंहको यह हुकम देकर वहां भेजा, कि जिस तरह होसके किला काइम रखकर जागीरदारको

सजा देनेकी कोशिश कीजावे. उक्त प्रधानने बड़ी अक्लमन्दी और होश्यारीके साथ मोर्चे लगाकर किले वालोंको तंग किया, यहांतक, कि अखीरमें रावत चत्रसिंहने घबराकर अपनी इज्जत और जानकी पनाह मांगी; और यह दरखास्त कुबूल होनेपर उसने विक्रमी १९०४ मार्गशीर्ष कृष्ण १० [हि० १२६३ ता० २३ जिल्हिये = ई० १८४७ ता० १ डिसेम्बर] को पिछला चार घड़ी दिन रहे किला शेरसिंहके सुपुर्द करदिया, जिसका तफ्सीलवार हाल पाठकोंको महता शेरसिंहकी दो अर्जियोंसे, जिनकी नछें नीचे लिखीजाती हैं, मालूम होगा:-

महता शेरसिंहकी पहिली अर्जी.

॥ श्रीएकलीगजी. ॥ श्रीरामजी.

लालसीघ, गर-
धारीसीघ, देवी-
सीघ, समरत-
सीघ, गुलावसीघ,
रावत जवानसीघ
को धरती हात
लगाए मुजरो मा-
लम वे, चौडीसा
सवलालरो आस-
री वचन मालम वे.

॥ सीघ श्री श्री श्री श्री श्री १०८ श्री श्री श्री श्री प्रथीनाथ हजुर अरज पानाजाद कीदो मनष महेता सेरसीघको धरती हात लगाए मुजरो अरज मालम वे, श्री पावंद शीश्वर तुल है अप्रंची ॥ अठाको अहेवाल दीन प्रत लीप्यो, सो तो मालम हुवोडी वेगा, हुकम परमाणे रावत चत्रसीघजी कसुरकी अरज लीप दीदी और मगसर बुद् १० गुरे दन घड़ी ४ रेता श्री पावंदाका तेज प्रतापथी रावतजी वा हमेरसिंहजी ससत्र मैल अकलिंग पलटणरा जापता मेहै आअै गया, अर वगत तंग आयो जीसु वाका मनष, चाकर वा प्रदेसी हे ज्याने तो समाल सवेरे नीकाल्या जावेगा अर अकलिंग पलटणरा पेरा ६, भीम पलटणरा पेरा ४ लेन स्वलाल चौडीसाने अर लाला धीरजलालने मेल्या, सो सोवेदार पानमेमद अर पेरा २ ने तो दरवाजे मेल्या, तालो कुची सोवेदार वसु वेगया, अर पेरा ८ वारला डंडारी बुरजाप्र लगाए दीदा, नारबुरज १, गणैस बुरज १, जल-बुरज १, फतै बुरज १, दंडो तुटो जठाकी २ बुरजा प्र०, १ भेरु बुरज, १ नारबुरज नष, २ दुजी बुरज हे जठे डी प्रमाणे लगाया, अब अणाका मनषा वासते रथ काकडोली श्री जीदुवारा सु मगाया है जत्रे डेरो षडो कराए दीदो है, सो रावतजी अर वारा मनष सारा डी उठे रहेगा अर जापता

वासते एकलींग पलटण, भीम पलटणका पेरा रहेगा; ओर श्री षावंदा फरमाई छी सो गड पाड़ आवजे, सो गडने सुणता तो सुभक छा, प्रत गड तो श्री षावंदका चार ही हाथ माथै वे अर अड्डुड लषसमी लगावे अर हकबाद बड़ी अकलदारी सुं गड बंदावै जस्या है, एक डंडा ई मजबुत पका है अर घाटापर अर सीवाडा ऊपर है, जीकी अरज तो पेतावा मालुम करुगा, जठा पछे श्री षावंद हुकम करेगा जी माफक करवामै आवैगा, हाल तो अठे पाडवो तुल्यो हे न्ही, कारण अेक तौ साराके बचै हे, दुजो घाटो नजीक, जणीसु अणी जाऐगा तो षालसो अर माथारषौ प्रतीतको रहै जसी जायगा है, अर जी सवाऐ बुरज ऊड़ावा तौ हजार तो लागे अर लाषाको काम बीगडै; मेल जो अलोकीक है, अर जाऐगा जो हासलकी बदवारीकी हे, सो बी अरज पेतावा मालुम करुगा. अबे दन गणा गोलवो तुल्यो न्ही ज्यो गडने पाडवोई तुल्यो तो जीने श्री षावंद बीच्यार हुकम करेगा ज्योई पाडजावेगा, हाल तो २ नीसांण अफसरां सुदी अेक अमरगढकी भाएप जाजपुर का असवारामे कानावत बड़दसींघ, एक जमादार षाजबगसजीने अर ३० असवार मेल आण हाजर वुगा, और चीतोड़, जाजपुर, माड़लगढकी जमीत तोपने तो प्रभारी रवाने करुगा अर ऊदेपुरकी तोपा अर संभुवांण तोपने लेर पेतावा आऊ हुं, क्यो मगराको काम बी गतरस वेरयो है सो बणी वणाई फोज है अर छावणी देवारी बारणे राषवारी श्री षावंदा बीच्यारी है. और गोकलचंद जाजपुरका काम तावे जमीतकी लषी सो बी सीपदे आऊ हुं, षानाजादके तो पेतावाको आसरो है, सुदरशट फरमाअे षास रुको ईनाऐत फरमावे— सं० १९०४ मंगसर वीद १० गुरे रात आदी. श्री जी का तपसुं ईतावे साहेबसुं तो मुबंदी सो वादी अने तो मालमहे, पण ईकबाल धणीको; ओर कालुराम लषी सो अरज मालम हुई जे अर षानाजाद करीआयो सो दुवो बगस्योई हो, फेर छगनलालने दुवो होजाऐ.


शेरसिंहकी दूसरी अर्जी.

॥ श्रीएकलींगजी. ॥ श्रीरामजी.

॥ सीधश्री श्री श्री श्री श्री श्री १०८ श्री श्री श्री श्री प्रथीनाथ हजुर अरज षानाजाद कीदौ मनष मेहेता सेरसीधकौ ध्रती हातलगाअे मुजरौ अरज मालम वै, श्री

हजुर ईश्वर है अप्रंची ॥ श्री षावंदाको रुकौ ईनायत हुवौ, अदब बजायै माथै चडाअै लीदौ, हुकम आयौ वीवरावार जबाब आयां मालुम वेगा, सौ कत्रोक अठाको अहेवाल कचौ आगै ऊठै लीप्यौ सो मालुम हुवौई वैगा, और कालै नही लीषाणौ जीरी माफ वै, और अेवाल ओर कत्री ऊपजी है ज्या सला अठाकी वा षानाजादने ऊपजी ज्या तथा सवाडीसीघ, सामनाथने हुकम कीदौ जी देस काल की सला अठे ऊपजी सौ अरुबरु मालुम करणी है, सो पेटावा आयां मालुम करुंगा; और अठाकौ काम जो श्री षावंदाका हुकम प्रमाणै वेडी गया, और षानांजाद वासते लिषी सो प्रतीत कीजे मती, चड़ ऊतरकी सुरत राषजै, सौ श्री षावंदा कौ अकवाल अर सुनजर कौ प्रताप अस्यो है सौ सारी त्रे आनद है, अर मनष कबीला तावै हुकम लिप्यो सो हाल सीष देवौ तो तुल्यो नही सो लेराडी चलाया है, ओर आवध पाती साराडीका लेर बारीमें काड पाला पाला डेरामेहे आया, अर सवनाथने ई यां भेलो लेआया अर जनानाने अदबसुं रथमें वेठाअै मारो डेरो कनातवालो जीने षडो करायो जी मेहै लाया ओर वाकाडी चाकराकै माथे आवद पातीका भारा बंदायै मोकल्या है, सो लीयां आवैहे; ओर गडको सरंजाम, सलेपानौ भरमाअैल जाऐगा बदलै हुकम आयौ सो आछी बगत दैष सारा सरदारां सुदी गडमैहे जायै नसाणकी पुजा कराअै गडमै कायम कराऐ- दीदौ, पछे षानाजाद अर लालसीघजी, देवीसीघजी, गरधारीजी, समरतसीघजी, अजीठण सेष चांद, चौडीसो स्वलाल जाअै जनानी मरदानी जगारे ताला जड्या हा जठे तो जड्या राष्या और वाकी कत्रोक असवाव संदुक, पेडी, गांठ, ठामडा वारणै हा, सौ हो जठेडी जनानी जगामे है, कोटडीमे मीलाअैदीदा, कुच्या मारी लार पेरा हे जीमे सुपाडी है, अर ताला जडाअै कुच्यां अेकलीग भीम पलटणमें सुपाअैदीदी. दुजे दीन देवीसीघजीने, अजीठणनै वा स्वलालने मेल ताला कुचीप्र लपोटा छाप कराअै छाप कराअै दीदी है; हमेरसीघजीने तो गाडीमें वेठाया अर स्वनाथसीघने अर मोडाने जो पालो पेरामें रवाने करयो हे. ओर हुकम लीप्यो सलेषानो अणाने काडी मले नही, सो देवो मारे हात कठे हे, यो तो सारो श्री षा- वंदाको हुकम वेगा सो वेगा; और हुकम आयो भरमाअैल जगा वे सो षुदाअेनाषजै, सो या हाल तुली नही, अरज कीदा पछै हुकम वेगा सो करवाम्हे आवेगा. तेषाना, ओव- र्या गणी है अर फुटी टुटी जो जाअेगा गणी है, जीसु तुरतडी देषी जाऐ नही, अणीकी अरुबरु अरज कर वीच्यार ऊठाथी तुलेगा जीने मेलांगा, और बंदोवसत ताला कुची अर अेकलीग पलटण भीम पलटणरो जापतो पुरो करदीदो है, ओर मारवाडी प्रदेश्यां का हत्यार धराअे काड्या, दुजे दन पेरामें राष हत्यार दीदा दफेराका, अर हुकम प्रमाणै केदीदो है, सो कोडी हरामपोरी करे ज्यारे चाकर रहोगा तथा षेड्या आवोगा, तो अवरके तो जीवता काड्या है, आगासु आवावालो मार्यो जावेगा अर देससु बेऊतन साहेब

करेगा; ओर फोज अठेड़ी राषवाको हुकम आयो सो कत्रोक दादनीरो लोग (१) कीदो हो जीको तेह परच पडवो तुल्यो नही जीसु आगे अरज लीषी, जीसवाअै दोअै नसाण जमादार कल्याणसीघका फेर मेलदीदा है, श्री षावंद गणी कुसी राषै अठाका बंदोबसतमें कसर हे नही, ओर हुकम लिष्यो ऊठे फोज बणीरहे, जीमेह वांकी आंषमेहे बणी रहै सो च्यार नसाण, ५० अस्वार तथा जमादार षाजबगसजीनै अर कानावत बडदसीघ अमरगढकी भायैपको पुरी प्रतीतको अर षेटाकी जमीमें रेवा वालौ है जीने मेल्या है ओर षास दस-षता पानो अरजी लीषती बगत आण पुगौ, हुकम आओ बावडी तो बुराएदेणी, सो बावडी मेहे तो चीज बसत नाषदेवारो भरम आओ जीसु बुराई न्ही ओर षानाजादने पेटावा हाजर वेवाको हुकम आया, सो वीद १४ को चाल्यो पेटावा हाजर वेगा, ओर नकसो ऊतारवा पीदरु (२) ने मेलदीदो हे. षानाजाद तो आण हाजर वेतो, प्रंत हुकम को ईंतजार हो, ओर चीतोड, जाजपुर, माडलगडकी तोप जमीतने हुकम आया पेली खानह करदीदा हे, संबुवाण तोपने लेरा लीया आऊ हुं ओर रावतजीरे लेरा नसाण ३ सुंतो जमादार बालगोबीदने अर १ नसाण भीमपलटनको सोबादार जागीरषा, नसाण १ एकलीग पलटणको जीरो सोबेदार षानमेंमद, भेसरोडकी त्रफकी जमीत चड्या पालो १०० आदमी, बारगीराका जमादार बलवंतसीग असवार २० सु ओर सलेदारांका तथा सरदारांका हे सो थाणाका सरदाराका असवार तो षेमलीसुं जावेगा. षानाजादके तो फगत पेटावाको ई आधार हे, सुदरसट फरमाअे षास रुको ईनायेत होवे, सं० १९०४ मगस्र वीद १३ रवे तीजापोरा.



क़िला फ़तह करनेके बाद रावत चत्रसिंह और उसके काका हमीरसिंह वगैरहको साथ लेकर महता शेरसिंह उदयपुरमें हाज़िर हुआ, और महाराणाने उसको इस खिदमत के एवज़में खिल्अत वगैरह बख़्शनेके सिवा ताज़ीम और रुस्सतका बीड़ा इनायत करने का हुकम दिया, जिनमेंसे उसने सिर्फ़ बीड़ा कुबूल करके ताज़ीमके लिये यह अर्ज़ की, कि रियासत मेवाड़में इस वक़्तके केवल दो प्रधानोंको ताज़ीमकी इज़त मिली है, याने अब्बल विहारीदास कायस्थको, और दूसरे महता रामसिंहको, जिसका नतीजह यह हुआ, कि उक्त दोनों प्रधानोंका खातिमह बहुत ही जल्द होगया, इसलिये ताज़ीमकी

(१) दादनीके लोग वह थे, जिनको थोड़े दिनके वास्ते रोज़ानह वा ख़राक वगैरह पर कामके लिये नौकर रक्खा गया था.

(२) एक युरेशिअनका नाम है.

इज़त (१) ताबेदारके लिये मुआफ़ फ़र्माई जावे. महाराणाने उसके इस उज़्जको कुबूल किया. इसके बाद लड़ाईमें मारेजाने वाले सिपाहियोंकी विधवा औरतों तथा बालबच्चों की पर्वरिशका हुक्म होकर ज़ख्मी लोगोंको इन्आम इक्राम दिया गया, और रावत चत्रसिंहका कुल माल व अस्बाब सरकारमें ज़ब्त किया जाकर उसको गुज़ारेके लाइक पहाड़ी ज़िलेमेंसे मणू चन्द गांवोंके कोलारी ग्राम जागीरमें दिया, जिसकी औलाद इस वक्त उदयपुरमें मौजूद है; और डोडिया ठाकुर जोरावरसिंहने ६४ वर्षके बाद अपना मौरूसी ठिकाना वापस जागीरमें पाया, लेकिन क़िलेके बन्दोबस्तके लिये एक सरकारी निशान वहां रक्खा गया, और फौज खर्च व निशान खर्च वगैरहके एवज़ कुल ठिकाने पर खालिसहका बन्दोबस्त किया जाकर जोरावरसिंहको जागीरमेंसे सिर्फ़ उसके गुज़ारे के लाइक कुल बन्धान नियत करदिया गया. थोड़े अरसहतक यह प्रबन्ध रहनेके बाद विक्रमी १९१२ [हि० १२७१ = ई० १८५५] में महाराणाने खुश होकर दूसरे बन्दोबस्तके साथ लावा (सर्दारगढ़) का कुल इस्तियार जोरावरसिंहको इनायत करदिया, जिसका हाल नीचे दर्ज किये हुए कागज़ोंसे जाहिर होगा:—

जोरावरसिंहके खतकी नक़ल.

॥ श्रीएकलीगजी.

॥ श्रीरामजी.

॥ लीषता डोडिया जोरवारसीगजी मनोहरसीगजी राजथान लावे अप्रंच ॥ सेठ जी सुलतानमलजी, डीदरमलजीरा रु० ६२५००, अषरे साडाबासट हजार सके उदेपुरी जुना चलणरा उदारा लेर श्रीजीका बाकी नीसरता जी पेटे टीप देवाडी तीरो व्याज सेकडा १ प्रत रु० ॥१, पुण लेपे देणो जीरी तनषावम्हे गाम लावा षेडा सुदी

(१) इस रियासतमें वलीअह्दसे दूसरे दरजहपर प्रधानकी इज़त समझी जाती है, और बहुतसी इज़तकी बातें जो खास प्रधानके लिये हैं वे दूसरे सेवकोंको हासिल नहीं होतीं. जिसतरह नराजू (एक प्रकारकी सीधी तलवार) हाथमें और सोनेकी छड़ी जलेबमें रखना वगैरह, और प्रधान की कचहरीका हुक्म भी कुल सर्दार उमराव वगैरह मानते रहे हैं; लेकिन ताज़ीमकी इज़त वलीअह्दके मुवाफ़िक़ प्रधानको भी अपने फ़र्जन्दोंमें शुमार करके नहीं दी जाती.

मांड दीदो, सो यां गामारी पडी कोडी सुदा दाम दाम आवसी सो राजरी त्रफथी पोतदार
रैगा जी बसु जमां करावांगा. गामारी बीगत-

गाम लावो.	गाम कालेसरो.	गाम चतरपुरो.
गाम राजपुरो.	गाम कसनपुरो.	गाम बीरवास.
गाम डुगारो षेडो.	गाम अरण्यो.	गाम ओलणारो षेडो.
गाम गोपालपुरो	गाम अरसीपुरो.	
श्रीएकलीगजीरे भेट कीदो.		

ईप्रमाणे गाम तनषावम्हे लगाआ सो हासल, भोग, वीराड वगेरे सरव पडी कोडी
आवसी सो ई षत पेटे जमा वेगा, ई रुप्या ई रीत जमा वेगा अर पाछा षरचाएगा-

५००, श्री परमेशरारे गाम १ रा भेट करणा सो गाम गोपालपुरो भेट कीदो.

२२००, श्री जी में छटुंदरा दोडी साषरा भरणा.

४१६०, जोरावरसीघजीरे शेटी षरचरा ऊपाड़णा ३०००, तालकाई षरचरा ११६०.

८०००, बाकी रुप्या आठ हजार जमा करावेगा.

जमे रु० १४८६०, चवदा हजार आठसे साठ ई प्रमाणे भराएगा, और गुमासतो १ राज
रो जमो अवेरेवा ऊपरे रेगा जीरो रोजगारका रु० ३६०, तीनसे साठ आदमी सुदी
भरदीया जावेगा, अर बाकी बरसमे दीन असाठ सुदी १५ लेषोकर व्याज जुडे सो
अतो दे बदेगा सो मुल पेटे जमा वेगा, अर नवो षत मांडदीदो जावेगा; आठ हजारको
आंक आसरे हे सो ईमे मेनत कर बदतो जमो पुगावांगा, ईमेंसु कोडी १ परभारी षर-
चा न्ही, कोडी अस्योडी काम आअेपडे तो सेटजीराथी लेणो और पोतदारकी सलासु
पुन तगसीर वगेरे पाच रुप्या पेदा करे जमा करावणा, और लाटा कुंता वगेरे सरव
कामम्हे पोतदारने सामल राष करणो, प्रभारी कोडी बात करणी न्ही. यो षत म्हेताजी
श्री सेरसीगजीरी हवेली बेठा राजी कुसी थी मांडदीदो, सो कोडी बातरी कसर पाडां न्ही.
दसगत पंचोली ऊदेलालका डोड्या जोरावरसीगजी मनोरसीघजीरा केवासु लण्या, सं०
१९११ (१) का दुती असाठ सुद ९ रवे. दस्वास जोरजीरा हातरो छे.

(१) यह संवत् चैत्रादि हिसाबसे १९१२ होता है.

उठंत्रीकी नकल.

॥ श्रीएकलीगजी.

॥ श्रीरामजी.

॥ सीधश्री श्री दीवाणजी आदेसातु प्र० दुवे महेता सेरसीधजी बचनातु, इत्रा गामारा पटेल लोगा कस अप्रंची । इत्रा गाम प्रगणे वगेरेके रेष टका
ऊपत रु० १५०००), हाल ऊपत रु० १८०६०) म्हे डोड्या जोरावरसीग रोडसीगोत हे पटे मन्ना हुवा है, सो अमल करावजो. गामारी वीगत

गाम लावो प्रगणे कोसीथलरे षेडा सुदी

ऊपत रु० हाल ऊपत. रेष टका.
१३०००), १४८१०), २९६२०)

१०४६०) गाम लावो सरदारगढ ५२५) गाम कालेसरो

२००) गाम चत्रपुरो २५०) गाम राजपुरो

२७५) गाम कसनपुरो ८५०) गाम बीरवास

३७५) डुगारो षेडो ८००) अरण्यो

५७५) ओलणारो षेडो ५००) गाम गोपालपुरो

अरसीपुरो षेडो ऊजड
सो बस्यो

गाम जेतपुरो षेडा सुदी प्रगणे केलवारे

२०००), ३२५०), ६५००)

२९००) गाम जेतपुरो ३५०) षेडी आगल गामो

१५०००), १८०६०), ३६१२०).

रेष टका ३६१२०, की चाकरीरा असवार ७२, पाली बंदुका १०४, सो आधी चाकरीकी
अेवज तो चठुदरा रुपीआ ३०१०, श्री भंडार भरा जावेगा अर आधी चाकरी सदरुप

असवार ३६, पाली बंदुका ७२ थी हुकम प्रमाणे देस प्रदेश हुकम प्रमाणे आछा घोडा थी रजपुत पाली बंदुका थी सेवा करसी, सो अबार नवो कोलनामो हुवो जी सरसते चाकरी तो असवार १८, पाला बंदुका ३६ थी हुकम प्रमाणे देस प्रदेश करेगा, और चठुंद सो हाल पेदासथी रु० ३०१०, हुवा अर आगे रु० १२५०, देतो, जमे रु० ४२६०, हुवा जीकी वीचका रु० २१३०, अकवीसेह तीस भस्या जावेगा तागीर कालसाथी, प्रवानगी महेता सेरसीग लषतां पंचोली रधीराम राजारामोत बगसी सं० १९११ रा दुती असाड सुद ८.

इसके बाद विक्रमी १९१५ [हि० १२७५ = ई० १८५८] में ठाकुर जोरावर-सिंहका इन्तिकाल होगया, और उसका बेटा ठाकुर मनोहरसिंह सर्दारगढ़का जागीरदार बना. इसके वक्तमें भी ठिकानेपर दबाव डालागया, और तरकी हुई, जिसका हाल मौकेपर आगे लिखा जायेगा.

विक्रमी १९०४ पौष कृष्ण ८ [हि० १२६४ ता० २१ मुहर्रम = ई० १८४७ ता० ३० डिसेम्बर] को बागौरके महाराज शेरसिंहका कुंवर शार्दूलसिंह गुजरगया, जो महाराणाको जहर देनेकी तुहमतपर रसोड़ेके महलमें कैद था. विक्रमी १९०५ वैशाख शुक्ल १२ [हि० १२६४ ता० १० जमादियुस्सानी = ई० १८४८ ता० १४ मई] को जगत्शिरोमणि और जवानसूरजविहारी (१) के मन्दिरोंकी प्रतिष्ठा हुई. जगत्शिरोमणि का मन्दिर राज्यमहलोंके बड़ीपौल दर्वाजहके बाहिर पश्चिमी लाइनमें बहुत उम्दह तर्जका बना हुआ है. इस मन्दिरका मुफ़्फ़सल हाल उसकी प्रशस्तिको देखनेसे मालूम होगा— (देखो शेषसंग्रह प्रशस्ति नम्बर १). और जवानसूरजविहारीका मन्दिर जगन्नाथरायके मन्दिरसे उत्तर पश्चिम तथा महाराणा स्कूलके उत्तरमें बाके है. महाराणाने इन मन्दिरोंकी प्रतिष्ठाका बड़ा भारी उत्सव किया, जिसमें मज़हबी पेशवाओंको दान दक्षिणा देनेके सिवा चारणोंको हाथी, घोड़ा तथा खिल्अत, और सर्दार पासवानों आदिको सरोपाव बख़्शे. इसी उत्सवपर मेरे (कविराजा श्यामलदासके) पिताको श्रवणगज नामी एक हाथी मिला था.

विक्रमी भाद्रपद शुक्ल १३ [हि० ता० १२ शव्वाल = ई० ता० ११ सेप्टेम्बर] को महाराणाके घुटनेमें वादीका दर्द पैदा हुआ, जो उनके शरीरमें अखीर वक्ततक बढ़ता रहा. विक्रमी मार्गशीर्ष शुक्ल ५ [हि० १२६५ ता० ४ मुहर्रम = ई० ता० १ डिसेम्बर] को महाराणा उदयपुरसे रवाना होकर एकलिंगेश्वर, नाथद्वारा, कांकड़ोली, चारभुजा और आमेट होते हुए विक्रमी मार्गशीर्ष शुक्ल १२ [हि० ता० १० मुहर्रम

(१) यह मन्दिर इन दिनों “ बांकड़े विहारी ” के नामसे मशहूर है.

= .ई० ता० ७ डिसेम्बर] को सर्दारगढ़में पहुंचे, जहां किले व महलोंको देखकर बड़ी खुशी जाहिर की, और डोडिया ठाकुर जोरावरसिंहको ताजीम इनायत करके दूसरे दरजेका उमराव बनाया. ठाकुर सर्दारसिंहके बाद तीसरी पीढ़ीमें जोरावरसिंहके तरकी पाने और उसकी दोबारह इज्जत बढ़नेका शुरू जमानह इसीको समझना चाहिये.

सर्दारगढ़से रवानह होकर कोठारिया और नाहरमगरे होते हुए विक्रमी पौष कृष्ण ५ [हि० ता० १८ मुहर्म्म = ई० ता० १५ डिसेम्बर] को महाराणा उदयपुरमें दाखिल हुए; विक्रमी माघ शुक्ल १३ [हि० ता० ११ रबीउल्अव्वल = .ई० १८४९ ता० ५ फेब्रुअरी] को सलूंवरके रावत् पद्मसिंहकी सिहतपुरसीके लिये, जो उस-वक्त बहुत सख्त बीमार था, चंपावागमें गये, और विक्रमी माघ शुक्ल १५ [हि० ता० १३ रबीउल्अव्वल = ई० ता० ७ फेब्रुअरी] को उसके इन्तिकालकी खबर मालूम हुई. रावत् पद्मसिंहकी सख्त बीमारीका हाल सुनकर उसका बेटा केसरीसिंह उसी रातको कोटड़ेतक आया, और उसे सलूंवर लेगया, लेकिन कहते हैं, कि वह सलूंवर पहुंचनेसे पहिले ही रास्तेमें मरगया.

विक्रमी १९०६ आश्विन शुक्ल १४ [हि० ता० १३ जिल्काद = .ई० ता० १ ऑक्टोबर] को महाराणाके दाहिने घुटनेमें बादीका दर्द शुरू हुआ, और वह फैलकर पैरके तलवेतक जा पहुंचा. इसके इलाजके लिये देशी वैद्योंके सिवा अंग्रेजी डॉक्टरको भी बुलाकर दिखलाया गया, लेकिन जोकि महाराणाको अंग्रेजी डॉक्टरोंके इलाजपर जियादह एतिवार न था, इसलिये हिन्दुस्तानी वैद्योंका ही इलाज होता रहा, जिससे विक्रमी पौष कृष्ण ५ [हि० १२६६ ता० १८ मुहर्म्म = ई० ता० ४ डिसेम्बर] तक वह रोग बिल्कुल मिटगया. परन्तु विक्रमी १९०७ श्रावण शुक्ल ३ [हि० १२६६ ता० १ शव्वाल = ई० १८५० ता० १० ऑगस्ट] को फिर वही दर्द बढ़ा और घुटनेसे नीचे नीचे कुल पैरमें फैलगया. महाराणाका इरादह था, कि मेवाड़के पर्वणोंमें जो हाकिम प्रधानके इख्तियारसे भेजे जाते हैं, उनकी जगह अपने खास पासवानोंमेंसे एतिवारी नौकर भेजे जाया करें, और उन्हींकी मारिफत मालगुजारी बढ़ाईजाकर कुल आमदनी खजानहमें दाखिल हुआ करे; इसलिये उन्होंने पर्वणह कुंभलगढ़ व खैरवाड़ा कोठारी छगनलालके सुपुर्द करके उसके भाई कोठारी केसरीसिंहको विक्रमी श्रावण शुक्ल १३ [हि० ता० ११ शव्वाल = .ई० ता० २० ऑगस्ट] के दिन सर्कारी दूकानके अलावह टकशालका काम भी सौंपा, और साइरका ठेका तथा मेवाड़के चन्द पर्वणसेठ जोरावरमल्लके सुपुर्द रहे. लेकिन इन दिनों महाराणाको अव्वल सर्दारोंका बन्दोबस्त करना जरूर था, इस वजहसे वह आहिस्तह आहिस्तह मुल्की कामों व कारखानोंको दुरुस्त करते जाते थे.

सिवा इसके इसी अरसहमें बीलख वगैरह पालोंके भील सर्कश होगये थे, जिनको सजा देनेके लिये उन्होंने महता शेरसिंहके बेटे सवाईसिंहको पलटन, रिसालह और कुछ सर्दारोंकी जम्झयत साथ देकर उस तरफ भेजा. सवाईसिंहने इस मौकेपर बड़ी तन-दिही और बहादुरीके साथ भीलोंको सजा दी, कि जिसको वे लोग अबतक याद करते हैं. इसके बाद एक अरसहतक इन लोगोंने बद्रमआशी करना छोड़दिया.

अब हम यहांपर सर्दारोंका हाल आगेके लिये छोड़कर महाराणाके दौरे और उनकी दोनों बहिनोंके विवाहका हाल लिखते हैं, जो इस तरहपर है, कि महाराणाका मन्शा कुल मुल्कको अपनी निगाहसे देखकर उम्दह इन्तिजाम करनेका था, इसलिये वह विक्रमी पौष शुक्ल ३ [हि० १२६७ ता० २ रबीउल्अव्वल = ई० १८५१ ता० ५ जैनुअरी] को मए जनानी सवारीके एकलिंगेश्वर, नाहरमगरा, सनवाड़, मातकुण्ड, रासमी, सेंटूरिया, गाडरमाला, मगरोप, और बरसल्यावासमें होतेहुए विक्रमी पौष शुक्ल १२ [हि० ता० ११ रबीउल्अव्वल = ई० ता० १४ जैनुअरी] को मांडलगढ़ पहुंचे; इसवक्त फौज वगैरह कुल लश्करकी तादाद करीब १०००० आदमियोंके थी. मांडलगढ़ पहुंचकर दूसरे रोज वहांका किला देखनेको महाराणा गढ़पर पधारे, जहां किलेदार और हाकिम महता स्वरूपचन्दने उनकी बहुत उम्दह तौरपर मिहमानदारी की. यह शरूस (स्वरूपचन्द) महता अग्रचन्दका पोता और देवीचन्दका बेटा था, कि जिसकी खैरखाहीसे मरहटोंकी लूट मारमें मांडलगढ़का किला और जिला महाराणाके तहतमें बनारहा, क्योंकि उसवक्त कई मुखालिफोंने इस किलेको दबालेनेकी कोशिश की थी. विक्रमी माघ कृष्ण २ [हि० ता० १६ रबीउल्अव्वल = ई० ता० १९ जैनुअरी] के दिन स्वरूपचन्दने महाराणाको फौज सहित दावत दी, उस समय महाराणाने प्रसन्न होकर स्वरूपचन्दको फर्माया, कि तुम्हारा घराना महता अग्रचन्दसे लेकर आजतक इस राज्यका खैरखाह रहा है, इसलिये मैं तुमसे बहुत खुश हूं. इसवक्त मेरे (कविराजा श्यामलदासके) पिताने मारवाड़ी भाषामें कुछ पद्य और कविता भी कही थी, जिसमेंसे एक दोहा नीचे लिखाजाता है:—

दोहा.

समत सात उगणीससे दीह महाबद दोज ॥

पावन कियो सरूपचंद नृप सरूप कन भोज ॥ १ ॥

इसके बाद महता स्वरूपचन्द और उसके बेटे गोकुलचन्दको खिल्अत वगैरह देकर विक्रमी माघ कृष्ण ३ [हि० ता० १७ रबीउल्अव्वल = ई० ता० २० जैनुअरी] को महाराणाने मांडलगढ़से कूच किया, और वहांसे पारसोली व बसी होकर विक्रमी

माघ कृष्ण ५ [हि० ता० १९ रबीउल्अव्वल = ई० ता० २२ जैन्युअरी] को चित्तौड़गढ़ की तलहटीके डेरोंमें दाखिल हुए, जहां विक्रमी माघ कृष्ण ८ [हि० ता० २१ रबीउल्अव्वल = ई० ता० २४ जैन्युअरी] को किला देखनेके लिये गढ़पर गये, उसवक्त इस किलेकी किलेदारी और जिलेकी हाकमी प्रधान महता शेरसिंहके अधिकारमें थी, इसलिये उसकी तरफसे दावत हुई. महाराणाने किलेको अच्छी तरह चारों ओर फिरकर देखनेके बाद शामके वक्त वापस डेरोंमें आकर वहांसे कूच किया, और ग्राम हत्याणा, ताणा तथा करणपुर होते हुए विक्रमी माघ कृष्ण १२ [हि० ता० २५ रबीउल्अव्वल = ई० ता० २८ जैन्युअरी] को राजधानी उदयपुरमें दाखिल हुए. इस दौरेमें जो जो गांव रास्तेमें जागीरदारोंके आये, उनकी तरफसे महाराणाकी बहुत उम्दह तौरपर मिहमानदारी कीजानेके सिवा घोड़े वगैरह चीजें भी नज़र हुई; मगर इसवक्त कोई खास मुल्की फायदहकी सूरत पैदा न हुई, क्योंकि हजारों आदमियोंकी भीड़ भाड़ साथ रहने और पुराने रवाजकी पाबन्दीके सबब मुल्की इन्तिजाम करने और जिलोंको अच्छी तरहसे देखनेकी फुर्सत महाराणाको बहुत कम मिलती थी. इसी अरसहमें कोटाके महाराव रामसिंह नाथद्वारेके दर्शनोंको आये, जिनका खास मन्शा उदयपुरमें शादी करनेका था. आखरकार इस मुआमलहकी बातचीत होकर उक्त महारावसे नीचे लिखी चार शर्तें कुबूल कराई गईं और शादी मन्जूर हुई :-

अव्वल यह, कि उदयपुरकी बाईसे जो कुंवर पैदा हो, वह छोटा होनेकी हालतमें भी राज्यका हकदार रहे.

दूसरे, उदयपुरकी बाईका दरजह सब राणियोंसे बढ़कर रहे.

तीसरे, उदयपुरकी बाईको ५००००) रुपये सालानह आमदनीकी जागीर अलहदह मिले.

चौथे, उदयपुरकी बाईकी ड्योड़ी या नौहरेमें कोई मुज्जिम पनाह लेवे, तो वह सजासे बचाया जावे.

महाराव रामसिंहकी कुबूलकी हुई इन चारों शर्तोंको महाराणाने एजेण्ट गवर्नर-जेनरल राजपूतानहके पास मन्जूरीके लिये भेजा, लेकिन उक्त साहिबने अव्वल शर्तके सिवा बाकी शर्तोंको मन्जूर करके कहा, कि यही अव्वल शर्त महाराणा दूसरे अमरसिंह और दूसरे जगत्सिंहके जमानहमें करार पाई थी, जो राजपूतानहमें आपसकी नाइत्तिफाकी और फसादकी बुन्याद डालने वाली हुई, और जिससे मरहटोंने राजपूतानहमें दाखिल होकर इस मुल्कको कियामतका नमूनह बनादिया, इसलिये गवर्मेण्ट अंग्रेजी अब ऐसी फसादकी बुन्याद काइम करना नहीं चाहती. परन्तु महाराव रामसिंहने अपनी उन्नतिकी

गर्जसे चारों शर्तें लिखदीं (१), और अखीरमें यह शादी महता शेरसिंह व पुरोहित श्यामनाथकी मारिफत करार पाई, जिसके एवज महाराव रामसिंहने उक्त दोनों मुसा-हिबोंको दो ग्राम जागीरमें दिये. विक्रमी फाल्गुन शुक्ल ६ [हि० ता० ५ जमादियुल्अव्वल = .ई० ता० ९ मार्च] को महाराव रामसिंह उदयपुरमें आये, महाराणाके काका बागौरके महाराज शेरसिंह तथा शिवरतीके महाराज काका दलसिंह पेशवाई करके उन्हें डेरोंमें लाये, और उसी दिन उनका विवाह महाराणाकी बहिन फूलकुंवरबाईके साथ बड़ी धूमधामसे हुआ. कोटाके महारावोंमेंसे महाराव दुर्जनशालके बाद दूसरी बार इन महारावने उदयपुर की राजकुमारीके साथ विवाह किया, इसलिये उन्होंने अपनी इच्छा पूरी होनेपर महाराणाको बहुत कुछ धन्यवाद दिया, और बड़ी नमीके साथ यह कहा, कि “ हमारी रियासतकी इज्जत बढ़ाने वाले अव्वल तो गोवर्द्धननाथ और दूसरे मेवाड़के महाराणा हैं”.

विक्रमी फाल्गुन शुक्ल १४ [हि० ता० १२ जमादियुल्अव्वल = .ई० ता० १६ मार्च] की शामको महाराव रामसिंह राजधानी उदयपुरसे रवाना होकर सहे-लियोंकी बाड़ीमें ठहरे, और वहांसे चलकर नाथद्वारा होतेहुए कोटे पहुंचे. इसी तरह विक्रमी १९०८ वैशाख कृष्ण १२ [हि० ता० २५ जमादियुस्सानी = .ई० ता० २८ एप्रिल] को महाराणाकी छोटी बहिन सौभाग्यकुंवरबाईका विवाह रीवांके महाराजकुमार रघुराजसिंहके साथ हुआ. इस सम्बन्धमें महाराज विश्वनाथसिंहने भी वही चार शर्तें, जो कोटाके महारावने मन्जूर की थीं, रीवांसे लिख भेजीं. जब कुंवर रघुराजसिंह विवाह करनेके लिये उदयपुरमें आये, तो महाराज शेरसिंह और महाराज दलसिंह पेशवाई करके उन्हें डेरोंपर लाये, और रातके वक्त विवाहकी रस्में अदा हुईं. इन दोनों शादियोंमें मैं (कविराजा श्यामलदास) भी मौजूद था. विवाहके दस्तूर अदा होने के वक्त राजपूतानहकी बाज बाज रस्मोंपर रीवां वाले बड़ा तञ्जुब जाहिर करते थे, और रीवां वालोंकी चाल ढाल तथा पहराव देखकर मेवाड़ वाले हंसते थे, जैसा कि सगे सम्बन्धियोंमें परस्पर प्रेम और आनन्दके साथ परिहास होता है. महाराणाने कोटाकी बरातसे बढ़कर रीवां वालोंका आतिथ्य किया, और महाराजकुमार तथा उनके सर्दारोंने भी महाराणाको अपना इष्टदेव मानकर बर्ता, इस तरहपर आपसमें जियादह मुहब्बत बढ़-जानेके सबब महाराणाने उनको अपना परम सम्बन्धी जानकर द्विर्भाव बिल्कुल उठा-दिया. विक्रमी वैशाख शुक्ल १३ [हि० ता० ११ रजब = .ई० ता० १३ मई] को

(१) महाराणा स्वरूपसिंहने भी जमानह देखकर पहिली शर्त मुआफ़ करदी.

जब महाराजकुमार रघुराजसिंह एकलिंगजी, श्री नाथजी तथा कांकड़ोलीके दर्शन करके उदयपुरमें वापस आये, उसवक्त महाराणाने खुद उनकी पेशवाई की. इसके बाद रीवांके महाराजकुमारने अपनी बहिनके साथ शादी करनेके लिये महाराणासे अर्ज कराई, लेकिन यहांसे लैतलालका जवाब मिला, इसपर उक्त राजकुमारने बहुत कुछ हुजत के साथ दोबारह अर्ज कराई, परन्तु महाराणा इतना दूर दराज सफ़र करके शादी करना नहीं चाहते थे, इसलिये रीवां वालोंकी वह उम्मेद पूरी न होसकी, और महाराजकुमार रघुराजसिंह रंजीदह दिल होकर विक्रमी ज्येष्ठ शुक्ल २ [हि० ता० ३० रजब = .ई० ता० १ जून] को उदयपुरकी राजकुमारी सहित रीवांको खानह हुए, अगर्चि उक्त महाराजकुमार उदयपुरसे खानह होजानेपर भी महाराणाकी शादी अपनी बहिनके साथ कीजानेकी कोशिश करनेके लिये अपने चन्द मोतमदोंको उदयपुरमें छोड़गये, लेकिन उन लोगोंको भी साफ़ इन्कारी जवाब मिलगया, तब वह अपनी बहिनकी मंगनी जयपुरके महाराजा रामसिंहके साथ पुरतह करगये.

विक्रमी श्रावण [हि० रमजान = .ई० जुलाई] याने राजकीय संवत् १९०८ के शुरूमें कोठारी केसरीसिंह साइरके कामपर मुक़र्रर किया गया, जो पहिले सेठ जोरावरमल्लके ठेकेमें था; उक्त कोठारीने इस कामका इन्तिजाम बड़ी खैरख्वाहीके साथ किया.

विक्रमी कार्तिक कृष्ण ९ [हि० ता० २३ जिल्हज = .ई० ता० १९ अक्टोवर] को यह ख़बर मालूम हुई, कि सलूवर व देवगढ़ वगैरहके जागीरदारोंने अपनी जागीरके गांवोंमेंसे राजकी जब्ती उठादी, जिसका जिक्र सिल्सिलेवार आगे लिखा जायेगा. विक्रमी कार्तिक शुक्ल ११ [हि० १२६८ ता० ९ मुहर्रम = .ई० ता० ४ नोवेम्बर] को नीमचकी छावनीसे पोलिटिकल एजेण्ट ज्यॉर्ज लॉरेन्स आये, जिनको सर्दारोंकी सर्कशीका हाल कहा गया, लेकिन उन्होंने महाराणाको यह जवाब दिया, कि आप मुल्कके मालिक हैं, अपने इख्तियारसे जैसा मुनासिब समझें बन्दोबस्त करें, हम खानगी तक्रारमें दस्तन्दाजी नहीं करसक्ते. यह कहकर पोलिटिकल एजेण्ट तो वापस चलेगये, और विक्रमी फाल्गुन कृष्ण ६ [हि० ता० २० रबीउरसानी = .ई० १८५२ ता० ११ फेब्रुअरी] को राजपूतानहके एजेण्ट गवर्नर जेनरल सर हेन्री लॉरेन्स उदयपुरमें आये, उनसे भी सर्दारोंकी सर्कशीके बारेमें बातचीत हुई, परन्तु वह भी पोलिटिकल एजेण्टके मुवाफ़िक़ जवाब देकर चलेगये. अगर्चि महाराणा अपने मुल्कका इन्तिजाम करना चाहते थे, लेकिन पैरोंकी बीमारी और सर्दारोंकी सर्कशीमें दिन बदिन तरकी होनेके सबब एक काम

दुरुस्त होने पाता, कि दूसरेकी फ़िक्र पड़जाती थी, और जिस्मानी हिफ़ाज़तके लिये भी तद्दीर करना अवश्य था. विक्रमी १९०९ वैशाख कृष्ण ८ [हि० ता० २१ जमादियुस्सानी = .ई० ता० १२ एप्रिल] को प्रधान महता शेरसिंहने महाराणा को अपने मकानपर मिह्मान करके कुल रियासती लोगों सहित एक बड़ी दावत दी, और १००००) रुपया नक़द नज़ किया. इस मौकेपर महाराणाने महता शेरसिंह और उसके बेटोंको ख़िल्अत देकर वही १००००) रुपया वापस इनायत किया.

अब हम यहां किले आर्ज्यापर फौजकशी कीजानेका हाल लिखते हैं, जो इस तरह पर है, कि महाराणा प्रतापसिंह अब्बलके छोटे पुत्र पूर्णमल्ल (पूरा) का बेटा नाथसिंह था, उसके बेटोंमेंसे महेशदास तो मगरोपका मालिक बना, और छोटे मुहकमसिंह को आर्ज्या जागीरमें मिला. मुहकमसिंहके पुत्र बख्तसिंहने आर्ज्यामें किला बनाया, उसके तीन बेटों रणसिंह, अमरसिंह और अचलसिंहमेंसे रणसिंहके पांच बेटे १- प्रतापसिंह, २- पद्मसिंह, ३- मुहकमसिंह, ४- रूपसिंह, और ५- नवलसिंह हुए. बड़े प्रतापसिंहको उसके भाइयोंने मारडाला और आर्ज्यापर रणसिंहके दूसरे बेटे पद्मसिंहका क़बज़ह होगया. विक्रमी १८६५ [हि० १२२३ = .ई० १८०८] में पानसलके शक्तावतोंने बालेरावकी फौजकी मददसे आर्ज्याका किला छीन लिया. फिर प्रतापसिंह रणसिंहोतके दो बेटे, बड़ा उम्मेदसिंह और दूसरा अनोपसिंह, आर्ज्या लेनेकी फ़िक्रमें दौड़ते रहे, जिनमेंसे अनोपसिंह तो (जो महाराणाकी फौजमें था) किले हमीरगढ़ पर हमलह करते समय मारागया, और उम्मेदसिंहकी औलाद आर्ज्याकी भोमपर काबिज़ रही, जो आर्ज्या उनके क़बज़हसे निकल जानेके बाद उम्मेदसिंहके बेटे खुमाणसिंहको अंग्रेज़ी अमलदारीके शुरू ज़मानहमें आर्ज्याके किले सहित दीगई, और गांव आर्ज्या शक्तावतोंसे छीन लिया गया. खुमाणसिंहके बाद उसका बेटा चन्दनसिंह आर्ज्याकी भोमपर काबिज़ रहा. विक्रमी १८९१ [हि० १२५० = .ई० १८३४] में महाराणा जवानसिंहने यह गांव (आर्ज्या) अपने मामू चावड़ा कुबेरसिंह और ज़ालिमसिंहको जागीरमें लिखदिया, जिनका हाल इसतरहपर है, कि वसोड़ा इलाक़ह गुजरातके चावड़ा जगत्सिंहकी बेटी गुलाबकुंवरबाई महाराणा भीमसिंहको उदयपुरमें व्याही गई थी, जिससे महाराणा जवानसिंह और कृष्णकुंवरबाई पैदा हुई. जगत्सिंहका बड़ा बेटा कुबेरसिंह और छोटा ज़ालिमसिंह था, जिनमेंसे कुबेरसिंहके बड़े बेटे फ़तहसिंहका बेटा प्रतापसिंह मौजूद है; ज़ालिमसिंहके एक बेटा कुशलसिंह और दो बेटियां हुई, उनमेंसे एककी शादी विक्रमी १८९८ [हि० १२५७ = .ई० १८४१] में महाराणा स्वरूपसिंहके साथ और दूसरीकी महाराज दलसिंहके पुत्र गजसिंहके साथ हुई.

कुशलसिंहके एक पुत्र अभयसिंह पैदा हुआ, जो हालमें मौजूद है, और एक बेटी, जो वर्तमान महाराणा साहिबकी महाराणी हैं. चावड़ा कुबेरसिंह और जालिमसिंह जबसे गुजरात छोड़कर आये, तबसे कुटुम्ब सहित उदयपुरमें ही रहते थे, और आज्याके किलेमें उन्होंने अपनी तरफसे बेचर नामी एक नौकरको मुस्तार बना रक्खा था, उसने अपनी कमअङ्गीसे पूरावत चन्दनसिंहको हरएक बातमें तंग किया; चन्दनसिंह भी अपने उसी मौरूसी किलेमें रहता था, उसने तंग आकर बगावतका इरादह किया, और चन्द कमअङ्क आदमियोंने उसे यह सलाह दी, कि कई उमरावोंने अपनी जागीरसे सर्कारी खालिसहके आदमियोंको निकालदिया है, तुमको भी अपनी मौरूसी जायदादपर कबजह करलेना चाहिये, इसवक्त सर्दारोंका बखेड़ा है, इसलिये चावड़ोंकी मददपर महाराणा ऐसी हालतमें फौज नहीं भेजेंगे. उसने लोगोंके बहकानेमें आकर बेचरको किलेमें कैद करदिया, और चावड़ोंके दो चार आदमी, जो बाकी रहे, भाग गये. इसके बाद चन्दनसिंह, औनाड़सिंह, और नवलसिंहने खुमाणसिंह शैखावत वगैरह पांच दस आदमी एकट्टे करके अन्न, तम्बाकू, तेल, घृत, गुड़ वगैरह सामान, जो कुछ उनके हाथ लगा, रिआयासे लूट खोसकर किलेमें जमा करलिया. विक्रमी १९०९ आश्विन शुक्ल ५ [हि० १२६९ ता० ३ मुहर्रम = .ई० १८५२ ता० १७ अक्टोबर] को चावड़ा जालिमसिंहने महाराणाको यह कुल हाल अर्ज किया, जिसे सुनकर वह बहुत ही नाराज हुए; लेकिन उन्होंने पोलिटिकल डंगसे चन्दनसिंहके नाम एक कागज़ महाराज चन्दसिंहका देकर मुख्बरीके तौरपर हर्कारह राधाकृष्णको भेजा, वह आश्विन शुक्ल १३ [हि० ता० ११ मुहर्रम = .ई० ता० २५ अक्टोबर] को आज्ये पहुंचा, और बड़ी कोशिश करनेपर किलेके नज्दीक जाने पाया, परन्तु हर्कारेके साथ चीमा, करावल, वगैरह जो दो तीन आदमी थे उनको गांवमें नहीं आने दिया, सिर्फ हर्कारेसे नवलसिंहने किलेके बाहिर आकर बातचीत की. उसने कहा, कि हमको किसीका एतिवार नहीं है, और न महाराज चन्दसिंहके कागज़पर भरोसा है, लेकिन श्री दर्बार हमारे मा बाप हैं, यदि उनका पर्वानह चन्दनसिंहके नाम आजावे, तो हम उसीवक्त उदयपुर हाज़िर होजावेंगे. हर्कारेने भीलवाड़ेमें आकर यह खबर उदयपुर लिखभेजी. इसपर महाराणाने सियाणाके पुंवार देवीसिंह, पहूनाके राणावत देवीसिंह, भूणावासके बाबा बाघसिंह और मगरोपके बाबा गिरवरसिंह वगैरह चन्द सर्दारोंको यह हुकम लिख भेजा, कि तुम अपनी अपनी जम्इयतों सहित भीलवाड़ाके हाकिम भंडारी गोकुलचन्दके साथ जाकर किले आज्याके गिर्द मोर्चाबन्दी करदो, और चन्दनसिंहका समझाओ, कि अगर वह पर्वानह देखकर

उदयपुर चला आवे, तो उसकी इज़तमें फ़र्क न पड़ेगा. इस बारेमें एक पर्वानह चन्दनसिंहके नाम लिखा गया, जिसकी नक़्क नीचे दर्ज की जाती है :-

पर्वानहकी नक़्क.

॥ श्रीएकलिंगजी. ॥ श्रीरामजी.

॥ स्वस्ति श्री उदयपुर सुथाने महाराजा धिराज महाराणाजी श्री सरूपसीघजी आदेसात पुरावत चंदणसीघ अनाड़सीघ नवलसीघ कस्य
अप्र ॥ थारो कागद पुवार देवीसीघरे नामे आयो सो मालम हुवो ने देवीसीघ अरज कराडी के, कीदी तो वां बेसुरी पण धणी हे सो वारे नामे प्रवानो जावे तो वे पेतावा आऐ पड़े, सो अणीरी अरजसु प्रवानो मेल्यो हे, गढ वा सराजाम वे जो ने वाएयारो सराजाम सारा चावड़ा जालमसीघरा आदम्यारे हवाले करे देवीसीघरी लारे अठे आवजो, नही तो थारा कीदा थे पावोगा सं० १९०९ वर्षे कातीक वदी ७ गुरे.

चन्दनसिंहने भी भींडरके महाराज हमीरसिंह और गोगूदाके कुंवर लालसिंहके नाम मदद देनेकी गरजसे कागज़ लिख भेजे, जो सर्कारी आदमियोंके हाथ पकड़ेगये; उन कागज़ोंका मतलब यह है, कि आप हमारे मालिक हैं, और आपहीके भरोसेपर हमने अपनी मौरूसी जागीरको वापस अपने कबजहमें लिया है, इसलिये हमारी मदद करना चाहिये. लेकिन आर्ज्या वालोंका बयान है, कि हमको बनेड़ाके राजा संग्रामसिंहने वर्गलाकर बागी बनाया था. महाराणाने मांडलगढ़को महता स्वरूपचन्दके नाम हुकम लिख भेजा था, कि दो तोप और खैराड़के लोगोंकी कुछ जमइयत साथ देकर गोकुलचन्दको आर्ज्यापर भेजदो. इसीतरह जहाजपुरकी जमइयतको हुकम पहुंचगया, और भीम पलटन व एकलिंग-पलटनके निशान भी उदयपुरसे रवानह होगये थे. ऊपर लिखे हुए सर्दार हाकिम भीलवाड़ा सहित विक्रमी १९०९ कार्तिक कृष्ण १४ [हि० १२६९ ता० २७ सुहरम = ई० १८५२ ता० १० नोवेम्बर] को आर्ज्ये पहुंचे, उन्होंने चारों तरफ मोर्चे जमाकर बुलन्द आवाजसे

क़िलेवालोंको पर्वानहका हाल कहा और पर्वानह उनके पास भेजदिया. अर्गर्चि इसवक्त क़िलेवालोंने नर्मीके साथ जवाब दिया, लेकिन रातकेवक्त क़िलेके मोर्चोंसे पत्थर चलाना शुरू करदिया. विक्रमी कार्तिक कृष्ण ९९ [हि० ता० २८ मुहर्रम = ई० ता० ११ नोवेम्बर] को महाराणाकी फौजके सर्दारोंने नज़दीक जाकर क़िलेवालोंको बहुत कुछ समझाया, लेकिन उन्होंने टालाटूलीका जवाब दिया. इसके सिवा मोर्चा देखनेकी गरज़से जो चन्द राजपूत सर्दार चलेजाते थे, उनमेंसे छोटी भादूके चूडावत कर्णसिंह की छातीमें एक गोली क़िलेसे आकर लगी, जिससे वह तुरन्त मरगया, और दोनों तरफ़से सुलहकी एवज़ लड़ाई होने लगी. नीचे लिखे हुए सर्दारोंकी जम्झयतें सर्कारी फौजमें शामिल थीं:—

- | | |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| १ मगरोपका बाबा गिरवरसिंह. | २ गुडलांका बाबा हमीरसिंह. |
| ३ गाडरमालाका बाबा धीरतसिंह. | ४ आटूणका बाबा देवीसिंह. |
| ५ सूरसका जागीरदार नवलसिंह. | ६ जवास्याका जागीरदार भवानीसिंह. |
| ७ आकोलाका जागीरदार माधवसिंह. | ८ हमीरगढ़का रावत शार्दूलसिंह. |
| ९ खैराबादका बाबा जोधसिंह. | १० मंडप्याका बाबा जालिमसिंह. |
| ११ बरसल्यावासका बाबा भवानीसिंह. | १२ बांसड़ाका बाबा रणमल्लसिंह. |
| १३ भूणावासका बाबा बाघसिंह. | १४ पहूनाका जागीरदार देवीसिंह. |
| १५ कैर्याके बाबा जोरावरसिंहका
काका चत्रशाल. | १६ महुवाके जागीरदारका बेटा
जवानसिंह. |
| १७ पानसलका जागीरदार हरनाथसिंह. | १८ रूदके जागीरदार वीरमदेवका भाई
दूलहसिंह. |
| १९ बड़ी भादूके जागीरदारका भाई
जोरावरसिंह. | २० नीवाहेड़ाका जागीरदार वीरमदेव. |
| २१ छोटी रूपाहेलीका जागीरदार. | २२ महता गोकुलचन्द मांडलगढ़की
जम्झयत और दो तोपों समेत. |
| २३ पुर मांडल ज़िलेके कुल भोमिया. | |

इनके अलावह सर्कारी पल्टनोंके निशान वगैरह मिलाकर करीब दो हजार आदमी दूसरे थे; मोर्चोंसे क़िलेपर तोपें चलने लगीं, और कई गोले दर्वाज़हके किवाड़ोंपर भी लगाये-गये. दैवगतिसे चन्दनसिंहकी छातीमें अकस्मात् एक गोली जालगी, जिससे वह उसीवक्त मरगया. कई लोगोंका बयान है, कि बाहिरसे तीरकशमें होकर उसके गोली लगी, बाज़ कहते हैं, कि भीतरसे खुमाणसिंह शैखावतने ही उसके गोली मारी, और

सींगोलीके बाबा मानसिंहका बयान है, कि फौजके मोर्चोंमेंसे अदावत वालोंने एक आदमीको दररुतपर चढ़ाकर उसके गोली लगवाई, जहांसे किलेका भीतरी हिस्सह दिखाई देता था. चन्दनसिंहके मारेजाने बाद विक्रमी कार्तिक शुक्ल १३ [हि० ता० ११ सफ़र = .ई० ता० २४ नोवेम्बर] को किले वालोंने पछेवड़ी फेरकर अन्न चाहा. जबकि चन्दनसिंह मारा गया, उसका छोटा भाई नवलसिंह मोर्चोंमें होता हुआ किलेसे निकल भागा, और उसवक्त उसपर बहुतसी गोलियां चलाई गईं, लेकिन कज़ा न होनेके सबब वह बचगया. आखरकार किलेवालोंमेंसे औनाड़सिंह और खुमाणसिंह शैखावत वगैरह दो चार आदमियोंको महता गोकुलचन्दने गिरिफ्तार करलिया, और बाकी पांच सात आदमी इधर उधर भागगये. इसवक्त चन्दनसिंहकी स्त्री तो अपने बापके यहां गांव देवलीमें थी, जिससे चन्दनसिंहके मरे बाद राजसिंह नामका एक लड़का पैदा हुआ; और चन्दनसिंहकी बहिन जो किलेमें थी, मगरोपके बाबा गिरवरसिंहके सुपुर्द कीगई. उदयपुरमें लायेजानेके बाद औनाड़सिंह तो जेलखानहमें भेजा गया और खुमाणसिंह शैखावतको उसकी डाढी जलाई जाकर मुल्कके बाहिर निकलवा दियागया. इसके बाद कुछ अरसहतक सर्कारी खालिसह रहकर आर्ज्या पीछा चावड़ोंको मिला; महाराणाका इन्तिकाल होनेपर एजेण्टी व पंचसर्दारीके बन्दोबस्तमें औनाड़सिंहने जेलखानहसे रिहाई पाई, और राजसिंह व नवलसिंहको आर्ज्या तथा बीलियाकी भोम वापस दीगई. इस किलेके मुहासरहमें महता गोकुलचन्दने बड़ी दिलेरीके साथ काम दिया था, इसलिये महाराणाने खुश होकर उसे मोतियोंकी माला और पहुंचियों समेत एक कीमती सरोपाव इनायत किया.

विक्रमी १९१० कार्तिक कृष्ण १४ [हि० १२७० ता० २७ सुहरम = .ई० १८५३ ता० ३१ ऑक्टोबर] के दिन महाराणाने दूसरे दान पुण्यके अलावह कालपुरुषके दानमें ४०० अश्रुफियां ब्राह्मणोंको दीं; विक्रमी कार्तिक शुक्ल ३ [हि० ता० २ सफ़र = .ई० ता० ४ नोवेम्बर] को कन्यादानके संकल्पमें ब्राह्मणोंकी ८०० लड़कियोंके विवाह के लिये ८००००, रुपया, याने फी लड़की १००, रुपया दानमें दिया, और विक्रमी कार्तिक शुक्ल १४ [हि० ता० १२ सफ़र = .ई० ता० १४ नोवेम्बर] को सुवर्णका तुलादान (१) किया.

(१) यह दान इस रीतिसे होता है, कि तराजूके एक पलड़ेमें दान देनेवाला शस्त्र भगवानकी मूर्ति सहित बैठजाता है, और दूसरे पलड़ेमें उसके बराबर सोना तोला जाकर खैरात कियाजाता है, जिसे " सुवर्ण तुलादान " कहते हैं.

विक्रमी मार्गशीर्ष कृष्ण १४ [हि० ता० २७ सफ़र = .ई० ता० २९ नोवेम्बर] को लक्षचंडीका पाठ (१) प्रारम्भ हुआ. विक्रमी माघ शुक्ल ३ [हि० ता० १ जमादियुल्अव्वल = .ई० १८५४ ता० ३१ जैनुअरी] को राजपूतानहके एजेण्ट गवर्नर जेनरल सर हेनरी लॉरेन्स और मेवाड़के पोलिटिकल एजेण्ट ज्यॉर्ज लॉरेन्स उदयपुर में आये. उक्त साहिबोंने महाराणासे जहाजपुर .इलाक़हके मीनोंकी बहुत शिकायत की, क्योंकि उन लोगोंने ज़िले अजमेर वगैरह गैर .इलाक़ोंमें उन दिनों बड़ी लूट मार मचा रक्खी थी; विक्रमी माघ शुक्ल १० [हि० ता० ८ जमादियुल्अव्वल = .ई० ता० ७ फ़ेब्रुअरी] को एजेण्ट गवर्नर जेनरल राजपूतानह उदयपुरसे रवानह हुए, और इसी दिन महाराणा, मानजी धायभाईके कुएडपर पधारे, जहां एक छोटीसी गोशाला बनवाई गई, और उसी दिनसे इस मक़ामकी दिन बदिन तरक्की होने लगी, जो अब “ गोवर्द्धन विलास ” के नामसे प्रसिद्ध है.

मेवाड़में पहिले पर्गनह जहाजपुरपर अक्सर रियासतके प्रधानका भाई या बेटा हाकिम रहनेके सबब पर्गनहकी आमदनीके सिवा वहांके खर्चके लिये कुछ रुपया उदयपुरसे और भी भेजना पड़ता था, इसलिये महाराणाने खर्च ज़ियादह देखकर वहांकी हुकूमतपर विक्रमी १९०८ [हि० १२६७ = .ई० १८५१] में महता रघुनाथसिंहको भेजा, जिसने वहां जाकर पर्गनहका जमाखर्च दुरुस्त करनेके अलावह हुकूमत भी बड़े जोर शोरके साथ की; लेकिन वह खास जमाखर्चकी दुरुस्तीके लिये भेजाजानेके सबब उसकी निगाह ज़ियादहतर आमदनीके बढ़ाने और खर्चमें कमी करनेकी तरफ़ रही. इन्हीं दिनोंमें .इलाक़ह अजमेरमें डाका डालने वाले गांव लुहारीके मुज्जिम, जिनकी गिरिफ़्तारीके लिये गवर्मेण्टसे हुकम था, गिरिफ़्तार न होसके, और अंग्रेज़ी अफ़सरोंने इस बारेमें महाराणाके पास बहुत कुछ शिकायत लिखकर भेजी, जिसपर उन्होंने महता रघुनाथसिंहको वहांसे उदयपुर बुलाकर पर्गनह रासमी और गलूंड उसके सुपुर्द किये, जो पहिले सेठ जोरावरमल्लकी सुपुर्दगीमें थे, और कुछ अरसह पीछे पर्गनह सहाड़ा तथा रेलमगरा भी उसके सुपुर्द कियेगये, जिनका इन्तिजाम उसने बहुत उम्दह तौरपर किया; और पर्गनह जहाजपुरपर रघुनाथसिंहकी एवज़ महता अजीतसिंह भेजाजाकर वहांके मीनोंको सज़ा देनेके लिये कुछ फौज व जलिंधरीका जागीरदार अमरसिंह (२) उसके साथ भेजा गया, और

(१) इसमें एक लक्ष दुर्गा पाठ करनेके लिये ब्राह्मण मुक़र्रर कियेजाते हैं और पूर्णाहुतिपर उनको ज़ेवर, खिलअत व नक़द वगैरह हज़ारों रुपयेका माल मिलता है. इसे एक बड़ा मज्दवी जल्सह कहना चाहिये.

(२) अजीतसिंहने अमरसिंहको वृद्ध और तजर्बहकार जानकर उसपर ज़ियादह भरोसा करलिया था.

शाहपुरा, बनेडा, बीजोलिया, भैंसरोड़, जहाजपुर व मांडलगढ़ वगैरह जिलोंके कुल जागीरदारोंकी जम्इयतें बुलाई गईं, और इनके अलावह भीमपलटन व एकलिंग-पलटनके निशान तथा जहाजपुरकी तईनातीके कुल पैदल, सवार, दो तोपें और शूतरनालोंके ऊंट साथ लेकर शक्तावत अमरसिंहकी सलाहके मुताबिक महता अजीतसिंह मीनोंको सजा देनेके लिये जहाजपुरसे रवानह हुआ. इसवक्त एजेण्ट गवर्नर जेनरल राजपूतानहकी तहरीरके जरीअहसे यह बन्दोबस्त करादिया गया था, कि जयपुर, टोंक और बूंदी वाले अपने अपने इलाकहकी सईदपर जम्इयतें भेजकर एक इलाकहके मीनोंको दूसरे इलाकह वालोंकी मददके लिये न जाने दें, और उक्त तीनों रियासत वालोंने वैसा ही बन्दोबस्त करादिया. महता अजीतसिंहने शुरूमें छोटी और बड़ी लुहारीको, जो मीनोंके मुखिया गांव थे, धावा करके फतह करलिया, और मीना लोग भागकर मादों (१) में चलेगये; लेकिन महता अजीतसिंहने उनका पीछा करके चन्द मीनोंके सिर काटनेके अलावह कुछ मादे भी जलादिये. इसवक्त दो-पहरका वक्त करीब आगया था, और ज्येष्ठका महीना होनेके सबब गर्म हवा (लू) भी बड़े जोर शोरके साथ चलने लग गई थी, लेकिन अजीतसिंहने इन बातोंका लिहाज न करके अपने साथकी सेनाको उन तीन चार हजार मीनोंपर, जो अपने बालबच्चों सहित मनोहर-गढ़ और देवकेखेड़ेकी पहाड़ीमें जमा होरहे थे, हमलह करनेका हुकमदिया. इसपर धांधोलाके जागीरदार राणावत रत्नसिंहने, जो इसी जिलेका रहनेवाला वृद्ध और तजर्बह-कार शरूस था, कहा कि इसवक्त धूप बहुत सख्त पड़रही है, और हवाका भी जोर है, मीना लोग अपने बालबच्चोंकी हिफाजतके लिये मरनेको तय्यार हैं, फौजके लिये पीनेको पानीका पूरा बन्दोबस्त नहीं है, जो मश्कें और पखालें आती हैं, वे जिनके हाथ पड़ती हैं वही लूटकर पीजाते हैं, मारे पियासके सैकड़ों आदमियोंका दम होटोंपर आरहा है, अलावह इसके जयपुर, टोंक व बूंदी इलाकहके हजारों मीने उनकी मददको तय्यार हैं, और आज अपनी किसीकद्र फतह भी होचुकी है, इसलिये मुनासिब है, कि कल सुबह के वक्त हमलह किया जावे; और दूसरे कुल सर्दारों व अफसरोंने भी उसे रत्नसिंहकी सलाह के मुवाफिक ही करनेको कहा. लेकिन अमरसिंह बोला, कि “ये सब लोग मालिकका काम छोड़कर अपने शरीरका आराम चाहते हैं; अगर कोशिश कीजाये, तो थोड़ेसे मीने, जो इस टेकरीमें छिप रहे हैं अभी मारे जावें या गिरिफ्तार करलिये जावेंगे”. अजीतसिंहको तो अमरसिंहकी सलाहपर पूरा भरोसा था, उसने फौरन सिपाहियोंको हमलह करनेके लिये

(१) मादे उन फूससे छाये हुए और कांटोंकी बाड़से घिरे हुए छप्परोको कहते हैं, जिन्हें मीना लोग मुसीबतके वक्त अपने बालबच्चों व मवेशियों सहित रहनेके लिये झाड़ीमें बनालेते हैं.

हुकम देदिया, और तोपका लंगर पकड़कर आप सबसे आगे बढ़ा; निदान मीनोंने भी बचावकी सूरत न देखकर डुडकारी (१) मारी और मुकाबलहके लिये तय्यार हुए. फौजकी तरफसे तोपों और बन्दूकोंके फाइरहोनेलगे, जिनका जवाब मीनोंने तीर व गोलियां चलाकर दिया. इसी अरसहमें जयपुर, टोंक और बूंदी इलाकहके पांच हजार मीने अपनी कौमवालोंकी मददके लिये आ पहुंचे और फौजको चारों तरफसे घेरकर गोली व तीरोंकी बौछार करने लगे. सघन झाड़ी, गर्म हवा, धूप और पियासके मारे तो फौजके लोग पहिलेसे ही घबरारहे थे, कि इसी अरसहमें झाड़ीकी आड़से मीनोंने जमा होकर उन्हें अपने शस्त्रोंका निशानह बनालिया. उसवक्त महता अजीतसिंह खुद बड़ी बहादुरीके साथ चारों तरफसे फौजके लोगोंको मदद पहुंचाता था. धांधोलाके जागीरदार रत्नसिंहने मीनोंको ललकारकर कहा, कि “ ढेढो (२), तुमको मेवाड़में रहना है या नहीं, याद रखो तुमने जो श्री द्वारके सैकड़ों राजपूत और सिपाही मारडाले हैं उनका बदला लिया जायेगा”. यह सुनकर मीने हटगये और फौजके लोग अपने जख्मी आदमियों तथा मुर्दह लाशोंको लेकर ग्राम लुहारीमें आये. इस लड़ाईमें बीजोलियाकी जम्झयतमेंसे गोवर्द्धनसिंह पंचार, शाहपुराकी जम्झयतमेंसे छोटी कनेछणके जागीरदारका भाई गंभीरसिंह राणावत, और सर्कारी पलटनोंके २७ सिपाही मारेगये; इनके अलावह शाहपुरा की जम्झयतमेंसे अरण्याका रूपसिंह चहुवाण, राजगढ़का रेवन्तसिंह कान्हावत, जहाजपुरके सिलहदारोंमेंसे भूरसिंह हाड़ा और २५ या ३० सिपाही जख्मी हुए. इसके बाद महता अजीतसिंह फौज समेत जहाजपुरको लौट आया. मीना लोगोंने अपने हाथसे सिपाहियोंके मारेजानेका तो कुछ भी खयाल न किया, लेकिन राजपूतोंके मारेजानेसे उनको बड़ा अन्देशह हुआ, कि वे लोग जरूर हमसे बदला लेंगे. मैं (कविराजा श्यामलदास) ने इस लड़ाईके चन्द रोज बाद जहाजपुरमें लुहारीके गोकुल और गाडौलीके भुवाना पटेल (जो मीनोंके मुखिया थे) से एक मर्तबह पूछा, कि तुमने राजपूतोंको किसतरह मारा? उसवक्त उन्होंने महादेव (३) की कस्म खाकर

(१) जिस तरह भीलवाड़के भील बुलन्द आवाज़से “ फाइरे फाइरे ” कहकर किलकारी मारते हैं, उसी तरह खैराड़के मीना लड़ाईके समय “ डू डू डू डू ” पुकारते हैं.

(२) भीलवाड़के भीलोंके लिये कांडी और खैराड़के मीनोंके लिये ढेढ एक तरुत गाली (हिकारतका लफज़) है.

(३) मीना लोग महादेवको अपना इष्ट मानते हैं, और उसीसे अपनी उत्पत्ति भी बयान करते हैं.

यह कहा, कि “ काली अंगरखी होनेसे लीलियों (१) के धोखेमें मारे गये, मीनोंने जानबूझकर राजपूतोंपर वार नहीं किया”.

ऊपर लिखे हुए मारिकेका हाल सुनकर महाराणाने उदयपुरसे फौज और सर्दारोंकी जमूइयतें फिर भेजीं, और एजेण्ट गवर्नर जेनरल राजपूतानहने जयपुर, टोंक व बूंदीपर यह दबाव डाला, कि तुम्हारे इलाक़हका बन्दोबस्त न होनेके सबब मेवाड़की फौजका नुकसान हुआ है. इसपर उक्त तीनों रियासतोंने अपने अपने इलाकोंके मीनोंकी सजादिहीके लिये फौजें रवानह कीं. महाराणाने प्रधान महता शेरसिंह, महता गोपालदास, व चौधरी हमीरसिंहको जहाजपुर भेजा, और विक्रमी १९११ पौष [हि० १२७१ रबीउल्अव्वल = ई० १८५४ डिसेम्बर] में राजपूतानहके एजेण्ट गवर्नर जेनरल सर हेनरी लॉरेन्स, मेवाड़के पोलिटिकल एजेण्ट ज्यॉर्ज लॉरेन्स, और हाड़ौतीके पोलिटिकल एजेण्ट बर्टन साहिब मए कोटा कन्टिन्जेण्ट पलटनके जहाजपुरमें आये, तब मीनोंने मुकाबलह करना छोड़कर मुजिनोंको उनके सुपर्द करदिया. इसके बाद लुहारी और देवाकाखेडाके बीचवाली मादोंकी झाड़ी कटवाकर साफ़ मैदान करवादिया गया. उक्त तीनों साहिबोंके मक़ाम एक महीनातक जहाजपुर और ईटोदामें रहे. सर हेनरी लॉरेन्स बड़े मिहनती तजर्बहकार और इल्म दोस्त थे, उन्होंने एक रोज़ मुभे (कविराजा श्यामलदासको) बड़ी फुर्तीके साथ किताब पढ़ते देखकर गंगाकी नहरके हालकी एक किताब दी, और उनके डॉक्टरने शीतलाका टीका लगानेकी एक किताब दी, जो दोनों बतौर यादगार अबतक मेरे पास मौजूद हैं. इसके बाद साहिब लोग अंग्रेजी फौज समेत वहांसे रवानह हुए.

सर हेनरी लॉरेन्स और ज्यॉर्ज लॉरेन्स शाहपुरा, बनेड़ा, राजनगर, औरनाथद्वाराकी तरफ़ दौरा करतेहुए विक्रमी फाल्गुन कृष्ण १३ [हि० ता० २६ जमादियुल्अव्वल = ई० १८५५ ता० १४ फ़ेब्रुअरी] को उदयपुर आये, और सर्दारोंके फ़साद व सती होनेका मुअ़ामलह दर्पेश होनेके सबब पन्द्रह रोज़तक यहां ठहरे, (जिसका जिक्र आगे लिखा जायेगा), उसवक्त खैराड़के मीनोंका बन्दोबस्त करनेके लिये एक अंग्रेजी छावनी डालनेकी बावत् भी बातचीत हुई थी, जो रियासत जयपुर, अजमेर, बूंदी और मेवाड़की सर्हदोंके संगमपर देवली मक़ाममें डालीगई, और मीनोंकी निगरानीके लिये रियासती थाने मुकर्रर किये गये.

विक्रमी १९१२ श्रावण शुक्ल ७ [हि० १२७१ ता० ६ ज़िल्हिज = ई० १८५५]

(१) मीना लोग पलटनके सिपाहियोंको हिक़ारतसे लीलिया और मियांकड़ा बोलते हैं, जो मियांका अपभ्रंश है, क्योंकि उस ज़मानहमें अक्सर पलटनके सिपाहियोंको वर्दीमें काला दगला मिलता था.

ता० २० अगस्त] को श्री एकलिंगेश्वरके गोस्वामी सवाई शिवानन्द गुजर-
गये, जिनकी जगह उदयपुरके भटमेवाड़ा ब्राह्मण देवरामको ब्रह्मचर्य दिलाया गया,
और सन्यास धारण करवाकर सवाई प्रकाशानन्दके नामसे गद्दीपर बिठाया गया. पहिले
जमानहमें एकलिंगेश्वर महादेवकी भेट पूजा और पर्गने वगैरह कुल जायदाद गोस्वामियोंके
ही इस्तिथारमें रहती थी, परन्तु इसवक्त प्रकाशानन्दके साथ एक इक्रारनामह हुआ,
जिसमें ८०००) रुपयेकी जागीर हाथी, घोड़ों, तथा गोस्वामीके खास खर्चके लिये
मुकर्रर होकर बाकी पर्गने और भेट वगैरह जायदाद सर्कारी निगरानीमें रक्खी-
गई. इसके बाद श्री एकलिंगेश्वरके यथाविधि पूजनका प्रबन्ध और जेवर वगैरह मन्दिरके
लवाजिमहका उम्दह बन्दोवस्त होकर एक जुदा खजानह मुकर्रर हुआ, जिसमें इसवक्त
जेवर व नकद वगैरह मिलाकर लाखों रुपयेका सामान मौजूद है.

विक्रमी कार्तिक कृष्ण ७ [हि० १२७२ ता० २० सफर = .ई० ता० १ नोवेम्बर] के
दिन उदयपुरके पश्चिमी जिले कालीवास वगैरहके बागी भील लोगोंको सजा देनेके लिये
महाराणाने महता शेरसिंहके पुत्र सवाईसिंहको मण्फौजके भेजा, जिसने उनको खूब
सजा दी, और गांव जलाकर बहुतसे भीलोंको जिन्दह गिरिफ्तार करनेके अलावह कई
भीलोंके सिर काट लाया. विक्रमी मार्गशीर्ष शुक्ल ५ [हि० ता० ४ रबीउस्सानी = .ई०
ता० १४ डिसेम्बर] को कर्नेल ज्यॉर्ज लॉरेन्स साहिब उदयपुरमें आये, और इसी दिन
डूंगरपुरके रावल उदयसिंह भी आये, जिनको नागोंके अखाडेतक पेशवाई करके महा-
राणा महलोंमें लाये, और जबतक वह यहां ठहरे, उनकी अच्छी तरह खातिर तवाजो
कीगई (१). विक्रमी मार्गशीर्ष शुक्ल १० [हि० ता० ८ रबीउस्सानी = .ई० ता०
१८ डिसेम्बर] के दिन महाराणाके हुकमसे पोलिटिकल एजेण्ट कर्नेल ज्यॉर्ज लॉरेन्स
ने महाराणा और उनके सर्दारोंका मध्यस्थ बनकर एक अह्दनामह काइम किया,
जिसपर देवगढ़के रावत रणजीतसिंह, बनेड़ाके राजा गोविन्दसिंह, और शाहपुरा,
भैंसरोड़ व बदनोर वगैरह कई ठिकानोंके सर्दारोंसे दस्तखत कराये गये; इस अह्दनामहका
जिक्र सर्दारोंके मुआमलातके बयानमें आगे लिखा जायेगा. विक्रमी मार्गशीर्ष
शुक्ल १४ [हि० ता० १२ रबीउस्सानी = .ई० ता० २२ डिसेम्बर] को राजपूतानहके
एजेण्ट गवर्नर जनरल सर हेनरी लॉरेन्स साहिब राज्यमहलोंमें आये, और ऊपर
बयान किये हुए मुआमलहमें महाराणासे बातचीत की.

(१) डूंगरपुरके रावलको महाराणाकी गद्दीसे नीचे बैठना और नज़र दिखलाना वगैरह दस्तूर तो
मातहत उमरावोंके मुवाफिक ही अदा करना पड़ता है, लेकिन दूसरी कई बातोंमें उनकी इज्जत उमरावोंसे
बढ़कर कीजाती है.

विक्रमी माघ कृष्ण ५५ [हि० ता० २८ जमादियुल-अव्वल = .ई० १८५६ ता० ६ फेब्रुअरी] को महाराणाने दूसरी बार सुवर्ण तुलादान किया, जिसमें उदयपुरके तोलका एक मन बारह सेर नौ छटांक सुवर्ण तुला, जो खैरातमें तकसीम किया गया.

विक्रमी चैत्र कृष्ण १० [हि० ता० २३ रजब = .ई० ता० ३१ मार्च] के दिन पाणेरी गोपाल हवालातमें रक्खा गया, जो बड़ा बदचलन, चालाक, दगाबाज़, जालसाज़ और लालची शरूँस था. उसके तरकी पानेका सिर्फ़ यही सबब था, कि वह महाराणाके हुक्मकी तामील बहुत जल्द करता था, यहांतक कि जो हुक्म उसको एक हफ़तह की मीआदके लिये दिया जाता उसे वह दो ही दिनमें बजालाता; कारण यह कि उसको धर्म, अधर्म और बड़े छोटेका बिल्कुल लिहाज़ न होनेके सबब कुल रियासती लोगोंपर उसका रोब बहुत ग़ालिब होगया था, और महाराणा भी उसके कहनेको बेरू रिआयत समझने लग गये थे. सिवा इसके उसकी कोई शिकायत भी नहीं कर सका था, क्योंकि महाराणा तो उसकी सच्ची शिकायत पेश होनेपर भी यही ख़याल करते, कि हमारे हुक्मकी तामील बहुत जल्द करनेके सबब आम लोग इसके साथ दुश्मनी रखते हैं, और गोपालको मालूम होने पर वह शिकायत करनेवालेकी फ़ौरन् ख़बर लेलेता था. महाराणा स्वरूपसिंहने अपने राज्यशासनमें लाखों रुपया खैरात किया, और इस (गोपाल) को खैरातख़ानहका दारोग़ह बनाया, लेकिन यह शरूँस ऐसा बदचलन था, कि इसने महाराणाके उत्तम कार्यमें बददिगानती करके बहुतसा माल खैरातके एवज़ अपनी बदकारीमें उड़ादिया. वह रियासती लोगों पर इतना ग़ालिब आगया था, कि कुल अह्लकारों और कारख़ानह वालोंको अपना मातहत जानने लगा; खैरातके सिवा ख़बरनवीसीका काम भी इसीके सुपुर्द था, इसलिये जो कोई शरूँस उसको अपने विरुद्ध नज़र आता उसे फ़ौरन् जादू, बदख़्वाही, अथवा रिश्वतलेनेकी तुहमतमें फ़ांसकर कैद करादेता और उसका घरबार ज़ब्त किया जानेपर कुछ माल अस्बाब तो महाराणाके ख़जानहमें दाखिल कराता और बाकीको आप हज़म करजाता था. आख़र-कार ये सब बातें उसके कैद होनेपर महाराणाको मालूम हुई, जिससे वह बहुत रंजीदह हुए, और ज़ियादहतर अफ़सोस उन्हें इस बातका हुआ, कि उसने खैरातका माल बदकारीमें सर्फ़ किया. इसके बाद गोपालका कुल घर ज़ब्त होकर संभाला गया, जिसमें महाराणाका संकल्प किया हुआ बहुतसा सुवर्ण वगैरह माल निकला. अगर्चि इस शरूँसने ऊपर बयान कीहुई बातोंके अलावह और भी बहुतसी बेजा कार्रवाइयां की थीं, जो तवालतके सबबसे यहांपर छोड़दीगई हैं, परन्तु पाठक लोग इतनेहीमें जान सक्ते हैं, कि वह शरूँस आदमी क्या ! जालसाज़ी और फ़िरेबका एक पुतला था.

विक्रमी १९१३ [हि० १२७२ = .ई० १८५६] के शुरूसे महाराणा


जियादहतर गोवर्द्धनविलासमें रहने लगे, और उसी समयसे वहां महल व मकानात वगैरह बनना शुरू हुआ. विक्रमी पौष कृष्ण ९९ [हि० १२७३ ता० २८ रबीउस्सानी = .ई० ता० २७ डिसेम्बर] को महता शेरसिंहके एवज महता स्वरूपचन्द के पुत्र गोकुलचन्दको प्रधानेका खिल्अत मिला, और काका महाराज दलसिंह, कायस्थ हरनाथ तथा ढींकड़्या उदयराम उसे दस्तूरके मुवाफिक अपने मकानपर पहुंचानेको गये.

सर हेनरी लॉरेन्सके राजपूतानहसे लखनऊकी रेजिडेन्सीपर बदलजाने और ज्यॉर्ज लॉरेन्सके मेवाड़की एजेन्सीसे तब्दील होकर अजमेरके चीफ कमिश्नर व एजेण्ट गवर्नर-जेनरल राजपूतानह नियत होनेपर उनकी जगह मेवाड़के पोलिटिकल एजेण्ट कप्तान शावर्स नियत हुए, जो विक्रमी १९१४ [हि० १२७३ = .ई० १८५७] में पूर्वी हिन्दुस्तानकी तरफ अंग्रेजी पलटनोंके बागी होजानेपर डाक द्वारा नीमचसे रवानह होकर विक्रमी वैशाख कृष्ण १४ [हि० ता० २७ शअ्वान = .ई० ता० २३ एप्रिल] को उदयपुरमें आये, और गद्द रोकनेकेलिये महाराणाको मददगार बनानेकी गरजसे बात चीत करके उनकी तरफसे गवर्मेण्टको पूरी पूरी सहायता मिलनेका पुख्तह इक्कार होजानेके बाद विक्रमी वैशाख शुक्ल ६ [हि० ता० ४ रमजान = .ई० ता० २९ एप्रिल] को डाक द्वारा उदयपुरसे आवूकी तरफ रवानह हुए; वहांपर एजेण्ट गवर्नर जेनरल राजपूतानहसे मिलकर वापस उदयपुरमें आये और महाराणासे फिर कुछ सलाह मशवरह करने के बाद नीमचकी तरफ चले गये. इन दिनों बागी फौज राजपूतानहमें भी फैलगई थी, जिसका मुफ़स्सल हाल आगे लिखा जायेगा. अब हम गद्दके हालको छोड़कर मेवाड़में ठिकाने आमेटके रावत् पृथ्वीसिंहके विक्रमी १९१३ [हि० १२७३ = .ई० १८५७] में लावलद गुजरजानेके सबब जो बखेड़ा उसके हकदारोंमें पैदा हुआ उसका हाल लिखते हैं.

आमेटके रावत् महाराणा लाखाके पुत्र चूंडा (१) की औलादमेंसे हैं, जिनका कुर्सीनामह उनके हकदारों समेत पाठक लोगोंके अवलोकनार्थ मुरतसर तौरपर नीचे दर्ज किया जाता है:-

(१) चूंडाकी औलाद वाले मेवाड़में बहुतसे ठिकानोंपर काबिज हैं, जो चूंडावत और उनके अन्तरगत सलूवर, कुरावड़, भैंसरोड़ व आसीद वाले कृष्णावत, बेगू वाले मेघावत, देवगढ़ वाले सांगावत और आमेट वाले जगावत कहलाते हैं.

आमेट वालोंका नस्ब नामह.



रावत् पृथ्वीसिंहकी मौजूदगीमें ठिकाने आमेटका कुल काम बेमालीवाले जालिमसिंह और मान्यावासके समरथसिंहकी सलाहके मुवाफिक होता था. पृथ्वीसिंहके लावलद गुजर-जानेपर उसका जानशीन तज्वीज कियेजानेका विचार हुआ, उसवक्त आमेटके कुल भाइयों (जगावतों) ने जीलोळावाले दुर्जनसिंहके बड़े बेटे चत्रसिंहको गद्दीपर बिठानेकी सलाह की, बल्कि तीन रोजतक पृथ्वीसिंहका क्रिया कर्म भी उसीके हाथसे हुआ, लेकिन दुर्जनसिंहने अपने छोटे बेटे लक्ष्मणसिंहको गद्दीपर बिठाना चाहा. उसवक्त सरकारी खबरके हर्कारेने ढींकड़्या तेजरामके नाम इस मुआमलहकी बाबत् दो कागज़ लिखे, जिनका खुलासह यह है, कि आमेटका रावत् पृथ्वीसिंह विक्रमी माघ कृष्ण ११ [हि० ता० २४ जमादियुल्अव्वल = .ई० ता० २१ जैनुअरी] को गुजर गया, और उसकी जगह शुरूमें जीलोळावालोंके बड़े बेटे चत्रसिंहको गद्दीपर बिठानेकी तज्वीज हुई, जिसके लिये कि मरते समय पृथ्वीसिंह कहगया था, परन्तु तीसरेके दिन बेमालीवाले जालिमसिंहने रावत् पृथ्वीसिंहकी माता भटियाणी और उसकी ठकुराणी मेड़तणीको मिलाकर लहसाणीके ठाकुर सुल्तानसिंह, और उसके काका समरथसिंह वगैरह चन्द मुख्य मुख्य आदमियोंकी शामलातसे विक्रमी माघ कृष्ण १३ [हि० ता० २६ जमादियुल्अव्वल = .ई० ता० २३ जैनुअरी] के रोज अपने बेटे अमरसिंहको आमेटकी गद्दीपर बिठादिया.

विक्रमी फाल्गुन शुक्ल १० [हि० ता० ८ रजब = .ई० ता० ५ मार्च] को बेमाली वाले जालिमसिंहने और फाल्गुन शुक्ल १३ [हि० ता० ११ रजब = .ई० ता० ८ मार्च] को रावत् पृथ्वीसिंहकी ठकुराणी मेड़तणीने अमरसिंहका गोद लिया-जाना मन्जूर फर्मानेकी गरजसे ऊँकार व्यासके हाथ महाराणाकी खिदमतमें बड़ी लाचारीके साथ अर्जियां लिखकर भेजीं, जिनपर महाराणाने अमरसिंहको मन्जूर फर्माकर तलवारबन्दीके खिराजकी बाबत् वातचीत करनेका हुक्म दिया. उधरसे जीलोळाके जागीरदार दुर्जनसिंहकी अर्जियां भी हकदारीके उज़से पेश हुई और उसके तरफदार देवगढ़के रावत् रणजीतसिंह व आमेटके भाइयोंकी कई दरखास्तें गुजरीं, जिनमें आमेटपर जीलोळावालोंका हक होना बयान कियागया था. लहसाणीकी सहरदके बारेमें कुछ दिनोंसे देवगढ़ वालोंके साथ जालिमसिंह और समरथसिंहकी दुश्मनी चलरही थी, इसलिये रावत् रणजीतसिंहको भी इनकी ताकतका बढ़ना नागुवार गुजरता था, और सर्दारोंके बखेड़ेमें समरथसिंह व जालिमसिंह दोनों बड़े सलाहकार रहे थे, जिनपर सलूबरका रावत् केसरीसिंह पूरा भरोसा रखता था, इसलिये महाराणाने यह पोलिटिकल कार्रवाई की, कि जीलोळावालोंको तो पोशीदह तौरपर आमेटमें कबजह करलेनेका इशारह करदिया,

और व्यास ऊँकारकी मारिफ़त विक्रमी १९१४ वैशाख कृष्ण ११ [हि० १२७३ ता० २४ शरद्वान = ई० १८५७ ता० २० एप्रिल] को तलवार बन्दीके ४४०००, और प्रधानकी दस्तूरीके ४०००, रुपयोंका एक रुक्का रावत् अमरसिंहके नामका लिखवा लिया. रावत् अमरसिंहकी अर्ज तो कायस्थ हरनाथकी मारिफ़त होती ही थी, अब पोशीदह तौरपर जीलोळावालोंकी अर्ज महाराज चन्द्रसिंहकी मारिफ़त होने लगी. जीलोळावालोंकी मददपर कोठारियाका रावत् जोधसिंह, देवगढ़का रावत् रणजीतसिंह, कान्हौड़का रावत् उम्मेदसिंह, बदनौरका ठाकुर प्रतापसिंह, भैंसरोड़का रावत् अमरसिंह, और कोशीथल व ताल वगैरहके कई सदाँर थे; और बेमाली वालोंके मददगारोंमें सलूबरका रावत् केसरीसिंह, भींडरका महाराज हमीरसिंह, गोगूँदाका राज लालसिंह, कुरावड़का रावत् ईश्वरीसिंह, बागौरका महाराज शेरसिंह, बनेड़ाका राजा गोविन्दसिंह और लहसाणी व मान्यास वगैरहके जागीरदार थे. महाराणाका खानगी इशारह पाकर जीलोळावाले दुर्जनसिंहके बेटे चत्रसिंह ने अपने तरफ़दारोंकी मददसे २००० आदमी जमा करके विक्रमी ज्येष्ठ कृष्ण १ [हि० ता० १५ रमज़ान = ई० ता० १० मई] को दो घड़ी रात बाकी रहे आमेटपर धावा करदिया और क़स्बहको चारों तरफ़से जाघेरा, उसवक्त अमरसिंहके पास उसका पिता ज़ालिमसिंह बेमालीवाला और लहसाणीका जागीरदार सुल्तानसिंह मौजूद थे, लेकिन ये लोग ग़फ़लतके सबब पहिलेसे कुछ बन्दोबस्त न करसके. सिवा इसके रियासतकी तरफ़से तलवार बन्दी होनेतक दस्तूरके मुवाफ़िक़ आमेटकी ज़ब्तीपर महता ज़ालिमसिंह भेजागया था, जिसकी सुपुर्दगीमें दर्वाज़ोंकी कुंजियां वगैरह कुल ठिकानेकी निगरानी थी, उसने चत्रसिंहके पहुंचनेपर शहरका दर्वाज़ह खुलवादिया, और चत्रसिंह मए जम्इयतके दाख़िल होकर कुल क़स्बहपर काबिज़ होगया, सिर्फ़ ठिकानेदारके रहनेका मकान अमरसिंहके क़ब्ज़हमें रहा, और दोनों तरफ़से बन्दूकें चलने लगीं. इस लड़ाई में बेमाली वाले ज़ालिमसिंहका बड़ा बेटा पद्मसिंह, तथा दो आदमी दूसरे मारेगये, और लहसाणीका जागीरदार सुल्तानसिंह सरूत ज़ख़मी हुआ. दो रोज़तक बराबर लड़ाई जारी रहनेके बाद विक्रमी ज्येष्ठ कृष्ण ३ [हि० ता० १७ रमज़ान = ई० ता० १२ मई] को अमरसिंहकी तरफ़से अन्न चाहनेपर महता ज़ालिमसिंह अमरसिंह वगैरह लोगोंको अपने डेरेमें लेआया, और ठिकानेपर चत्रसिंह काबिज़ होगया. इसवक्त रावत् पृथ्वीसिंहकी ठकुराणी मेड़तणी जो अमरसिंहको गद्दीपर बिठाना चाहती थी, आमेटसे निकलकर अपनी बेटी और रावत् अमरसिंह वगैरह हम्माहियों सहित गढ़बोर (चारभुजा) में जाबैठी, जो एक बड़ा मशहूर मज़हबी पनाहका मन्दिर है, और वहांसे

एक दरखास्त राजपूतानहके एजेण्ट गवर्नर जेनरल ज्यॉर्ज लॉरेन्स साहिबके नाम लिख भेजी, जिसकी नक़ नीचे दर्ज कीजाती है:-

एजेण्ट गवर्नर जेनरल राजपूतानहके नाम रावत पृथ्वीसिंहकी
ठकुराणी मेड़तणीकी दरखास्त.

॥ श्रीरामजी.

मुझे आपके पास भेजे दीया है,
सो बपीदमत श्री महाराणा सा-
हीसवास्ते दीस मुकदमेमें तुमको
हमारा मुनापलत नही हौवे,
के एसे मेवाड़के गरु मुकदमे
के एसे मेवाड़के गरु मुकदमे
के एसे मेवाड़के गरु मुकदमे
के एसे मेवाड़के गरु मुकदमे

॥ सीधश्री आबुजी सुभसुथाने सब ओपमा वीराजमान अनेक ओपमा लाएक
राज श्री ५ श्री करणेल जारज सेन्ट पांत्रक लारनस साहेब बहादुरजी अतान गडबोर
सु लषावता मेड़तणीजीकी आसीस बंचावसी, अठाका समाचार श्री जी
की कृपाथी करे भला हे, आपका सदा आरोग चाहीजे, आप मारे गणी बात हो,
बडा छो, सदा मेरवानगी हे जीहुडीज रषावसी, अंप्रंच ॥ अवार जेठ वीद १ के दीन
जीलोला ठाकुर दुरजणसींगजी अर वारा बेटा चत्रसींगजी देवगढ वगेरे दो च्यार ठकाणा
री जमीत लेने रात गडी दौय रेतारे आसरे आमेठ आया ने श्री दरवारकी तरफसु
कामदार धुसपर हा, सो ऊणा दरवाजा षोल ने वणारो हजार दो हजार मनक माहे
लेलीदा; ई राजदवारा ऊपरे आण पड्या, जीमे पदमसींगजी ने दो सरदार दुजा तीन
सरदाराने तो मार नाक्या, ने चार पाच सरदार गायल हुया, अर रावलाने तो घेर
लीदो, अर रावलामे पाणीरो कुडो हो जीने पण बंदोबसत कर लीदो, जद मारी छोरी
पाणी ऊपर भरवा गडी जीने पण गोलीरी देने मार नाकी, दन तीन सुदी माने पण
गेर राष्या, पाणी पण पीवादीदो नही, मने आमेठ बारे काडदीदी, जद मु रावत
अमरसीगने बाडीने लेने गडबोर आय बेठी अर मारो रोकड तथा गेणो तथा
ओर असबाव ओर ठकाणो कौसलीदो, सो अस्यो जुलम अदना मनकसु

हुओ नही, जस्यो मासु हुओ। आप हाकम हे बडा हे, सो मारी सुणवाही करने मासु जुलुम मारे गरे बेठा जगडो कीदो, जीने ओलुंबो मीले ने मारो ठकाणो मने मले, मारे तो आसरो आपरो हे, आपरी परवस्तीसु वणया रांगा, ओर बठे म्हारो कामदार वगेरे पांच चार आसाम्या अर मारा पीरको भरामण हे, सो ऊणाने तो साराने पकड केद कीदा ने गर बंदोवसत कीदा, ऊणाने कूट मार करे हे, सो आपने षुदा बडा बणायो हे, सो गरीब जोरावरकी बराबर सुणे हे, सो मारो नरधार करे, श्री दरवार तो ईसवर परमेसर हे, पण श्री दरवारके कामेती दरवाजा षोली न मे वालदीदा, ने उपला लीण्या परमाणे मासु जुलम करायो; ने पेल्यारी हगीगत ई मुजब हे, के महा वीद ७ सातमरे दन श्री रावजी साहेबने षेद ज्यादा वी, जद मने हुकम कीदो के अबरके मारे षेद ज्यादा हे, सो चत्रभुजजी बंचावे तो वंचु, पण मारा डीलरी सरदा गठी, सो मारे आराम वेजावे जद तो ठीक हीज हे, ने कदाचीत मरजाउ तो मारे पछाडीजोल्या जालमसीगजीरा बेठा अमरसीगने राषज्यो, सो थारी तो चाकरी करेगा ने बाडीने परणावेगा अर धणीकी बंदगी करेगा, अर ठकाणाने पण आवादान राषेगा, असो हुकम कीदो; अर महा वीद १० रे दन रावतजीसाहेब तो देवलोक पदारे गया, जीसु श्री रावतजीसाहेबरो तो हुकम ने मारी कुसीसु अमरसीग जोल्या राष्या ने गोदी बेठायो, जी दन आषी रजवाड तथा भाया तथा कामदारांकी कुसीसु नजराणो कीदो ने गादी बेठावाको दसतुर सदा वे ज्यो रजवाड वाला कीदो ने जीलोलावाला अषर करदीदा, मे मारा गरमें पाच सरदार कोटडी बन्द हे जणा तथा कामदारा श्री दरवारने अरजी लषी, सो मे राजी कुसीसु श्री रावतजीरे जोल्या रावतजी अमरसीगजीने राष्या, ने आपरी सरकारमे तथा ओर रजवाडमे यो दस्तुर हे, सो मालक बेठा मालकरी मुरजी वे सो करे, ने पाछासु ठुकराणीने ईकतीयार हे, सो मने श्री रावतजी साहब पण अमरसीगजीरे वास्ते हुकम कीदो ने मारा राजीपासु ने रजवाडरा राजीपासु अमरसीगने जोल्या लीदो, ने श्री दरवार हुकम कीदो, के मने नजराणाका रुप्या ४१०००, अगतालीस हजार ला, जद धणीको पण हुकम माथापर राष्यो ने, रुको नजर कीदो, सो धणी हुकम कीदो, ज्यो मे माथा ऊपर राष्यो ने दरवाजारी कुच्या मागी तो पण कुंच्या सुपी जद कामेत्या दरवाजा षोलेने मेसु उपला लीण्या मुजब जुलम करायो, ने आप हाकम हो, सो मेरवानगी कर परवस्ती वेगी करे, सुपुरी दुषी हु, मारे तो आसरो आपरो हे; ओर अठा लाएक काम काज वे सो लषावसी, अठे तो आपरो हुकम हे, संमत १९१३ (१) जेठ वीद ७.

(१) यह संवत् चैत्रादि हिसाबसे १९१४ होता है.

ऊपर लिखे हुए मज्मूनका एक कागज़ मेवाड़के पोलिटिकल एजेण्ट शावर्स साहिबके नाम भी भेजा गया, जिसके जवाबमें उक्त पोलिटिकल एजेण्टने लॉरेन्स साहिबके मुताबिक ही हुकम दिया. विक्रमी ज्येष्ठ शुक्ल १५ [हि० ता० १५ शव्वाल = ई० ता० ७ जून] को रावत् अमरसिंह मए रावत् पृथ्वीसिंहकी ठकुराणी और अपने तरफदारोंकी जमइयत के किले कंवारियामें जा पहुंचा, जो सलूंवरके रावत् केसरीसिंहकी जागीरमें एक छोटासा किला है और आमेट व कंवारियामें तरफैनके पक्षवाले सदर्दारोंकी जमइयतें एकट्ठी होने लगीं. इसके कुछ अरसह बाद लहसाणीके ठाकुर सुल्तानसिंहका इन्तिकाल होगया, जो आमेटकी लड़ाईमें सरत जस्मी हुआ था, और रावत् पृथ्वीसिंहकी स्त्री अपनी बेटी तथा रावत् अमरसिंह सहित कंवारियासे सलूंवरको चली गई. इसी तरह मेवाड़के सदर्दारोंके दो जुदे जुदे गिरोह होगये. इन दिनों हिन्दुस्तानमें अंग्रेज़ी फौजकी बगावत बड़े जोर शोरके साथ फैल रही थी, और महाराणा चाहते थे, कि रावत् चत्रसिंहको मुस्तकिल तौरसे आमेटकी गद्दीपर काइम करदेवें, लेकिन ऊपर बयान किये हुए सदर्दारोंके दो गिरोहोंमेंसे रावत् अमरसिंहके तरफदारोंने खैरवाड़ाके असिस्टेंट पोलिटिकल एजेण्ट कप्तान ब्रुक साहिबको कहा, कि अगर रावत् अमरसिंह ठिकाने आमेटपर न बिठाया जायेगा, तो मेवाड़में गद्ग आम होकर बखेड़ा पैदा होगा, क्योंकि राजपूतानहके कुल राजपूत भी इस मुआमलहमें हमारे मददगार हैं. इसपर कप्तान ब्रुक साहिबकी सलाहके मुताबिक महाराणाने चत्रसिंहको उदयपुर बुलाकर कुछ अरसहके लिये उसकी तलवार बन्दी मुलतवी रक्खी, और हुकम दिया, कि दोनों तरफका दावा पेश होनेपर इन्साफके रूसे तहकीकात कीजाकर, जिसका हक साबित होगा उसको ठिकाना मिलेगा. इस मुआमलहकी बाबत् पोलिटिकल एजेण्ट शावर्स साहिबने भी एक इशितहार जारी किया, जिसका मतलब यह था, कि इसवक्त कोई सदर्दार फसाद न उठावे, और जिसको किसी तरहकी तकलीफ हो वह हमको कहे, हम उसकी मुनासिब तहकीकात करके वाजिबी तस्फियह करादेंगे, सिवा इसके यदि कोई सदर्दार किसी तरहका बखेड़ा या फसाद पैदा करेगा, तो वह सर्कारी मुजिम करार दिया जायेगा, और उसके हकमें बहुत बुरा होगा. इस इशितहारके जारी होने और महाराणाकी अकूमन्दी और पोलिटिकल कार्रवाईसे मेवाड़में किसी तरहका फसाद नहीं हुआ. हिन्दुस्तानका गद्ग मिटजानेपर विक्रमी १९१७ ज्येष्ठ शुक्ल ९ [हि० १२७६ ता० ७ जिल्काद = ई० १८६० ता० २९ मई] के दिन आमेटके रावत् चत्रसिंहको तलवार बंधाई गई; और महाराणाका इन्तिकाल होनेके बाद रावत् अमरसिंह आमेटकी बराबर इज्जत पाकर एक जुदा उमराव बनायागया, जिसका जिक्र मौकेपर लिखा जायेगा.

अब हम यहांपर थोड़ासा हाल विक्रमी १९१४ [हि० १२७३ = ई० १८५७] के ग़दरका लिखते हैं, जो मेवाड़की तवारीखसे सम्बन्ध रखता है; इसका बाकी हाल अंग्रेजोंकी तवारीखके साथ पहिले हिस्सहमें लिखागया है.

विक्रमी ज्येष्ठ शुक्ल ६ [हि० ता० ५ शव्वाल = ई० ता० २९ मई] को शावर्स साहिब आबूसे उदयपुर आये, जिनको महाराणाने मेरठ और दिल्लीमें ग़दर फैलनेकी खबर सुनकर अपने चार सर्दारों सहित जगमन्दिर महलमें हिफ़ाज़तके साथ रक्खा. विक्रमी ज्येष्ठ शुक्ल ५ [हि० ता० ४ शव्वाल = ई० ता० २८ मई] को नसीराबादकी छावनीमें बगावत पैदा हुई, और नीमचमें भी ग़दर होनेकी खबर मिली, जिसकी बावत् कर्नेल ऐवट और नीमच व जावदके सुपरिन्टेण्डेण्ट कप्तान लायडने शावर्स साहिबको लिखा, कि रियासतकी फ़ौज लेकर बहुत जल्द नीमचकी तरफ़ आओ, यहां बलवा होने वाला है; और विक्रमी ज्येष्ठ शुक्ल ११ [हि० ता० १० शव्वाल = ई० ता० ३ जून] को लायड साहिबका भी एक खत ग़दर फैलनेके बारेमें उनके पास आया, जिसपर उन्होंने इस मुआमलहमें महाराणासे बातचीत की. महाराणाने विचारा, कि मेवाड़की हदमें अंग्रेजोंकी रक्षा करना हमपर एक ज़रूरी फ़र्ज़ है, और यह सलाह महाराणाके सलाहकारोंके सामने पुरतह होकर मेवाड़की तरफ़से वेदलाका राव बख्तसिंह रियासती फ़ौज समेत पोलिटिकल एजेण्ट शावर्स साहिबके साथ नीमचकी तरफ़ खानह किया गया, और एक खास रुक़ा महाराणाने अपने इलाक़ह के सर्दारों और हाकिमोंके नाम इस मज्मूनका लिखदिया, कि पोलिटिकल एजेण्ट को ज़रूरतके वक्त दिलोजानसे मदद दें, और हमारे हुकमके मुताबिक़ उनके हुकमकी तामील फ़ौरन् करें. उसवक्त शावर्स साहिबको यह खबर मिली, और उनके पास नीमचके तोपखानहका अफ़सर बार्नस और रोज़ साहिब भी आमिले. इसी अरसहमें कप्तान मैकडॉनल्डकी एक चिट्ठी शावर्स साहिबके पास इस आशयकी आई, कि यहांपर इसवक्त बहुत नाजुक हालत है, इसलिये मददगार लश्करकी ज़ियादह ज़रूरत है. यह चिट्ठी पढ़कर शावर्स साहिब मए बार्नस साहिब और राव बख्तसिंह व रियासती फ़ौजके उदयपुरसे खानह हुए, और रोज़ साहिब सफ़र वगैरहसे थक-जानेके सबब उदयपुरमें ही रहे. कप्तान शावर्स लिखते हैं, कि महाराणाका यह काम कुल राजपूतानहके लिये एक उम्दह नसीहत हुआ. इसके बाद प्रधान महता शेरसिंह रियासतके दूसरे मुलाज़िमों सहित उक्त साहिबसे आमिला. वह लिखते हैं, कि आमेट और बीजोलियाकी गोदनशीनीकी बावत् मेवाड़में फ़साद न फैलनेदेनेके मुआमलहमें भी महाराणाने मेरी सलाहके मुवाफ़िक़ बन्दोबस्त किया; और लेफ़्टिनेण्ट

कर्नेल ब्रुक और कप्तान आर० एम० एन्सलीने खैरवाड़ेकी भील कॉर्प्सको काबूमें रखने याने उसे बागी न होने देनेके अलावह उस पहाड़ी जिलेका प्रबन्ध बहुत अच्छा किया. उसवक्त शावर्स साहिबने महाराणाके दिलसे मदद देनेका कुल हाल कर्नेल ज्यॉर्ज लॉरेन्सको लिखभेजा. जब शावर्स साहिबको यह खबर मिली, कि नीमचसे भागेहुए ४० अंग्रेज, मेम और उनके बच्चे डूंगलामें बागियोंसे घिरे हुए हैं, और उनकी जान खतरेमें है, वह फौरन मए राव बख्तसिंह व मेवाड़ी फौजके १० बजे रातको डूंगलामें पहुंचे, और उन्होंने बागियोंको मारकर भगादिया. उसवक्त उन मुसीबत ज़दह अंग्रेजोंको दुश्मनोंके हाथसे सहीह सलामतीके साथ रिहाई पानेपर जो खुशी हासिल हुई, उसका हाल शावर्स साहिबकी तहरीरको देखनेसे अच्छी तरह जाहिर होसکتा है. राव बख्तसिंहने महाराणाके हुक्मके मुताबिक इन अंग्रेजोंको पालकी और हाथी घोड़ोंपर सवार कराकर उदयपुर भेजदिया, जहां महाराणाने उन्हें पीछोला तालाबके अन्दर जगमन्दिर महलमें बड़ी हिफाजतके साथ रक्खा, और उनकी खातिरदारी व हिफाजतके लिये अपने प्रधान महता गोकुलचन्दको तईनात करनेके अलावह खुद ने भी वहां जाकर उनकी हरतरहसे तसल्ली की, और दर्याफ्त करते रहे, कि उन्हें किसी तरहकी तकलीफ न हो. इस बारेमें एन्सली साहिबने एक रिपोर्ट की थी, जिसका मतलब यह है, कि कल महाराणा साहिब हमारे पास जगमन्दिरमें आये, और दर्याफ्त किया, कि हमको किसी तरहकी तकलीफ न हो, और छोटे छोटे बच्चोंको देखकर उनमेंसे हरएकको दो दो अश्रफियां दीं, और शामके वक्त उन्हें अपनी महाराणीके पास लेगये, जहां दो दो अश्रफियां अपनी तरफसे और दोदो महाराणीकी तरफसे उन्हें और देकर पीछा हमारे पास भेजदिया. महाराणा ऐसे सभ्य और दयालु हैं, कि इनकी बराबरी कोई दूसरा नहीं करसکتा.

डॉक्टर मरे साहिबने, विक्रमी १९२० वैशाख कृष्ण ४ [हि० १२७९ ता० १७ शव्वाल = ई० १८६३ ता० ७ एप्रिल] को शावर्स साहिबके पास एक चिट्ठी बतौर धन्यवादके भेजी थी, जिसका मतलब यह है, कि हम लोग आपके और महाराणा साहिबके बहुत इहसानमन्द हैं. आप सदरारोंके साथ डूंगला में पहुंचे, उसवक्तकी खुशीको मैं नहीं भूला हूं, वह वक्त बड़ा नाजुक था, यदि महाराणा साहिब हमारे बखिलाफ होते, तो हमको इस जमीनपर और कोई दूसरा बचानेवाला न था.

डॉक्टर मरे और डॉक्टर गेन दोनों नीमचके कैम्पमें थे, जब वहां गढ़ हुआ और छावनी जलाई जाकर तोपखानहके सार्जेण्ट सपल की एक मेम और दो बच्चे

मारेगये और बाकी अंग्रेज जान लेकर भागे, उसवक्त उक्त दोनों डॉक्टर भागकर केशूदा मक़ाममें आये, जो इलाक़ह मेवाड़में पर्गनह छोटी सादड़ीका एक गांव है; वहां के पटैलने दोनों साहिबोंको तसल्लीके साथ अपने यहां रखकर खाना खिलाया. पीछे से बागी सिपाहियोंने खबर पाकर उन्हें आघेरा, मगर पटैलने बड़ी बहादुरीके साथ मए चन्द रियासती सिपाहियोंके मुक़ाबलह करके बागियोंको हटाया, और उक्त दोनों साहिबोंको तसल्ली व खातिरदारीके साथ कहा, कि आप हमारे मिह्मान और पनाहमें आये हुए हैं, अगर दुश्मन होते, तोभी इस हालतमें आपकी हिफ़ाज़त करना हमपर फ़र्ज़ था. दूसरे दिन सादड़ीके हाकिमकी तरफ़से भी मदद आपहुंची, जिससे उक्त दोनों साहिबोंकी जान बच गई. महाराणाने इस नेक खिद्यतसे खुश होकर केशूदाके पटैलको अपने रूबरू बुलाया और उसे खिल्अत और कुछ ज़मीन बख़शी; इसी उत्तम कार्रवाईके एवज़में गवर्मेण्ट अंग्रेजीने भी कुछ रुपया नक़द बतौर इन्आम देनेके अलावह उसे एक कुआं खुदवा दिया. विक्रमी १९१४ आषाढ़ कृष्ण ५ [हि० १२७३ ता० १९ शव्वाल = ई० १८५७ ता० १२ जून] को शावर्स साहिब बागियोंका पीछा करतेहुए चित्तौड़गढ़पर पहुंचे, और वहांसे नीमच, नसीराबादके डाकखानोंका बन्दोबस्त करके कप्तान लायड और कर्नेल ऐबटके नाम नीमचको यह लिखभेजा, कि वहांपर किलेमें जो लेडियां और बच्चे हों उन्हें फौरन् उदयपुर पहुंचादो. इसके बाद विक्रमी आषाढ़ कृष्ण ८ [हि० ता० २२ शव्वाल = ई० ता० १५ जून] को वह मेवाड़ के लश्कर समेत सांगानेरमें पहुंचे, जहां हमीरगढ़ और महुवाके जागीरदार भी उनसे आ मिले. शावर्स साहिब चाहते थे, कि नीमचके बागियोंसे केकड़ीके रास्तेपर मुक़ाबलह करें. वह लिखते हैं, कि बड़ी भरोसादार मेवाड़की फ़ौज हमारे साथ थी. उक्त साहिब यहांसे रवानह होकर शाहपुराको गये, जहां खबर मिली, कि दिल्लीके पास बदलाकी सरायपर बागियोंसे बड़ी लड़ाई हुई. इसवक्त शावर्स साहिबका यह इरादह हुआ, कि नीमचके बागियोंपर हमलह करें, लेकिन बागी लोग आगे निकलगये, और उन्होंने देवलीकी छावनीको जलाकर बर्बाद करदिया, जहांसे एक अंग्रेज और दस औरतें तथा बच्चे जान लेकर भागे, उनको महाराणाके मुलाज़िमोंने जहाज़पुरमें पनाह दी. फिर नीमच और महीदपुरके बागी लोग चलेगये, और मऊ, इन्दौर व आगरमें भी बलवा खड़ा हुआ. बेगूके रावत् महासिंहने महाराणा के मन्शाके मुवाफ़िक़ मन्दसोर वगैरहकी तरफ़से भागकर आनेवाले अंग्रेजोंको पनाह दी, जिसके एवज़में गवर्मेण्ट अंग्रेजीसे उसे खिल्अत मिला. शावर्स साहिबने सलूवरके रावत् केसरीसिंहकी शिकायत इस सबबसे लिखी है, कि उसवक्त उसने

महाराणाको धमकी दी और बखेड़ा उठाना चाहा था. इसकी बावत् उक्त साहिबका बयान है, कि सर हेनरी लॉरेन्स साहिबने अपनी विक्रमी १९१३ माघ शुक्ल १२ [हि० १२७३ ता० ९ जमादियुस्सानी = ई० १८५७ ता० ५ फ़ेब्रुअरी] की रिपोर्टमें लिखा, कि सलूबर और भींडर दोनों ठिकानोंके सदाँर गद्दीसे खारिज कियेजाकर राजपूतानहके बाहिर निकालदिये जावें. इसपर मैंने रावत् केसरीसिंहके नाम एक खत इस मज्मूनका भेजा, कि यदि तुम महाराणाके बखिलाफ़ बखेड़ा पैदा करोगे, तो तुम्हें हेनरी लॉरेन्स साहिबकी रिपोर्टमें बयान की हुई तज्वीजके मुवाफ़िक़ सज़ा मिलेगी, जिसके जवाबमें उसने मुझको लिखा, कि मैं महाराणाके विरुद्ध नहीं हूँ.

इन दिनों नीमचकी छावनीमें अंग्रेज़ अफ़सरोंके पास भरोसेके लाइफ़ सिर्फ़ मेवाड़की फ़ौज थी, जिसमें किसीने यह अफ़वाह फैलादी, कि अंग्रेज़ लोगोंने तुम्हारा धर्म भ्रष्ट करनेके लिये आटेमें जानवरोंकी हड्डियां पीसकर मिलाई हैं, परन्तु मेवाड़के वकील कायस्थ अर्जुनसिंहने आटेको अपनी ज़बानपर रखकर उन लोगोंका यह सन्देह दूर करदिया. विक्रमी भाद्रपद कृष्ण ११ [हि० ता० २४ जिल्हिज = ई० ता० १५ ऑगस्ट] को उस फ़ौजके लोगोंने वगावतके आसार दिखलाये जो मददके लिये नीमचमें बुलाईगई थी, परन्तु मेवाड़ी फ़ौजकी मददसे बलवा दबायाजाकर तीन मुख्य उपद्रवी आदमी तोपसे उड़ादिये गये.

इन्हीं दिनोंमें मन्दसोरके नज्दीक कचरोद गांवमें एक हाजीने अपने तई दिल्लीके बादशाहका शाहजादह प्रसिद्ध करके ग़द्र उठाया. पहिली मर्तबह तो मन्दसोरके सूबहदार वगैरह संधियाके मुलाजिमोंने इस बलवेको दबादिया, लेकिन थोड़े ही दिनोंमें उस बनावटी शाहजादह और उसके वज़ीर मिर्जाने दो हजार आदमी एकट्टे करके मन्दसोरपर हमलह किया, जिसमें वहांका सूबहदार मारागया, शहरका ब्राह्मण जातिका कोतवाल मुसल्मान बनायागया, और कुमैदान व थानेदार ज़रूमी होकर कैदमें आये. शाहजादहने मालवेका मुरतार बनकर दस हजार आदमी एकट्टे करलिये, जिनमें ज़ियादहतर विलायती और मेवाती लोग थे, और मालवाके तमाम रईसोंको अपनी खिदमतमें हाज़िर होनेके लिये हुक़म भिजवाये, लेकिन रईस लोगोंने गवर्मेण्ट अंग्रेज़ीके मददगार बने रहकर उसकी तहरीरोंपर कुछ भी खयाल न किया.

अब हम यहांपर टोंक वालोंके हाथसे नीवाहेड़ा छीने जानेका हाल लिखते हैं, जो इस तरहपर है, कि मन्दसोरका बलवा बढ़ता हुआ देखकर नीमचके अंग्रेज़ अफ़सरों को फ़िक्र हुई, कि नीवाहेड़ा अपने क़बज़हमें लेलेना चाहिये, क्योंकि उन्हें यह अन्देशह था, कि वहांके मुलाजिम मुसल्मान हैं, जो अज़ब नहीं, कि मन्दसोरके बागियोंसे

मिलजावें, और यह क़स्बह बाग़ियोंके क़बज़हमें चलेजानेसे उन लोगोंकी ताक़त ज़ियादह बढ़जावे; और इसी मतलबकी एक अज़ी महता शेरसिंहने विक्रमी १९१४ आषाढ कृष्ण ६ [हि० ता० २० शव्वाल = ई० ता० १३ जून] को महाराणाकी खिन्नतमें भेजी थी. इसलिये विक्रमी आश्विन कृष्ण ५५ [हि० १२७४ ता० २८ सुहरम = ई० ता० १८ सेप्टेम्बर] को कर्नेल् जैक्सन साहिब दो तोप और पलटनोंके कुछ चुनेहुए सिपाही साथ लेकर नीमचसे रवानह हुए, और पोलिटिकल एजेण्ट शावर्स साहिबने भी मेवाड़की फ़ौज और सर्दारोंको मौक़ेपर रवानह करदिया. सुबहके वक्त कुल फ़ौज मए अंग्रेज़ी अफ़सरोंके नीवाहेड़ाके (१) पूर्व नदीके किनारेपर पहुंची, और शावर्स साहिबकी रायके मुवाफ़िक़ वहाँके हाकिमके पास पैग़ाम भेजागया, कि हम लोग कुछ दिन इस क़स्बहपर क़बज़ह रखेंगे. इसपर टैंकवाले नव्वाबके बख़्शीने पैग़ाम लेजाने-वाले चोबदारको क़त्ल करके शहरपनाहके दर्वाजे बन्द करादिये, तब तो लाचार अंग्रेज़ अफ़सरोंको मुहासरह करनेकी फ़िक्र हुई. नीवाहेड़ावालोंने भीतरकी तरफ़से क़स्बहकी पूरे तौरपर मज़बूती करके अंग्रेज़ी सेनापर तोपके गोले और बन्दूकोंकी बाढ़ मारना शुरू किया, जिनके मुक़ाबलहमें बाहिरसे भी बन्दूकें वग़ैरह खूब चलाई गईं, और देरतक लड़ाई होती रही. इस लड़ाईमें तिरासी पलटनका यंग नामी एक अंग्रेज़ और मेवाड़की फ़ौज (२) का एक चपरासी तोपके गोलेसे मारागया. पिछली रातके धक्के टैंकवालोंका बख़्शी नीवाहेड़ासे निकल भागा और मन्दसोरके बाग़ियोंके साथ जा मिला. सुबहके वक्त जब शावर्स साहिब, जैक्सन साहिब, महता शेरसिंह और अठाणाका रावत दीपसिंह और सहीवाला कायस्थ अर्जुनसिंह वग़ैरहने शहरपनाहपर चढ़कर हमलह करना चाहा, तो भीतरसे मुक़ाबलेका कुछ भी ढंग नज़र न आया, ख़बर कीगई तो क़िला दुश्मनसे ख़ाली पायागया. तब अंग्रेज़ी व मेवाड़ी फ़ौजने यह हाल देखकर क़स्बहपर फ़ौरन् अपना क़बज़ह करलिया, और क़स्बह नीवाहेड़ा मए ज़िलेके अमानतके तौरपर मेवाड़वालोंको सौंपा जाकर वहाँ का पटैल तोपसे उड़ादिया गया, क्योंकि जिस वक्त नीवाहेड़ामें अंग्रेज़ी चोबदार क़त्ल कियागया, उस समय यह पटैल भी शरीक था. विक्रमी १९१६ भाद्रपद कृष्ण ६ [हि० १२७६ ता० १९ सुहरम = ई० १८५९ ता० १९ ऑगस्ट] तक ज़िला नीवाहेड़ा मुलाज़िमान मेवाड़के क़बज़हमें रहा. इसवक्त बाजे अंग्रेज़ी अफ़सरोंकी तो राय थी,

(१) यह शहर ५१८१ फुट लम्बे, ८ फुट चौड़े और १२ फुटसे २० फुटतक ऊंचे पुरख़्तह कोटसे सुरक्षित है, जिसमें १९ बुर्जे हैं; और आबादी इसकी १००० घरके करीब है.

(२) मेवाड़ी फ़ौजमें महता शेरसिंह और जावद, नीमच ज़िलेके सर्दार शामिल थे.

कि नीवाहेड़ा मेवाड़में ही मिला दिया जावे, क्योंकि वह कदीम जमानहसे इसी मुल्क का हिस्सह था, लेकिन थोड़े अफ़्सरोंकी राय टौंकको वापस दियेजानेकी ठहरी; उन्होंने कहा, कि गवर्मेण्ट अंग्रेजीके अहदसे इस जिलेपर टौंकवालोंका कबजह है, इसलिये उन्हींको वापस मिलना चाहिये. ये दो मुस्तलिफ़ रायें पोलिटिकल अफ़्सरोंकी आपसकी नाइतिफ़ाकीके कारण थीं. इस मुअामलहके चन्द कागज़ात जो हमको मिले हैं, उनकी नक़्कें नीचे दर्ज कीजाती हैं:-

कप्तान चार्ल्स सोर साहिबके पहिले कागज़की नक़्क़.

॥ श्रीरामजी ॥

॥ सीधश्री उदेपुर सुभसुथाने सरब उपमा ब्राजमान लायक महाराजा धीराज महाराणाजी साहेब श्री सरूपसींगजी बहादुर एतान कप्तान चारलस सोर साहेब बहादुर ली ॥ सलाम मालुम करावसी; ईठाका समाचार भला हे आपके सदा भले चाहीअे अप्रच ॥ अरसा वरस दीनका होने आया के हीसाव आमदनी व परच नीमाहेडेका तयार होकर आजतक आया नही, चुनाचे मेंने महेताजीकु लीपा हे, ज्योके वदोवस्त नीमाहेडेका आपके तौरपर हे, इस वास्ते पीदमत मुबारीकमे लीषता हुंके आप महेता सेरसीघजीकु वास्ते तयार कर भेजणे हीसावके हुकम लीषाय भेजावामे आवसी; और कल मै नीमाहेडे गआ था, वहां देपा तो सामान जंगका थोडा नजर आया और तनषा सीपाहीयान वगेराकी भी चढी हे, सो माफीक दरपास्त महेता सेरसीघजीके रु० ॥ १५०००, पनरे हजार कचा वास्ते तयारी सामान जंग व तनपाह सीपाहीयानके ब दुकान सेट गणेसदास लषमीचंदजीके से भेजवाया गया, सो आपको मालुम रहे, और मीजाज मुबारककी पुसीके स्माचार हमसे ली० ॥ सं० १९१५ आसाड सुदी १५ ता० २५ जुलाई स० १८५८ ई० ॥ मुकाम छावणी नीमच दीतवार.

(अंग्रेजीमें साहिबके दस्तख़त).

कप्तान चार्ल्स सोर साहिबके दूसरे कागज़की नक़ल,

॥ श्रीरामजी.

॥ सीधश्री ऊदेपुर सुभसुथाने सरब ओपमा ब्राजमान लायक महाराजा धीराज महाराणाजी साहेब श्री सरूपसींगजी बहादुर एतान कप्तान चारलीस सोर साहेब बहादुर ली ॥ सलाम मालुम करावसी, यहांका समाचार भला हे आपका सदा भला चाहीये, अप्रंच ॥ केई दीन हुवा, के हमने बमुजब दरपास्त जरुरी साहेब एजेंट गवरनर जनरल राजपुतानेके आपके वकीलकी मारफत नीमाहेडेके कई सवाल वास्ते तुरत भेजणे जवाबके लीषवाया, सो आजतक जवाब आया नहीं. ईस वास्तेके चीठीका जवाब बहोत जलदीसे मंगवाया वो मुलतबी पडा हे, ईस वास्ते आपको लीषाजाता हे के एक बात बहोत जरुर हे, यानी तेसील आमदनी परगने नीमाहेडेकी के जीस दीनसे आपके अहलकारोंके सुपरद हुवा, सो आजतक कुल जमाका आंक ओर परचका जलदीसे हमारे पास भेजणा फरमावे, तफसीलवार लीषणा जरुर नहीं, सीरफ कुल जमा अर परचका आंक लीषावसी, जीसमें हम जलदीसे चीठीका जवाब लीषे; अब हमारे लीषणेमें जादा देरी नहीं होगा, अर दरसूरत मंगाणे साहेब अजंट गवरनर जेनरल राजपुतानाके तपसीलवार हीसाब भेजणा होगा, सो ईसका मुफसील हीसाब मेहेताजी गोपालदासजी अर सेठजी चादणमलजीकी लार जलदीसे भेजणा फरमावसी, ईसमें देर नहीं होवे; अर ईस परीतेके जवाब म्हे आप आपणी षवाहस नीमाहेडे रषणेकी अर हक दावा होवो मुफसील लीषावसी, ता० ६ नवंबर सन १८५९ ई० समत १९१६ काती सुद १२ सोमे. (अंग्रेजीमें साहिबके दस्तख़त).

मेजर विलिअम फ्रेडेरिक ईडन साहिबके कागज़की नक़ल.

॥ श्रीरामजी १ ॥

॥ स्वस्ती श्री सरवोपमा वीराजमान लायक महाराजा धीराज महाराणाजी श्री सरूपसीघजी बहादुर एतान मेजर वलीयम फरीडरक ईडन साहेब बहादुर लीषतुं सलाम

मालुम होय, अठारा समाचार भला छे आपका सदाभला चाहीजे अप्रंच ॥ ईन दीनोमे बदली कपतान सोर साहेब बहादुर कायम मुकाम अजंट मेवाड़की बहुकम हजुर नबाब मवोला अलकाब गवरनर जनरल बहादुर ओर कामपर फोजके ईलाकेमें हुई ओर मेजर टेलर साहेब बहादुर अजंट राज जेपुर अहोदे अजंटी मेवाड़के अंजाम देणेपर मामुर हुवे, यकीन हे के मेजर साहेब मोसुफ अनकरीब आपसे मुलाकात करेगे. जोके ऊदेपुर के मुकाम हमारी मुलाकात तषलीयेकी बमुजब आपकी मरजीके हुई थी, लेकिन अच्छी तरेसे के जिस्से आपकी दिलजमी होय पूरी नही हुई थी, अब जो आपको कुछ गुफतगु तषलीयेकी मंजुर होय तो मेजर साहब मोसुफके जरीयेसे अच्छी तरहसे होसकती हे, ओर हमने बमुकाम ऊदेपुर बरवषत मुलाकात दरबाब परगने नीमाहेडेके आपसे जीकर कीया था, ओर ये भी आपसे जाहीर कीया था, के कपतान सोर साहेब बहादुरने बतोर षुद तमाम परगना नीमाहेडा राज ऊदेपुरके सुपरद कीया था, ओर आपको भी मालुम था, के ईस बाबमें मंजुरी ओर रजाबंदी जरनेल जारज सेट पातरक लारनस साहब बहादुरकी न थी, बलके नामंजुरी जरनेल साहब बहादुरकी जाहर हुई थी; अब सदरसे हुकम वापस होणे परगणे मजकुरका रईस टोंकको हमारे नाम सादर हुवा हे, ईस बाबमे मेजर टेलर साहब बहादुर आप को लीषेंगे, वाजब ओर जरुर हे, के आप भी अहलकारान राजके हुकम फरमावे, के जब मेजर साहब मोसुफ नीमाहेडेमे आवे, ओर मोतमद रयासत टोंकको परगना मजकुर सुपरद करे, तो मुलाजमान ओर सीपाहे राज ऊदेपुर वहीसे बरदास्त होजाये. जोके आपके फुरमानेसे ऐसा मालुम हुवा था, के वापस होणे परगणे मजकुरसे आपके दीलमे कुछ षयाल हतक राजका हे, आप ईस षयालको दीलसे दुर फरमावे; असल हकीकत ये हे, के येह परगना बवापस बाजे सकके के कपतान सोर साहब बहादुरके दीलमे हुवा, अमानतके तोरपर सुपरद राज ऊदेपुरके कीयागया था, ओर आपकी तरफसे जो माफक दरषास्त साहब मोसुफके ईकरार अमानत रषणेका हुवा, येहे अमर अलामत षेरषाडी सरकार दोलत मदार अंगरेजीकी हे, अगर आपकी दोस्ती सीरकारके साथ यकीनी नहीं समजी जाती, तो परगना मजकुर आपके सुपरद क्यों होता; अब ईन बातोका हाल अगर मुफसल लीषा जाय, तो ईस कागजमे गुंजायस नहीं हे, ओर हमकु फुरसत भी नहीं हे, ईस्वास्ते जो कुछके जाहर करणा हे, आपके वकीलसे कहा जायगा. जोके मेजर टेलर साहब बहादुर दानसमंद ओर बहोत अपलाक वाले हे, यकीन हे, के आप साहब मोसुफसे राजी रहेगे; जोके आपने राहोरसम महोबतकी हमारे साथ ज्यादा रषी, जो या दोस्ती सर-

कार दोलतमदारके साथ ज्यादा की, कीसवास्ते के माफक दरषास्त हमारे, जो तबजो

अंतजाम षेराड अर अमुरमे कीये अमर वापस बंदोबस्तका हुवा, ईसवास्ते मुनासीब हे, के आप आयंदा भी मुतवजे बंदोबस्तके रहे, कै ज्यादा नामवरी आपकी उस्मे हे, वास्ते इतलाको लीषा हे, और आपके मीजाजकी पुसीके समाचार लीषावसी, ता० २७ मार्च सन् १८६० ईस्वी, मीती चेत सुदी ५ संवत १९१७ का.

(अंग्रेजीमें साहिबके दस्तखत).

मेजर टेलर साहिबके पहिले कागज़की नक़ल.

॥ श्रीरामजी १ ॥

॥ सीधश्री उदेपुर सुभसुथाने सरब ओपमा ब्राजमान लाअेक माहाराजा धीराज महाराणाजी साहेबश्री सरूपसीधजी साहेब बहादुर अेतान मेजर टेलर साहेब बाहादुर लीषावता सलाम मालुम करावसी, अठाका समाचार भला हे, आपका सदा भला चाहीअे अप्रंच ॥ पहेले ईससे षरीता कपतान च्यारलीस सोरज साहेब बहादुर कायम पोलेटीकल अजंट राज मेवाडका दरबाब सुपरत करने प्रगने नीमाहेडा आपके अेहलकारानको वास्ते चन्द रोजके ब तारीष २१ सीतंबर सन् १८५७ ईस्वीको आपके नाम लीषागया था, अब हुकम जनाव नवाब मुस्तताब मोला अलकाब गवरनर जनरल बाहादुरका दरबाब वापस दीअेजाने प्रगने मजकुरके नवाब साहेब वालीअे टोकको होगया हे, ईसवास्ते आपके पीदमत मुबारकमे इतला दीजाती हे, के आप अपने मुलाजमान मुतयने प्रगने मजकुर के नाम हुकम जारी फरमावे, के वे वास्ते सुपरद करने प्रगने मजकुरके मुस्तेद व तयार रहे, ताके बरवकत आने हुकम मुफसल मेजर इीडन साहेब बहादुर कायम मुकाम अजंट गवरनर जनरल बहादुर राजपुतानेके इस बाबमे प्रगणे मजकूर अहलकारान नवाब साहेब मोसुफको सुपरद कराया जायेगा, इतलाअेन मरकुम हुवा; और मीजाज

मुबारीककी पुसीका समाचार हमसे ली० ॥ ता० २ माहे अपरेल सन् १८६० ईसवी,
मीती चेत सुद ११ संमत १९१७, मु० छावणी नीमच सोमवार.

(अंग्रेजीमें साहिबके दस्तख़त).

मेजर टेलर साहिबके दूसरे कागज़की नक़ल.

॥ श्रीरामजी ॥

॥ सीध श्री उदेपुर सुभसुथाने सरब ओपमा वीराजमान लाअक महाराजा धी-
राज माहारानाजी श्री सरुपसीघजी साहेब बहादुर अेतान मेजर रावरट लवीस टेलर
साहेब बहादुर ली० ॥ सलाम मालम करावसी, अठारा समाचार भला हे, आपका
सदा भला चाहीजे अप्रच ॥ बाबत हीसाब नीमाहेडेके जो रपोट सदरको गडी थी,
आज जबाब ऊसका हजूर फेज जहूर नबाब गवरनर जनरल बहादुरसे ईस तौरपर
आया, के रु० ॥ ५५००००, अपरे पाच लाष पचास हजार नबाब साहेब बहादुर
वालीये टोकका बाबत हीसाब नीमाहेडेके जीमे रीयास्त उदेपुर चाहीये, मुनासब
हे, के अब वोहो रुपीया जलद अदा करे, ईस वास्ते आपको तसदीया दीया-
जाता हे, बफोर पोहोचने ईस परीतेके रुपीये मजकुर भेजावेदेसी, अगर ईसमे
तवकूफ होगा, तो रोज पोहोचने ईस परीतेसे सुद जेसा नबाब साहेब बहादुर
ममदुह म्हाजनोको देते हे, आपसे लीयाजावेगा; ओर मीजाज मुबारीककी पुसीका
समाचार हमसे ली० ॥ ता० ५ माह अगस्त सन् १८६१ ईस्वी मीती सावण वीद
१४ संवत् १९१८, मुकाम छावणी नीमच सोमवार.

(अंग्रेजीमें साहिबके दस्तख़त).

हम केवल अंग्रेजी अपसरोंकी नाइत्तिफ़ाकीको ही नीबाहेडा वापस टाँकवालोंको
मिलनेका कारण बयान नहीं करसक्ते, किन्तु मेवाड़के रियासती अहलकारोंमें भी उन
दिनों आपसमें बहुत कुछ नाइत्तिफ़ाकी चलरही थी, जिससे उम्दह तौरपर पैरवी

न होसकी; और रियासत टोंककी तरफसे इस मुआमलहमें पूरी पूरी कोशिश कीगई. यह बात आम तौरपर मशहूर है, कि यदि महता शेरसिंह लॉरेन्स साहिबके पास भेजा-जाता, तो नीवाहेड़ापर मेवाड़वालोंका पुरतह कबजह होजाता; लेकिन ऊपर बयान किये-हुए कारणसे न होसका, बल्कि महाराणाकी नाराज़गी महता शेरसिंहकी तरफ़ दिन ब दिन बढ़ती गई.

अब हम यहांपर ग़द्रका बाकी हाल फिर शुरू करते हैं. विक्रमी १९१४ कार्तिक शुक्ल ५ [हि० १२७४ ता० ४ रबीउलअव्वल = ई० १८५७ ता० २३ ऑक्टोबर] को ख़बर मिली, कि मन्दसोरके बागी लोग जीरणकी तरफ़ आते हैं, और यह ख़बर पाते ही उसी दिन शामके वक्त नीमचके सुपरिन्टेण्डेण्ट कप्तान लायड और कप्तान सिम्पसन मए दूसरे ११ अफ़सरों और करीब चार सौ सिपाही तथा दो तोपोंके नीमचसे उनके मुकाबलहको ख़ानह हुए. जीरणमें पहुंचनेपर बागियोंसे लड़ाई हुई, जो तादाद में चार सौ से ज़ियादह न थे. इस लड़ाईमें कप्तान रीड और कप्तान टूकर मारेगये, जिनमेंसे कप्तान टूकरका सिर काटकर बागियोंने मन्दसोरके दर्वाज़हपर लटकादिया, और ५ अंग्रेज़ अफ़सर घायल हुए. मुखालिफ़ोंने जीरणको ख़ूब लूटा, और अंग्रेज़ी अफ़सर फ़ौज समेत भागकर नीमचमें चले आये. कप्तान लायडने रिपोर्ट की, कि हमारी फ़तह हुई, और बागी लोग भागगये, लेकिन शावर्स साहिब अपनी कितावमें इस बयानको ग़लत बताकर बागियोंकी फ़तह होना लिखते हैं; और इसी सबबसे सौ सवार और पांच सौ या छः सौ अफ़ग़ान व मकराणी और बाकी ज़िलेके लुटेरे, जो तादादमें कुल दो हजार आदमी थे, मगरूर होकर मन्दसोरसे नीमचकी तरफ़ ख़ानह हुए. यह ख़बर सुनकर कप्तान बैनिस्टर उनके मुकाबलहको नीमचसे निकला, और कप्तान शावर्स साहिब भी मए तीन सौ मेवाड़ी सवारोंके उनसे जामिले, छावनीके करीब नालेपर मुकाबलह हुआ, शामतक गोलियां चलती रहनेके बाद अंग्रेज़ी अफ़सर मए मेवाड़ी सवारोंके क़िलेमें चले आये, और फ़ौजका कुछ हिस्सह बागियोंके साथ आधी राततक लड़ता रहा. आख़रकार सुबह होते ही बागी लोग छावनीमें घुसगये, और अंग्रेज़ अफ़सर मए थोड़ेसे पैदलोंके क़िलेमें रहे. कप्तान शावर्स साहिबने मेवाड़की फ़ौजसे यह बन्दोबस्त अपने हाथमें लिया, कि मुखालिफ़ोंकी लूट मारसे गिर्दौनवाह के मुल्कको बचावे, लेकिन बागी लोगोंने ग़ालिब आकर क़िलेको घेरलिया, और जावद, रत्नगढ़ व सींगोलीमें चन्द सिपाहियोंके साथ ज़लील लोगोंने मिलकर ग़द्र मचाया. अठाणाके रावत् दीपसिंहने अपने बालबच्चोंको तो पहाड़में भेजदिया, लेकिन क़िलेको मजबूत करके अंग्रेज़ी इलाक़हकी रिआयाको अपने पास पनाह दी.

काइमदीन चूड़ीगर दीनका भएडा खड़ा करके जावदका मुख्तार बना, यहांतक कि अठाणाके जुलाहे भी उसके शरीक होगये. इसवक्त अलीड़ा नामी एक जुलाहा अठाणाके रावत् दीपसिंहके पास आकर कहनेलगा, कि हमारा नाम अब अलीड़ा नहीं अलियारखां है, और यह कहा, कि हमारे बिस्तरोंकी गठड़ी दीनकी फौजमें पहुंचादो. तब रावत् दीपसिंहने कहा, कि इतने दिन हमारे सिपाहियोंकी गठड़ियां तू अपने सिरपर रखकर पहुंचाता था, अब अपनी गठड़ी लेजानेमें क्यों शरमाता है ? इसपर वह बड़बड़ाता हुआ चलागया, लेकिन अंग्रेजी फ़तह होनेके बाद उन जलील कौम जुलाहोंकी जान रहमदिलीके साथ रावत् दीपसिंहने बचाई. फिर विक्रमी मार्गशीर्ष कृष्ण ११ [हि० ता० २४ रबीउल्-अव्वल = .ई० ता० १२ नोवेम्बर] को कप्तान शावर्स साहिबने लेफिटनेण्ट फर्कहर्सनको अपने साथ लेकर बघाणा और निक्सनगंजमें बागियोंपर हमलह किया. इस मुकाबलहमें कप्तान शावर्स साहिबकी फ़तह हुई, और उधर मऊकी छावनीका लश्कर लेकर कर्नेल् ड्यूरेण्डने मन्दसोरको आघेरा. विक्रमी मार्गशीर्ष शुक्ल ७ [हि० ता० ५ रबीउस्सानी = .ई० ता० २३ नोवेम्बर] को मन्दसोरसे शाहजादह भागगया, और नीमचके बागियोंमें से भी कुछ लोग तो ड्यूरेण्डकी खबर सुनकर पहिले ही मन्दसोरको चलेगये, और कितने एक मारे और काटेगये. आखरकार नीमचकी छावनीमें फिर अंग्रेजी भएडा फहराया. कप्तान शावर्स साहिबके साथ इन हमलोंमें मेवाड़के दो आदमी शिवदास कावरा कामदार और बाघसिंह राजपूत मारेगये; शिवदासको कप्तान शावर्स साहिबने “ओसरी” लिखा है, जो अस्लमें “महेश्वरी” महाजन और महता शेरसिंहके मातहत कामदारोंमेंसे था. नीमचका गढ़ दूर होनेके बाद कप्तान शावर्स साहिब उदयपुरमें चले आये; और विक्रमी १९१५ आषाढ़ [हि० १२७४ जिल्हियज = .ई० १८५८ जुलाई] तक यहीं ठहरे. इन्हीं दिनोंमें उनको यह खबर मिली, कि ग्वालियरमें लूट खसोट करनेके बाद सर यूज रोज साहिबने राव साहिब और तांतिया टोपेको ग्वालियरसे निकालदिया. यह राव साहिब पेशवाकी औलादमेंसे एक पेन्शन्याफ़तह शरूख था, जो हिन्दुस्तानमें गढ़ होनेपर बागियोंका सर्दार बनगया. ग्वालियरसे निकलकर वह मेवाड़ की पूर्वी सीमापर जलन्धरीके घाटेके रास्तेसे मेवाड़में दाखिल होकर मांडलगढ़ आपहुंचा. मैं (कविराजा श्यामलदास) उसवक्त अपनी जागीरके गांव ठोकलियामें था, जो जिले मांडलगढ़में वाके है. यकीन था, कि वह बागियोंका गिरोह हमारे गांवमें होकर निकले, लेकिन वारिशकी जियादती और वनास नदीकी चढ़ाईके सबब ये लोग मांडलगढ़के करीब दो तीन रोज़तक पड़े रहे. महता स्वरूपचन्द और गोकुलचन्दने दो तीन हजार राजपूत वगैरह लोग एकट्टे करके किले मांडलगढ़को मजबूत किया. बागियोंने

किसी किस्मका नुकसान मेवाड़में नहीं किया, क्योंकि उनको इस बातका खौफ था, कि कहीं राजपूत लोग हमारी फ़ौजपर हमलह न करदेवें. नदीकी रोकसे इन लोगोंका इरादह सींगोली और रामपुराके रास्ते होकर नीमचकी तरफ़ जानेका था, लेकिन ब्रिगेडिअर पार्क और मेजर टेलरने मए अंग्रेजी फ़ौजके उस तरफ़का रास्तह रोकलिया, और कप्तान शावर्स साहिब भी मेवाड़की जमइयत समेत उदयपुरसे नीमच आपहुंचे; राव साहिबकी फ़ौजने बरूंदनीके पास बेड़च नदीको पार करके बरसल्यावास होतेहुए विक्रमी श्रावण कृष्ण १४ [हि० ता० २७ जिल्हिज = ई० ता० ८ ऑगस्ट] को भीलवाड़ेमें सकाम किया. शावर्स साहिब अपनी किताबमें बागियोंकी तादाद पांच हजार लिखते हैं, लेकिन उस समय मेरा (कविराजा इयामलदासका) बड़ा भाई औनाड़सिंह मए चन्द राजपूत सदाशेके जरूरी कामके लिये भीलवाड़े गया था, वह बयान करता था, कि हम लोगोंने बागियोंकी फ़ौजमें घुसकर देखा, तो वे लोग आठ या नौ हजारसे कम न थे, उनके पास नक़द व जेवर वगैरह बहुतसा माल था, लेकिन कपडे और खानेकी यहाँ तक कमी थी, कि मर्दोंके सिरपर औरतोंकी साड़ियां बंधी हुई थीं, और वे लोग एक एक रोटीका एक एक रुपया देनेको तय्यार थे. विक्रमी श्रावण कृष्ण १५ [हि० ता० २८ जिल्हिज = ई० ता० ९ ऑगस्ट] को शामके वक्त जेनरल रॉबर्ट्स मए अंग्रेजी फ़ौज और तोपखानहके आपहुंचे, और बागी फ़ौज भी लड़नेको तय्यार होगई. सांगानेरके करीब कोटेश्वरी नदीपर मुकाबलह हुआ, उस समय औनाड़सिंह अपने हम्माहियों सहित एक मीलके फ़ासिलहसे लड़ाई देख रहा था, और हम लोगोंको अपने गांवमें तोपोंकी आवाज सुनकर उनकी जान खतरेमें होनेकी बड़ी फ़िक्र होरही थी. थोड़ी देर मुकाबलह होनेके बाद बागियोंका लड़कर भाग निकला, और जेनरल रॉबर्ट्सको फ़तह नसीब हुई. ये लोग गोवर्द्धननाथके दर्शन करके नाथद्वारासे पीछे फिरे, और कोठारियाके पास विक्रमी श्रावण शुक्ल ६ [हि० १२७५ ता० ४ मुहर्रम = ई० ता० १४ ऑगस्ट] को जेनरल रॉबर्ट्सकी फ़ौज से दोबारह मुकाबलह हुआ. इस लड़ाईमें बागियोंकी फ़ौजके बहुतसे आदमी मारेगये, और उनकी चार तोपें रॉबर्ट्स साहिबने छीनलीं. इसके बाद ये लोग आकोलाके रास्ते चित्तौड़से दक्षिण तरफ़ होकर जाठ और सींगोलीको लूटतेहुए भालावाड़में पहुंचे, जहां राजराणा पृथ्वीसिंहकी फ़ौज बागियोंसे मिलगई, जिससे उनका बहुतसा माल असबाब, हाथी, घोड़े और तोपखानह वगैरह लूटाजाकर खुद राजराणा भी उनकी कैदमें आगये; लेकिन आधी रातके वक्त वह किसी बहानेसे निकल भागे; ब्रिगेडिअर पार्क बागियोंके पीछे लगाहुआ था. यहांसे निकलकर बागी लोग सेंट्रल इण्डियामें होतेहुए विक्रमी मार्गशीर्ष कृष्ण १३ [हि० ता० २६ रबीउरसानी = ई० ता० ३ डिसेम्बर]

को नर्मदाके किनारे छोटे उदयपुरमें पहुंचे, जहां ब्रिगेडिअर पार्कने उन्हें शिकस्त दी.

राव साहिब तो देवगढ़ बारियासे ही जुदा होगया था, और तांतिया टोपे कुशलगढ़के रास्ते होकर बांसवाड़े पहुंचा. रास्तेमें कुशलगढ़के ठाकुरने उन लोगोंसे मुकाबलह किया, और इस कार्रवाईके बदले उसने गवर्मेण्ट अंग्रेजीसे इन्आम पाया. इस वक्त करीब था, कि बागी फौज बांसवाड़ाको लूट लेवे; लेकिन मेजर लियरमाउथके फौज समेत आपहुंचनेपर तांतिया टोपे वहांसे भागकर सलूंवर, गींगला और भींडरकी तरफ आया. इन लोगों (बागियों) का इरादह था, कि उदयपुरमें आवें, लेकिन महाराणाकी तरफसे घाटों और पहाड़ी रास्तांपर पूरी मजबूती करादीजाने, और मददके लिये नीमचकी फौजके आपहुंचनेसे उनका इरादह पूरा न होसका. इसके अलावह उत्तरकी तरफका रास्तह मेजर रॉक और कप्तान शावर्स साहिबने रोक लिया, इसलिये ये लोग भींडरसे ही पहाड़ी रास्ते होकर प्रतापगढ़की तरफ पहुंचे. इसवक्त तीन चार हजार भीलभी इनके शरीक होगये थे, लेकिन वे लोग विक्रमी पौष कृष्ण ३ [हि० ता० १७ जमादियुलअव्वल = ई० ता० २३ डिसेम्बर] को मेजर रॉकके पहुंचजानेसे प्रतापगढ़को न लूट सके, और उन्हें शिकस्त पाकर भागना पड़ा. इस लड़ाईमें बागियोंके बहुतसे आदमी मारे व पकड़ेगये, और उनका हाथी घोड़ा वगैरह सामान भी छीन लियागया. तांतिया टोपे मन्दसोर होताहुआ जीरापुरमें पहुंचा, जहां कर्नेल बेन्सनने शिकस्त देकर उसके कई आदमी कत्ल किये. यहांपर बागियोंकी फौजमें बहुत थोड़े आदमी रहगयेथे, लेकिन फीरोजशाह नामी एक बागी दो हजार आदमियोंके साथ उनसे आमिला. फिर विक्रमी माघ शुक्ल १५ [हि० ता० १३ रजव = ई० १८५९ ता० १७ फेब्रुअरी] को ये लोग मेवाड़में कांकड़ोलीकी तरफ आये, लेकिन ब्रिगेडिअर समरसेट और कप्तान शावर्स साहिबके वहां पहुंचजानेसे बागी लोग पहाड़ोंमें होकर बांसवाड़ेके करीब पहुंचे, जहां समरसेट साहिबने उन्हें जा दवाया. तब बागियोंके सर्दार फीरोजशाह, नवाब अब्दुलशुतरखां और पीर हुजूरअली तो लाचार होकर अंग्रेजी पनाहमें समरसेट साहिबके पास आगये; और विक्रमी १९१६ चैत्र शुक्ल ४ [हि० ता० ३ रमजान = ई० ता० ७ एप्रिल] को तांतिया टोपे गिरिफ्तार होगया, जिसको फांसी मिली; मगर राव साहिबका पता नहीं लगा, कि वह कहां ग़ाइब होगया.

इस ग़दरका हाल हमने यहांपर उतनाही लिखा है, जितना कि मेवाड़से तअल्लुक रखता था. हिन्दुस्तानका मुल्क पहिले ईस्ट इण्डिया कम्पनीके तहतमें था, जो इस वगावतके बाद शाहान इंग्लिस्तानके खालिसहमें शामिल हुआ. इस बारेमें लॉर्ड गवर्नर जेनरल हिन्दने इश्तिहार वजरीए खरीतह मेवाड़के महाराणाके पास भेजा,

जिन कागज़ोंकी नकलें व तर्जमें नीचे दर्ज कियेजाते हैं:-

लॉर्ड कैनिंग साहिब बहादुर गवर्नर जेनरल व वाइसरॉय हिन्दके
फ़ार्सी ख़रीतह (१) का तर्जमह.

महाराणा साहिब आलीशान मुश्फ़क़ मिहर्बान जगह निकलने मिहर्बानी व एह-
सानके सलामत.

पीछे पहुंचाने रस्मों स्वाहिश बड़ी मुलाकात बिल्कुल मिहर्बानीके, जो क़लम दो
जवानकी तहरीर और ख़त कुशादह बयानकी तक्रिरमें नहीं समासकी है, रौशन दिलपर
जाहिर कियाजाता है. दोस्तदार उस मुश्फ़क़की वाक्फ़ियतके वास्ते नक़ल उस इश्ति-
हारकी, जो मलिकह मुअज़्ज़मह इंग्लिस्तानने हिन्दुस्तानके सब रईसों, सर्दारों और
कुल रिआयाके नाम जारी फ़र्माया है, इस ख़तके साथ भेजता है; और एक दूसरे
इश्तिहारकी नक़ल भी जिसको दोस्तदार बादशाही इश्तिहारके साथ जारी
करता है, इसी ख़तके साथ भेजता है. उम्मेद है, कि दोस्तदारको हमेशह खुशख़बरी
सिहत मिजाज दोस्ती मिलेहुए अपनेका चाहनेवाला ख़याल करके उसके लिखने और
इत्तिलासे राज़ी और खुश फ़र्माते रहें, ज़ियादह क्या लिखे.


(दस्तख़त) कैनिंग.

(१) نقل خريطه لارت كيننگ گورنر جنرل هند بنام مهارانا سروپ سنگه جي *

مهارانا صاحب عاليشان مشفق مهربان مصدر لطف و احسان سلامت *
بعد از تبليغ مراسم آرزوي گرامی مواصلت سرا سر عاطفت که گنجایش گیر تحریر بر خامه نوزبان
و تقریر پذیر نامه وسیع البیان نیست مشهور ضمیر منیر گون انیده می آید * مخلص بر ای
آگاهی آن مشفق نقل اشتہار کہ ملکہ معظمہ انگلستان بنام جملہ والیان و رئیسان و جمہور نام
ہندوستان جاری فرمودہ اند ملفوف رقمہ الودان ہذا ارسال میدارن * و نیز نقل اشتہار یکہ
اخلاص مند بشمول اشتہار نامہ شامی جاری میکند بلف نامہ ہذا ابلاغ میدارن * ترصد کہ اخلاص
آمارا هموارہ خواہان مژدہ صحاح مزاج تودد امتزاج تصور نمودہ بارقام و اطلاع آن محبوب
وشان مان میفرمودہ باشند * زیادہ چہ بر طرازن *

(Sd.) Canning.


ملکہ محمد علی شاہ کے اردو ایشیاء (۱)
کا ترجمہ.



مقام اہلہ آباد تاریخ پہلی نومبر سنہ ۱۸۵۸ ع.

نواب گورنر جنرل بہار کے پاس یہ حکم ملکہ معظمہ انگلستان کا پونچھا ہے کہ جو ایشیاء مبارک ہند کے والی اور سردار اور جمہور نام کو ملکہ مدد و حہ نے نافذ فرمایا ہے، سو مستحضر کیا جائے۔

ایشیاء.



اجلاس کونسل سے ملکہ محمد علی شاہ، ایشیاء ہند کے ریسوں، سرداروں اور
سب لوگوں کے نام.


ملکہ محمد علی شاہ ویکٹوریا، جو ایشیاء کی کراپا سے سولک ٹریڈنگ اور ایڈوانس،

(۱) نقل ایشیاء ملکہ معظمہ *



مقام اہلہ آباد تاریخ پہلی نومبر سنہ ۱۸۵۸ ع *
نواب گورنر جنرل بہار کے پاس یہ حکم ملکہ معظمہ انگلستان کا پونچھا ہے کہ جو
ایشیاء مبارک ہند کے والی اور سردار اور جمہور نام کو ملکہ مدد و حہ نے نافذ فرمایا ہے،
سو مستحضر کیا جائے *

ایشیاء



ملکہ معظمہ باجلاس کونسل بنام والیان و سرداران اور جمہور نام ملکہ ہند *
ملکہ معظمہ و کٹوریہ بفضل خد؛ مملکت گریٹ برٹن اور آئرلینڈ

और आवादियों, इलाकों यूरोप, एशिया, आफ्रिका, अमेरिका, और आस्ट्रेलेशियाकी बादशाह और धर्मकी सहायककी तरफसे नीचेकी तफ्सीलके मुवाफिक़ खास व आममें प्रसिद्ध कियाजाता है:-

जाहिर हो, कि कामिल वजूहातोंसे हमारी इस स्वतन्त्रताको हमने मजहबी और मुल्की अमीरों तथा आम रिआयाके मुस्तिथारोंकी सलाह और इत्तिफ़ाक़से, जो पार्लियमेण्टमें जमाहुए हैं, इस सलाहको धामलिया है, कि मुल्क हिन्दका इन्तिज़ाम, जिसका बन्दोबस्त आजतक अमानतन ऑनरेबल ईस्ट इण्डिया कंपनीके सुपुर्द रहा है, अपने अधिकारमें लावें.

पस इस कागज़की रू से हम इतिला देते, और जाहिर करते हैं, कि उक्त राय की सलाह और इत्तिफ़ाक़से हमने मुल्क मजकूरका इन्तिज़ाम अपने अधिकारमें लिया; और हम इस कागज़की रू से अपनी सम्पूर्ण प्रजाको, जो मुल्क मजकूरमें मौजूद हैं ताकीदन फ़र्माते हैं, कि हमारी और हमारे वारिसों तथा जानशीनोंकी वफ़ादारी व ताबेदारी करें; और जिस किसीको हमारे नाम और हमारी तरफ़से मुल्कके इन्तिज़ाम करनेके लिये आगेको समय समयपर मुक़र्रर करना मुनासिब समझें, उसकी फ़र्मावदारी किया करें.

जो फ़र्जन्द भाग्यवान, इज़्जतदार, भरोसेवाला और निज सलाहकार नव्वाब चार्ल्स जान वायकूट कैनिंग साहिबकी वफ़ादारी, लायकी, समझ और होश्यारीके

اور ابادیہاے اور مضافات واقعہ یورپ اور ایشیہ اور افریقا اور امریکا اور اسٹریل ایشیا کی ملکہ اور ظہیر المذہب کی طرف سے خاص و عام میں حسب تفصیل ذیل مشتہر کیا جاتا ہے *

واضح ہو کہ بوجوہ کاملہ ہماری اس آزادی کو ہم نے بصلاح اور اتفاق رائے امرائے ملتی اور ملکی کے اور مختاران عوام جو پارلامنت میں فراہم ہوئے مصمم کیا ہے کہ ممالک ہند کا انتظام جسکا انصرام آنرل ایسٹ انڈیہ کمپنی کو آجتک امانتہ مفوض رہا ہے اپنے اہتمام میں لاویں *

پس اس قرطاس کی رو سے ہم اطلاع دیتے اور اعلان فرماتے ہیں کہ بصلاح اور اتفاق رائے مذکورہ بالا کے ہم نے ملک مذکور کا انتظام اپنے اہتمام میں لایا اور ہم اس قرطاس کی رو سے ہماری جمیع رعایا کو جو قلم روم مذکور میں موجود ہیں تاکید فرماتے ہیں کہ ہماری اور ہمارے ورثہ اور جانشینوں کی وفاداری اور اطاعت کریں اور جس کسیکو ہمارے نام اور ہماری طرف سے ملک کے انتظام کرنیکے لئے وقت بوقت ایندہ مقرر کرنا مناسب سمجھیں اوسکی فرمان برداری کیا کریں *

اور جو فرزند ارجمند معزز اور معتمد علیہ مشیر

خاص نواب چارلس جان وائکونٹ کیننگ صاحب کی وفاداری اور قابلیت اور فہم اور فراست کے

निस्वत हमको भरोसा और पूरी दिलजमई है; इसलिये साहिब मौसूफको हमारी तरफ और नामसे मुल्क मजकूरका प्रबन्ध करनेके लिये, और उन कानून व आईनकी रिआयतसे, जो हमारे वजीरुल मुमालिकके जरीअहसे उसके पास वक्त बवक्त पहुंचे, अमल करनेके लिये हमारा पहिला काइम मकाम और गवर्नर जेनरल नियत किया.

जो कोई हालमें सर्कार ऑनरेबल ईस्ट इंडिया कंपनीकी नौकरीमें किसी मुल्की, या फौजी उहदेपर नियत हैं, इस कागजकी रू से सबको अपने अपने उहदेपर बहाल और काइम फर्माते हैं, परन्तु आगेको हमारी मर्जीके अनुसार रहें, और वे सब उन्हीं आईन और कानूनकी रिआयत करते रहें, जो आगे जारी किये जायेंगे.

हिन्दुस्तानके रईसोंको इत्तिला देते हैं, कि जिस किसी कौल करारको ऑनरेबल ईस्ट इंडिया कंपनीने आप जाहिर किया, या उनकी इजाजतसे करार पाया, उन सबको हम मंजूर और कुबूल करते हैं, और उनको वैसे ही बरतते रहेंगे; और उम्मेद है, कि रईसोंकी तरफसे भी उसी तरह तामील होती रहेगी.

जो मुल्क अबतक हमारे कबजमें है, उसको बढ़ाना नहीं चाहते हैं, और हमको गवारा नहीं होगा, कि कोई शख्स हमारे मुल्क या हकमें जबरदस्ती दरूल करे

نسبت ممکو اطمینان اور خاطر جمع کلی حاصل ہے اسلئے صاحب موصوف یعنی وائکونت کیننگ صاحب کو ممالک مذکور کے انتظام ہماری طرف اور نام سے کرنیکے لئے اور برمایت اون قوانین اور آئین کے جو ہمارے وزیر الممالک کے ذریعہ سے اوس کے پاس وقت بوقت پونچھ عمل کرنیکے لئے ہمارا قائم مقام اول اور ممالک مذکور کا گورنر جنرل مقرر کیا *

اور جو کوئی بالفعل کسی عہدے کیا ملکی کیا فوجی سرکار آئرل ایست انڈیہ کمپنی کی نوکری میں مامور ہے اس قرطاس کی رو سے سب کسیکو اپنے اپنے عہدے پر بحال اور قائم فرماتے ہیں مگر ہماری مرضی ایندہ مشروط رہے اور وہ سب اونہیں آئین و قوانین کی رعایت کرتے رہیں جو ایندہ نافذ کیجائیگے *

اور والیان ہند کو اطلاع دیتے ہیں کہ جس کسی عہد و پیمان کو خود آئرل ایست انڈیہ کمپنی نے ظہور میں لایا یا اونکی اجازت سے انعقاد پایا اون سبکو ہم پذیرا اور قبول کرتے ہیں اور انکی ایفا بعینہ کرتے رہینگے اور چشمداشت ہے کہ والیوں کی طرف سے بھی اوسیطرح تعمیل ہوتی رہیگی *

جو ملک بالفعل ہمارے قبضہ میں ہے اوسکا از دیان نہیں چاہتے ہمیں ہمکو گوارا نہوگا کہ کوئی شخص ہمارے مملکت یا حقوق میں دخل بجبر کرے

اور بدلا نہ پائے؛ اور اسی طرح کسی کے ملک یا دوسرے کے ملک میں قدم بٹھانا ہماری طرف سے منظور نہ ہوگا۔ ہندوؤں کے ملک، مرتبہ اور .ہندوؤں کے ملک اپنے ملک، مرتبہ اور .ہندوؤں کے برابر سمجھیں گے، اور ہم چاہتے ہیں، کہ ہندوستان کے ریسوں کو اور ہماری پوجا کو بھی ایسی نیک بختی اور .ہندوؤں کے ملک کی طرف سے، کہ جو ملک کی صلح اور نیک ہمتی سے پیدا ہوتی ہے، ملتی رہے۔

جو لہجہ میں اپنی دوسری ریشہ کی طرح ہمارے اوپر چاہیں، انہیں لہجہ میں ریشہ ملک ہندوؤں کے نسبت ہم اپنے جہمہ واجب جاننے ہیں، اور ہندوؤں کی طرف سے مہترتہ اور سچائی کے ساتھ لہجہ میں مہترتہ کی تامل کریں گے۔

اگرچہ ہم کو ہندوؤں کی مہترتہ کی بات پورا پوری ہے، اور دلچسپی سے جو اس سے ہوا کرتی ہے، ہم کو شکرگزار کی طرح ہے، تو بھی نہ تو ہم کو مہترتہ (مہترتہ) ہے، نہ چاہنا، کہ کسی ریشہ سے خواہ اپنے عہد کو قبول کرانے۔ ہمارا حکم بادشاہانہ اور مہترتہ ہے، کہ کسی ایک مہترتہ کو کسی دوسرے مہترتہ پر بدمعاش نہ دیا جائے، اور کسی ریشہ کو عہد یا مہترتہ کے سب سے ہندوؤں نہ دیا جائے، اور کانون کی طرح سے بغیر طرفداری کے سب ریشہ کی ہمت ہوتی رہے؛ اور ہماری طرف سے تاکید ہوتی ہے، کہ کوئی آدمی ہماری نوکری میں، جو ملک ہندوؤں کے

اور انتقام نپاویے اور علیٰ ہذا القیاس پیش قدمی کی بہ نسبت مملکت یا حقوق اور ہمارے ریشہ سے منظور نہ ہوگی والیان ہند کے حقوق اور منزلت اور عزت مثل اپنے حقوق اور منزلت اور عزت کے عزیز سمجھیں گے اور ہم کو آرزو ہے کہ والیان ہند کو اور ہماری رعایا کو بھی ایسی سعادت اور فن اخلاق کی ترقی جو کہ ملک کی صلح اور نیک انتظام سے پیدا ہوتی ہے حاصل ہوتی رہے *

جو لوازم بہ نسبت اپنی دوسری رعایا کے ہمارے اوپر عاید ہے انہیں لوازم کو بہ نسبت رعایا کے ممالک ہند کے ہم اپنے ذمہ واجب جانتے ہیں اور خدا کے فضل سے وفاداری اور راستی کے ساتھ لوازم مذکور کی تعمیل کریں گے * اگرچہ ہم کو مذہب عیسائی کے صدق کی نسبت یقین کلی حاصل اور تسلی خاطر ہے جو اس سے ہوا کرتی ہے ہم کو ساتھ شکرگزار کی اعتراف ہے تو بھی ہم کو نہ منصب ہے نہ آرزو کہ کسی رعیت سے خواہ مخواہ اپنے عقیدہ کو قبول کرانے ہمارا حکم شاہانہ اور مرضی ہے کہ کسی ایک مذہب کو کسی دوسرے مذہب پر ترجیح دی نہ جائے و کسی شخص کو بوجہ اعتقاد یا رسمیات مذہبی کے ایذا نہ دیا جائے اور سب رعیت کو قانون کی رو سے بغیر طرفداری کے محافظت ہوتی رہے اور ہماری طرف سے تاکید ہوتی ہے کہ کوئی متنفس جو ہماری نوکری میں ملک ہند کے

इंतिजामके लिये मुकर्रर हो, किसी रअय्यतके मज़हबी ऐतकाद और पूजाकी बावत् दस्तन्दाजी न करे, नहीं तो हमारा गुस्सह होगा.

यह भी हमारा हुक्म है, कि जहांतक होसके हमारी सब रअय्यत किसी कौमकी या किसी मज़हबकी हों, बिना छेड़छाड़ और तरफ़दारीके हमारी नौकरीमें ऐसे उह्देपर मुकर्रर कीजावें, जिसकी खिन्नतको तालीम, लियाक़त और दियानतकी नज़रसे बखूबी अंजाम देसकें.

हमको बखूबी मालूम है, कि हिन्दुस्तानके रईस ज़मीनको, जो उनके बुजुर्गोंसे मीरास पहुंची है, बहुत प्यारी जानते हैं, उनकी इस समझपर हम मिहर्बानीकी नज़र रक्खेंगे; और उनके हक़ जो ज़मीनसे तअल्लुक़ रखते हैं, सकारके हक़ अदा करनेकी शर्तपर हिफ़ाज़तमें रखना मंज़ूर है; और हमारा हुक्म है, कि क़ानूनकी तज्वीज़ और क़ानूनके जारीहोनेमें क़दीमी हक़ और मुल्क हिन्दके रस्म रवाज और दस्तूरोंपर पूरा लिहाज़ होता रहे.

बाज़े फ़सादी लोगोंने झूठी बात फैलाकर अपने देशियोंको बहकाया, और उनसे चौड़े बगावत करवाई और मुल्क हिन्दपर बला और आफ़त पड़ी; और ये हाल सुनकर हम को निहायत अफ़सोस हुआ, सो हमारी प्रभुता और ज़ोर इसतरह ज़ाहिर हुआ है, कि लड़ाईके मैदानमें बाग़ियोंकी बगावत दूर कीगई. अब हमारी मर्जी है, कि उन शरूसोंके निस्वत

انتظام کے لئے مقرر ہو کسی رعیت کے اعتقاد اور عبادت مذہبی کے نسبت دست اندازی
نکریے والا ہمارا غضب ہوگا *

اور یہ بھی ہمارا حکم ہے کہ جہاں تک ممکن
ہو ہماری سب رعیت کسی قوم یا مذہب کے ہون بلا تعرض اور طرفداری ہماری نوکری میں
ایسے عہدے پر مقرر کئے جاویں جسکی خدمت کو بلحاظ تربیت اور قابلیت اور دیانت کے
بخوبی انجام دے سکیں *

مگر بخوبی معلوم ہے کہ اہل ہند اون آراضی کو جو
اونکے بزرگوں سے وراثتہً پونچھی ہے بہت عزیز جانتے ہیں اور اونکی اس سمجھ پر ہم نظر التفات
رکھینگے اور حقوق اونکے جو کہ آراضی سے متعلق ہیں بشرط انکے مطالبہ سرکار کے محفوظ رکھنا
منظور ہے اور ہمارا حکم ہے کہ قانون کی تجویز اور بھی قانون کے نفاذ میں عموماً حقوق
قدیمی اور ملک ہند کے رسم و رواج اور دستوروں پر لحاظ ہوتا رہے *

بعض مفسد لوگ کلام دروغ پھیلا کے ہوطنوں
کو ورغلا یا اور ان سے بغاوت فاش کروائی اور ملک ہند پر بلا اور آف ب پڑی اور یہ حال سنکے
ممکن نہایت افسوس ہوا سو ہماری قدرت اور اقتدار اسطرح ظاہر ہوا ہے کہ معرکہ کے میدان
میں بغاوت باغیوں کی دفع کی گئی اب ہماری مرضی ہے کہ ان شخصوں کے نسبت

जो धोखे खाये और फिर ताबेदारीमें आना चाहें, उनके अपराध क्षमा करनेसे अपनी दयालुता प्रगट करें.

इस नीयतसे कि ज़ियादह खून न होने पावे और हमारे मुल्क हिन्दमें जल्द अस्त्र चैन होवे. हमारे काइम मक़ाम और गवर्नर जेनरलने एक ख़तमें यह उम्मेद दिलाई है, कि जो लोग ग़द्दके बुरे समयमें सर्कारी नुक़सान करनेके अपराधी हुए, उनमेंसे बहुतसोंके अपराध कई मुख्य शर्तों होनेपर क्षमा कियेजावेंगे, और जिनके अपराधोंने उनको दया होनेकी सीमासे बाहिर करदिया है, उन लोगोंपर जो दण्ड ठहरेगा, वह भी जाहिर करवाया है, सो हमारे काइम मक़ाम और गवर्नर जेनरलकी ऊपर लिखी बातोंको हम मंजूर और कुबूल करते हैं, और सिवा इसके नीचे लिखे मुवाफ़िक़ जाहिर फ़र्माते हैं, अर्थात्—

जिनके निस्वत साबित हुआ हो, या आगेको साबित हो, कि वे सर्कार अंग्रेज़ीकी रअग्रयतके क़त्लमें खुद शामिल हुए, उन लोगोंके सिवा दूसरोंकी बाबत् दयालुता प्रगट कीजावेगी; परन्तु क़त्लमें शामिल रहने वालोंके निस्वत इन्साफ़ इस बातको चाहता है, कि उनपर दया न हो.

जिन लोगोंने जान बूझकर कई क़ातिलोंको पनाह दी हो, या जो लोग वाग़ियोंके सदाँर बने हों, या बहकाने वाले हुए हों, उनके निस्वत केवल यही वादह

جو دھوڪا ڪھا ئے اور پھر اطاعت میں آئی چاہئے اون کي تقصیرات کے معاف ڪرئیے اپنے
ترحم کو ظاھر کریں *

اس نیت سے کہ زیادہ خونریزی

ھونے نپاوے اور ھمارے ممالک مند میں جلد امن چین ھووے ھمارا قائم مقام اور گورنر جنرل نے ایک خط میں یہ امید دلائی ہے کہ منجملہ اون اشخاص کے جو غدر مکروہ کے ایام میں جرم مضر سرکار کے مرتکب ھوئے اکثر کي تقصیرات بشرط بعض شرایط مخصوصہ کے معاف کیجا یگی اور جو سزا اون لوگوں پر عاید ھوگی جنکي تقصیرات نے آحاطہ ترحم سے اونکو باھر کیاھے اوسکا یہی اعلان کروایا ہے چنانچہ ھمارے قائم مقام اور گورنر جنرل کے عمل مذکور کو ہم پذیرا اور قبول کرتے ھیں اور علاوہ اس کے حسب ذیل اعلان فرماتی ھیں یعنی *

سوائے اون لوگوںکے جنکي نسبت ثابت ھوا ھو یا آئندہ

ثابت ھو کہ ویے رعیت سرکار انگریزی کے قتل میں بذاتہ شریک ھوئے ھو ھرونکي نسبت ترحم ظاھر کیا جایگا مگر بہ نسبت شرکاء قتل کے انصاف مقتضی اسبات کاھے کہ اون پر ترحم نہوے * جن لوگوں نے جان بوجہ کئے قاتلون کو پناہ دی ھو یا

جو لوگ باغبونکے سردار ھوئے ھون یا ترغیب دینے والے ھوئے ھون اونکي نسبت صرف یہی وعدہ

हो सक्ता है, कि उनको जीवदान दिया जावे; परन्तु ऐसे लोगोंकी सज़ाकी तज्वीज़में उन सब बातोंपर जिनके भरोसेपर वे अपनी ताबेदारीसे फिरगये, फिर गौर किया जायेगा; और उन लोगोंके निस्वत जो बे सोचे फ़सादियोंकी झूठी बातोंपर भरोसा करके अपराधी हुए, बड़ी रिआयत ज़ाहिर कीजायेगी.

दूसरे जो सरकारसे फिरहुए हथियारबंद हैं, उन सब लोगोंसे वादह होता है, कि उनके अपराध सरकारके निस्वत और हमारे राज्य व दरजेकी निस्वत बिना शर्त मुआफ़ किये और भुलादिये जायेंगे; परन्तु वे अपने अपने घरोंको जायें और अपने अपने पेशह सुलह व सहूलियतमें हाथ लगावें.

हमारी बादशाहानह मर्जी यह भी है, कि रहम और मुआफ़ीकी शर्तें उन्हीं सबोंसे तज़क़्क़ रक्खेंगी, जो तारीख़ १ जैनुअरी सन् १८५९ ई० के पहिले ऊपर लिखी शर्तोंके मुवाफ़िक़ अमल करें.

जबकि मुल्कमें ईश्वरकी कृपासे फिर अमन्नचैन होवे, तो चित्त मनसे हमारी इच्छा है, कि मुल्कहिन्दमें सनतकारीकी मज़बूती होवे, और प्रजाके फ़ाइदहके वास्ते कई काम, जैसा कि सड़क व नहर वगैरह बनें; और मुल्कका इतिज़ाम हमारी ऊपर लिखे मुल्ककी प्रजाके फ़ाइदहकी नज़रसे होता रहे. रअग्र्यतकी बेफ़िक्रीसे हमारी ताक़त

होसکتا है کہ اونکی جان بخشی ہووے لیکن ایسے لوگوںکی سزا کی تجویز میں اون سب احوال پر جنکے اعتبار سے وی اپنی اطاعت سے پہر گئے غور کیا جایگا اور اون لوگوں کے نسبت جو بے سوچے مفسد ونکی جہوٹی باتوں پر اعتبار کر کے مجرم ہوئے بڑی رعایت ظاہر کیجائیگی *

دوسرے اور سبھونکو جو سرکار کی مخالفت میں ہتھیار بند میں وعدہ ہوتا ہے کہ اونکی تقصیر سرکار کے نسبت اور ہماری سلطنت اور منزلت کے نسبت بلا شرط معاف اور عفو اور فراموش کیجائیگی مگر وہ اپنے اپنے گھروںمیں جائیں اور اپنے اپنے ہمیشہ صلح و سدا میں ہاتھ لگاویں *

ہماری یہ بھی مرضی شاہانہ ہے کہ رحم اور عفو کی یہہ شرایط انہیں سبھوں سے متعلق ہونگی جو قبل تاریخ پہلی جنوری سنہ ۱۸۵۹ع کے شرایط مذکور کے مطابق عمل کریں *

جب ملک میں خدا کے فضل سے بہر امن چین ہووے تو بدل و جان ہماری آرزو ہے کہ ملک ہند میں صنعت کا بڑی کی تقویت ہووے اور افادہ خلاق کے لئے کارہا مثل تیاری سڑک و نہر وغیرہ مرتب ہوویں اور ملک کا انتظام بنظر افادہ ہماری رعایا سے باشندہ ملک مذکور کے ہوتے رہے رعیت کے فرغبالے سے ہمارا اقتدار

और उनकी रज़ामंदीसे हमारी बेफ़िक्री है, और उनकी शुक्रगुज़ारी हमारे लिये पूरा बदला है; और सर्व शक्तिमान जगदीश्वर हमको और हमारे मातहत हाकिमोंको ऐसी ताक़त देवे, जो दुनियाको फ़ाइदह पहुंचानेके वास्ते हमारे इन्हीं मतलबोंको पूरा करें.

इश्तिहार.

जनाब नव्वाब गवर्नर जेनरल बहादुर हिन्द, मक़ाम इलाहाबाद,
तारीख़ पहिली नोवेम्बर सन् १८५८ .ई०, फ़ारिन डिपार्टमेण्ट.

ज़ाहिर हो, कि मलिकह मुअज़्ज़महने अपनी मर्जी मुबारकको इस तरह ज़ाहिर किया है, कि मलिकह मौसूफ़ह अंग्रेज़ी मुल्क, जो हिन्दुस्तानमें है, उसके प्रबन्ध को अपने अधिकारमें लावें, सो जनाब मौसूफ़हके क़ाइम मक़ाम और गवर्नर जेनरल बहादुर खास व आमको इत्तिला देते हैं, कि आजकी तारीख़से मुल्क हिन्दके प्रबन्ध सम्बन्धी कुल काम मलिकह मौसूफ़हके प्रसिद्ध नामसे जारी कियेजायेंगे.

आजकी तारीख़से हर फ़िके और कौमके लोग, जो ऑनरेबल् ईस्ट इंडिया कंपनीके अहदमें मुत्तफ़िक़ होकर इंग्लिस्तानकी शान और ताक़त बरकरार रखनेमें

اور اونکی قناعت سے ہماری بے خطری حاصل اور اونکی شکرگذاری ہمارے لئے پورا صلہ ہے اور خدا سے قادر ہمکو اور ہمارے حکام ماتحت کو ایسی قدرت دیوے کہ واسطے افادہ خلائق کے انہیں ہماری مرادوںکو تمام میں پونچھاویں *

اشتہار *

جناب نواب گورنر جنرل بہادر ہند مقام آلہ آباد
تاریخ پہلی نومبر سنہ ۱۸۵۸ ع فارنڈ پارٹمنٹ *
واضح ہو کہ ملکہ معظمہ نے اپنی مرضی مبارک کو اس طرح ظاہر کیا ہے کہ ملکہ ممدوحہ قلمرو انگریزی واقعہ ہند کے انتظام کو اپنے اہتمام میں لاویں پس جناب ممدوحہ کا قائم مقام اور گورنر جنرل بہادر خاص و عام کو اطلاع دیتے ہیں کہ جملہ اعمال متعلقہ انتظام ملک ہند آجکی تاریخ سے مغضرا لیا کے نام نامی سے جاری کئے جائیگے *

آجکی تاریخ سے ہر فرقہ اور قوم کے لوگ جو

انرل ایسٹ انڈیا کمپنی کے عہد میں متفق ہو کر انگلستان کی شان اور اقتدار برقرار رکھنے میں

कोशिश करनेवाले हुए; आगेसे मलिकह मुअज़्ज़महके ताबेदार खयाल कियेजावेंगे.

नव्वाब गवर्नर जेनरल बहादुरकी तरफसे सब लोगोंको फहमाइश कीजाती है, कि हर कोई अपने रुतबेके मुवाफ़िक मौक़ेपर जहांतक होसके अपने दिल और जानसे मलिकह मौसूफहके हुकम और सर्जिंके पूराकरनेमें, जो इश्तिहार शाहीमें दर्ज है, मदद करें.

मुल्क हिन्दमें मलिकह मुअज़्ज़महकी करोड़ों रिआया हिन्दुस्तानी मौजूद हैं, इन सबपर मलिकह मुअज़्ज़महकी वफ़ादारी और ताबेदारी लाज़िम है, सो नव्वाब गवर्नर जेनरल बहादुर मलिकह मुअज़्ज़महके हुकमपर सबसे हाल और आइंदह रहस और मेहरकी वफ़ा पूरी वैसीही चाहेंगे.

नव्वाब गवर्नर जेनरल बहादुरके हुकमसे जारी हुआ.

(अंग्रेजीमें) दस्तख़त-

सेक्रेटरी गवर्मेण्ट हिन्द फ़ारिन डिपार्टमेण्ट.

मलिकह मुअज़्ज़महके गवर्मेण्ट आफ़ इण्डियाका प्रबन्ध अपने तहतमें लेनेपर आम तौरसे खुशी ज़ाहिर होनेके बाद महाराणा स्वरूपसिंहने एक मुनासिब कार्रवाई यहकी, कि मुवारकवादीका एक ख़रीतह मलिकह मुअज़्ज़महके नाम भेजा, जिसका तर्जमह इसतरह पर है:-

ساعی ہووے ایندہ سے ملکہ معظمہ کے تابع متصور ہوئے *
نواب گورنر جنرل بہادر کی طرف سے سب لوگوںکو
فہمائش کی جاتی ہے کہ سب کوئی موافق اپنے رتبہ کے موقع پر حسی المقدور اپنے دل و
جان سے ملکہ ممدوحہ کے حکم اور مرضی مندرجہ اشتہار شامی کے انجام دینے کی اعانت
کریں *

ملک مند میں ملکہ معظمہ کی کرورہار عایاے
ہندوستانی موجود ہیں ان سب پر ملکہ معظمہ کی وفاداری اور اطاعت واجب پس سب سے
حال اور ایندہ نواب گورنر جنرل بہادر ملکہ معظمہ کے حکم پر رحم اور رحمت کی ایفاء یاوفا
بعینہ طلب کریں *

حسب الحکم نواب گورنر جنرل بہادر ہند جاری ہوا *

(انگریزی میں) دستخط۔

سکرٹری گورنمنٹ ہند فارن ڈیپارٹمنٹ *

महाराणाके खरीतहका तर्जमह.

खैरख्वाहीकी इज्जत और सलामके बाद—

शाही इश्तिहारमें जो बात जाहिर की गई, कि इंग्लिस्तानकी मलिकह हम लोगों पर हुकूमत करेगी, इससे इस अंधेरी जमीनपर रौशनी और खुशी फैली है, जिस तरह कि रातको चांद उगता है, मेरे दिलमें खयाल भरे हैं, उन्हींके सबब मैं आपको अपनी खैरख्वाहीका खिराज जल्दीके साथ अदा करता हूं, और खुद ब खुद जो मेरी खुशी जाहिर होती है, उसके साथ मैं इस बातका शुक्रियह शामिल करना चाहता हूं, कि आप अपनी हिन्दुस्तानी रिआयापर कैसी नज़र रखती हैं, जो इस बातसे जाहिर होता है, कि आपने हम सबोंको खुद अपनी ही हिफाज़तमें लिया है, और इस तौरपर उस बंधनको निकालदिया, जोकि कुछ दिनों पहिले बीचमें पड़ा हुआ था, और मुहब्बतके उस सिल्सिलेको मज़बूत करदिया, जिससे कि मेरा छोटे दरजहका तख्त नज़्दीक लाया गया, और आपके तख्तके साथ इस तौरसे बांधदिया गया, कि जुदा नहो सके.

हमारी विह्वरतीके लिये जो आपको लिहाज़ है उसके इस सुबूतकी खुशी, जो मैं भरोसा करता हूं, कि हिन्दुस्तानके तमाम रईस वैसेही मालूम करेंगे, जैसे कि मुझे इस बातसे ज़ियादह होती है, कि आपके शाही इश्तिहारमें ऐसी मिहर्बानीसे याद दिलाया गया है, कि आप हिन्दुस्तानके रईसोंके हुकूक, रुतबह, इज्जत और मज़हबपर वैसे ही लिहाज़ रखेंगी, जैसाकि वे खुद आपके ही हैं. मेरा मल्लब यह नहीं है, कि खुद मेरे संतोषके वास्ते यह इत्मीनान जरूर था, क्योंकि मुझे हमेशहसे इंग्लिस्तानकी मलिकह की बड़ाईपर भरोसा है, जो एक बड़ी ताकतवर कौमकी हाकिम होनेके सबब अपनी रक्षामें लियेहुए रईसोंकी तरफ़ अपने उदार चित्तके मन्शाको पूरा करसक्ती हैं.

मैं बड़े ग़दरके तै कियेजानेपर अपना धन्यवाद देना चाहता हूं, जो ग़दर कि इस मुल्कपर एक बदला लेनेवाले अवतारके समान होगया, मुझे उस नतीजेके बारेमें कुछ भी संदेह न था, जो मेरी उम्मेद और दुआके अनुसार पूरा हुआ है; मुझे इस

बातसे भी वैसीही खुशी हुई, जैसाकि फ़र्ज मालूम होता था, कि ख़तरेके वक्तपर अपने बहुतेरे मैत्री रखने वाले राजाओंको तसल्ली दी, और जब वे लोग अंग्रेजी फ़ौज की मददसे अलग होगये और मेरी सलाह मांगी, तब मैंने उनको वे फ़ायदे याद दिलाये, जो हम लोगोंको सकार अंग्रेजीकी हिफ़ाज़तसे मिले थे, कि आपके तस्त् और खुद आपकी तरफ़ अपनी ख़ैरख़्वाहीमें मजबूतीके साथ मेरे शामिल होवें. इन सब लोगोंने उसीके मुताबिक़ तमाम मुश्किलातमें मजबूत रहकर अपनी ख़ैरख़्वाही दिखलाई है, लेकिन बहुत थोड़ोंको यह नसीब हुआ, जैसेकि मेरा खुश नसीब हुआ है, कि अपनी न बदलनेवाली दोस्ती अंग्रेजी हुकूमतकी तरफ़ अंग्रेजी सिपाहियोंकी मदद और हिफ़ाज़त करनेसे दिखलाई जबकि वे मेरे इलाक़हमें आकर ठहरे थे, जिस वक्त कि वे बागी सिपाहियोंसे फंसा दियेगये थे.

जो अच्छी तब्दीलात कि गवर्मेंटमें अब कीगई हैं, उनसे हिन्दुस्तानको, जो अभीतक हालके ग़दरकी तक्लीफ़से बिल्कुल नहीं छुट गया है, वैसा ही असर हो जैसे कि आकाशसे वृष्टि होकर ज़मीनकी आग बुझाकर उसको तरों ताज़ा करे. जो फ़ायदे कि आप लाखों आदमियोंको उस कामसे पहुंचावेंगी, उसके खयालसे खुद आपके दिलको खुशी बढ़े और उसपर विचार करनेसे आपके शाही खानदानके तमाम लोगोंके दिलमें खुशी और हिफ़ाज़त करनेका खयाल पैदा करें. यह बड़ी उम्मेद और दुआ आपके ईमानदार और बहुत ख़ैरख़्वाह मुलाज़िमकी है.

उदयपुरकी राज्य मुद्रा.

इस वगावतका हाल यहांपर जितना मुनासिब था, लिखकर ख़त्म किया गया है. इस विषयमें मेरी (कविराजा श्यामलदासकी) यह राय है, कि राजपूतानहकी फ़ौजोंमें यदि राजपूतानहके रहनेवाले लोग भरती कियेजावें, तो ऐसी वगावत हर्गिज़ पैदा न हो; लेकिन शर्त यह है, कि सिपाहियोंमें राजपूत, मीणा, भील, गूजर व मेर वगैरह कौमोंके लोग हों, और कुल अफ़सर राजपूत कौमसे हों. सिवा इसके उनपर राजा लोगोंकी हुकूमत का भी पूरा पूरा असर रहे. तवारीख़ी हालातसे साबित है, कि राजपूतानहके राजपूत क़दीमसे वहादुर, ईमानदार और इहसानको मानने वाले हैं.

ऊपर लिखी हुई वगावतकी ख़ैरख़्वाहीका नतीजह जैसाकि हिन्दुस्तानकी दूसरी रियासतोंको मिला वैसा उदयपुरको नहीं मिला. महाराणाके लिये सिर्फ़ खिलअत और उनके

मातहत जागीरदार बेदलाके राव बरूतसिंह चहुवानको एक तलवार गवर्मेण्ट अंग्रेजीसे मिली; लेकिन इसमें गवर्मेण्टका दोष नहीं है. इसका अव्वल सबब तो पोलिटिकल एजेण्ट मेवाड़ और एजेण्ट गवर्नर जनरल राजपूतानहकी आपसकी ना इत्तिफ़ाकी, और दूसरा रियासती बड़े अह्लकारोंका विरोध था.

विक्रमी १९१३ कार्तिक कृष्ण ८ [हि० १२७३ ता० २१ सफ़र = .ई० १८५६ ता० २१ अक्टोबर] को चारण आढा कृष्णसिंह (१) के मरजानेपर उसका भतीजा रामलाल गोद लियाजाकर उसकी जगह काइम कियागया, जिसको विक्रमी कार्तिक शुक्ल १३ [हि० ता० ११ रबीउलअव्वल = .ई० ता० १० नोवेम्बर] को महाराणाने हाथी, खिलत और मोतियोंकी कंठी देकर गोवर्द्धनविलाससे उदयपुरमें उसके मकानपर भेजा.

देलवाड़के राज वैरीशालके कोई पुत्र न होनेके कारण सादड़ी राज कीर्तिसिंहके दूसरे पुत्र फ़तहसिंहको विक्रमी मार्गशीर्ष शुक्ल १३ [हि० ता० १० रबीउरूसानी = .ई० ता० ९ डिसेम्बर] के दिन गोद लियेजानेका नज़रानह लेकर महाराणाने उसे देलवाड़ा राजके पुत्रकी बैठकपर बिठाया. इस गोदनशीनीके लिये गोगूदाके राजने अपने पोतेके वास्ते बहुत कुछ कोशिश की. लेकिन महाराणा उससे नाराज़ थे, और सादड़ी व देलवाड़ा वाले दोनों सदाँर उनके दिली फ़र्माबदाँर थे, इसलिये गोगूदा वाले महरूम रहे.

विक्रमी १९१४ ज्येष्ठ शुक्ल ९ [हि० १२७३ ता० ८ शव्वाल = .ई० १८५७ ता० १ जून] को गोवर्द्धनविलासके महल और गोवर्द्धनसागर तालाब, पशुपतेश्वर महादेव तथा ऐजनस्वरूपविहारीके मन्दिरकी प्रतिष्ठा हुई (२). विक्रमी भाद्रपद शुक्ल १५ [हि० १२७४ ता० १४ मुहर्रम = .ई० ता० ४ सेप्टेम्बर] को नयपालके चौतरिया (राजवी) गुरुप्रसादशाहके बेटे हिम्मतबहादुरशाह और दलप्रकाशशाह दोनों नयपालके वज़ीर जंगबहादुरसे मुखालफ़त होजानेके कारण नयपालसे निकलकर यहाँ आये, और कुछ दिनों उदयपुरमें रहे; अब ये लोग नयपालकी सहाँदपर रहते और उसी रियासतसे पेन्शन पाते हैं. विक्रमी १९१५ द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण १२ [हि० १२७४ ता० २५ शव्वाल = .ई० १८५८ ता० ८ जून] को जोधपुरके महाराजाकी फ़ौज और अंग्रेजी रिसालह मेवाड़में कोठारिया मक़ामपर आये, और ज़ाहिर किया, कि यहाँके रावतने आउवाके ठाकुर कुशालसिंहको पनाहमें

(१) इसके बंशवाले सीसोदिया राजपूतोंके सिवा दूसरे राजपूतोंका दान नहीं लेते, क्योंकि महाराणा भीमसिंह दूसरेने कृष्णसिंहको सीसोदा गाँव देकर अजाची करदिया था.

(२) गोवर्द्धनविलास उदयपुर शहरसे दक्षिणकी तरफ़ दो मीलके फ़ासिलहपर है, जहाँ

उपरोक्त महल, तालाब, और दोनों मन्दिर बने हुए हैं.

रक्खा है. यह हाल सुनकर कोठारियामें रावत जोधसिंहके बहुतसे रिश्तहदार एकडे होगये, लेकिन् उक्त रावतने फ़ौजके आते ही अंग्रेजी अफसरको कोठारियाका क़िला दिखलादिया, कि यहां कुशालसिंह नहीं है, इससे सन्देह दूर होकर किसी तरहका फ़साद न होने पाया, और फ़ौज वापस चलीगई.

विक्रमी १९१६ वैशाख कृष्ण ८ [हि० १२७५ ता० २१ रमज़ान = ई० १८५९ ता० २५ एप्रिल] को उस हरिमन्दिरकी प्रतिष्ठा हुई, जो महाराणाकी माता बीकानेरीने पीछोला तालाबके किनारे जलनिवास महलके सामने बनवाया था. विक्रमी वैशाख शुक्ल ३ [हि० ता० १ शव्वाल = ई० ता० ५ मई] को कायस्थ मुनशी गुल्लू तीरोलीके जागीरदार राणावत केसरीसिंहको गिरिफ्तार करके महाराणाकी खिन्नतमें लाया. यह जागीरदार महाराणाकी शिकायत करनेवाले सर्दारोंका तरफ़दार था, और शैखावाटीकी तरफ़के डाकू राजपूतोंको पनाह देकर उनसे मेवाड़में डाकाज़नी व लूट खसोट करवाता था. उक्त मुनशीने बड़ी बहादुरीके साथ इस जागीरदारको गिरिफ्तार करके डाकुओंसे मुकाबलह किया, जिसमें कई डाकू लोग मारेगये, और उनका माल असबाब व घोड़ियां वगैरह छीन लाया. इस मुकाबलहमें खुद मुनशी गुल्लू भी सरुत जख्मी हुआ, जिसके इन्आममें महाराणाने उसको एक गांव और खिल्अत वगैरह बख्शा. यह कायस्थ बड़ा दिलेर, बहादुर और सिपाहियानह ढंगका पुराने नौकरोंमेंसे है. महाराणा ऐसे कामोंपर अक्सर इसी शरूस्को भेजते रहे. अगर्चि अब यह बूढ़ा होगया है, परन्तु अपनी दिलेरी और बहादुरीमें कम नहीं है. यह ज़ियादह जायदाद और इज़्जत पानेका मुस्तहक़ था, लेकिन् ज़वांदराज़ीकी आदत और किस्मतकी खूबीसे ना-उम्मेद रहा, तोभी महाराणा इसकी बहुत इज़्जत और खातिर रखते हैं. विक्रमी वैशाख शुक्ल १४ [हि० ता० ११ शव्वाल = ई० ता० १५ मई] को महता शेरसिंहसे सवातीन लाख रुपया दण्ड लियागया. विक्रमी ज्येष्ठ कृष्ण ७ [हि० ता० २० शव्वाल = ई० ता० २४ मई] को महाराणाका नज़दीकी रिश्तहदार वागौरका महाराज शेरसिंह अपनी जागीरके गांवमें इन्तिकाल करगया, और विक्रमी आषाढ़ कृष्ण ५ [हि० ता० १८ ज़िल्काद = ई० ता० २० जून] को शेरसिंहका पोता शम्भुसिंह मए अपने चचा समरथसिंह, शक्तिसिंह व सोहनसिंहके उदयपुरमें आया. महाराणाने कुछ अरसह पहिले शेरसिंहपर सरुतीका बर्ताव किया, जिससे वह नाराज़ होकर अपनी जागीर वागौरको चलागया था; इसवक्त उसका इन्तिकाल होजाने बाद महाराणाने उसके कुटुम्बियोंको उदयपुरमें बुलालिया, और शेरसिंहके बड़े पुत्र शार्दूलसिंहके बेटे शम्भुसिंहको लाइक व हक़दार जानकर

जो पहिले बागौर और मेवाड़की हकदारीसे खारिज करदियागया था, अपने अगले हुकमको मौकूफ रखकर उसे बागौरका वारिस बनाया. विक्रमी १९१६ आश्विन शुक्ल १२ [हि० १२७६ ता० ११ रबीउलअव्वल = ई० १८५९ ता० ८ अक्टोबर] को महता गोकुलचन्द प्रधानेके कामसे बर्खास्त कियागया. यह शरूस पुराने ढंगका सीधा सादा और अपने मालिकका खैरखाह व मज्हबका पाबन्द था. इसके प्रधानेमें महता गोपालदासकी सलाह और कायस्थ मथुरादासकी कारगुजारीसे काम चलता था; और गढ़के जमानहकी कारवाई उम्दह होनेके सबब यह नेकनाम हुआ. विक्रमी कार्तिक कृष्ण २ [हि० ता० १६ रबीउलअव्वल = ई० ता० १३ अक्टोबर] के दिन महाराणाने कोठारी केसरीसिंहको प्रधानेका खिल्अत बरखा, और उसे हाथीपर चढ़ाकर काका महाराज दलसिंहके साथ उसके मकानपर भेजा. यह शरूस शुरू हीसे महाराणके एतिवारी नौकरोंमें था; इसने रियासती जमा खर्चके अलावह और भी कई दूसरे कामोंका उम्दह बन्दोवस्त किया. विक्रमी मार्गशीर्ष कृष्ण ४ [हि० ता० १८ रबीउरस्सानी = ई० ता० १४ नोवेम्बर] के दिन कोठारी केसरीसिंह अडाणी व लवा वगैरे इज्जतका लवाजमह पाकर वेदलाके राव बरतसिंह समेत नीमच की छावनीमें इज्जतसे भेजागया, कि ये दोनों शरूस गवर्नर जेनरलके दरबारमें आगरे जावें. हमीरपॉलिटिकल एजेण्टने जरूरत न समझकर उन्हें नीमचसे ही वापस लौटादिया. मिस ई० माघ शुक्ल ६ [हि० ता० ५ रजब = ई० १८६० ता० २९ जैनुअरी] के दिन देलवाँडाके राज फतहसिंह वैरीशालोतको तलवार बंधाईगई, और इसी दिन महाराज चन्दसिंहको मए फौजके जहाजपुरकी तरफ रवानह किया, क्योंकि वहाँके मीनोंने उन दिनों बड़ा गढ़ मचा रक्खा था. महाराज चन्दसिंह महाराणा अरिसिंह तीसरेके खवास-वालोंमेंसे था, और महाराणा उसपर मिहबानी रखते थे. इसने उदयपुरसे रवानह होकर सींगोलीके जागीरदारबाबा मानसिंहके ठिकानेपर कब्जह करलिया. मानसिंह वहाँसे निकलकर शैखावाटीमें पहुंचा, जहाँसे ढूँडाड़ इलाकहके दो सौ या तीन सौ राजपूतोंको अपने साथ लेकर वापस मेवाड़में आया और लूटमार करनेके इरादहसे मांडलगढ़ जिलेके ग्राम दाणियांकी कोटड़ीमें घुसा; लेकिन वहाँके भोमिया कान्हावत गोपालसिंह, महताबसिंह, हमीरसिंह, बलवन्तसिंह, सूरजपुराके रौड़सिंह, इन्द्रपुराके राणावत रामसिंह, जशवन्तपुराके राठौड़ शेरसिंह, मेरे (कविराजा श्यामलदासके) चचा खुमाणसिंह, और छोटेभाई ब्रजलाल वगैरहने उसका मुकाबलह किया, जिसमें मानसिंहके दो तीन आदमियोंके सिर काटेजाने और इसी क़द्र आदमी व लः घोड़ियां पकड़लीजानेके बाद उसे अपने हथ्वाहियों समेत पीछा भागना पड़ा. इस मुकाबलहमें गोपालसिंह, बाबा मानसिंहसे बड़ी बहादुरीके

साथ लड़कर बन्दूकके छरोंसे जख्मी हुआ, जिसको महाराणाने जागीरमें कुछ जमीन, और ऊपर लिखेहुए दूसरे लोगोंको, जो मुकाबलह करनेमें शरीक थे, खिल्अत वगैरह दिये. कुछ दिनों बाद फिर मानसिंहने पर्गनह भीलवाड़ाके गांव पुरमें डाका डाला, और वहांके दो तीन महाजनोंका माल अस्बाब लूट लेगया. महाराणाका इन्तिकाल होजानेके बाद पंच सर्दारोंने उसकी जागीर सींगोली उसे वापस दिलादी.

महाराज चन्दसिंहने फौज समेत खैराड़में पहुंचकर पर्गनह जहाजपुरके गाड़ोली और लुहारी वगैरह गांवोंके मीनोंको खूब सजा दी, उनके गांव लूटलेनेके अलावह पांच या छः आदमियोंको तोपसे उड़वादिया, और बहुतसे मीना लोगोंको गिरिफ्तार करके हमेशह उनकी हाजिरी लीजानेका बन्दोबस्त किया, जो उस समयसे अबतक बराबर जारी चलाआता है. विक्रमी फाल्गुन कृष्ण १ [हि० ता० १४ रजब = .ई० ता० ७ फेब्रुअरी] को राजपूतानहके एजेण्ट गवर्नर जेनरल ईडन साहिब मए मेवाड़के पोलिटिकल एजेण्ट शावर्स साहिब व जयपुरके पोलिटिकल एजेण्ट टेलर साहिब वगैरहके उदयपुरमें आये, और नीवाहेड़ाके हिसाबी मुआमलह व सती होना बन्द करनेके मुकद्दमहमें बहुत कुछ बातचीत हुई. जब महाराणाने चौगानके दरिखानहमें उक्त साहिबोंकी रण प्रकृत बाजदीदका दर्बार किया और हाथी लड़ाये, उसवक्त अंग्रेजी रिसालहोना सख सिख सवारसे महाराज दलसिंहके चचाके बेटे भाई अजीतसिंहकी कुछ तक्रार वगैरह भए अजीतसिंह उस सवारपर तलवारका वार करके शहरमें चलाआया. इसपर तर्कोंमें है. लह बदला लेनेको तय्यार होगया, लेकिन जोकि अजीतसिंह महाराणाका नज़दीकी रिश्तहदार था, इस सबबसे ईडन साहिबने इस भड़की हुई आगको अपने ठंढे वचनोंसे बुझादिया. विक्रमी फाल्गुन कृष्ण ९ [हि० ता० २२ रजब = .ई० ता० १५ फेब्रुअरी] को उक्त साहिब लोग उदयपुरसे वापस रवानह होगये.

विक्रमी १९१७ वैशाख कृष्ण १३ [हि० १२७६ ता० २६ रमजान = .ई० १८६० ता० १९ एप्रिल] को कप्तान शावर्स साहिबकी एवज मेजर टेलर साहिब मेवाड़के पोलिटिकल एजेण्ट नियत होकर उदयपुरमें आये, और कई मुआमलोंमें रियासतसे बहुत कुछ बहस रही, लेकिन कोई बात टेलर साहिबकी सलाहके मुताबिक तै न पाई, जिससे वह रंजीदह होकर वापस चलेगये. विक्रमी ज्येष्ठ शुक्ल ९ [हि० ता० ७ जिल्काद = .ई० ता० २९ मई] को आमेटके रावत् चत्रसिंह पृथ्वीसिंहोतको तलवार बंधाईगई.

विक्रमी कार्तिक कृष्ण ७ [हि० १२७७ ता० २१ रबीउस्सानी = .ई० ता० ५ नोवेम्बर] को बीजोलियाके राव सवाई गोविन्ददासको तलवार बंधाईगई. इस

मुकद्दमहका हाल इस तरहपर है, कि बीजोलियाका राव सवाई केशवदास पंवार

मेवाड़के अन्वल दरजहके सर्दारोंमें छोटे नम्बरका जागीरदार था, उसके आमेटके रावत् प्रतापसिंहकी बेटीसे विक्रमी १८५६ [हि० १२१४ = ई० १७९९] में शिवसिंह पैदा हुआ, जिसके गिरधरदास, नाथसिंह और गोविन्ददास तीन बेटे हुए. गिरधरदास, जिसका विवाह भींडरके महाराज जोरावरसिंहकी बेटीके साथ हुआ था, और गोविन्ददास ये दोनों तो चावंडके रावत् सर्दारसिंहकी बेटीसे और नाथसिंह बेगूके रावत् प्रतापसिंहकी बेटीसे पैदा हुआ. परन्तु राव केशवदासकी मौजूदगीहीमें पहिले तो कुंवर शिवसिंहका इन्तिकाल होगया और बाद उसके गिरधरदास भी गुजर गया, इसलिये इन दोनोंके बाद केशवदासके ठिकानेका हकदार नाथसिंह रहा, लेकिन आपसकी नाइत्तिकाकी और गिरधरदास व गोविन्ददासके एक मासे उत्पन्न होनेके सबब राव केशवदासकी मन्जूरीसे गिरधरदासकी स्त्री शक्तावतने अपने पतिका दत्तक पुत्र गोविन्ददासको बनालिया; और विक्रमी १९०४ [हि० १२६३ = ई० १८४७] में राव केशवदासकी कई अर्जियां महाराणाकी खिदमतमें गुजरीं, जिनका मतलब यह था, कि गिरधरदास और उसका बेटा मरगया, और उसका इल्जाम नाथसिंहपर आया, इसलिये मैं अपने छोटे पोते गोविन्ददासको गिरधरदासका वारिस और मेरा हकदार बनानेके लिये हुजूरमें भेजताहूं, इसको हुजूर भी मन्जूर फर्मावें. इस बातकी कोशिश और अर्ज मारूजमें भदेसरका रावत् हमीरसिंह, सियाणेका पंवार देवीसिंह और सेठ जोरावरमल्ल थे. महाराणाने बीस हजार रुपया नज़ानह लेकर गोविन्ददासको गिरधरदासका दत्तक और राव केशवदासका वारिस मन्जूर करलिया, और नाथसिंहको सोलह सौ रुपया सालियानह आमदनीकी जागीरका मुस्तहक ठहराया. इस वारेमें जो तहरीरें हुईं, उनकी नकलें नीचे लिखी जाती हैं:-

महाराणाका रुक्का सेठ जोरावर-
मल्लके नाम,

॥ श्रीरामजी.

अप्रंच ॥ बीजोलिया राव सवाई केशोदासजीरा बेटा गोमदसीगजीने पाटवी बेटा कीदा, सो वारे नजराणारा रुपीया २००००, बीस हजार ठेरा, जीरो षत थे ज्माषात्रसु कीजो, थारा रुपीया करार मुजब पुगाए देगा, अर कदाचीत करार मुजब नही पुगे, तो अठासु ताकीद मेल रुपीया भराए देवाएगा; संवत १९०४ पोस सुद १५.

महाराणाका रुक्का राव सवाई केशवदासके नाम.

॥ श्रीरामजी.

अप्रंच ॥ अरज आड़ी समाचार मालुम हुवा, आप रावत हमेरसींगजी, पुवार देवीसींगजी, जोरावरमलजीके हाथ अरज कराडी, सो आपरे बेटा गोवीदसींगजीने आपरा पाटवी बेटारी बेटक वगसी हे, सो अबे आप जमा पात्र राषेगा, म्हां कीदी हे जीमे दुजी वेबा की न्ही, काडी अंदेसो राषेगा न्ही, संवत १९०४ म्हा वीद १ सुकरे, मुकाम नारे मगरे.

महाराणाका पर्वानह नाथसिंहके नाम.

॥ श्री रामोजयति.

॥ श्री गणेश प्रसादातु.


॥ श्री एकलिंग प्रसादातु.

सही

॥ स्वस्ति श्री ऊदयपुर सुथाने म्हाराजा धिराज म्हाराणाजी श्री सरूपसीघजी आदेसात् नाथसीघ कस्य

अप्र ॥ राव सवाई केसोदासजीके बेटा २ दोये हा, जणीम्हे छोटाने तो म्हे बीजोल्या को पाटवी कीदो, अर तोहे रोटी परच सारु रुपया १६००, सोला से ऊपजतारो गांम कराअे दीदो, जीरो मुकातो कर साहुकारी कराअे दीदी, संवत १९०५

रा सावण वीद १ थी, सो रुपया ३००, तीन से तो बीजोलियाकी छटुंद रहे ज्मा करावेगा अर रुपया १३००, तेरासे थने दीदा जावेगा, तीम्हे ६५०, तो सीयालुका पोस सुदी १५ ने, अर रुपया ६५०, ऊनालुका असाड सुद १५ ने दीदा जावेगा. ईम्हे कसर पाडेगा, तो थारो पाटवीपणो साबत वेगा, प्रवानगी प्रोथ सामनाथ, संबत् १९०६ ब्षे फागण वीद ८ सोमे.



ये हुकम एहकाम तो होचुके, लेकिन नाथसिंह और उसके ननिहाल याने बेगू के रावत् महासिंहकी तरफसे अर्ज मारूज होती रही; और इस मुकदमहमें भी आमेटके मुआमलहकी तरह दो फिके होगये, याने गोविन्ददासके मददगार सलूबर, भींडर, भैंसरोड़, और भदेसर, और नाथसिंहके मददगार बेगू व अठाणाके सर्दार बनगये; लेकिन राव केशवदासकी मौजूदगीमें इन लोगोंको तक्रारका कोई मौका न मिला. विक्रमी १९१३ [हि० १२७३ = ई० १८५६] में जब राव केशवदास गुजरगया, और गोविन्ददास, जो वहां मौजूद था, ठिकानेका मालिक बना, तब नाथसिंह अपनी ननिहाल बेगूसे मदद लेकर बीजोलियाके पर्गनहको तबाह और बर्बाद करने लगा, जिससे वहांकी कुल प्रजा घबराकर भाग निकली, और कभी कभी खफीफ मुकाबले भी होते रहे. इस बखेड़ेमें गोविन्ददासको भैंसरोड़की जमइयतसे हमेशह मदद मिलती रही, बल्कि भैंसरोड़का रावत् अमरसिंह उसके लिये हरएक मुआमलहमें हजारों रुपया खर्च करता रहा, और तर्फिनकी कई अर्जियां उदयपुरमें पेश होती रहीं. आखरकार विक्रमी १९१४ माघ शुक्ल २ [हि० १२७४ ता० १ जमादियुस्सानी = ई० १८५८ ता० १७ जैनुअरी] को बेगूकी जमइयतने बीजोलियापर हमलह किया, याने रावत् महासिंहका बड़ा पुत्र माधवसिंह और अठाणाका रावत् दीपसिंह दोनों दो हजार आदमी व दो तोप लेकर मए नाथसिंहके बेगूसे बीजोलियाको रवानह हुए. उसीदिन कुछ फासिलहपर पहुंचनेके बाद उक्त दोनों सर्दार तो मए जमइयतके ठहर गये, और अपने साथियोंमेंसे तीन सौ आदमियोंको आगे रवानह किया, जिनमें जियादहतर वावरी और मीना लोग थे. ये लोग वहां पहुंचे, परन्तु बीजोलियाके गिर्द बहुत ऊंची और पुरतह शहरपनाह होनेके सबब इनको भीतर जानेके लिये रास्तह न मिला, इसलिये सीढियोंके जरीएसे दीवारपर चढ़े, और भीतरवालोंके गाफिल रहनेकी हालतमें दो बुर्ज और एक दर्वाजहपर उनका कब्जह होगया; बीजोलिया वालोंके एक दो सिपाही जो बुर्जोंपर थे, मारडाले गये, कायस्थ रत्नलालके चार तलवारें लगीं, जिनसे वह सरत जख्मी हुआ, और दर्वाजहपर कायस्थ राधाकृष्ण मारागया; रात भर दोनों ओरसे गोलियां चलती रहीं. बेगूवालोंके करीब डेढ़सौ आदमी जो दीवारपर चढ़े थे, उनमें

बारह तो ठिकानेदार राजपूत, और बाकी बावरी व मीना लोग थे. सूर्य निकलनेसे पहिले मीना और बावरी लोग तो कोटपरसे उतर गये, जिनमेंसे दो चार आदमी तफैनकी गोलियोंकी चोटसे मारेगये, और एक दो दीवारसे गिरकर जख्मी हुए, बाकी सिर्फ बारह राजपूत दोनों बुर्जोंपर क़ाबिज़ रहे; और दिनभर गोलियां चलती रहीं. गोविन्ददासकी तरफ़के आदमियोंमेंसे कास्याका पंवार डूंगरसिंह, इन्द्रपुराका पंवार चन्दनसिंह, बौहरा लच्छीराम और मोहनलाल वगैरह पांच सात आदमी और भी मारेगये. जब थोड़ासा दिन बाकी रहगया, तब गोविन्ददासने यह सोचकर, कि अब रातका वक्त क़रीब आगया है बेगूवाले ज़ुरूर हमलह करेंगे, ढाँकड़्या चतुर्भुजकी मारिफ़त, जो उसवक्त उदयपुर की तरफ़से वहाँके ख़ालिसहपर मुक़र्रर था, सुलह चाही. इसपर चतुर्भुजने बीच बचाव करके यह फैसलह किया, कि नाथसिंह और गोविन्ददास दोनों बीजोलियामें रहें और उदयपुरमें जाकर जो फैसलह कि महाराणा उनके हक़में करें, उसको वे मन्ज़ूर करलें. इस बातको बेगूके सर्दारोंने भी मन्ज़ूर किया. आख़रकार बीजोलियाके बाहिर एक मन्दिरमें नाथसिंह और गोविन्ददास दोनोंने क़स्म खाई, कि इस इक्रारमें फ़र्क़ न करेंगे. इसी अरसहमें बाकी जमइयत लेकर कुंवर माधवसिंह और रावत् दीपसिंह भी आपहुंचे; परन्तु नाथसिंहने उन्हें कहलादिया, कि हमारे आपसमें सुलह होचुकी है, इसलिये आप यहां न आवें, आपके आनेसे शक़ पैदा होगा. इसपर ये दोनों सर्दार तो अपनी जमइयत लेकर वापस बेगूकी तरफ़ लौटगये, और गोविन्ददास यह कहकर क़िलेमें गया, कि मैं अभी नाथसिंहको बुलाता हूं; लेकिन फिर कहलादिया, कि आज रात होगई है, कल बुलावेंगे. इसी दिन कुल देर बाद भैंसरोड़से डेढ़ सौ वन्दूक़ची आगये, जिनसे गोविन्ददासने मज़बूत होकर दूसरे दिन नाथसिंहको कहलादिया, कि यहां से चलेजाओ; लाचार नाथसिंह निराश होकर बेगूकी तरफ़ चलाआया. यह हाल मैं (कविराजा श्यामलदास) ने अठाणाके हाड़ा पद्मसिंहकी ज़बानी सुना है, जो हमलह व लड़ाई करने और सुलह होनेके वक्त शरीक़ था, और जिसकी तरदीक़ ढाँकड़्या चतुर्भुजके वयानसे हुई. फिर नाथसिंहने एक दो वार बीजोलियाके पर्गनहमें धावा किया. इसी अरसहमें अठाणाका रावत् दीपसिंह गुज़रगया, जो इस मुअ़ामलहमें बड़ा मददगार था, लेकिन कुंवर माधवसिंहको इस बातकी शर्मिन्दगी थी, कि कृष्णावतोंका भानूजा गोविन्ददास तो हक़दार न होनेपर भी ठिकानेका मालिक बने, और बेगूका भानूजा नाथसिंह हक़दार होकर महरूम रहे; इसलिये उसने पांच सौ आदमी सर्वन्दी नये नौकर रक्खे, और विक्रमी १९१६ वैशाख [हि० १२७५ रमज़ान = ई० १८५९ मई] में वह दो हज़ार आदमियोंकी भीड़भाड़ लेकर बीजोलियाकी

तरफ़ चढ़ा, उसवक्त में (कविराजा श्यामलदास) बेगूमें मौजूद था. कुंवर माधव-सिंहने बीजोलियासे १२ कोस मैनाल मक़ामपर ठहरकर रातके वक्त अपनी कुछ जमइयतको वहां भेजा, लेकिन क़िले वालोंके ख़बर्दार होजानेसे इसवक्त उसे नाउम्मेदी हुई. अगर्चि कुंवर माधवसिंहका इरादह सच्चे दिलसे फिर भी हमलह करनेका था, परन्तु नाथसिंहकी बदकिस्मतीसे उसका इन्तिक़ाल होगया; माधवसिंहके मरनेसे गोविन्द-दासके दिलका भय दूर होगया, और महाराणाने उसको बीजोलियाका मालिक बनादिया, जो अबतक मौजूद है. कुछ अरसह बाद नाथसिंह भी ना उम्मेदीकी हालतमें मरगया.

अब हम यहाँपर वह हाल लिखते हैं, जो महाराणा और उनके सर्दारोंके बखेड़ेसे तअल्लुक़ रखता है. इस बखेड़ेका शुरू तो महाराणा सर्दारसिंहके समयसे ही होगया था, लेकिन इसवक्त महाराणा स्वरूपसिंहने भी चाहा, कि छटूंद चाकरीकी सफ़ाई कीजाकर सर्दारोंको अपना पूरा फ़र्मावर्दार बनावें, और इसी मन्शासे उन्होंने सलूबर, देवगढ़ व आसींदके कई गांव जब्त करलिये. मांडलगढ़की तरफ़ दौरह हुआ, उसवक्त देवगढ़का रावत् रणजीतसिंह महाराणाके सामने पालकीपर सवार होकर निकला (१), इसपर महाराणाने नाराज होकर उसे कहलादिया, कि अपने ठिकानेको चलाजावे. आख़रकार यह ना-इत्तिफ़ाकी दिन बदिन बढ़ती रही. जब सलूबरका रावत् पद्मसिंह गुज़र गया, तो उसके बेटे केसरीसिंहने यह उज़्र पेश किया, कि महाराणा मातमपुर्सीके लिये हमारे ठिकाने सलूबरमें आकर मुभ्को उदयपुर लेजावें. इसके जवाबमें महाराणाने फ़र्माया, कि ऐसे मौक़ेपर ठिकानेमें जानेका दस्तूर वलीअहदका है, और वलीअहद नहीं है, इसलिये हमारे काका दलसिंहको सलूबर भेजेंगे (२). इस तरहकी बहुतसी तक्रारकी बातें होनेपर पोलिटिकल एजेण्टके पास शिकायतें पेश हुई. पोलिटिकल एजेण्टने खानगी मुआमलातमें दस्तन्दाजी करनेसे इन्कार किया; लेकिन महाराणाकी तरफ़से इजाज़त होनेपर विक्रमी १९०७ [हि० १२६६ = ई० १८५०] में पोलिटिकल एजेण्ट कप्तान शावर्स साहिवने सलूबरके रावत् केसरीसिंहको एक ख़त लिखा, और उसके साथ रियासतकी फ़र्मावर्दारी कुबूल करनेकी गरजसे चन्द क़ल्में लिख भेजीं, जिनका जवाब रावत् केसरीसिंहने लिखा, और उसका दरजवाब रियासतकी तरफ़से दियागया, उन कागज़ोंकी नक़्कें

(१) महाराणाकी सवारीमें या उनके सामने पालकीपर सवार होकर कोई नहीं चलसक्ता. यदि इत्तिफ़ाक़से कोई शख्स महाराणाकी दृष्टिके सामने आजाता है, तो वह फ़ौरन् पालकीसे उतर-जाता है, और न उतरना बेअदबी समझा जाता है.

(२) यह रावत् केसरीसिंहकी जिद थी, वर्नह पेशवाई व तलवारबन्दी वगैरह मौक़ोंपर वलीअहद न होनेकी हालतमें नज्दीकी रिश्तहदार भेजे जाते हैं; इसलिये इन महाराणा (स्वरूपसिंह) के समयमें ऐसे मौक़ोंपर काका महाराज दलसिंह भेजे जाते थे.

नीचे दर्ज कीजाती हैं; केसरीसिंहके जवाबी कागज़की नक़ यहाँ इसलिये नहीं दीगई है, कि उसका मतलब रियासती दरजवाबी कागज़में आगया है:-

कप्तान शावर्स साहिबका कागज़ रावत् केसरीसिंहके नाम.

नकल. लंबर १५६. ॥ श्रीरामजी.

نقل مطابق اصل است
طالب عالی مقام منشی
اجتبی میروار *

अंग्रेजीमें साहिबके दस्तखत-

॥ नकल कागद साहेब अज्ठ मेवाड नाम रावतजी श्री केसरीसीघजी सलुवर—
अप्रंच ॥ सलुवरके जादती, हुकुम अदुल हरकताका पाना मेरे पास
आया, सो मेरी नीगाह तो जेसी श्री दरवारकी रीआसत हुकुमतपर
हे वेसीही सीरदारोके ठीकाणे वः इजत हुरमत प्र छे; मैने न्ही
चाहा वेदरीयाफत हाल दुसरी तरफके श्री दरवारने सरदारोका वंदोवस्त वास्ते
फोज मदद चाही, उसकी दरपास्त श्री सीरकार दौलतमदार करु; ई सबव
राजके मातमदांसे लीषाकर जुवावका पाना लीया, अर जुवांनी भी पुछ्या और
दोनु तरफकी वात मुनासीव और ज्यादे नज्र आया. उससे राजका हक वः इजत देष
कम कराया, और बाकी रहा हे, सो मेरी दानीस्तमे वाजवी मालुम हुवा; राजकुं
चाहीअे अेह पानेकु देष वाते वाजवी कवुल कर मेरे सलाह देणेपर राजी हो. माहाराज
दलसीघजीके साथ जाणेमें फाअेदा स्मज पका इरादा श्री दरवारमें जाणेका कर मुझे
इतला करो, कुछ इजतकी हतक न्ही; और आवरुमें फरक आता देषता, तो मै हरगीज
सलाह न्ही देता, राज मेरी सलाहकु हर सुरतसे फाअेदा, बहेत्री, नेकनामी, स्यामधरमी
आपणी स्मजे, और राज आपणे ठीकाणेकी इजत आवरु प्रे नीगाह रष मेरी सलाहसे
राजी पुसी हो इतला देणा, सो मै श्री महाराणा साहेबकु लीष महाराज दलसीघ-
जीकु सलुवर भेजाअे राजके लेजाणेकु लीष भेजुं; और अैसा न हो के गफलत
और वेपरवाडीमे श्री दरवारकुं नाराज कर ठीकाणेका नुकसान बीगाड करो,
कारण अे थोडे लीषेकु बहोत स्मज जुवाव जलदी लीषावसी, सं० १९०७ काती सुदी ४,
ता० ८ नवम्बर स० १८५० ई० मु० छावणी पेरवाडा.

सलुंवरकी बाबत कलमबन्दी.

॥ श्रीरामजी.

सलुंवरके बा (व) त इतना होणा (चा) वे.

- १ नोकरी, ताबेदारी, पेदास माफक आका हमेसका दसतुर माफक करवो करै.
- २ कीसी दुस्त्रा स्रदार फीसादी श्रीदरबार नाराज होवे, जीनसे मीलावट न्ही रषे.
- ३ नजराणो बषत जरुरतके माफक ओर सरदारो के देवोकरे राजकी बेत्री, नाम-वरी, हुकुमतके वासते
- १ व्याव स्यादी. २ गादी वीराजे जद. ३ तीरथ जात्रा पदारे जद.
४ कोडी जाण्या स्वाए मोटो परच आजवे जद.
- ४ श्री महाराणा साहेबके गादी बराजणेका नजराणा सब स्रदारोंने दीआ, अर सलुवरप्र बाकी है, सो देवे
- ५ रावतजीकु लेवा काका दलसींघजी सलुंवर जावे, रावतजी ऊदेपुर आवे जद हवेली श्री दरबार मोषाण पदारे
- ६ महीकाठा, वागड वगरे गेर इलाषाकी नालसोका फेसला पंचाएतसे हुवा, जीसका रीप्या हस्यावकी रुसे बाकी हे, सो व्याजसु दाषल करे
- ७ गेर इलाषेकी नालस्याका फेसला जलदी करता रहे, असामी वगेराकु श्रीदरबार मे बुलाणेका काम पडे, तो बीना ऊजर हीले बाहेनेके भेजदेवे
- ८ इीनके पटेका बंदोवसत चोरी, लुट, बेपारी, मुस्याफर, डाक वगरेका रषे, इीसकी ज्वाबदेही अपने ज्मे स्मजे

९ अगले कसुर अदुल हुकमी करी, जीसका जरीमाना देवे और आगेकु ताबेदारी
ईकतीआर करे, और जीन गामाकी जपती काकड वगैरेकी तकरारके सबब
हे, जीसका वाजबी फेसला कराए सब गांमांकी ऊठंत्री कराए लेवे

१० श्री दरबारकी घातरीका रीप्याका करारनामामे लीषी हे उस माफक सरदाराकी
पंचात्रेतसे फेसला पावे

रावत् केसरीसिंहके जवाबोंका रदिया.

॥ श्रीरामजी.

॥ सलुंबर रावतजी केसरीसीधजीने सवालका जवाब गुजराणा, जीसका दर-
जवाब

नजराणा ताबे लषे हे, नजराणा बराड हमारे लागे न्ही, अणी सीवाअे नामा होअे
तो दीषावजे, सो ईनोके बडोने हमेस नजराणा बराड दीआ, सो हमारे पास फरद
मोजुद हे; फेर महाराणाजी श्री भीमसीधजीने गीगला वगैरे रुपके गाम पालसे कर
रु १८०००, डंडके लेकर अठुत्री करदीदी, और माहाराणाजी श्री जवानसीधजी गयाजी
पदार पाछा पदारया जद सब सरदारोने नजराणा दीया, जद रावत पदमसीधजीने भी
नज्राणा दीया, सो रुप्या ९०००, तो प्रभारा सेट जोरावरमलजीके बयामें ज्मा परच हे,
अर रु १००००, का जेवर, असवाब नजर कीना, ज्मे रु १९०००, दीया. अैक दफे रावत
पदमसीधजीने कलंगीप्र मोती लगाया, सो मोती तो तुडवाअे दीया और रु ११००,
जरीमानाका कीया, सो रावत पदमसीधजी, तो सरसतेसे वाकव थे, सो अरज कराई,
मे करजसे हलका होजाऊ अर नजर करुंगा; उस बातकु ४ बरसका अरसा हुवा.
अब रावतजी अेसी जुट बात लीष तकलीफ देते हे, जीसकी चसम नमाई होअे माफक
स्रसते स्रदारान मेवाडके नजराणाका रुका होणा चाहीअे, अे कुछ हमेसके वासते
न्ही हे, जरुरतके वकत लीया जाता हे

छटुद ताबे लीषी, मारे लागे न्ही, जीरो रुको माहाराणाजी श्री भीमसीधजीको वा
कागद काप साहेबको मोजुद हे, चाकरी करवाने जो हाज हा, सो श्री हजुरने रुका
मे लीष्या हे के लीष्यामे कसर न्ही पडेगा. आपका घराणाकी चाल छोड्यामे मा

नरदोस; सो रावतजीरा गराणाकी चाल तो आ हे, सो श्री दरबारकी मरजी माफक नोकरी बजावणी, आका बडावा तो अस्या हुवा, सो चुडाजीमें कसुर आया, सो देस मेसे नीकाल दीआ सो चल्या गया, कभी दावो नही कस्यो, अर अरे रावतजी कम अकलका आदस्याके चाले लाग केई त्रेका कसुर, अदुल हुकमी कीआ, अर गराणाकी चाल छोडी, जीको हाल पहेले लीप्यो ही हे; फेर छटुद कसी मागाहा, आरी चाकरी सदीव हे जीमाफक करो, अर श्री दरबारकु राजी रषो; नोकरी नही करी जीरी तलब दाषल करे, सो तो कोल नामेमे ही लषी हे, कुछ ईस रुका कागदमेहे नही लीषा हे, के चाकरी नही करणी. और दसतुर लीप्योके रावतजीकी समे वे जदी श्री दरबार सलुबर ताई लेवा पदारे, सो थेठ चुंडाजीसुलेर पदमसीघजी सुदा श्री दरबार हमेस्या लेवा पदार्या, सो जारी हे, सो चुंडाजीको फट्या १७ पीडी हुई जीसमे कीतनी पीडी तो अदुल हुकमी रही, सो पटा बी जपत रआ और च्यार पीडी मेहेरवानगीके सात आ दबावसे लेणेकु पदार्या, और रावत भवानीसीघजी, कुवरजी श्री अमरसीघजी बरसरोजका था, जब पदार लेआया, सो श्रीदरबारके पदारणेका दसतुर होता, तो बरसदीनका कुवर राजाका कीस वासते पदारता; फेर भीमस्याही पटा बहीमे इीनके भले आदमीयोने केई दसतुर इीनका लीषाया, जीसमे लीप्या हे के रावतजी रामस्त्रण हुवे, जद पाटवी कुवरजी वे जो सलुबर पदार रावतजीकु लावे, सो वो सीरसता जारी हे, जीसकी तो करनेल रावीनसेन साहेब वाद्रने पुब दरीआफत कर षलीतामे लीष दीया, सो दफतरमे दरथाफत करलीजे, अर रावत पदमसीघजीको लीषे, सो रावतजी तो बालक था, अर रावत भेरुसीघजीको बंदोवसत था, सो पोट बीचार्या, जीसकी पबर रावतजीकी मा ने ऊदेपुर भेजी के पदमसीघजीने मारनाषेगा, सो श्रीहजुर ऊदेपुर लेजावे, अे बालक हे; जद श्रीहजुर ने पावंदी कर फीसाद मीटाणे वासते सलुबर पदार ऊदेपुर ले आया, सो अे दसतुरमे नही हे; जीस स्वाअै मालककी मेहरवानगीके साथ नई बी होजावे, और नाराज करे, तो र्दीवकी वो बी मटजावे, अे दसतुर कदीमका नही हे. फेर बेदले रावजीके पदारनेका लीषे हे, सो वारा ठीकाणा तो गंगार हे, अर बेदला तो ऊदेपुरमें हवेली वे जु हे, जीसु रावतजी असो ऊजर कर नोकरीमे हाज्र हुवा नही, आ भुल हे

और केद नज्राणा तावे लीषे, लागे नही, सो इीनके बडायोने केई दफे नज्राणा दीया, सो अब भी लेणा होगा, अर इीनके पास अे दसतावेज होवे के तुमसे कभी पीडी द्र पीडी पुसतेन दर पुसत कदै नजराणा नही लागे, तो वो दसतावेज पेस करे, जुट वणावट लीषणेमे कोण फाअेदा

रावतजी लषे हे, स्दीव बंदगी करां जीमेह हाज्र हा, सो रावतजी लीषते तो हे, लेकीन लीषेप्र आमल रषते देषे (नहीं), कोलनामेमे क्या लीष्या हे; नोकरीमे हाज्र न्ही रया, जीसकी तलब लीजावेगी. इीनके दसतुर अे हे, के पटेके माफीक जमीत स्मेत वारा महीना कबीला सुदी ऊदेपुरमे रहे, श्री दरबारके मरजी माफक नोकरी करे, अबे अे नोकरी मे हाजर न्ही रते, इीस सबव माफक लीषे कोलनामेके होता हे

ओर लीषा, मे कणी स्त्रदार, मसुदीने बेकाया न्ही, मारे मतलब काडी, सो आस्त्रास्त्र जुट बणावट लीषी हे, रावतजीका हातका दसतावेज मोजुद है; फेर कोलनामेमे लीष्या हे, कोडी स्त्रदारसु जलाबंदी करणी नहीं, अर अे करे हे जीरी तगसीर होअे, आगेकु चाल छुटीं चावे, जीरी नीसबत लीष देवे

ओर लीषी, रोटी करतबमे हरकत वे जीरो तो अरज कराडी जस्ये श्रीहजुरने राजी राषे तो षावंद षावंदीज करे

ओर लीषी, गेर इीलाषारा कोडी मारा पटाप्र नालस करे, अर साहेबरा लीष्या प्रमाणे श्री दरबार हुकम लीषे, सो मुदैडीका राजीनामा आ उस असामीकु श्री दरबारमे भेज्या जावे, ओर मेवाडका मुकदमा बाबत तो साहेबने हुकम कीदा, के गरु मुकदमामे दषल न्ही, सो पेसत्र डुगरपुर, महीकाटा वगेरे की नालस सलुबर पटाप्र बोत थी, जब इीनके प्रधान म्हेता स्त्रदारसीघजीकी पंचाअेतसे फेसला कर रु० २५००००, सलुबर बदले श्री दरबारसे दीया गया, वो तो ब्याज समेत दाषल करे, ओर इीलाषे मेवाड या गेरकी नालस्या बाकी जीसका फेसला करे; आगेकु कोलनामारी लीषावट (पर) अमल राषे, ओर मेवाडका मुकदमाका अेसा लीषा, सो मेवाड इीलाषामे षालस्याका क्या ओर जागीर क्या, मालक श्री दरबार हे; फेर असामी वगेरे भेजणे रुबकारीके कीस्वासते ऊजर कीया, इीसकी बी साफ मनजुरी होणी चाडीजे

ओर वे ३३ गाम षालसे लीषे, सो इीस त्रेसे हे, गाम सावा, कुवारचा षेडा भागल सुदी छटुद चाकरीके अेवजमें करनेल तामस राबीनसेन साहेब बहाद्रकी वाकबीसे माफक लीषे कोलनामोंके षालसे कीया, सो कोलनामके लीषे माफक हीस्याब करे, सो हीसाबकी रुसे लेवे देवे. ज्मे गाम षेडा, भागल १५ हे, ज्याने गाम लीष्या हे, ओर गांम चीबोडा त्रसीघको अारे पटामें लीष्यो न्ही, अे गाम तो कल्याणपुरका पटाका हे,

ईनके पास इस चीबोडाकी सनंद वे तो पेस करे, सो अठुत्री होजावे; ओर मादावतांको फलास्यो प्रोत रेवादत ने रहा गोरीदास सलुवरवालाने ईजारे दीदो, सो रावत-जीने मन बीगाड अपणे पालसेमें लेलीआ, सो ऐ कीतना भारी कसुर हे, के पालसा का गाम पे अपना कबजा करे; ओर पाच सात गांम छोटा पालसे हे, सो सीम वगेरे जगडा जीसका फेसला करने वासते केई दफे रावतजीकु लीषा, भलामनषाकु हुकम दीआ, लेकीन साहेबकु बताणे वासते फेसला नहीं करता, जीसका हाल केई दफे षलीतेमे लीषा, सो दफतरमे मौजुद हे. जीस जीस कसुरसे गाम जपत हे, उसका राजीनामा करता जावे, अर गामकी ऊठंत्री लेताजावे; ओर गाम इस सीवाअे लीषे सो गलत हे

ओर करारनामेमे लीष्यो हे, दाण, वीसवा सब जगा श्री दरवारका हे, सो पालसेमे लीआजावे हे, सो माफक लीषेके सावा, सलुवरका दाण पालसे करचा जावेगा

अजमेर ऊदेपुरका साहुकाराको करज श्री दरवारकी पातरीको तथा बीना पातरीको जो रावतजी सेनाजोरीसे देवे नही, सो सबका फेसला करे; सेट धनरुपमल, वागमलजी का करजकी पातरी तो श्री दरवारने ओर रहेव अजंठने दी हे

ओर रावतजीका अमल कोलनामेप्र नही सो हुवा चाहीजे

ओर कीतनेही कसुर रावतजीमे छोटे बडे हे जीसकी फरद वकत फेसलोके पेस कीजावेगा

ओर श्री दरवारका वा साहेबका अदुल हुकमी कीआ जीसका जरीमाना हुवा चाहीजे

ओर माफक सलाहा करनेल तामस रावीनसेन साहेब बहाद्र श्री दरवार मुलक सेवाड चकबंदी, हदबंदी करता है, सो पालसामे तो काम जारी हे, ओर ईनके पटेमे कराने का ईनकार कीआ, सो कराअ दीआ चाहीये

इी माफक इीनसे बंदोबसत होणा जरुर हे

अषीर हुकम दीदो, सं० १९०७ काती सुद ४.

इसी तरह दोनों ओरसे कई सवाल जवाब होते रहे, जिनमें अक्सर तो केवल मुआमलहको तूल देनेकी गरजसे शामिल किये गये थे, वरनह उनके कमोबेश करनेमें तर्फेनसे कोई जियादह जिद न थी. सलूंवर वालोंकी तरफसे खास तीन उज्र पेश थे, जिनमेंसे अव्वल यह था, कि उनकी हवेली और उसके आस पासकी मुकर्ररह हदके भीतर कोई मुज्जिम शरण में चला आवे, तो पकड़ा न जावे; दूसरा, महाराणा मातमपुरीके लिये सलूंवर तश्रीफ लावे; तीसरा, सलूंवरका रावत् मेवाड़की मुसाहिबी करे; और इसके सिवा छटूंद व नौकरी का उज्र था. इनमेंसे ऊपरकी तीन बातोंमें तो महाराणाको पसो पेश था और उनके जवाब भी माकूल वुजूहातके साथ दिये गये; और छटूंदकी मुआफ़ीके बारेमें जो एक खास रुक़ा महाराणा दूसरे भीमसिंहका, और एक कागज़ काफ़ साहिवका सलूंवरसे पेश हुआ, उस पर महाराणाने कुछ मंजूरी और कुछ ना मंजूरीका जवाब दिया, लेकिन बारह ही महीना नौकरी करना रावत् केसरीसिंहने इस शर्तपर मंजूर किया, कि ऊपर लिखी हुई तीनों कल्में कुबूल कीजावें, जो महाराणाको मंजूर न थीं. देवगढ़के रावत् रणजीतसिंहसे आम सर्दारों के मुवाफ़िक़ यह सवाल था, कि ठिकानेकी मौजूदह पैदावारपर 1) पांच आना फ़ी रुपया सर्कारी खिराजके हिसावसे आधेकी एवज़ नौकरी करे, और आधेकी एवज़ नक़द रुपया सर्कारी खज़ानहमें जमा करावे. इसपर उसने टालाटूलीका जवाब दिया, तब महाराणाने उसकी जागीरके कुछ गांव ज़ब्त करलिये. इसी तरह आसींदके रावत् दूलहसिंहके भी कुछ गांव सर्कारी खिराजके एवज़ और आमेसर, वरसणी व वामणी नामके तीन गांव, जो उसने महाराणा जवानसिंहके समयमें छोटे गांवोंकी एवज़ बदलवालिये थे, ज़ब्त करलिये. आख़रकार विक्रमी १९०८ कार्तिक कृष्ण ९ [हि० १२६७ ता० २३ ज़िल्हिज = ई० १८५१ ता० १९ अक्टोबर] को जब महाराणाने सुना, कि सलूंवर और देवगढ़ वालोंने ज़बतीके अह्लकार, सवार व सिपाहियोंको अपने इलाक़हसे निकालदिया, तो उनको बहुत गुस्सह आया और हुकम दिया, कि फ़ौज भेजकर दोनोंको सज़ा दीजावे; लेकिन अख़ीरमें यह सोचागया, कि पोलिटिकल एजेण्टकी मारिफ़त गवर्मेण्ट अंग्रेजीसे फ़ौज तलब करके इनको सज़ा दिलाना चाहिये, क्योंकि अगर कुल जागीरदार मिलकर मुल्कमें ग़द़ पैदा करेंगे, तो पोलिटिकल

एजेण्टको दस्तन्दाजी करनेका मौका मिलजायेगा, जैसा कि दस वर्ष पहिले महाराजा मानसिंहके समय मारवाड़में हुआ था. महाराणाने इस सर्कशीकी खबर पोलिटिकल एजेण्टको लिख भेजी. इसी अरसहमें सलूबर और देवगढ़के मोतमदोंने आसीद पहुंचकर रावत् दूलहसिंहसे कहा, कि आप भी अपनी जागीरके गांवोंमेंसे ज़ब्ती वालोंको निकाल दीजिये. उसने इस बातसे इन्कार किया, तब दूसरे रोज़ सलूबरके मोतमद पुरोहित मोड़ीलालने भंगके नशेमें तेज होकर रावत् दूलहसिंहसे कहा, कि कम उघ्र लड़कोंने तो अपनी जान देना कुबूल करके महाराणाकी ज़ब्तीको उठादिया, लेकिन आप बूढ़े होनेपर भी ज़ियादह जीनेकी उम्मेद रखकर लड़कोंसे जुदा होते हैं ! तब रावत् दूलहसिंहने गुस्सेमें आकर यह जवाब दिया, कि इतने दिनतक तो मैं लड़कोंका कुसूर जानता था, लेकिन अब मालूम हुआ, कि यह सब कुसूर तुम बदरूवाह और कम अकल आदमियोंकी सुहबत और बहकावटका है. सुनो, महाराणा हमारे मालिक हैं, उनके खिलाफ़ काम करना हमारा धर्म नहीं है. हमारे मूल पुरुष रावत् चूंडाको देखना चाहिये, कि उसने मेवाड़से निकालदिये जानेपर भी हर्गिज अपने मालिककी बदरूवाहीकी तरफ़ कदम न रक्खा, और वापस बुलानेपर जो उसने खिन्नते कीं वे मशहूर हैं. वेगूके रावत् मेघसिंहको महाराणा अमरसिंह अव्वलने निकालदिया था, उसने दिल्लीके बादशाह जहांगीरसे मालपुरा जागीर में पाया, लेकिन महाराणाके बुलानेपर कुल जागीर छोड़कर चलाआया. सलूबरके रावत् रघुनाथसिंहको महाराणा राजसिंह अव्वलने निकालकर सलूबरका पट्टा चहुवान राव केसरीसिंहको देदिया, और रघुनाथसिंहने आलमगीरके पास जाकर वहीं अपनी उघ्र पूरी करदी, परन्तु उसका बेटा रत्नसिंह महाराणाके पास चलाआया, और उसने आलमगीरकी लड़ाइयोंमें बड़ीबड़ी खैररूवाहियां ज़ाहिर कीं. सलूबरके रावत् जोधसिंहको महाराणा अरिसिंह तीसरे ने अपने हाथसे ज़हर दिया, लेकिन उसका बेटा पहाड़सिंह महाराणाकी खैररूवाहीके लिये उजैनमें मारागया. और जिन्होंने बदरूवाही की उनकी सज़ा भी सुनो— महाराणा भीमसिंह दूसरेके समयमें, जिनकी हुकूमत बिल्कुल कमज़ोर होरही थी, सलूबरका रावत् भीमसिंह चित्तौड़पर खुद मुरतार बन बैठा, उस हालतमें महाराणाकी लौंडी बाई रामप्यारी रावत् भीमसिंहको उसके गलेमें रूमाल डालकर लेआई, और उक्त रावत्ने महाराणाके कदमोंमें गिरकर कुसूरकी मुआफ़ी चाही. इसी तरह देवगढ़का रावत् जशवन्तसिंह, जो पांच लाख रुपयेकी जागीर रखता था, महाराणाकी नाराज़गीके सबब बर्बाद होकर जयपुरमें मरा; और महाराणा स्वरूपसिंह तो आज तुम लोगोंको सज़ा देनेके लाइक हैं, मैं हर्गिज इस बुढ़ापेमें बदरूवाहीका दाग़ अपने नामपर नहीं लगाना चाहता, तुम लोग अभी यहांसे चले जाओ. ये बातें सुनकर दोनों ठिकानोंके मोतमद वहांसे चले गये. इस खबरके

सुननेसे महाराणा बहुत खुश हुए, और उन्होंने रावत् दूलहसिंहको अपने पास बुलालेना चाहा, लेकिन ईश्वरेच्छासे उसका इन्तिकाल पहिले ही होगया, जिसका जिक्र आगे लिखा जायेगा.

जब महाराणाने मेवाड़के पोलिटिकल एजेण्ट और राजपूतानहके एजेण्ट गवर्नर जेनरलको यह फ़साद दूर करनेके लिये बहुत कुछ लिखा पढ़ी की, तब उक्त दोनों साहिब विक्रमी फाल्गुन कृष्ण ६ [हि० १२६८ ता० २० रबीउस्सानी = ई० १८५२ ता० ११ फ़ेब्रुअरी] को उदयपुरमें आये, और सलूबर, देवगढ़, गोगूदा, कुरावड़ व भैंसरोड़ वगैरह ठिकानोंके सर्दारोंको बुलाया. रावत् केसरी-सिंह मातमपुरीके उज्रसे उदयपुरमें नहीं आया, और शहरके बाहिर रेजिडेन्सी के करीब अपने साथी सर्दारों समेत ठहरारहा. करीब एक महीनेतक महाराणा और उनके सर्दारोंमें बहुत कुछ बहस रही. पेशतर सर्दारोंको यह खौफ़ था, कि महाराणा की उदूल हुकमी करनेपर गवर्मेण्ट अंग्रेजीसे हम लोगोंको जुद्ध सजा मिलेगी, क्योंकि विक्रमी १८७४ [हि० १२३२ = ई० १८१७] में कर्नेल टॉडने एक बड़े दर्बारके वक्त महाराणासे उदयपुरमें यह कहा था, कि इन सर्दारोंमें जो कोई आपके बदख्वाह हों, उनको बतलाइये, गवर्मेण्ट अंग्रेजी उन्हें सजा देनेको तय्यार है; उस हुकमका खौफ़ उनके दिलोंसे इस वक्तक दूर नहीं हुआ था, बल्कि उसका असर हरएकके दिलपर पूरा पूरा जमाहुआ था; लेकिन इसवक्त एक महीनेतक पोलिटिकल अफ़सरोंकी नर्म और सम-भायशी कार्रवाईने उनको बेखौफ़ करदिया. फिर पोलिटिकल अफ़सर और सलूबर व देवगढ़ वगैरह ठिकानोंके सर्दार उदयपुरसे चलेगये. महाराणाने भींडर, आमेट और बदनोर वगैरह ठिकानोंके सर्दारोंको बहुत कुछ तसल्ली दी, कि वे मुखालफ़तमें शरीक नहीं, लेकिन ऊपर लिखेहुए सबवसे इनको भी हौसलह होगया. लहसाणीके ठाकुर जशकरणका छोटा पुत्र मान्यावासका जागीरदार चूडावत समरथसिंह सर्दारोंको बहकाने की कार्रवाईके कुसूरपर नज़र कैद कियागया; इसपर कुल मौजूदह सर्दारोंकी जम्इयत-वाले मुस्तइद होकर उसे भींडरकी हवेलीमें लेगये, परन्तु महाराणाने शहरमें बल्वा होजानेके खौफ़से दरगुज़र किया, और सर्दार लोग भी अपने अपने ठिकानोंको चलेगये. महाराणाने चाहा, कि रावत् दूलहसिंहको आसींदसे बुलाकर अपना मुसाहिब बनावें, लेकिन वह बीमार होकर विक्रमी १९०९ आषाढ़ शुक्ल ११ [हि० १२६८ ता० ८ रमज़ान = ई० १८५२ ता० २७ जून] को वहीं गुज़रगया, तब महाराणाने उसके पुत्र रावत् खुमाणसिंहको बुलाकर जन्तीकी उठन्ती इनायत करके तलवार बंधादी. इस बारेमें

जो तहरीरी कार्रवाई हुई, उन कागज़ोंकी नक़्कें नीचे लिखी जाती हैं:-

महाराणाका पर्वानह रावत दूल्हसिंहके भान्जे
राठौड़ इन्द्रसिंहके नाम.



॥ श्री रामोजयति.

॥ श्री गणेश प्रसादातु.


॥ श्री एकलिंग प्रसादातु.



सही

॥ स्वस्ति श्री ऊदयपुर सुथाने माहाराजा धिराज महाराणाजी श्री सरूपसींघजी
आदेशात् ईंद्रसींघ कस्य

१ अप्रं रावत दुलेसींघकी श्री जी सरण हुवाकी षबर मालम हुई, सो बडी चीता
हुई, प्रंत ई वातसुं कीकोई जोर न्ही, आगे दो ठीकाणा वाला षालसाने सींघ
दीदी, अर अणी हुकम माथा ऊप्र राष्यो, जीप्र प्रसन होएने बुलावाकी ततबीर
ही जीमे आ हुई, सो पेर श्री जीकी ईछा, अवे रावत पुमाणसींघने लेर प्रवाना
दीसट आवजे, लेवा म्हेता मोपमहे मोकल्यो हे; प्रवानगी प्रोथ सामनाथ, संवत
१९०९ वर्षे सावण वीद २ सने



आसींदके फौजदार कामदारोंके
कागज़की नक़ल.

॥ श्रीरामजी.

लुब्धा प्रमाणे सावत, दसपत
रावत पुमाणसीधरा हातरा.

॥ लीपता रावतजी पुमाणसीधजीरा फौजदारा कामदारा अग्रंची । मारी अठा पेलीरी
भुल ही, सो माफ कर श्री पावंदा सुनजर कीदी, सो हुकम प्रमाणे बंदगी करणी, ई
कलमा लपदीदी जीपरमाणे चालणो

१ पटो आसींदकी लार रावत दुलेसीधजी (रे) आगे हो सो सावत

२ बाडी आगे हे, सो सावत

३ घोडो वलेणो ऊमरावा सरसते

४ कुरव ऊमरावा सरसते

५ चाकरी मारे सदीव मास १२ की हे, सो सासता हाजर रेणो, गरां कोडी काम
ऊपजे जदी अरज करावणी, सो धणी सीप बगसे जदी घरा जाअे, काम कर
हुकम करे जत्रा दनमें आअे हाजर वेणो; अर अठे काम ऊपजे अर हुकम आवे,
गेले तथा पुगताई आवे, तो पाछा फरजावणो, रुको देपताई हाजर वेणो,
मुरजी प्रमाणे बंदगी करणी

६ पवासीमे आगे रावत दुलेसीधजी वेठता, सो अबे मने श्री हुजुरकी मुरजी वे

जदी पवासीरी बेठक बगसे, मारी चाल, बरती श्री षावंदाने पुरी नरेण दीषे, पर-
तीत आवे जदी बगसे, जत्रे अरज करुं नही

७ बेठक पारसोली, कुराबड हेटे उमरावां स्रसते

८ तरवार बदाईरो नजराणांशको रुकोरुपीया ५०००, पांच हजारको नज्र करया
जीरी साहुकारी करावे देणी, और नेग उमरावा स्रसते देणो करणो

९ ओर सलुंवर, देवगड बगेरे जो कोड़ी श्री जी की मुरजी बारे होवे जीसु कठेई मीला-
वट राषणी नही, राजीपा लार मीलावट अर श्री जीरा बेराजीपा लार दुसमणी
राषणी, ईमे कसर पाडां तो बदलारा गांम ३ आविसर, बररणी, बाम्णी,
धणी पालसे करलेवे; अर गांम ३ मे आगे छोड्या, सांगवो, रुपाहेली, भाटी-
पेडो, सो माने पाछा बगसे जीरो कड़ी वी ऊजर करा नही; धणी आछा नर-
धार करने पालसे करे जीमे में राजी कुसी हां

१० और देस साही बात देस सरसते ठेरे, सो मारे ई कबुल हे

११ संडे कणीरे बंदणो नही, फगत धणीरी मुरजी प्रमाणे चालणो, राजी राष
बंदगी करणी

अणी परमाणे कबुल हां, श्री जीरी मुरजी प्रमाणे रावतजी वा मे सारा चा-
लांगा, कदी वी तफावज पाडा, तो माने श्री जी का चरणारबंदाकी आण हे. मे कणीसु
ई सटपट, मीलावट रापा, तो नवमी कलम ऊपरकी मुजब गांम पालसे करे वा सीवाअे
तगसीर नजर करां. या लषत रावतजीरी लषावट प्रमाणे भांणेज ईद्रसीघजी,
चुडावत करणसीघजी, गोड मोकमसीघजी, पंचोली ग्याना लीष्यो, दसगत ग्यानारा
सं० १९०९ रा काती वदी ६ बुधवार.

रावत् खुमाणसिंहका कागज़ लॉरेन्स साहिवके नाम.

नुकल.

॥ श्रीएकलीगजी.

॥ श्रीरामजी.

॥ श्रीभीमेश्रजी.

महारो जुहार वाचसी.

॥ सीध श्री नीमचरी छावणी सुभसुथाने सरव ओपमा जोग्य राज श्री करनेल सेट पातरक जारज लालन सहेव बहाद्र जोग्य आसीद थी रावत् श्री पुमाण-सीघजी लीषावतां जुहार वाचसी, अठारा समाचार श्री जीरी सुनजसु करे भला हे, राजरा सदा भला चाईजे ज्यु म्हाने प्रम सुप वे, मारे राज गणी वात हे, राज सीवाअे कड़ी वात हे न्ही, स्दा हेत डीकलास हे ज्युडी रषावसी अप्रंची । मारे रावत् दुले-सीघजीरा चलेवा भुल तावे श्री जी वेराजी हा, अर अवार सुनज कर माने पेतावा बुलाया, सो मे लषत करदीदो जणी प्रमाणे चाल्या जावागा; अर ईमे तफावज पाडा, तो तगसीरवार हां; डीको पात्रीको श्री जी प्रवानो करे वगस्यो, जी प्रमाणे बरतेगा, जीका राजीपाकी अरज मे लप नजर कीदी ने राजने वासते डीतलाके श्री साहेबसुं लपी हे, सो मे श्री जी की मुरजी प्रमाणे राजीनामो करलीदो हे, अठारी तरफरी कुसी राषसी, राज कुसी रेसी, काम काज, कागद पत्र लीषावसी, सं० १९०९ रा काती वीद ६ बुधवार.

महाराणाके नाम रावत् खुमाणसिंहकी अर्जा.

॥ श्रीरामजी.

॥ श्रीभीमेश्रजी.

॥ सीधश्री । श्री । श्री । श्री । श्री । १०८ श्री जी हजुर अरज आसीदसु डोरु रावत पुमाणसीघ लीषता मुजरो धरती हात लगावे मालम वेसी, श्री हजुर बडा हे, मोटा हे,

ईसवर हे, षावंद हे, श्री जीनेजत्री ओपमालषु जत्री जोग हे, अप्रच । रावत दुले-
सीघजीका चालासुं श्री जी बेराजी हा, अर अबार सलुवर, देवगड वाला तो षालसाने
सीष दीदी अर मारे रावतजी माथा ऊपर हुकम राष्या, जणी ऊपर श्री जी परसन वेर माने
बुलाया, सो वाकी तो समे वरत गडी, अर छोरु पेतावा हाजर हुवो, सो धणी तो तगसीर
साफ कर षालसे हा सो गांम पाछा कर बगस्या, अर छोरु स्रसतां प्रमाणे तरवार-
बंदाडीको नजराणोको रुको कर कलमबंदीको लषत नजर कीदो, सो जी परमाणे
सदा चालेगा, अर श्री जी षात्री कर बगसी जणी परवाना प्रमाणे षावंद वरतेगा,
जणीका राजीनांमारी अरज छोरु राजी षुसीसु लष नजर करी वा साहेब बाहादरके
नामे बी लषी हे, सो नजर वेगा. छोरुने सदाडी षावंदाकी मुरजी सुनजरको डी जाणेगा,
सं० १९०९ रा काती वद ६ बुधवार.

आसींदके रावत् खुमाणसिंहकी तसहीके लिये
राठौड़ इन्द्रसिंहके नाम पर्वानह.

॥ श्रीरामोजयति.

॥ श्री गणेश प्रसादातु.

॥ श्री एकलिंग प्रसादातु.

सही

॥ स्वस्ति श्री ऊदयेपुर सुथाने म्हाराजाधिराज म्हाराणाजी श्री सरूपसिंघजी आदे-
शात ईंद्रसीघ कस्य

१ अप्रं पाछासु दोये सरदारा षालसो ऊठायो, ने दुजाने बेकाया जणीम्हे रावत
दुलेसीघ षालसो उठायो न्ही अर रावत षुमाणसीघ षण दुजाकी बेहकावटम्हे न्ही
आयो, जीप्र प्रसंन होये बुलाया, सो आगे थने वा भला मनषाने मोकल्या

सो मुरजी वा सरसता प्रमाणे कलमा सावत कर अरज लषत नजर कीधा,

सो जणी प्रमाणे सावधरमासु बंदगी कीदा जायगा जतरे पुमाणसीघकी अत्री राहा मुरजाद उमरावा प्रमाणे ओर पटो पटा परवाणे पुषत रहेगा, आगलो सुभो रयो न्ही, सावधरमासु बंदगी कीदा जावे; अठा पछे बना राहाकी षेचल व्हेगा नही, जमाषात्र राषे, म्हारो बचन हे. प्रवानगी पंचोली हरनाथ, संवत् १९०९ व्षे मगसर सुद १० भोमे.

इसके बाद सलूंवर और देवगढ़ वगैरह सर्दारोंके मुआमलहमें बहुत कुछ बहस होती रही, यहांतक कि पोलिटिकल एजेण्ट ज्यॉर्ज लॉरेन्स साहिबके पास कई सर्दार खुद नीमचकी छावनी गये, और उदयपुरसे बेदलाका राव बख्तसिंह, प्रधान महता शेरसिंह और पुरोहित शामनाथ भेजेगये. लॉरेन्स साहिबने सर्दारोंको मुसाहिबोंसे सलाह मिलाकर फ़ैसलह करलेनेके लिये बहुत कुछ कहा, लेकिन उक्त सर्दारोंने राज्यके मुसाहिबोंको अपने साथ मिलालेनेके सिवा फ़ैसलह करनेकी कोई सूरत न निकाली. इसपर ऊपर लिखेहुए मुसाहिबों ने सर्दारोंको साफ़ जवाब देदिया, कि हमको श्री दरबारने मोतबर और भरोसेका जानकर भेजा है, आप लोगोंसे मिलावट करके बेईमानीकी बदनामी हम हर्गिज न उठावेंगे; अगर आप लोगोंको फ़ैसलह करना हो, तो हम श्री दरबारसे अर्ज करके वाजिवी फ़ैसलह करादेवें. लेकिन सर्दारोंको यह कब मन्जूर था, वे तो बखेड़े और नाराजगीके वहानहसे मासूली नौकरी छोड़कर अपने अपने घरोंमें खुदमुख्तार बन बैठे थे; जब कुछ नतीजा न निकला, तो अपने अपने घरोंको वापस लौटगये. आखरकार राजपूतानहके एजेण्ट गवर्नर जेनरल सर हेनरी लॉरेन्सने मध्यस्थ बनकर महाराणा और उनके सर्दारोंमें एक अहदनामह काइम कराया, और उसपर विक्रमी १९१२ मार्गशीर्ष शुक्ल १० [हि० १२७२ ता० ८ रबीउर्रसानी = ई० १८५५ ता० १८ डिसेम्बर] को महाराणा व साहिब एजेण्टके सामने देवगढ़के रावत् रणजीतसिंह और शाहपुरा, बनेड़ा, भैंसरोड़, बदनोर, आमेट और कोठारिया वगैरह ठिकानोंके सर्दारोंने अपने हाथसे अथवा जो सर्दार मौजूद न थे उनके वकीलोंने दस्तखत करदिये, सिर्फ़ सलूंवर, भींडर, गोगूदा और कुराबड़ वालोंने नहीं किये. साहिबने खैरोदा मक़ामपर उक्त चारों सर्दारोंको अपने पास बुलाकर उनसे भी दस्तखत कराना चाहा, लेकिन उन्होंने इन्कार किया, जिसपर साहिब नाराज होकर चलेगये. इस अहदनामहपर महाराणा इस सबबसे नाराजामन्द थे, कि उक्त अहदनामहकी उन्नीसवीं शर्तमें अदालतको, बीसवीं शर्तमें वज़ीरको और बाईसवीं शर्तमें दत्तक लेनेकी बाबत् ठिकानेवालोंको अपनेसे ज़ियादह इस्तिथार हासिल होनेके अलावह सर्दारोंसे सालभरकी एवज़ सिर्फ़ तीन महीना सालानह नौकरी लीजाना वगैरह कई बातें दर्ज

थी, और सबसे बढ़कर नागुवार बात उनके लिये यह थी, कि पोलिटिकल एजेण्ट मध्यस्थ रहकर महाराणा व उनके मातहत सर्दारोंके फैसले किया करें.

इन दिनों गोगूदाका राज शत्रुशाल तो गुजरगया था, और उसका बेटा लालसिंह व कुराबड़का रावत ईश्वरीसिंह सलूबर और भींडर वालोंके द्विती सलाहकार थे, इसलिये विक्रमी १९१२ [हि० १२७१ = ई० १८५५] में एक मज्मूनके दो कागज़ सर हेनरी लॉरेन्सने गोगूदा और कुराबड़ वालोंके नाम लिखे, जिनमें महाराणा साहिबके हुकूमकी तामील करने और तलवार बन्दी वगैरह नज़ानहका रुपया अदा करनेमें पसोपेश न करनेकी वाबत धमकी दीगई थी, क्योंकि ये दोनों सर्दार कुल मेवाड़के उमरावोंकी तरफसे पंच बनकर उदयपुरमें आये थे; लेकिन तसल्लीके लाइक कोई फैसलह न हुआ. इसी तरह कई बार महाराणाने फैसलह करना चाहा, परन्तु अव्वल तो सर्दारोंने ही कुबूल न किया, और यदि कुछ दबाव देखकर उन्होंने कुबूल किया, तो महाराणाने अपने वाजिबी हुकूक छोड़ना न चाहा, इस तौरपर मुआमलहमें तवालत होती गई. आखरकार विक्रमी १९१७ मार्गशीर्ष कृष्ण ३ [हि० १२७७ ता० १७ जमादियुलअव्वल = ई० १८६० ता० १ डिसेम्बर] को राजपूतानहके एजेण्ट गवर्नर जेनरल ज्यॉर्ज लॉरेन्स और मेवाड़के पोलिटिकल एजेण्ट टेलर साहिब उदयपुरमें आये. महाराणाका इरादह था, कि महता शेरसिंहसे रियासती काइदहके मुवाफ़िक पूरा पूरा दण्ड लियाजावे; लेकिन यह खबर सुनकर ज्यॉर्ज लॉरेन्स विलायतसे सीधा खैरवाड़ाके रास्ते उदयपुर आया, क्योंकि वह शेरसिंहपर ज़ियादह मिहर्बान था; और उसके मकानपर जाकर उसे बहुत कुछ तसल्ली दी, और महाराणाके इस बारेमें जिक्र करनेपर भी उनके मनशाके बखिलाफ़ जवाब दिया. शेरसिंहसे दण्ड वूसूल कियेजानेमें पोलिटिकल एजेण्ट भी लॉरेन्स साहिबके मुत्तफ़िक़ राय थे, इस सबबसे महाराणा और पोलिटिकल अफ़सरोंके दर्मियान ज़ियादह ना इत्तिफ़ाकी और रंज बढ़गया.

विक्रमी मार्गशीर्ष कृष्ण ६ [हि० ता० २० जमादियुलअव्वल = ई० ता० ४ डिसेम्बर] को उक्त दोनों साहिबोंके उदयपुरसे चलेजानेपर महता शेरसिंहसे महाराणा ज़ियादह नाराज़ हुए, और दिन व दिन सर्दारोंका बखेड़ा बढ़ने लगा. पोलिटिकल एजेण्ट टेलर साहिबने सर्दारोंको साफ़ कहदिया, कि तुम और महाराणा साहिब आपसमें समझलो, हम दस्तन्दाजी नहीं करेंगे (१). इस जवाबको सुनकर सर्दारोंने यह समझलिया, कि हमको बखेड़ा बढ़ानेकी इजाज़त मिलगई.

(१) इस समय पोलिटिकल एजेण्टको लाज़िम था, कि महाराणा साहिबकी वाजिबी हुकूमतके मददगार होकर उसमें खलल न आने देते.

अब सर्दारगढ़ याने लावा और बोहेड़ापर भींडर वालोंके हमले होने लगे; उक्त दोनों जागीरदारोंने खूब मुकाबला किया. लावाके शक्तावत चत्रसिंहके चचा सालिमसिंहका गांव कुंडेई, जो १३ वर्षसे जून्त था, भींडरवालोंकी मददसे वापस उसके कबजमें आगया, और सींगोलीके बाबा मानसिंह पूरावतने मेवाड़में लूटमारका बाजार गर्म किया. महाराणाने लावाके ठाकुर मनोहरसिंह और बोहेड़ाके रावत अदोतसिंह (उद्योतसिंह) को मदद देकर भींडरके ठिकानेको बर्बाद करनेका हुक्म दिया, और कुंडेईपर फौज भेजकर सालिमसिंहको वहांसे निकाल देनेके बाद वह गांव जमादार खाजबख्शको जागीरमें दे दिया, जो सिंधी मुसलमानोंका सरगिरोह था. इस किरमकी बातोंसे मालूम होता था, कि मुल्कमें जुरूर बगावत पैदा होजावेगी, और यदि महाराणा तन्दुरस्त रहते, तो किसी न किसी ठिकानेदारकी बर्बादीमें भी कमी न रहती, परन्तु महाराणाके शरीरकी हालत दिनोदिन बिगड़ती गई, यहांतक कि उसी बीमारीसे उनका देहान्त होगया, लेकिन उन्होंने अखीर वक्ततक भी अपनी बहादुरानह हिम्मत न छोड़ी.

अब हम सर्दारोंके बखेड़ेका हाल खत्म करके महाराणाके समयके दूसरे हालात लिखते हैं, याने अब्बल तो सती होनेके रवाजपर बहस बढ़कर उक्त महाराणाके साथ ही उसका खातिमह हुआ, दूसरे डाकिन व जादू वगैरह बातोंपर मुज्जिमोंको सजा देनेके बारेमें भी खूब बहस हुई. लॉर्ड हेस्टिंगज़, गवर्नर जनरल हिन्द, ने पहिले सतीके रवाजको बन्द करनेकी राय दी थी, जिसकी पैरवी समय समय पर होती रही, परन्तु राजपूतानहकी दूसरी रियासतों वालोंने इस मुन्नामलहमें उदयपुरकी आड़ ली, इसलिये महाराणा जवानसिंहके वक्तसे पोलिटिकल अफसरोंने इस बातकी कोशिश शुरू की, लेकिन कामयाबी न हुई. फिर विक्रमी १९०२ [हि० १२६१ = ई० १८४५] में इन महाराणासे इस मुन्नामलहमें बहुत कुछ लिखा पढ़ी हुई; और जोकि यह बात बहुत बड़ी और तवारीखमें यादगारके तौरपर दर्ज करनेके काबिल है, इसलिये उन कागज़ोंकी नक़्कें नीचे लिखी जाती हैं, जो गवर्मेण्ट अंग्रेज़ी और रियासत मेवाड़के दर्मियान बहसके तौरपर लिखेगये थे, और महाराणाने जहांतक होसका अपनी जिन्दगी भर इस रवाजको बन्द करना न चाहा:—

थर्सवी साहिबके खरीतहकी नक़्क.

॥ श्रीरामजी.

॥ स्वस्तिश्री सर्वोपमा विराजमान महाराजाधिराज म्हाराणाजी श्री सरूपसिंघजी बाहा-
दुर जोग्य मेजर थरसबी साहेब बाहादुर लिषावतुं सलाम मालुम होसी, अठारा समाचार भला

छे आपरा सदाभला चाहीजै अपरंच, सती होणेकी चाल जो हे सो इलाकां राजस्थानमे अबतक कांही कांही होती हे, अर जेसे के डुंगरसुं पड मरना, कुवेमे गिर मरना वगेरे ये वातां मना अर अयोग्य हे, इसी तरेसै ये वात वी हे; ओर जोकि मनुस्मृति याज्ञवल्क वगेरे धर्मशास्त्र इस युगमे प्रसिद्ध हे, अर जिस्के वर्तमान सर चलणा उचित हे उस शास्त्रामे दग्ध सती होणेका जिकर नहीं हे, अर देषा देवीसैं ये सती होणेका तोर आपमतिसुं पेदा हुवा होगा, इसमै आत्मघातका अपराधकी प्राप्ति दीसती हे, इस्वास्तै सिरकार दोलतमदार कु पसंद ये हे, कै ये आत्मघातका दोषकी प्राप्ति इलाकां राजस्थानमे न वर्ते, इसी कारण आपकु लिषणोमै आता हे, के बोहोत उचित हे, कै आप अपने इलाकेमे ऐसी तजबीज करावे के ये रस्म जारी न रहे. जो कोइ ईरादा करे तो उस्कुं अे समभायस करदीजावे, के पतिके लार जलमरनेसे जीवत सतीका धर्म पाले, तो बहोत ही बेहतर हे, अर उस्कै पति के हकमे अछा, अर अज्ञानसुं समझायस न माने, तो उस्की लकडी व आग देणेकी मदत उस्कै संबंधी लोग न करे, तो ये चाल आपसुंही सेहज बंध होजावेगा, तो इससे नेकनामी राजस्थानकी सब पृथिवीमै प्रसिद्ध होगा; ओर आपके मिजाज मुबारककी घुसीके समाचार लिषणा फुरमावोगे, तारीष १९ दिसंबर संन १८४५ ईस्वी, मिती पोह वदि ६ सं० १९०२.

अंग्रेजीमें साहिबके दस्तखत.

ऊपर लिखेहुए खरीतहके साथ इसी मतलबका एक खरीतह कर्नेल रॉबिन्सन साहिबका भी आया, जिसकी नकल तवालतके खयालसे दर्ज न करके उसके जवाबी कागज़की नक़ नीचे दीजाती है, जो महाराणाकी तरफसे उक्त साहिबको लिखागया:—

कर्नेल रॉबिन्सन साहिबके नाम महाराणाका रुक्का.

॥ श्रीरामजी.

॥ स्वस्ति श्री कर्नेल तामिस रॉबिन्सन साहेब बाहादुर जोग १ अग्रं ॥ षलीतो साहेब को पोस सुद ७ ता० १२ जनवरी संन १८४८ ईसवीको लष्यो सतीका मुकदमामे

आयो, स्माचार मालुम हुवा, डीको जुवाब तो आगे लीष्यो डी हे, सो दुजा राजस्थाना सु डी राजकी बात ठेठ डी जुदी हे, अर अठे तो परमपरायसु होती आवे हे, अर अपणे पतीका ऊधारवा वासते होवे हे, ओर साहेब सासत्र मुरजादकी लीषे हे, सो सासत्रम्हे सती होबाको धरम लीष्यो हे ज्याकी नकलां मेली हे, सो पंडतासे पढाये लोगा. सत तो श्री जी देवे ज्यो करे हे, सो अठे साहेब लोगाडी आछा देषी अर कीताबमे लीषी, सो साहेबडी जाणे हे, ओर साहेबकी घुसीकी षबर सासता लीषावो करोगा, संवत १९०४ म्हा सुद ८ सुनेऊ.

सर हेनरी लॉरेन्स साहिबका खरीतह.

॥ श्रीरामजी. ॥

॥ स्वस्ति श्री सरब ओपमा विराजमान लायक महाराजाधिराज महाराणाजी श्री सरूपसिंहजी बहादुर अेतान करनेल सर हिनरी मंटगमरी लारनस साहब बहादुर लिषावतुं सलांम मालुम होसी, अठाका समाचार भला छै आपका सदा भला चाहीजै अपरंच, इसारा सदरका ये था, कै किसी वकत आपसै वीच मुकदमे मना होजाणे रसम षराब सती कै जिकर कीआ जावै, किसवासते के ये बात न्याहेत वद है ओर सती होणेसै जीव लोगांका मुफत जाता है, इसवासते मेंने आपसै जिकर इस्का वषत मुलाकातकै मुफसल कीया था तो आपने फरमाया था, कै जेपुरकी सिरकारसै जो तजबीज इसके बंध होनेमै हुइ है ऊस्कं देषेंगे ओर कुछ तजबीज करेंगे, सो अब इन दिनांमे अेक नकल इस्तहार जारी कीयाहुवा सिरकार जेपुर, लिषेहुवे भादवा सुदि ३ संवत १९०३ की लफ रुवकारी साहब पुलटीकल अजंट बहादुर राज जेपुरकै हमारे पास आइ, ऊससै मालुम हुवा, कै ऊनुंने अपने इस्तहारमे मददगार वगैरेकुं मवाफक पुंनीकै समझकर सजा देनेकै वासते लिषा है, ओर अबतक वाद जारीहोणे इस्तहार सजकरकै बंदोवस्त भी हरतरेका वास्तै मनाइ सती होनेकै रषते है, इस्वास्तै नकल ऊस इस्तहारकी इस षरीतेमै आपकी षिदमत मुवारकमै भेजी जाती है, ऊस्कै मुलाहजेसे आपकुं मुफसल हाल मालुम होगा, ओर ऊमेद हे, कै आप रहमदिलीसे वासते वचाणे जीव ओरतांकै इस वुरी रसम सतीकै बंध होणेकै लीये ऐसी तजबीज माकुल फरमावेंगे, कै इसमै

आपकी बहोत नेकनामी होगी ओर ये रसम बंद वीलकुल बंध होयजावेगी, ओर ये भी आपकुं मालुम होयकै अब वास्तै बंध करदेने इस रसम षराबके तमाम हीदुस्थानमे बहोत बंदोवस्त होयगया है ओर राजस्थानमे भी रईसाने इस्तहारात अपनी अपनी रियास्तमे जारी फरमाये है ओर ऊसीसे रोज वरोज अे रसम बंध होती जाती है, अर दिन बदिन साथ जोरके फेमायस करणेसै, जो सती होनेका इरादा करती थी, वोह बंध होगई. अगर आप थोडासा षयाल इस नेक बातपर फरमावेंगे, तो जलद इस रसमका बंदोवस्त होयजावेगा, ओर आपके मिजाज सरीफकी षुसीकै अहेवाल लिषाणेसै हमेसां षुस फरमाते रहोगे, तारीष ७ अगस्त सन १८५४ इस्वी, मिती सावण सुदि १४ संवत १९११ का, मुकाम आबुजीसुं. अंग्रेजीमें साहिबके दस्तखत.

जयपुरके इतिहासकी नकल.

॥ श्री ॥

अंग्रेजीमें दस्तखत.

॥ नकल इस्तहार राज सवाई जेपुरकी तरफसे

॥ पहलेसे ऐसा दस्तुर देषा देषी चला आता है, कै हीदुवांकी जातमे कोइ सषस मरजावे तो ऊसके पीछे ऊसकी ओरत जीसकुं ज्यादा महोबत महो होवे, सो जलजावै ओर ऊसकुं सती नाम रषते है, सो ये बात अब जो चरचा ओर वीचारमे आइ, तो मालुम हुवा, कै अजोग अर बेवाजबी है. जीती हुई ओरतका आगमै चाहकर जलणा ये बात बहोत बुरी अर पापकी है, इस्वास्तै इतलाय अर वाकफकारीकै वास्तै हुकम इस्तहार जारी कीयाजाता है, कै अब अमलदारी राजमे कोई ओरत सतीकै नामसे जीतीहुई जलणे नही पावे, इसकी पुरी मनाई अर बंदोवस्त रहै, सो सब सिरदार, जागीरदार, भोम्या ओर जीलेदार, थाणेदार, जमादार ओर तहसीलदार, तालकदार वागरह सब इलाकैदार, नोकर राज अेसा पुषता बंदोवस्त रषै, कै कोई ओरत सतीकै नामसे जीती-हुई नई जलणे पावै, जो कदाची (त) कोइ ओरत कीसीकै इलाकैमे ये बात होवै,

فصل رسول مير منشي ايجير
* مطابق اصل است

जिसकी वा उस ओरतकै वारसां वा आसपासके रहणेवाले वा ऊस्कै आग लकडी वागरह मदत देणेवालो वा कोई जाण पुछकर उसकुं नही रोकणेवालांकै जीमै होगा ओर वो सब यहां बुलाये जावेंगे, ओर जीन जीनकै जीमे कसुर ऊस्कं नही जलणे देणेमे मदत न करणेका ओर ऊस्कं आग लकडी वागरह सामानसे मदत देणेका साबत होगा, वो कसुरवार माफीक अपणे अपणे कसुरकै जरुर पुनी समझकर सजा पावेगा. इस वास्तै सबकुं चाहीयै, कै इस ईस्तहारकै मजमुनकुं अछी तरह स्मझकर ऐसा बंदोबस्त रषो, के फेर इस राजकै ईलाकेमै कोई ओरत जीती हुइ जलणै नही पावै, मिती भादवा सुदि ३ सं० १९०३ का.

बीकानेरके इरितहारकी नकल.

॥ श्रीः ॥

अंग्रेजीमें दस्तखत.

॥ नकल ईस्तहार जो महाराजे साहब बहादुर वीकानेरने वास्ते बंध करणे सतीके जारी किया. । अपरंच सती होणेमे सिरकार अंगरेजीमे आत्मघात अर पुन मुजब पापरी जाहर हुई, तेसुं सतीरी रसम बंध होवण वास्ते सिरकार अंगरेजीरी बहोत तकरार वा ताकीदी छे, तेसुं सती बंध करणरो ईस्तहार तो मिती महा वदि ५ ने श्री हजुररे हुकम मुजब जारी हुवो छो, पण करनेल सर हिनरीमेंटगमरी लारनस साहब बहादुररो सती होवे जेने मने न करे वा मदत सती होणेमे देवे तेने सजा संगीन देणेरो षरीतेमे लिष्यो आयो, तेसु श्री हजुरसुं फुरमायो छे, सब ऊमरावां, सिरदारां, जागीरदारां, आंमलां, तहसीलदारां, जिले-दारां, थांणेदारां, कोतवालां, भोमीयां, साहुकारां, चोधरीयां, रहीयत वगेरे सबने ताकीदीरे साथ पबर करदे, जासु ऐसो पको बंदोबस्त अपणे अपणे तालुकेमे राषे, सु सती होवे तेने ताकीदीरे साथ समजायस अर असी तजबीज करे, सो सती न होय सके वा ऊसके घर-वालां वा भाईये वा सनमंदवालांसुं भी ताकीद तकरार करदेवे, सु उसकी मदत कोही भी न करे; और सांमी वगेरे जिता समाध लेवे आनि गडजावे छे, सो रसम बंध करदेवे. कदास सती होणेमे वा समाध लेवे जिसकुं सिरदार, जागीरदार, वा आंमल तहसीलदार, थांणे-दार, कोतवाल वगेरे श्री दरवाररो मुलाजम मने न करसी ज्यां ज्यांने नोकरीसुं मोकुफ कर

जरीमानो लीजसी, वलके केद वा सजा भी सकत मिलसी, और सती होणेमे वा समाध लेणेमे मदत करसी, ज्यांने सजा सकत होयकर केद कसुर माफक होसी, संबत १९११ मिति म्हा सुदि १३.

ज्यॉर्ज लॉरेन्सके नाम महाराणाके खरीतहकी नकल.

॥ श्रीरामजी.

॥ पलीतो नीमचकी छावणी करनेल जारज लारनस साहेब बाहदरके नामे तीरी नकल

अप्र, पलीतो साहेबको बेसाष वीद १३ तारीष १४ अपरेल सन १८५५ ईसवीको लीप्यो आयो, समाचार मालम हुवा, साहेब लषी के भरोसा हे सतीका होणा मोकुफ करे, और आप बार बार फरमाते हे, के सरदार हुमारे केणेमे न्ही, ईसवासते हुकम जारी करणेमे देर हे, सो मुनासब हे के ईसतहार ईलाकेमे जारी फरमावे; अर अब जो के कोलनामा बणगया हे, सो आप सरब सरदाराकु मुनाई सतीका करे, अलबत येसेई काममे आपके हुकमसे वारने होंगे अर ज्यो हुकम ऊपरात अमलमे लावेगा, तो वो मुजरम सीरकार गीणा जावेगा, सो तो ठीक पण आगे डाकण, भोपा ताबे लष्या माफक ईसतहार गया, सो अदुल हुकमवाला कतराक सीरदार रसीद बी न्ही लषी अर जेल्या बी न्ही, सो आगे ईतला करीही, जीसु मुनासब तो या हे, के सब सीरदारने पगा लगाये हुकमप्र अमल करावे, जदी हुकम दे सला मीलाये पकीकर लषदा, क्योक अवारु करदेवामे ज्यो सीरदार अठाकी मुरजीम्हे हे ज्या प्रे दोसण काडेगा, जीसु अठे तो साहेबकी सलाह मंजुरही हे, सो रुवरु वाने हुकम देर लषा तो ठीक हे, और साहेबकी पुसीकी षबर सासता लषवो करोगा, सवत १९११ वर्षे बेसाष सुद १३ भोमे.

ज्यॉर्ज सेंटपात्रक लॉरेन्सका खरीतह.

॥ ४४ ॥ लंबर

१ श्रीरामजी १

१ ॥ सीध श्री उदेपुर सुभसुथाने सरब ऊपमा वीराज्मान लायक महाराजा धिज महाराणाजी श्री सरुपसीधजी साहेब बहादुर ऐतान करनेल जारीज सेटपातरक

लारनस साहेब बहादुर ली ॥ सलांम मालुम करावसी, ईठारा स्मांचार भला हे आपके सदा भला चाहीये, अपरंच इन दीनामे पुलासा चीठी कोरट अफ डरकतरस ईस्मज्मुन का आया, के रसम मारपीट ओर जानसे मारडालणें, तोहमत डाकणसे सब राज-पुतानेमे मोकुफ हुई, सो श्री महाराणा साहेब वाली ऊदेपुरने भी सबसे पीछे ब-मुजीब स्मभाणे साहेबांन ईजंट ईस रस्मकी मुमानअत कबुलकीया, ईससे भरोसा हे के सती होणेकु जलद मोकुफ करेगे; जोक सतीके बावमे आप बारबार फरमाते हैं, के सीरदार हमारे केहणेमे नही ईसवासते हुकम जारी करनेमे तवकुफ हे, सो हमारी रायमे ये मुनासीब हे, के ईसतहार मनादी सती होणेका सब मेवाड ईलाकेमे जारी फरमावें; ओर अब जोक कोलनांमा बणगया हे, आप सरवे सीरदारांकु हुकम मनाई सतीका करें, अलवते ऐसे अेहकांममें आपके हुकमसे सीरदार बाहर न होंगे, ओर जो हुकम ऊपरांत अमलमें लावेगा, तो वोह मुजरीम सीरकार गीणा जायगा; ओर मीजाज मुवारीककी पुसीके स्मांचार हमसे लीषावसीं, स्मत १९१२ बेसाष वदी १३, तारीष १४ अपरेल सन १८५५ ईसवी. अंग्रेजीमें साहिबके दस्तखत.

ऊपर दर्जहुई तहरीरोके बाद महाराणाने भी एक हुकम इलाकह मेवाडमें जारी किया, जिसका मज्मून नीचे दर्ज कियाजाता है:-

महाराणाकी तरफसे मेवाड इलाकहमें हुकम जारी हुआ, उस मुस्वदहकी नकल.

॥ श्रीरामजी.

॥ अप्रंच ॥ कोडी कोडी सती वे हे, सो वीका धणीको तो मोह अर वीका घरकाकी अणवणतसु वा वीके बेटा वा बेट्या परणावाका दुषसु वा करजदारी वा घरमे षरच जादा वा पावाने नही मीले जीसु वे, सो या बात बेस्मालकी होवे हे, जीप्र यो हुकम ईत्रा जणाने स्मसत मेवाडका ऊमराव, भाई, बेटा, ठाकुर लोग, कामदार, सासणीक, पटेल, पटवारी, सेणा, भोम्या, गरास्या ओर स्मसत लोगाने, सो ज्यो फतुर करे जीने तो वीलकुल रोक दो, अर ज्यो वीका घरकाकी अणवणतसु वा वीका पावंदका मोहसु वा वीके बेटा बेटयाने परणावा

का दुषसु वा करजदारी वा घरमे परच जादा वा षावाने न्ही मीले जीसु व्हे, जीने आछा स्मजावज्यो, वा स्मजायासु मानलेवे तो ऊपली कलम लपी हे, जी मुजव वीको हक जठे पुगतो व्हेगा, जठासु कराए दीदो जावेगा, अर वा जीवेगा जत्रे रोठी कपडो वीने श्री द्रवारसु मीलेगा, जीसु आछी त्रेह समजावाम्हे पाछ राषो मती, अर फतुर करवावालीके तगसीर वेगा

यो हुकम प्रगणा वालाने सुणाअे दीदो, अर लषाये गयो पको हुवा, सं० १९१३ सा० सुद १२ बुधे.

ऊपर लिखा हुकम जारी होनेके बाद भी इस मुआमलहमें पोलिटिकल अप्सरोंसे बहुत कुछ तहरीरी बहस होती रही, उन कागज़ोंकी नकलें नीचे दर्ज कीजाती हैं:-

सर हिन्दी लॉरेन्सका खरीतह.

॥ श्रीरामजी ॥

॥ स्वस्ति श्री सर्वोपमा विराजमान लायक महाराजाधिराज महाराणाजी श्री सरूप-सिंहजी बहादुर एतान् करनेल सरहिन्दी मंटगमरी लारनस साहब बहादुर लिषावतुं सलांम मालुम होसी, अठाका संमाचार भला छे, आपका सदा भला चाहीजे अपरंच, परीता आपका लिषाहुवा मिति सावण वदि ७ संमत १९१३ का वजबाब परीते हमारे के, कि जो बीच मुकदमे सतीके बतोर सलाह बतारीष ५ जोलाइ.सन हालकुं लिषागया था आया, ऊसके मजमुनांके पडनेसे किसी तरेकी दिलजमई हमारी नही हुई, किस वास्ते के आपने ऊसमे बहोतसी सिकायत अपणे सिरदारांकी तो लिषणी फरमाई, लिکن वो बातें कि जो हमने लिषी थी अर वो जरूरी बातें थी, उनका जबाब आपने कुछ नही लिषणा फरमाया; अब हम फेर आपकी इतलाके वासते लिष्यो हे, के हमने सुणा हे, के ईन दिनांमे अेक ओर भी सती हुइ, ओर वो ओरत सती होणे वाली लुगाइ अेक सषसकी थी, के वो मुलाजम राजका था, ओर ये सती पास सहर ऊदेपुरमें आपकी निजरके नीचे हुइ, ओर जो जो बातें कि हमने पहली सतीके बाबत लिषी थी, वो सब वाते इस सतीके वास्ते भी इलाका रषती हे, हमकुं अफसोस हे,

कि आप हमारी सलाह दोस्तांनापर अमल करणेमे फरक करते हैं, ओर आप सिरकार

अंगरेजीसे तो हर तरेकी मदत व सलाह चाहते हैं, लिکن आप आपणा चलण व रवईया असा रपते हैं, के जीससे ये जाहर होता हे, के जीन बातांकी के सिरकार अंगरेजीकी चाहना बषुसी हे, उनपर अमल आप नहीं करेंगे; साहब पुलटीकल अजंट बहादुर मेवाड अर हम ये चाहते हे, के आपके दोसत बणे रहे, अगर आप भी इस बातकुं चाहे, ओर अब व निजर ऐसी बातांके कि जो आपकी तरफसे होती हे, हमने चाहा था, के आपके वकीलकुं यहांसे रुषसद देदी जावे, लिकिन जो के सिरदार सुलुंबर, भीडर वगेरा कि सिरकसी व बरषीलाफी आपसे रपते हे, इस सबबसे हमने वकील मोसुफकुं यहांसे रुषसद नहीं कीया, अर ये ही लिहाज रषा, कि वकीलकुं रुषसद होऐमे आपकी कुछ हतक सिरदारामे न होय, ओर आपके मिजाज मुबारककी पुसीके अहवाल लिषावसी, तारीष २ सितंबर सन १८५६ इसवी मिति भादवा सुदि ३ संवत १९१३ का.

अंग्रेजीमें साहिबके दस्तखत.

नीमचकी छावणी महता शेरसिंह वगैरहके नाम पंचोली हरनाथ व
ढोकिया उदयरामका कागज़.

॥ श्रीरामजी.

नुकूल.

॥सीध श्रीमीमचरी छावणी सुभसुथाने सब ओपमालाएक महेताजी श्री सेरसीघ-
जी श्री गोपालदासजी श्री ऊरजणसीघजी अेतान श्री उदेपुरथी पंचोली हरनाथ,
ढी० उदेरामलीषावता मुजरो वाचसी, अठारा समाचार श्री जीरी सुनज्र क्रमला
हे, आपरासदा भला चाडीजे, अप्रंच ॥ श्री जी हुकमकीदो हे, सो सतीरा मुकदमा
म्हे हद सुदी ताकीद आवे हे, सो इरो अठे तो बडो बीचार लागरयो हे, मने करवा
को हक हे जीमाफक करां, प्रंत इणी सीवाऐ न्ही माने जद कसीतरेह करां, आपणां
घर म्हे सतीका सरापरो पण डर है, आगे आगे इी सराप हुवाजे आज दीन ताई
भुगते हे, जीसु म्हाने तो अठे काही उपजे न्हीं, अठे तो या हे, सो वीने बरजा, ला-
लच देवां, डर बतावां, इी सवाऐ पाच रुप्याको परच वे तो या लोगारो कहणो राषवाने
भुगतां, प्रंत अेका अेक जवरी कसीतरेह करां, अर आपीयाने काहा, सो थे करलो तो
कोडी भला घरकी तथा अंटकती बात वे, ने वे जवरी कर हात पकडे, तो इीको बी

श्री कागज़ धरम
अपनी
इसारात
करेगा.
नहीं

बीचार हे, जीसु अवे आपरे इरी नजरम्हे काई आवे हे, अठे तो इीसतहाररो मसुदो करणो ने लीषावट सारे करणी जीरो तो मसुदो मेल्यो हे सो आप बाचोडीगा, ओर या व्हेजावे सो बरज्या स्वाई होजावे, तो वीके जरीबानो करां, असी बात वेजावे तो ठीक हे. दुसरु ओर बात तो काई बी अठे नजरम्हे आवे न्ही, जीसु आगे पण भाई स्वाईसीघजी आपने लीष्यो हो, सो आप तीनही जणा डकमें बेठ अठे आए-जावो. अर श्री जीरा मुडा आगे इरी रदलबदली कर घरम्हे बीचारां, क्युं या बडी बात हे, अर आगासु बरसा लग बात रहे जसी हे, जीसु ऊठे आपरी नजरम्हे आञ्जे-जावे, अर साहेबने राजी राषने नीकास अठे आवारो काढलो, तो घणी आछी हे, अर या आपने न्ही तुले, तो इीरो बीचारने जाब लीषे, जी धोरे श्री जीमे मालम करां; प्रंत अठे आएजावे, अर आछीतरे मे बीचारां जद कोई बात दीषे, जीसु आपने तुले ज्यो जाब लीषेगा; ओर वे तीन बाता हे सो तो आपने आगे पुलासा हुकम करही दीयो हो, सो सुबो मीठ्या अर दुसरी सारी बाता लीषावटमे वेजावे पकी, जद दुजी काई करणी है, प्रंत दोई आढी सुबो आञ्जे गयो, जीसु सुभो मीटे ज्युं आप करवाम्हे आवे, ओर तो जत्री बात ही, सो तो आपने आगे लीषाए दीदी है वी परमाणे आप सारी नजरम्हे करेईंगा, ओर कत्राक स्माचार भाई स्वाईसीघजीरा कागदसु जाणेगा. अठा लाएक काम काज वे सो लीषेगा, सं० १९१३ भा० सुद ९.

सर हेन्री लॉरेन्स साहिबके खरीतहकी नकल.

॥ श्रीरामजी.

॥ स्वस्ति श्री सर्वोपमा विराजमान लायक महाराजा धिराज महाराणाजी श्री सरूपसिंघजी बहादुर एतान, करनेल सर हिनरी मंटगमरी लारनस साहब बहादुर लिषा-वतुं सलाम मालुम होय, अठाका समाचार भला छै, आपका सदा भला चाहीजे, अपरंच लिषणे साहब पुलटीकल अजंट बहादुर मेवाडसे न्याहेत अफसोसके साथ ये मालुम हुवा, के इन दिनुंमें पास सहर उदेपुरमे आपके आंषांके सांमने अेक सती होगइ, अगरेचे

इन दोय बरसके अरसेमे केइ दफे करनेल जारज लारनस साहब बहादुरने अर हमने अच्छी तरे आपसे जाहर कीया, के इस रसम बद्, यानि सती होणेसे हमारी सिरकारकु बिलकुल नफरत व नापसंदगी हे, अर इरादा सिरकार दोलतमदारका इस रसम पराबकुं बिलकुल मोकुफ व बंध करणेका हे, तो आपने हर वषत पीछा येही फरमाया, के सतीके मोकुफ करनेमे ओर तो कुछ कबाहत व हरकत नही हे, सिरफ इतनी ही बात हे, के अगर हम इस रसमकी मनाइ वासते हुकम देवेंगे, तो हमारे सिरदार लोग कबुल व तामील उसकी न करेंगे, हमने ईसी लिहाजसे अर भी व षयाल कमजोरी हुकुमत, आपके ताकीद् व तकाजा वासते बिलकुल बंध करणे इस रसम पराबके जेसा, के ओर रइसां यानि बीकानेर व अलवरपर कीया वेसा आपसै नही कीया; मगर बहोत उमेद् थी, के आप मकदुर भर अपने मुलकमें सती होनेकी मनाही करनेमे व रोकनेमे षुब कोसस फरमावेंगे, लिकन अफसोस हे, के आपने इस बातमे, यानि वास्ते मोकुफी व मनाही रसम सतीके आजतक कोसस नही फरमाइ, बलके यकीन हे, के बिलकुल कुछ भी षयाल तबजेही इसका आपने नही कीया, अर फेरजो हमने आपके वकीलसे अहवाल इस सती होनेका केइ बार पुछा, तो महीने भरके बाद यानि तीन रोज गुजरे होवेगे, आपके वकीलने हमसे बयांन इस सती होणेका कीया हे, लिकन आप विचारके देषीये, के इस सती होणेमे जबाब माकुल देणेकी जगा अब आपकी तरफसे नही रही हे, किसवासते के इस वारदात सतीकी होणेमे किसी सिरदारका इलाका व वासता नही था, ये सती होनेवाली ओरत बेवा षास आपके राजधानीसे सेहर ऊदेपुरकी रहनेवाली अर बिलकुल आपके जेर हुकम थी; ओर ये भी आपकुं मालुम होय, कि करनेल जारज लारनस साहब बहादुर अच्छी चाहणेवाले आपके दरबारके व हर बातमे दोसत मददगार जेसे आपके हैं, वेसे दुसरां किसीके नही हे, ऊनोंने केइ दफे हरेक बातमे आपकुं सलाहां बहोत नेक दीवी थी, लिकन आपने ऊसपर कुछ षयाल नही फरमाया, तो इसी सबबसे करनेल साहब बहादुर मोसुफ अपनी तरफसे ये राय लिपते हे, के महेकमा अजंटीका यहांसे उठजावे अर दरवार अपने कांम काजके अंतजांम बंदोबसतमे पुद् मुषत्यार अर भले बुरे कांमके जमेवार रहे, तो इस सुरतमे हमारी दांनसतमे आपके हकमे किसीतरे से फल इसका अच्छा नही होगा; ओर आपने साहब अजंट बहादुर मोसुफके नेक सलाहां देणेपर षयाल नही फरमाया, बलके हमारे अच्छी सलाहां कितनीक बातांमे देणेपर भी अमल नही कीया, इससे अब हमारा इरादा हे, के व सलाह करनेल जारज लारनस साहब बहादुर अजंट मेवाडके रपोट इसकी सदरकु करें,

लिकन फेर भी पेहले रपोट करणेसे दोसतीकी राहसे येही मुनासब हमने जाणां, कि

फेर अहतयातन आपकुं आगाह करदीया चाहीये, इसवासते आपकुं लिषणेमे आता हे, के अब भी आप ऊपर नेक सलाहां साहब पुलटीकल अजंट बहादुर मोसुफके अर भी हमारे षयाल फरमायके अमल करावें, तो बहेतर हे; किसवास्ते के ये बात जाहर हे, के आपकुं अपणे मुलक षालसेपर बिलकुल ईषत्यार हे, अर जो मुलक कबजे सिरदारांके हे, उसमे भी च्यार हिसेमे से तीन हिसेसे ज्यादा सिरदार भी आपके तावे व कबजेमे हे, इस सुरतमे अगर आप हुकम जारी करके उसकी तामीलमे कोसस फरमावेंगे, तो जो लोग के ना फरमांन हे, उनका भी तावेदार करलेणा कुछ मुसकल नही होगा. अब हिदुसथानमे सिरफ मेवाडकी रियासतमे सती होणेकी रसम मोकुफ नही होई हे, बावजूद इस्केके जितनी महरवांनी व रियायत सिरकार दोलतमदार अंगरेजीकी तरफसे इस रियासतपर हे, ओर रियासतपर नही हे; ओर ये भी आपकुं जाहर होय, के सती होणेकी मनाहीके बावत हजुर साहबांन सदर अर कोरट अफ डरकटरसकी तरफसे ओर हुकम भी आये हे, लिکن हमने लिषना जवाब उस हुकमां का इस षरीतेके जवाब आपकी तरफसे आपेपर मुलतबी रषा हे, इस वासते आप कुं लिषणेमे आता हे, के आप जवाब इस षरीतेका जलदी भेजणा फरमावे, अर आपकुं ये भी मालुम रहे, ये मुकदमा बहोत भारी हे इसकुं छोटी बात नही समजीये, ओर नकल इसतहार (१) महाराजे साहब वीकानेरकी, जो सतीकी मोकुफी वासते जारी कीया, आपके मुलाहजेके वासते इस षरीतेमे भेजी जाती हे, के मरातब उस्के आपकुं मालुम होय; ओर आपके मिजाज मुबारककी पुसीके संमाचार लिषावसी, तारीष ५ जोलाइ सन १८५६ ईस्वी, मिती असाड सुदि ३ संवत १९१३ का.

अंग्रेजीमें साहिबके दस्तखत.

मेवाडके पोलिटिकल एजेंटके कागज़की नकल.

॥ श्रीरामजी.

॥ २५१ ॥ नंबर

॥ सीध श्री उदेपुर सुभ सुथाने सरबओपमां वीराजमांन लाअक म्हाराज-धीराज म्हाराणांजी श्री सरुपसीधजी साहेब बहादुर अेतान मेजर राबर्ट लवीस टेलर साहेब व्हादुर ली ॥ सलाम मालुम करावसी, अठाका र्मांचार भला हे, आपका र्दा भला चाहीजे, अपरंच वकील मेवाडने हमकु षवर दीया, के सनवाड डीलाके मेवाडके

(१) इस इरितहारकी नकल पृष्ठ २०२० में पहिले दर्ज होचुकी है.

जागीरदारके यांहां सती होगई, ईस बातके सुननेसे अफसोस मालुम हुवा. अब श्री दरवारने जेसा कुछ तजबीज ईस अमरके मौकुफ व सजा देनेकी कीहो, उससे इतला फरमावें; दुसरे ये, के बोहोत रोज होगअे, के हमने डीगरीके रुपीयाका हीसाब बतलब रुपीये भेजा, उसका आजतक कुछ जबाब न आया, बलके परीते मुकरर सीकरर मीयादी आठ रोज बतारीष ६ माहे जोलाही सन हाल बतलब रुपीये मजकुर भेजा, मगर रुपीये मजकुर दाषल न हुवा; तीसरे ये हे, अब इतना अरसा हुवा, के बाबत मुबलगान हीसाब नीमांहेडे हमने इतला की जीसका भी ज्वाब नही आया, अगर आपकी मरजी भेजने रुपीये मजकुर माफीक मनसाअे हुकम गवरनर जनरल बहादुर न हो, तो हमकु इतला देवे, के हम रपोट ईसकी सदरकु करे; और मीजाज मुबारीककी घुसीका स्मांचार हमसे लीषे, ता० २९ माहे अगस्त स० १८६१ ईसवी, मीती भादवा बद् ९ स्मत १९१८, मुकाम छावणी नीमच रोज बीसपतवार. अंग्रेजीमें साहिबके दस्तख़त.

ملاحظه شد

ईडन साहिबके नाम महाराणाके रुक्केकी नक़ल.

॥ श्री ॥

॥ स्वस्ति श्री मेजर वलीयम फरीडरक ईडन साहेब बाहादुर जोग, अप्रं पलीतो साहेबको ता० २१ जोलाही संन १८५९ ईसवीको लीष्यो आयो समाचार मालम हुवा, साहेब लषीके बीच इीन दीनोके आवणे षत अंगरेजी कपतान सोर साहेब बाहादुर अजंट मेवाडके से दर्याफत हुवा, के बीच पास बागोरके बारदात सतीकी हुई, आगे ईससे बीच मुकदमे बंदोबसत ईस रसमके करनेल सर हीनरी मंटगुमरी लारनस साहेब और दुसरे साहेबांन अजंट बाहादुर राजपुतानेने लीषना कीया हे, और अे रसम अेसा नांपसंद और बरषीलाप तवीएत सीरकार अबद पाएदारके हैं, के बीच बयानके नही आता, और आप सबब नेक इीरादे सीरकार दोलतमदारके से जाहार होनां पेरषवाडी और दोसतीका करते हे, फेर मालम नही होता, के कीसवासते ऊपर उसके षयाल नही होता हे, सो साहेब दोसतीकी लषे सो, तो युडी हे, के अठे तो सीरकार अंगरेजीकी दोसती-ज चावा हां, क्युके यो राज तो फगत सीर (कार) अंगरेजीकी मदतसुडी सरसबज हुवो अर होवे हे, सो रात दन श्री जी म्हाराजसु याही अरज करवो कराहां, के सीरकार

अंगरेजीको ईकवाल दनभर दन जादा बदे जीकी अैन कुसी हे. आगे ईस मुकदमामे साहेब लोणाकी लीषावट आई जीको जुवाब तो पाछो मुनासब, और रसम ईस मुलक मे सासत्र मरजादसु जारी हे जीमाफक सासत्रका बचनाकी नकल समेत लण्यो गयोई हो, सो साहेबके दफत्रमे मोजुदई हे. ई राजकी अर दुजा रजवाडाकी कत्रीक चालके बडो फरक हे, और जगा तो कठे हुई कठे न्ही बी हुई, अर ई राजमे तो यारसम पुरा धरमकी अर परंमपरा श्री रामा अवतारसु चली आवे हे, जीको सब हाल टाटनामा कीताब मे बी लण्यो है, सो साहेब देण्योई होवेगा, तथा अठासु नकल कराए करनेल सर हीनरी मंटगुमरी लारनस साहेब बाहादुर पास संवत १९१३ का काती वीद १२ का षलीता लार भेज्यो हो, सो साहेब मुलाएजे करलेवे. म्हाकी त्रफसु रोकवाको हक, मने करवो, डर बतावणो, पाणा पीणा वगेरे हरसुरत तसली करवाको हे ज्यो कराई हां, अर ई सीवाए नहीज माने अर वीरा षावंदकी लार जावोईज ईकत्यार करलेवे, जीसु तो धरम के सबब लाचारी हे. अर साहेब ईने आतमहत्या गणे सो नही हे, सती तो च्यारही जुगमे वेती आई हे, या बात अफरादकी वेती, तो आजताई जारी न्ही रहेती. अर सीरकार दोलतमदार ज्यो साराको वरण, धरम आप आपको राषे हे, सो अवार श्री बादसाजादी को ईसतहार भेज्यो हुवो नबाब गवरनर जनरल साहेब बाहादुरको आयो, जीमे बी राहा-मरजाद और दीन और धरम बावत मजमुन लण्यो हे, सो साहेब जाणेई हे, अर अठे ज्यो म्हाराज धरमकी बात हे, सो साहेब ई ईस मुलककी राहा रसम और धरमकी बातसु आछा वाकव हे; और साहेब लषी के षबर ईस वारदातकी साहेवान आली-सान सदरके करी हे, सो म्हारो लषवो तो साहेवने हे, साहेब ज्योई करेगा ज्यो अठा का फायेदा, बेहेत्रीकीज करोगा; और साहेबकी कुसीकी षबर सासता लषवो करोगा, संवत १९१६ वर्षे भादवा वीद १० भोमे.

महाराणाकी तरफसे कलमबन्दीके साथ हुक्म जारी हुआ उसकी नकल.

॥ श्रीरामजी.

॥ याद

सं० १९१६ का का० बुद ५

पेली कलम तो या, के कठेई सती होवाको ईरादो करे, तो वीका गरका समजावे, के

तु सती मत वे, आछीत्रे धमकाअे केवामे बाकी राषे न्ही
 गरकाकी न्ही माने, तो राजसु बरजावे
 बरज्यो न्ही माने, तो षावा पीवाका सरतनको लालच देर रोके, जु रुक सके जणी
 चालसु समजाअे रोके
 ई सवाअे न्हीज माने, तो या केणी, के थारे सती होणोई हे, तो माका देसमें
 मती हो, ओठेजार वे
 ईप्र ईन्ही माने, तो अत्री करणी

अेक तो या, के वीने केणी, के तु होवे तो हे, प्रंत थारी प्रतीत माने आवेजु कर,
 मे थने तालामे जडदेवा, सो तालो आकसमात पुलपडे जद मे पकी जाणा
 दुजी या, के हातमे बासदीका अगीरा लीया रहे, जीमे थारो मन माने, गाडी
 दीषे, जदजावादा

ई सवाए वा साचा दीलसु सत करवोई धारले, तो जरीबानो पाछलाके होवेगा,
 जीरी वीने केदेणी, अर वीरा गरकाने केदेणो, के सलाको पुरो जापतो कर बेठावजो,
 पछे राजकी त्रफसु समाल रषावणी सो काठ कम न्हीवे, टाटा च्यारई त्रफ बदाए
 दोगा, गीरत, राल, नीचे, उपरे आछीत्रे बछाअे देणो, अर काठ नीचे उपरे
 चुणवावाला आछा समालेर चुणे सो डगवा बपरवा पावे न्ही
 ई सवाए देवगतसु सलामें बेठा पछे मत बीगड जावे, तो ससत्र बगेरे दुजासु कोई
 मारे न्ही, ऊई वपत देस बारे काडदेणी, या समाल हाकम करे

ई प्रमाणे सारा प्रगणा वाला षाल राष समाल राषे, ई कलमा उपर मडी जी बीना पडदा-
 वाली बारे फरे जीके वासते हे, अर पडदावालीके वासते तालाकी वा अगीराकीज
 करावणी

सती तावे कलमा लपाई, जीमे पडदावालीके वासते या चावे, के कदाक उठे पुगा पाछे
 कुमत आअेजावे, तो वीका गरवाला तीरथा मेलदेवे, सो तीरथ सेवन करे, अर षावाने
 वीका गरवाला पुगावे

ईडन साहिबके फ़ार्सी खरीतहका तर्जमह.

॥ श्री ॥

मामूली अलकाब व आदाबके पीछे—

खत आपका हमारे खतके जवाबमें, जो तारीख २१ जुलाई सन् ५९.ई० को बमुकद-
मह वारिदात ताजह सती होने बागौरमें, और बाजे मरातिब मुत्अल्लकह उसके इस मज्मू-
नसे आया, कि आगे बरवक्त आने लिखावटों साहिबान आलीशानके जवाब मुनासिब मए
नकूल कौलों शास्त्रके लिखना हुआ, और इस राजकी अक्सर रस्मों और दूसरी रियासतोंकी
रस्मोंमें बहुत फ़र्क है, इस राजमें कदीमसे रस्म सती होनेकी जारी है, और मना करनेके लिये
केवल समझाना, और उसके खाने पीनेको मुकर्रर कर देनेका वादह कर लेना होसक्ता है; इस
पर भी जो सती अपने पतिके संग जानाही इख्तियार करे, तो उसवक्त धर्मके लिहाजसे ला-
चार हैं, यह बात आत्महत्यामें नहीं गिनीजाती है, चारों युगमें जारी रही है, और मलिकह
मुअज़्जमहके जारी कियेहुए इश्तिहारमें भी दूसरोंके धर्म सम्बन्धी कामोंमें रोक टोक न
करना लिखा है; उसकी लिखावट बिल्कुल जाहिर हुई, और उसके बाजे मज्मून
जाननेसे सबव तअजुबका हुआ, किसवास्ते कि आप फ़ज़ल इलाहीसे जमानहके अकलमन्द
और समझदार व दाना सर्दार हैं, और जाहिर है, कि अगले जमानह और हालके जमानह
में बहुत फ़र्क है; क्योंकि जो बातें इस जमानहके आदमियोंको बहुत दिनोंके तजबोसे
मिली हैं, अगले जमानहके आदमियोंको कहां सुयस्सर थीं; और इस बातसे साफ़ जाहिर है,
कि अहालियान सरकार अंग्रेजीने केवल दयाकी राह, और आदमियोंके जीव बचानेके खयाल
से इस रस्मको बन्द करना चाहा है, और जो मिसाल कि मलिकह मुअज़्जमहके इश्तिहारमें
किसीके दीनमें दरख्त न देनेका जिक्र होनेकी बावत् अपने खरीतहमें लिखी है, और इस बात
के रोकेजानेको इश्तिहारके मज्मूनके खिलाफ़ समझे हैं, सो यह लिखावट आपकी उक्त इश्ति-
हारके मज्मूनपर एक हाशियह (नोट) है. इश्तिहारमें ऐसा लिखा है, कि एक दीनको दूसरे
दीनसे बढ़कर नहीं समझा जायेगा, और किसीको धर्म सम्बन्धी रस्मोंमें तकलीफ़ नहीं होगी.
खयाल करनेकी जगह है, कि सती होनेकी मनादीके बाबमें कोई बात ऊपर लिखीहुई दोनों
वातोंमेंसे नहीं पाईजाती, न तो एक दीनको दूसरे दीनसे बढ़ाना है, और न किसी आदमीको
दुःखदेना है, बल्कि इसके खिलाफ़ पूरी तज्वीज़ दुःख मिटाने और आदमियोंके जीव बचाने
की है; इसवास्ते मना करना इसका शास्त्रके भी बाजे कौलोंके खिलाफ़ नहीं है, और आप

इस कामको आत्महत्यासे अलहद्दह समझते हैं, तो बड़ा तअजुब है, किसवास्ते कि इस मुआमलहमें अकुसे आत्महत्यामें कुछ शक नहीं है, और न इसमें दलील करनेकी जरूरत है. रहा शास्त्रका हुक्म, सो शास्त्रसे भी निस्सन्देह यह बात आत्महत्यामें ही दाखिल है; अखीर यह, कि जिन बाजे कौलोंपर आप दलील करते हैं, कि इस तरह जीव देना जाइज होवे, जोकि उस दलीलसे भी आत्महत्याकी बात झूठ नहीं है, और शास्त्रके अनुसार भी आत्महत्या के सुबूतकी बावत् यह मज़बूत दलील है, कि सती होनेके पीछे नारायणबलि जरूर करना होता है, और यह बात ऐसी मौतोंपर होती है, कि किसीने बड़ा पाप या आत्महत्या, या कोई दूसरी बात जो ऐसी हत्यासे निस्वत रखती हो, चाहे हरएक मौतके पीछे (नारायणबलि) होती है, तोभी आत्महत्यामें कुछ शुब्ह नहीं रहा. हर हालतमें ऊपर लिखी-हुई बातोंसे सती वन्द होनेका काइदह पसन्द करनेमें बहुत गुंजाइश है, लेकिन आपके इस लिखनेपर, कि अपनेतई खैरख्वाह सरकारका लिखते हैं, और इस हालतमें अहालियान सरकारकी इख्तियार कीहुई नेक राहपर चलना योग्य था, साफ़ ज़ाहिर है, कि इस रस्मके मना करनेका बिल्कुल इरादह नहीं रखते हैं, बल्कि आपकी नज़र उसके खिलाफ़ है. अब इस बावकी इत्तिला वक्त वक्तपर सदरको होती है, इसमें खासकर तर्जमह सरिश्तह दोस्तदारका सदरको लिखेगा, वास्ते इत्तिलाके लिखा है, उम्मेद है, कि दोस्तदारकेतई मुन्तज़िर खैरियत मिजाज आलीका जानकर लिखने शायक़ लाइक़से खुश फ़र्माते रहें, ज़ियादह खुशी हूजियो, ता० २२ नोवेम्बर सन् १८५९ ई०.

अंग्रेज़ीमें साहिबके दस्तख़त.

महाराणाका रुक्का मेजर ईडन साहिबके नाम.

॥ श्रीरामजी.

॥ स्वस्ति श्री मेजर वलीयम फरीडरक ईडन साहेब बहादुर जोग १ अप्र, साहेब मीरमुनसीने भेज्या, सो आयेने अरज करी, के साहेबने अरज कराई हे, के या दो सती हुई अर हमारेसे इतला न्ही कराई, अर आप सीरकारकी दोसतीप्र इतना तो नजर रपते हे, अर अे सती होणा सीरकारकु नापसंद, जीसकु आप रोक नही सकते हे, या बडा ताजुबकी बात हे. इस ताबे हम पण मुलाघात करणकु कोडी पण न्ही आवेगे, सो सीरकारकी दोसतीपर, तो अठे पुरी नजर हे, जी दनसु अहेदनामो बंधो जठासु वरावर मदत

पेरषाही दोसतीप्र नजर हे सो आछा मसुर हे, अर साहेब पण आछा जाणे हे; अर फेर म्हे तो श्री जीसु याही अरज करवो करा के सीरकारको अकबाल दनभर दन जादा बदावे जीमे कुसी हा, अर सतीकी इतलानही हुई जीपर साहेब मुलाघात करवा आवो भी माफ राष्यो, सो काल तो साहेबको आबो हुवो, अर आज पेली पेल मुलाकात कुसीकी ही, जीसु वकील इतला नही करी, हुजु या बात साहेबसु छपा राषवारी वेती, तो आगे इतला कु करता. अठे तो साहेबानका षलीता आगे आया जठासु पुरी ताकीद सारे हे; अर वेही जीने बरजाबो वा तंगी करवो वा शोटी तावे केवो, जतरो केवारो हक जत्रो करे. ही सवाये जबरीसु वेजावे जीका लाचार. तोही अठे सुणवामे आही के जोदपुर तो ही तावे कलम मनाहीकी बंद होगही जठेही जुरमानाकी ठहरी, अर अेक दो जगा हुई जठे जुरमानोही हुवो सुणयो; अणाये पण दो सती हुई जठे पण जुरमानो हुवो सुणयो, सो साहेबरी याही मुरजी हे तो, हे तो घणी म्हाका धरमकी बात, पण सीरकारने कुसी राषणा जीतावे अठेही इका रोकवा तावे सारे फेर ताकीदको हुकंम पुगावा, अर हर सुरत रोकवा तावे केण करवामे कोताही रहे नही, इसवाए कोही ऊरड देर वेजावे, तो वीके वासते जुरमानाकी ठहरजावे, सो आहीदे सती वेवा वालाका घरका वीने कदी वेवा नही दे, कु जरीमानासु पाछला बीगडजावे. ही चालसु रुकती रुकही जावेगा, जीमे मजहबकी बात अर सीरकारका हुकमपर तामील. ओर साहेबरो तो बीलाएत जावो, अर अजंट साहेबको आवो जीमे मुलाकात करवाने साहेब नही आवेगा, इमे तो पुरो हतक हे. म्हारे ज्यो सरकारकी दोसती सवाए काही बात हे. यो राज तो सरकारकी दोसतीसु सरसबज हुवो. मुलाकात कीया बना साहेब हरगज नही जावे, जीमे म्हाने अेन कुसी हे; ओर कत्राक समाचार मुषजवानी राव वषतसीघजी, कोठारी केसरीसीघजीने भेज्या हे, सो इतला करेगा. यो राज तो साहेब लोगाकी म्हेनतसु सरसबज हुवो, अर फेर ही साहेब जर्या दाना हे, सो अठाकी आछीज करोगा. ओर साहेबकी कुसीकी षबर सासता लषवो करोगा, संवत १९१७ वर्षे काती सुद ८ भोमे.

मेजर विलिअम फ्रेडेरिक ईडन साहिबका खरीतह.

॥ श्रीराभजी १.

॥ स्वस्ति श्री सरब ओपमा वीराजमान लायेक महाराजा धीराज महाराणाजी श्री सरुपसीघजी बहादुर ऐतान, मेजर वलीयम फरीडरक ईडन साहेब बहादुर लीषतं सलाम

मालुम होवे, अठारा समाचार भला हे, आपरा सदां भला चाहीजे; अपरंच षरीता आपका लीषा हुवा मीती काती सुदी ६ तारीष २० नवंबर सन १८६० ईस्वी बजवाब पेगामे जवानीके मारफत मोलवी मोहोमद मोहीयुदीनषां मीरमुनसीके दरबाब होने २ सतीके आपको कहा था, ईस मजमुनसे आया के दरवारकों हमेसां नजर ऊपर दोसती सरकार दोलतमदार ईंगलसीयाके रहती हे और रहेगी, ओर हम तो पेसतरसें बमुजब आने षरीते साबकके सबपर वासते न होने सतीके ताकीद करते हैं, ओर दबागतसें ओर लालच देनेसें मना करते हैं, तोभी ऐसा ईतफाक होजाता हे. ईसकी तजबीज थुं मनासब हे, के सती होनेवालेके घरके लोगोंपर जुरमाना ठेरायाजावे, तो उसके घरवाले ईस षोफसें जुरमाने के सती न होने देवें; ओर ईसी तरें रुकते रुकते रुकजावे. ओर भी जो जवानी मजमुन मीर-मुनसी मोसुफके ओर बयान मेजर टेलर साहब बहादुर पुलठीकल अजंट मेवाडसें मालुम हुवा, आप फरमाते हैं, के हम सब तरेकी तजबीज वासते बंद करने सतीके करते हैं. लेकीन में येह पुछता हुं, के जोधपुरमें सती बहोत कम होती हे ओर जेपुरमें मुतलक नही होती, ईसका क्या सबब हे के वहांके रईसोंका हुकम रईयतपर जारी होता हे, ओर आपका हुकम जारी नही होता ? ओर जरुर हे के हुकम हाकमोंका जारी होवे. लेकीन बहर हाल में आपके ईस नीयेत नेकसें वासते बंद करने सतीके पुस हुवा; ओर ऐकीन हे, के ऐसी तजबीजसे के आप ताकीद भी करें ओर दबागत भी देवें, ओर जुरमाना सतीके घर-वालोंपर करें, येह रसम बीलकुल बंद होजायेगा. अगर पेसतरसें मुजकों ईस नीयतसें आपके ईतला होती, तो में जरुर मुलाकात करता, लेकीन में खाने वलायेतकों होता हुं, ओर मुजकों ऊमेद कामील हे, के ता मराजीयेत मेरे ऐसे रसुम, जीसमें ना रजामंदी सरकार दोलत-मदार ईंगलसीयाकी हो, ब सबब आपकी नीयेत नेकके बंद होजायेगी, ओर में मुलाकातसें बहोत पुस होऊंगा. ओर मेने येहे हाल आपकी ईस नीयेतका जो मुजकों लीषा ओर कहा, सदरमेंरपोट कीया, फकत. ओर आपके मीजाज मुबारककी पुसी हमेसा लीषावसी, तारीष २३ नवंबर सन १८६० ईस्वी, काती सुदी ११ समत १९१७ का. अंग्रेजीमें साहिबके दस्तखत.

मेजर आर० एल० टेलर साहिबका खरीतह.

॥ श्रीरामजी.

॥ १८० ॥ नंबर.

॥ सीधश्री ऊदेपुर सुभसुथाने सरवओपमां बीराजमान लाअक म्हााराजा धीराज म्हाारानाजी श्री सरुपसीधजी साहेब बहादुर अतांन, मेजर राबरट लवीस टेलर साहेब

बहादुर ली॥ सलाम मालुम करावसी. अठाका समाचार भला हे, आपका सदा भला चाहीजे, अपरंच दो कीते तरजुमे चीठी मजरीअे अज पेसगाह जनाब मोओला अलकाब नाअब सीकरतर आजम व नीज साहेब सीकरतर आजम मुमालीक हीदुसथान, अेक लीषा-हुवा १६ माहे फरवरी सन १८६१ ई॥ व दुसरा लीषाहुवा २७ माहे अपरेल संन सदर, व ईस्म जनाब जरनेल जारज सैट पात्रक लारनस साहेब बाहादुर अजंट गवरनर जंनरल राजसथान व मुकदमे सती व स्माद लफ चीठी अंगरेजी व मुराद ईनस्दाद हसब मनसाहे मजमुंन मुंदरजे चीठीयात मजकुरे बहर अेक रआस्त मुतालक अजंटी मेवाड मोसुल होकर नकल हर दो चीठीआत लफ षरीते षीदमत मुबारीकमे भेजकर तकलीफ दीजाती हे, के मजमुंन मुनदरजे चीठीआत व ईलाके मेवाड मुस्तहर कराअे बंदोवस्त करार वाकडी फरमावे, के हरअेक ईलाकेदार मवाफीक मदरज मुदरजे चीठी-आत अमल करे ओर बरषीलाफ ऊसकेन कीया करे. ईसका बंदोवस्त कराअे, बंदोव-स्त ऊसकेसे इतला फरमावे, ओर मीजाज मुबारककी पुसीका स्मांचार हमेसे ली॥ ता॥ १ माहे जुन सन १८६१ ईस्वी, मीती जेठ बद् ९ स्मत १९१८, मुकाम छावणी नीमच, रोज सनीस्त्रवार.

अंग्रेजीमें साहिबके दस्तखत.

हिन्दुस्तानके नाइब सेक्रेटरी आजमकी अंग्रेजी चिट्ठीका तर्जमह.

॥ श्री ॥

नकर मुताबिक अमलके
ले, दस्तखत मुहम्मद मुहि-
युद्दीनखां.

पोलिटिकल
एजेण्ट मेवाड के
ऑफिसकी
मुहर.

(अंग्रेजीमें दस्तखत)

आर० एल० टेलर

मुल्क हिन्दुस्तानके नाइब सेक्रेटरी साहिब बहादुरकी तरफसे राजपूतानहके साहिब एजेण्ट गवर्नर जेनरल बहादुरके नाम ता० २७ एप्रिल सन् १८६१ ई० की लिखीहुई अंग्रेजी चिट्ठीका तर्जमह.

मुवाफिक हुक्म नव्वाब मुस्तताब गवर्नर जेनरल बहादुर इन् कौन्सिल, मुल्क हिन्दुस्तानके बडे सेक्रेटरी साहिबके ता० १६ फेब्रुअरी सन् १८६१ ई० के लिखे-

हुए कागज़ नम्बरी २० की नक़, जो उन्होंने इलाक़ह राजपूतानहमें औरतको

जीती हुई जलादेने और गाड़देनेके विषयमें भेजा, आपकी सूचनाके लिये इस चिट्ठीके साथ भेजता हूं, कि आप रईसोंको, खासकर वालिये उदयपुरको इस विषयमें सरकार मलिकह मुअज़्जमहके मन्शासे वाकिफ़ करदोगे, और आप खुद इस मुअ़ामलहमें पूरी कोशिश करोगे, कि उक्त रईस लोग ऐसी बेरहम रस्मोंके बन्द करनेका अपने अपने इलाक़हमें पूरा प्रबन्ध करें— फ़क़त.

तर्जमह चिट्ठी नम्बरी २० लिखी हुई ता० १६ फ़ेब्रुअरी सन् १८६१ ई०,
मक़ाम लन्दन, बनाम नव्वाब मुस्तताब गवर्नर जेनरल बहादुर अधिकारी
मुल्क हिन्दुस्तान.

जनावि आली, मैंने साहिव कौन्सिलकी शामिलतसे इलाक़ह राजपूतानहमें विधवा स्त्रियोंको जीती जलादेने और गाड़देनेके विषयकी मिस्लें देखीं. सरकार मलिकह मुअज़्जमहको सती और समाधिकी हकीकत दर्याफ़्त होनेसे, जो अक्सर हिन्दुस्तानी रईसोंके इलाक़हमें हुआ करती है, बड़ा अफ़सोस हुआ; बल्कि जो वारिदात सती की इलाक़ह अलवरमें हुई, गुमान होता है, कि वह सती अपनी रज़ामन्दी और खुशीसे नहीं हुई. उक्त स्त्रीको उसका मृत ख़ाविन्द दिलसे नहीं चाहता था, बल्कि वह कई वर्षसे अपने ख़ाविन्दसे अलग रहती थी. इससे यह शुब्ह मजबूत होता है, कि बेचारीको मरवाडाला; इस सबबसे कि ऐसा न हो, उसके हक़को दूसरी विधवा औरतोंके हक़में दरूल हो. ऐसे मुअ़ामलह और इरादहके क़त्लमें तमीज़ और तफ़्तीक़ करना मुश्किल है; और आपको हिन्दुस्तानी रईसोंसे बड़ी ताकीदके साथ कहना चाहिये, कि ऐसे मुक़दमोंमें वे मुज्जिमोंको सख्त सज़ा और जुर्मका दण्ड दिया करें. मैं अरसहसे दिली तअज़्ज़क़के साथ लेफ़्टिनेण्ट इम्पी साहिव बहादुरकी रिपोर्टके आनेका इन्तिज़ार देख रहा हूं, यह दर्याफ़्त करनेकी गरज़से, कि उन्होंने ऐसे संगीन मुअ़ामलहमें क्या क्या प्रबन्ध और क्या तज्वीज़ें कीं? इलाक़ह मारवाड़में सती होनेकी बाबत मेजर ईडन साहिव बहादुरकी तज्वीज़ें और प्रबन्ध मुनासिब मालूम होते हैं. मेजर ब्रूक साहिव बहादुर तर्जमह करके लिखते हैं, कि महाराजा साहिवने मुज्जिमोंसे रु० १३२००, तेरह हजार दो सौ रुपयेकी तादादसे जुर्मानह लेना तज्वीज़ फ़र्माया, यह बहुत ज़ियादह था; बल्कि उस जायदादको, जिसपर जुर्मानह हुआ, नुक़सान भी पहुंचा हो. प्रगट हो, कि अब तक ऐसे जुर्मोंमें सरकार अंग्रेज़ीने रईसोंके हाथसे मुज्जिमोंको पूरी सज़ा नहीं दिलाई है. यकीन है, कि हालके मुक़दमहमें महाराजा साहिवने अपने अन्दाज़ और रायमें जितना जुर्मानह

वाजिव और इन्साफ़के रू के सुवाफ़िक़ समझा हो, तो साहिव पोलिटिकल एजेण्टको

कुछ इतना जरूर और लाजिम नहीं है, कि वह सतीके मुकदमहमें जियादह सजा देनेकी रोक टोक करें. जोकि सर हेनरी लॉरेन्स साहिब बहादुरने राजपूतानहमें सतियोंकी बाबत अपनी ता० ५ फेब्रुअरी सन् १८५७ ई० की लिखीहुई रिपोर्टमें लिखा था, कि उदयपुरके महाराणा साहिबने सतीके रोकनेसे इन्कार किया, और हिन्दुस्तानभरमें सिर्फ एक राणा साहिब हीके इलाकहमें जरा भी रोक या मनादी सती होने, अथवा समाधि लेनेकी नहीं हुई. मैं अभिलाषा रखता हूं, कि आप मुझको इतिला दोगे, कि आपने क्या क्या फिक्र और तबीर इस बातमें महाराणा साहिबके इन्कारको छुड़ाने या दूर करनेमें की. सरकार मलिकह मुअज़्जमहकी रायमें यही है, कि ऐसी वहशी (असभ्य) और जालिमानह रस्मोंके बन्द करनेकी गरजसे आप और आपके कुल अपसर राजपूतानहमें पूरी कोशिश करें; और यह भी फर्माती हैं, कि सुननेमें आता है, कि हिन्दुस्तानके रईसोंमेंसे कई एकने मलिकह मुअज़्जमहके इशितहारके मज्मूनको ऐसा समझा है, कि जोकि उसमें सती और समाधिका जिक्र नहीं है, इसलिये ऐसी रस्मोंकी मन्जूरी है. ऐसा अर्थ बिल्कुल उक्त इशितहारकी इवारत और मज्मूनके बखिलाफ है, यह बात रईसोंको अच्छी तरह समझाईजावे.

दस्तखत चार्ल्स वुड,
प्रधान सेक्रेटरी मुल्क हिन्दुस्तान.

महाराणाके इशितहारकी नकल.

॥ श्रीरामजी.

नकल.

॥ सीधश्री म्हाराज धीराज म्हाराणाजी श्री सरुपसीधजीकी हजुरसे हुकम इस्ताहार जारी कीयोजावे हे; अप्रंच आगे रेजीदंट साहेब बहाद्र वा अजंट साहेब बहाद्रका लीष्या माफक स्ती समादका मुकदमासे हुकम जारी हुवो हो, के कोडी स्ती होबा पावे न्ही ओर स्माद लेवे न्ही, वीका घरवाला तथा दुजा रोके, सरबता होबा देवे न्ही, इी सीवाए कोडी जगा रोकवो बरजवो न्ही होवेगा, सो तो सारा जाणो हो. अब

ईताबे फेर साहेब बहादुरकी पुरी ताकीद आई हे, जीसु दुबारे हुकम लीप्यो जावे हे, सो स्ती समाद होताने कोडी न्ही बरजेगा, वा न्ही रोकेगा, अर वेजावेगा, तो वीरा घरवालाके जरीमानो होवेगा, सं० १९१८ सावण वुदी १.

विक्रमी १९०२ [हि० १२६१ = ई० १८४५] से विक्रमी १९१८ [हि० १२७७ = ई० १८६१] तकके जो कागज़ात हमको मिले हैं उनकी नक़्के इस वास्ते दीगई हैं, कि सती होनेका एक बड़ा रवाज बन्द करनेमें कैसी कैसी कोशिशें कीगई, और महाराणाने मज़हबी खयाल और बाशिन्दगान मुल्ककी शिकायतसे बचनेके लिये कैसे कैसे उज़्र पेश करके इस रस्मको अपने अखीर वक्त तक जारी रक्खा. मैं (कविराजा श्यामलदास) ने खुद अपनी आंखोंसे कई औरतोंको सती होते देखा है, जो बड़ी बहादुरीके साथ अपने पतियोंके संग चितामें जलती थीं. वर्तमान समयके लोग यह खयाल न करें, कि उनको कोई नशेकी चीज़ देकर, या जब्रन, या वर्गलाकर जलादेते थे, जैसाकि यूरोपिअन लोगोंका खयाल है. मेरे खयालका सुबूत इस तौरपर होसक्ता है, कि अक्वल तो सब औरतें सती नहीं होती थीं, उनकी तादाद सौ में सिर्फ़ दो या इससे भी कम पाईजाती है, अगर लोगोंकी कोशिशसे यह काम कियाजाता, तो कुल औरतें सती होतीं. दूसरे, सती होनेवाली स्त्रीको जलजानेके बाद देवता खयाल करके लोग पूजते हैं, और अकस्मात् किसी कारणसे जल मरनेवालीको नहीं पूजते. क़दीम ज़मानहके लोगोंका यह खयाल है, कि सती होनेवाली स्त्री अपनी खुशी और ईश्वरकी इजाज़तसे जलकर अपने पतिके साथ स्वर्गमें वास करती है, और दूसरे कारणसे जल मरनेवाली वहां नहीं जासक्ती. मैंने अपनी आंखसे देखा है, कि विक्रमी १९०७ [हि० १२६६ = ई० १८५०] में उदयपुरमें ज़नानी ड्यौढीकी एक दासी, जिसका पति ११ वर्ष पहिले मरगया था, एक दिन दोपहरके वक्त सोतीहुई अचानक उठ खड़ी हुई, और कहा, कि मेरे जलानेकी तय्यारी करो, मेरे पतिने मुझे जल्दी बुलाया है. इसपर उसके पड़ोसियों वगैरहने एकट्ठा होकर उसे मना किया, और कहा कि तुझको स्वप्न आया है. तब उसने अपने सती होनेके सुबूतमें आगके दहकते हुए अंगारेको दोनों हाथोंमें लेकर लोगोंके सामने मलडाला, और कहा, कि मुझको किसी तरहकी जलन या तकलीफ़ मालूम नहीं होती. इसके बाद महाराणाकी तरफसे कुछ बन्दोबस्त होकर वह औरत जलादीगई. इस विषयमें मेरा खयाल ऐसा है, कि औरतको अपने पतिकी मुहब्बतमें जब बहादुरानह जुनून होजाता है, तो वह अपने बदनकी तकलीफ़को पतिकी जुदाईके मुक़ाबलहमें कुछ भी खयाल नहीं करती; वरनह यह एक आम रवाज था, कि सती होनेवाली स्त्री के रिश्तहदार व सर्कारी मुलाज़िम वगैरह कुल लोग उसे


समभायशके तरीकहसे मना करनेमें किसी तरहकी कमी नहीं करते थे; और यह भी रवाज था, कि यदि कोई औरत मना करनेपर भी हुजत करके चितामें बैठनेके बाद आगके सन्नेसे उठ भागती, तो लोग उसे तलवारोंसे मारकर उसी चितामें जलादेते थे; लेकिन ऐसा मौका बहुतही कम, याने हजारमें एक या दो जगह सुनागया है. चाहे कुछ ही हो, मुहब्बतकी हालतमें वे औरतें जिस बहादुरीके साथ जलती थीं, उसको युद्धके समयकी बहादुरीसे भी बढ़कर समझना चाहिये.

एक बड़ा भारी जुर्म, जो इस मुल्कसे गवर्मेण्ट अंग्रेजीकी बदौलत दूर हुआ, और जिसको मैं शुक्रियहके साथ लिखता हूँ, यह था, कि लोग औरतोंपर डाकिनकी तुहमत लगाकर उन बेचारियोंको झड़बेरीके कांटोंमें आग लगाकर जलादेते, या उसका सिर काट डालते, या किसी दरख्तसे उलटी लटकाकर मिरचकी धूनीसे मारडालते थे, और उनको कोई नहीं पूछता, बल्कि उन मारनेवालोंका लोग शुक्रियह अदा करते थे, कि तुमने बहुत अच्छा किया, हजारों आदमियोंकी तकलीफ मिटादी. जिस औरतपर डाकिनकी तुहमत लगाई जाती, और वह राज्यमें पेश होनेके वक्त मार पीट या किसी दूसरी तकलीफके सबब डाकिन होना कुबूल करलेती, तो उसको राज्यसे भी वही सजा होती, जो ऊपर लिखी गई है; और अगर किसी मजहबी पेशवा या जनानखानहकी तरफसे सिफारिश होनेपर उसकी जान बख्श दीजाती, तो उसके सिरके बाल दो चार जगहसे मुंडवायेजाते और गधेपर चढ़वाकर बाजारों व गलियोंमें घुमानेके बाद देशके बाहिर निकाल दीजाती थी; और वह उज्र करती, कि मैं डाकिन नहीं हूँ, तो परीक्षाके लिये गोणके एक बोरेमें उसे मजबूत कसकर दूसरे बोरेमें ढाई कंडे रखदेते और तालाबके अन्दर गहरे पानीमें डालदेते थे; यदि खुशकिस्मतीसे वह औरत कंडोंके पलड़ेसे पहिले डूबजाती, तो फौरन उसको निकाल लाते. इस हालतमें उसे सच्ची खयाल करके राज्यकी तरफसे साड़ी (ओढ़नी) वगैरह दिलानेके बाद उसके घर भेजदेते; और अगर हवाके भरजाने और दमके खींचनेसे वजन बराबर होकर तैरने लगती और कंडे डूबजाते, तो उसे डाकिन खयाल करके पानीसे बाहिर निकालनेके बाद ऊपर लिखीहुई सजा दीजाती. यह जालिमानह रवाज मैं (कविराजा श्यामलदास) ने अपनी आंखसे देखाहुआ लिखा है, और गवर्मेण्ट अंग्रेजीने इसको बन्द किया. अगर्चि अबतक हजारों आदमियोंके दिलोंमें औरतोंके डाकिन होनेका खयाल जमाहुआ है, लेकिन रफतह रफतह कम होता जाता है. मैंने इस बारेमें लोगोंकी तसल्लीके लिये बहुत कुछ कोशिश की, और कहा, कि मुझे कोई शरूस डाकिन बतलावे उसको ५००, पांच सौ रुपया देऊं. बहुतसी औरतें ऐसी भी हैं, जो बेशर्मी इस्तिथार करके डाकिन होना

मशहूर करदेती हैं, इस गरजसे कि वे जिसके घर जावें, वहांसे कपड़ा, जेवर, खाना, अनाज वगैरह धमकाकर लेआवें, और अपना गुज़ारह करें. इसी किस्मकी औरतोंमेंसे एक बैरागिन वैकुण्ठवासी महाराणा सजनसिंह साहिबके सामने फ़र्यादी आई, जिसको महता गोकुलचन्दके कथाभट्टने पीटा था. उक्त महता उस औरत से ऐसा डरता था, कि उसने महाराणासे पोशीदह अर्ज की, कि यह डाकिन है, हुज़ूर इसको तसल्ली देकर निकाल दें. उसवक्त मैं वहां खड़ाहुआ था, मुझे यह सुनकर बहुत हंसी आई, और महाराणा भी मुसकुराये; तब गोकुलचन्दने उस औरतको इम्तिहानके लिये मेरे मकानपर भेजी, मेरे पड़ोसियोंकी औरतें उसके डरसे घर छोड़ छोड़कर भागगई; मैंने जैसाकि चाहिये, लोगोंकी तसल्लीके लिये उसका इम्तिहान किया, लेकिन् कुछ सचावट न पाईगई, आखरकार वह मक्कार औरत शहरसे निकलकर चलीगई. यह ख़ाज भी महाराणा स्वरूपसिंहके समयसेही बन्द हुआ.

इन महाराणाने विक्रमी १९०६ [हि० १२६५ = ई० १८४९] में रुपयेका एक नया सिक्का (स्वरूपशाही), जिसके एक तरफ़ “ चित्रकोट उदयपुर ” और दूसरी ओर “ दोस्ति लन्दन ” लिखा है, जारी किया, जो मेवाड़ राज्यके प्राचीन उदयपुरी सिक्केसे कीमतमें एक आना ज़ियादह अर्थात् सत्तरह आनेका है, और हालमें ज़ियादहतर यही सिक्का प्रचलित है. इस सिक्केके मुत्अलक जो चन्द काग़ज़ मिले वे नीचे दर्ज कियेजाते हैं:—

कर्नेल् टॉमस रॉबिन्सनका काग़ज़
महता शेरसिंहके नाम.



॥ श्रीरामजी ॥

२११ नंबर.

॥ सिध श्री छावणी मीमच सुभसुथाने सरब उपमा जोग्य मेहताजी श्री सेर-सिंघजी जोग्य राज्ये श्री कर्नेल तामीस रावीनसन साहेब बहादुर ली ॥ सलाम वंचसी, ईठारा समाचार भला हे राजरा सदा भला चाहीये अपरंच ॥ कागद भादु वदी ५ का लिषा आया जीमे लिषा, के श्री दरबारका हुकम मेरे नाम इस मजमूनका आया हे. इन दिनों मेवाड़ चलणका रुपीयामे फरेब दगात्राजी पार वतीकर घोटा रुपीया बणा चलाणेसे

साहुकार, ब्योपारी वगैरेका बडा नुकसान नजर आया, और आगे पण कपतान जमस टाड साहब बहादुरने ऐसे ही सबबोसे भीमसाही रुपीया राजासाही रुपीयेकी बराबर चलाणेकी सलाह दी थी; अब श्री दरबारसे लोगोके नुकसान तकरार वगैरेपर पयाल हो, सीरे चांदी डलवा अपणे नामका हिंदवी सिकाका रुपीया राजकी टकसालमे पडवा चलाणा मनजुर हे, ए सरवे स्माचार वांच वाकिफ हुवे. जोके श्री महाराणाजी साहेब कुं अपणे मुलकके बंदोबसत और बेहतरीमे पूरा ईषतियार हे, और ए तजवीज ऊपरकी लिषी विचारी सो बहोत दुरसत और मुनासीब हो जारी होणेमे आपणे राजका फायदा, रेयतकी बहत्री, श्री दरबारका नामवरी होगा. चाहीये श्री दरबारकी तजवीज माफिक ठेटसे पार पडे उस्मुजीब और सीरे चांदी डलवा महाराणाजी श्री सरूप-सिंघजीके नामका हिंदी सिका राजकी टकसालमे पडवा जारी करे. अछा रुपीयाका चलण होणेसे ए पवर हमारी सीरकारमे पोहचणेसे सीरकार दोलतमदारकी पुसी, श्री द्रवारका फायदा, नामवरी, रेयतकी बहत्री जाहर होगी. जिस बषत नये सीकाका रुपीया तयार हो एक दो रुपीया हमारे देषणे वासते भेजायदेसी, और काम काज हमेसे लीषावसी, समत १९०६ का भादु वदी १० तारीष १३ अगसत सन् १८४९ ईसवी.

महाराणाके नाम कर्नेल टॉमस
रॉबिन्सनका खरीतह.

॥ श्रीरामजी ॥

२३६ नंबर.

॥ सिधश्री उदेपुर सुभसुथाने सरब उपमा ब्राजमान लायक महाराज ध्राज महाराणाजी श्री सरूपसीघजी साहेब बहादुर एतान कर्नेल तामीस रावीनसन साहेब बहादुर ली ॥ सलाम वंचाव मालुम करावसी. इठाके स्माचार भले हे, आपके सदा भले चाहीये अपरंच ॥ परीता आपका आसोज विद १२ का लिषा आया, समा-चार वांच वाकिफ हुवा; आपने रुपीया २) नया सिकाके मेरे देषणे वास्ते भेजा, सो मेने उसकुं देषकर राजी और पुस हुवा, और नया पुराणा सिका एषटा कर देषा, तो बहुत

बहतर पुवसुरत पुराणेसे दिषाई दिया, और राजासाहीकी बराबर चलण होणेमे जो कवाहत व नुकसान आपकुं सबब तकरार रैयत वयोपारी मुलकके नजर आया, सो ठीक; आप अपणे मुलकके मालिक हो, मुलकी आवादी व रजामंदीके षयाल रषणेमे हरतरे फायदा, नामवरी हे, सो आपकी तजवीज माफिक ८ मासा चांदी २ मासे षार माफिक कदीम कुछ तकरारकी जघे रैयत व्योपारीकी होगी नही, और आपने दोसती लंदन सीकामे लिषवाई सो नये सिकेमे षुदणेसे दीलकी मोहबत जाहर हुई. ईकीन हे श्री सीरकार दोलतमदार भी इस बातकुं षयाल फरमावेगी, और आपकी तजवीजपर षुस होगी, और ए नये सिकेका रुपीया इस्मुलकके दुसरे सिकेसे बहोत बेहतर व पुवसुरत नजर आता हे, ने आपणी षुसी दील व रजामंदीसे वणवा दोसती लंदन षुदवाई, सो काविल इसके हे हमेसे कायम और जारी रहे. और मीजाज मुबारीक की षुसीके समाचार हमेसे लीषावसी, संमत १९०६ का कातीक वदी ३, तारीष ४ अकटुबर सन् १८४९ ईसवी.

कनेल टॉमस रॉबिन्सनका कागज़ महता शेरसिंहके नाम.

॥ श्रीरामजी ॥

२३९ नंबर.

॥ सिधश्री उदैपुर सुभसुथाने सरब उपमा जोग्य महताजी श्री सेरसींगजी जोग्य राजे श्री करनेल तामीस रावीनसन साहेब बहादुर ली ॥ सलाम वंचसी. ईठारा समाचार भला हे, राजरा सदा भला चाहीये अपरंच ॥ कागद राज आसोज विद ५५ का लिषा आया, समाचार वांचवाकीफ हुवा. श्री दरवारका षरीता, रुपीया २, नया सिका रा भेजा, सो रुपीयाके देषणेसे हमे षुसी हुई. नया सीका पुवसुरत अछा वणा, श्री महाराणा साहे (ब) मालीक अपणे मुलकका अषतियार रषते हे, तजवीज कीया मुनासीब मालुम हुवा जो बहतर हे. षरीतेका जवाब लिष भेजा हे, सो गुजरान कागद समाचार हमेसे लिषसी, सं० १९०६ कातीक वदी ३, तारीष ४ अकटुबर सन् १८४९ ईसवी.

गद्दीनशीनीके बादसे महाराणाके पैरमें बादीका दर्द शुरू होकर रफतह रफतह यहाँतक बढ़ा, कि विक्रमी १९०८ [हि० १२६७ = ई० १८५१] के बाद तो वे पैदल चलने व घोड़ेपर सवार होनेसे मजबूर होगये, और कुछ दिनों पीछे उनके लिये सिर्फ तामजामकी सवारीही रहगई. इस दर्दसे उनके दोनों पैरोंका मांस सूखकर खाली हड्डियां बाकी रहगई थीं. पुराने खयालातके सबब अंग्रेजी डॉक्टरोंका इलाज जैसाकि चाहिये न हुआ, सिर्फ हिन्दू व मुसलमान वैद्योंकी सलाहसे इलाज होता रहा, कभी कभी गांवोंके जाहिल लोगोंके इलाज मुआलजोंपर भी अमल होता था, और जियादहतर देवताओंकी मानता और ज्योतिषियोंकी भविष्य वाणीपर भरोसा था; लेकिन इतनी तल्लीफ और बीमारीमें भी उन्होंने अपने साहसको कभी नहीं छोड़ा. विक्रमी १९१८ [हि० १२७८ = ई० १८६१] में जब सर्दारोंका बखेड़ा जियादह बढ़ा और बीमारीने भी अपना आखरी हमलह शुरू किया, तब उनको अपने कोई औलाद न होनेके सबब यह विचार पैदा हुआ, कि वलीअहद किसको बनाया जावे, और बागौर के महाराज शेरसिंह व शिवरतीके महाराज दलसिंहके पुत्रोंके जन्मपत्र मंगवाकर दिखलाये. इनमेंसे शेरसिंहके पोते और शार्दूलसिंहके बेटे बागौरके महाराज शम्भुसिंह को, जिसकी निस्वत पेशतर महाराणाने गद्दीके हकसे खारिज किये जानेका हुक्म देदिया था, उसकी हकदारी और लियाकत देखकर पीछेको बखेड़ा न उठनेकी गरजसे विक्रमी १९१८ आश्विन शुक्ल १० [हि० १२७८ ता० ८ रबीउर्रसानी = ई० ता० १३ ऑक्टोबर] को वलीअहदकी बैठकपर बिठाया, और तमाम उमराव व सर्दारोंको, जो उसवक्त मौजूद थे, दस्तूरके मुवाफिक वलीअहदको नज्जानह करनेका हुक्म दिया. इसपर कुराबड़का रावत ईश्वरीसिंह बोला, कि जबतक सलूवरका रावत केसरीसिंह मन्जूर न करे, तबतक शम्भुसिंह वलीअहद न माने जासकेंगे. तब बेदलाके राव बरतसिंहको बुलाकर महाराणाने फर्माया, कि तुम्हारी इस मुआमलहमें क्या राय है? ऐसा नहो, कि मेरे इन्तिकालके बाद रियासतमें बखेड़ा पैदा होजावे. बरतसिंहने जवाब दिया, कि हुजूर इत्मीनान रखें, शम्भुसिंह तो हकदार है, अगर गैर हकदारको भी हुजूर अपने हाथसे वलीअहद बना देंगे, तो वही मेवाड़पर राज्य करेगा. यह कहकर राव बरतसिंहने युवराज शम्भुसिंहको दस्तूरके मुवाफिक नज्जानह कर- दिया, इसी तरह आसीदके रावत खुमाणसिंहने भी महाराणाकी तसल्लीके मुवाफिक अर्ज करके वलीअहदको नज्ज दिखलाई, और प्रधान कोठारी केसरीसिंह वगैरह अहल- कारोंने भी मजबूतीके साथ नज्ज दिखलाई. जब महाराणाको इस बातकी पूरी पूरी तसल्ली होगई, तब उन्होंने वलीअहदको, जो हिदायतें करनी मुनासिब समझीं, अच्छी-

तरह करके चुनेहुए खैरखाह और वृद्ध आदमियोंको उनके पास रहनेके लिये मुकर्रर कर-
दिया. इसके बाद मज्हबी अकीदहके मुवाफिक दूसरी दुनयाका रास्तह साफ करनेकी
कोशिश होने लगी, अर्थात् हजारों रुपये और अश्रुफियां ब्राह्मणोंको खैरातमें बटने
लगीं. लेकिन उस तकलीफकी हालतमें भी रियासती कारोबारकी अर्ज होनेपर बराबर
जवाब देते रहे. उन्होंने गोवर्द्धनविलासका रहना इसी ग़रजसे इस्तिथार किया था, कि
गायोंकी सेवामें मेरी जिन्दगी पूरी हो; और वहां हमेशह गायों व ब्राह्मणोंको अच्छा अच्छा
खाना खिलवाया जाता था. इस बीमारीकी अखीर तरकीका हाल इस तरहपर है, कि
विक्रमी १९१८ ज्येष्ठ [हि० १२७७ जिल्काद = ई० जून] में घुटनेके नीचे एक
छोटासा फोड़ा चाठेके मुवाफिक उठा, जो वैद्योंको बतलाया गया, और मुझा अश्रुफ-
अलीकी रायसे उसपर तेजाबकी पट्टी लगाई गई; लेकिन उस पट्टीके लगाते ही ऐसी
सरुत जलन पैदा हुई, कि उसके दर्दसे बुखार शुरू होगया. तब महाराणाने वैद्योंको
एकत्र करके सब हाल कहा, उन लोगोंने पट्टी उतारडालना मुनासिब समझकर अपनी
राय और महाराणाके हुकमसे धीरे धीरे पट्टी उतारडाली. रातको जब महाराणा नींदमें
सो गये, तो उस फोड़ेसे डेढ़पावके अनुमान पीब निकली, जिसमें दहीके समान जमा
हुआ कुछ सिफेद मवाद था. दूसरे दिन बिछौनेमें पीबके देखते ही महाराणाको सन्देह
हुआ, और वह उदयपुरको छोड़कर गोवर्द्धनविलासमें चले गये, परन्तु रोग दिनोदिन
बढ़ता ही रहा.

विक्रमी श्रावण [हि० १२७८ मुहर्रम = ई० ऑगस्ट] में घुटनेके ऊपर दो
फोड़े और उठे और दो तीन नासूर भी पिंडलीमें होकर बहने लगे, जिससे ऐसी
ना ताकती होगई, कि कर्वट तक स्वयं न बदल सके थे. इस हालतमें वैद्योंसे आयुष्य
का निश्चय कराया, तो नागर वैद्यने इसी रोगसे विक्रमी कार्तिक शुक्ल १५ [हि० ता०
१४ जमादियुल्अव्वल = ई० ता० १७ नोवेम्बर] या विक्रमी मार्गशीर्ष कृष्ण ४
[हि० ता० १८ जमादियुल्अव्वल = ई० ता० २१ नोवेम्बर] को मृत्यु होना
निश्चय किया; और बीमारीके हालात लिखकर आगरेके डॉक्टरसे दर्याफ्त कराया गया, तो
वहांसे भी आयु बीतजानेकी ही खबर आई. इसपर वे सावधानीके साथ अपना मृत्यु
सुधारनेकी तय्यारी कराने लगे; गंगाजल, भस्म, रुद्राक्ष आदि सामग्री एकत्र कराकर
विक्रमी कार्तिक शुक्ल १२ [हि० ता० ११ जमादियुल्अव्वल = ई० ता० १४ नोवेम्बर]
के दिन गोशालामें पधार गये, और वहां तीन रात्रितक बड़ी सावधानीसे अजपा मंत्रका
ध्यान करके विक्रमी कार्तिक शुक्ल १४ [हि० ता० १३ जमादियुल्अव्वल = ई० ता० १६
नोवेम्बर] की रात्रिको पहरपर दो घड़ी व्यतीत हुए पूर्णिमामें परलोकको प्राप्त हुए.


गोशालामें पधारनेके समयसे मृत्यु पर्यन्त रामायणका पाठ होता रहा. इन्तिकालके समय काका दलसिंह, बेदलाका राव बरतसिंह और देलवाड़ाका राज फ़तहसिंह वगैरह सदाँर मौजूद थे, उनको आखरी रुखसतका पान बीड़ा दिया. इन महाराणाके होश हवास आखरी दमतक दुरुस्त रहे और अपनी अन्तिम क्रियाके लिये सब तरहकी इजाजत देते रहे. इस समय महाराणाके चारों तरफ़ गायें खड़ी थीं, और गोबर, गोमुत्र व गंगाजल उनके बदनपर खूब मला गया, इसके बाद गंगाजलसे स्नान कराकर कुशके आसनपर विराजनेके पीछे प्राणत्याग हुआ.

इन महाराणाका मज़हबी अकीदह जैसा शुरूसे था उसीके मुवाफ़िक़ आखरी समयतक साबित रहा. देहान्तके समयका यह कुलहाल में (कविराजा श्यामलदास) ने पुरोहित पद्मनाथकी जवानी सुना हुआ लिखा है, जो उसवक्त महाराणाके पास मौजूद था.

इन महाराणाका जन्म विक्रमी १८७१ पौष कृष्ण १३ [हि० १२३० ता० २६ मुहर्रम = ई० १८१५ ता० ८ जैनुअरी] को हुआ था. इनका क़द मझले से कुछ ऊंचा; रंग गेहुवां; न मोटा न दुबला शरीर; डाढ़ी मूछ सुडौल और अन्दाज़के मुवाफ़िक़; लम्बी और चौड़ी पेशानी; बड़ी आंखें; नौकीली और पतली नाक; और खूबसूरत व पतले होंठ थे. चिह्नरा ऐसा रोबदार था, कि इनके सामने किसी आदमीको बेधड़क बात करनेकी जुअरत न होती थी. खयालात इनके पुराने और मिजाज शाहाना था; अक़लमन्दी, चतुराई और दिलेरीमें पूरे थे; खैरख़्वाह व बदख़्वाह और भले तथा बुरे आदमीकी पहिचान व क़द्र करने वाले, और दिलसे इन्साफ़ पसन्द थे. इसके सिवा अपने पुराने खानदान और पुरुषोंका अभिमान रखने वाले, मज़हबी अकीदेपर मज़बूत, और खैरात वगैरह मज़हबी कामोंमें उदार, और रियासती प्रबन्धोंमें किफ़ायत शिआर थे. इसके अलावह कुछ उनमें अवगुण भी थे. अव्वल यह, कि रियासती प्रबन्ध और ख़ज़ानह एकट्ठा करनेके लिये लालच अधिक करते थे, दूसरे हसद याने ईर्ष्या भी बहुत थी, जिस किसी पर नाराज़ होजाते उसके ऐबोंको जाहिर करनेमें कोताही नहीं करते थे. लालच और हसदके सबब उनसे अक्सर बेइन्साफ़ी भी होजाती थी, और कठोर दिल होनेसे दया भी कम थी. इन्हीं ऊपर लिखी हुई आदतोंके कारण आम लोग उनसे नाराज़ थे. लेकिन मेरी रायमें उनकी नेक आदतोंके मुक़ाबिल ऐब ज़ियादह न थे. चाहे कुछ ही हो, लेकिन इस रियासतका कुल इन्तिजाम, जमा खर्च और कारखानोंका बन्दोबस्त पहिले ऐसा बिगड़ा हुआ था, कि जिसको सुधारना इन्हीं

महाराणाका काम था; इन्होंने मानो इस वृद्ध राज्यको जवान बनादिया. यदि इनमें लालच, हसद, और कठोरता अधिक न होती, तो महाराणा सांगा, जगत्सिंह अव्वल, संग्रामसिंह, और जवानसिंहके समान लोग इनको भी दीर्घ काल तक देवताके बराबर मानकर याद रखते. महाराणा स्वरूपसिंहकी कार्रवाइयोंको देखकर पिछले राजा लोगोंको नसीहत होगी, कि उनको राज्याधिकार पाकर रियासत का प्रबन्ध किस प्रकार करना चाहिये; अल्बत्तह मज़हबी ईर्ष्या और पुराने खयालात उनके इस जमानहके मुवाफ़िक़ न थे, जिसका सबब यह था, कि उनको शुरू जवानीमें कम इल्म और पुराने ढंगके आदमियोंकी सुहृद रही, वरनह यदि जैसे वह अक़लमन्द थे वैसाही उनको इल्म और सत्संग मिलता, तो यकीन है, कि हिन्दुस्तानभरमें राजाओंके लिये मिसाल देनेके वास्ते वे बेनज़ीर ठहर सक्ते थे. इनके ४ चार महाराणियां थीं:- अव्वल राघवगढ़की राठौड़ महाराणी गुलाबकुंवर बाई, दूसरी बरसोड़ाकी चावड़ी महाराणी फूलकुंवर बाई, तीसरी बीसलपुरकी भटियाणी चांदकुंवर-बाई, और चौथी घाणेरवकी मेड़तणी महाराणी अभयकुंवर बाई. इनके सिवा एक खवास ऐजनकुंवर उनकी पूरी कृपापात्र थी, और वही अकेली महाराणाके साथ सती हुई. इन महाराणाके कोई औरस औलाद न थी.

महाराणा स्वरूपसिंहने अपनी मौजूदगीमें जो कुछ दान पुण्य किया, उसके अलावह उनके देहान्तके पीछे क्रिया और दान दक्षिणा आदिमें ४७५०००) रुपया और खर्च हुआ.



१- कैलासपुरीमें नंदिकेश्वरके पास वाली सुरह.

॥ श्रीरामोजयति ॥

॥ श्रीएकलिंगजी प्रसादातु ॥

॥ श्रीगणेशजी प्रसादातु ॥

सही

॥ स्वस्ति श्री महाराजाधिराज महाराणा श्री सरूपसिंहजी आदेशातु प्रतदुवे श्री मुष. आगेशु सीसोद्या मात्रके दारुअरक पीवाकी छांट ही अर महाराणां जी श्री छोटा अमरसिंहजी अरोग्या जठा पाछे साराही पीदो, सो अणी पीवा महे सारी तरे कुफायदोहीज हुवो, अर धर्मशास्त्रकी रीतसु वी दारु पीवाको महा दोस दीप्यो, सो अबार संवत १९०२ का कातीक शुद ९ सने श्री कैलासपुरी पधार दारु, अरक, मद परो छोड्यो, जीको संकल्प श्री परमेसुराका चरणारविंदा कीधो, सो अबे सीसोद्या मात्र चोवीसही साष महे दारु पीवेगा जणीने श्री जीरी आण हे, चीतोड मारचाको पाप, कोटान कोट गऊ मास्थाकी हत्या लागेगा. महारा वंस मेहे वेर दारु अरक पीवो विचारे वा दुजा पीवा वाला सीसोद्याने सज्या नही देवे जीने उपरका लप्या प्रमाणे सोगंद हे, श्री जीरो अंजल षावे वा हुकम साने जीने.

२- चित्तौड़गढ़पर पाडणपौलमें घुसते हुए वाई तरफ वाली सुरह (१).

॥ श्रीरामोजयति ॥

॥ श्रीएकलिंगजी प्रसादातु ॥

॥ श्रीगणेशजी प्रसादातु ॥

स्वस्ति श्री महाराजा धिराज महाराणा श्री सरूपसिंहजी आदेशातु, हरामपोर शार्दूलसिंह सेरसिंहोत, वा हरामपोर महता रामसिंह रषवदासोत नीबहडामें हरामपोरो विचारकर करतूत अनुष्ठान करायो तथा जहर देणेकी तजबीज करी,

(१) इसी मज़मूनकी सुरह महाराणा स्वरूपसिंहने कैलासपुरी तथा उदयपुरमें राज्य महलोंके वड़ीपौल दर्वाज़ह बाहिर भी रोपाई थी, जिसका हवाला पृष्ठ १९२८ में दिया गया है.

सो श्री जीका प्रतापसुं सारी चोडे आई गई. आगे ई राजमें असी तरेकी कदी नही हुई, अर कोई विचारी जीने जीवरी सज्या मली, सो एई सज्या लायक हा, परंत मे आगी काडी; हरामषोर सादुलसिंघने तो वंदोबस्तकी जगामें जन्मकेद राष्यो सो फेर कदीभी केदसु छुटवा पावेगा नही, और हरामषोर रामसिंहने मनष कबीला बेटा सुदा देस भदर कीदो, सो मारा वंसरो कोही हरामषोरांका वंश काने मेवाडका राजका हदमे आवा देवेगा नही तथा चाकरी देस प्रदेसमे भी भलावेगा नही, और जो कोई बी यां हरामषोराकी अरज करेगा, ज्यो ई सुरेने लोपेगा जीने, उषालेगा जीने श्रीएकलिंगजी पुगसी, श्री चीतोड मारघारो पाप, गऊ मारघारी हत्या, हिन्दूने गाय, मुसलमानने सूर, अगरेज वाद्रके होता होवे ज्यो सोगन हे. सं० १९०३ दुतीय जेठ विद ७ शने.

यहांपर बछड़ा चुखाती हुई गायका चित्र है.

३- जगत् शिरोमणिजीके मन्दिरकी प्रशस्ति.

॥ श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीमदहाय्यवय्यधरायनमः ॥ श्रीकृष्णायनमः ॥ कालिंदीतट कुंजगुंजदलिभृत् संफुल्लनीपावली द्वाः स्थानेकसुवल्लवीक्षितसुधापूर्णेदुहास्याननः ॥ तिर्यक्प्रेक्षणराधिकाधरसुधा मन्याः पिवन्निन्दुवंस्तांबूलस्य वितीर्णचर्वितमिषात् कृष्णः सनोद्वावतात् ॥ १ ॥ वृंदारण्यनिकुंजबद्धवसतिप्राणप्रियाणां हठान् मुष्ठीकृत्य मनांसि निन्दुतइमा अंगुष्ठमादर्शयन् ॥ वामेनोर्द्धकरेण ताः पुनरसौ नाम्नाह्वयत्युन्मुखं । सोयंश्रीगिरिधारिनामविदितः पायात् सदैवाश्रितान् ॥ २ ॥ गीर्वाणैर्गुणगणितो । गोपगुणालांगनांगसंश्लिष्टः ॥ गोकुलगोरसशाली गोविंदोगोगुणेशोऽव्यात् ॥ ३ ॥ बप्यान्ववायंगुणगौरवाढ्यं । वक्तुं बभूवाहमलंनवाग्भिः ॥ तथापि वक्ष्येस्य गुणैर्गुरुः स्यां जातोयथावामनदंडवंशः ॥ ४ ॥ अथ श्रीजगन्नाथरायदेवालयोत्तरपट्टिकायां राणा- राजसिंहावधिवंशवर्णनं तथाप्यनुवादेनाभ्यर्हितान्महाजगत्सिंहादनुवर्णयते ॥ दाने प्रौढारिराजप्रथितपुरजयप्राप्तवित्तस्य यस्य । चित्तस्फीतोन्नतेर्यो विविधमणिगणस्व- र्णकूट प्रकीर्णः ॥ स्वर्णाद्रेः कल्पनायां व्यनुददुरुतरं संशयं मार्गणौघो । दृष्ट्वा हेमाश्मराशिं स्वमुप ससमभूच्छ्रीजगत्सिंहभूपः ॥ ५ ॥ गत्वा धामचतुष्टयं सुविमलं नाथान्- विलोक्यादरा । द्रक्तानां पुरुषार्थदानचतुरान् प्राच्यादिदिक्षु क्रमात् ॥ दाता वैभजनस्य नेति भुवने शून्यंतरे च क्षितेः ॥ सत्प्रासादमतोव्यधाजगति तन्नाथेपुरायस्य यः ॥ ६ ॥ तस्माद्विराजसिंहोभूत् कः कुर्यात् तत्कृतं नृपः ॥ लोकापेयं विलोक्याब्धिं योऽकरो

द्राजसागरं ॥ ७ ॥ हत्वा स्लेच्छधवेर्पितां प्रथमजां पित्रादिभिर्नात्मना । कन्यां-
 भीष्मकजामिवाप्तवलवान् यः कृष्णदुर्गात्पुरः ॥ चैद्योद्गास्युदुवाहसोच्युतउरस्यात्मैक
 कांतार्थिनीं । पत्रं प्रेष्य रहोहरं जनमुखाद्वृत्तांतमावेद्य च ॥ ८ ॥ पुत्रस्त्रीगुरुघातनि-
 ष्कृतिकृते पृष्टैर्द्विजैः प्रोदितं । धारातीर्थमकातरेण मनसा राज्ञा तथा निश्चितम् ॥
 उँघ्रावैर्निजजीवितेप्सुभिरयं भक्ष्ये विषैर्घातितो दुष्टांतः करणैश्च ते निरयिणोराजा
 तु नाकं गतः ॥ ९ ॥ यौ ज्ञातौरंगजेवः कृतजनुरुभयस्फारदारापहारौ । विष्णुं विष्णुं-
 शभूपं यवनपतिमिषोद्भूतचैद्योत्यमर्षी ॥ स्वाराट्सादाय्मन्त्राणि क्षितिम् ॥ १० ॥
 पातयामास विष्णौ । प्रासादं भूभृदिरे क्षित्यमहुतेत्यापिनि प्रहलज्जः ॥ ११ ॥
 तस्माद्भूठरिदुनीतहर्मिस्तेषां ॥ १२ ॥ सत्परैरक्षयविधावतुल्यभावाः ॥ यं प्राप्य सद्-
 त्ति ॥ १३ ॥ राजपत्नीसद्वानिताजयसिंहनामा ॥ ११ ॥ शौर्यौदार्यगुणा-
 षि ॥ १२ ॥ सुधासारभृद् । येनाकारि हसन् जलैः स्वमधुरैरब्धि यशः सागरः ॥
 धीरायं यदुशंति तत्रगणने निर्देहवत्वादिति । नाकाशः किमु देहवानिव चलच्छा-
 येन्दुतारागणः ॥ १२ ॥ प्रोच्चंचञ्चंडकांडप्रकरकरवलच्छस्त्रपातप्रहार । त्रासं त्रासं
 नसेहे दिशि दिशि सभयं नेत्रतारां क्षिपंती ॥ जन्यारण्ये मृगीवोन्मदयवनपतेः
 कृष्णसारस्य सेना । तारा आजन्मयूथप्रबलपतिसमाकृष्टिलुब्धस्य यस्य ॥ १३ ॥
 तस्यांगजन्मामरसिंहवीरो । वीरैकसूरस्मि मदं व्यधत् ॥ यस्य प्रसूरासुरितीत्यनिद्रा ।
 देवाः समासे परिसंदिहानाः ॥ १४ ॥ महानसमचीकरद्वरशिवप्रसन्नामर । विलास
 मपिनिष्कुटान्वितमसौ स्वसौख्याश्रयं ॥ तपः सुपरितोषिताविव भवान्नपूर्णेश्वरौ ।
 समं व विशदालयं ददतुरेव कैलाशकं ॥ १५ ॥ सद्रामग्रामदातुर्नयविनयवतो विश्व-
 विख्यातकीर्ते । स्तस्मात्संग्रामसिंहप्रभवितुरवनौ स्लेच्छसंघामहेभाः ॥ हर्तुं भागं
 नशेकुर्ह्यमरहरिकृतावासभोज्यप्रभोक्तुः शक्याभूच्छृगालायमककुबुदयाग्रामसिंहाः
 कुतोन्ये ॥ १६ ॥ देवानां हि परस्परं विवदतां विष्ण्वीशसप्तार्वणां । कोगच्छेदिति
 पूर्वमेव निखिलैरिष्टैः सदृक्षैरपि ॥ गंतव्यं नृपतेर्गृहं सममतः स्थूलामहंपूर्विकां
 ज्ञात्वैषां समचीकृपत्सगतये यस्त्रिप्रतोलीं शुभाम् ॥ १७ ॥ ततोभवजगत्सिंहो-
 जगन्नाथालयं पुनः ॥ जीर्णोद्वारात्कृतं पित्रा दिदृक्षुः स्वकृतं पुरा ॥ १८ ॥ देवेऽवर्ष-
 ति चास्तबुद्धिविभवे धान्यत्रिपादस्थिते । मृत्युं गच्छति विष्टपे सितरुचौ पापक्षुधा-
 सज्जने ॥ उद्घोद्घाटिततोषकोषवितरत्सदृव्यसजीवनैः । कालंकालमपाक
 रोत्सविशदप्रासादकर्मच्छलात् ॥ १९ ॥ कलंकमपि नोगतं मम पुनर्ह्यनंताटना ।
 दिति द्विजपतिर्मलं वसति मार्ष्टुं मिच्छन् जले ॥ फलिद्विजनिपेवितोऽतुल सुचित्र
 शाली पुनः । सुमित्रमदनश्च यत्कृतजगन्निवासच्छलात् ॥ २० ॥ स्वीयं सौभा-

गिनेयं पितृजयनगरोद्गागिनं भागिनेयं । माधोसिंहं नृसिंहः स्फुरदतुलरुषा ऽदत्त-
लक्ष्मीकटाक्षः ॥ प्रल्हादं पक्षपाताद्ययितशतगुणोल्लक्षमुद्रासमुद्रो । देवर्ष्यात्माभ्यषि-
चद्विबुधजननुतः पित्र्यराज्यासनेयः ॥ २१ ॥ तस्मात्प्रतापसिंहो । ह्यरिसिंहोद्वौ सुतौ
तयोर्मध्ये ॥ राजति राज्ये ज्येष्ठे । पुत्रोभूद्राजसिंहो ऽतः ॥ २२ ॥ स्वर्गे वासं कृत-
वति । पितरि जगत्याः सपालनेधिकृतः ॥ तस्मिन्नपि पितृसेवां । प्राप्ते राजा ऽरिसिंहो-
ऽभूत् ॥ २३ ॥ नयेन नयतः क्षोणिं राजसिंहस्य नाकिनः ॥ भ्रात्रीयस्यार्यपुत्रस्य
स्वर्गसिंहो ऽग्रहीत्वंदं ॥ २४ ॥ कृत्वासद्वरणं पुरः सपरिखं स्वीयैक रक्षाकरं । संरु-
द्धत्पुराणायुधैर्बलमूहुः कर्णसिंहसिद्धिः ॥ कर्णसिंहः सवलश्च सत्प्रहरणो योजेजयी-
हुर्जयं । तस्यासीच्छमरुहिं कालप्रभं कर्णसिंहस्य संभवे ॥ २५ ॥ किंकालव्यालबालः
किमुत मरणकृत्कालजिह्वाग्रमुग्रं । किंशोभीर्भालनेत्रेष्वलङ्कारैश्चिदाब्जालः ॥ २६ ॥ किंकालव्यालबालः
किंत्रुद्व्यद्वज्रपातो जनितघनरुचिः कल्पसिंधो स्तरंगो । जन्ये जन्ये प्यलोकिं निरुक्त-
परिवृढै र्यत्करे मंडलाग्रः ॥ २६ ॥ स्वामिद्रोहपरायणैश्च लवणोदोद्वंचकैर्दपरैः । रौम्रावैः
सहकृत्रिमाकृतिनृपः स्वाशाशया ऽस्मिन्सति ॥ घासात्मा किंकर्णुकरिव नरः क्षेत्रो-
च्चनीडे धृतः । स्फूर्जत्कुंभलमेरुदुर्गवसतिः श्री मेदपाटावनौ ॥ २७ ॥ जित्वा
कृत्रिमराजपक्षतिकृतादिङ्मासमायोध्य यः । क्रुद्धन्मालजिता पटीलविभुना जन्यत्रयं
योगिभिः ॥ म्लेच्छाद्वोपल पर्वते च शमरोग्रामे च गंगारके बुंध्यां वीरगतिं गतः
कतिपयैर्वर्षैर्हि भुक्त्वा महीं ॥ २८ ॥ हस्मीरसिंहो प्यथ भीमसिंहो । बभूवतुस्तस्य
सुतौ सुवीरौ ॥ श्री रामचंद्रस्य कुशोलवश्च तत्रैकराडासतुरत्र चोभौ ॥ २९ ॥
आपंचशरदं क्षोणीं । भुक्त्वा भूपे दिवं गते ॥ हस्मीरवीरे च ततो । भीमसिंहोऽभवन्नृपः
॥ ३० ॥ श्रीमानसीमहिमदस्युविनाशभास्वद्भास्वत्प्रतापउरुबुद्धिविशालभालः ॥
विहारगत्यमतकीरमरालवालः । स्फूर्जन्महाजगति भूपतिभीमसिंहः ॥ ३१ ॥
रूपेणाप्रतिमः प्रियासुरसिकः कामोवपुष्मानिव । दानेनार्जितकर्णभोजमहिमास्वैश्वर्यं
आखंडलः ॥ भूर्भुक्त्वा बहुवत्सरं गुणवता जुष्टाः पुमर्थास्त्रयः । प्राप्तं येन सुखं परं च
तदियद्वक्तुं कइष्टे जनः ॥ ३२ ॥ यश्चाग्रहीन्कुंभलमेरुदुर्गं । वैषम्यनीचैष्कृतसह्यशृंगं ॥
बभंज दुष्कृत्रिमराजभीतिं क्षेत्रस्थचंचामिव वै वराहः ॥ ३३ ॥ तस्यांगजातो हि युवान-
सिंहो । यस्याग्रउग्रोपि युवानसिंहः ॥ दानेन कीर्त्या च गुणैश्चयेन । मोमेशभक्त्या न
समोपि कोपि ॥ ३४ ॥ कांतः केलिकलाकुतूहलरतः क्षोणीं द्रकन्यावृतः शस्त्रास्त्रैरबहि-
ष्कृतो परिजनैः संसेवितो नुद्धतः ॥ नानाक्षत्रकुलान्वितो गुरुनतो विद्वन्नुतो धीश्रितो ।
कोप्यासीद्वियुवानसिंहनृपतिः श्रीमान् गुणौघावृतः ॥ ३५ ॥ पुत्रः स्याच्चक्रुणत्रया-
स्त्वपितरं संमोचयेत्सो नृणः । इत्यालोच्य गयां व्ययेन नयता पौराज्जनान् नैवृतान् ॥

येनापामरमात्मजार्पितसकृत्पिडोपि विष्णोः पदे । श्रीमद्रामसमानविक्रमकृता
जीवौघ उद्धारितः ॥ ३६ ॥ परिहतउरुडंडउद्धताङ्गः क्षितिपगरुडध्वेन यस्य
वाक्यात् ॥ अनुगतनृगणस्य यस्य कस्य स इति बभूव युवानसिंह भूपः ॥ ३७ ॥
ब्रह्मांडाधिकृतास्त्रयोपि विबुधा ब्रह्मेशनारायणा । स्तेषां तुष्टिकृते क्रमात्किमथवा
धर्मार्थकामाप्तये ॥ यात्रा येन हि लक्षशोवितरता स्वकारिता त्रिस्थली । या यो-
ध्यानयनात्पुनस्तनुभृतां मोक्षोपि हस्तेर्पितः ॥ ३८ ॥ तत्स्थाने चारदारसिंह
इति यो राजा प्रजारंजयन् । यदृष्ट्याप्तसमग्रदुष्टजनताशान्त्वाय धर्मोपायः । वृद्धि-
र्वाप्यथ हानिरेव भवताद्यः स्वोक्तिकीर्त्या । सुखदुःखनिर्मुक्तिं स्वधर्म-
निरतश्चासीत्तथा नृपः । सत्सुखं लक्ष्मीं च यः प्रियं कुरुते कृतं युवानसिंहाग्र-
पुत्रोपि हि । तस्य सर्वं कारुण्यं प्रीतिवातराज्यापि वचोतिदाह्यात् ॥ ४० ॥
सुखसिंहपतिविख्यातकीर्तिगुणै । न्याय्ये दाशरथिर्मनुह्यनुभवे
पार्थः प्रजापालने ॥ दाने चाधिरथिर्वसुर्वसुचये धैर्ये बलिभूक्ष्मी । वंशेद्यावधि
कोपि येन सट्टशोभावी न भूतो नृपः ॥ ४१ ॥ इंद्रः किंत्विति चारणैश्च विबुधै
श्रिन्तामणिः कामदः । किं मर्त्यैः किमुकल्पवृक्ष इति किं कर्णैश्च भट्टैरिति ॥ भोजः
सत्कविभिः किमेवमखिलैः श्रीमत्सुरूपो नृपो । हृष्टः सन् हृदि केन केन समये
दानस्य नोत्प्रेक्षितः ॥ ४२ ॥ रामोयं जितदूषणः सुभरतः सल्लक्षणाप्तोनमन् ॥
शत्रुघ्नश्चतुरात्ममूर्तिरजितश्रीचित्रकूटस्थितिः ॥ नूनं सज्जनकात्मजाभिरमिरो
बद्धप्रकोष्ठांगदः । कौशल्याप्तकृतावनो विजयते रामायणैकाश्रयः ॥ ४३ ॥
आजानेयमसौ कियाहमतुलं वीतिं विनीतं वर । मारुह्राब्जमुखीक्षणप्रसरण
स्पर्धाकरं सुन्दरं ॥ आश्रयं व्रजतीति यद्युपवनं कृत्वाश्ववारीं तदा सांगोनंग
इति प्रतिस्मृतिभुवं संशेरते किंनरः ॥ ४४ ॥ मद्यं त्याजयति प्रियं क्रतुसमं स्या-
त्तस्य पुण्यं श्रुता । वृक्तं तत्क्षितिःरक्षिणा मधु वृथापानं नृणां त्याजितं ॥ श्रीराजेन्द्र
सुरूपसिंहविभुना नैकक्रतूनां च या । देवेन्द्रस्तुशतक्रतुस्तदधिकः ख्यातोस्त्य-
न्तक्रतुः ॥ ४५ ॥ कृतं च येनैवकृतं नकेन । धनापहं दुस्त्यजमेतदेतत् ॥ ऋणस्य
मद्यस्य च मोक्षणं पुरा । यैस्तत्कृतं मुक्तिदमेव तेषाम् ॥ ४६ ॥ प्रतिज्ञापूर्वं
या नरपति युवानेन हि कृता । यथा चत्वारिंशच्छरदुपरितोमध्वयचये ॥ नजाताष्ट-
त्रिंशत्परिमिततदायुः क्षयवशा । त्कृता पूर्णा येन क्षितिपतिवरेणाद्य कृतिना ॥ ४७ ॥
अथ युवानसिंहकारितदेवालयप्रसंगोपक्रमः ॥ वाघेलीति युवानसिंहनृपतेराज्ञी
समाज्ञापरापौलोमीव पुरंदरस्य सुभगा शंभोर्भवानीव या ॥ चंद्रस्येव च रोहिणी
रतिरिव श्रीमन्मथस्यास्य वा । अत्यंतं हृदयंगमा सुचतुरा प्रीत्यास्पदं साभवत् ॥ ४८ ॥

रीमाराज्यसिंहदेववपुरुद्धता कुमारीश्वरी । राज्ञोढा गुणशीलरूपसुवयः सौभाग्य
तुल्यायतः॥सीता किं रघुनायकस्य यदुभृत्कृष्णस्य किं रुक्मिणी॥विख्यातापतिदेवता
मधुरवाक् संतोषितस्वप्रिया ॥ ४९ ॥ आबाल्यात्परिचर्यिकां कृतवती गोपालनाम्नो
हरेः । श्रद्धाचारपरातिवैष्णवजना भक्त्येकनिष्ठा सदा ॥ रूप्यानिर्मितसूर्पकुम्पति-
तऊः पित्राप्तसद्वैभवा । गीताभागवतादिपाठत उरुं कालं निनायानिशं ॥ ५० ॥ इत्थ-
नच्युनसमर्पितचिता । पात्रवैष्णवसुरार्पितविता ॥ आससाद हरिपादमभीता तत्र
स्वोत्सुक्यात्कफिता ॥ ५१ ॥ ज्ञात्वेत्थं धरणीधरेंद्रउत्तमांता । मेतस्यागतिमतिविस्मयं
सम्पत्तं ॥ तस्मिन् ॥ ५२ ॥ इति विद्वत्स्य । वैराग्यात्तदुविषये कृतप्रतिज्ञः ॥ ५२ ॥
बाघेल्या त्वसानमानसगरे निवसन्त्यस्य सिधतं तत्सर्वं कुर्यात्किं च कथितं राज्ञो
मुखाग्रे स्फुटं ॥ राजा तेन युवानसिंह इति यो ऽलुब्धेतिव्यक्त्या शान्ताहं स्वयं-
चकार विधिवच्छिल्पीश्वरैः शोभनं ॥ ५३ ॥ प्रासादं यमनल्पदत्तविभोः स्वयं
शिल्पिभिः । शीघ्रं कारयतो महोत्सवविधामाशास्यमानस्य यत् ॥ स्वीयायुः क्षण-
भंगुरं च विदुषः सायुज्यसिद्धिर्हरे । जाता ऽप्राप्तमनोरथस्य नृपते देवात्पदाब्जाश्रये
॥ ५४ ॥ तत्पश्चाच्छरदारसिंहनृपतिर्यत्नं तथैवा ऽकरोत् । कालानाप्तविचारितः
पदमगाच्छीएकलिंगस्य यः ॥ तत्पश्चाच्च सुरूपसिंहपृथिवीपालः स्वभाग्योच्छ्र-
यात् । प्रासादे कलशं दधार मतिमान् संपूर्णतापादिते ॥ ५५ ॥ यथा गंगाप्रा-
प्त्या अहह कृतवंतोवहुतपोशुभन्नाद्याभूपास्तदपि किमयान्नो सुरसरित् ॥ तपो-
भागीरथ्यं जगदघहरं सर्वविदितं । तथैवेदं पुण्यं महदिति सुरूपक्षितिभृतः
॥ ५६ ॥ पूर्वं श्री चित्रकूटे क्षितिविदितगिरौ वप्पशैशोदवंशः क्षोणीभृन्मेदपाट-
द्विषदसहधरादुर्गसन्मूलभूमौ ॥ मीराराज्ञीशिरस्थ स्तदनु नृपजयस्सिंहपुष्पध्व-
रीत्या शीर्षे स्वस्थापितोसावुदयपुरवरे मंदिरे स्वर्णशृंगे ॥ ५७ ॥ साचोरद्विज-
सेवकैरनुदिनं तद्रागभोगौ व्यधात् । सेवाप्रेमनदीप्रवाहमतनोत्क्षोणीभृदेवं
स्वयम् ॥ प्रासादे ससहेलिकानिजसखीनामप्रभूतोदये । प्रीतिं प्राप जगच्छिरोम-
णिरयं कालं च कंचित् सुखं ॥ ५८ ॥ म्लेच्छैश्चपिंडारकदाक्षिणात्यैः स्वमातृकुक्षि
प्रविदारणैर्यः ॥ उपद्रवेस्मादपि सोऽच्युतः सन् । सस्वामिनीकोत्र रहोन्वतिष्ठत्
॥ ५९ ॥ सुरूपसिंहोपि निजैकदेवं पूर्वं जगत्सिंहकृत प्रतिष्ठं । युवानसिंहाभिमतं विचार्य
समानयत्तं पुरुषोत्तमं सः ॥ ६० ॥ श्रीरस्तु॥कल्याणमस्तु॥शुभंभवतु॥श्रीगोवर्दनोद्धर-
णधीरोजयति ॥ श्रीकृष्णायनमः ॥

॥ उँनमः ॥ अथप्रथमपाटिकाशेषमापूर्यते ॥ श्रीवल्लभान्वयजनिः प्रथितोसौ ।
श्रीगोकुलोत्सव इतिप्रकटाख्यः ॥ श्रीपुष्टिमार्गपुरुषोत्तमप्रतिष्ठांसस्वमार्गविधिना

यथाकरीत् ॥ ६१ ॥ गोष्ठीशालकृतावटकं इति यो गोपालकृष्णः सुधी । भट्टः सर्व-
 गुणैकदक्षउरुधा तैलंगजातिः स्वयं ॥ नाथद्वारतत्रादरेण नृपतिः स्वानाय्य यं
 सोथ यच्छीर्षे ऽ धाद्वि जगच्छिरोमणिमसुं पुष्ट्यध्वसेवाकृते ॥ ६२ ॥ संवत्यब्धिख-
 नंदभू १९०४ परिमिते सूर्ये वृषे पूषणि । लंबत्युत्तरगोलके शुभकरे वैशाखमासे
 सिते ॥ पक्षे द्वादशिसत्तियो रवियुते चंद्रे च कन्यास्थिते लग्ने सिंहशुभेक्षिते नृप-
 तिना देवप्रतिष्ठा कृता ॥ ६३ ॥ श्रीवृद्धदेवलकृतस्थितिरेव वर्णी । श्रीविष्णुदास-
 इतिनाममहातपस्वी ॥ गायत्र्युपासनपुरश्चरणैकरुद्रो । वाङ्मन्त्रादीनि ज्ञानप्रदुःख-
 समुद्रः ॥ ६४ ॥ नित्यं सुरूपनृपसद्विलकच्छुभार्थं । सुवर्षेणैव विद्याविधाद-
 श्च ॥ सोमोपदेश विधिपूर्वकत्वेने । अथाथि लक्ष्मणोत्तरे हिंदु च येने ॥ ६५ ॥
 यथा प्रसन्नवर्णः ॥ श्रीसुभाषनिश्चैरनेकशिखरैर्युक्तोऽप्युदभ्रंलिहै । नानादिक्प-
 षिदैः तस्मिन्सकृत्प्रत्यक्षवासैरिह ॥ स्त्रीप्राये यइलावृते शिववचः सत्यं हृदा संस्म-
 रन् ॥ मन्ये तद्भयभावभंगुरमनामेरुर्हि तष्ठीयते ॥ ६६ ॥ चंद्राच्चंदनतः पुरंदरगजा-
 च्छीचंद्रचूडादपि । कर्पूरात्करिकोमलोद्भिदरदात्कर्णाटकांतास्मितात् ॥ स्वच्छोय-
 द्यशश्रोघ एव निपुणं प्रासादकायच्छला । द्विणोरंघ्रियुगार्थहाटकघटं शीर्षे यमालंबते
 ॥ ६७ ॥ अश्वैर्मत्तमतंगजैरपि रथैः पादातिगैरन्वितो मन्ये हं चतुरंगिणीप्रतनया
 यत्पुण्यपुंजोभटः ॥ प्रासादस्य मिषान्महाभटचमूपाथौघमावाधितुं । स्वांतर्व्वर्मि-
 तकृष्ण उद्धतभुजः सन्नद्धउज्ज्वभते ॥ ६८ ॥ दत्तैः किं किमु रूप्यखर्परभवैः खंडै-
 श्च किं प्रस्तरैः । शुभ्रैर्वाहिमसंभवैः किमथवाद्वापारदैस्तंभितैः ॥ प्रासादोयमनिश्चि-
 तैकरचनः केनैव निर्मापितो । दृष्ट्यारादपि यं मनागनिमिषं संशिशियरे मानुषाः ॥ ६९ ॥
 पुष्टोहं च जगच्छिरोमणिरहं चास्यैव देवोस्म्यहं । मां हित्वायमुमंदिरे निजजगन्नाथं
 समास्थापयत् ॥ इत्येवं अशमीर्ष्यया हरिरभूदुप्तोयमद्यावधि । श्रीमद्भूपसुरूपसिंह
 विभुना स्वस्थोयमध्यासत् ॥ ७० ॥ सम गृहमिदमुज्वलं तथोच्चै । रिति हरिरपि
 सन्मुखस्थमीशं ॥ विवदिपुरिव मार्जनाय पाश्वे । स्त्रियमपि रहितोन्यतोवि-
 भर्ति ॥ ७१ ॥ अथ प्रसंगोपात्तपुष्टिपुरुषोत्तमसंवत्सरोत्सववर्णनम् ॥ श्री-
 मद्रुद्रभविद्वलप्रभुवरारूपं न दध्युर्भुवि । सन्नारं यदि चेत्तदा हि वसुधाशुन्ये यमा
 स्थास्यति ॥ श्रीमद्भोक्तराजनंदनकृतालीलापि जीर्णांतरा । देवानां क्व गतिस्तथा क्व
 सुमतिः प्रीत्युन्नतिर्घोषजे ॥ ७२ ॥ आजन्मोत्सवः ॥ जन्मन्यस्य महामनाः परिद-
 दौ नंदोपि दानं मुदा । गोपाये च विचिक्षिपुः प्रसुदिताहैयंगवीनं मिथः ॥ गोपीर्या-
 व्रजतीर्विरेजुरधिकं नंदालयं दर्शने । सश्रीकृष्णउदारचित्तचरितः पायान्नइंद्रो-
 गवां ॥ ७३ ॥ प्रैखः ॥ श्रीप्रैखपल्यंकवरे स्थितं हरिं । प्रसाधितं मातृपदैर्मुदा भजे ॥

सुभ्रूतटे दृग्धरकृष्णविंदुं । कंठस्थितव्याघ्रनखादिभूषं ॥ ७४ ॥ अथ बाललीला ॥
मातश्चंद्रमसं लभेय ऋटिति क्रीडार्थमानीय मे । देहि हांगुलिमुक्षिपन्दिवि रुदन् भूमौ
लुठन् दर्शयन् ॥ स्थालीनिर्मितवारिविंबितममुं वीक्ष्यातिहृष्यत्तनुः । हिहीत्युत्सुहसन्न-
तिप्रमुदितो मुग्धोहरिः पातु वः ॥ ७५ ॥ दानलीला ॥ दानंयौवनगर्विताः प्रति-
दिनं यांत्यो मुषिता हि नो । रुंघध्वं किलगोरसेन भरितानूनं वयस्याइमाः ॥ श्रुत्वेत्थं
पशुपालजस्य वचनं संनर्तितश्चाह या । लालन् गोरसएव कीदृशइति प्राप्यस्त्वया सा-
वत्तात् ॥ ७६ ॥ नेत्रमीलनलीला ॥ राधायाः शिरसीरयन्प्रणयतोदानं सखीनां पुरः ।
सख्यामुद्रितचक्षुषस्तिरयितुं यः कर्तुंक्षीकः स्वयं ॥ चक्षुर्मीलनकेलिषु प्रियसखीवृंदै-
र्विशाखेडितः । कृष्णः संभ्रमनो निकुंजश्च ते ज्वांते निर्लीनोस्त्वयं ॥ ७७ ॥ रासलीला ॥
आनंदाब्धिरसोऽवनौ हरितनो हृदो हि वृंदावने । रुद्धश्चैकत उच्छन्न यमनया गोपीभि-
रेवान्यतः ॥ किंचित्तु पश्यति ताद्वरिजनेष्वद्वा निपीतोपि तै । न स्पृष्टोर्भावे कर्भठे
श्रुतिहरैः शून्यप्रियैर्ज्ञानैः ॥ ७८ ॥ अन्नकूटोत्सवः ॥ विश्राणोविलसत्सुवर्ण-
कुलहीं गोकर्णवर्हावलीं । चक्रोदारसुवर्णवस्त्रविलसत् सर्वांगसत्कंचुकः ॥ धृत्वा रूप-
मनल्पकं गिरिरिवाहेंद्राय भन्युं नयन् । शाकं पाकमदन् निवेदितसुरुं गोवर्द्धनेशोवभौ
॥ ७९ ॥ दोलोत्सवः ॥ वासंतीवरजातियूयितरुणीमल्लीमतल्लीलता । कुंजे मंजुलमंजुलैः
परिवृते दोलांश्रितं श्रीहरिं ॥ आपृक्तं पटवासकैर्दयितया सिक्तं तथारेचकैः । पश्य-
न्त्यत्र सखीभिरुत्सितमुखं भाग्यैः सनाथानरः ॥ ८० ॥ रथयात्रा ॥ सुग्रीवा-
दिभिरन्वितं हयवरैः सत्स्थंभचक्रं रथ । मारुह्य प्रविसत्वरं बहुतरं सत्कंचुकोष्णीपधृक् ॥
याति श्रीवृषभानुमंदिरमसौ प्राणप्रियाहूतये । गोपालोमणिमौक्तिकाभरणयुक् शृंगार-
धृङ्नोवतु ॥ ८१ ॥ हिंडोलोत्सवः ॥ हिंडोले हि विशाखया ललितया पार्श्वद्वयांदोलितौ ।
वर्षायां नभसीच्चरत्नखचिते श्रीमत्किशोरौ मुदा ॥ राधावाप्यथ कृष्णउद्धतवपुः शृंगार-
कौ दंपती । नानाभ्राक्ततडिद्घनाविव महाभाग्यैरिह प्रेक्षितौ ॥ ८२ ॥ अष्टदर्शनानि ॥
आदौ मंगलदर्शनं तदनु सच्छृंगारजं ग्वालजं । गोपीवल्लभनामतत्तदनु यच्छ्रीराजभो-
गोद्भवं ॥ यच्चोत्थापनभोगभोगजनितं चार्तिजातं पुनः । सायाह्ने शयनं हरेरनुदिनं
हीत्थं च दर्शाष्टकं ॥ ८३ ॥ मंगलं ॥ वृंदारण्यविहारिणि प्रविलसद्भास्वत्सुता
वारिणि । स्नास्यद्गोपकुमारिकांवरहतिव्याजान्मनोहारिणि ॥ कालिंदीतटवारिणि
क्षितिभृतः शृंगेषु गोचारिणि । गुंजाहारिणि मे मनः प्रविशताद्गोवर्द्धनोद्धारिणि
॥ ८४ ॥ उत्तसर्गस्य स्वरूपसिंहनृपतिः पृथ्वीमहेंद्रोवभौ । वृष्टिं रूप्यमयीमवर्ष दतुलां
सद्वाह्यणक्षेत्रगां ॥ जातोपूर्वदृढांकुरः पुनरसौ सौर्येकवृक्षोमहान् । पुष्पं सद्यशएवपुत्र-
फलवान् भूयाद्विजैरक्षितः ॥ ८५ ॥ तुंगाश्वान्करिणोरथान् पुनरसौ वरुत्राणि




चित्राण्यलं ॥ चातुर्वर्ण्यसमाश्रितानपि मुदा योदीददद्वा नृपः । भुक्तं तृप्तमुदृप्तमृद्ध-
मिति यां वाणीं सदैवाश्रुणोद्योलोकोपि दिदृक्षुरागतइमं चित्रेणतुल्योऽभवत् ॥ ८६ ॥
समुद्रवचनं यथा भवति वै मणेरबधानात् । सुवर्णकटकप्रपत्तिरितियो मृषैवाकरोत् ॥ वि-
नापि तदुताददादगणितानि नृभ्यस्तदा । सुवर्णकटकानि किं कथयतीह शास्त्रं पुनः
॥ ८७ ॥ अस्मिन्नन्दिजगच्छिरोमणिरसौ सेतुर्वृहन्नामको । रिगतसागरसेतुरद्भुततरो
मिष्टप्रभूताब्धरः ॥ तुय्योन्यत्र युवानसूरजविहारी चैव राधावरं : ॥ सर्वेषामभिजि-
न्मुहूर्त्तसमये दिव्या प्रतिष्ठा ह्यभूत् ॥ ८८ ॥ आखातामल्लकारिकालमिदुदाहृत्य
प्रभूतोदयं । प्रासादस्य पुरोधसा मह विधिवान्तरिण्यदिवा ॥ सर्वस्वादकरेद्वरेण
सुवरेण मीष्टमिदं नृपः । स्वार्द्धं विनयिस्वाडेतेन किमपि प्रभु हि विष्णुं गतः
॥ ८९ ॥ लक्ष्मणस्य नृपः क्विरेण उदयो । रामस्य शक्येः पिता । धौम्यो धर्मतनु-
वत्स्ये च विनेपैश्चतानंदकः ॥ राज्ये पौष्टिकशांतिकर्मविधिवच्छंशी शुभस्यान्वहं ।
स्वच्छांतः शिवराजइत्यभिधिया राज्ञः पुरोधा द्विजः ॥ ९० ॥ सांचोरद्विजनत्थुरामतनयं
मुख्यं विधायात्र य । स्तत्साहित्यकृतिस्थितावनुरतं संपद्विपद्वर्त्मसु ॥ नान्यत् किंचन
वित्तमच्युतममुं हित्वेत्थमालोच्य सः । केदारेश्वरकं द्विजं च कृतवांस्तस्मिन्कथावाचकं
॥ ९१ ॥ अंतर्वाणिरमंदगुर्जरदयानंदाभिधोब्राह्मणः । श्रीगौडोहि परंपरागतपदो राज्ञः
सुकर्मांतिकः ॥ ९२ ॥ तेनेदं सकलं महाविधिविदा प्रासादजोत्सर्गिकं । राजानुग्रह-
भाजनेन विधिवद्विद्विजैः कारितं ॥ प्रासादं शुभमेरुजातिममलं शिल्पीशगोवर्द्धनो ।
भारद्वाजउचेनरामतनयः सच्छिल्पविद्यापरः ॥ आखाताद्गचयांचकार विधिवद्वाजा-
ज्ञया सादरं । यस्येमां रचनां विलोक्य व्यदधच्छ्रीविश्वकर्मा मुदं ॥ ९३ ॥ विप्राग्र्योत्रज-
लालइत्यभिधया श्री मेदपाटाख्यया भट्टोगौज्जरउत्तमोदयपुरावास्येव पौराणिकः ॥
यत्तद्विप्रकुलोपकारकरणप्रख्यातकीर्तिं व्रजं । तेषालालयतीति सत्कृतिसतैरन्वर्थना-
माभवत् ॥ ९४ ॥ यत्पुत्रः किलकृष्णलालउरुधीः कृष्णस्य संलालनात् कृष्णांशस्य
युवानसिंहनृपतेः सप्ताहपाशयणात् ॥ श्रीमद्भागवतोद्भवादपि तथा विख्यातकीर्ति-
श्रय । स्तेनेयं रचिता प्रशस्तिरखिला विद्वन्मुदे स्तात्सदा ॥ ९५ ॥ कोटेश्वरेण
लिखिता दशोरद्विजजातिना ॥ उत्कीर्णा नत्थुजीवाभ्यां शिल्पिभ्यां शुभदा सदा
॥ ९६ ॥ यावत्सूरसुताद्भुता हरिरता यावच्चभागीरथी । यावत्सर्वजगत्प्रकाशनपरौ
श्रीपुण्यवंतौस्थितौ ॥ यावन्मेरुवस्थितिः क्षितितले यावन्महांतोजना । स्तावत्तिष्ठ-
तु मत्प्रशस्तिरतुला स्पष्टाक्षरेयं चिरं ॥ ९७ ॥ श्रीरस्तु ॥ कल्याणमस्तु ॥ शुभं
भवतु ॥

छन्द गीतिका.

शिवलोक ग्ये सिरदार भूप सुरूप राज्य विराजकें ।
 बहु राजनीति विचार सार प्रबन्ध उत्तम साजकें ॥
 कर शेरसिंह प्रधान पदतें रामसिंह उतारिकें ।
 सीसोद कुलतें मद्यपान मिटाय दूषण जारिकें ॥ १ ॥
 विष देन दोष अमात्यके हतबंद देश निकारभौ ।
 चेतेशषै दल जेस तें सिरदार दुग्ग विकारभौ ॥
 अरु जोरने निज ठौर पाय अनन्य ईश प्रभावतें ।
 शठ भिन्न लोग अधीत कै हत राजनाति स्वभावतें ॥ २ ॥
 युग स्वसा व्याहन हड भूपरु बांधवेश बुलायकें ।
 बर हड राम बघेल त्यों रघुवीरकों परणायकें ॥
 फिर आर्य दुग्गमकी बगावत मान सार मिटायदी ।
 भैचक भारत भूमि भौ अंगरेज आन उठायदी ॥ ३ ॥
 तब रान भारत भान वानक मित्र भाव बनायकें ।
 जब दै पनाह अनेक इंग्लिश राखि प्रीति जनायकें ॥
 सेवार भहन द्वेष विथुरि वृत्त विस्तर तें कह्यो ॥
 तिवृत्त पालन अग्गि जालन अंग पालन ना सह्यो ॥ ४ ॥
 शुध भाव सजन सिद्धको फतमाल शासन पायकें ।
 कविराज श्यामलदासने इतिहास खंड बनायकें ॥
 सारूप रान प्रभाव सूचक बुद्धिमानन मोदको ।
 यह खंड पूरण किन्ह कोद विथारिवीरविनोदको ॥ ५ ॥

महाराणा स्वरूपसिंह,

अठारहवां प्रकरण समाप्त.



इन महाराणाका राज्याभिषेक विक्रमी १९१८ कार्तिक शुक्ल १५ [हि० १२७८ ता० १४ जमादियुल्-अव्वल = ई० १८६१ ता० १७ नोवेम्बर] की सन्ध्याको, और राज्याभिषेकोत्सव विक्रमी माघ कृष्ण १ [हि० १२७८ ता० १६ रजब = ई० १८६२ ता० १७ जैन्युअरी] को हुआ था. महाराणा स्वरूपसिंहका इन्तिकाल होते ही ये उदयपुर के राज्य महलोंमें आगये थे. जब महाराणा स्वरूपसिंहकी आखरी सवारी महासती सहित गोवर्द्धनविलाससे कृष्णपौल दर्वाजह होकर भटियानीचौहटे होती हुई जगन्नाथरायके मन्दिरके सामने प्राचीन रीतिके अनुसार भेट दण्डवत करके बाजारके रास्ते (१) दिल्ली-दर्वाजहसे निकलकर आहड़ ग्रामके पास महासती क्षेत्रमें पहुंची, तो वहां काष्ठके बंगले में महाराणाकी लाशको लेकर पास्वान ऐजनकुंवर बैठगई, और विधिपूर्वक दग्ध-क्रिया होनेके बाद कुल उमराव, सदाँर, प्रधान, अहलकार आदि स्नान करके वापस आये, उस समय महलोंमें गद्दीनशीनीकी बावत् सलाह मश्वरह होने लगा; क्योंकि सलूबर का रावत् केसरीसिंह उसवक्त मौजूद न था, और उसके चचा रावत् ईश्वरीसिंहने इन

(१) इस मौकेपर रास्तेमें बहुतसा जेवर, अश्रफियाँ और रुपये लुटाये गये.

महाराणाकी गोदनशीनीके वक्तु इन्कार करदिया था. परन्तु रियासती कदीम दस्तूर के मुवाफिक, कि एक महाराणाका इन्तिकाल होनेपर उसी दिन उनका क्रमानुयायी गद्दीपर बिठादिया जावे, मौजूदह उमराव, सर्दारों व अह्लकारोंने रावत खुमाणसिंहको इस गरजसे महलोंमें बुलाया, कि वह महाराणा शम्भुसिंहके गोद लिये जानेके वक्तु मौजूद था, इसलिये उसे इस मौकेपर शरीक रखना चाहिये; लेकिन उसने कहला भेजा, कि सलूबरसे रावत केसरीसिंहके आनेपर गद्दीनशीनीका दस्तूर होगा, उसकी रायके बिना कार्रवाई करके उसका गुस्सह कौन भेल सक्ता है? इसपर बेदलाके राव बरूतसिंहने कहलाया, कि यदि आपको आना हो, तो जल्दी चले आवें, वरनह मैं गद्दीनशीनीका दस्तूर अदा करनेको तय्यार हूं. तब खुमाणसिंहने आकर केसरीसिंहकी नाराजगीका खौफ जाहिर किया, लेकिन राव बरूतसिंहने इस धमकीको न मानकर सभाशिरोमणि महलमें महाराणाको गद्दीपर बिठादिया, और उनके सिरसे गमी (शोक) की सिफेद चादर उतारकर जेवर पहिनानेके बाद नज़ दिखलादी. इसके बाद रावत खुमाणसिंह वगैरह दूसरे मौजूदह लोगोंने भी नज़ दिखलाई; कुल कारखानोंके दारोगाओंने अपने अपने जिम्महके कारखानोंकी कुंजियां महाराणाके नज़ कीं, जो महाराणाके हुकम से उन्हीं लोगोंको वापस सौंपी गई, शहरमें महाराणा शम्भुसिंहके नामकी दुहाई फेरी गई. कुल उमराव, व सर्दार अपने अपने ठिकानोंसे जम्इयतों समेत उदयपुरमें आने लगे, एक शरीरके उठजानेसे रियासतमें अनेक प्रकारकी तब्दीलात नज़र आने लगीं, हर एक आदमीको अपने अपने मत्लबकी फिक्र पड़गई. सब लोग इसी सोच विचारमें थे, कि देखाजाये साहिब एजेण्टके आनेपर क्या बन्दोबस्त हो? महाराणा जो कम उम्र थे, उन्हें उनके पास रहनेवाले लोग जैसी सलाह देते वे उसी तरह कदम भरते थे. इसी अरसहमें ईश्वरेच्छासे विक्रमी मार्गशीर्ष कृष्ण ७ [हि० ता० २१ जमादियुल्-अव्वल = ई० १८६१ ता० २४ नोवेम्बर] को महाराणा स्वरूपसिंहकी महाराणी चावडीका इन्तिकाल होगया.

वैकुण्ठवासी महाराणाकी उत्तर क्रिया बागौरके महाराज शेरसिंहके चौथे पुत्र सोहनसिंहने की, और विक्रमी मार्गशीर्ष कृष्ण ११ [हि० ता० २५ जमादियुल्-अव्वल = ई० ता० २८ नोवेम्बर] को उनके द्वादशाहमें ब्राह्मणभोजन विधिपूर्वक हुआ.

विक्रमी पौष कृष्ण ४ [हि० ता० १८ जमादियुस्सानी = ई० ता० २१ डिसेम्बर] को राजपूतानहके एजेण्ट गवर्नर जनरल ज्यॉर्ज लॉरेन्स साहिब और मेवाड़के पोलिटिकल एजेण्ट टेलर साहिब उदयपुरमें आये, जिनकी पेशवाईके लिये बेदलाका राव बरूतसिंह और कोठारी केसरीसिंह राजनगर तक गये. मत्लबी लोग जो इसवक्त तक अपनी

अपनी फ़िक्रमें ध्यान लगाये चुपचाप बैठे थे, सावधान हुए. महता शेरसिंह और पुरोहित श्यामनाथ, जो वैकुण्ठवासी महाराणाकी नाराजगीके सबबसे बाहिर थे, साहिबके साथ वापस उदयपुरमें आये. विक्रमी पौष कृष्ण ६ [हि० ता० २० जमादियुस्सानी = .ई० ता० २३ डिसेम्बर] को एजेण्ट गवर्नर जेनरल और पोलिटिकल एजेण्ट मेवाड़ मातमपुरीके लिये महलोंमें आये, कुर्सियोंपर दर्बार (१) हुआ; महाराणा चांदीके बड़े सिंहासनपर विराजे. कुछ देर ठहरनेके बाद उक्त दोनों साहिब ज़नानखानहमें सलाम मालूम कराकर कोठी रेजिडेन्सीको वापस चलेगये. विक्रमी पौष कृष्ण ९ [हि० ता० २३ जमादियुस्सानी = .ई० ता० २६ डिसेम्बर] को महलोंके सामने बड़े चौकमें शामियानेके नीचे बड़े जुलूसके साथ शाही दर्बार हुआ, जिसमें बादशाहज़ादीकी तरफसे खिल्अत, हाथी, घोड़ा और ज़ेवर वगैरह सामान कर्नेल लॉरेन्स और टेलर साहिबने पेश किया, तोपोंकी सलामी सर हुई; दर्बार बर्खास्त होकर अंग्रेज़ लोग कोठी रेजिडेन्सीको गये. इसके बाद रियासती बन्दोबस्तके लिये सलाह होने लगी. आखरकार महाराणाकी बाल्यावस्थातक पोलिटिकल एजेण्टका उदयपुरमें रहना और चन्द सर्दारों व बड़े अह्लकारोंकी एक कौन्सिल ऑफ़ रिजेन्सीकी सलाहसे राज्यका प्रबन्ध होना करार पाया. विक्रमी पौष शुक्ल २ [हि० ता० १ रजब = .ई० १८६२ ता० २ जैनुअरी] को एजेण्ट गवर्नर जेनरल तो उदयपुरसे खानह होगये, और पोलिटिकल एजेण्ट मेजर टेलर साहिब कौन्सिलके प्रेसिडेण्ट नियत होकर उदयपुरमें रहे. इस कौन्सिलकी बाबत एक खरीतह बतौर इत्तिलाके पोलिटिकल एजेण्टने महाराणा साहिब के नाम लिखा था, जिसकी नक़्क नीचे दीजाती है:-

खरीतहकी नक़्क.

॥ २७ ॥ नंबर

॥ श्रीरामजी.

॥ सीधश्री ऊदेपुर सुभसुथाने सरब ओपमां बीराजमांन लाअक म्हाराजा धीराज म्हारानाजी श्री संभुसीधजी साहेब व्हादुर अेतान, मेजर रावरट लवीस टेलर साहेब

(१) पेशतर कर्नेल टॉडके ज़मानहसे ४२ वर्षतक यह क़ाड़दह जारी रहा था, कि महाराणा गद्दीपर विराजते और एजेण्ट गवर्नर जेनरल व पोलिटिकल एजेण्ट दूसरे सर्दारोंकी तरह गद्दीके सामने फ़र्शपर बैठते, परन्तु वैकुण्ठवासी महाराणाके आखरी अह्दमें इन्हीं लॉरेन्स साहिबके साथ

बहादुर ली ॥ सलाम मालुम करावसी. अठाका स्मांचार भला हे, आपका सदाभला चाहीजे, अपरंच जोके साहेब अजीमुस्यांन नवाब मुस्तताब मोओला अलकाब लारड गवरनर बहादुर मुमालीक हीदको बबाअस सर्गीरसंन आपके होना तमांम कांम रीआस्त दरबार ऊदेपुरका मारफत पंचाअत मंजुर हुवा, ईस्वास्ते आठ आदमी, उस्मे अेक तो रावतजी श्री बषतसीघजी बेदला, व रावतजी श्री रणजीतसीघजी देवगढ, व म्हांराज श्री हमीरसींघजी भीडर, व रना श्री लालसीघजी गोगुदा, व रावतजी श्री अमरसीघजी भेसरोडगढ, व कोठारीजी श्री केसरीसीघजी, व मेहेताजी श्री सेरसीघजी, व परोहतजी श्री स्यामनाथजी मुकरर कीअेगअे, सो अे लोग हरअेक मुकदमांत दरबार ऊदेपुरमे बाद तेहेकीकात तजवीज ऊस की मै मीसल मुकदमे व इतफाक राअे अेक दुसरेके वमुराद इीस्तस्वाब व सदुर हुकम मुनास्ब हमारे पास भेज्या करेगे; बसरत मुनास्ब राअे पंचाअत मंजुर होकर हुकम मंजुरी वासते इीजराअेकार इीस मेहेकमेसे होजाया करेगा. इीस्वास्ते ये षरीता बतोर इीतलाअे षीदमत मुबारीकमे भेजकर लीपता हुं, के अगर कीसी अमर रीआस्तमें आपको इीतला दरकार हो, तो याहासे आपको भी इीतला दीजावेगी, ओर मीजाज मुबारीक की षुसीका स्मांचार हमसे ली ॥ ता ॥ ८ मांहे फरवरी सन १८६२ इी ॥ मी ॥ म्हा सुद ९ स्मत १९१८ मुकाम कोठी ऊदेपुर रोज सनीसर वार. (Sd.) R. L. Taylor.

ملاحظه شد

जोकि इस कौन्सिलके नियत होनेसे रियासतको फ़ायदह पहुंचना चाहिये था, लेकिन बख़िलाफ़ उसके इन लोगोंने दो बातोंमें अपनी कारगुजारी और अक्लमन्दी खर्च की, याने अव्वल तो रियासतके खज़ानह और खालिसहकी ज़मीनसे अपना और अपने दोस्तों व रिश्तहदारोंका घर बनाना और दूसरा आपसकी पहिली अदावतोंका एवज़ लेना; क्योंकि हरएक मामूली या ग़ैर मामूली तहरीर बिना हुकम इन लोगों के जारी नहीं होसکتी थी, और न इसवक्त इन लोगोंको कोई रोकने वाला या इनकी तजवीजका रदियह करने वाला था, जो मन माना सो किया. अह्लकार लोग सर्दारों से दबगये, और बाज़ बाज़ उनमेंसे सर्दारोंके साथ मिलकर अपना भी मत्लब बनाने लगे. अल्बतह ऊपर लिखे हुए मुसाहिबोंमेंसे तीन शख्स याने कोठारी केसरीसिंह, महता शेरसिंह और पुरोहित श्यामनाथ महाराणाके खैरख़्वाह, सर्कारी हुकूमकी हिफ़ाज़त करने,

कुर्तियोंका दर्बार होना करार पाया, जिसमें महाराणा चांदीके बड़े सिंहासनपर और अंग्रेज़ ऑफ़िसर, रियासती सर्दार, चारण और अह्लकार वग़ैरह कुर्तियोंपर बैठे. यह दूसरा दर्बार था, जो कुर्तियोंपर हुआ.

और अस्ली बातोंको ज़ाहिर करने वाले, अक्लमन्द व सच्चे आदमी थे, मगर महता शेरसिंहको तो इसवक्त उसके लालची बेटे सवाईसिंहने बदनाम किया, और कोठारी केसरीसिंह व पुरोहित श्यामनाथको दूसरे लोगोंके खिलाफ सच्ची आदतें इस्तिथार करनेके कारण बहुतसा नुकसान उठाना पड़ा, बल्कि उसके बिगाड़नेमें जहांतक होसका लोगोंने कोताही नहीं की, जिसका जिक्र आगे लिखा जायेगा. इस कौन्सिलके पंच सर्दारोंमें अव्वल राय देनेवाला देवगढ़का रावत् रणजीतसिंह था, कि जिसके मौजूद न होनेकी हालतमें अदालतकी कुल कार्रवाई बन्द रहती थी, और वह सुबहसे शामतक पूजा पाठ, खाने पीने व आराम करनेसे फुर्सत नहीं पाता था, कि अदालत में आकर बैठे; हां जब अदालती काम ज़ियादह चढ़जानेके सबब अह्लकार लोगों की रिपोर्टों और रिआयाकी फ़र्यादोंसे दिक् होकर सप्ताहमें एक या दो दिन सौ दो सौ आदमियोंके लवाज़िमहसे शामकेवक्त कचहरीमें जाता भी, तो सिर्फ़ एक या दो घण्टा ठहरकर अपने दो चार तरफ़दारोंका काम बनानेके बाद वापस डेरेपर चलाआता. अगर्चि यह शख्स उस ज़मानहमें अव्वल दरजेका अक्लमन्द मानागया था, लेकिन पाठक लोग खयाल करसक्ते हैं, कि महीनेमें सिर्फ़ दो या चार बार अदालतमें जाना और बे-पर्वाईके साथ कुछ देर ठहरकर वापस चलाआना ऐसी बड़ी रियासतके प्रबन्ध और अदालती इन्साफ़के लिये कब काफ़ी होसक्ता था. आख़रकार उसकी कम फुर्सती और काहिलीने उसको अपनी अक्लमन्दीसे नामवरी हासिल न करने दी. भींडरका महाराज हमीरसिंह, जो अपनी उदारतामें प्रसिद्ध था, वह जगतप्रिय और मिलनसार होनेके सिवा महाराणाका खैरख़्वाह भी था, लेकिन पान्सलके शक्तावत लछमणसिंह (लक्ष्मणसिंह) और कामदार खबदास (ऋषभदास) महाजनपर भरोसाकरलेनेसे बहुतसी बातोंमें उसे बदनामी उठानी पड़ी. इन सब सर्दारोंमें बेदलेका राव बरुतसिंह बड़ा अक्लमन्द व होशयार था, जो मेम्बरोंकी एक सम्मति न देखकर सबके शामिल और संबसे जुदा रहनेके अलावा वह हरएक मुआमलहमें सलाहके वक्त भी ऐसी बात कहता, कि जिसका मत्लब हर तरफ़ लग सके; और इसी अक्लमन्दीके सबब वह महाराणा व पोलिटिकल एजेण्टका मोतबर सलाहकार बना रहा. अगर यह कौन्सिली लोग अपना अपना मत्लब तो महाराणा साहिबको इस्तिथार हासिल होनेपर अर्ज करके निकालते, जोकि संभव था, और इसवक्त रियासतके हुकूक बचानेकी कोशिश करते, तो कौन्सिलकी कभी बदनामी न होती; लेकिन ग़रीब लोग तो रोते रहे और ज़बर्दस्तोंने ऐसा एवज़ लिया, कि जिसके मिलनेका उन्हें ख़्वाबमें भी खयाल न था. सर्दारोंने तलवार बन्दी व ज़मानतके रुपये, जो ख़जानहमें बे.उज़ दाखिल कराये थे वापस लेलिये, और जिन लोगोंकी जागीरें संगीन कुसूरोंपर ज़ब्त

हुई थीं वापस दिलादी गईं. जोकि मालिकको जागीरोंके देनेमें इख्तियार है वेसाही लेनेमें भी है, इस हालतमें कौन्सिलको ऐसे मुआमलोंमें हाथ डालना ना मुनासिब था, लेकिन यहां मल्लवको छोड़कर वाजिब और गैर वाजिबको कौन देखता था. इसी जमानहमें पंचायतसे यह तज्वीज हुई, कि ठिकाना लावा याने सर्दारगढ़ शक्तावत चत्रसिंहको वापस दिलायाजावे, और ठाकुर मनोहरसिंह डोडियाको समझाया गया, कि सर्दारगढ़की एवज तुमको खैरोदा दिलाया जावेगा. इसपर उसने मन्जूर न करके जवाब दिया, कि अगर्चि जमीन हमेशह जवर्दस्तोंकी होती है, लेकिन अपनी बापोतीका ठिकाना छोड़कर वे इज्जतीकी बदनामी उठाने से मरना बिहतर है, परन्तु यहां उसकी कौन सुनता था ? कोठारी केसरीसिंहको यह बात नागुवार गुजरी, और महाराणा साहिबने वे इख्तियार और कम उम्र होनेपर भी मनोहरसिंहको खानगी तहरीरके साथ जेनरल लॉरेंस साहिबके पास जानेका हुक्म दिया, और कोठारी केसरीसिंहने भी खूब मदद दी. मनोहरसिंह उदयपुरसे रवानह होकर एजेण्ट गवर्नर जेनरलके पास आवूपर पहुंचा. उक्त साहिबने पंच सर्दारोंका फैसलह रद्द करके ठाकुर मनोहरसिंहको अपनी जागीरपर बहाल रक्खा, और इसी तज्वीजके मुवाफिक पंच सर्दारोंको भी तामील करनी पड़ी.

अब यहांसे महाराणाका तवारीखी हाल फिर शुरू किया जाता है, जिसके साथ पंच सर्दारोंका हाल भी मिला हुआ है. विक्रमी १९१८ माघ कृष्ण १ [हि० १२७८ ता० १६ रजव = ई० १८६२ ता० १७ जैनुअरी] को बड़ी धूमधाम के साथ महाराणाका राज्याभिषेकोत्सव हुआ, जिसको मैं (कविराजा श्यामलदास) ने अपनी आंखोंसे देखा था. जबकि महाराणा साहिब दस्तूरके मुवाफिक रायआंगन के पूर्वी दालानमें गद्दीपर विराजे, उसवक्त इज्जतदार दर्बारी लोगोंका ऐसा भारी हुजूम था, कि नज दिखलानातक लोगोंको मुश्किल होगया, बल्कि गणेश ड्यौड़ीसे महाराणा साहिबकी गद्दीतक पहुंचनेको रास्तह मिलना भी कठिन था. इस जलसेके बाद मातमी दस्तूरोंका खातिमह हुआ, और विक्रमी माघ कृष्ण ३ [हि० ता० १७ रजव = ई० ता० १८ जैनुअरी] को महाराणा श्री एकलिंगेश्वरके दर्शनोंको पधारे, जहां मन्दिरसे दस्तूरके मुवाफिक उन्हें तलवार मिली. विक्रमी फाल्गुन शुक्ल ७ [हि० ता० ६ रमजान = ई० ता० ८ मार्च] को पोलिटिकल एजेण्ट मेजर टेलर विलायत जानेकी रुखसती मुलाकात करनेको महाराणा साहिबके पास आये. टेलर साहिबका यह थोड़ासा जमानह मेवाड़की रियासतके लिये बड़ा तज्जुबके लाइक गुजरा, क्योंकि उक्त पोलिटिकल एजेण्टने कुल इख्तियारात पंच सर्दारों

को सौंपदिये थे, और जा व बेजा जो उनके मुंहसे निकलता उसीको मन्जूर करलेते; रियासतके हुकूमोंकी तरफ बिल्कुल खयाल नहीं किया. टेलर साहिबके जमानहकी इस खराबीको ईडन साहिबने आकर रोका, जिसका जिक्र आगे लिखाजावेगा. कौन्सिलके इन लोगोंने रियासती इन्तिजामको छोड़कर लालच व अदावतको ही अपना खास काम समझलिया था. महता शेरसिंहसे क़दीम दस्तूरके मुवाफ़िक जो ३०००००, रुपया दण्डका महाराणा स्वरूपसिंहने लिया था वह इसवक्त उसके बेटे सवाईसिंहने खज़ानहसे वापस लेलिया. अगर्चि इन रुपयोंके लेनेसे शेरसिंहने तो इन्कार किया था, लेकिन सवाईसिंहने अपने बापकी नौकरीको धब्बा लगानेके लिये यह काम किया. क़दीम जमानहसे यहांके प्रधान लोग राज्यमें इस प्रकारका दण्ड भरना अपने ऊपर एक फ़र्ज समझते थे. हकीकतमें यह रवाज कुल राजपूतानहमें राज है, क्योंकि अपने उहदेपर रहकर मालिककी मिहर्बानीसे लाखों रुपये कमाते और एकठा करते हैं, जिसमें उहदे से अलग किये जानेकी हालतमें दण्ड देना बेजा नहीं समझते. यह पहिला ही मौका था, कि महाराणाकी बेइख़्तियारीकी हालतमें प्रधानने दण्डका रुपया खज़ानहसे वापस लिया. इन रुपयोंका वापस लेना शेरसिंहकी बदनामी या नेकनामी चाहे कुछ ही समझलीजावे, परन्तु इसमें ज़ियादहतर उसके बेटे सवाईसिंहका कुसूर है, वरनह इस प्रधानने तो उम्र भर अपने मालिककी नौकरीमें कभी बेईमानी नहीं की. अल्बत्तह आपसकी अदावत के सबब अपने मुखालिफ़ोंसे बदला लेनेमें शेरसिंह भी कम न था. इसी तरह सर्दारोंने भी खज़ानह और मुल्कको खूब लूटा.

पाठक लोग यह न समझें कि जो कुछ मैंने बयान किया है वह अपने ही खयालसे किया है, वरन उनको पोलिटिकल एजेण्टकी रिपोर्टके देखनेसे, जिसका खुलासह मौक़ेपर दर्ज किया जायेगा, मालूम होगा, कि उन्होंने इस विषयमें अपनी क्या राय ज़ाहिर की है. महता गोपालदासपर यह तुहमत लगाई गई थी, कि महाराणा स्वरूपसिंहके साथ जो सती हुई उसमें उसीने मदद दी है. इसपर उक्त महताने उदयपुरसे भागकर कोठारियामें पनाह ली. उसको आपसकी अदावतसे जान व इज़्जतका बड़ा खौफ़ होगया था. इधर सुन्दरनाथ पुरोहित वगैरह खानगी लोग महाराणाके मुसाहिब बनकर हुकम चलाने लगे, अलावह इस के जनानी ड्यौढीसे जुदेही हुकम जारी होते थे. मेजर टेलर साहिब तो इस इन्तिजाम को इसी हालतमें छोड़कर विलायतको चलेगये, और विक्रमी १९१९ चैत्र शुक्ल ६ [हि० १२७८ ता० २० शव्वाल = ई० १८६२ ता० २० एप्रिल] को कर्नेल ईडन साहिब मेवाड़के पोलिटिकल एजेण्ट नियत होकर उदयपुरमें आये. इन्होंने इन्तिजामकी यह हा-

लत देखकर मत्लबी लोगोंकी कार्रवाइयोंको रोकना चाहा. कोठारी केसरीसिंहने साहिबका

यह नेक मन्शा मालूम करके खानगी तौरपर कुल हाल उनसे कहदिया, और जब मुसाहिव लोग किसीको जमीन जागीर वगैरह दिलाना चाहते तो उस हालतमें भी यह खैरखाह प्रधान पोशीदह तौरसे साहिवको अस्ली हाल कहकर ऐसी कार्रवाइयोंको रोकता रहा. इसपर बहुतसे लोग रियासतमेंसे केसरीसिंहका कदम उखेड़नेकी कोशिश करने लगे, और पुरोहित सुन्दरनाथको उदयपुरसे निकलवादिया. ईडन साहिवको लोगोंने यह बहकाया, कि कोठारी केसरीसिंहने सर्कारी २०००००, रुपया ग़बन किया है.

इसी अरसहमें विक्रमी श्रावण कृष्ण १२ [हि० १२७९ ता० २५ मुहर्रम = ई० ता० २३ जुलाई] को सलूबरके रावत् केसरीसिंहके मरनेकी खबर मिलनेपर महता अजीतसिंह और पुरोहित श्यामनाथ सलूबर भेजेगये. इस समय केसरीसिंहका नज्दीकी रिश्तहदार और हकदार कुराबड़का रावत् ईश्वरीसिंह सलूबरमें मौजूद था, उसने गद्दीपर बैठनेसे इन्कार किया, तब बेमालीके जागीरदार ज़ालिमसिंह वगैरह लोगोंने बंबोराके रावत् जोधसिंहको केसरीसिंहका दत्तक बनादिया, लेकिन पीछेसे ईश्वरीसिंह ने उदयपुरमें आकर अपनी हकदारीका दावा पेश किया, और इसी तरह चावंड, भदेसर व भैसरोड़के जागीरदारोंने भी अपना अपना हक ज़ाहिर किया, और कौन्सिल से भदेसरका रावत् भोपालसिंह सलूबरका हकदार मानागया, लेकिन जोधसिंह सलूबरपर काबिज़ होगया था, इसलिये उसको साबित रखनेके लिये मेवाड़के अक्सर सर्दारोंकी दरखास्तें गुजरीं, जिससे दावेदार (भोपालसिंह) की हकरसी मुल्तवी रक्खीगई.

विक्रमी कार्तिक शुक्ल ७ [हि० ता० ५ जमादियुल्अव्वल = ई० ता० २९ अक्टोबर] को महाराणा साहिव खानगी तौरपर रेज़िडेन्सीकी कोठीको पधारे उसवक्त डॉक्टरके कहनेसे महाराणा साहिवने फ़र्शके नीचे जूतियां उतारदीं, फिर महलोंमें वापस आनेपर इस बातका चर्चा फैला; अक्सर लोगोंने साहिव एजेण्टके कानमें यह बात भरी कि कोठारी केसरीसिंहकी प्राइवेट सलाहपर महाराणा चलते हैं, और उसकी निस्बत २०००००, रुपया ग़बन करनेकी शिकायत पहिलेही हो चुकी थी; इसलिये साहिव एजेण्टके हुक्मसे विक्रमी कार्तिक शुक्ल ११ [हि० ता० ९ जमादियुल्अव्वल = ई० ता० २ नोवेम्बर] को केसरीसिंह प्रधानसे खारिज करदियागया. इसवक्त कुल पंच सर्दारोंके आपसमें नाइत्तिफ़ाकी चल रही थी. महता अजीतसिंहको चन्द शिकायतोंके सबब चोरी व डकैतीका बन्दोबस्त करनेके वास्ते मेवाड़में भेजदिया. वहां उसने धाड़ा और चोरी रोकनेके लिये मुज्जिमोंको सस्त सज़ा दीजानेकी

दख्खीस्त की, जिसपर पंचसर्दारोंने उसे जानतककी सजा देनेका इस्तिथार लिख-
 भेजा. अगर्चि अजीतसिंह खुद तो नेक तबीअत शख्स था, लेकिन जिसपर वह
 एतिवार करलेता उसकी सलाहपर बिना विचार किये फ़ौरन् अमल करबैठता
 था. उसने ज़ालिम आदमियोंकी सलाहसे दो बावरियोंको जानसे मरवाडाला, और
 बीस तीस आदमियोंको बहुतसा पिटवाया, यहांतक कि किसीका हाथ व पांव तुड़वा डाला
 और किसीकी आंख फुड़वा डाली. जब मैं (कविराजा श्यामलदास) उससे मिलने
 के लिये चित्तौड़गढ़पर गया, तो इस सख्त कार्रवाईको देखकर मैंने उसे सलाहके तौरपर
 कहा, कि इसका नतीजह तुम्हारे हकमें बहुत खराब होगा, जिसपर उसने उपरोक्त
 मुज्जिमोंके कुसूर बयान किये, जो बेशक उसी सख्त सजाके लाइक थे; और
 बाबा चन्दसिंहकी कार्रवाईका भी उदाहरण दिया, जो उसने विक्रमी १९१६ [हि०
 १२७६ = ई० १८५९] में खैराड़के कई मीनोंको तोपसे उड़वादेनेमें की थी.
 मैंने कहा, कि वह ज़मानह महाराणा स्वरूपसिंहकी खुदमुख्तारीका था, और इसवक्त
 आईनी बादशाहतकी तरफ़का इन्तिज़ाम है. इसी तरह मेरे और उसके आपसमें
 कई दलीलें होती रहीं, लेकिन यह बहस खानगी और दोस्तानह तौरकी थी. अखीरमें
 मैंने कहा, कि इसका जो नतीजह पैदा हो, उसे देखकर मेरी बातको याद करना. मेरे
 इस कहनेका इतना असर तो ज़रूर हुआ, कि मुज्जिमोंपर जो मारपीट और सख्ती होती
 थी वह उसवक्तसे बन्द कीगई. मेरे कहनेके दो दिन पीछे उदयपुरसे भी यही हुक्म आया,
 कि मुज्जिमोंपर सख्ती नहो, तब अजीतसिंहने मेरी बातको ठीक जानकर मुझे कहा, कि
 सर्कारी तहरीरके अलावह मुझको खानगी तौरपर खबर मिली है, कि पोलिटिकल एजेण्ट
 मुझसे बहुत नाराज़ हैं, अब तुम उदयपुर जातेहो, वहां मेरे पिता शेरसिंहसे कहनां
 कि मुझे उदयपुर जल्द बुला लेवें, तो मैं पोलिटिकल एजेण्टसे मिलकर सफ़ाई करलूं. मैंने
 कहा, कि मेरे पहुंचनेसे पहिले ही तुम वहां बुलाये जाओगे. ईश्वरको मेरी खयाली बातका
 सहीह करना मन्ज़ूर था, दूसरे ही रोज़ अजीतसिंहकी तलबीका हुक्म आया. वह
 फ़ौरन् उदयपुर पहुंचा, उसीवक्त पोलिटिकल एजेण्टने बुलाकर खुद उसके इज्हार
 लिये. आखरकार दो तीन रोज़के बाद भागकर उसने सर्दारोंके ठिकानेमें पनाह ली,
 और पंच सर्दारोंने उसकी वरिष्ठ्यतके लिये बहुत कुछ उज़्र पेश किये, जिससे साहिब
 को इस विषयमें पूरा पूरा शक होगया, कि वह मुसाहिबोंकी साजिशसे भागगया. इसी
 तरह कोठारी केसरीसिंहपर २०००००) रुपया ग़वन करनेका जुर्म सच्चा समझकर प्रधाने
 से वरतरफ़ करनेके अलावह उसको कैद करवादिया. केसरीसिंहने कहा, कि यदि
 मैं अपने मालिकका सच्चा खैरख़्वाह और ईमानदार हूं, तो ये कुल झूठी बातें अखीर

में रहें होंगी. हकीकतमें केसरीसिंह मालिकका पूरा खैरखाह था, उसने लोगोंको जागीरें मिलना इस बातपर रोका था, कि जागीर देना मालिकका काम है, जो मालिक के जवान होने व इख्तियार मिलनेपर मिलसकी हैं. इस बातपर अक्सर लोगोंने केसरीसिंहको जक देकर मालिककी खैरखाहीसे हटाना चाहा. अगर्चि इसवक्त महाराणा साहिब कम उम्र थे, लेकिन खैरखाह कोठारीपर जाल गिरनेसे मुसाहिबोंपर बहुत नाराज हुए. इन लोगोंने आइन्दहके खौफसे महाराणा साहिबको खुश करनेके लिये कोठारीकी बरिख्यतके बारेमें पोलिटिकल एजेण्टके सामने कई दलीलें पेश कीं, मगर इस दुतरफी कार्रवाईसे पोलिटिकल एजेण्ट और भी बिगड़ा, और कोठारीको शहरसे निकाल देनेका हुक्म देदिया. तब वह एकलिंगेश्वरकी पुरीमें जा रहा. पोलिटिकल एजेण्टसे दिन व दिन मुसाहिबोंकी नाइत्तिफाकी बढ़ती रही, यहांतक कि महाराणा साहिबको भी इन लोगोंने साहिब एजेण्टके बखिलाफ कार्रवाई करानेमें मददगार बनालिया, क्योंकि कोठी रेजिडेन्सीमें जूतियां उतरवानेके सबब नाराजगी तो पहिलेसे ही चल रही थी, फिर कर्नेल् ईडन पंच सर्दारोंकी कौन्सिलमें आनेके वक्त सातांकी पायगाहके पास हाथीसे उतरे, जहांतक कि कोई अंग्रेज वगैरह सवारीपर पहिले कभी नहीं आ सकता था; इस बातका भी बड़ा शोर हुआ. फिर साहिब एजेण्टने पंडित लक्ष्मणरावको बुलाकर कौन्सिलका मीरमुन्शी और पंडित गोविन्दरावको महकमह साइरका दारोगह बनाया. इसी तरह मौलवी मुहम्मद निजामुद्दीनखांको दीवानी व फौजदारी वगैरह अदालतोंका नाजिम मुकर्रर किया. अगर्चि मेवाड़ी अहलकार आपसमें ना इत्तिफाकी रखते थे, तोभी विदेशी आदमियोंका बड़े बड़े उहदोंपर मुकर्रर होना सबको नागुवार गुजरा, और महाराणा साहिबके हुक्मसे कुल रियासती लोगोंके दस्तखत होकर एक दर्खास्त जिसमें पोलिटिकल एजेण्ट कर्नेल् ईडनकी शिकायतें लिखी थीं, वाइसरॉयके पास भेजी गई. पोलिटिकल एजेण्टने भी मुसाहिबोंके कुसूर चुनकर रिपोर्ट की. बाज बाज मुसाहिबोंने यह चालाकी की, कि महाराणाके सामने तो पोलिटिकल एजेण्टकी शिकायती दर्खास्तपर खुशीसे दस्तखत करदिये, और खानगीमें पोलिटिकल एजेण्टसे कुल हाल कहकर बयान किया, कि हम लोगोंने महाराणाकी दवागतसे दस्तखत किये हैं, और एक दूसरेको शिकायतका सरगिरोह बतलाता था. इन सबबोंसे पोलिटिकल एजेण्टको रिपोर्ट करनेमें पूरी मदद मिली.

विक्रमी १९२० ज्येष्ठ कृष्ण ३ [हि० १२७९ ता० १७ जिल्काद = ई० १८६३ ता० ६ मई] को महाराणा साहिबने अपनी दूसरी शादी (१) सादड़ीके राज कीर्तिसिंहकी बेटीके

(१) इन महाराणाका पहिला विवाह वागौरकी महाराजगीके समयमें गढ़ीके चहुवान रत्नसिंहकी बेटी

तरतकुंवर वाईके साथ हुआ था.

साथ देलवाड़ा मकामपर बड़ी धूमधामके साथ की. विक्रमी प्रथम श्रावण शुद्ध ४ [हि० १२८० ता० ३ सफ़र = .ई० ता० २० जुलाई] को महाराणा स्वरूपसिंहकी बड़ी महाराणी राठौड़ गुलाबकुंवरका देहान्त होगया, और विक्रमी भाद्रपद कृष्ण ५ [हि० ता० १७ रबीउलअव्वल = .ई० ता० २ सेप्टेम्बर] को महाराणा स्वरूपसिंहकी तीसरी महाराणी भटियाणी बीसलपुरी परलोकको सिधारी.

जब रियासती लोगों और पोलिटिकल एजेण्टमें जाहिरा नाइत्तिफ़ाकी बढी हुई देखी, तो पोलिटिकल एजेण्टकी रिपोर्टको लॉर्ड गवर्नर जनरल हिन्दने मन्जूर करके पंच सर्दारोंको मौकूफ़ करदेने और पोलिटिकल एजेण्टको रियासती इन्तिज़ाम करनेका पूरा इस्तिज़ार देदिया. इस बारेमें महाराणाके नाम लॉर्ड गवर्नर जनरल हिन्दका हुक्म बज़रीए खरीतह पोलिटिकल एजेण्ट मेवाड़ आया, जिसकी नक़्क़ नीचे दर्ज कीजाती है:—

कनेल् विलिअम फ़ेडेरिक ईडन साहिबके खरीतहकी नक़्क़,

॥ श्रीरामजी,

॥

॥ सीध श्री ऊदेपुर सुभसुथाने सरब ओपमां वीराजमान लाअक म्हाराजा धीराज म्हारांनाजी साहेब श्री संभुसीघजी बहादुर अेतान राजे श्री करनेल वलीयम फरीडरक ईडन साहेब बहादुर पोलेटीकल अजंट मेवाड़ ली।; सलाम मालुम करावसी. अठाका स्मांचार भला हे, आपका सदा भला चाहीजे; अपरंच बवाअस चुक पंचसरदारान अगले के हुकम सदरसे वास्ते बंदोबस्त जदीद रीआस्त मेवाड़के आगया, इसवास्ते मेने अेक इसतहार वास्ते आगाही हर षास व आंमके आजके तारीष ज्यारी कीया हे, नक़्क़ उसकी वासते इतलाके षीदमत मुबारीकमे भेजता हुं, ओर इस चुक पंचसरदारानपर जेसाके मे अफसोस करता हुं दुसरा न करसकेगा, कीसवास्तेके मे जो मेहेनत उठाय़ा था सीरफ़ वासते बेहबुदी व सरस्वजी रीआस्त मेवाड़के थी. अब मे बंदोबस्त नया जेसाके मुझे वास्ते बेहेतरी ओर सरस्वजी रीआस्त मेवाड़के मालुम होगा तजवीज करके रपोरट सदरको करुंगा. जोके ये बात इतलाफ़ाकसे हुइके अैसे तमाम दुनीयामे नही होती. अगरचे आप पुरदसाल हे तोभी इतला इसकी आपको मुनास्ब ओर लाजम थी सो षीदमत मुबारीकमे कीगई, कोडी वक़्त फुरस्तका देषकर मे हाजर हुंगा ओर षीदमत मुबारीकमे इतला दुंगा. मुनास्ब हे के आप तबजे तरफ़ लीषने पहडने ओर

सीपने कामकाज रीआस्तके फरमावे, ओर मीजाज मुबारीककी पुसीका स्मांचार हमेसे ली ॥ ता ॥ १९ माहे अगस्त सं ॥ १८६३ ई ॥ सी ॥ दुजा सांवण सुद ५ स्मत १९२० मु ॥ कोठी ऊदेपुर रोज बुधवार.

(Sd.) W. F. Eden,

P. Agent.

مشيخ شهاب الدين فائض ميمبر منشي

ऊपर लिखे हुए खरीतहसे पाठक लोगोंको मालूम होगा, कि कोठारी केसरी-सिंहने सर्कारी २०००००) रुपया गवन करना चाहा था, लेकिन् इस बातका पूरा पूरा इन्साफ़ होकर गवर्मेण्ट अंग्रेजीको अच्छी तरह यकीन होगया, कि खैरख्वाह और ईमानदार प्रधान कोठारी केसरीसिंहपर यह तुहमत अदावतसे लगाई गई थी, जिसका जिक्र मौक़ेपर किया जायेगा. जब पंच सर्दार मौक़ूफ़ कियेगये, तो उनकी एवज़ महता गोकुलचन्द और पण्डित लक्ष्मणराव मुकर्र होकर उस कचहरीका नाम “अहालियान श्रीद्वार राज्य मेवाड़” रक्खा गया; और कुल कार्रवाई पोलिटिकल एजेण्ट कर्नेल् ईडन साहिबके हुकमसे होने लगी. अगर्चि इस वक्त रियासतमें बड़ी बेतर्तीबी होगई थी, और महाराणा साहिबके कम उध्र होनेकी हालतमें रियासती लोगोंने उनके हुकमसे पोलिटिकल एजेण्टकी शिकायतोंपर कमर बांधली थी, तोभी हमारी रायमें पंच सर्दारोंके वक्तकी बनिस्वत अहालियानका समय किसीकद्र ठीक था, क्योंकि रियासतका नुकसान कुछ कम होने लगा, और कम उध्र महाराणा साहिबपर भी दवाव रहनेसे खराब लोग अपनी सुहवतका असर पहुंचानेमें कुछ दबते रहे. अगर मैं उस समयके रियासती लोगोंका खानगी हाल लिखूं, तो एक बड़ी किताब बन सकती है, लेकिन् तवालतके खयालसे ऐसे हालातको छोड़कर सिर्फ़ वही बातें लिखता हूं, जो जियादह जरूरी और तवारीखमें दर्ज करनेके लाइक हैं.

रियासत मेवाड़की रिआया पहिले काइदहकी कार्रवाईसे बिल्कुल नावाक़िफ़ थी, और बाहिरके नये अहलकारोंने एकदम दवाव डालकर उसे काइदेकी पाबन्द बनाना चाहा, जिससे लोग घबरा गये; और इसी हालतमें रियासती अहलकार भी

उन्हें भड़काने लगे, कि पोलिटिकल एजेण्टकी शिकायत हो. निज़ामतके अप्सर मौलवी मुहम्मद निज़ामुद्दीनख़ाने चन्द काइदे अदालतोंमें जारी करके शहरमें मनादी करवादी, कि अपने लेनदेनके लिये कोई शख्स खुद हाकिमानह कार्रवाई अमलमें न लावे, जिस किसीको ज़रूरत हो राज्यकीय अदालतोंमें नालिश करे. शहरके महाजन और नगरसेठ चंपालालको रियासती लोगोंने यह समझाया, कि आइन्दह लेन देनके मुअमलेमें यदि कोई श्रीद्वारकी आण दिलावेगा, तो उसको सरत सज़ा होगी. ज़मानह क़दीमसे इस रियासतमें यह दस्तूर जारी था, कि लेन देन वगैरह किसी मुअमलेमें यदि एक फ़रीक़ महाराणा साहिबकी आण दिला देता, तो दूसरे फ़रीक़को यह मजाज़ नहीं होता, कि उसके बख़िलाफ़ कार्रवाई करसके, चाहे वह सच्चा हो या झूठा; और आणके बख़िलाफ़ बर्ताव करने वाला शख्स महाराणाके नज़दीक बड़ा कुसूरवार माना जाता था. इसके लिये कई पुरानी मिसालें (१) मौजूद हैं. मौलवी मुहम्मद निज़ामुद्दीनख़ानेकी इस कार्रवाईपर लोगोंने महाराणा साहिबको जोश दिलाया, कि वह हुज़ूरकी आण रद्द करता है. इससे महाराणा साहिब भी पोशीदह तौरपर रिआयके मददगार बनगये. विक्रमी १९२० चैत्र कृष्ण ७ [हि० १२८० ता० २१ शव्वाल = ई० १८६४ ता० ३० मार्च] के दिन उदयपुर के कुल व्यापारी और पेशेवाले हज़ारों लोग अपनी अपनी दुकानें बन्द करके उमराव, सदाँर और मुसाहिबोंको गालियां देते हुए कोठी रेज़िडेन्सीपर पहुंचे. कर्नेल् ईडन साहिबने कोठीसे बाहिर निकलकर इन्हें बहुतेरा समझाया, कि वायवैला बन्द करके अपनी तकलीफ़का हाल कहो, लेकिन वहां कौन किसकी सुनता था, हज़ारों आदमियोंका शोर था. बदमआश लोग साहिबको भी गालियां देने लगे. तब पोलिटिकल एजेण्टने चन्द सिपाहियों और चपरासियोंको हुक्म दिया, कि इनको हटाओ. वे लोग हटाने लगे; जब न हटे तो आपसमें लकड़ी और पत्थर चलानेकी नौबत पहुंची, जिसमें चन्द व्यापारियोंके लगी, और चपरासी व सिपाहियोंके भी चोट आई. बाज़का बयान है, कि पोलिटिकल एजेण्टके भी पत्थर लगा. फिर वे लोग रेज़िडेन्सी से वापस आकर एजेण्ट गवर्नर जेनरलके पास फ़र्यादी जानेको निकलकर सहेलियोंकी वाड़ीमें ठहरे, जो नगरसे उत्तर तरफ़ एक मीलके फ़ासिलेपर है. हटनाल

(१) लोग यह मिसाल अवतक देते हैं, कि महाराणा दूसरे संग्रामसिंहके समयमें दशहरेकी सवारीमें एक व्यापारीने सरे बाज़ार अपना रुपया बुसूल करनेके लिये बलीअहद जगतसिंहको आण दिलादी, जिसपर महाराणाने अपने पुत्रको बेलिहाज़ हुक्म देदिया, कि अपना घोड़ा एकतरफ़ हटाकर सवारीको निकलनेदो, और व्यापारीको खुश करो, आण मुअफ़ नहीं होसकी. उत बेआईनी ज़मानहमें ग़रीब लोगोंको आणके दस्तूरसे बड़ा सहारा मिलता था.

होने और पेशावाले लोगोंके निकलजानेसे शहरमें सन्नाटासा मालूम होनेलगा. आखर-कार विक्रमी चैत्र कृष्ण १२ [हि० ता० २५ शव्वाल = .ई० ता० ३ एप्रिल] को बहुत कुछ समझानेपर लोगोंने दूकानें खोलीं, लेकिन नगरसेठ आदिकी समझाइश के लिये पूरी पूरी कोशिश होरही थी. विक्रमी चैत्र कृष्ण ११ [हि० ता० २८ शव्वाल = .ई० ता० ६ एप्रिल] को महाराणा साहिब और पोलिटिकल एजेण्ट सहेलियोंकी बाड़ीमें जाकर शहरकी रिआया और नगरसेठको वहांसे शहरमें लेआये. इसके बाद अदालती कार्रवाईमें कुछ तर्मीम कीगई, और मौलवी निजामुद्दीनखांको निकालकर यह बलवा ठंढा कियागया.

विक्रमी १९२१ भाद्रपद कृष्ण ११ [हि० १२८१ ता० २३ रबीउल्अव्वल = ई० ता० २७ ऑगस्ट] के दिन महलोंमें पोलिटिकल एजेण्टको दावत दीगई, क्योंकि विक्रमी १९१४ [हि० १२७४ = .ई० १८५७] के ग़दरमें महाराणा स्वरूपसिंहकी तरफसे बेदलाका राव बरतसिंह अंग्रेजोंकी मदद और वागियोंको सजा देनेके लिये पोलिटिकल एजेण्ट शावर्सके साथ तईनात कियागया था, और उसने बमूजिव हुकम महाराणा साहिबके बड़ी बहादुरी व खैरख्वाहीके साथ खिन्नत अदा की; इसलिये गवर्मेंट अंग्रेजीकी तरफसे उसके लिये एक तलवार इनआममें आई, जो पोलिटिकल एजेण्ट कर्नेल् ईडनने महाराणा साहिबके द्वारमें उसे दी. इस खुशीमें महाराणा साहिबने भी उक्त रावको खिलअत व मोतियोंकी कंठी इनायतकी, और विक्रमी १९२१ कार्तिक शुक्ल ३ [हि० १२८१ ता० १ जमादियुस्सानी = .ई० १८६४ ता० २ नोवेम्बर] को जगन्नाथरायके मन्दिरके पीछे बड़े स्कूलकी नीव डालीगई, जिसका पूरा पूरा जिक्र मौकेपर आगे लिखाजावेगा.

विक्रमी माघ कृष्ण ११ [हि० ता० २८ शअ्वान = ई० १८६५ ता० २७ जैन्युअरी] को मऊ, नीमच और नसीराबादका जेनरल ग्रीन साहिब जाहिरा सैरके लिये और पोशीदह तौरपर शहरके लोगों (१) और पोलिटिकल एजेण्टके बीच तक्रार हुई उसकी तहकीकातके लिये उदयपुर आया, जिसके लेनेके लिये राजनगर तक सहीह वाला अर्जुनसिंह भेजा गया था. इन दिनों महाराणा साहिबकी आंखमें कुछ तकलीफ थी, इससे मामूली पेशवाईके लिये महाराणा साहिब खुद न गये, और शिवरतीका महाराज दलसिंह, बेदलाका राव बरतसिंह, महता गोकुलचन्द और पंडित लक्ष्मणराव वगैरह सर्दार व मुसाहिब आहड़के धूलकोटतक पेशवाई करके

(१) जेनरल ग्रीनने रिआयाकी बगावतके हालकी रिपोर्ट तो डेमी आफिशियल की होगी, जिसका हाल जाहिर नहीं हुआ.

लेआये. साहिबके उदयपुरमें दाखिल होनेपर १३ तोपकी सलामी सर हुई. उक्त साहिब तीन रोज उदयपुरमें ठहरकर विक्रमी माघ शुक्ल ३ [हि० ता० २ रमजान = .ई० ता० ३० जैनुअरी] को वापस खानह होगये.

विक्रमी १९२२ चैत्र शुक्ल १५ [हि० ता० १४ जिल्काद = .ई०ता० ११ एप्रिल] के दिन महाराणा साहिब को यह खबर मालूम हुई, कि पोलिटिकल एजेण्ट मेवाड़ कर्नेल् ईडन एजेण्ट गवर्नर जेनरल राजपूतानह मुकर्रर हुए, जिनकी जगह विक्रमी वैशाख शुक्ल ७ [हि० ता० ६ जिल्हिज = .ई० ता० २ मई] को जोधपुरका पोलिटिकल एजेण्ट निक्सन साहिब डकमें उदयपुर आया और विक्रमी वैशाख शुक्ल ९ [हि० ता० ८ जिल्हिज = .ई०ता० ४ मई] को कर्नेल् ईडन एजेण्ट गवर्नर जेनरल राजपूतानह नियत होकर डकमें उदयपुर आया. महाराणा साहिबने आहड़के धूलकोटतक उक्त साहिबकी पेशवाई की. इसके बाद विक्रमी वैशाख शुक्ल १५ [हि० ता० १४ जिल्हिज = .ई० ता० १० मई] को यह साहिब आवूकी तरफ खानह हुए. साहिबको पहुंचाने के लिये पारसोलीका राव लक्ष्मणसिंह और महता गोकुलचन्द्र महाराणा साहिबकी तरफसे भेजेगये थे. कर्नेल् ईडन बड़े नेक दिल और अक्लमन्द थे, जिन्होंने मेवाड़के पोलिटिकल एजेण्ट रहनेकी हालतमें बड़ी बुर्दबारीके साथ काम किया. अगर यह साहिब अदावत को याद रखने वाले होते, तो मेवाड़की रियासतको बहुत कुछ नुकसान पहुंचता. अल्बतह कोठारी केसरीसिंह व पुरोहित श्यामनाथ और उसके बेटे पद्मनाथका उदयपुरसे निकाला जाना बेजा हुआ; लेकिन कोठारीके लिये तो उसको लोगोंने धोखा दिया, और पुरोहित श्यामनाथको गवर्मेण्ट अंग्रेजीकी पॉलिसीमें रोकटोक कूरनेवाला जानकर निकाला. परन्तु कर्नेल् ईडन कद्रदान होता, तो वह जिसतरह अपनी अंग्रेजी गवर्मेण्ट की पॉलिसीका फर्ज अदा कर रहा था उसीतरह पुरोहित श्यामनाथ भी अपनी सच्ची अदातके मुवाफिक अपने मालिककी खैरखाही और अपने सुपुर्दगीके कामोंका हक अदा करनेपर मुस्तइद था. खैर अब मेवाड़का पोलिटिकल एजेण्ट निक्सन साहिब मुकर्रर हुआ, जो अपने आखरी उद्देतक महाराणा साहिबका शुभचिन्तक व कुल रियासती लोगोंका दोस्त बना रहा.

विक्रमी ज्येष्ठ कृष्ण ८ [हि० ता० २२ जिल्हिज = ई० ता० १८ मई] को उदयपुरके महलोंके दक्षिण कुंवरपदाके महलोंकी जगह "शम्भु निवास" नाम अंग्रेजी ढंगका महल बनवानेकी बुनयादका पत्थर महाराणा साहिबके हाथसे डाला गया. विक्रमी मार्गशीर्ष कृष्ण ११ [हि० १२८२ ता० २८ जमादियुस्सानी = .ई० ता० १८ नोवेम्बर] को

एजेण्ट गवर्नर जेनरल राजपूतानह कर्नेल् ईडन साहिब महाराणा साहिबको इस्ति-

यार देनेके लिये उदयपुरमें आये. राजनगर मकामतक बेदलाका राव बरूतासिंह, और महता गोकुलचन्द्र पेशवाईको गये, और महाराणा साहिबने भी मामूलके मुवाफिक पेशवाई की. विक्रमी मार्गशीर्ष शुक्ल २ और ६ [हि० ता० १ और ५ रजब = ई० ता० २० और २४ नोवेम्बर] को कर्नेल् ईडन महाराणा साहिबकी मुलाकातके लिये राज्यमहलों में आये, और विक्रमी मार्गशीर्ष शुक्ल ७ [हि० ता० ६ रजब = ई० ता० २५ नोवेम्बर] को मिह्मानीके तौर कोठी रेजिडेन्सीपर उक्त साहिबने महाराणा साहिबको बुलाया. फिर मार्गशीर्ष शुक्ल ८ [हि० ता० ७ रजब = ई० ता० २६ नोवेम्बर] को महलोंके चौकमें शामियानहके भीतर बड़ा शाहानह द्वार हुआ; बीचमें महाराणा साहिब चांदी और सोनेके बड़े सिंहासनपर बैठे और उनके दाहिनी तरफ चांदीकी कुर्सीपर एजेण्ट गवर्नर जेनरल राजपूतानह कर्नेल् ईडन, पोलिटिकल एजेण्ट मेवाड़ कर्नेल् निकसन और कोटाके पोलिटिकल एजेण्ट वगैरह कुल २९ साहिब लोग सादी कुर्सियोंपर, और उनके आगे १८ रियासतोंके वकील दरजे व दरजे बैठे, और महाराणा साहिबके बाएं हाथकी तरफ कुर्सियोंपर मेवाड़के सदार, चारण और अहलकार दरजे व दरजे बैठे, और त्रिपोलियाके भीतरी चौकसे लेकर बड़ीपौलके बाहिरतक अंग्रेजी रिसालह, तोपखानह और नीमच तथा खैरवाड़ाकी बटालियन जमाई गई. फिर कर्नेल् ईडनने महाराणासाहिबको मौरूसी इस्तिथारातका शुक्रियह दिया, और फिर गवर्नर जेनरल हिन्दका खरीतह पढ़ा. इसके पीछे शाही तोपोंकी सलामी सर हुई. महाराणा साहिबने अंग्रेजी फौजको १००००) रुपया इन्आमका दिया, इसके पीछे द्वार बर्खास्त हुआ. विक्रमी पौष कृष्ण ३ [हि० ता० १६ रजब = ई० ता० ५ डिसेम्बर] को कर्नेल् ईडन उदयपुरसे रवानह होगये और एक खरीतह खैरवाड़ाकी सड़क बनवानेके लिये सलाहके तौर लिखभेजा.

महाराणा साहिबको इस्तिथार मिलनेसे पहिले बेमालीका जागीरदार चूडावत् जालिमसिंह सलूवरसे उदयपुर आया, जिसकी बातोंपर महाराणा साहिब जियादह भरोसा करते थे. गद्दी नशीनीके प्रारम्भमें पुरोहित सुन्दरनाथ और उसके निकाले-जाने बाद कृष्णगढ़का राठौड़ मोतीसिंह जो महाराणा भीमसिंहकी पर्दायत सह-चरीकी बेटीके पेटसे पैदा हुआ था, और उसकी तनजुली होने बाद चूडावत् जालिमसिंह महाराणा साहिबका खानगी सलाहकार बना. महाराणा साहिब बड़े जिहीन और अक्लमन्द थे, लेकिन कम उम्र और साफ दिल होनेके सबब जियादह बातचीत करने वाले आदमीको अक्लमन्द जानकर उसपर भरोसा करलेते, लेकिन रियासतमें उन लोगोंके मुखालिफ भी मौजूद थे, जो सलाहकारोंके ऐब दिखलानेमें कमी नहीं करते. इस उलटा पलटी वगैरहसे उनको भी बहुत कुछ तजर्बह होताजाता था.

अब मैं (कविराजा श्यामलदास) महाराणा साहिबकी इस्तिथारीकी हालत अपनी देखीहुई बयान करनेसे पहिले एजेण्ट गवर्नर जेनरल राजपूतानहकी रिपोर्टका खुलासह लिखता हूँ:-

राजपूतानहके पोलिटिकल प्रबन्धकी रिपोर्ट, बाबत
सन् १८६५-६६ और १८६६-६७ ई०.
पहिला हिस्सह.

(मेवाड़की कार्रवाईका बयान).

(दफा १५७) मेवाड़-ईसवी १८६१ नोवेम्बर [वि० १९१८ कार्तिक = हि० १२७८ जमादियुल्अव्वल] में परलोकवासी महाराणा स्वरूपसिंहका देहान्त हुआ, और उनके दत्तक पुत्र विद्यमान महाराणा शम्भुसिंह १४ वर्षकी अवस्थामें गद्दीपर विराजे.

(१५८)-उनकी नाबालिगीके जमानहमें रियासतका कुल प्रबन्ध पोलिटिकल एजेण्टकी निगरानीमें एक रिजेन्सी कौन्सिलके जरीएसे होता था.

कौन्सिलकी कार्रवाई खराब थी, क्योंकि मेम्बर लोग बनिस्बत रियासती विह्तरी के जियादहतर अपनाही भला चाहते थे, और पोलिटिकल एजेण्टकी बतलाईहुई रियासती सुधार और तरक्कीकी तबीरीको बहुत ही कुछ रोकते और उनके बखिलाफ़ कार्रवाई करते थे; और जो लोग नाबालिग रईसकी हाजिरीमें रहते थे उनकी यह कोशिश थी, कि महाराणाको हर तरहकी तमाशबीनीकी तरफ़ लगाकर उनके मिजाजको अपने आधीन करलें.

ईसवी १८६३ [वि० १९२० = हि० १२८०] में यह मुअ्रामलात अखीर दरजेको पहुंचे; और एक बड़े अहलकारकी बदचलनी और दूसरेकी जालिमानह सरूतीके सबब चन्द वावरियोंके जानसे मारेजानेके कारण गवर्मेण्ट हिन्दने पोलिटिकल एजेण्टको जियादह इस्तिथारात दिये. हकीकतमें वह रियासतके मुख्य मुअ्रामलातका जियादहतर जिम्मेदार बना.

इस तज्वीजसे कामयाबी हुई; पहिले जिन सर्दारोंने और दूसरे लोगोंने ब्रिटिश प्रतिनिधिसे बखिलाफी की थी, वेही उसके मददगार बनगये, यह जानकर, कि गवर्मेण्ट हिन्द पोलिटिकल एजेण्टकी मददगार है; और महाराणा साहिब भी एक बड़ी भारी बीमारीसे निकलकर अपने पासवानोंके चालचलनको अच्छी तरह जानगये, और अपनी अगली भूलोंको कुबूल करके पोलिटिकल एजेण्टकी सलाह और नसीहत मानने लगे, और बड़े विचार व ध्यानके साथ अपनेको नाबालिगीके बाद मिलनेवाले इस्तिथारात

और जिम्मेदारियोंके लाइक बनानेकी कोशिश करने लगे.

(१५९)- ईसवी १८६४ [वि० १९२१ = हि० १२८१] में गर्मियोंके मौसमके बाद महाराणा साहिब और पोलिटिकल एजेण्टके उत्तम विचारकी एकतामें खलल नहीं आया.

(१६०)- ईसवी १८६५ सेप्टेम्बर [वि० १९२१ आश्विन = हि० १२८२ रबीउस्सानी] में महाराणा साहिबकी नाबालिगीकी मीआद पूरी हुई, और नोवेम्बरमें उन्हें बड़ी धूमधामके साथ रियासती इस्तिथारात दियेगये.

(१६१)- इस थोड़ेसे अरसेमें पोलिटिकल एजेण्टने ईमानदारीके साथ जो काम किया, उसका बयान करना आसान नहीं है, क्योंकि जो काम हमने किये हैं वे खासके लिये नहीं, बल्कि फायदे आमके लिये हैं, और हमारी कोशिश रियासतके पुराने दस्तूरोंको मिटाने के लिये नहीं थी, वरन् उनकी खामियां मिटानेके लिये कीगई थी. फौजदारी और दीवानी का प्रबन्ध अच्छा कियागया, राज्यके अहलकारोंका जुल्म मिटादिया गया, और माल-गुजारीके प्रबन्धमें इसतरह तरकी कीगई, कि जो किसीको नागुवार न गुजरे. लोगोंके जान व मालकी उम्दह हिफाजतके लिये सवारोंकी पुलिस काइम कीगई, एक उम्दह मद्रसेकी बुनूयाद डालीगई, जेलखानहका नया बन्दोबस्त कियागया, और शिफाखानोंकी बहुत कुछ दुरुस्ती कीगई. महकमह तामीरातपर भी पूरी तवज्जुह कीगई; नीमचकी तरफ एक उम्दह पक्की सड़क बनगई; अर्वली पहाड़की तरफ गाड़ियोंकी आमद रफ्तका रास्तह बनायागया, और शहरके भीतर व बाहिर आम लोगोंके आरामके लिये अच्छे अच्छे काम कियेगये. सिवा इसके रियासतका खर्च किफायतके साथ चलाकर आमदनी का अच्छा बन्दोबस्त कियागया, कि महाराणा साहिबको इस्तिथार मिलनेके समय ३००००००, से अधिक रुपया खजानहमें था, जो एक वर्षकी आमदनीसे जियादह है.

(१६२)- महाराणा साहिबको इस्तिथार मिले १८ महीने हुए जिसमें काम अच्छी तरह चला, लेकिन किसी किसी बातमें खामियां हैं, जो खामियां कि हरएक रियासतमें होती हैं, जहां सरकार पूरा पूरा दखल नहीं रखती. मैं यह कहनेको खुश हूं, कि महाराणा साहिब वावुजूद अपने आदमियोंकी रोक टोक होनेके हरएक जरूरी कामपर अच्छी तरह दिल लगाते हैं, अर्गर्चि उनको कभी कभी यह बोझा नागुवार मालूम होता है.

(१६३)- जमा खर्चका जो हिसाब तय्यार कियागया उससे मालूम होता है, कि संवत् १९२२ मु० सन् १८६५-६६ ई० की कुल आमदनी २६६१२७३ रुपया हुई, जिसमें जमीनकी आमदनी १७३२०५७, साइरकी आमदनी ४०३७०८, सर्दारोंकी छठूद १६५६७७, नजानह ४७५३२, तलवार बन्दी व अदालती फीस वगैरह छोटी छोटी आमदनी मिलाकर ३१२२५८ है; और इसी अरसहमें २६८५७२९ रुपया रियासती खर्चमें उठा, अर्थात् आमदनीसे २४४५६ रुपये जियादह लगे, तोभी खजानहमें

३००००००, से ज़ियादह जमा है, इसवास्ते इस छोटी रकमकी कुछ फ़िक्र नहीं. महाराणा साहिब जो होशयार और क़िफ़ायत शिआर हैं, रियासतके जमा खर्चका तख्मीनह बनाना चाहते हैं. ब्रिटिश गवर्नेण्टके ख़िराज व खैरवाड़ा भील कॉर्प्सके अलावह नीचे लिखे मुवाफ़िक़ खर्च (१) हुआ है:— फ़ौज और पुलिसके खर्चमें ५१५५८९, रुपया, महकमह तामीरातके सीग़ेमें १८१२७३, रुपया, और रियासती प्रबन्ध खर्च (अदालतों तथा ज़िलोंकी कचहरियों आदिके खर्च) में ४५९९५७ रुपया.

(१६४)— पोलिटिकल एजेण्ट लिखते हैं, कि नीमचके आस पास वाले ज़िलोंमें मेवाड़, टोंक और ग्वालियरकी हदके मिलनेसे बड़इन्तिज़ामी होती है. ज़ियादहतर रियासती अहलकारोंकी ना इत्तिफ़ाकीसे मोगिया क़ौम जो तकलीफ़ देनेवाले और बहादुर हैं, फ़साद करते हैं. जहां दो या ज़ियादह रियासतोंकी हद मिलती है वहां अक्सर ऐसाही होता है. मेजर निक्सन बयान करता है, कि इसमें सरकारकी दस्तन्दाजी होनी चाहिये, लेकिन मेरी राय नहीं है. जब मैंने फ़ेब्रुअरी महीनेमें उस तरफ़ दौरपर जाकर देखा, तब नव्वाब टोंकको पुलिसका अच्छा इन्तिज़ाम करनेकी हिदायत की थी, और थोड़ा अरसह हुआ, कि उनकी एक तहरीर भी अच्छा बन्दोवस्त करनेके मतलबसे आई है.

मेरा इरादह सेंट्रल इण्डियाके एजेण्ट गवर्नर जेनरलको लिखनेका है, कि वह जावद नीमचका बन्दोवस्त करें. मेरी दानिस्तमें ऐसा हो तो ठीक है, कि पर्गनह सरोज, छपरा और पड़ावा लेकर महाराजा संधिया उनके एवज़में जावद नीमचमेंसे नीवाहेड़ाके पासका उतनाही हिस्सह नव्वाब टोंकको देदेवें, जिससे ग्वालियर और टोंकमें दोस्ती होकर अहलकारोंको प्रबन्ध करनेमें तल्लीफ़ न हो.

(१६५)— मेवाड़ रियासतका मेरवाड़ेका हिस्सह ईसवी १८२१ [वि० १८७८ = हि० १२३६—३७] से अंग्रेजोंके तहत्तमें है. इस बारेमें महाराणा साहिबने एक ख़रीतह पोलिटिकल एजेण्टके नाम लिख भेजा है, जिसका ज़िक्र इस रिपोर्टके साथ करना जरूर नहीं है, वह अलहदह लिखा जायेगा.

(१६६)— गुजरातह सालमें महाराणा साहिबने एक बहुत बड़ा काम यह किया, कि वे सलूबरके रावतकी मातमपुरसीको वहां गये, जो परलोक वासी महाराणा साहिबको मन्ज़ूर न होनेके सबब चूडावत् फ़िकेके सर्दार नाराजगी और दुश्मनी रखते थे.

(१६७)— मेजर निक्सन साहिब इन फ़सादी रईसों और ठाकुरोंके बर्तावको, जैसा-कि वे दर्बारके साथ रखते थे, ठीक बयान करते हैं, कि राजपूतानहकी किसी रियासतमें ऐसे ज़वर्दस्त सर्दार लोग नहीं हैं, जैसे मेवाड़में हैं. इसवक्तसे पहिले ये लोग रियासती हुकमको कम मानते थे. मेवाड़में जो बहुतेरी बुराइयां और आफ़तें पाईजाती हैं, वे सब

(१) इसके अलावह कोठार, धर्मखाता, कपड़दारा वगैरह कारख़ानेजातका खर्च अलहदह है.

इन भगड़ालू व बखेड़िये सर्दारोंकी आजादी और मग़रूरीसे हुई हैं.

(१६८)—एजेण्टी हाड़ोतीकी रिपोर्टमें दर्ज है, कि ईसवी १८६० [वि० १९१७ = हि० १२७७] में खैराड़के मीनोंपर दण्ड हुआ था वह इसवक्त महाराणा साहिबने छोड़दिया, जिससे महाराणा साहिबकी कद्रदानी और उस पग़नहकी सर्सब्जी है.

(१६९)—मद्रसह जो महाराणा साहिबकी नावालिगीमें खोला गया, अच्छी तरह जारी है, जिसमें ५१३ विद्यार्थी हैं, और उनकी पढ़ाईका प्रबन्ध भी उम्दह है. पोलिटिकल एजेण्टकी सलाहसे महाराणा साहिबने एक मद्रसह लड़कियोंका भी खोला है, जिसमें ५१ लड़कियां पढ़ती हैं. इससे इसकी ज़ियादह तरकी होना दिखाई देता है.


(१७०)—दवाईखानह और जेलखानहका भी उम्दह इन्तिज़ाम किया गया है.

(१७१)—पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेण्ट याने कारखानह तामीरातमें, जो खास व आमके फ़ायदहके वास्ते है, महाराणा साहिबने बड़ी फ़य्याजी और सखावत ज़ाहिर की है. नीमच और नसीराबादकी सड़कोंके बनानेके वास्ते तीन वर्षके लिये ६००००, रुपया सालानह मुकर्रर किया है, और अर्व्वली पर्वतकी श्रेणीमेंसे जो रास्तह निकाला गया उसके लिये भी रुपया जमा है. अ़लावह इसके शहरके अन्दर व बाहिरकी सड़क वगैरहका प्रबन्ध अच्छा किया गया है.

(१७२)—मेवाड़के पहाड़ी ज़िलेके सिवा हुकूमत नहीं माननेवाले जंगली (भील) लोगोंके पग़ने हिन्दुस्तानमें बहुत थोड़े हैं. सिर्फ़ खैरवाड़के रास्तेको छोड़कर दूसरी तरफ़ एक मीलभर भी गाड़ी चलनेका रास्तह नहीं है, और न वहां तिजारत व सौदागरीका नाम व निशान है; इस सबबसे सौदागर व मुसाफ़िर लोग उस तरफ़ जाना नहीं चाहते, क्योंकि वहांके बाशिन्दे जो उनके दुश्मन हैं, पोलिटिकल एजेण्ट उन लोगोंकी तादाद २००००० के करीब खयाल करता है, लेकिन मेरे नज़्दीकवे १५०००० होंगे. उन भीलोंके १६ खानदान हैं, जिनमें मेरे खयालसे ३०००० आदमी लड़ाई करनेके लाइक हैं. उनके ग्राम जिनको वे पाल बोलते हैं, अ़लहदह अ़लहदह पहाड़ोंपर घासकी भोंपड़ियोंमें आबाद हैं. इस तरह जुदे जुदे आबाद होनेका यह मल्लब है, कि उनके गांवको कोई एकदम ख़तरेमें न डाल सके. एक भीलके पकड़ेजानेपर एक दूसरेको ख़बर पहुंचानेके लिये वे लोग किल्कारी करते हैं, और दुश्मनपर हमलह करनेको गिरोहके गिरोह हथियार लेकर निकल आते हैं, और इस पहाड़ी हिस्सहका सुपरिन्टेन्डेण्ट वहांकी निगरानी करता है, गोकि उनके दीवानी मुआमले महाराणा साहिबके आधीन हैं (१). थोड़ीसी मालगुजारी

(१) क़दामतसे तो नहीं लेकिन पिछले वक्तसे ज़िले भोमटमें ऐसी कार्रवाई हुई है, वरनह दूसरे पहाड़ी भीलोंपर फ़ौजदारी व दीवानीका इस्तिथार महाराणा साहिबका है.

लेनेके सिवा महाराणा साहिबके अह्लकार उन लोगोंपर दस्तन्दाजी नहीं करते, हर एक खानदानका सर्दार उनपर हुकूमत करता है, उनमेंसे पानड़वा, औगना, जूड़ा, मेरपुर और दूसरे भी ताकतवर हैं, जिन्होंने कचहरियां मुकर्रर की हैं और उन कचहरियोंमें उनके दस्तूरके मुवाफिक अदब आदाब जारी हैं, फ़क़त.



इस रिपोर्टके ज़मानहका बाकी हाल इस तरहपर है, कि महाराणा साहिबको इस्तिथार मिलने बाद कचहरी अहालियानके नामसे कुल रियासती कारोबार होता था. महाराणा साहिबको अपनी बे इस्तिथारीके ज़मानहमें बहुत कुछ तजर्बह हो चुका था, जिससे वह मेजर निक्सनकी रायके मुताबिक़ कार्रवाई करते थे.

विक्रमी १९२३ आषाढ़ कृष्ण ८ [हि० १२८३ ता० २१ सफ़र = .ई० १८६६ ता० ५ जुलाई] को कचहरी अहालियानके एवज़ खास कचहरी मुकर्रर हुई. महाराणा साहिब अक्कमन्द और होशयार थे, ताहम बाल्यावस्थाके कारण खुद मत्लबी लोगोंके जालमें फंसकर शराब और ऐश व इश्रतकी तरफ़ ख़्वाहिश बढ़ाने लगे. इन दिनों बेमालीका जागीरदार ज़ालिमसिंह उनके दिलका पेश्वा होरहा था, इस शरूस्ने यह कोशिश करना शुरू किया, कि महाराणा साहिब सलूबरके रावत जोधसिंहको वहां जाकर ले आवें; यह बात एक अरसहसे बहसमें पड़ी हुई थी, जिसका जिक्र हम महाराणा स्वरूपसिंहके हाल में लिख चुके हैं. इस तक्रारका मिटना महाराणा साहिबकी दानाई और ज़ालिमसिंहकी नेक कोशिशोंमें शुमार करना चाहिये. हिन्दुस्तानभरकी रियासतोंमें जो इज़तें महाराणा साहिब अपने सर्दारोंकी करते हैं वैसी किसी रियासतमें नहीं कीजातीं; बाज़ बर्ताव इस (मेवाड़) रियासतके ऐसे हैं, कि जो बराबर वाले रईसोंसे भी नहीं होते. हकीक़तमें ये इज़तें उन खिदमतोंके एवज़ मिली हैं, जो मेवाड़के सर्दारोंने इज़त, जान और माल कई पीढ़ियोंतक अपने मालिकोंपर निछावर किये, इससे उनको ऐसी इज़तोंका मिलना वाजिव था; लेकिन जिन सर्दारोंको इतने दरजहपर बढ़ाया गया वे अपने मालिकके यहांतक इहसानमन्द थे, कि किसी तरह अपने मालिककी खैरख्वाही करके उनकी खाविन्दीके कर्ज़का सूद अदा करें. अगर किसी कुसूरमें किसीके बापको महाराणा साहिब ने मारडाला तथा देशसे निकालदिया, तोभी उसका बेटा अपने मालिकपर जान, माल और इज़त निछावर करनेको तय्यार रहा. अक्सर ऐसा भी हुआ है, कि अपने मालिक की बदख्वाही करनेपर बापको बेटे और बेटेको बापने मारतक डाला है. ऐसे दृष्टान्त इसी तवारीखमें मौजूद हैं. अगर कोई सर्दार महाराणा साहिबकी किसी बड़ी खिदमत को नहीं पहुंचता, तो वह यह विचारकर, कि महाराणा साहिब हमारी जैसी इज़त

करते हैं उसका एवज मैं कुछ न दे सका, शर्मिन्दगीकी हालतमें जिन्दगीभर अपना फर्ज अदा करनेकी कोशिशमें लगारहता; वर तक्दीर कोई खैरस्वाहीका काम न बन-पड़ा, तो मरते दम तक यह पछतावा उसके दिलसे दूर नहीं होता, लेकिन इसवक्त उसके बखिलाफ नजर आता है. यह बात मैंने सर्दारोंकी शुभचिन्तकीके लिये लिखी है, कि वे अपने बाप दादोंका चाल चलन सुनकर उसी कदीम रास्तेको इस्तिथार करें. जिससे उनके बाप दादोंकी बहादुरी, खैरस्वाही और नेकनामियोंका जीर्णोद्धार होता रहे, वरनह एक अरसहके बाद मेरे इस लेखको पढ़कर पछतावा तो जरूर करेंगे.

विक्रमी कार्तिक कृष्ण ४ [हि० ता० १७ जमादियुस्सानी = .ई० ता० २७ अक्टोबर] को महाराणा सलूबरके रावतकी मातमपुर्सीके लिये उदयपुरसे रवाना होकर विक्रमी कार्तिक कृष्ण ९ [हि० ता० २२ जमादियुस्सानी = .ई० ता० १ नोवेम्बर] को सलूबर पहुंचे. रावत जोधसिंहने अपने मालिकमहाराणा साहिबके अदब आ-दाब और मिहमानदारी व नज़र निछावरमें हजारों रुपया खर्च किया. मेवाड़में सलूबर की दावत मशहूर है, जिसमें भी अपने मालिकका मिहर्वानीके साथ तक्रार मिटाकर .इज्जत बखानेके मत्लबसे पधारना हुआ, जिससे रावत जोधसिंहको शुरूमें ही बड़ी नेकनामी मिली. भला ऐसे मौकेपर मिहमानदारीमें कमी क्यों होगी! महाराणा साहिब रावत जोधसिंहको साथ लेकर विक्रमी कार्तिक कृष्ण १४ [हि० ता० २७ जमादियु-स्सानी = .ई० ता० ६ नोवेम्बर] को उदयपुर चले आये. विक्रमी मार्गशीर्ष कृष्ण ५ [हि० ता० १८ रजब = .ई० ता० २६ नोवेम्बर] को सादड़ीके राज शिवसिंह, सलूबरके रावत जोधसिंह, रावत अमरसिंह और लहसाणी व बंवोरा वालों को महाराणा साहिबने तलवार बंधवादी.

रावत अमरसिंह (बेमालीके जागीरदार जालिमसिंहका बेटा) जो आमेटके रावत पृथ्वीसिंहकी गोद बैठगया था, उसको देवगढ़के रावत रणजीतसिंह वगैरहकी मददसे जीलोळा वाले चत्रसिंहने निकाल आमेटपर कब्ज करलिया; इसका कुल हाल हम महाराणा स्वरूपसिंहके वृत्तान्तमें लिख चुके हैं. इन दिनों महाराणा साहिब जालिमसिंह (बेमालीवाले) पर मिहर्वान थे, सलूबरके रावत जोधसिंहके अर्ज करनेपर अमरसिंहको आमेटका रावत बनाकर तलवार बंधवादी और चत्रसिंहपर बहुत कुछ दबाव डालागया, जिससे इस ऋगड़ेकी कार्रवाई दोबारह शुरू हुई. आमेटमें रावत चत्रसिंह और उदयपुर आमेटकी हवेलीमें रावत अमरसिंह एक ठिकानेके दो हकदार काइम हुए. इस मुआमलहका एक अरसे बाद फैसलह होकर आमेटपर रा-
वत चत्रसिंह काइम रहा, और अमरसिंहको मेजा, सिंधेर, पचमता वगैरह अनुमान

२००००) रुपया आमदनीकी जागीर महाराणा साहिबने अपने खालिसहमेंसे दी, और ८०००) की जायदाद आमेटसे दिलानेका हुक्म दिया, जिसको रावत् चत्रसिंहने भी मन्जूर करलिया; लेकिन उसने सालियानह नकद रुपया देना चाहा और अमरसिंहने जागीर लेनेकी दख्खास्त की. यह मुकदमह बहुत दिनोंतक चलताही रहा, कि इसी अरसहमें रावत् चत्रसिंहका तो इन्तिकाल होगया, और उसका बेटा शिवनाथसिंह कम उम्रमें आमेटका रावत् बना. उसवक्त महाराणा सजनसिंह साहिबके अह्दमें पोलिटिकल एजेण्ट कर्नेल् इम्पी साहिबके सामने यह क़रार पाया, कि २५००) की जागीर और ५५००) रुपया सालियानह नकद अमरसिंहको आमेटसे दिलाया जावे. यह मुकदमह बहुत कुछ बहसके साथ इस ग्रन्थकर्ता (कविराजा श्यामलदास) और महता पन्नालाल दोनों सर्कारी मुसाहिब और रावत् अमरसिंहकी रूबकारी होकर तय किया गया. अब आमेट और मेजा एक नशिस्तपर बैठनेवाले दो उमराव मौजूद हैं.

विक्रमी मार्गशीर्ष शुक्ल ८ [हि० ता० ७ शत्रुवान = ई० ता० १५ डिसेम्बर] को शिवरतीके महाराज दलसिंहका देहान्त होगया. यह शरूस साफ़दिल, नेकमिजाज और अपने मालिकका खैरख्वाह था (१). विक्रमी माघ कृष्ण ५५ [हि० ता० २८ रमजान = ई० १८६७ ता० ४ फ़ेब्रुअरी] को महोदय पर्वपर महाराणा साहिबने सुवर्ण तुलादान किया. विक्रमी १९२४ मार्गशीर्ष शुक्ल २ [हि० १२८४ ता० १ शत्रुवान = ई० ता० २८ नोवेम्बर] को पोलिटिकल एजेण्ट मेवाड़ मेजर निवसन महाराणा साहिबसे रुख़सत होकर छुट्टीपर विलायत गये.

मैं ऊपर लिख आया हूँ, कि पंचसर्दारोंकी मुसाहिबीमें कोठारी केसरीसिंहपर २०००००) रुपया ग़बन करनेका इल्ज़ाम लगाया गया था, इस्तिथार मिलनेपर महाराणा साहिबको कई खयाल गुज़रे. अब्बल यह कि जिस शरूसने तमाम उध्र खैरख्वाही की है और उसी खैरख्वाही करनेके ज़मानहमें जो उसके मुखालिफ़ बनगये हैं वे लोग इसवक्त उसको नुक़सान पहुंचावेंगे, तो एक अरसेतक इस दहशतसे कोई आदमी अपने मालिककी खैरख्वाही नहीं करेगा; दूसरे महाराणा साहिब अच्छी तरह जानते थे, कि केसरीसिंहने सर्कारी एक पैसा न तो खुद खाया है और न दूसरोंको खानेदिया, ऐसे आदमीके साथ जो बेइन्साफी हुई उसको मिटाना फ़र्ज़ है; तीसरे महाराणा

(१) दलसिंहके तीन पुत्र बड़ा गजसिंह जो अब शिवरतीका महाराज है, दूसरा सूरतसिंह जो दत्तक जानेके कारण महाराज अनोपसिंहकी जगह करजालीका महाराज है, और तीसरे फ़तहसिंह जिनको गजसिंहने अपना क्रमानुयायी मुक़रर करलिया था और अब मेवाड़के वर्तमान महाराणा साहिब हैं.

स्वरूपसिंहके परलोक पधारनेके पीछे रियासती काममें कुछ गड़बड़ होगया था, जिया-दहतर जमाखर्चके काममें खलल था. इस सबबसे महाराणा साहिबने केसरीसिंहको लाइक जानकर प्रधाना देना चाहा, और पोलिटिकल एजेण्टकी मारिफत उस इल्-जामकी, जो उस (केसरीसिंह) पर लगायागया था, अच्छीतरह तहकीक़ात कराई गई, जिससे अस्ली हाल खुलकर वह तुहमत साफ़ लोगोंकी अदावतोंके सबब लगाया-जाना मालूम होगया; तब महाराणा साहिबने विक्रमी पौष कृष्ण १ [हि० ता० १५ शम्भुवान = ई० ता० १२ डिसेम्बर] को अपनी जन्मगांठके दिन कोठारी केसरी-सिंहको प्रधानेका खिल्अत व हाथी इनायत किया, और करजालीके महाराज सूरत-सिंह (१), धायभाई बदनमल्ल और पंचोली पद्मनाथको साथ देकर उसे मकानपर पहुंचाया. इस हालकी रिपोर्ट पोलिटिकल एजेण्टने एजेण्ट गवर्नर जेनरलकी मारिफत लॉर्ड गवर्नर जेनरल हिन्दको की. और महाराणा साहिबने भी खरीतह लिखा, जिसके जवाबमें जो खरीते आये, उनकी नक़्के नीचे दर्ज कीजाती हैं:-

कर्नेल् कीटिंग साहिबके खरीतहकी नक़्क.

॥ श्री० ॥

सिद्धिश्री उदयपूर शुभस्थाने सर्वोपमा विराजमान लायक महाराजा धिराज महारानाजी श्री शंभूसिंहजी बहादुर ऐतान लिखावतु कर्नेल कीटिंग साहिब बहादुर कम्पेनियन स्टार आफ़ इंडया विकटोरिया क्रॉस अजंट गवर्नर जनरल राजस्थानकी सलाम मालूम होवे. अठाका समाचार भला छै, आपका सदा भला चाहीजे; अपरंच आपनै तारीख १२ वीं जनवरी सन १८६८ ई० के खरीतेमें मुझे लिखा था, कि कोठारी केसरी-सिंहको आपनै परधान मुकरर किया है, लेकिन सरकारकी मनाहीके सबबसे मैं उसके साथ काम रियासतमें लिखावट नहीं करसक्ता था. जब मैं उदयपुर आया था, तो

(१) केसरीसिंहको उसके मकानपर पहुंचानेके लिये महाराज गजसिंहका दस्तूर था, लेकिन बीमारीके कारण वह खुद नहीं जासका, और अपनी एवज़ (अपने भाई) महाराज सूरतसिंहको

भिजवादिया.

मैंने आपसे इसकी बाबत कुछ जबानी भी कहा था और फिर करनेल हिचनसन साहिबनै मेरे इशारेके व मूजिब इस मुकदमेकी अच्छी तरहसे तहकीकात करी और उस्से साहिब मोसूफ़कू खूब सावित हुआ, कि कोठारी केसरीसिंहकू खजाना उड़ानेका कसूरवार करनेमें कुछ भूल थी इन सब बातोंकी रिपोर्ट मैंने सरकारमें की, उसके जवाबमें सरकारनै कोठारी केसरीसिंहके साथ काम चलाना या न चलाना मेरे अखतियारमें रखा. जोकि हमेशे मेरा यही चाहना है, कि जहांतक बनसकै बडे दरजेके रईसोंकी रियासतका काम उन्हींकी मरजीके मवाफ़िक होवै, इस मुकदमेमें भी आपकी खुसीके मवाफ़िक कोठारी केसरीसिंहके मुकरर करानेमें कोशिश करनेमें मैंने कुछ कमी नहीं की; और जो आपनै दोस्तीकी राहसे इस बातमें मुझसे पहिले सलाह ली होती, तो आपके मतलब हासिल करने वास्ते मुझकू इतनी तकलीफ़ न पड़ती. अब इस वक़्तसे कोठारी केसरीसिंहके साथ, जिसकू आपनै अपना परधान पसंद किया है. मैं बहुत खुशीसे लिखावट रखूंगा, और मुझे उम्मेद है, कि वह उन बहुतसी बुराइयों की, जो अभी कुछ २ किसी २ जगह इलाके मेवाडमें हैं, सुधारनेमें बहुत कोशिश करेगा; और मिजाज मुबारककी खुशीके समाचार हमेसह लिखना फ़रमावसी. तारीख़ १७ वीं नोम्बर सन १८६८ ई०.

अंग्रेजीमें साहिबके दस्तख़त.

कर्नेल् हैचिन्सन साहिबके खरीतहकी नक़ल.

॥ ३३४ ॥ नंबर.

॥ श्रीरामजी.


सितंबर ११ १८६८

॥ सीधश्री ऊदेपुर सुभसुथाने सरब ओपमां वीराजमान लायक म्हाराजा धीराज म्हाराणाजी श्री संभुसीधजी साहेब बहादुर अेतान करनेल अलकजंठर रास अलीयट हेचीसंन साहेब बहादुर कायम मुकाम पोलेटीकल अजंट मेवाड ली ॥० सलाम मालुम करावसी. यांहाके रमांचार भले हे, आपके सदा भले चाहीये, अपरंच चीठी साहेब

अजंट गवरनर जनरल बहादुर राजस्थान लंबरी ३६८ पीहरफ तारीष १७ माहे नवंबरके साथ अेक परीता वासते आपके आया हे, जीसके मजमुनसे आपको मालुम होगा के श्री सरकार गवरमीटकी इजाजतसे कोठारी केसरीसीधजी परधान रीआस्तका बहाली ओहोदे मजकुरपर हुवे हे. ये मुकदमां आपके मरजी माफक षतम होना हमको पुसी हुवा हे, ओर इसकी मुबारीकबादी आपको हे; ओर मीजाज मुबारीककी पुसीका स्माचार हमसे ली॥ तारीष २६ माहे नवंबर सन १८६८ ईसवी, मीती मगसर सुद १२ स्मत १९२५ मु॥ कोठी ऊदेपुर रोज बीस्पतवार.

अंग्रेजीमें साहिवके दस्तख़त.

ملاحظه شد



इस वर्षके शुरू याने विक्रमी १९२५ ज्येष्ठ शुक्ल ५ [हि० १२८५ ता० ३ सफ़र = .ई० १८६८ ता० २६ मई] को मेजर हैचिन्सन काइम मक़ाम पोलिटिकल एजेण्ट मेवाड़ मुकर्रर होकर विलायतसे उदयपुर आगया था. कोठारी केसरीसिंहको प्रधाना मिलनेकी कुल कार्रवाई मेजर निक्सन साहिवकी मारिफ़त हुई थी, जिसका तहरीरी हुक़म आया वह मेजर हैचिन्सनने भेजा. विक्रमी पौष कृष्ण १२ [हि० ता० २६ श.श्रवान = .ई० ता० ११ डिसेम्बर] को कोठारी केसरीसिंहकी हवेलीपर महाराणा जनानह समेत तश्रीफ़ लेगये. कोठारीने मिहमानदारीमें कमी नहीं की.

विक्रमी १९२५ [हि० १२८५ = .ई० १८६८] में बारिश न होनेसे राजपूतानह में बड़ा भारी अकाल पड़ा, इसवास्ते ग़ल्लेका वन्दोवस्त करनेकी फ़िक्र हुई. महाराणा साहिव और पोलिटिकल एजेण्टने कोठारी केसरीसिंहसे कहा, कि ग़ल्ला न मिलनेसे रिआयाकी जान और तुम्हारी कारगुजारी बर्बाद होगी. उस शरूस्ने उसीदम अपने मक़ान पर आकर शहरके सब किस्मके व्यापारियोंको एकट्ठाकर हुक़म दिया, कि कुल लोग अपनी अपनी हैसियतके मुवाफ़िक़ ग़ल्ला मंगाओ और रुपये पैसेकी जो मदद चाहिये सर्कार से लो. उस (केसरीसिंह) की समझाइशका ख़ूब असर हुआ, व्यापारी लोग लाखों रुपयोंका नाज ले आये जिससे शहरमें अन्न रहा. और जहांतक होसका उसने मुल्क मेवाड़के लिये भी वन्दोवस्त किया.

विक्रमी १९२६ [हि० १२८६ = .ई० १८६९] में लोगोंने एक और कार्रवाई करके महाराणा साहिवको अपने काबूमें करना चाहा, याने एक सन्यासी फ़कीर जो कमल्या तालाबमें आ बैठा था उसको करामाती मशहूर किया. महाराणा साहिव भी

नई .उम्र और बड़े बड़े आदमियोंके धोखा देनेसे उस फ़कीरके कहनेपर चलने लगे. वह ग़ैबकी और दूसरेके दिलकी बातें कहता था जो एक भी सच्ची नहीं. कुल रियासती लोग उसकी खुशामदमें लगगये. वह कुल कारखानोंपर महाराणा साहिबके मुवाफ़िक़ हुकम भेजकर अपनी ख़्वाहिशके मुवाफ़िक़ चीज़ मंगवा लेता. इसीतरह खज़ानहकी तरफ़ भी हुकम दिया, लेकिन कोठारी केसरीसिंहने इन्कार करके कहा, कि यहां महाराणा साहिबके हुकमकी तामील होती है, उसी एक हुकमकी तामील करनेमें इन्कार नहीं और दूसरा हुकम हम नहीं मानते. इसपर वह फ़कीर गुस्से होकर बहुत झुंझलाया. कोठारीके दोस्तोंने भी सलाह दी, कि वक्त देखकर चलना चाहिये, लेकिन उसने कुछ पर्वा न की, और अखीरमें वह फ़कीर उदयपुरसे निकाला गया, जिसका कुल हाल लिखेजाने से तवालतके सिवा कुछ फ़ायदह नहीं.

विक्रमी १९२६ [हि० १२८५ = ई० १८६९] के प्रारम्भमें विक्रमी १९२५ [हि० १२८५ = ई० १८६८] के अकालका नतीजह जुहूरमें आया, याने बहुतसे ग़रीब लोग फ़ाकाकशीसे मरनेलगे. पोलिटिकल एजेण्ट और कोठारी केसरीसिंहकी सलाहसे महाराणा साहिबने एक बहुत .उम्दह इन्तिज़ाम किया, कि कान्हौड़की हवेलीमें एक ऐसा ख़ैरातख़ानह खोला, जिससे हजारों आदमियोंकी जान बचगई, याने एक धोबा भरकर बाकली (पानीमें पकाई हुई मक्की) अथवा एक धोबा भरकर भूंगड़ा (भुने हुए चने) जो मांगे उसको देनेका हुकम होगया, और इस नेक कामके इन्तिज़ामपर महता सोतीरामके बेटे फूलचन्दको तईनात किया. वहां जाकर हुजूम देखने वालोंको महाराणा साहिबकी फ़य्याजी और ग़रीब लोगोंकी तकलीफ़का हाल अच्छीतरह मालूम होसक्ता था. इसी इन्तिज़ामके सबब बेदलाके राव बरतसिंहने उदयपुरके रास्तहपर, और महाराज गजसिंह और दूसरे लोगोंने भी जहां मौका देखा भूंगड़ा देना शुरू किया. इसी मिसालके मुताबिक़ चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, और कपासन वगैरहके साहूकारोंने भी ख़ैरातख़ानह खोला. विक्रमी १९२६ शुरू वैशाख [हि० १२८५ जिल्हिय = ई० १८६९ एप्रिल] से हैजा साहिब भी मारे भूखके आखड़े हुए. शहरमें कोई मुहल्ला और गली कूचा ऐसा नहीं था जहां हाहाकार और रोनेका शब्द न हो, जिसे रातको भला चंगा देखा फ़ज्रको नहीं है. शुमारमें २०० आदमी हमेशह मरने लगे, लाशको जलानेमें दोस्त और विरादरीके लोग किनारा करने लगे, यहांतक कि बाज़ २ शरीफ़ कौम ब्राह्मण व महाजनोके घरोंमें पहरोंतक मुर्दह लाशें पड़ीरहीं रातके वक्त मकानकी छतपरसे देखते तो स्मशानोंकी आगसे पहाड़ोंके दामनतक रौशनी होती दीख पड़ती थी. पीछोला तालाब भी यहांतक खुश्क होगया था, कि

महाराणा साहिब किशतीके एवज जगन्निवाससे ब्रह्मपुरीकी तरफ बग्घी सवार होकर जाते थे. तालाबके किनारोंपर अशौच स्नान करने वाले औरत मर्दोंका रात और दिन ऐसा हुजूम रहता था, कि उनका रोना पीटना देखकर सख्तदिल आदमीकी भी आंखोंमें आंसू आने लगते थे. पानीके किनारे कई मुर्दह लाशें पड़ी हुई रहतीं, जिनको कोतवाल शहर गाड़ियोंमें भरवा स्मशानोंमें पहुंचाकर एकट्ठा जलवादेता था. लाश जलाने वालोंको नहानेके लिये पानी सिवा तालाब (पीछोला) के कहीं नहीं मिलता, बाग बगीचे सूख गये थे, शहरके गिर्दों नवाह कुए बावड़ी भी खाली पड़े थे. तालाबके किनारेपर बेरियां खोदकर शहरके लोग पीनेके लाइक पानी लेजाते. सब लोगोंने महाराणा साहिबसे कहा, कि हुजूर शहरसे १० या ५ कोस दूर तश्रीफ लेजायें, लेकिन उन्होंने मन्जूर नहीं किया और यह जवाब दिया, कि हम अपनी प्रजाको ऐसी तकलीफ में छोड़कर नहीं जा सकते. यह कुल हाल मैंने अपनी आंखसे देखकर उसका बहुतही थोड़ा खुलासह यहां दर्ज किया है. महाराणा साहिब और अहलकार मुसाहिबोंकी तरफ से अच्छा इन्तिजाम था, लेकिन कुदती बद् इन्तिजामीका बन्दोबस्त नहीं होसकता. विक्रमी आषाढ शुक्ल ७ [हि० १२८६ ता० ५ रबीउस्सानी = .ई० ता० १५ जुलाई] को बागौरका महाराज समर्थसिंह इसी (हैजेकी) बीमारीसे गुजरगया. उनके कोई औलाद न थी, इसलिये कमल्या वाले सन्यासी, जिसका बयान ऊपर हुआ है, और पुरोहित सुन्दरनाथने महाराज शेरसिंहके चौथे पुत्र सोहनसिंहको उसका क्रमानुयायी बनानेकी कोशिश की, तब बेदलाके राव बरुतसिंह व कोठारी केसरीसिंहने मना किया, और कहा, कि शक्तिसिंह समर्थसिंहका हकदार मौजूद है, इस हालतमें ऐसा करना बेफायदह है. अगर सोहनसिंहपर जियादह मर्जी है, तो उसको १०००० की जागीर पेइतर दी, उसीतरह फिर सरकारसे जागीर बढ़ादीजिये, लेकिन उन्हीं खानगी आदमियोंकी सलाहपर अमल होकर बागौरके बन्दोबस्तपर सियाणाका पंवार हमीरसिंह भेजागया. खौफ यह था, कि बागौरके करीब सोनियाणामें शक्तिसिंह मौजूद है, जो इस खबरके सुनतेही कबजह करलेवेगा, तो उसको निकालनेकी कोशिशमें बड़ी ताकत दर्कार होगी. आखरकार सोहनसिंहको बागौरका मालिक बनादिया, यह जिक्र फिर मौकेपर लिखा जायेगा.

विक्रमी आश्विन कृष्ण १ [हि० ता० १४ जमादियुस्सानी = .ई० ता० २१ सेप्टेम्बर] को कर्नेल् हैचिन्सन साहिब अपनी जगहपर वापस गये, और उसी दिन पोलिटिकल एजेण्ट निक्सन साहिबने यहां आकर अपने कामका चार्ज लिया.

विक्रमी १९२६ [हि० १२८६ = .ई० १८६९] में बारिश बहुत अच्छी

हुई, मवेशी मरनेसे बची, वह कीमती होगई; लेकिन गरीब प्रजाकी तकलीफ अभी-तक दूर नहीं हुई. बारिशके मौसममें नाज पकनेसे पहिले भूखने दौरह किया, जिससे हजारों आदमी घरोंके भीतर किंवाड़ लगाकर सोगये, जो फिर कभी न उठे. मैं उन दिनों अपने छोटे भाई वृजलालके गुजरजाने और अठाणाके रावत दूलहसिंहका इन्तिकाल होनेके कारण उदयपुरसे मेवाड़में गया था, चित्तौड़ और अठाणामें लावारिस मुर्दोंको कस्रतके सबब जलानेके .एवज भंगी घसीटकर गांवसे कुछ दूर डाल आते, जिनकी सड़ी हुई लाशें और हड्डियां देखकर रहम आता था. मैंने अठाणामें कई आदमियोंको लड्डू और रोटियां दिलाईं, जिनको वे लोग बड़ी तेजीसे दौड़कर लेते थे; लेकिन मारे भूखके उनकी यह हालत हुई, कि एक घास मुंहमें और एक हाथमें है, कि जान निकल गई. बरसात खत्म होनेपर मक्का, ज्वार वगैरह नाज खूब पकगया. पहिले तो गरीब लोगोंकी अंतड़ियां मारे भूखके खुश्क होगई थीं, अब एक दम नया नाज कच्चा पक्का मिला जो पेट भरकर खाया, जिससे बुखार वगैरह बीमारियोंने ऐसा जोर पकड़ा, कि हैजेसे भी जियादह लोगोंका खातिमह किया. इससे भी हजारों आदमी मरगये, खुद अंग्रेज लोगोंने आदमियोंकी जिन्दगी बचानेके लिये गवर्मेण्टी इलाकोंमें लौंडी गुलाम खरीदनेकी इजाजत देदी, दो दो रुपयेमें लड्डूके विकनेलगे. ईश्वर ऐसा कहत अपने बन्दोंको फिर न दिखलावे. इस जमानहमें महाराणा शम्भुसिंह जैसा तो रहमदिल राजा और कोठारी केसरीसिंह जैसा इन्तिजाम करनेवाला प्रधान था, जिससे फिर भी मेवाड़में हजारों आदमियोंकी जानें बचगईं, लेकिन दुन्यामें किसीको बेफिक्र रहनेका मौका नहीं मिलता. बदख्वाह आदमीको उसकी बद आदतोंके सबब लोग जलील करते हैं, और खैरख्वाह व नेक आदत आदमीको बहुतसे खुद मल्लबी लोग अपना मल्लब न होनेसे जलील करते हैं; अलबत्तह दोनों ही नेक नामी व बदनामी दुन्यामें छोड़ जाते हैं. कोठारी केसरीसिंहपर फिर हमले होने लगे, लेकिन महाराणा साहिबके दिलपर उसकी खैरख्वाही मजबूत जमी हुई थी, इससे लोगोंके कहनेका असर कम हुआ. महाराणा साहिबको शराबके नशेपर खुद मल्लबी लोगोंने यहां-तक बढ़ादिया, कि वह एकदम एक बोतल पीलेते. छोटी अवस्थामें इस नशेकी जियादतीने तन्दुरुस्तीमें खलल डाला; फिर लोगोंने उनको ऐश व इश्रतकी तरफ लगादिया. कहावत है, कि “ आदमीका शैतान आदमी होता है ” सुहबतका असर जरूर पहुंचता है. खुद महाराणा साहिबने मुझसे कई दफा फर्माया था, कि खराब आदमियोंने मुझे नशे और ऐश व इश्रतमें डालकर खत्म करदिया (हरेरिच्छा बलीयसी).

इसी वर्षके अखीरमें बेमालीके जागीरदार जालिमसिंहका इन्तिकाल होगया,

जिसका क्रमानुयायी लक्ष्मणसिंह अभी तक विद्यमान है. विक्रमी श्रावण कृष्ण २ [हि० ता० १५ रबीउस्सानी = ई० ता० २५ जुलाई] को कोठारी केसरीसिंहने प्रधानसे इस्तेफ़ा पेश किया. महाराणा साहिब अक्बल दरजेके अक्लमन्द और बुर्दबार थे, और किसीका लिहाज़ नहीं तोड़ते, यहां तक, कि उनके दिलपर असर रखने वाले आदमी दिल चाहे जिस किसका हुकम दिलासके थे, और कोठारी केसरीसिंह किसीसे नहीं दबता, लेकिन अपने मालिकके हुकमकी तामील अपने दिलसे फ़ौरन् करना चाहता. वह अपने मालिकका मालिक बनकर काम नहीं करता, बल्कि मालिकका नौकर बनकर रहता था; अगर मालिकका नुक़सान देखता, तो फ़ौरन् खानगीमें नफ़ा नुक़सान दिखलाकर अर्ज करदेता, वह अपनी अदावत या मुहब्बतके सबब मालिक की मर्जीके बख़िलाफ़ कार्रवाई कभी नहीं करता था. इन्हीं सबबोंसे मस्लिहत देखकर उसने इस्तेफ़ा दिया, तब महाराणा साहिबने यह काम महता गोकुलचन्द और पंडित लक्षणरावके सुपुर्द किया.

इसी ऊपर लिखे हुए जिक्रके ज़मानहका हाल पोलिटिकल एजेण्टने भी अपनी रिपोर्टमें दर्ज किया है, जिसका थोड़ासा खुलासह हम नीचे लिखते हैं:-

पोलिटिकल एजेण्ट लिखते हैं, कि महाराणा शम्भुसिंह साहिबको ईसवी १८६५ नोवेम्बर [वि० १९२२ मार्गशीर्ष = हि० १२८२ रजब] में इस्तिथार मिला, तब मैंने उनको अच्छीतरह समझाया, कि रियासतका काम खास अपने हाथमें लेना चाहिये, और उन्होंने भी ऐसा ही किया; लेकिन उनके सलाहकार चाहते थे, कि रियासती इन्तिज़ामका भार पुराने ज़मानहके ढंगसे प्रधानपर रक्खाजावे. महता गोकुलचन्द मांडलगढ़को चला गया. महाराणा साहिबके सलाहकारोंमें मुख्य ठाकुर ज़ालिमसिंह था.

इन्हीं दिनोंमें एक फ़साद सईदी तनाज़हपर रावत देवगढ़ और राजा बनेडाके बीच हुआ, उसमें १३ आदमी मारे गये, और २२ ज़ख्मी हुए. मैंने महाराणा साहिबको तनाज़हके गांव ज़ब्त करलेनेकी सलाह दी. जबसे इन्तिज़ाम हमने छोड़ दिया तबसे बड़ा फेरफार नज़ आता है, जो डाकू व चोर हम लोगोंसे दबे हुए थे अब वे अपना पेशह करते हैं, और नीवाहेड़ा, जावद नीमचमें पनाह लेते हैं. कुछ यह भूल हम लोगोंकी है, क्योंकि नीवाहेड़ा टाँकको और जावद, नीमच सेंधियाको वापस दिया, यही बुराईकी वुनूयाद है; क्योंकि ईसवी १८५७ [वि० १९१४ = हि० १२७४] से दोनों पर्वनोंमें दोनों रियासतों का इन्तिज़ाम जमाया गया. इन दोनों पर्वनोंपर जो लोग आते हैं वे अपना मत्लब

निकालते हैं. जब चोरोंपर जुर्मानह लगाते हैं, तब वे मेवाड़में लूटखसोट करते हैं. मेवाड़से

बहुत सरत बन्दोबस्त कियेगये हैं, लेकिन यह इन्तिजाम जबतक अंग्रेजी गवर्मेण्टके हाथमें न होगा तबतक मुझको यकीन नहीं है, कि यह बन्दोबस्त होसके. ईसवी १८५७ [वि० १९१४ = हि० १२७४] के गद्दमें नीवाहेडाके हाकिम नवाब टौंकके मुसाहिब बख्शी गुलाम मुहियुद्दीनखाने थोड़ेसे मकरानी, विलायती और मेवातियोंको एकट्ठा करके किले नीमचके लश्करको घेरलिया, जिससे नीवाहेडाका पर्गनह जब्त करके कुछ अरसेके लिये मेवाड़को देदिया, जो हम लोगोंके दोस्त रहे हैं. यह पर्गनह मेवाड़के बीच और उसी (मेवाड़) का था, मगर ईसवी १८६० [वि० १९१७ = हि० १२७६] में फिर टौंकको देदिया, और ५५००००, रुपया भी दिलाया. अगर संधिया और टौंकको यह पर्गाने दिलाना ही मस्लिहत समझागया, तो पुलिस और इन्तिजाम दुरुस्त करनेका पूरा पूरा बन्दोबस्त करके देना लाजिम था. सब पोलिटिकल अफसरोंने इस बारेमें वर्षोंतक बड़ी कोशिश की, कि मरहटोंको राजपूतानहसे निकालदेवें. मैं लॉर्ड केनिंग साहिबके ऐसे इन्तिजामसे अफसोस करता हूं, कि बिना सलाह सर्दारान राजपूतानह के इन लोगोंको इस मुल्कमें जमकर ठहरनेदिया. नीमच शाइस्तगी फैलानेकी उम्दह जगह थी, जिसको जान बूझकर छोड़दिया. पोलिटिकल एजेण्ट लिखता है, कि मेवाड़के इन छोटे सर्दारोंकी मगूरु और ढिठाई तमाम हिन्दुस्तानसे बढ़कर है, उनमें भी कोठारियाके रावकी अधिक है. जैसाकि ईसवी १८६५ नोवेम्बर [वि० १९२२ मार्गशीर्ष = हि० १२८२ रजब] में रियासतके मोतमद गांव नवानियामें आप (ईडन साहिब) का डेरा खड़ा करवानेको गये, उसने उनको मारडालनेकी धमकी दी, तब मैंने आपकी सलाहके मुताबिक उसका एक गांव बतौर सजाके जब्त करलेनेकी सलाह महाराणा साहिबको दी, और उसको उन्होंने मन्जूर फर्माई. कोठारियाके रावकी दूसरी बेअदवी यह थी, कि महता शेरसिंहको पनाह दी, जिसने चित्तौड़गढ़ की तहसीलके १५००००, रुपये रियासती खजानहमें जमा नहीं करवाये. मैंने महाराणा साहिबको यह सलाह दी, कि ये रुपये कोठारियाके रावसे वसूल करलीजिये. तब शेरसिंहने भागकर सलूवरकी हवेलीमें पनाह ली. इसी तरह कितनेएक सर्दार चोरोंको पनाह देकर चोरीके मालमेंसे हिस्सह लेते हैं, और चोरोंको पनाह देना क़दीम दस्तूरके मुवाफ़िक़ शरणा बतलाते हैं; जिसका जिक्र ईसवी १८५५ [वि० १९१२ = हि० १२७२] के कौलनामहमें किया है, इस बेतर्तीबीकी हालतमें हम अच्छे बन्दोबस्तकी उम्मेद जल्दी नहीं रखसके. इन सर्दारोंमें हरएक शरूअ अपनी मर्जीके मुवाफ़िक़ दीवानी व फ़ौजदारीका इन्तिजाम करता है, और अपनेको खुदमुख्तार समझता है. जब उनको कुछ कहाजावे, तो वे क़दीम दस्तूर बतलाते हैं. फिर इस बेइन्तिजामीको

कौलनामहने मजबूत करदिया है, और ये सर्दार लोग हमेशह कर्जदार रहते हैं और हम महाराणा साहिबको इन सर्दारोंके दबानेकी पूरी सत्ता देवें, तो मेवाड़का फायदह होसक्ता है.

इसके बाद पोलिटिकल एजेण्टने अपनी रिपोर्टमें आमेटके रावत् पृथ्वीसिंहके गुजरजाने और उसकी जगह रावत् अमरसिंहके मुत्वन्ना होने व अमरसिंहसे चत्रसिंहने ठिकाना छीन लिया जिसका जिक्र लिखा है; जैसाकि पहिले बयान कियागया उससे सिर्फ इतना जियादह है, कि मैं आगरेको गया था, तब पीछेसे महाराणा साहिबने अमरसिंहको आमेटका हकदार कुबूल करलिया, और धर्म शास्त्रमें भी उसका मुत्वन्ना होना दुरुस्त है, लेकिन मैं उसमें दखल करना नहीं चाहता.

इसके आगे सलूबरके रावत्को महाराणा साहिब ले आये उसका जिक्र है.

इसके आगे वे अपने दौरेका हाल लिखते हैं, कि जो पहाड़ी जिले मेवाड़में खैरवाड़ेकी तरफ हुआ था. वे कुछ कुछ भीलोंका हाल लिखकर मेजर निकसन (१) की तारीफ करते हैं, और खैरवाड़ेकी सड़कके खुलनेसे मुसाफिरोको आराम मिलनेका भी जिक्र है.

फिर थोड़ासा बयान खैराड़ जिले जहाजपुरके मीनों और देवलीकी छावनीकी बाबत लिखा है.

उसके बाद मद्रसेका जिक्र लिखकर मेरवाड़ेको वापस करनेके बारेमें महाराणा साहिबकी तहरीरपर बहस की है, इत्यादि. मैंने उस रिपोर्टका जियादह खुलासह इस-वास्ते नहीं लिखा, कि पाठक लोगोंको दोबारह मिहनतके सिवा और कुछ फायदह नहीं है. अब मैं थोड़ासा खुलासह ईसवी १८६८ व ६९ [वि० १९२५-२६ = हि० १२८५-८६] की रिपोर्टका लिखता हूँ:-

नम्बर ७२-१७-पी० ता० ३१ मई

सन् १८६९ .ई०,

लेफ्टिनेण्ट कर्नेल् ए० आर० .ई० हैचिन्सन

काइम मक़ाम पोलिटिकल एजेण्ट मेवाड़.

जबसे मैंने इस उद्देका चार्ज लिया है, तबसे महाराणा साहिब और उनका प्रधान कोठारी केसरीसिंह मेरी सलाहपर तुरन्त अमल करते हैं, और मेरी दोस्ती

(१) यह पोलिटिकल एजेण्ट मेवाड़ निकसन साहिबके बेटे और खैरवाड़ाकी फ़ौजके अफसर हैं.

दिन बदिन बढ़ती जाती है. महाराणा साहिब .ऐश व .इश्रतको चाहनेवाले हैं, लेकिन् अक्लमन्द और वर्तमान जमानहके ढंगको जाननेवाले हैं, और अपने मुल्ककी दुरुस्ती करना चाहते हैं; खासकर ब्रिटिश गवर्नेण्टकी इच्छा और अपनी प्रजाकी भलाई करनेको जियादह उत्कंठित हैं, लेकिन् महाराणा साहिबको कदीमी दस्तूरपर चलनेसे इन बातोंके पूरा करनेमें दिक्कत उठानी पड़ती है. महाराणा साहिब खुद-मुस्तार हैं, छोटासा काम भी बिदून हुक्म उनके नहीं होसक्ता; प्रधानको भी हमेशह जाकर कुल कामोंके लिये हुक्म लेना पड़ता है, और इसीतरह फौजदारी व दीवानीके हाकिम भी अखीर कार्रवाईको उनके हुक्मसे करते हैं. अगर फुर्सत न हो, तो दूसरे काम बाकी रहें, परन्तु पोलिटिकल एजेण्टीके कामोंको खत्म करनेपर जियादह ध्यान दियाजाता है. जियादहतर राज्यका काम धर्मशास्त्रके अनुसार होता है, और महाराणा साहिब उसको चलानेके लिये पेशवा हैं, इसलिये उसके बखिलाफ नहीं करसक्ते. महाराणा साहिबके पास कोई भरोसा रखनेके लाइक सलाहकार नहीं है.

फिर पोलिटिकल एजेण्टने जालिमसिंह और रावत् अमरसिंह व कमलिया वाले सन्यासीकी शिकायत लिखी है. इसके आगे कोठारी केसरीसिंहका जिक्र है. वह लिखते हैं, कि केसरीसिंहको प्रधाना मिलनेसे महाराणा साहिब और उनके सद्दार व प्रजा सब लोग बहुत खुश हुए हैं. यह शरूस् मिहनती और जमा खर्चकी दुरुस्ती रखने वाला, और जो जिम्महवारीका काम उसको सौंपा गया उसके वास्ते लाइक है, और यह पुराने रवाजके मुवाफिक रियासती हुक्मतका तरफदार है. महाराणा साहिब की नाबालिगीमें रियासती नौकरोंको जमीनके ठेके लिखदिये थे, उससे नुकसान हुआ और ६०००००, रुपये बाकी रहगये, तब उस बन्दोबस्तको रद्द कर तीन वर्षके लिये गांवके लोग, याने पटैल पटवारियोंको पांच पर्गनोंमें ठेका दियागया, लेकिन् वह भी राज्यके कारिन्दोंकी नापसन्दीसे नहीं चला.

इसके बाद जमीनके महसूलका तरीकह व जमा खर्चका जिक्र है. फिर कर्नेल् हैचिन्सनने मेवाड़के सद्दारोंकी मगूरु और नाफरमाँबद्दारीका बहुत जिक्र लिखकर उसके लिये आमेट, सलूवर और धांगड़मऊकी गोदनशीनीके मुकद्दमेकी मिसाल दी है. उसके बाद कोठारियाके रावत्की सर्कशी और भैंसरोड़ वालोंकी उदूलहुक्मीका जिक्र है. बाद इसके डाक पार्सलका बन्दोबस्त महाराणा साहिबने उम्दह तौरसे किया, और नीमचनसीरावाद व उदयपुर-नीमचकी सड़कपर पुलिसका इन्तिजाम ८८९८०) रुपये सालियानह खर्चसे १३८ मीलका किया, जिसका मुफरसल बयान है. फिर मेवाड़, नीवाहेड़ा और जावद नीमचके मिलनेसे मोगिया लोगोंकी चोरी व डकैतीका मुफरसल जिक्र है.

जैसाकि ऊपर लिखागया. उन डकैतियोंमेंसे एक संगीन डकैतीका बयान है, कि पीप-
लियाका रावत् लक्ष्मणसिंह उनके नज्दीकी रिश्तहदार बरूतावरसिंह, ऊँकारसिंह, दीप-
सिंह, फौजसिंह, व हमीरसिंह वगैरहकी साजिशसे जमादार रामा बावरी वगैरहके हाथसे
मारागया. फिर उन्होंने पहाड़ी भीलोंकी आदत और उनकी डकैतियोंका हाल लिखा है.

उसके बाद कर्नेल् हैचिन्सन अपनी रिपोर्टमें विक्रमी १९२५ [हि० १२८५-८६
= ई० १८६८-६९] के अकालका हाल लिखते हैं, जिसमें महाराणा साहिबके
उम्दह इन्तिज़ाम, फ़य्याज़ी और लोगोंकी तछीफ़का हाल है, जो पहिले लिखागया उसीके
मुताबिक है, लेकिन इन्तिज़ामकी तफ़्सील उक्त रिपोर्टसे खुलासहके तौर लिखीजाती है:-

पहिले तो महाराणा साहिबने अनाजका महसूल (दाण मापा वगैरह) आधा और
उसके बाद कुल महसूल छोड़दिया, और बाज़ बाज़ अनाजके व्यापारियोंको क़हतकी
ख़िदमतके एवज़ हमेशहके लिये किसीको आधा और किसीको चौथाई छोड़दिया, और
खास दर्बारेने २००००) का इन्दौरसे, १५०००) का ईडरसे अनाज ख़रीदकर मंगवाया.
अलावह इसके १०५५००) रुपया शहरके व्यापारियोंको सर्कारसे देकर अनाज मंगवाया.
सेठ चांदनमल्लको २५०००), मगराके हाकिमकी मारिफ़त वहांके व्यापारियोंको २५०००),
खेमराज हुक्मीचन्दको १००००), हैदर हिप्तुल्लाह, और ईसा ताजखांको २२५००),
इब्राहीमको ११०००), रसूल बौहराको ४०००), ईसा ताजखांको २०००), रामनारायण
मूंदड़ाको ५०००), धनराज चौधरीको २०००); जुमले १४०५००) रुपयेका अनाज तो
श्रीदर्बारेकी मददसे ख़रीदा गया, और २०००००) रुपये दर्बारेने उन लोगोंके लिये
ख़र्च किये, जो मज़दूरी करके पेट भरें. इसमें जहां जहां इमारतें वगैरह बनीं और जिस
क़द्र आदमियोंका पालन हुआ, उसकी तफ़्सील निम्न लिखित नक़्शहसे मालूम होगी:-

नाम जगह.	तादाद रुपया.	तादाद मनुष्य.	कैफ़ियत.
उदयपुर	१०००००	११७८	
जहाज़पुर	१८३००	५८४	
भीलवाड़ा	१५०००	२२६	यहांकेलिये मन्जूरी १२०००० की थी.
चित्तौड़गढ़	२६३००	५००	
कुम्भलगढ़	२५०००	४००	
खेमलीके तालाबमें	३२००	३५०	

खैरवाड़ा	६०००	१५०	
नाहरमगरा	४१००	१०६	
नसीराबाद व मऊकी सड़क इलाके मेवाड़के लिये	०	०	यहाँके लिये ५०००० रुपये माहवारकी मन्जूरी हुई.
मीज़ान	१९७९००	३४९४	

इसके सिवा २५०००० रुपये महाराणा साहिबने इसवास्ते दिया, कि (इज़तदार
ग़रीब, जो भीख नहीं मांग सके, उनको) सस्ते भावसे अनाज दियाजावे.

अलावह इसके सदावृत्तमें आटा दियागया, उसकी माहवारी तफ़्सील :-

नाम शहर.	आदमी.	चून या आटा.	अनाज.
उदयपुर	३०००	५६ मण	०
जहाजपुर	४००	७॥ "	०
चित्तौड़	९००	१४॥ "	०
कुम्भलगढ़	५५०	१४ "	७॥ मण
कैलासपुरी	३०००	१९ "	३२॥ "
गढ़बोर	४००	७॥ "	०

इसके उप्रान्त रंधीहुई मक्की (घूगरी) मर्द या औरतको ०॥ आघसेर और
बच्चोंको ०। पावसेर अन्दाज़हसे दीजाती, जिसका तख्मीनह रोज़ानह :-

उदयपुर	७५००	
कुम्भलगढ़	२०००	
भीलवाड़ा	७००	
चित्तौड़	५००	
मीज़ान	१०७००	

छावनी देवलीमें भी इसी किस्मका खैरातखानह खोला गया, जिसके लिये महाराणा साहिबने १०००० रुपये कल्दार दिये. खास शहर उदयपुरमें तारीख १९ एप्रिल से ३१ मई [वि० १९२६ जेष्ठ कृष्ण ६ = हि० १२८६ ता० १८ सफर] तक २०९०३७ मनुष्य, जिनमें ४६४६९ मर्द, ७८६५० औरतें और ८३९१८ बच्चोंका पालन हुआ, जिनमें ८४९, ३। = मण नाज खर्च हुआ, जिसकी कीमत रु० ६३१२। - ५६ हुई. इस क्रहतके हालको खत्म करके उक्त साहिबने मद्रसह, दवाखानह, जेल-खानह वगैरहका हाल लिखा है उसके बाद मुजिमोंकी सुपुर्दगीका अहदनामह हुआ, जिसका जिक्र है.

मेवाड़ एजेन्सीकी रिपोर्ट नम्बर ५६—१०—पी०

ता० १६ मई सन् १८७० ई०,

लेफ्टिनेण्ट कर्नेल् जे० पी० निक्सन पोलिटिकल एजेण्ट मेवाड़की तरफसे
लेफ्टिनेण्ट कर्नेल् आर० एच० कीटिंग के० सी० एस० आइ०, बी० सी०
एजेण्ट गवर्नर जेनरल राजपूतानह.

पिछले सालकी कार्रवाई मेरे इशारेसे महाराणा साहिबने लिखी थी उसका तर्जमह वास्ते मुलाहजेके गवर्नर जेनरलकी खिदमतमें भेजा था, क्योंकि अपनी रियासतकी कार्रवाईकी बाबत् खुद रईसका लेख सर्कार भी पसन्द करेगी.

मैं खुशीसे लिखता हूं, कि महाराणा साहिबने बाकाइदह दीवानी और फौजदारी की अदालतें काइम करदी हैं, जिनके अप्सरोंको बिल्फेल कुछ इस्तिथार देदिये हैं.

मुझे अप्सोस है, कि कोई कानून अभीतक यहां जारी नहीं हुआ. बाजाबितह लिखे हुए कानूनकी मुखालफत यहां बहुत है. मेवाड़के सर्दार तो धर्मशास्त्रके बहानेसे बिल्कुल इससे बखिलाफ हैं, मगर कुल राजपूतानहमें सर्दारोंकी कमोबेश जाहिर या पोशीदह यही कोशिश है, कि अपनी बेजा कार्रवाईको रईसोंके वाजिबी फौजदारीके दरूल से बचावें. सर्दारों और रईसोंके बाहमी मुखालफतकी बुनयाद यही है, कि सर्दार लोग नहीं चाहते, कि उनके फौजदारी इस्तिथारातमें रईसका दरूल हो. सर्दार तो यह चाहते हैं, कि दीवानी, फौजदारी हमारी हमारे हाथमें रहे; और अच्छे इन्तिजामके लिये सर्कार अंग्रेजीके दबावसे रईस लोग हमेशह उनका इस्तिथार रोकनेकी कोशिश करते हैं. सर्दारोंकी कोशिश तो यह है, कि जो जियादतियां व जुल्म वे खुद करते हैं वा अपने

मातहतोंसे कराते हैं, और उनके साथ अपना फायदह उठाते हैं उनकी बाबत् कोई

रोक न हो. मेरी समझमें सरकारको वाजिबी तरीकोंसे इन रईसोंको जबतक, कि वे अंग्रेजी सरकारकी सलाहके मुवाफिक अच्छी तरह हुकूमत करनेकी कोशिश करते हैं मदद देना चाहिये, ताकि वे अपने सर्दारोंको दबा सकें; लेकिन बहुतसी हालतोंमें सरकारकी कार्रवाई बिल्कुल उसके विरुद्ध है. यह बात हम सब जानते हैं, कि रईस लोग खुद जुल्म जियादती नहीं करते और इन सर्दारोंमेंसे ऐसे थोड़े हैं, जो ऐसा नहीं करते. यह बात जाहिर है, कि ये छोटे सर्दार अपनी कार्रवाईमें हमारे पास जवाबदिह नहीं हैं और अपने रईसोंके पास जवाबदिहीको ये टालजाते हैं या नहीं मानते हैं.

इन सर्दारोंकी कार्रवाईकी निगरानीके लिये एक अह्लकार दर्बारका उन ठिकानोंमें हमेशह रहना चाहिये, कि जो उनकी बेजा कार्रवाईकी रिपोर्ट किया करे. हैचिन्सन साहिबने पहिले रिपोर्ट की थी, कि महाराणा साहिब और सर्दारोंमें नाराजगी है, लेकिन मैं इसके साथ इतिफाक नहीं करता, क्योंकि सर्दार लोग महाराणा साहिब को बहुत चाहते हैं; अल्बत्तह इस बातको नापसन्द करते हैं, कि वह हमारी (अंग्रेजोंकी) सलाहसे काम करें. मेवाड़के सब लोगोंसे महाराणा साहिब जियादह रौशन राय हैं; इसलिये वे लोग जो पुराने जमानहके दस्तूरोंसे लिपटे हुए हैं, उनकी लियाकतकी ताकतसे डरते हैं. अगर महाराणा साहिब किसी एक सर्दारको किसी कुसूरपर सजा देने का इरादह करें, तो इनके खिलाफ दूसरे सभी मुत्तफिक होजायेंगे, ताकि इन्साफ न होसके. राजपूतानहमें यह चाल बहुत पुरानी है. हालके महाराणा साहिब को उनके पहिलेके तीन राजाओंकी निस्बत लोग जियादह चाहते हैं, क्योंकि वह जुल्म नहीं करते.

पिछले सालकी रिपोर्टमें कर्नेल् हैचिन्सनने कुछ हाल जालिमसिंहका लिखकर उसको बुरा सलाहकार समझा है. हिन्दुस्तानी दर्बारोंमें उस शरूसके, जिसपर राजा मिहर्बान होता है, बहुत दुश्मन होजाते हैं, खासकर प्रधान तो उसको बहुतही बुरा समझता है. जालिमसिंह स्वतंत्र पुलिसका अफसर था, सर्दार लोग उसको नहीं चाहते थे, तोभी मेवाड़में लूटनेवाली कौमोंके रोकनेमें इसने अच्छी नौकरी की है. इसकी बड़ी खूबी यह थी, कि सरकार अंग्रेजीका खैरस्वाह था और महाराणा साहिबको भी साहिब रेजिडेण्टकी रायपर अमल रखनेकी सलाह देता रहता था. अफसोस है, कि वह शरूस मरगया !

मालका इन्तिजाम पुराना और सादे तौरका है. जर्मीदार और काश्तकारमें कोई शिकायत नहीं है, और जमा बुसूल करनेमें भी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि साख बिगड़नेपर दर्बारसे हमेशह छूट होजाती है. छोटे मोटे मुकदमात गांवके चौखलेकी पंचायतसे तय होजाते हैं.

महाराणा साहिबकी मर्जी है, कि बाकाइदह माली बन्दोबस्त इस मुल्कमें जारी किया जावे, और इसलिये अगले जाड़ेसे बन्दोबस्तका इन्तिजाम शुरू होगा, मगर दर्बारके अह्लकार इसके खिलाफ हैं, क्योंकि इसमें दर्बारका फ़ायदह और उनकी चोरियोंका शायद खुलना है और ज़मींदारोंपर जो उगाहीमें राजके अह्लकार ज़ियादती करते हैं वह मिटजायेगी.

नीमच- नसीराबादकी सड़क बनरही है, सर्कारी क़ौजी कामके सिवा इससे कुछ व्यापारका फ़ायदह मालूम नहीं होता. दर्बारने १३००००, रुपया लागत ताबे दे- दिया है और ५००००, फिर देना है. उदयपुरसे खैरवाड़ेतक जो सड़क हालमें बन- रही है वह भी ८ मीलतक बनगई है, इससे मेवाड़के रूईके व्यापारको बम्बईकी तरफ़ निकासका रास्तह होनेसे बहुत फ़ायदह होगा.

मैंने मेवाड़के पहाड़ी ज़िले बाबत् .ईसवी १८७० ता० ७ मार्च [वि० १९२६ फाल्गुण शुक्ल ५ = हि० १२८६ ता० ४ जिल्हिय] को रिपोर्ट की है, कि मेवाड़की दक्षिणी और पश्चिमी हदपरके गिरासिये सर्दार फ़ौजदारी मुआमलातमें इस एजेण्टीके अव्वल और दूसरे असिस्टेंटोंके तअल्लुकमें हैं, और पहाड़ी इलाक़हके छोटे सर्दार दर्बारके मातहत हैं, मगर कुल मुकदमात जिनमें गिरासियोंका कुछ तअल्लुक था वे उक्त असिस्टेंटोंने फ़ैसल किये हैं. यह ज़रूर है, कि जो ज़ियादती ग्रासिया और भील सर्हदसे बाहिर करते हैं उसका बदला उन्हींसे दिलाया जावे, ताकि आगेसे ऐसा करनेको रुकें. अबतक ऐसा दस्तूर था, कि हमेशह सारी बेबन्दो- बस्तीका ज़िम्महवार राजके अह्लकारको ठहराया जाता था. अब मेरी राय है, कि अंग्रेज़ी उद्देदार, जो उस इलाक़हमें रहते हैं, ज़ियादह ज़िम्महवार ठहराये जावें.

मेवाड़ और महीकांठाके सर्हदी फ़ैसलोंमें मेवाड़पर ६६५४) रुपयेकी डिगरी हुई. उदयपुर दर्बार डिगरीका रुपया मुजिमोंसे वुसूल किया करते हैं उसमें अह्लकारोंके जुल्मकी शिकायत सुनकर मैंने दूसरे असिस्टेंटकी मारिफ़तसे वुसूल करनेका बन्दोबस्त किया है.

पिछले साल सरुत अकाल था, तोभी इस इलाक़ेमें ज़ियादह वारिदातें नहीं हुईं; मगर मगरा मेरवाड़ाके मेरोंमें वारिदातें कम नहीं हुई हैं, वे लोग ५० वर्षके क़रीबसे अंग्रेज़ी बन्दोबस्तमें हैं, और यह उम्मेद कीजाती थी, कि लुटेरापन उन्हींने बिल्कुल छोड़दिया, मगर थोड़ीसी तंगी पड़नेपर उनकी अस्ली आदत फिर जाहिर होगई.

पिछले साल कर्नेल् हैचिन्सन् साहिबकी सलाहके सुवाफ़िक़ दर्बारने अफ़ीमका कांटा उदयपुरमें मुक़रर कराया, गोकि पहिले सालमें व एवज़ ६००० पेटिके, जिसकी उम्मेद कीगई थी उज्जैन व इन्दौरके व्यापारियोंकी कार्रवाईसे सिर्फ़ ४४४ पेटि इस कांटे

पर छपीं, लेकिन कांटेके होनेका फायदह मेवाड़के रईस व व्यापारियोंको होवेहीगा, इस बातपर भी मैं तवज्जुह दिलाता हूं, कि कांटेका खर्च दरबार मेवाड़से दियाजाता है, यह बात कुछ गैर मामूलीसी है, क्योंकि कांटेसे महसूल सरकार अंग्रेजीको वसूल होता है.

फौज.

उदयपुरकी फौजकी दुरुस्ती कीजाती है और क्वाइद सिखाई जाती है, कुल तादाद ११५२ सवार, ३६९४ पैदल और ६३२४०२) रुपया सालानह खर्च होता है.

शिफाखानह.

शहरके दोनों शिफाखानोंमें ६८९५ बीमारोंका इलाज हुआ, ८५८ बालकोंके टीका लगाया गया, और कुल खर्च ४६९३) रुपया हुआ. पिछले साल ५४५१ आदमियोंका इलाज हुआ, ५३७के टीका लगा, और ३२३२) रुपया खर्च हुआ था; काइम-मकाम डॉक्टर गेलवे साहिबने उम्दह कारगुजारी की. अकाल और हैजेके वक्त दवा और खाना बांटनेमें बड़ी तन्दिही और कोशिश की; इस सालमें २१ बड़े और ३१५ छोटे औपरेशन होकर कामयाब हुए.

जेलखानह.

जेलखानोंमें इन्तिजाम और सफाई अच्छी है, कैदी अच्छीतरह रखे जाते हैं और उनसे जियादहतर सड़कपर काम लियाजाता है. पिछले सालमें २०९ कैदी थे, १३ मरगये जिनमेंसे ५ बवाइस हैजाके मरे थे.

स्कूल.

पिछले साल उदयपुरके स्कूलका काम मिस्टर इङ्गल्स असिस्टेंट ओपियम एजेण्टके तहतमें लियागया. हाजिरी कुछ लड़कोंकी और जियादहतर लड़कियोंकी कम होगई है.

खिराज.


उदयपुरका सालियानह खिराज अबतक बराबर अदा होजाता है, मेवाड़ भील कॉर्प्सका खर्च जो मेवाड़के मगरा मेरवाड़ाकी आमदनीमेंसे लियाजाता है, पहिले सालोंका जमा होते रहनेसे अजमेरके खजानहमें अमानत जमा है. पिछले साल फ्रुल अच्छी हुई, लेकिन धानका भाव महंगा रहा.

पिछले सालकी रिपोर्टमें लेफ्टिनेण्ट कर्नेल् हैचिन्सन साहिबने महाराणा साहिबकी निस्वत लिखा है, कि यह रईस अपने मुल्कमें सुधारा चलाना चाहते हैं और सरकार अंग्रेजीके मन्शाके मुवाफिक अपनी रअध्यतके आराम पानेके लिये बहुत कोशिश करते हैं, इस बातकी तस्दीक पिछले सालकी महाराणा साहिबकी कार्रवाईसे बखूबी

होगई. इस साल मेवाड़में अकाल तो नहीं था, मगर गिरानी बहुत थी, आसपासकी रियासतोंके अकालसे हजारहा आदमी उदयपुरमें आपड़े, जो भूख और उससे पैदा हुई बीमारियोंसे मरते थे. महाराणा साहिबने अपनी नेकदिली और कर्नेल् हैचिन्सन साहिबकी सलाहकी मददसे बहुत तद्बीरें इन लोगोंकी मुसीबत कम करनेकी कीं, जिससे वह सख्त वक्त बड़ी खूबीसे निकला और हजारों जानें उनकी फ़य्याजीसे बचीं. उदयपुरमें ११६३७६६ आदमियोंको खाना मिला, इसमें ५००८४७ रुपया उठा. मेवाड़के और बड़े बड़े क़स्बोंमें इसके अलावह तद्बीरें हुईं.

पिछले सालमें महाराणा साहिबको नासूरकी बीमारी होगई थी, जिसमें वह ५ महीना बीमार रहे. डॉक्टर कनिंघमने अपनी रिपोर्टमें इसकी बाबत लिखा है, कि इस सख्त बीमारीमें बावुजूदेकि बार बार औपरेशन नाकामयाब हुए, तोभी महाराणा साहिब अपनी तबीअतकी मज़बूती और खुश मिज़ाजीसे हमेशह खुशदिल रहे, जिससे उनकी तबीअतकी उम्दगी पाईगई, जो उनके बड़े दरजहके लाइक है.

यहांके इन्साफी क़ानूनकी बाबत लिखता हूं, कि हालमें तो कोई लिखा हुआ क़ानून यहां जारी नहीं है, मगर आपने जो क़ाइदे दिये थे उनका हिन्दी तर्जमह मिस्टर इङ्गल्ससे कराकर उनपर गौर होरहा है. हिन्दुस्तानी रियासतोंमें राजा कैसा भी हमारी सलाहपर चलता हो, तो क़ानूनका चलना बहुत मुश्किल और देर तलब है, तोभी उम्मेद है, कि चन्द रोज़में यह क़ानून जारी होजायेगा.



हम ऊपर लिख आये हैं, कि कोठारी केसरीसिंहने प्रधानसे इस्तेफ़ा दिया और काम महता गोकुलचन्द और पंडित लक्ष्मणरावके सुपुर्द हुआ, लेकिन पाठक लोगोंको ज्ञात करनेके लिये यह भी अवश्य है, कि दूसरे बन्दोबस्तका हाल भी दर्ज कियाजावे, अर्थात् कोठारी केसरीसिंहके प्रधानके समय विक्रमी १९२६ पौष कृष्ण ५ [हि० १२८६ ता० १९ रमज़ान = ई० १८६९ ता० २३ डिसेम्बर] को महकमह खासके नामसे एक कचहरी क़ाइम हुई, जिसमें हुकम देनेवाले तो खास महाराणा साहिब और सेक्रेटरी महता पन्नालाल बनाया गया. यह शरूस् कोठारी केसरीसिंहके बड़े भाई छगनलालका दामाद, होशयार और नौजवान अहलकार जानकर इस कामके लिये चुनागया, जो महता अग्रचन्दके भाईकी औलादमें महता मुरलीधरका पुत्र है; इसको कोठारी केसरीसिंहने भी अपने बड़े भाईका दामाद होनेके सबब पसन्द किया. इस महकमहकी बुन्याद डालनेके लिये पेशतर भी पंडित लक्ष्मणरावने कोशिश करके अपने दामाद मार्तंडरावको पेश किया था, लेकिन उससे यह काम नहीं जमा. थोड़ेही दिनोंके बाद प्रधानके करनेका

काम महकमह खासमें होने लगा, जो अबतक महता राय पन्नालालकी सुपर्दगीमें है.

इस समय ३८ वर्षके बाद मकाम अजमेरमें गवर्नर जेनरल हिन्द लॉर्ड मेयोसे मुलाकात करनेको महाराणा साहिब बुलाये गये. बहुत कुछ बहसके बाद यह बात मंजूर हुई, जिसका जिक्र इस तरहपर है, कि विक्रमी १८८८ [हि० १२४७ = .ई० १८३१] में जब महाराणा जवानसिंह लॉर्ड बेंटिंकसे मुलाकात करनेको अजमेर गये थे उसवक्त यह करार हुआ था, कि महाराणा साहिब लॉर्ड गवर्नर जेनरलकी मुलाकातको आइन्दह अपने इलाकहसे बाहिर नहीं जावेंगे, उसके बाद आगरा वगैरह मकामोंमें दर्बार होकर सब राजा लोग बुलाये गये, लेकिन महाराणा साहिबका जाना नहीं हुआ. इस-वास्ते लॉर्ड मेयोने अजमेरमें आकर महाराणा साहिबसे मुलाकात चाही. ऐसी बातों पर इस रियासतमें जमानह कदीमसे तअस्सुब रहा है, लेकिन गवर्मेण्ट अंग्रेजीकी शाइस्तह फहमाइश और कर्नेल् निक्सन साहिबकी कोशिशसे यह बात कुबूल हुई, और विक्रमी १९२७ आश्विन शुक्ल १० [हि० १२८७ ता० ८ रजब = ई० १८७० ता० ४ अक्टोबर] को प्रस्थान होकर फौज और पोलिटिकल एजेण्ट विक्रमी आश्विन शुक्ल १२ [हि० ता० १० रजब = .ई० ता० ६ अक्टोबर] को उदयपुरसे रवानह होकर खेमली व देपुरमें मकाम करते हुए विक्रमी आश्विन शुक्ल १५ [हि० ता० १३ रजब = .ई० ता० ९ अक्टोबर] को राजनगर पहुंचे, और इसी दिन फ़ज्रको महाराणा साहिब उदयपुरसे रवानह हो एकलिंगेश्वरके दर्शन कर देलवाड़े राज फ़तहसिंहके यहां गोठ (दावत का खाना) अरोग पलाएसे बग्घी सवार होकर शामको राजनगर पहुंचगये और राजसमुद्र की पालपर पोलिटिकल एजेण्ट निक्सन साहिबसे मिलकर डेरेमें आराम किया. विक्रमी कार्तिक कृष्ण १ [हि० ता० १४ रजब = .ई० ता० १० अक्टोबर] को फ़ौजका मकाम कुरजमें हुआ, और महाराणा साहिब राजनगरसे कोठारियाके रावत् संग्रामसिंहके यहां, जिसका पिता रावत् जोधसिंह गुजरगयाथा, मातमपुर्सीके लिये उसके डेरेमें होकर कांकडौली तश्रीफ़ लेगये, और दर्शन करके रातभर वहीं रहे. विक्रमी कार्तिक कृष्ण २ [हि० ता० १५ रजब = .ई० ता० ११ अक्टोबर] को कुरजमें भोजन करनेके बाद ग्राम सहाड़ां पधार गये, और विक्रमी कार्तिक कृष्ण ३ [हि० ता० १६ रजब = .ई० ता० १२ अक्टोबर] की फ़ज्रको बग्घी सवार हो शिवरतीके महाराज गजसिंह व बागौरके महाराज सोहनसिंह इन दोनों की तरफ़की गोठ अरोगकर शामको लहेसवे पधार गये. विक्रमी कार्तिक कृष्ण ४ [हि० ता० १७ रजब = .ई० ता० १३ अक्टोबर] को भगवानपुरे और विक्रमी कार्तिक कृष्ण ५ [हि० ता० १८ रजब = .ई० ता० १४ अक्टोबर] को रायला में मकाम हुआ. शाहपुराका राजाधिराज लछमणसिंह और भैंसरोड़का रावत् अमरसिंह

गुजर गया था, इस जगह उनके बेटे राजाधिराज नाहरसिंह और रावत भीमसिंहके डेरोंपर मातमपुरीको पधारे, और विक्रमी कार्तिक कृष्ण ६ [हि० ता० १९ रजव = .ई० ता० १५ अक्टोबर] को बड़ी रूपाहेली और दूसरे दिन ग्राम बरलमें मकाम हुआ. जहां अजमेर और मेवाड़की हद्द मिलती है, इसलिये महाराणा साहिबकी पेशवाईको गवर्नेण्ट अंग्रेजीकी तरफसे पोलिटिकल एजेण्ट मेवाड़ कर्नेल् निक्सन और एजेण्ट गवर्नर जेनरलके दूसरे सेक्रेटरी चार्ल्स बटन और ब्यावरके असिस्टेंट रेप्टेन आये. सहद पर डेरोंमें मुलाकात होकर हाथियोंपर सवार हो महाराणा साहिबको डेरोंमें बरलके बंगलेतक पहुंचाकर अंग्रेज अफसर अपने डेरोंमें गये. महाराणा साहिबको साथमें फौज कम लेजानेके लिये पोलिटिकल एजेण्टने बहुत कुछ कहा, और इसी तरह हिदायत थी, कि ४००० आदमियोंसे जियादह न हों, इसलिये हर एक सर्दार और कारखानोंकी तादादी फर्द बनकर हुकम दिया गया था, तोभी फौजके जियादह होजानेसे महाराणा साहिबने खुद विराजकर जमझयतोंकी हाजिरी ली. बहुत बन्दोबस्त होनेपर भी करीब ६ या ७ हजार फौजसे कम न हुई. फिर विक्रमी कार्तिक कृष्ण ८ [हि० ता० २१ रजव = .ई० ता० १७ अक्टोबर] को बांदरवाड़े और विक्रमी कार्तिक कृष्ण ९ [हि० ता० २२ रजव = .ई० ता० १८ अक्टोबर] को छावनी नसीराबाद पहुंचे. वहां छावनीके त्रिगोडिअर जेनरल और मैजिस्ट्रेट करीब ३ या ४ मीलतक पेशवाईको आये. घोड़ोंपर मुलाकात होकर उन लोगोंने महाराणा साहिबको डेरोंमें पहुंचाया. अंग्रेजी कैम्पसे १९ तोपोंकी सलामी सर हुई. विक्रमी कार्तिक कृष्ण १० [हि० ता० २३ रजव = .ई० ता० १९ अक्टोबर] को महाराणा साहिब अजमेर पहुंचे, ७ साहिब लोग अनुमान दो या ढाई कोसतक पेशवाईको आये; कर्नेल् निक्सन पोलिटिकल एजेण्ट मेवाड़ और दूसरे सेक्रेटरी चार्ल्स बटन, असिस्टेंट रेप्टेन, मेवर साहिब पोलिटिकल एजेण्ट हाड़ोती वगैरहसे पेशवाईकी जगह डेरोंमें मुलाकात हुई. इसके बाद हाथियोंपर सवार हुए और साहिब लोग महाराणा साहिबको डेरोंमें पहुंचाकर अपने अपने डेरोंमें गये. विक्रमी कार्तिक कृष्ण ११ [हि० ता० २४ रजव = .ई० ता० २० अक्टोबर] को महाराणा साहिब हाथीपर सवार होकर सए अपने चन्द सर्दारोंके करीब दो कोसपर गवर्नर जेनरल हिन्दकी पेशवाई को गये. जोधपुरके महाराजा तरुतसिंह, बूंदीके महाराजराजा रामसिंह, कोटाके महाराज शत्रुशाल, टोंकके नवाब मुहम्मदइब्राहीम अलीखां, कृष्णगढ़के महाराजा पृथ्वीसिंह और आलावाड़के महाराजराणा पृथ्वीसिंह वगैरह राजा लोग हाथियोंपर सवार थे, और उधर से लॉर्ड मेयो भी हाथीपर सवार होकर आये. लॉर्ड मेयोने हाथीके होंदेपर खड़े हो

टोपी उतारकर पेशतर महाराणा साहिबसे फिर जोधपुर व बूंदी वगैरहके राजाओंसे सलाम किया. राजा लोगोंने भी अपने अपने हाथियोंपर खड़े होकर सलाम किया. मिजाज पुर्सीके बाद लॉर्ड गवर्नरको डेरोंतक पहुंचाकर सब राजा लोग अपने अपने डेरों को गये. फिर लाठ साहिबकी तरफसे मिजाजकी खुशी पूछनेको सब राजाओंके डेरों में अंग्रेज अफसर भेजेगये. विक्रमी कार्तिक कृष्ण १२ [हि० ता० २५ रजब = .ई० ता० २१ अक्टोबर] को प्रातः कालके समय महाराणा साहिब व लाठ साहिबके कैम्पके बीचमें जहां एक शामियानह खड़ा था, महाराणा साहिब तशरीफ लेगये. बाद इसके लॉर्ड मेयोके सेक्रेटरी और एजेण्ट गवर्नर जनरल राजपूतानह कर्नेल् ब्रूक, पोलिटिकल एजेण्ट मेवाड़ कर्नेल् निकसन व पोलिटिकल एजेण्ट हाड़ोती वगैरह ७ या ८ अंग्रेज हाथियोंपर सवार होकर महाराणा साहिबको लेनेके लिये आये. महाराणा साहिब भी मण वेदलाके राव बरतसिंह, देलवाड़ाके राजरणा फत्हसिंह, कान्हौड़ के रावत् उम्मेदसिंह, पारसोलीके राव लक्ष्मणसिंह, आसींदके रावत् खुमाणसिंह, शिवरतीके महाराज गजसिंह, करजालीके महाराज सूरतसिंह, बागौरके महाराज सोहनसिंह और प्रधान महता गोकुलचन्दके हाथियोंपर सवार होकर लाठ साहिबके डेरोंमें सिधारे. लाठ साहिबकी तरफसे १९ तोपें सलामीकी सर हुई. दस्तूरके मुवाफिक वाइसरॉय लवे फर्शतक पेशवाईको आये, दाहिनी तरफ महाराणा साहिब और बाई तरफ लॉर्ड मेयो बैठे. महाराणा साहिबकी तरफ उनके सदाँर और लाठ साहिबकी तरफ अंग्रेज अफसर थे. महाराणा साहिबने अंग्रेजीमें लाठ साहिबसे बातचीत की, फिर लाठ साहिबने खड़े होकर हीरोंका हार महाराणा साहिबके गलेमें अपने हाथसे पहिनाया और नीचे लिखा हुआ सामान किश्तियोंमें पेश हुआ:-

हार हीरोंका पहिनाया गया १.

सर्पेच हीरोंका १.

रूमाल सियाह रंगका १.

मन्दील अंब्वासी १.

जामदानी ७.

चुगा १.

गाज सुनहरी १.

दुशाला जोड़ी १.

दुपट्टा बनारसी १.

साटण थान १.

हीरोंके जड़ाऊ कड़े जोड़ी १.

गुलूबन्द पश्मीनेका १.

रूमाल बनारसी १.

चुगा सिफेद १.

कमखाब ३.

गालीचा १.

पामड़ी जर्दोजी जोड़े ७.

मलमल ढाकेकी १.

खेस बनारसी जोड़ी १.

बन्दूक मए पेटी व औजारोंके २.
ढाल सुनहरी फूलोंकी १.

तलवार मए सुनहरी तहनाल मूनाल १.
परतला जर्दोजी १.

घड़ी झॉक १.
गिलास रुपहरी मए ढकनके १.
गुलाबदानी चांदीकी २.

घड़ी जैबी मए जंजीरके १.
गिलास दूसरा मए ढकनके १.
दवातें चांदीकी २.

फिर फ़ारिन् सेक्रेटरीने लाठ साहिबका हांथ लगवाकर महाराणा साहिबके सर्दारोंको मोतियोंकी माला पहिनाई और नीचे लिखे खिल्जत दिये:—

बेदलाके राव बरुतसिंहको

मोतियोंकी कंठी १.	सर्पेच १.	दुशाला जोड़ी १.	गुलूबन्द १.
डोरिया थान १.	दुपट्टा १.	पघड़ी १.	गिलास १.

देलवाड़ाके राजरणा फ़तहसिंहको

मोतियोंकी कंठी १.	सर्पेच १.	दुशाला जोड़ी १.	रूमाल १ सियाह.
गाज १.	कमखाव १.	दुपट्टा १.	पघड़ी १.
मलमल १.	डोरिया १.	गुलूबन्द १.	घड़ी १.

कान्हौड़के रावत् उम्मेदसिंहको

मोतियोंकी कंठी १.	सर्पेच १.	दुशाला जोड़ी १.	रूमाल १.
दुपट्टा १.	गाज १.	पामड़ी सिफ़ेद १.	मलमल १.
जामदानी १.	कमखाव १.	गुलूबन्द १.	गिलास चांदीका
रकाबी चांदीकी १.			ढकनवाला १.

पारसोलीके राव लक्ष्मणसिंहको

मोतियोंकी कंठी १.	सर्पेच १.	गुलूबन्द १.	डोरिया थान १.
दुपट्टा १.	दुशाला १.	पघड़ी १.	गिलास चांदीका १.

आर्सीदके रावत् खुमाणसिंहको

मोतियोंकी कंठी १.	सर्पेच १.	दुशाला जोड़ी १.	रूमाल १.
जामदानी १.	मलमल १.	पघड़ी १.	रकाबी चांदीकी १.
गिलास चांदीका १.			

महाराज गजसिंहको

मोतियोंकी कंठी १.	सर्पेच १.	दुशाला १.	दुपट्टा १.	डोरिया १.
पघड़ी १.	मलमल १.	दूरकीन दोचश्मी १.		

महाराज सूरतसिंहको

मोतियोंकी कंठी १. पघड़ी १. डोरिया १. दुशाला १.
दुपट्टा १. जामदानी १. दूरबीन १.

महाराज सोहनसिंहको

मोतियोंकी कंठी १. दुशाला १. पघड़ी १. जामदानी १.
मलमल १. दुपट्टा १. दूरबीन दोचश्मी १.

महता गोकुलचन्दको

मोतियोंकी कंठी १. दुशाला जोड़ी १. पघड़ी सिफ़ेद १. जामदानी १.
मलमल १. दुपट्टा १. घड़ी १.

फिर दस्तूरी बातें होकर महाराणा साहिबको लॉर्ड मेयोने और सर्दारोंको फॉरिन सेक्रेटरीने इत्र व पान दिया; इसके बाद लवे फ़र्शतक लॉर्ड साहिब और जो अंग्रेज़ लोग पेशवाईको आये थे वे कैम्पके बाहिरतक पहुंचा गये, शाही तोपखानहसे सलामीके फ़ाइर बदस्तूर सर हुए. इसी तरह महाराणा साहिबके बाद जोधपुर, बूंदी, और कोटा वगैरह रियासतोंके राजा लोगोंसे हर एककी इज्जतके मुवाफ़िक़ जुदी जुदी मुलाकात हुई.

विक्रमी कार्तिक कृष्ण १३ [हि० ता० २६ रजब = ई० ता० २२ अक्टोबर] को करीब दस बजे आम दरबार हुआ. महाराणा साहिब मए ऊपर लिखे हुए ९ सर्दारोंके शाही डेरोंमें तश्रीफ़ लेगये, १९ तोपकी सलामी सर हुई. इसी तरह मौजूदह राजा लोग अपनी अपनी इज्जतके मुवाफ़िक़ दरबारके डेरोंमें आये. गवर्नर जेनरलकी कुर्सीके बाईं तरफ़ अक्वल नशिस्तपर महाराणा साहिबकी कुर्सी और उनके नीचे पोलिटिकल एजेण्ट मेवाड़की कुर्सी थी. इसी तरह सब राजा लोगोंके नीचे एक एक पोलिटिकल एजेण्टकी कुर्सी, और अपने अपने मालिककी पीठपर उनके सर्दारोंकी कुर्सियां लगाई गईं, और लाठ साहिबके दाहिनी तरफ़ अंग्रेज़ी अफ़सरोंकी लाइन थी. सब लोगोंके जमा होने बाद लॉर्ड मेयो दरबारके स्थानमें आये और दस्तूरके मुवाफ़िक़ दरबार हुआ. इस दरबारमें सिर्फ़ जोधपुरके महाराजा तख़्तसिंह नहीं आये, जिनका हाल हम आगे लिखेंगे. बाद इसके लाठ साहिब उठकर अपने बंगलेमें चलेगये. फिर राजा लोग भी अपने अपने डेरोंको सिधारे. हर एककी खानगीके वक्त्र शाही तोपखानहसे बदस्तूर सलामी सर हुई. शामके वक्त्र लाठ साहिब महाराणा साहिबके डेरोंमें तश्रीफ़ लाये, उनको लेनेके लिये वेदलाका राव बख़्तसिंह, देलवाड़ाका राजरणा फ़तहसिंह, और महता गोकुलचन्द गये.

लॉर्ड मेयो मए अंग्रेज़ अफ़सरोंके हाथियोंपर सवार हो थोड़ासा दिन बाकी रहे महाराणा

साहिबके लश्करमें आये, और हाथीपरसे नीचे उतरकर पैदल चल बड़ी नमीके साथ टोपी उतार महाराणा साहिबको सलाम किया. महाराणा साहिबने भी लंबे फर्शतक पेइवाई करके सलाम लिया और मिजाजकी खुशी पूछी, फिर लॉर्ड साहिबके हाथपर अपना हाथ रखकर कुर्सियोंपर तशरीफ़ लाये. दाहिनी तरफ़ चांदीकी कुर्सीपर लॉर्ड मेयो और दूसरी कुर्सियोंपर उनके अपसर और बाईं तरफ़ वैसीही कुर्सीपर महाराणा साहिब और सादी ५५ कुर्सियोंपर उनके सदांर बैठे; महाराणा साहिब अंग्रेजीमें लॉर्ड मेयोसे बात चीत करते रहे. लॉर्ड मेयोकी बातोंका सिद्धान्त यह था, कि अजमेरमें मेरा आना खास आपकी मुलाकातके लिये हुआ है. मैं (कविराजा श्यामलदास) ने जो इस दरवारमें मौजूद था, आंखोंसे देखा है, कि लॉर्ड मेयो और महाराणा साहिबकी मुहब्बत उनके चिह्रोंपर झलक रही थी, फिर पोलिटिकल एजेण्ट मेवाड़ कर्नेल् निकसनने एक फिंह्रिस्त हाथमें ली और बेदलाके राव वरूतसिंहसे लेकर कुल सदांरों व हम लोगोंसे एक एक अशरफ़ी नज़ करवाई. लॉर्ड साहिब हरएकका नज़ानह सिर झुका झुका हाथसे छू छू कर मुआफ़ करते गये. उस वक्त उनकी मुहब्बतका बर्ताव हम लोगोंके साथ ऐसा मालूम होता था, कि मानो हमेशह उनके पास रहते हों. फिर दरवार बर्खास्त हुआ. महाराणा साहिबका हाथ लाठ साहिब अपने हाथपर रख लंबे फर्शतक पहुंचे और बड़ी मुहब्बतके साथ एक दूसरेसे जुदा हुए. महाराणा शम्भुसिंह साहिबका ऐसा उत्तम स्वभाव था, कि जो शरक्स एक दफ़ा उनसे मिला वह जिन्दगीतक नहीं भूला; लेकिन लॉर्ड मेयोका अख़लाक भी उन्हींके मुवाफ़िक़ था. फिर हाथीपर सवार होकर लॉर्ड मेयो अलावह महाराजा जोधपुरके सब राजा लोगोंसे मुलाकात करनेको गये. इसी दिन करीब साढ़ेदस बजे रातके अचानक मए तीन चार खानगी आदमियोंके जोधपुरके महाराजा तरूतसिंह साहिब महाराणा साहिबके डेरोंमें आये. महाराणा साहिब भी खानगीमें बेतकल्लुफ़ बैठे थे, डेरेसे बाहिर दौड़कर उनको अन्दर लेआये और एक पलंगपर दोनों बैठकर बात करने लगे. महाराजा साहिबने कहा, कि आज फ़ज्रके आम दरवारमें मेरा जाना न हुआ, वह आपसे नीचे बैठनेका सबब नहीं था, सिर्फ़ मेरे और आपके बीचमें पोलिटिकल एजेण्टका बैठना मैं अपनी हतक खयाल करता हूं. अगर आपने कुछ और ढंगसे सुना हो, तो हर्गिज़ न मानना चाहिये, और मैं भी इसीलिये आया हूं, कि आपके और मेरे बीचमें कोई रंज न डालदेवे. फिर दोनों तरफ़से शराबके पियाले लेकर दोनों अधीश बग्घीमें सवार हो जोधपुरके डेरोंमें तशरीफ़ लेगये. दोनों तरफ़से बड़ी मुहब्बतकी बातें होनेके बाद करीब एक बजे रातको महाराणा साहिब वापस अपने डेरोंमें दाखिल हुए. यह मुलाकात दोनों रियासतोंकी नाइतिफ़ाकीको दूर करनेका पैग़ाम

थी, लेकिन अफसोस है, कि थोड़ेही अरसहके बाद महाराजा साहिब जोधपुरका इन्तिकाल होगया, जिससे दोनों अधीशोंकी दोबारह मुलाकात न होने पाई.

विक्रमी कार्तिक कृष्ण ५५ [हि० ता० २८ रजब = .ई० ता० २४ अक्टोबर] को लॉर्ड मेयो अजमेरसे जयपुरकी तरफ रवानह होगये, और विक्रमी कार्तिक शुक्ल १ [हि० ता० २९ रजब = .ई० ता० २५ अक्टोबर] को कृष्णगढ़के महाराजा पृथ्वीसिंह मुलाकात करनेको महाराणा साहिबके डेरेपर आये. उनके बड़े पुत्र शार्दूलसिंह और दूसरे जवानसिंह भी साथ थे. महाराणा साहिब लबे फर्शतक पेशवाई करके उन्हें ले आये, और अपने बाईं तरफ गद्दीपर बिठाया, और उनके दोनों पुत्र गद्दीके नीचे बैठे (१). कृष्णगढ़के कुल सर्दारोंने महाराणा साहिबको नज़े दिखलाई. बाद इसके दर्वार बर्खास्त होकर आधे फर्शतक महाराणा साहिबने उनको वापस पहुंचाया. फिर शामके वक्त महाराणा साहिब भी कृष्णगढ़ महाराजके डेरेपर तशरीफ लेगये. महाराणा साहिब ज्योढ़ीपर सवारीसे उतरे, जहांतक महाराजा पेशवाईको आये, और ऊपर लिखे मुवाफिक गद्दीपर बैठे. फिर महाराणा साहिबको कृष्णगढ़ महाराजा के सब सर्दारोंने नज़े दिखलाई. इसके बाद ज्योढ़ीतक जहां महाराणा साहिब सवार हुए महाराजा पहुंचानेको आये. फिर सवार होकर महाराणा साहिब अपने डेरोंमें आये.

विक्रमी कार्तिक शुक्ल २ [हि० ता० १ शरबान = .ई० ता० २६ अक्टोबर] को तीसरे पहरके वक्त एजेण्ट गवर्नर जेनरल राजपूतानह कर्नेल् ब्रूक और पोलिटिकल एजेण्ट कर्नेल् निक्सन महाराणा साहिबके डेरोंमें आये, दस्तूरके मुवाफिक मुलाकात करके वापस गये. फिर शामको कृष्णगढ़के महाराजा पृथ्वीसिंह खानगी मुलाकातको मए अपने दोनों बेटोंके महाराणा साहिबके डेरोंपर आये, जहां शामका खाना और शराब पीना वगैरह महाराणा साहिबके साथ करके वापस गये. विक्रमी कार्तिक शुक्ल ३ [हि० ता० २ शरबान = .ई० ता० २७ अक्टोबर] को जयपुरके महाराजा रामसिंहकी तरफसे गीजगढ़का चांपावत जुभारसिंह और एक अह्लकार गद्दीनशीनीका दस्तूर लाये, वह पेश हुआ जिसमें १ हाथी, ४ घोड़े और खिल्अत वगैरह दस्तूरके मुवाफिक चीजें थीं. फिर एक बजे दिनके महाराणा साहिबने बगधी सवार होकर तारघरवगवर्मेण्ट स्कूलको मुलाहजह फर्माया, और स्कूलके लड़कोंको इन आम देनेके बाद एजेण्ट गवर्नर जेनरलसे उनके बंगलेपर मुलाकात करके वापस डेरोंमें तशरीफ

(१) कृष्णगढ़ महाराजाके ज्येष्ठ पुत्र महाराणा साहिबकी गद्दीपर बैठ सकते हैं, लेकिन काड़दहके मुवाफिक जब महाराजाके साथ होते हैं तब नीचे बैठते हैं.

लाये, विक्रमी कार्तिक शुक्ल ४ [हि० ता० ३ शश्रुबान = .ई० ता० २८ अक्टोबर] को पुष्कर पधारे, वहां स्नान व चांदीका तुलादान, गजदान व अश्वदान करके वापस अजमेर डेरोंमें पधारगये; फिर अजमेरसे रवाना होकर नसीराबाद दाखिल हुए, छावनीसे १९ तोपोंकी सलामी सर हुई. विक्रमी कार्तिक शुक्ल ५ [हि० ता० ४ शश्रुबान = .ई० ता० २९ अक्टोबर] को महाराणा साहिबने पाटणके राजराणा पृथ्वीसिंहको अपनी गद्दीपर बैठनेकी इज्जत दी. यह रियासत कोटाके दीवान और कुछ दिनोंतक मेवाड़के जागीरदार रहनेवाले भाला जालिमसिंहकी औलादके कबजहमें है, जिसको विक्रमी १८९५ [हि० १२५४ = .ई० १८३८] में गवर्मेण्ट अंग्रेजीने कोटासे अलहदह करके जुदा राज बनादिया. इसवक्त कर्नेल् निक्सन पोलिटिकल एजेण्ट मेवाड़की कोशिश से यह इज्जत मिली, वरनह राजपूतानहके राजाओंने इनको रईसोंमें कुबूल नहीं किया था. करीब ४॥ बजे शामको राजराणा पृथ्वीसिंह महाराणा साहिबके डेरोंमें आये. महाराणा साहिबने कोटाके बराबर पेशवाई करके उन्हें अपने बाईं तरफ गद्दीपर बिठाया, फिर चंवर मोरछल वगैरह लवाजिमह रखनेकी भी इजाजत दी. बाद इसके इत्र व पान वगैरहका दस्तूर करके १ हाथी, २ घोड़े और १३ किश्तियां खिल्-अत व जेवरकी देकर उन्हें रुखसत किया. इसके पीछे महाराणा साहिब बग्घी सवार होकर राजराणा पृथ्वीसिंहके डेरोंपर तशरीफ लेगये. राजराणा ड्योढ़ी, याने सवारीसे उतरे उस जगहतक पेशवाईको आये, और दाहिनी तरफ महाराणा साहिब और बाईं तरफ राजराणा एक गद्दीपर बैठे. राजराणाकी तरफसे एक हाथी मए चांदीके हौंदेके और २ घोड़े, तलवार, ढाल, पेशकब्ज, मोतियोंकी माला, सर्पेच, और खिल्अतकी १३ किश्तियां पेश हुई. फिर इत्र पान होकर राजराणाने महाराणा साहिबको ड्योढ़ी, याने सवार हुए वहां तक पहुंचाया. वहांसे बग्घी सवार होकर डेरोंमें तशरीफ लाये. विक्रमी १९२७ कार्तिक शुक्ल ६ [हि० १२८७ ता० ५ शश्रुबान = .ई० १८७० ता० ३० अक्टोबर] को महाराणा साहिब भिणाय मकामपर वहांके राजा मंगलसिंहके मिहमान हुए. उसने अदब आदावके अलावह फौज वगैरहकी दावत अच्छी तरहसे की. दूसरे दिन बांदनवाड़े मकाम हुआ और वहांसे बरल व रामपुरामें मकाम करके विक्रमी कार्तिक शुक्ल ११ [हि० ता० ९ शश्रुबान = .ई० ता० ३ नोवेम्बर] को बदनोर पहुंचे. वहांके ठाकुर प्रतापसिंहको निहायत खुशी हुई और उसने फौजको अच्छी तरह दावत दी. दूसरे रोज भी वही मकाम रहा. ठाकुर प्रतापसिंह अपने मालिकके पधारनेसे ऐसा खुश हुआ, कि मानो अपनी जिन्दगीभरकी नौकरीका एवज भरपाया. एक हाथी, दो घोड़े और उम्दह पोशाक व जेवर महाराणा साहिबके नज़ करके चारणों और पासवानों

को भी कीमती खिल्अत दिये. विक्रमी कार्तिक शुक्ल द्वितीय १२ [हि० ता० ११ शम्भुवान = ई० ता० ५ नोवेम्बर] को वहांसे आसींद पहुंचे. रावत् खुमाणसिंहकी तरफसे फौजको दावत दीगई, और दूसरे रोज भी वहीं मकाम रहा, चारणों और पासवानोंको खुमाणसिंहकी तरफसे खिल्अत मिले. दस्तूरके सुवाफिक नज़, निछावर और बख्शिश होकर विक्रमी कार्तिक शुक्ल १४ [हि० ता० १३ शम्भुवान = ई० ता० ७ नोवेम्बर] को वेमाली मकामपर पहुंचे, जहां रावत् लक्ष्मणसिंहकी तरफसे फौजकी दावत हुई, और वहांसे विक्रमी मार्गशीर्ष कृष्ण १ [हि० ता० १५ शम्भुवान = ई० ता० ९ नोवेम्बर] को रवानगी होकर मांडल, भीलवाड़ा, हमीरगढ़ और गंगारमें मकाम करके विक्रमी मार्गशीर्ष कृष्ण ५ [हि० ता० १९ शम्भुवान = ई० ता० १३ नोवेम्बर] को चित्तौड़की तलहटीमें पधार गये. इस सफरमें जो सर्दार व पासवान महाराणा साहिबके साथ थे उनके नाम नीचे लिखे जाते हैं:-

सर्दार.

सादड़ीका राज शिवसिंह.	बेदलाका राव बख्तसिंह.
देवगढ़का रावत् कृष्णसिंह.	बेगमका रावत् सवाई मेघसिंह.
देलवाड़ाका राज फ़तहसिंह.	आमेटका रावत् चत्रसिंह.
मेजाका रावत् अमरसिंह (१).	कान्हौड़का रावत् उम्मेदसिंह.
बदनौरका ठाकुर प्रतापसिंह.	भैंसरोड़का रावत् भीमसिंह.
वानसीका रावत् मानसिंह.	कुरावड़का रावत् रत्नसिंह.
पारसोलीका राव लक्ष्मणसिंह.	आसींदका रावत् खुमाणसिंह.
शिवरतीका महाराज काका गजसिंह	करजालीका महाराजकाका सूरतसिंह.
मए अपने भाई फ़तहसिंह(२)के.	
बागौरका महाराज भाई सोहनसिंह(३).	हमीरगढ़का रावत् नाहरसिंह.
भद्रेसरका रावत् भोपालसिंह.	बोहेड़ाका रावत् अदोतसिंह.
वेमालीका रावत् लक्ष्मणसिंह.	लावाका ठाकुर (४) मनोहरसिंह.
रामपुराका राठौड़ संग्रामसिंह.	खैराबादका बाबा जोधसिंह मए अपने
	पुत्र नाहरसिंहके.
महुवाका बाबा ग्यानसिंह.	बनेड़ाका राजा गोविन्दसिंह.

- (१) इस समयतक इनको मेजा नहीं मिला था.
 (२) यह अब श्रीमान् मेदपाटेश्वर हैं.
 (३) पीछेसे यह बागौरकी गद्दीसे खारिज करदिये गये.
 (४) इसको ठाकुरका पद पीछेसे मिला है.

शाहपुराका राजाधिराज नाहरसिंह.
कैलवाका राठौड़ औनाड़सिंह.
लहसाणीका चूडावत जशवन्तसिंह.
नेतावलका काका समन्दरसिंह.
कोठारियाके रावत्का पुत्र केसरीसिंह.
कान्हौड़के रावत्का पुत्र नाहरसिंह.
नीमच जिले दारूका रावत् भवानीसिंह.
रूपनगरका सोलंखी वैरीशाल.
लाछूड़ाका राठौड़ जैतसिंह.

पहूनाका राणावत् माधवसिंह.
लांबाका राठौड़ बाघसिंह.
जरखाणाके बाबा जशवन्तसिंहका
बेटा मदनसिंह.

फलास्याका गौड़ रघुबरसिंह.
आज्याका चावड़ा प्रतापसिंह.
शिवपुरका राठौड़ रायसिंह (१).
जीवाणाका राणावत हभीरसिंह.

गोपालपुराका राणावत गोपालसिंह.
सुवावाका चूडावत कबीरसिंह.
चूडावत दौलतसिंह.
आबिसरका राठौड़ भोपालसिंह.
प्रतापगढ़ जिले अरणोदका रघुनाथसिंह (२).

ताणाका राज देवीसिंह.
करेड़ाका राजा बहादुर भवानीसिंह.
नीमच जिले अठाणाका रावत् चत्रसिंह.
बेदलाके रावका पुत्र तरुतसिंह.
गोगूदाके राजका पुत्र अजयसिंह.
भींडरके महाराजका पुत्र मदनसिंह.
बंबोराका रावत् प्रतापसिंह.
काकरवाका राणावत उदयसिंह.
नीमच जिले सरवाणियाका बाबा
माधवसिंह.

दौलतगढ़का चूडावत नवलसिंह.
ग्यानगढ़का रावत् रघुनाथसिंह.
कोशीथलके जागीरदारका बेटा.

चन्दसिंह मए अपने बेटे गोविन्दसिंहके.
तुरक्याका राणावत पृथ्वीसिंह.
मदाराका शक्तावत मेघसिंह मए
अपने बेटेके.

गंधेरका गोपालसिंह.
कान्हावत चत्रसिंह.
राणावत चत्रसिंह.
चहुवाण लछमणसिंह.

चारण.

सीसोदाका आडा रामलाल.

ढोकलियाका (कविराजा) दधिवाड़िया
श्यामलदास (३).

(१) इसवक्त इसको शिवपुर नहीं मिला था.

(२) यह अब प्रतापगढ़के वर्तमान महारावत हैं.

(३) इस समयतक कविराजाका खिताब नहीं मिला था.

खेमपुरका दधिवाड़िया औनाड़सिंह. भाट बरूतावर.
पाणेड़के बारहट दूलहसिंहका बेटा चतुर्भुज.

अह्लकार, पासवान व ढींकड़िया वगैरह.
(ब्राह्मण).

ब्रह्मचारी मथुरादास.	पुरोहित ऊँकारनाथ.
पुरोहित श्रीलाल.	पुरोहित सवाईलाल.
भट संपतराम मए अपने बेटेके.	कर्मान्त्री अमृतराम.
खवास विश्वनाथ मए अपने	ज्योतिषी जीवणराम.
पुत्र हीरालाल व शिवराजके.	पुरोहित अक्षयनाथ.
पांडे किशोरराय.	पाणेरी शिवलाल.
पाणेरी रत्नलाल.	पुरोहित सुन्दरनाथ मए अपने
पाणेरी गिरधरलाल.	पुत्र श्यामनाथके.
दुब्बे भानुदत्त.	भटमेवाड़ा काशीदत्त.
दुब्बे श्यामदत्त.	भट जगन्दत्त.
वैद्य नारायण भट मए अपने	पाणेरी गोपाल.
पुत्र गोवर्द्धनके.	

(धायभाई व ढींकड़िया).

धव्वा बदनमल्ल.	धायभाई गणेशलाल.
रंगलाल.	ऊमा.
ढींकड़िया तेजराम मए अपने	ढींकड़िया उदयराम मए अपने बेटे
बेटे नाथूलाल व जगन्नाथके.	गणेशलालके.
धायभाई एका.	ढींकड़िया चतुर्भुज.
ढींकड़िया राधाकृष्ण मए अपने	धायभाई अजीतसिंहका बेटा.
बेटे श्रीकृष्णके.	ढींकड़िया गोपाल.
पडियार रत्ताका बेटा.	

(कायस्थ).

पंचोली प्राणनाथ.	महासाणी रत्नलाल मए अपने बेटे
पंचोली अक्षयनाथ.	मोतीलालके.

महासाणी ब्रजलाल.
महासाणी दौलतसिंह.
सहीहवाला रामसिंह.
पंचोली फूलनाथ.
मुन्शी गुल्लू.
मुन्शी धनलाल.
मुन्शी मोडीराम.
राय विनोदीलाल.
पंचोली अक्षयचन्द.
पंचोली मथुरादास.
पंचोली गुमानसिंह.
पंचोली जालिमचन्द.

पंचोली श्यामनाथ.
पंचोली भोजनाथ मए अपने बेटे
जोरावर नाथके.
सहीहवाला बरूतावरसिंह.
सहीहवाला अर्जुनसिंह मए अपने
बेटे गुमानसिंहके.
पंचोली कुन्दनलाल.
पंचोली ऊँकारनाथ.
पंचोली नीमनाथ.
पंचोली गुमानचन्द.
पंचोली दलीचन्द.

(महाजन).

महता गोकुलचन्द मए अपने
बेटे विडलदासके.
कोठारी छगनलाल.
महता गोपालदास.
महता प्यारचन्द.
महता माधवसिंह.
महता फूलचन्द.
महता रघुनाथसिंहका पुत्र
माधवसिंह.

कोठारी केसरीसिंह.
महता(राय) पन्नालाल (१).
महता तरुतसिंह.
महता रघुनाथसिंह.
भंडारी शिवलाल.
कालू खिमेसरा.
चौधरी सर्दारसिंह.
साह जोरावरसिंह सूरणा.
वेणीराम बसर.

जेठी बड़ा गणेश.
कोठारी नाथू चावुकसवार.

जेठी छोटा गणेश.

(मुसल्मान).

मुल्ला किफायतअली.

(१) इसको राय व सी० आइ० ई० का खिताब पीछेसे मिला है.

यह फिहरिस्त हाजिरीके दारोगह मुन्शी मोडीरामके कागज़ोंसे और पुरोहित पद्मनाथकी तस्दीकसे लिखीगई है, जिसमें अजमेरके सफ़रमें साथ रहनेवाले तथा जनानी सवारीके साथ चित्तौड़के मक़ामपर हाजिर हुए वे सब लोग शामिल हैं.

चित्तौड़के मक़ामपर विक्रमी मार्गशीर्ष कृष्ण ९ [हि० ता० २३ शम्भुबान = .ई० ता० १७ नोवेम्बर] को बीकानेरसे महाराणा साहिबका मामा महाराज लालसिंह आया. महाराणा साहिबकी औरस माता बीकानेरी और दोनों महाराणी साहिबा भी चित्तौड़में आगई थीं; और महाराज शक्तिसिंहपर बागौरकी हक़दारीका दावा करनेसे महाराणा साहिब नाराज थे उनकी यहां नज़ लीगई. विक्रमी मार्गशीर्ष शुक्ल २ [हि० ता० ३० शम्भुबान = .ई० ता० २४ नोवेम्बर] को चित्तौड़से कूच करके सींगपुर, मातृकुंडियां व खाखलां होकर विक्रमी मार्गशीर्ष शुक्ल ७ [हि० ता० ५ रमज़ान = .ई० ता० २९ नोवेम्बर] को सर्दारगढ़ पहुंचे. ठाकुर मनोहरसिंहने मए जनानहके किलेमें पधराकर फौज सहित अच्छी तरह मिहमानीकी, और वहांसे विक्रमी मार्गशीर्ष शुक्ल ८ [हि० ता० ६ रमज़ान = .ई० ता० ३० नोवेम्बर] को सियाणे और विक्रमी मार्गशीर्ष शुक्ल ९ [हि० ता० ७ रमज़ान = .ई० ता० १ डिसेम्बर] को गढ़बोर पहुंचे. वहां चारभुजाकी भेट पूजा करके विक्रमी मार्गशीर्ष शुक्ल ११ [हि० ता० ९ रमज़ान = .ई० ता० ३ डिसेम्बर] को किले कुम्भलगढ़को तशरीफ़ लेगये. किलेको मुलाहज़ह करके दूसरे रोज़ वापस गढ़बोर आये; फिर देसूरीकी नालको मुलाहज़ह करके विक्रमी मार्गशीर्ष शुक्ल १४ [हि० ता० १२ रमज़ान = .ई० ता० ६ डिसेम्बर] को खरणोटे, और वहांसे कैलवे मक़ाम करके विक्रमी मार्गशीर्ष शुक्ल १५ [हि० ता० १४ रमज़ान = .ई० ता० ८ डिसेम्बर] को राजनगर पहुंचे, जहां विक्रमी पौष कृष्ण १ [हि० ता० १५ रमज़ान = .ई० ता० ९ डिसेम्बर] को राजसमुद्र तालाबकी पालपर जन्मोत्सवका जलसह हुआ. फिर कांकडोलीमें द्वारिकाधीशके दर्शन और तालाब वगैरहकी सैर करके विक्रमी पौष कृष्ण ५ [हि० ता० १९ रमज़ान = .ई० ता० १३ डिसेम्बर] को नाथद्वारामें मक़ाम हुआ. यहांपर गोवर्द्धननाथकी भेट पूजा हुई, और विक्रमी पौष कृष्ण ८ [हि० ता० २२ रमज़ान = .ई० ता० १६ डिसेम्बर] को कोठारिये और दूसरे दिन श्री एकलिंगेश्वर होकर विक्रमी पौष कृष्ण ११ [हि० ता० २४ रमज़ान = .ई० ता० १८ डिसेम्बर] को गोवर्द्धनविलास पधारे. करीब एक महीनातक ज्योतिषी लोगोंकी शोक टोकसे गोवर्द्धनविलास में रहना हुआ. इन लोगोंकी हरवक्तकी शोक टोकसे महाराणा साहिबने दिक् होकर मुभ (कविराजा श्यामलदास) को आज्ञा करके ज्योतिषके फलित ग्रन्थोंके

अनुसार शिवालिखितका पाना बनवाकर अपने लिखनेकी पेटीमें रखलिया, और उसीके अनुसार बर्ताव करते रहे, लेकिन फिर भी इन लोगोंकी सिद्धाईपर अमल करनाही पड़ता था. विक्रमी माघ कृष्ण १० [हि० ता० २४ शव्वाल = ई० १८७१ ता० १६ जैनुअरी] को ज्योतिषियोंके कथनानुसार महाराणा साहिबने राजधानी उदयपुर के महलोंमें प्रवेश किया.

विक्रमी फाल्गुन शुक्ल ३ [हि० ता० २ जिल्हिज = ई० ता० २२ फेब्रुअरी] को कोटाके महाराव शत्रुशाल शादी करनेको ईडर जातेवक्त उदयपुरमें आये. महाराणा साहिबने मए पोलिटिकल एजेण्ट निक्सन साहिब व दूसरे सर्दारोंके दो मीलतक पेशवाई की. महाराव साहिबने दोनों हाथसे और महाराणा साहिबने एक हाथसे सलाम किया, फिर बगलगीर हुए. इसके बाद महाराव शत्रुशाल पोलिटिकल एजेण्टसे दस्तापोशी करके महाराणा साहिबके सर्दारोंसे मिले. बाद इसके महाराणा साहिब तो महलोंमें पधारे और महाराव साहिब अपने डेरोंमें पहुंचे; उसवक्त उदयपुरके तोपखानहसे १७ तोपकी सलामी सर हुई. महाराणा साहिबकी तरफसे दस्तूरके मुवाफिक मिहमानदारी हुई. विक्रमी फाल्गुन शुक्ल ४ [हि० ता० ३ जिल्हिज = ई० ता० २३ फेब्रुअरी] के दिन शामके वक्त महाराव शत्रुशाल महाराणा साहिबकी मुलाकातको महलोंमें आये, और विक्रमी फाल्गुन शुक्ल ६ [हि० ता० ५ जिल्हिज = ई० ता० २५ फेब्रुअरी] को महाराणा साहिब उनके डेरोंमें पधारे और उसी दिन कूच करके महाराव साहिब ईडरकी तरफ गये. महाराव साहिबके लिये फौज समेत खाने पीनेकी सामग्री महाराणा साहिबके कोठारसे दिलाई गई. यह महाराव साहिब हरवक्त शरावके नशेमें चूर रहते थे.

इन दिनोंमें कोठारी केसरीसिंहकी तरफ महाराणा साहिबकी मिहर्बानी जियादह बढ़ती हुई देखकर चन्द आदमियोंने अधीशको यह लालच दिखाया, कि हुजूरका इरादह तीर्थ यात्रा करनेका है और राज्यकी आमदनी व खर्च बराबर है, इसलिये अहलकारोंसे दश पन्द्रह लाख रुपया एकट्ठा करलिया जावे. इसपर पेशतर कोठारी केसरीसिंह और छगनलालसे तीन लाख रुपयोंका रुक्का लिखवाया गया, और महता पन्नालालसे १२०००० का, इसी तरह दूसरे आदमियोंकी तरफ भी तज्वीज होरही थी. एक दिन मैं (कवि-राजा श्यामलदास) ने गुलाब वागमें एक हिन्दी कविताकी किताब महाराणा साहिबके पास इस मतलबसे पेश की, कि इसमें कवित्व अच्छे हैं. महाराणा साहिबको हिन्दी शाइरीका बड़ा शौक था. मैंने उस किताबमें एक पत्र इस मज्मूनका लिखकर रख-
दिया था, कि कुल रियासती आदमियोंसे एक साथ रुपया वसूल करनेमें वायवैला

और हुजूरकी बड़ी बदनामीका बाइस होगा. मुझको एक तरफ़ लेजाकर फ़र्माया, कि तुम मौकेपर ऐसी अर्ज बेखौफ़ करदिया करो. दूसरे ही रोज़ पोलिटिकल एजेण्ट कर्नेल् निक्सनने भी वैसीही सलाह दी, जैसी मैंने अर्ज की थी. वह रुपया वुसूल करने का काम बन्द कियागया, और थोड़े ही अरसेके बाद कोठारी केसरीसिंह व छगनलाल को १ लाख और महता पन्नालालको अस्सी हजार रुपये छोड़े गये, और केसरीसिंहकी तरफ़ दिन बदिन मिहर्बानी बढ़ने लगी.

विक्रमी १९२८ आषाढ कृष्ण ९ [हि० १२८८ ता० २२ रबीउलअव्वल = .ई० ता० ११ जून] को कोठारी केसरीसिंहकी निगरानीमें कोठारी छगनलाल, महता गोपालदास, साह जोरावरसिंह सूरणा, महता जालिमसिंह, कायस्थ राय सोहनलाल, कायस्थ मथुरादास, ठीकड़िया उदयराम और भंडारी केवलराम इन आठ आदमियोंके सुपुर्द मुल्की व कारखाने-जातका काम कियागया. इस समयतक महकमह खासका काम पूरी हालतपर नहीं पहुंचा था, लेकिन महता पन्नालालकी होश्यारीसे दिन ब दिन तरकीपर था, और जबानी कार्रवाई कमजोर होती जाती थी. इसी वक्तसे इन्तिजामी हालतका प्रारम्भ समझना चाहिये. महाराणा साहिबकी दिली रूवाहिश थी, कि मेवाड़में अनाज बांटलेने (लाटा या कूता) का रवाज बन्द होजावे और किसानोंसे ठेकाबन्दी होकर नक़्द रुपया मुक़रर करदियाजावे, लेकिन यह काम कुल रियासती अहलकारोंके मन्शाके विरुद्ध था, इसलिये महाराणा साहिबने अपना दिली मन्शा कोठारी केसरीसिंहसे जाहिर करके यह काम उसके सुपुर्द किया. उक्त कोठारीने बड़ी तनूदिही और अक्लमन्दीके साथ गुज़रे हुए दस वर्षका औसत निकालकर कुल मेवाड़में ठेका बांधदिया. अव्वल तो कोठारी केसरीसिंह तजर्वहकार, खैररूवाह, रोबदार और अक्लमन्द आदमी था, दूसरे महकमह खासका अपसर उसके भाईका दामाद महता पन्नालाल और कोठारी छगनलाल वगैरह उसके बनाये हुए अहलकार मददगार होगये, जिससे यह काम अच्छी तरह चलगया, लेकिन ऐसे आदमीकी कारगुजारीमें बखेड़ा डालने-वाले आदमी भी मौजूद थे, तोभी उसने ठेकेके बन्दोबस्तमें खलल न आने दिया, मालिक की मिहर्बानी उसके नेक चाल चलनके सबब बढ़ती गई, परन्तु ईश्वरने उसकी जिन्दगी इसी विक्रमी के फाल्गुन कृष्ण ३ [हि० ता० १७ जिल्हिज = .ई० १८७२ ता० २७ फ़ेब्रुअरी] में खत्म करदी. उसका बांधा हुआ माली बन्दोबस्त उसकी अदम मौजूदगीमें भी ४ वर्षतक चलतारहा. उसके बाद मालके बन्दोबस्तके मददगार महता राय पन्नालाल व कोठारी छगनलाल थे. अफीमका महसूल और निकास भी पेइतर बेतर्तीब व पुराने ढंगपर था, जिसकी दुरुस्ती पोलिटिकल एजेण्टकी सलाहसे महाराणा साहिबने उदयपुरमें कांटा काइम करके की. कुल मेवाड़की अफीम उदयपुरमें होकर खैरवाड़ाके रास्ते अहमदाबादको

जानेलगी. इस बन्दोवस्तमें महता पन्नालाल और ओपिअम एजेण्ट इंगल्स साहिबने अच्छी कोशिश की. विक्रमी आषाढ़ शुक्ल ७ [हि० ता० ६ रबीउस्सानी = ई० १८७१ ता० २५ जून] को शाहपुराके रामस्नेही साधु महन्त हिम्मतराम आये, जिनको महाराणा साहिब ग्राम भुवाणातक पेशवाई करके उदयपुरमें लेआये, वह नवलखा बागके महलोंमें ठहरे, और इन्हीं दिनोंमें महाराणा साहिबके हकीकी मामा लालसिंह और उनके पुत्र डूंगरसिंह रुखसत होकर बीकानेरकी तरफ़ रवाना हुए. महाराणा साहिबका श्वशुर बांसवाड़ा के जिले गढ़ीका जागीरदार चहुवान रत्नसिंह जो कुछ अरसहसे उदयपुरमें आया हुआ था, उसने विक्रमी प्रथम भाद्रपद कृष्ण ९ [हि० ता० २१ जमादियुलअव्वल = ई० ता० ९ अगस्त] को महाराणा साहिबको दावत दी. महाराणा साहिबने भी उसे रावकी पदवी, ताजीम, बांहपसाव और रुखसती पानका बीड़ा इनायत करके उसकी इज़त बढ़ाई, जो पहिले गढ़ीवालोंको मुयस्सर नहीं हुई थी. विक्रमी कार्तिक कृष्ण ३ [हि० ता० १६ शअ्वान = ई० ता० ३१ अक्टोबर] को महाराणा साहिब मए कुल जनानी सवारी और सर्दार व पासवानोंके धव्वा बदनमल्लकी हवेलीपर मिहमान हुए. यह जल्सह बड़ी धूम मधाके साथ हुआ, और महाराणा साहिब पांच दिनतक उसके मकानपर रहे. विक्रमी कार्तिक शुक्ल १२ [हि० ता० ९ रमज़ान = ई० ता० २३ नोवेम्बर] को शाहपुराके राजाधिराज नाहरसिंह लक्ष्मणसिंहोतके तलवार बंधी. विक्रमी मार्गशीर्ष कृष्ण ७ [हि० ता० २० रमज़ान = ई० ता० ४ डिसेम्बर] को एजेण्ट गवर्नर जेनरल राजपूतानह कर्नेल् ब्रूक साहिब उदयपुर आये, और विक्रमी मार्गशीर्ष कृष्ण ९ [हि० ता० २२ रमज़ान = ई० ता० ६ डिसेम्बर] को शामके वक्त महलोंके बड़े चौकमें आम दर्बार हुआ. महाराणा साहिब चांदीके सुनहरी कामवाले बड़े सिंहासनपर और उनकी दाहिनी तरफ़ कर्नेल् ब्रूक वगैरह २० अंग्रेज़, जिनके बाद गैर रियासतोंके वकील, और बाई तरफ़ मेवाड़के सर्दार और सामने भी मेवाड़के बड़े सर्दारोंमेंसे और पीछेको बड़े बड़े अहलकार कुर्सियोंपर मौजूद थे. फिर कर्नेल् ब्रूकने अव्वल दरजहका ग्रैण्ड कमाण्डर ऑफ़ दि स्टार ऑफ़ इंडियाका तमगृह वगलेका हार वगैरह पहिनाकर कपड़ेके भंडेमें महाराणा साहिबको वह चिन्ह दिया, कि जिसमें एक तरफ़ क्षत्री और एक तरफ़ भील जिनके बीचमें सूर्यके आकारके ऊपर एकलिंगेश्वरकी मूर्ति वगैरह और नीचे दोहाके दो पद (जो दृढ़ रखे धर्मकों तिहिं रखे करतार) थे. इस के बाद लॉर्ड मेयो गवर्नर जेनरल हिन्दके खरीतेका तर्जमह पढ़ा गया, फिर दर्बार बर्खास्त हुआ. इस तमगेके बारेमें चन्द महीनों पहिले खानगी तौरपर बहुत कुछ बहस हुई थी, और महाराणा साहिबकी तरफ़से पोलिटिकल एजेण्टकी मारिफ़त उज़्र हुआ था, कि

इस रियासतके मालिक जमानह कदीमसे हिन्दवा सूरज कहलाते हैं, जिनको स्टारकी जरूरत नहीं है. हम बिदून स्टार मिलनेके ही गवर्मेण्ट अंग्रेजीकी मिहर्बानियोंके शुक्रगुजार हैं, जिसपर लॉर्ड मेयोकी तरफसे जवाब मिला, कि हमारे मुल्कमें बराबरी वाले बादशाह बादशाहोंके लिये तमगह भेजते हैं, और वे उसको बड़ी इज्जतका वाइस समझते हैं, इसलिये आपको भी दूसरा खयाल न करना चाहिये. तब महाराणा साहिबने कहा, कि अगर गवर्मेण्टकी यही मर्जी है, तो हमारे लिये तमगह उदयपुरमें भेजदेवें. लॉर्ड मेयोने यह बात कुबूल करके कर्नेल् ब्रूकके साथ यह तमगह भेजदिया.

विक्रमी फाल्गुन कृष्ण १ [हि० ता० १५ जिल्हिज = ई० १८७२ ता० २५ फेब्रुअरी] को शिवरतीके महाराज गजसिंहकी बाईका विवाह हुआ, और महाराणा साहिब उनकी हवेलीपर हथलेवा छुड़ानेके लिये गये. विक्रमी १९२९ वैशाख शुक्ल ९ [हि० १२८९ ता० ८ रबीउलअव्वल = ई० ता० १७ मई] को लक्ष्मणकी समाप्ति नये महलोंमें हुई. इस कार्यमें ब्रह्मचारी मथुरादासकी सलाहसे हजारों रुपया खर्च हुआ. अखीरमें दूसरे मुखालिफ ब्राह्मणोंने मथुरादासपर यह दावा किया, कि यह पूर्णाहुती और कुण्ड व मण्डप शास्त्रके अनुसार नहीं हुए, इसलिये शान्ति होनी चाहिये. इस बहसमें मुझ (कविराजा श्यामलदास) को महाराणा साहिबने पंच ठहराया. आखरकार कुण्डके बनानेमें शलती पाई गई. महाराणा साहिबने खानगी तौरपर शान्ति करवाई. इसी तरह मथुरादासने कर्मान्तरी अमृताराम वगैरहका कुसूर दिखलानेके लिये भाद्रपद शुक्ल १५ के दिन महालय श्राद्ध करना अनुचित बतलाया. दोनों तरफसे सुबूत पेश हुए, अन्तमें मथुरादासका दावा खारिज रहा. उन दिनों ब्राह्मणोंमें आपसकी असूयाके कारण इस किरमके कई मुकदमे पेश होते थे.

इन्हीं दिनोंमें लांबा और रूपाहेलीका मुकदमह खत्म हुआ, जिसका हाल इस-तरहपर है, कि बदनौरके भाइयोंमें रूपाहेली और लांबा दो ठिकाने महाराणा साहिबके जागीरदार हैं. रूपाहेलीके गांव तस्वारिया और लांबाकी सईदपर लांबाके जागीरदार बाघसिंहने एक तालाब बनवाकर उसमें पानी लानेको कुछ दूरतक खाई खुदवाई, जिसपर रूपाहेलीवाले जमइयत लेकर उस खाईको तोड़ने गये. उधर लांबावाले भी आपहुंचे; लांबाके जागीरदारका बेटा बहादुरसिंह, उसका भाई लक्ष्मणसिंह, हमीरसिंह, और जिले अजमेर न्यारांका गौड़ बिड़दसिंह, ४ आदमी मारेगये, और रूपाहेलीकी तरफ छोटी रूपाहेलीके जागीरदारका भाई और दूसरे दो आदमी मारेजानेके अलावह तरफैनेके चन्द आदमी जख्मी हुए. यह लड़ाई विक्रमी १९१२ [हि० १२७२ = ई० १८५५] में हुई थी. सर्दारोंकी मुखालफतके सबब इस मुकदमेकी

शिकायत पोलिटिकल एजेण्ट कर्नेल् लॉरेन्स साहिबके पास पहुंची. बदनौरका ठाकुर प्रताप-सिंह बाघसिंहका मददगार था, उसकी पैरवीसे कर्नेल् लॉरेन्सने दोनों जागीरदारोंको तो यह जवाब दिया, कि इस मुकद्दमहमें हम दस्तन्दाजी नहीं करसके, तुम लोग महाराणा साहिबके पास जाओ; लेकिन रियासतमें अपनी राय यह लिख भेजी, कि रूपाहेली वालोंकी ज़ियादती है इसलिये गांव तस्वारिया खूनके एवज़ बाघसिंहको दिलाया जावे. यह मुकद्दमह कई वर्षोंतक चलता रहा. बाद इसके तस्वारिया और लांबाकी संहदका मुकद्दमह तो अंग्रेजी अफसरोंकी मारिफ़त तय होगया, लेकिन मूंडकटीका मुकद्दमह बाकी रहा. बाघसिंहकी तरफसे पैरवी होती रही. आखरकार कर्नेल् ब्रूककी सिफ़ारिशसे यह मुकद्दमह महाराणा साहिबने पंचायतके सुपुर्द किया, जिसमें बेदलाका राव बख्तसिंह, भींडरके महाराजका पुत्र मदनसिंह, महता ज़ालिमसिंह रामसिंहोत, कोठारी छगनलाल, बख्शी मथुरादास, और ढाँकड़िया उदयराम थे. विक्रमी १९२८ चैत्र कृष्ण ६ [हि० १२८९ ता० २० मुहर्म्म = .ई० १८७२ ता० ३० मार्च] को पंचायतने यह फैसलह किया, कि बन्दूक तो पेशतर लांबाकी तरफसे चली, लेकिन तालाबकी खाई तोड़नेमें पेशकदमी रूपाहेलीकी है, और लांबाके ४ आदमी मुञ्जज्ज मारेगये, इसलिये ग्राम तस्वारिया मूंडकटीमें रूपाहेलीसे लांबाको दिलाया जावे. इस फैसलेकी तामीलके लिये महकमहखाससे कई ताकीदें हुईं, लेकिन रूपाहेली वालोंने तामील नहीं की. तब उदयपुरसे दो तोप, भीम पलटन, स्वरूप पलटन और शम्भु पलटनके निशान और रिसालह वगैरह सवार और जहाजपुर, मांडलगढ़ वगैरहकी सर्कारी जम्झयतें मए महता गोकुलचन्दके भेजी गईं, और देवगढ़, बदनौर, आसींद, भैंसरोड़, शाहपुरा, भगवानपुरा, दौलतगढ़ और संग्रामगढ़ वगैरह सर्दारोंकी जम्झयतें भी फ़ौजके शामिल हुईं. विक्रमी १९२९ वैशाख शुक्ल ८ [हि० १२८९ ता० ६ रबीउल्अव्वल = .ई० १८७२ ता० १५ मई] को महता गोकुलचन्दने फ़ौज लेकर गांव तस्वारियापर कबज़ह करलिया; चन्द आदमी मुकाबलह करनेवाले वहां थे, वे रूपाहेली चलेगये. विक्रमी १९१२ [हि० १२७२ = .ई० १८५५] में लड़ाई हुई, तब रूपाहेलीका जागीरदार सवाईसिंह था, वह महाराणा स्वरूपसिंहके सामने गुज़रगया. उसका बेटा बलवन्तसिंह उज़्र करता रहा, वह भी विक्रमी १९२८ आश्विन कृष्ण १३ [हि० १२८८ ता० २६ रजब = .ई० १८७१ ता० १२ ऑक्टोबर] को मर-गया, उसका एक कम उम्र लड़का चत्रसिंह इसवक्त रूपाहेलीका जागीरदार था, जिसकी मा और उसके चचा लालसिंह व माधवसिंहने फ़ौज खर्च देकर यह गुज़ारिश की, कि गांव तस्वारिया ख़ालिसहमें रहनेसे तो हमको कुछ उज़्र नहीं, लेकिन लांबा

वालोंको न मिले. महाराणा साहिबने भी उस बच्चे जागीरदारकी अर्जपर लिहाज करके फौज खर्च लेनेके बाद तस्वारिया खालिसहमें रक्खा.

विक्रमी १९२९ ज्येष्ठ कृष्ण ९ [हि० १२८९ ता० २२ रबीउलअव्वल = .ई० १८७२ ता० ३१ मई] को महाराणा स्वरूपसिंहकी महाराणी मेड़तणीने कोठारी केसरीसिंहकी हवेलीके करीब बाजारमें विष्णु (अभयस्वरूपबिहारी) का मन्दिर और बावड़ी तय्यार करवाई, जिसकी प्रतिष्ठा हुई. इन्हीं दिनोंमें बीकानेरके महाराजा सर्दारसिंह गुजरगये, जिनकी खबर आनेपर विक्रमी ज्येष्ठ कृष्ण १२ [हि० ता० २५ रबीउलअव्वल = .ई० ता० ३ जून] को मातमी दर्बार हुआ. उक्त महाराजाके कोई औलाद न थी, इसलिये चन्द हकदारोंने वारिस बननेके लिये गवर्मेण्ट अंग्रेजीमें दरखास्तें पेश कीं. महाराणा साहिबने अपने मामा लालसिंहके बेटे डूंगरसिंहको, जो हकदार भी था मुतबन्ना करार दियेजानेके मत्लबसे कर्नेल् ब्रूकके नाम सिफारिशी चिट्ठी लिखी और सहीहवाले अर्जुनसिंहको आबूपर भेजा. इस मददका बहुत अच्छा असर हुआ, और डूंगरसिंह बीकानेरकी गद्दीपर विठायामया. इस इहसानमन्दीके शुक्रियहमें मामा लालसिंह और महाराज डूंगरसिंहने एक पत्र महाराणा साहिबको लिखभेजा, जिसका मत्लब यह है, कि हमको आपके तुफैलसे बीकानेरका राज्य मिला है. वह अस्ल पत्र महाराणा साहिबकी खास पेट्टीमें मौजूद है. हकीकतमें इस सिफारिशका गवर्मेण्ट अंग्रेजीने बहुत लिहाज रक्खा और सहीहवाले अर्जुनसिंहको इस खिन्नतकी नेकनामी मिली.

विक्रमी आश्विन शुक्ल ४ [हि० ता० २ शरबान = ई० ता० ६ अक्टोबर] को पोलिटिकल एजेण्ट कर्नेल् निकसन विलायत जानेकी रुखसती मुलाकात करनेके लिये महाराणा साहिबके पास आये, और दूसरे दिन रवानह होगये. विक्रमी कार्तिक शुक्ल १३ [हि० ता० ११ रमजान = .ई० ता० १३ नोवेम्बर] को झालरापाटणके महाराजराणा पृथ्वीसिंह नाथद्वारेकी यात्रा करते हुए उदयपुर आये. महाराणा साहिब उन्हें पेशवाई कर लेआये, १५ तोपकी सलामी उदयपुरके तोपखानहसे सर हुई. विक्रमी कार्तिक शुक्ल १४ [हि० ता० १२ रमजान = .ई० ता० १४ नोवेम्बर] को महाराजराणा महलोंमें महाराणा साहिबकी मुलाकातके लिये आये, जिनको ११ किश्तियोंमें खिल्अत और १ हाथी व २ घोड़े दियेगये. विक्रमी कार्तिक शुक्ल १५ [हि० ता० १३ रमजान = ई० ता० १५ नोवेम्बर] को महाराजराणाके डेरोंमें महाराणा साहिब तशरीफ लेगये. उन्होंने हाथी, घोड़े, जेवर, वस्त्र और शस्त्र वगैरह कई चीजें पेश कीं. इसके बाद चन्द खानगी मुलाकातें व शिकार वगैरह हुई, और विक्रमी मार्गशीर्ष कृष्ण १३ [हि० ता० २६ रमजान = ई० ता० २८ नोवेम्बर] को वह अपनी रियासतकी तरफ रवानह होगये.

विक्रमी मार्गशीर्ष शुक्ल ३ [हि० ता० १ शव्वाल = ई० ता० ३ डिसेम्बर] को खैरवाड़ाके फ़र्स्ट असिस्टेंट मेकीसन साहिब मेवाड़के काइमकाम पोलिटिकल एजेण्ट होकर उदयपुर आये. विक्रमी पौष कृष्ण १० [हि० ता० २३ शव्वाल = ई० ता० २५ डिसेम्बर] को कर्नेल् हैचिन्सन साहिब मेवाड़के काइमकाम पोलिटिकल एजेण्ट होकर आये. इसवक्त महाराणा साहिब नाहरमगरेमें थे, उसी जगह मुलाकात हुई. दूसरे रोज उक्त साहिब उदयपुर चले आये. विक्रमी फाल्गुन शुक्ल २ [हि० ता० २९ जिल्हिनज = ई० १८७३ ता० २८ फ़ेब्रुअरी] को जोधपुरके महाराजा तरुतसिंहके गुजरजानेकी खबर मिलनेपर महाराणा साहिबने मातमी दर्बार किया. विक्रमी १९३० आषाढ कृष्ण १ [हि० ता० १५ रबीउस्सानी = ई० ता० ११ जून] को एक अंग्रेजने महलोंके चौकमें औंधेसिर लटककर दांतोंमें रस्सोंके सहारे तोपको पकड़ चलानेका तमाशह दिखलाया. महाराणा साहिब मए पोलिटिकल एजेण्टके स्वरूपविलासमें बैठे देखरहे थे, और बहुतसे लोग चौकमें जमा थे; बारूद जियादह भरनेसे तोप फट गई जिसके टुकड़ोंकी चोटसे एक आदमी जानसे मरा और चन्द जख्मी हुए; अगर्चि तोपके टुकड़े दूर दूरतक गये, लेकिन महाराणा साहिबकी तरफ खैरियत रही.

शम्भुनिवासका महल तो पेशतर टेलर साहिबकी निगरानीमें तय्यार होगया था, लेकिन उसको बढाकर दक्षिणी तरफ दोमन्जिला महल फिर बनवाया गया, जिसका उत्सव और वास्तु मुहूर्त विक्रमी श्रावण कृष्ण ८ [हि० ता० २१ जमादियुल्अव्वल = ई० ता० १७ जुलाई] को हुआ. इस वक्त बहुत अच्छा जल्सह किया गया था. यह शम्भुनिवासका दक्षिणी हिस्सह डॉक्टर कनिङ्घम साहिबकी निगरानीमें तय्यार हुआ. इस जल्सहमें महता राय पन्नालालको पैरमें सोनेके लंगर, साह अम्बाव मुरड्याको मोतियोंकी माला और गांव, महासाणी रत्नलालको बैठक, तथा बाकी सर्दार, चारण, पासवान, और गजधर वगैरह सैकड़ों आदमियोंको जेवर, सरोपाव व हाथी वगैरह इन्आममें मिले. इस जल्सहमें मुझे (कविराजा श्यामलदास) को एक उम्दह सरोपाव और हाथकी सुवर्णमयी पहुंचियां इनायत हुई थीं. इसी सालमें कर्नेल् हैचिन्सन साहिबकी सलाहके मुताबिक स्टाम्प और रेजिस्टरीका काइदह मुकरर हुआ, और साहिबकी मारिफत बनारसका रहनेवाला मुन्शी मुहम्मद कुद्वतुल्लाह बुलाया जाकर विक्रमी भाद्रपद कृष्ण १ [हि० ता० १५ जमादियुस्सानी = ई० ता० ९ अगस्ट] को यह (रेजिस्टरी और स्टाम्पका) महकमह काइम हुआ; और इन्हीं दिनोंमें उक्त साहिबकी सलाहके मुताबिक एक महकमह तवारीखका भी काइम किया गया, जिसमें पेशतर तो वस्शी मथुरादास और ढांकड़िया उदयराम वगैरह लोग भरती हुए, लेकिन काम नहीं

चलनेके सबब यह महकमह मेरे (कविराजा श्यामलदास) और पुरोहित पद्मनाथके सुपुर्द किया गया और कुछ काम भी जारी होगया था, परन्तु पेशतर ऐसा काम हम लोगोंने कभी नहीं किया था; इस नातजर्बहकारीके सबब बगैर पूरा सामान एकट्टा करनेके कामका प्रारम्भ करदिया, और थोड़ेही अरसहके बाद महाराणा साहिबका भी परलोक वास होगया, इत्यादि कई कारणोंसे यह महकमह टूटगया, लेकिन मैं अपने तौरपर इस कामका सामान एकट्टा करनेसे न रुका, जो मुझको इस तवारीखके प्रारम्भ समयमें बहुत उपयोगी हुआ.

विक्रमी आश्विन शुक्ल १५ [हि० ता० १३ शरब्बान = .ई० ता० ६ अक्टोबर] को महाराणा साहिब उदयपुरसे खानह होकर मए ज़नानी सवारीके एकलिंगेश्वरकी पुरी, देलवाड़ा, पलाणा, राजनगर और कैलवे मक़ाम करके विक्रमी कार्तिक कृष्ण ६ [हि० ता० १८ शरब्बान = .ई० ता० ११ अक्टोबर] को गढ़बोर पहुंचे, और विक्रमी कार्तिक कृष्ण ९ [हि० ता० २१ शरब्बान = .ई० ता० १४ अक्टोबर] को वहांसे लौटकर कैलवे, देपुर और नाहरमगरे होते हुए विक्रमी कार्तिक शुक्ल २ [हि० ता० १ रमज़ान = .ई० ता० २३ अक्टोबर] को उदयपुरमें दाखिल होगये. विक्रमी फाल्गुन शुक्ल ७ [हि० १२९१ ता० ५ मुहर्रम = ई० १८७४ ता० २३ फ़ेब्रुअरी] को शाहपुराके रामस्नेही महन्त हिम्मतराम अपनी सम्प्रदायकी रीतिका फूलडौल (१) करनेके लिये उदयपुरमें आये. महाराणा साहिब उनको पेशतरके मुवाफ़िक़ पेशवाई कर नौलराके बाग़में लेआये. विक्रमी फाल्गुन शुक्ल १४ [हि० ता० १२ मुहर्रम = .ई० ता० २ मार्च] को एजेण्ट गवर्नर जेनरल राजपूतानह कर्नेल् पेली उदयपुर आये. महाराणा साहिब मए पोलिटिकल एजेण्ट हैचिन्सन और अपने सर्दारोंके मामूली पेशवाई करके उनको लेआये और दूसरे रोज़ शामको वह वापस खानह होगये. विक्रमी चैत्र कृष्ण ३ [हि० ता० १६ मुहर्रम = .ई० ता० ६ मार्च] को पोलिटिकल एजेण्ट मेवाड़ कर्नेल् हैचिन्सन लुट्टीपर विलायत गये. विक्रमी १९३१ चैत्र शुक्ल ७ [हि० ता० ५ सफ़र = .ई० ता० २४ मार्च] को मेजर ब्राडफ़ोर्ड काइममक़ाम पोलिटिकल एजेण्ट होकर खैरवाड़ाके रास्ते उदयपुर आये.

विक्रमी वैशाख शुक्ल ७ [हि० ता० ६ रबीउल्अव्वल = .ई० ता० २३ एप्रिल]

(१) शाहपुराके रामस्नेही साधु होलीके दूसरे दिन फूलडौलका उत्सव मानते हैं. इस उत्सव पर दूर दूरसे रामद्वारोंके रामस्नेही साधु आकर अपने महन्तको हाज़िरी देते हैं, और उनको माननेवाले हज़ारों यात्री भी दर्शन करनेको आते हैं. यह जल्सह हर साल शाहपुरेमें होता है, लेकिन इस वर्षका उत्सव महाराणा साहिबकी इच्छानुसार उदयपुरमें किया गया.

को महाराणा साहिबकी औरस माता (बागौरके कुंवर शार्दूलसिंहकी पत्नी) नन्दकुंवरने ठाकुर श्री गोकुलचन्द्रमाका मन्दिर महलोंके करीब बनवाया, जिसकी प्रतिष्ठा बड़ी धूमधामके साथ हुई. यह वल्लभकुलकी सेवाके ठाकुर हैं. इस प्रतिष्ठामें हजारों रुपये इन्नाम, इक्राम व भोजन वगैरहमें खर्च हुए. सदाँर, चारण, पासवान, अहलकार, मन्दिरके तअल्लुकदार और गजधर वगैरह लोगोंको हजारों रुपयेका जेवर, वस्त्र व हाथी, घोड़े इन्नाममें मिले. मुझ (कविराजा श्यामलदास) को भी मोतियों की माला, सर्पेच, उम्दह खिल्अत और हाथी मिला था. यह हाल विस्तारके भयसे अधिक नहीं लिखागया है. विक्रमी प्रथम आषाढ़ कृष्ण १० [हि० ता० २३ रबीउरसानी = .ई० ता० ९ जून] को काइमकाम पोलिटिकल एजेण्ट मेवाड़ मेजर ब्राडफोर्ड साहिब रुस्तपर गये, और विक्रमी प्रथम आषाढ़ शुक्ल ४ [हि० ता० ३ जमादियुलअव्वल = .ई० ता० १८ जून] को उनकी जगह कर्नेल् राइट साहिब आये.

अब हम फिर गुजरे हुए दो वर्षकी पोलिटिकल एजेण्ट मेवाड़ हैचिन्सन और ब्राडफोर्डकी रिपोर्टका शेष हाल पूरा करते हैं:—

पहिली रिपोर्ट .ईसवी १८७२-७३ [वि० १९२९ = हि० १२८९-९०] की जिसमें ५५०५ पेटियां अफीमकी कांटेपर चढ़ीं, जिससे साइरमें बहुत फ़ायदह हुआ; और १००००० एक लाख यात्री और १००० गाड़ियोंकी आमदोरफ़्त खैरवाड़ाकी सड़कपर हुई. यह सड़क टॉमस विलिअम साहिबकी निगरानी और मिह्नतसे खैरवाड़ाके करीब पहुंचगई है. इस सड़कपर मज़दूरीका काम भी लोगोंसे लियागया है, और हरएक गमेती अपनी अपनी पालकी हदमें उसी पालके आदमीसे काम लियेजानेका दावा करते हैं. और मालका इन्तिजाम १० वर्षका औसत देखकर गांववार लगानपर लगाया गया है, और दरबार इस इन्तिजामसे अपने मुल्कका फ़ायदह समझते हैं, लेकिन मुझको इस बातका डर है, कि अहलकार लोग इस बातमें बखेड़ा डालेंगे जो लाटा कूताको पसन्द करते हैं; और दूसरी दिक्कत यह है, कि कामदार लोग बन्दोबस्तके कामसे वाकिफ़ नहीं हैं.

फौजदारी जुर्म इस सालमें बहुत हुए, जिससे मालूम होता है, कि जान व माल की हिफ़ाजत नहीं होती. इस सालमें ८७ डकैतियां ग्रामोंपर हुईं, जिससे १२७२३५) रुपयोंका माल गया; ८९ धाड़े रास्तोंपर हुए, जिससे ५८१२५) रुपयोंका माल ग़ारत हुआ; और ६० खून हुए, और ९१ मुक़द्दमे खुद कुशीके दाइर हुए (और पिछले सालके मिलाकर) ११३ मुक़द्दमोंमेंसे २५ मर्दोंके, ८८ औरतोंके, जिन्होंने डूबकर या अफीम खाकर जानें दीं.

महाराणा साहिबने हालमें फौजदारी और पुलिसका भी उम्दह इन्तिजाम किया है. कुल मेवाड़के ७ हल्के करके, उनमेंसे पांचपर एक पुलिस मैजिस्ट्रेट (नाइब फौजदार) मुकर्रर किया, जिसकी १५०, रुपया माहवार तन्स्वाह करदी, और पुलिसमें नये आदमी बढ़ाये गये, थानेदारोंकी तन्स्वाह भी बढ़ाकर रु० ३०, माहवार की गई. ताजीरातहिन्द और जाबितह क़ानून फौजदारीके मुवाफिक़ कार्रवाई शुरू हुई, और फौजदारी व पुलिसके अप्सर मुन्शी सामिनअलीखांके मातहत कियेगये हैं, जिसको कि दर्बारे ख़ास इसी कामकी दुरुस्तीके लिये फिर मुकर्रर किया है; और दो जिले याने छठा जहाज़पुर व सातवां मगरा (जिला खैरवाड़ा), इनके इन्तिजाममें अभी कोई फ़र्क़ नहीं होगा. यह इन्तिजाम सब ख़ालिसहके लिये जानना चाहिये. मेवाड़के सर्दार अपनेको खुद मुख्तार जानकर मुक़दमोंका जवाब भी देरमें देते हैं, जिससे बड़ी दिक्कत रहती है, और नाथद्वाराके गोस्वामीने भी सर्दारोंकी देखादेखी दर्बारे खुद मुख्तार होना चाहा. ईसवी १८७१ [वि० १९२८ = हि० १२८८] में उनपर फौज भेजी गई, लेकिन बिदून दर्बारेकी हुकूमत क़ाइम किये वापस बुलालीगई, और ईसवी १८७२ फ़ेब्रुअरी [वि० १९२८ माघ = हि० १२८८ जिलिहज] में भींडरके कुंवरकी खिदमत के एवज़ उनके बाप महाराज हमीरसिंहको घाणेरवाकी बैठक दी गई, इससे दूसरे सर्दार नाराज़ हुए और भींडरके नीचे बैठनेसे इन्कार किया, लेकिन दशहरेपर सब लोग आये, और भींडर महाराजको हिदायत होगई, कि वे दर्बारेमें न आवें (१) . मोघिया व बावरियांका सरूत बन्दोबस्त किया गया, जो तकलीफ़ देनेवाली कौमें हैं. बहुतेरोंके शस्त्र और ऊंट लेकर ज़मानत तलब कीगई, और जिन्होंने ज़मानत नहीं दी उनको जेलखानह में भेजदिया. टोंक वालोंने अपने इलाके नीवाहेड़ासे उनको एकदम निकालदिया. साहिब लिखते हैं, कि इस वे रहम कौमका ऐसा बन्दोबस्त होना चाहिये, कि जैसा अगले ज़मानहमें ठगोंका हुआ था. इनको निगरानीमें रखकर ऐसा काम लियाजावे, जिसकी आमदनीसे इनका मए कुटुम्बके गुज़ारा चले, वरनह एक जिलेसे निकालनेपर दूसरे जिलेको तकलीफ़ देंगे. और डाकका इन्तिजाम अच्छा रहा.

जूनसे ऑगस्टतक शहर उदयपुरमें हैजेका जोर रहा, जिसमें ३३१ आदमी मरे, और पानीकी कमीका बन्दोबस्त करनेके लिये उदयसागरसे पीछोलेको भरना

(१) इस बातके कई सुबूत हैं, कि महाराणा साहिब चाहे जिसको सर्दारोंकी लाइनमें बैठक देसके हैं. ख़ास इन महाराणा साहिबने आमेटकी बैठक अमरसिंहको दी, जिसका बर्ताव सब सर्दार करते हैं. यह उज़ आपसकी अदावतसे हुआ, जिसका ज़िक्र हम आगे लिखेंगे.

चाहिये, लेकिन इसके लिये अच्छा इन्जिनियर दफ्तार है. सफाईके जारी करनेमें यहांके बड़े आदमियोंके हर्ज डालनेसे दिक्कत पड़ती है. इन्हीं लोगोंने .ईसवी १८७० [वि० १९२७ = हि० १२८७] की मर्दुमशुमारीमें भी खलल डाला था.

मेयो कॉलिजमें मेवाड़के लड़कोंके रहनेको महाराणा साहिबने बोर्डिंग हाउस बनानेके लिये ३६०००, रुपये दिये.

जावरमें सीसेकी खान जो बहुत वर्षोंसे बन्द थी, जिसका महाराणा साहिबने प्रोफेसर बुशलको भेजकर अपने देशकी उन्नतिके लिये कारखानह जारी किया.



मेजर ई० आर० सी० ब्राडफोर्ड काइमकाम पोलिटिकल
एजेण्ट मेवाड़की दूसरी रिपोर्ट बाबत सन् १८७३-७४ ई०

साहिब लिखते हैं, कि इस सालके मुल्की इन्तिजाममें कोई अदला बदली नहीं हुई, और दबार् सब काम खुद देखते हैं, और उनके पास महकमहखासका मुन्शी (महता राय पन्नालाल) रहता है, वही सब कागज़ोंको पेश करके हुक्म चढ़ाता है; और यह शरूख कोठारी केसरीसिंहका रिश्तहदार है, कि जो दो दफ्ता प्रधानेके कामपर मुक़रर हुआ था, और वह (कोठारी केसरीसिंह) .ईसवी १८७२ [वि० १९२८ = हि० १२८९] में मरगया. उसने अपने मरनेसे कुछ अरसह पहिले इस्तेफ़ा देदिया था, उसवक्तसे प्रधानेका उहदह खाली है. थोड़े अरसहमें मैंने इस इन्तिजाम को देखा, तो मुझको ज़ियादह पसन्द नहीं है, क्योंकि मुन्शी महकमहखास जिम्महदार अपसर नहीं है, सब भार महाराणा साहिबपर रखकर वह बरी होसक्ता है. महाराणा साहिब मिलनसार और पोलिटिकल एजेण्टकी सलाहपर चलते हैं, इसलिये इन्तिजाम का काम विना दिक्कतके चलता है.

जबसे मैंने अपने कामका चार्ज लिया तबसे महाराणा साहिबसे हमेशह मुलाक़ात होती रही. मैं तअज़्जुब करता हूं, कि वे हिन्दुस्तानी रियासतके राजा होकर .ऐश व .इश्रतमें पर्वरिश पानेपर भी सिवा उदयपुरके दूसरी जगहके भी कुछ हालातसे वाकिफ़ हैं, और उनमें सल्तनत करनेके लाइक बहुत गुण हैं.

मेवाड़ एक अलहदह रियासत होनेके सबब .इलाक़ह सर्कार अंग्रेजीकी नज़्दीकी रियासतोंके मुवाफ़िक़ उसमें तरक्की नहीं हुई, क्योंकि थोड़े वर्षोंके पहिले यह मुल्क बे-इन्तिजामीकी हालतमें था; और पिछले वर्षमें सर्दारोंका कोई नया बखेड़ा नहीं हुआ, सिर्फ़ महाराणा साहिबके चचा महाराज शक्तिसिंहने बागौरकी हक़दारीके कारण फ़साद

करना चाहा, लेकिन् दर्वारने फौज भेजकर उसको गिरिफ्तार करलिया, और वह उदयपुर लाया गया जो अबतक निगरानीमें है.

मैं अफसोस करता हूं, कि नाथद्वाराके गोस्वामीका भगड़ा तय नहीं हुआ, जैसा-कि पिछले सालकी रिपोर्टमें जिक्र होचुका है. उनके गांवोंपर खालिसह है तोभी वह दर्वारसे मुकाबलह करता है. मैं उम्मेद करता हूं, कि उसके वकीलको एजेण्टीसे निकालदिया, इस कारण पुराने झगड़ेके तय होनेमें जियादह दिक्कत न होगी; इस की गुस्ताखीका खराब असर मेवाड़के दूसरे सर्दारोंपर भी होता है.

जावरकी खान बन्द कीगई, क्योंकि एक तो कलके बगैर खानका पानी नहीं निकल सकता था, और खर्चके मुकाबलेमें फायदह भी कम मालूम हुआ, याने २८ मन सीसेसे २५ तोला चांदी निकल सकी है, इसलिये १० महीनेतक काम करनेके बाद बुशल साहिबको ईसवी ता० ३१ जैनुअरी [वि० १९३० माघ शुक्ल १४ = हि० १२९० ता० १२ जिल्हिज] को रुखसत देदी. इस सालमें ८६६ पेटियां अफीमकी उदयपुरके कांटेपर चढ़ीं.

इन महाराणा साहिबकी तवारीखको खत्म करके इनकी आखरी बीमारीका हाल लिखते हैं.

महाराणा साहिब गर्मीके मौसममें मए ज़नानहके गोवर्द्धनविलासमें थे, वहांपर विक्रमी १९३१ द्वितीय आषाढ़ शुक्ल ३ [हि० १२९१ ता० १ जमादियुस्सानी = ई० १८७४ ता० १६ जुलाई] को बारह बजे बाद उनके पेटमें कुछ कुछ तकलीफ़ मालूम हुई, तीसरे पहरके वक्त ज़नानी सवारी तो उदयपुरको खानह होगई और महाराणा साहिब गोवर्द्धनविलास कुंवरपदाके महलमें ठहरे. दूसरे हम्नाही सर्दार पासवान तो ज़नानी सवारीके साथ चलेगये और ठाकुर मनोहरसिंह और मैं (कविराजा श्यामलदास), गढ़ीका चहुवान अमरसिंह, धव्वा बदनमल्ल, धायभाई हुक्मा, धायभाई गणेशलाल और डॉक्टर अकबरअली मौजूद थे. उस थोड़ी थोड़ी पेटकी तकलीफ़को मिटानेके लिये डॉक्टरने दवा दी, लेकिन् वह खफ़ीफ़ तकलीफ़ कम न हुई. महाराणा साहिब बड़े खुश मिजाज थे, हम लोगोंको शराब पीनेका हुक्म दिया. ठाकुर मनोहरसिंहने और मैंने इन्कार किया, लेकिन् दोवारह हुक्म होनेपर दो दो पियाले लिये; फिर ज्योतिषी लोगोंके कथनानुसार सूरज छिपनेके बाद उदयपुरके महलोंमें तश्रीफ़ लाये, उसी दिनसे बीमारी दिन बदिन बढ़ती गई, और डॉक्टर अकबरअलीका इलाज होता रहा. विक्रमी द्वितीय आषाढ़ शुक्ल ७ [हि० ता० ५ जमादियुस्सानी = ई० ता० २० जुलाई] को कुछ बुखारकी हरारत मालूम हुई, लेकिन् अभीतक बीमारीका निश्चय नहीं हुआ, कि किस किसकी बीमारी है. अकबरअलीको भी पूरा इख्तियार

न था. जनानी ज्यौढ़ी वगैरह खानगी सलाहसे कई तद्बीरें होती थीं. विक्रमी द्वितीय आषाढ़ शुक्ल ८ [हि० ता० ६ जमादियुस्सानी = .ई० ता० २१ जुलाई] को डॉक्टर अक्बरअलीका इलाज मौकूफ़ किया गया और मुल्ला किफ़ायतअली, अलवरके हकीम, नारायण भट्ट, और रूपनाथका इलाज शुरू हुआ. इन्होंने भी सौंठ, मिर्च और पीपलकी गोलियां दीं, लेकिन उससे क्या होता था, बीमारी तो कुछ और ही थी. आखरकार विक्रमी द्वितीय आषाढ़ शुक्ल १४ [हि० ता० १३ जमादियुस्सानी = .ई० ता० २८ जुलाई] को बेदलाके राव बरतसिंहने जोर देकर अर्ज की, कि इलाज डॉक्टरका होना चाहिये. तीसरे पहरके वक्त पोलिटिकल एजेण्ट कर्नेल् राइट और राव बरतसिंह एजेन्सीके सर्जन डॉक्टर बरको लाये. उसने दर्याफ़्त करके कहा, कि कलेजेपर सोजिश है, जिसमें पीब पड़नेका खतरह होगया है; फिर जलोंके लगाई गई और डॉक्टर बर व उसके मातहत डॉक्टर अक्बरअलीका इलाज होने लगा. विक्रमी श्रावण कृष्ण ८ [हि० ता० २१ जमादियुस्सानी = .ई० ता० ५ अगस्त] को पीछोला तालाब पूरा भरकर १० वर्ष पीछे चहर डाकनेकी खबर मालूम हुई, कि जिसकी महाराणा साहिब को बहुत बड़ी स्वाहिश थी. इन दिनों बीमारीमें भी कुछ सिहत रही, और बर साहिबने भी कहा, कि कुछ हवाखोरी करना चाहिये, जिससे विक्रमी श्रावण कृष्ण ११ [हि० ता० २४ जमादियुस्सानी = .ई० ता० ८ अगस्त] को तामजाम सवार होकर महलोंके चौकतक पधारे. विक्रमी श्रावण शुक्ल २ [हि० ता० १ रजब = .ई० ता० १४ अगस्त] को सिरमें दर्द होकर बुखारकी हरारत मालूम हुई; फिर विक्रमी श्रावण शुक्ल १० [हि० ता० ९ रजब = .ई० ता० २२ अगस्त] को तन्दुरुस्ती मालूम होनेपर रोगमुक्तस्नान किया गया, और हाजिरीन लोगोंने नज़े दिखलाई. विक्रमी भाद्रपद कृष्ण १ [हि० ता० १५ रजब = .ई० ता० २८ अगस्त] को महाराणा साहिब किशतीमें सवार होकर पीछोला तालाबकी चहर देखनेको तशरीफ़ लेगये, वापस आनेपर जुकाम और बुखारकी कुछ हरारत मालूम हुई, फिर तन्दुरुस्त होगये. डॉक्टरकी सलाहके मुवाफ़िक़ विक्रमी भाद्रपद कृष्ण ११ [हि० ता० २४ रजब = .ई० ता० ६ सेप्टेम्बर] को घोड़ेपर सवार होकर थोड़ी दूर हवाखोरी करआये, लेकिन बदनमें ताक़त न थी. विक्रमी भाद्रपद कृष्ण १४ [हि० ता० २७ रजब = .ई० ता० ९ सेप्टेम्बर] को महकमहखासके सेक्रेटरी महता पन्नालालको कर्णविलासमें कैद किया, जिसका हाल इसतरहपर है, कि यह शस्त्रहोशयार व मिहनती है, जिसने इस रियासतमें इन्तिज़ामी हालतकी बुनयादको मज़बूत किया, लेकिन इसने महाराणा साहिबकी मर्जीके अनुकूल या प्रतिकूल कार्रवाई करके लोगोंपर अपना

रोब जमाना चाहा, और कोठारी केसरीसिंहके तरीकेपर अपने मालिकको नफ़ा नुक़सान खानगीमें दिखलाकर, जैसा कि चाहिये था, उनके हुकमकी तामील दिलसे न की, जिससे कुल रियासती लोग उसके दुश्मन होगये. महाराणा साहिबकी मर्जी घटने पर मौका देखकर लोगोंने जादू वगैरह करनेकी शिकायतें पेश कीं, और कैद होनेके बाद और भी कई ग़लतियां दिखलाई गईं, फिर उसके दोस्तोंपर भी नाराज़गी करादी. मैं (कविराजा श्यामलदास) भी उसका दोस्त था, इसलिये ब्रह्मचारी मथुरादास व पापेरी गोपाल वगैरहने मुझपर भी महाराणा साहिबकी नाराज़गी करानेकी कोशिश की, लेकिन उनके दिलमें मेरी जगह थी, इससे उन लोगोंकी शिकायतें कारगर न हुईं. महकमह खासका चार्ज राय सोहनलाल कायस्थके सुपुर्द हुआ, लेकिन काम बराबर न चलसका, जिससे विक्रमी भाद्रपद शुक्ल १५ [हि० ता० १३ शरबान = ई० ता० २५ सेप्टेम्बर] को पुराने प्रधान महता गोकुलचन्द और सहीहवाला अर्जुनसिंहके सुपुर्द किया गया. अब दिन बदिन कलेजेके फोड़ेकी बीमारीने ज़ोर पकड़ा; आखरकार विक्रमी आश्विन कृष्ण ९ [हि० ता० २२ शरबान = ई० ता० ४ अक्टोबर] को नीमचसे डॉक्टर को बुलाया. उसने डॉक्टर बर साहिबके साथ बहुत कुछ कोशिश की, लेकिन हालत ख़राब होचुकी थी, कोई इलाज कारगर न हुआ, और विक्रमी आश्विन कृष्ण १२ [हि० ता० २५ शरबान = ई० ता० ७ अक्टोबर] को तीन घड़ी रात गये शिदतसे कलेजेका दर्द शुरू हुआ. ठाकुर मनोहरसिंह, मैं (कविराजा श्यामलदास), धव्वा बदनमल्ल, धायभाई हुकमा, धायभाई रघुलाल, साह ज़ोरावरसिंह सूराना, महासाणी रत्नलाल, और डॉक्टर अक्बरअली वगैरह महाराणा साहिबके पास मौजूद थे. धायभाई हुकमा कोठी रेजिडेन्सीपर जाकर दोनों डॉक्टरोंको लेआया. महाराणा साहिबने उस जाकन्दनीकी हालतमें मुझको कहानी कहनेका हुकम दिया. मैंने दिलखुशहाल महलकी चौपाड़के दर्वाजेमें पलंगके पास बैठकर दो चार फ़िक्रे कहानीके कहे और उन्होंने पानी मांगा, तब साह ज़ोरावरसिंह सूरानाने हाथके सहारेसे उन्हें पलंगपर बिठाया, कि उसी दम आंखने चक्रर खाया, और करीब साढ़े दस बजे रातके वह इस जहांको छोड़ गये. उस वक्तका हाल देखनेवाले जानते हैं, कि हम लोगोंपर एक दम कैसा वज्र टूटपड़ा था. मैं ठाकुर मनोहरसिंह सहित रोता हुआ खुशमहलोंमें आया. वह रात्रि हमारे लिये बड़ी लम्बी चौड़ी होगई. विक्रमी आश्विन कृष्ण १३ [हि० ता० २६ शरबान = ई० ता० ८ अक्टोबर] को उनके आन्तिक विमानकी तय्यारी हुई. कर्नेल राइट पोलिटिकल एजेण्ट मेवाड़ रातकोही कोठीसे महलोंमें आगये थे. जनानी ज्यौड़ीका पुस्तह बन्दोबस्त किया गया, कि कोई

सती न होनेपावे. चार सहेलियां सती होनेको उठीं, लेकिन् ज़नानी ड्यौढ़ीके किवाड़ बन्द थे, और बाहिर बेदलाका राव बरतसिंह वगैरह सर्दार और ड्यौढ़ीके महता लालचन्द, प्यारचन्द और देवीचन्द वगैरह मौजूद थे. उन लोगोंको भीतरसे हजारों गालियां दीजाती थीं, लेकिन् ऐसे वक्तमें उनको कौन इजाज़त देसक्ता था. महाराणा साहिबके साथ सती न होनेदेनेका यह पहिला अवसर और पुराने खयालातका आखरी हुल्लड़ था. महाराणा साहिबके विमानको देखकर कर्नेल् राइटकी आंखोंसे आंसू गिरते थे; शहरकी आम रिआया पांच वर्षके बच्चेसे लेकर बूढ़ोंतक अनुमान २५००० औरत मर्द बड़ी दर्दनाक आवाज़से रो रहे थे. बस इस हालको हम ज़ियादह नहीं लिखसक्ते, देखनेवाले जिन्दह रहेंगे तबतक वे नहीं भूलेंगे.

इन महाराणाका स्वभाव ऐसा था, कि ज़बान शर्बतकी तरह मिठाससे भरी हुई, जिस शरबने उनसे एक दो दफ़ा बात चीतकी वह जिन्दगीभर नहीं भूलनेका; अगर किसीने सलाम किया और वे आंख उठाकर उधर देखते, तो उसको यकीन होजाता था, कि महाराणा साहिब सुझपर निहायत मिहर्बान हैं. यह महाराणा नर्म मिजाज, अव्वल दरजहके अक्लमन्द, बात करनेमें चतुर, हिन्दी या संस्कृतकी कोई किताब पढ़ते तो ऐसा मालूम होता था, कि मानो अमृत टपका रहे हैं. मैंने हलकी ज़बान उनके मुंहसे कभी नहीं सुनी, अलवत्तह कानके कच्चे और हरएक आदमीकी बातोंपर अमल करलेते थे. लिहाज़ भी इसकद्र था, कि जिस आदमीपर मिहर्बान होते वह चाहता, तो उनसे वे इन्साफ़ीकी बातपर भी सहीह करवालेता, लेकिन् उसकी दगा-बाजीको दिलमें ज़रूर जानलेते. वे रियासती बन्दोबस्त करना अपने ऊपर फ़र्ज जानते थे, लेकिन् ऐश व इशरत और आराम तलबीसे दूसरोंके भरोसेपर छोड़ देते थे. वे आदमीके बड़े क़द्रदान थे, जिन आदमियोंने गद्दीनशीनीके बाद ऐश व इशरत और शराब पिलानेकी आदतोंको खुद मतलबीपनसे बढ़ाया, मेरे सामने नाकमें सलवट चढ़ाकर उन आदमियोंको दिलसे ख़राब कहते थे. उनको कई तरहके अच्छे बुरे आदमियोंके साथ बर्ताव रहनेसे ख़ूब तजर्बह होगया था, और रियासती इन्तिज़ाम करनेके लाइक बने उस वक्त ईश्वरने उनको दुनूयासे उठालिया. उनका पांच फुट साढ़े चार इंच लम्बा क़द, सुर्खी माइल गेहुवां रंग, बड़ी आंखें, चौड़ी पेशानी, और शरीर व शरीरके सब अवयव ख़ूबसूरत थे. विक्रमी १९०४ पौष कृष्ण १ [हि० १२६४ ता० १३ मुहर्म्म = ई० १८४७ ता० २२ डिसेम्बर] को इनका जन्म हुआ, २६ वर्ष ९ महीने और १२ दिनकी उम्र पाई, और १२ वर्ष १० महीने और १२ दिन राज्य किया. इन महाराणा साहिबकी आखरी बीमारीमें दान पुण्य

तथा देहान्त होनेके पीछे उत्तर क्रिया वगैरहमें रु० ७३२८२५॥ ≡ १॥ खर्च होनेके अलावह ५ हाथी, ९ घोड़े, २ बैल, और २६९ गौवें दान कीगई.

इन महाराणा साहिबने अपनी यादगार काइम रखनेके लिये जो मकानात व सड़कें वगैरह नये बनवाये तथा उनके समयमें पुराने मकानात वगैरहकी मरम्मत हुई, उस में कुल रु० २१५७४४३ ॥ -) ॥ खर्च हुए, जिसके तफ्सीलवार नक़्शे अम्बाव मुरड्याके भेजे हुए हमारे पास आये, उनका खुलासह नीचे दर्ज कियाजाता है :-

नक़्शह नम्बर १ नई तामीरात व मरम्मत मकानात-वगैरह.

नम्बर.	नाम काम.	कुल लागत.
१	गोवर्द्धनविलासके काममें.	३५४३७।
२	महलोंमें, शहरमें और शहरके आसपास पर्चूनी कामोंमें.	१८२५३५।१
३	कोठी रेजिडेन्सीके तअल्लुक.	१०४६३८।।
४	जानानह महलोंमें काम बना.	१२६२२।।
५	बग्घीखानहके तअल्लुक	१७५४८।। - १
६	महा सत्तियोंमें छत्रियोंके काममें.	२९७१९। - १।।
७	नाव डूंडों (किश्तियों) के काम में.	१२४२४।। - १
८	जगमन्दिर, जगन्निवासमें पर्चूनी काम खाते.	३६५९।। ≡ १
९	धुलाई, पुताई व चित्रकारीके काम खाते.	८४८३ - १।।
१०	महलोंके बाहिर खालिसाई काममें.	१३३२६। - १
११	भटियाणी चौहटेमें बेमालीके रावकी हवेलीके काममें.	५१३९३।।।
१२	शम्भुनिवास महलकी तामीरमें.	११२७५२। = १।
१३	सूरजपौल दर्वाज़हके बाहिर सरायकी तामीरमें.	१०१३१ = १२
१४	हाथीपौल दर्वाज़हके बाहिर सरायकी तामीरमें.	११५५९ - १।।१

१५	मद्रसहकी तामीरमें.	४६१६३॥१॥१
१६	जगमन्दिरमें डण्डेकी तामीरमें.	२१७५३॥१॥१
१७	हाथीपौल दर्वाज़हपर नया मकान बना उसमें.	११०९३ = ११
१८	भाणेज मोतीसिंहके कोठी बनी उसमें.	३५०२ = १
१९	जगन्निवासमें शम्भुप्रकाश नामके नये महलकी तामीरमें.	२३१५२॥ - १॥२
२०	उदयपुर, खैरवाड़ा, मेड़ता, व मगरवाड़के डाक बंगलोंकी तामीरमें.	२५११७॥ ≡ १॥१
२१	अमलके कांटेके मकानकी तामीरमें.	९०९६ - १॥
२२	घुड़नालोंकी पायगाहमें नया काम बना उसमें.	७२२२ - १॥३
२३	दिलखुशहाल महलकी तामीरमें.	११५०० - १॥
२४	कुंवरपदाके महलोंकी मरम्मतमें.	९०१० ≡ १
२५	शम्भुनिवासके पास दोमंज़िला नया महल बना उसकी तामीरमें.	८३४१९॥
२६	बहूजी साहिवके नया मन्दिर बना उसमें.	६५३७३॥३
२७	हुसैनाबाईके मकानके लिये जगह मोल लीगई.	३०००१
२८	नाई व सीसारमाकी नदीके काममें.	६७९७॥ = १॥
२९	बागमें काम बना जिसमें.	३८३९॥
मीज़ान		९३६२७२ - १॥१

नक़्शह नम्बर २ तामीरात सड़क व रास्तह.

नम्बर.	नाम काम.	कुल लागत.
१	नीमचकी सड़क खाते.	४४२७१८ - १॥
२	खैरवाड़ाकी सड़क खाते.	२१५७७२ - १॥

३	शहर व शहरके आसपास पर्वूनी सड़कों वगैरहके कामोंमें.	६५७३४। ≡ ७१
४	नीमचसे नसीराबादतक सड़क खाते.	१९६८८६। ≡ १
५	देवारीसे पगल्याकी नाल देसूरीतक सड़क खाते.	१९३४८७१
६	कैलासपुरीके रास्तहकी सड़क खाते.	५०१२। = ७२
७	वेदला व गोगूदाकी सड़क खाते.	१०७८५।।। = १।।।
८	कमलोदकी सड़क खाते.	१४०७१।। - ७२
९	नाहरमगराकी सड़क खाते.	१८०५७।।। = १।।।२
मीजान.		९८८३८७ = ७२

नक़्क़ाह नम्बर ३ तामीरात मुतअलक़ह पर्गनात.

नम्बर.	नाम काम.	कुल लागत.
१	पर्वूनी कामोंमें.	२४४४०।।।।
२	खेमलीके तालाब खाते.	२१४६८।। - १
३	मगरामें खैरवाड़ाके काममें.	४८०५१।।।।
४	नाहरमगराके काममें.	१०६८२५।।। - १
५	चित्तौड़में गढ़के काम खाते.	२३२६१।।।।
६	भीलवाड़ामें शहर कोटके काम व डाक बंगले बने उनकी लागतमें.	३१९७४।।।। ≡ १।।
७	जहाजपुरके कामोंमें.	१८२७३।। ≡ १
८	सायराके कामोंमें.	२२४८।। = १।।।
९	राजनगर की पाल व महल वगैरहके कामोंमें.	१२२९ = १

मीजान.

२१३५९३७

नक़्शह नम्बर १ तामीरात मुतअलक़ह इलाक़ह गैर.

नम्बर.	नाम काम.	कुल लागत.
१	नीमचमें सर्कारी बंगलेकी तामीरमें.	३९८६॥
२	आबू पहाड़पर नये बंगलेकी तामीरमें.	४५९७॥ = १
३	अजमेरके बंगलेकी तामीरमें (१).	७६५०)
४	एजेण्ट साहिबने महाराणा साहिबके लिये सामान मंगाया उसमें.	२९५७॥ = १
मीज़ान.		१९१९१॥ - १॥

मुख्तसर तफ़्सील.

नम्बर.	नाम काम.	कुल लागत
१	शहरमें वा शहरके आस पासके कामोंमें.	९३६२७२ - १॥१
२	सड़कोंकी तामीरमें.	९८८३८७ = १२
३	पर्गनों व ज़िलोंमें.	२१३५९३)
४	गैर इलाक़हमें जो मकान वगैरह बने उनमें.	१९१९१॥ - १॥
मीज़ान.		२१५७४४३॥ - १॥

(१) यह बंगला मेयो कॉलेजके बोर्डिंग हाउसके लिये बना था, जिसके लिये नक़्शहमें लिखे मुवाफ़िक़ रुपया दिये जानेके अलावह मेयो कॉलेजके लिये रु० १०००००), और मेवाड़की कोठीके लिये करीबन् रु० ४००००), कल्दार महाराणा साहिबने अलग दिया था.

शेष संग्रह.

गोकुलचन्द्रमाजीके मन्दिरकी प्रशस्तिः

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ श्रीसरस्वत्यै नमः ॥ श्येकलिङ्गो जयति ॥
 एकं ब्रह्म यदीक्ष्यते थ बहुधा मायेति रज्जुर्यथा सर्पादि प्रथया विभाति हि
 तथा ब्रह्मैव सर्व्वञ्जगत् ॥ तत्त्वन्तत्वमहो विषीदसि मृषा जातो मरुक्षमाजले
 संसारे जनसूचयन् सजयतात्सच्छूयेकलिङ्गाभिधः ॥ १ ॥ राधायाश्च कपो-
 लकुन्तलसल्लुब्धद्विरेफाङ्कितः श्रीवक्षस्तटमण्डितोरतिपतिक्रीडाकलापण्डितः ॥
 श्रीवंशीरवमोहिताखिलचलद्गोपालदाराकुलः पायादेषमुनीन्द्रवन्दितपदश्रीदेवकी-
 नन्दनः ॥ २ ॥ या विद्या भूतधात्री त्रिभुवनजननी ह्यागमानान्निदान-
 ञ्जीवेशादिप्रभेत्ती विषयपरिणता भासयन्तीह चार्थान् ॥ चैतन्यस्योपरा
 गाच्चित्तिविषयपदम्मन्यमाना प्रवृत्ता साहं विद्येति भत्वा सपरिकरगणा तत्क्ष-
 णन्नाशमेति ॥ ३ ॥ श्रीमत्सदानन्दमनाद्यनन्तं बोधैकरूपं च सदात्मकं
 तत् ॥ यन्मायया भाति समस्तविश्वं रज्जौ यथा हीरजतञ्च शुक्तौ ॥ ४ ॥
 काश्मीरमण्डलसद्भवन्महोयत् सारस्वतं निगमवार्धिमयं ह्यचिन्त्यम् ॥
 वागीश्वरन्निजगुरुप्रथितानुभावं वन्दे यतीन्द्रमनिशं सुयशःशरीरम् ॥ ५ ॥
 आसीच्छ्रीक्षत्रमूर्धा मुकुटतटमणिः शम्भुभक्तोद्विजन्मा बापाख्यः श्येकलिङ्गाप्त-
 विविधविषया विन्ध्यभूमण्डलश्रीः ॥ श्रीमत्सूर्यान्ववायार्णवसकलशशीभूमिपालां-
 श्च जिता यावद्भूमौ सुतान् स्वानवनितलगतः क्षमाधिपालांश्चकार ॥ ६ ॥ जातो
 यद्वंशवार्द्धैः सकलहिमकरः कोपि वीरो धरण्यां चित्राद्रौ शासयन् गामुदयपुर-
 मिति स्वीयनामाङ्कितं यत् ॥ स्थानं सत्कारयित्वाकवरयवनपेनैव युद्धं च कृत्वा क्रव्यैः
 सन्तर्पयित्वा ह्युदयनरपतीराक्षसानाङ्कुलानि ॥ ७ ॥ ज्वालाकारकरालशोणितझरी-
 यन्त्रैर्दृष्टैश्चञ्चलैः कालाकारकृपाणहस्तवलितैर्नृत्यत्कबन्धैर्भुवः ॥ कृत्वालङ्कृतिमेषयत्र
 वसनं श्रीचित्रकूटाभिधन्त्यक्त्वाब्दे युगबाहुषट्क्षितिमिते प्रोक्ते पुरे प्राविशत् ॥ ८ ॥
 सोयं कार्यवशादवाप्य नगरं भ्राडोलसंज्ञं पुनः स्मृत्वा तत्र पदं स्वकीयमगमत्कैला-
 ससंज्ञं महत् ॥ वर्षेस्मिन् वसुहस्तषट्क्षितिमिते राष्ट्राभिषिक्तोभवत्तस्यायं तनय-
 प्रतापउदितः सन्दर्शितेऽब्दे सुधीः ॥ ९ ॥ यस्यायं यत्प्रतापेन युधि मुहुरथो दह्यमान-
 स्तरुष्काधीशः संज्ञान्न लेभे न च जयमपि सद्भानुना भूप्रदेशे ॥ तेनायं श्रीप्रतापाधिप
 इति गदितो वीरधीरोविवस्वांश्चावण्डाख्ये पुरे यः खगशररसभूसम्मिते स्वर्जगाम
 ॥ १० ॥ प्रोक्ते स्वीये पुरेब्दे ह्यभरनरपतिर्लब्धराज्याभिषेकस्तत्सूनुः कारयित्वा मरसदन-
 मयञ्जाहगीराभिधेन ॥ स्लेच्छाधीशेन कृत्वा करनगरसभूसम्मिते हायने यः

सन्धिं लोकञ्च शैवं गिरिमुनिरसभूसम्मिते ह्यालुलोके ॥ ११ ॥ तस्यापत्यङ्कृता-
रि र्गदितसुसमये कर्णसिंहोनवीनः कर्णोराष्ट्राधिरूढः क्षितिभरमतुलम्पाकशाला-
न्निधाय ॥ हस्ते पीनां विचित्रां रतिसुखवलितांतः पुरङ्कारयित्वा पेदे कैलासकान्तं
जलधिवसुरसक्ष्मामितेऽब्दे क्षितीन्द्रः ॥ १२ ॥ निर्दिष्टे हायनेऽस्मिञ्जगदिति
नृपतिस्तत्सुतो राष्ट्रभारं नृत्वा स्कन्धेऽवहद्योयवननरपतेर्जाहगीराभिधस्य ॥ सूनोः
पित्रार्दितस्यापि सुशरणपदङ्खुर्मसंज्ञस्य चासीत् पित्रा स्वर्गे स्थितेऽमुं यवननरपति-
म्भावयामास चित्रम् ॥ १३ ॥ सोयं सम्प्रेषयन्तं गुमटमथ जगन्मंदिरे राजधानी-
म्प्रासादङ्कारयित्वा क्षितिशरकलितानीह सत्पत्तनानि ॥ ईशं संस्थाप्य तस्मिन्
जगत इति सहस्राणि सप्तेभकानां षट्पञ्चाशद्वयानामददत् सुतरां याचकेभ्यो
नरेन्द्रः ॥ १४ ॥ वर्षे खेन्द्रिभूम्याकलनवति जगद्भूमिपाले सुरेन्द्रञ्जेतुं याते नरे-
न्द्रोभवदथ तनयस्तस्य सद्राजसिंहः ॥ आरम्भं राजवर्द्धैरसशशिगिरिभूसम्मिते-
ब्दे प्रतिष्ठाङ्कत्वा षट्काण्डसप्तेन्दुयुजि शुभसमास्वेषवीरोथ रेजे ॥ १५ ॥ यस्मि-
ञ्छासति भूतलञ्जलनिधिन्यक्त्वागतोद्वारकानाथोब्धौ मधुरे वसन् त्रिभुवनस्पूत-
म्प्रकुर्वन्सदा ॥ श्रीनाथोपि तथैव गोकुलपदं मुक्त्वागमत्सादरं येनाकारि च
सङ्गरस्तु तुमुलश्रौरङ्गजेवेन यः ॥ १६ ॥ तेनामोचि हि जेजियाभिधकरः श्रीमन्मरु-
क्ष्मावलत्स्फूर्जद्योधपुरं यदा परिधृतं श्री केलिवाटो ददे ॥ तत्तस्मायजिताय राष्ट्र-
मपि यत् स्वीयन्ततोदापितस्म्लेच्छाधीशवराच्च सन्नयभुजा भीतिः परा भूभृता ॥
॥ १७ ॥ देवप्रासाददेशे मृतयवनचिताचत्तराणि प्रवृत्तान्याज्ञप्तानीह तेनाथ यवन
पतिना येन रुद्धानि सद्यः ॥ सर्वत्रैवापि गोद्विड्धरणिपतिसुतायाकवर्षंज्ञकाय दत्त्वा
भीतिङ्गतोयं मुनिगुणगिरिभूसम्मिते राजसिंहः ॥ १८ ॥ निर्दिष्टेब्दे धरण्यामवनितल-
मसौ शासमानः सुतोस्य जातः श्रीमज्जयाख्यो नरपतितिलकः श्रीजयाब्धिं व्यधा-
त्सः ॥ युद्धं चौरङ्गजेवस्य सुभटपृतनाभिश्चकाराति घोरं वर्षेस्मिन्बाणभृताऽग-
विधुसुकलिते नाकसंपद्भूव ॥ १९ ॥ प्रोक्ते संवत्सरे सावमरनरपतिः प्राप्य राष्ट्र-
म्पितुस्तु प्राज्ञो धेनुद्विषो नो परिचरणमथो कन्यका न प्रदेया ॥ पत्रञ्चेत्थन्तु
तैर्यन्त्रियमनवलितङ्कारयित्वात्तधैर्यो योमे स्याद्भागिनेयो निजविषयपदे राज्यभारस्य
भर्ता ॥ २० ॥ इत्यादेशाक्तचित्तान् जयभटपुरवित्तान् महीपान् महीन्द्रः स्वे-
चक्रेऽमित्रहन्ता नगरसमुनिभूसम्मिते स्वर्लुलोके ॥ उक्ते कालेथ भास्वानरिति-
मिरचमूर्ध्वसिदीव्यत्प्रतापस्तत्सूनुः श्रीनृपेन्द्रः समरहरिभूच्छासयन् गामुदा-
राम् ॥ २१ ॥ येन श्रीमत्तडागे गुमट विरहिता श्रीप्रपञ्चादिनाम्नि प्रासादे
कारि सद्यस्त्रिदिवमदमुषि क्षिप्रमेवातिधन्या ॥ प्रासादालि विचित्रा खनिधिमुनिसु-

धांशुश्रितेऽब्दे नृपेण प्रोद्यत्कैवल्यमेतेन निरुपमपदं हृद्यमेव व्यलोकि ॥ २२ ॥
निर्दिष्टेऽब्दे धरायां विदित भवहरिः क्षमाधिपालः सुतोस्य भूतः प्लुष्टारिवर्गः
सरासि हि जगतां सन्निवासं विशालं ॥ प्रासादङ्कारयामास सुबलिवलिचन्द्रावते-
भ्योगृहीत्वा श्रीरामादिं पुरं सत्प्रथितजयपुरे माधवं भागिनेयं ॥ २३ ॥ ज्येष्ठी-
भूतं विधायाशु सुनयनिपुणं प्राज्यराज्याधिनाथं वर्षेऽस्मिन्दिव्यलोकं नगखवसु-
विधुद्योतिते स्वीचकार ॥ काले तस्मिन्प्रतापाधिपइति विदितश्चात्तराष्ट्रोस्य सूनु-
र्भेजे खाष्टाष्टभूयुक् समय गतदिनेऽभीतिमन्यैर्दुरापाम् ॥ २४ ॥ श्रीमत्सद्राजसिंहः
क्षितिपतिरभवत्तस्य सूनुः शरण्यः सप्तेन्द्रष्टस्थिरायुक्समयविलसितेऽब्दे पदं स्वीच-
कार ॥ योगीन्द्राणामगम्यं ह्यवनितलमसौ शासयन् यस्य पुत्रः प्रोक्ते वर्षेऽरिसिंहो-
त्तरपतिरभवत् क्षत्रमूर्धन्यनाथः ॥ २५ ॥ यस्मिन्नक्षति भूतलं समजनि श्रीरत्नासिंहो
द्भवोद्भुत्पातो भुवने भयैकनिलयस्तत्वाष्टभूसम्मिते ॥ सङ्ग्रामश्च सुरासुरोद्भवइव
श्रीमन्महाराष्ट्रिकैः श्रुत्वामुम्प्रलयञ्जनाश्च विदिताः सम्मेनिरे तेतियम् ॥ २६ ॥
सङ्ग्रामेवंतिकायां सलुमरनृपतिः पाठसिंहो ह्यरीणाम् भित्वा सेनान्दुरापान्नि-
जवलनिचयैः सूर्यविम्बम्बिभेद ॥ तत्रैव श्री सहायादिपुरपतिरिहोमेदसिंहस्त-
थैव प्राज्यं राज्यं सुरेन्द्रस्य सपदि लसितं प्राप्तवानुग्रवीर्यः ॥ २७ ॥ युग्मं ॥ योसौ
सङ्गरमेत्य माल्जिसिधियासेनातउग्रम्पुनश्चम्वा स्वस्य भटालिसंहतिकराङ्कृत्वाथ
दानान् मनाक् ॥ निर्वृत्ताम्प्रतिपक्षगाञ्च पृतनां श्री गोडवाडं ददौ देशं तन्निय-
मस्य सन्नयनिधिः सत्कारयित्वा दलं ॥ २८ ॥ दीव्यद्योधपुराऽधिनाथविजयः
प्राख्यायतेनापि यत् साहस्रे ननु सादिनामनुदिनम्मेभृत्यतायाः पदे ॥ भूयास्तामिति-
बोधितेन मरुभूपालेन भास्वच्छवीरेजे राजकुले जितारिररिसिंहः क्षमाधिपालोन्वहम्
॥ २९ ॥ श्रीमज्जावदनीमचार्यविदितन्देशंगनीमाय यो दत्त्वा स्वीयजनार्तिनाश-
नविधौ सेनाभृतौ तस्य तम् ॥ पश्चाच्चामरसंज्ञके गढपदे ह्यादाय सद्वाहिनीं
यातोयङ्किल तत्र बुद्धिपतिना दुर्भुजा तत्कृतम् ॥ ३० ॥ कृत्वा छद्मवृथाऽजितेन
निहतस्तत्रैवसोऽपि स्वयं सौवर्णीकृतयष्टिनास्य पुरुषेणायं भृशन्ताडितः ॥ भालेसा-
वयने किलेह निरयं भुक्त्वा तथा चान्तकं नक्षत्राष्टविधुश्रिते हि समये सद्योऽभजत्स्व-
पदम् ॥ ३१ ॥ आदिष्टेऽस्मिन् महीभृत् समजनि समये धीरहम्मरिसिंहः सिंहो-
ऽमित्रेभकुम्भस्थलनिधनविधौ सङ्गरारण्यमध्ये ॥ वेदाग्न्यष्टक्षितीज्ये विलसित-
समये येन सद्यो व्यलोकि हृद्यङ्कैवल्यमेतेन सुरमुनिगणैः प्रार्थनीयं त्रिलोक्या-
म् ॥ ३२ ॥ भीमः शत्रुविदारणे रणगतो दाने भुवां रक्षणे साधूनाञ्जनतार्तिनाशन
विधावोजस्विनान्धीमताम् ॥ शम्भोर्ध्यानकलाविचारकलने माने परेषाम्पु

नर्विख्यातः किल भीमसिंहनृपतिर्ह्यन्वर्थनाम्नाभवत् ॥ ३३ ॥ वेदाष्टाष्टेन्दुवर्षे
 समजनि समरो हृङ्कियास्वारभूमौ स्वीयैः सेवाभटैर्यै बहुलबलमहाराष्ट्रिकानां
 समूहैः ॥ नष्टास्तत्र प्रवीरा ह्युभयबलगता बालिरावो निरुद्धः कारायां वार्द्धिसप्ताष्ट
 विधुसुकलिते सन्धिरासीन्महीपैः ॥ ३४ ॥ गौरैर्द्वैरागतोत्र प्रथितमतिबलन्मा-
 नुषेषु प्रवीरष्टाटारुयोयस्तदीयो नयचयलसितो जण्ठसंस्थानभाक् सन् ॥ कर्नेलः
 कान्तिकातः परिचरणरतो भीमभूपस्य चासीद्वासो वर्षे लकायाञ्जलधिवसुगज
 क्षमामितेऽयं सुतोस्य ॥ ३५ ॥ लावण्यन्तस्य किम्मे किल विदितमतिर्भावित्पु-
 ष्पधन्वा कृत्वा साम्बान्निमित्तङ्करणमिति जहौ यस्य सोयं ह्युदारः ॥ राष्ट्रं सम्प्राप्य रेजे
 भवचरणरतः श्रीयुवानो नृपालः कालः शत्रुव्रजानां विबुधकुललसङ्गीतकीर्तिर्विशालः
 ॥ ३६ ॥ वस्वष्टाष्टेन्दुवर्षे ह्युदितनरपतिः प्राप्य चाजादिमेरप्रस्यं सत्पत्तनं लाठ-
 पदसमधिरूढाय सहिएटकाय ॥ दृष्टिन्दातुङ्गतोयं ह्यवनिपनिकरान् क्लान्तनक्षत्र-
 कान्तीन्तीर्थव्रधनायमानोनिजविषयगतां राजधानीमवाप ॥ ३७ ॥ मेनेयं सेतुरन्यो
 ललितकृतिरतैः कारिता सेतुनायो दीर्घो नद्वो तथोच्चैर्विलसति सरसः श्री पिछोला-
 भिधस्य ॥ सोयं श्री मद्युवानो बहुलबुधवरैरावृतो नित्यकृत्ये शृण्वन्यामं सुशास्त्रार्थ-
 मभजत शिवज्यायसा धौतचेताः ॥ ३८ ॥ आहूतो जातरूप्याचलवसतिजुषा
 किन्नु सद्यः स्वकीयं राष्ट्रन्त्यक्त्वा गतो ऽसौ नरपतितनयाजानिना श्रीयुवानः
 ॥ सस्यं स्वीयं विधातुन्निजरिपुद्हनो ऽयं विदित्वेति सम्यक् बाणाङ्काष्टेन्दुवर्षे
 विदितसुसमये सद्दिने भूपवर्यः ॥ ३९ ॥ तस्यायं सरदारसिंह नृपतिर्जातः सुतो-
 भास्करो भूभागस्य शरारुमानवसरः संशोषणैकप्रभः ॥ विद्वद्वृन्दरथाङ्गमोदनपरो-
 भूजानिसत्पद्मिनीनाथो नाथकृतादरोभवरतिर्विन्ध्याचलम्भूषयन् ॥ ४० ॥ कृत्वा
 यात्रां महीपोऽहितवनदहनः प्राप्तवान् स्वं पदं यो निध्यङ्काष्टेन्दुवर्षे विलसितस-
 मये सो यमेवाति सद्यः ॥ निर्दिष्टेऽस्मिंश्च काले प्रथितमतिबलच्छ्रीसुरूपोमहीभृजातः
 सन्नैतिकूपार इति सुविदितः शम्भुपादाञ्जभृङ्गः ॥ ४१ ॥ अस्ति श्रीमतिमान् गुरुर्गुण-
 गणैर्लोके पुरा यच्छ्रुतम् भूपः कोपि सुरूपसिंह इति किम्मत्वा सुरूपः स्वयम् ॥ मातुं य-
 द्यशसा भरेण च पुनः पादैः स्वकीयैर्मुहुः सम्प्राप्याथ तुलाविधीन् जनचयैर्नाद्यापि संल-
 क्ष्यते ॥ ४२ ॥ आक्रान्ते पृथिवीतलेपि निखिले गौरण्डभूजानिभिर्नोसन्धामुररीचकार
 चतुरः कुर्वन् प्रजापालनम् ॥ मन्वादिस्मृतिवाक्यतो बुधगणैः सम्भूय शक्रोपमोनोजा-
 तो न जनिष्यते क्षितितले कारुण्यरत्नाकरः ॥ ४३ ॥ वार्धीन्द्रङ्गक्षितीज्ये ह्युदितनरप-
 तिर्विक्रमाम्भोजबन्धोर्वर्षे गौरण्डसेना भजत ननु यदा दावमेवातिसद्यः ॥ दाहे
 गौरण्डकानान्तृणमहिमवताङ्केपि नष्टावशिष्टाये याताः श्रीसुरूपं शरणमिह बुधा

रक्षितास्तेथ तेन ॥ ४४ ॥ सन्दिश्यन्परमङ्गवां भुवि पुनः संरक्षणं धर्मकक्षत्राणा-
मिह सव्यधातु विपुलङ्गोवर्द्धनाख्यं पुरं ॥ स्थित्वा तत्र वनेषु गाश्व बहुशः सद्धेम-
सम्भूषिता दिव्या ह्येष सुरूपसिंह नृपतिः सम्पालयैश्वरयन् ॥ ४५ ॥ सोऽयं-
म्भूपस्तुलां यच्छ्रुतिविधिवलितां संविधित्सुः शरण्यः पुण्यम्भूपैकमान्यन्निखिल-
निगमविच्छ्रीसदानन्दमूर्तिम् ॥ कृत्वा तामग्रतः क्षमावलयदिनमणि भूसुरांस्तर्पयित्वा
सत्वात्मानञ्च धन्यं शतमखमुदितो राजतेस्मात्र विन्ध्ये ॥ ४६ ॥ मत्वेमन्नरवा-
हनन्तु निधयः सद्यः स्वयं ह्यागतादृश्यन्ते कृतिभिः किलेह किमहो श्रीर्वा किमेषा
द्रुतम् ॥ गोपालापरनामकन्निजधवं सद्धर्मसम्पादितं सन्मुक्तामणिहेमकूटकलिता-
नन्तप्रचारन्धनम् ॥ ४७ ॥ येनैषा रूप्यमुद्रा निजविषयपदे मुद्रिता स्वस्य नाम्ना
देशे देशेन्वचारि प्रथितमतिजुषाऽकिम्पचानाधिपोयम् ॥ अष्टक्षमाङ्केन्दुवर्षे ह्युदित-
नरपतिः प्राप्तनाकाधिसम्पत् तस्यापत्यम्महीभृत् समभवदतुलः शम्भुरेषो परः
किम् ॥ ४८ ॥ कैलासाधिपतिवत्स्थितवति श्रीमत्सुरूपे नृपे शम्भुः शम्भुरिवा-
परः सजयति श्रीविन्ध्यभूमण्डयन् ॥ दण्ड्यानाशु विदण्डयन् परिगणान् संख-
ण्डयन् पालयन् सत्साधूनथ कोविदानपि सदा प्रोत्साहयन् वत्सलः ॥ ४९ ॥ चि-
त्रं शम्भुसुरूपमप्यतुलनङ्कार्तस्वरं धिकृतम् येनेहापि विमृश्य भासुरवपुर्धीरः सुमेरुर्द्रु-
तम् ॥ खण्डान् रूपभरेण सापनविधौ चण्डान् विधाय स्वकान् सम्प्राप्तोपि तुला-
विधीन् जनचयैः सन्ताप्यते भास्ये ॥ ५० ॥ कैलासः किलकामदन्निजधवं विन्ध्या-
चलस्थं बुधा जानन् किन्तु विधाय शीतकरणप्रोद्यन्स्वकीयान् द्रुतम् ॥ खण्डा-
नद्यतमिस्रनाशनविधौ चण्डान् विवस्वत्पथा लीढाञ्छम्भुनिवासकादिमिषतोविन्ध्ये
स्वयं राजते ॥ ५१ ॥ यादुर्गा चण्डदैत्यप्रमथनरसिका चण्डिका भूतधात्री भूत्वासौ
लक्षचण्डी हिमगिरितनया मोदमाना किमत्र ॥ विन्ध्ये जाता स्वकीयम्पतिमपि
नियतम्भूपतिम्मन्यमाना विप्रेभ्योदापयन्ती कनकगिरिमथो शम्भुना क्रीडति-
स्म ॥ ५२ ॥

॥ अथ प्रथमपट्टिकाशेषमापूर्यते ॥ दृष्ट्वा पान्थान् श्रमाक्तानथ पशु-
निचयान् कण्टकैर्दन्तुरैयद्रूरेषा चाच्छमार्गेर्ननु कृतिकुशलैर्भूषिताकारि येन ॥
रुग्णान् दीनाननाथान्निजविषयगतान्व्युत्पिपत्सूंश्च बालांश्छालावैधौषधीनामरु-
णमुखगविद्योदधेः शम्भुनाम्ना ॥ ५३ ॥ दृष्ट्वा दुर्लोकवृत्तिम्पिशुनमुखज-
नानन्दयन्तीं सतान्तान्धावन्तींसद्धरित्र्याम्महितमपि महामानमामर्दयन्तीम् ॥
क्षोणीशानां क्षणाय क्षपितकलिमलो भाविनाम्पुम्परीक्षाण्टीकालङ्कारयुक्तां सनर-
पतिरसौ कारयन्नाजतेस्म ॥ ५४ ॥ मासं मासं सुसाम्बं श्रुतिगदितपथादर्चयन्

स्नापयन्स वितान्पत्नीभिराढ्यानपि विबुधगणान् भूसुरान् भोजयन् यत् ॥
 वासोभिर्द्रव्यभूषादिभिरपि सततन्तोषयन्ताम्भुवङ्गाः सौवर्णानीह दत्त्वा शत-
 मखमुदितो मोदते कान्तिकान्तः ॥ ५५ ॥ भवग्न्यङ्केन्दुश्रितेऽब्दे नरपतितिलके शम्भु-
 भूपे त्रिलोक्याङ्कैलासस्याधिपत्यञ्जुषति सति परं हीशशुक्तेतरस्मिन् ॥ शैवं यत्पार्थि-
 वाद्यर्चनमतिललितं सञ्जुषाणे त्रयोदश्यान्धीरे धर्ममूर्तौ शिवनिशि विबुधैरीड्यपा-
 दारविन्दे ॥ ५६ ॥ प्रोक्ते वर्षे सुयोगे ह्युदितपदगते मार्गशीर्षेथ मासे सहस्रग्ने चोच्चसं-
 स्थेषु भवखरसमाजे दिनेऽसौ दिनेशः ब्राह्मे भौमे सुभद्रासनमुदयपदम्भ्राजयन्
 यस्य पुत्रो भूपः श्रीसज्जनेन्द्रो जयति च जगतीपृष्ठभागेत्र विन्ध्ये ॥ ५७ ॥ क्षात्रं
 संस्कार मेषः करगुणनिधिश्शयङ्किते हायनेयं शत्रूणाङ्कालदण्डं विबुधकुलवतां ब्रह्मद-
 ण्डञ्जनस्य ॥ सन्धादण्डम्परेशोरतिपतिरमणः सन्धधानः शरण्यं वर्ण्यङ्कव्याज-
 दण्डङ्कलयति विबुधाः सज्जनक्षमाधिपालः ॥ ५८ ॥ कश्चिद्भूपालवर्योत्रतविधि-
 रसिकः शोधितुं स्वं शरीरन्दातुं यद्गोसहस्रङ्कृतविमलमतिस्तस्थिवानुग्रधैर्यः ॥
 श्रुत्वेत्थं किन्तु सद्योह्युदयपदमगाद्यामदैर्घ्यञ्च कृत्वा धेनूनान्तच्च दृष्ट्वा सुजनवि-
 मुदितो राजते खेंशुमाली ॥ ५९ ॥ योधृत्वा ब्रह्मचर्यन्निगमफणिवचः पाठनायैव
 सद्यश्चित्रंश्रीसज्जनोरं रचयति सुपथो रूप्यमुद्राददानः ॥ विप्रेभ्यो यान्परीक्ष्य प्रर-
 चयति च तान् सप्रतिष्ठाधनाढ्यान्यावजीवं कृतारिर्जयति च जगती येन राज्ञाति-
 धन्या ॥ ६० ॥ केचित्कैलासवासः कलिमलकदनो जातएवात्र विन्ध्ये दृष्ट्वा वेदांश्च
 वर्णान् कलिकलुषरतान्तारयन्सज्जनेन्द्रः ॥ गीर्भिलेखाश्रिताभीरचयति वलितान्
 सज्जना वै वदन्ति तिष्यैनोडाकिनीभिर्नयचयलसितो राजते भूमिपालः
 ॥ ६१ ॥ इङ्गलण्डीयादिविद्याब्धिमथनरसिकश्रीलसन्नागरेणाचार्यस्थानस्थविद्याब्धि-
 सकलशशिनात्रेति संविश्रुतेन ॥ शम्भोर्यत्वम्महोसीति निखिलनृपसङ्काल-
 योग्यम्महीयो भ्राजच्छ्रीमद्विहारिप्रथितपदजुषा शम्भुभक्तेन सद्यः ॥ ६२ ॥
 श्रीमन्नैष्टिकमास्थितेन महतामाद्येन सजातिना मान्येनाथ महीभृतां क्षितितले
 गौरण्डकानामपि ॥ यद्वै भारतपत्तनेशितुरनेनेष्टेन शिष्टेन च प्रेष्टैर्नीतिभरैर्गुणैः
 सुजटितो भूपालरत्नं यतः ॥ ६३ ॥ श्रीमद्वाणीविलासन्त्रिदिवपतिपरिष्ठाध्य-
 भाग्यं समस्तग्रंथग्रामालिमालं प्ररचयति विधिः सज्जनेन्द्रोतिमात्रम् ॥ रम्यन्नाक-
 द्रुमभं विपथरतिमतान्तर्कजालप्रभेदे स्वेष्टं श्रीश्यैकलिङ्गं शिवनिशि सततं याति
 संसेवितुन्तम् ॥ ६४ ॥ योसौ श्रीमज्जलेशः सुजननरपते ह्युत्तमाङ्गेथ सेतौ रुगणो
 जातो जयाब्धेमिषतइति भवान् शिल्पिभिर्वैद्यवर्यैः ॥ ग्रावक्षारैः शिलाभिर्निरुजमसु-
 मयन्तं यतो भावयत्येतैर्लक्षैर्मुद्रिकाभिर्लसितसुसलिलो जीवनन्नो जहाति ॥ ६५ ॥

यत्पूर्वजात्समरसिंहनृपाधिपालाच्छ्रीनाथनामतनयो जनि यः कनिष्ठः ॥ वागोर-
 नाथइति यङ्कृतवान्नुपालञ्जज्ञे ततोत्र किल भीमपदप्रसिद्धः ॥ ६६ ॥ यस्यायं
 सवदानसिंहइति यो जातः सुतः क्षमातले धर्मिष्ठः करुणानिधिः समजनि श्री-
 शेरसिंह स्ततः ॥ शार्दूलप्रथिमप्रतीततनयः शार्दूलसिंहोभवज्ज्येष्ठो यस्य कलत्रमत्र
 विदितञ्ज्येष्ठं शरण्यं सताम् ॥ ६७ ॥ नन्दाह्यानन्दकन्दा वितरणविधुरा कापिचै-
 षाय नाम्ना धाम्नाऽधर्मालिविध्वंसनविधिरसिका चन्द्रिका चित्रमेतत् ॥ काले शम्भुं
 कुमारं नृपमपि सुषुवे मेदपाटाधिनाथं ह्यन्वर्थं येन राज्ञा जयति गुणमयी मूर्तिरत्रापि
 धन्या ॥ ६८ ॥ सेयं स्वर्गौरिवाद्यापि जयति जननी शम्भुभूपस्य नन्दा मासं मासं सुरे-
 ष्वं ह्यवनिसुरचयान् स्नापयन्तीह विष्णुम् ॥ जिष्णुं लोकत्रयस्यापि वसुसुवसनैर्भोज-
 नैस्तर्पयन्ती शय्याभूषाभिरेतङ्कलिमलदहना चार्चयन्ती सदारान् ॥ ६९ ॥
 साधूनां सद्यतीनाम्परिचरणरता पेयदेयादिभिर्या द्रव्यैरेषा पुनाना मुनिजनलसितं
 विन्ध्यभूमण्डलं यत् ॥ गेहान्वितादिसंघान् वितरति महिता भूसुरेभ्यो भवानी दारिद्र्यं
 दानवाद्यन्दलयति विबुधानाममित्रं विचित्रम् ॥ ७० ॥ पत्नीहीनाश्चदीना परिणयनप-
 था ज्यामराये गृहस्थाः कन्यादानैर्विचित्रैरिह जननि मुदे देवपित्रर्चनाय ॥ कंसाराते
 स्तथैते विपुलधनचयास्ते क्रियन्ते त्वयेति नोजाताभाविनी वा ननु तव सविधान्तः-
 पुरेत्रेति चित्रम् ॥ ७१ ॥ पुत्री पौत्री प्रपौत्री भवसि जननि यच्छक्तसिंहस्य धन्या
 भ्राजच्छ्रीमद्वल्लस्य भुवि सुविदिताच्छत्रसिंहस्य नाम्ना ॥ वीकानेराधिनाथात्मजपद-
 भजतोलालसिंहस्त्वदीयो भ्राता यस्यात्मजोयन्निजविषयपदे पर्वतेन्द्राभिधोद्य
 ॥ ७२ ॥ भ्रात्रीयस्ते च पुत्रोभवति जननि यन्मेदपाटाधिनाथोवीकानेराधिनाथो
 विलसति सुतरां क्षत्रमूर्द्धाभिवन्द्यः ॥ स्त्रीरत्नंस्त्वादृशं संस्फुरति कलियुगे धर्ममतेभ-
 सिंहे स्विष्टो गोपालमूर्तिस्तव मतिमकरोन्मन्दिरायात्मनोयम् ॥ ७३ ॥ पूर्णोसौ पूर्ण-
 कामोऽखिलभववसनो बालरूपोथ खर्वम्प्रासादं वाञ्छतिस्म प्रमुदितवदनो नेति चित्रं
 कवीन्द्राः ॥ क्षीराब्धीशोपि गोष्ठेषु सुरमुनिनतो वाञ्छतिस्म प्रभाते गोपालो गोकुले-
 स्मिन् धृतमनुजवपुः क्षीरमल्पन्न किं सः ॥ ७४ ॥ पारिव्रज्ये स्थितोपि प्रणमति सत-
 तम्मातरं सर्ववन्द्यो धर्मोद्देशेपोत्र जानन् तव मतिरिति यन्मन्दिरङ्कारयामि ॥ गोपालस्या
 हमद्यैव विमलमतिमाञ्छम्भूपोच्छमूर्तिर्मातुर्भक्तो धरायामवददथ निजान् कारय-
 ध्वन्तदिष्टम् ॥ ७५ ॥ प्रासादस्य विलक्षतां विमलतान्दृष्ट्वाऽथ तत्स्फीततां गोपालः
 करणं स्वकीयमकरोद्वेधा हि खर्वं यतः ॥ प्रीतः स्वेष्टतमाप्तिस्त्रिभुवनव्यापी त्रिलोकी-
 पतिर्जातो गोकुलचन्द्रमा विजयते भक्तान्द्रुतन्तारयन् ॥ ७६ ॥ प्रासादनिर्माण विधौ
 तु लक्षं लक्षं सदावर्तनधर्मवृन्दे ॥ लक्षं सहस्राणि खवेदवन्ति भूषाकृतौ गोकुलसोम-

कस्य ॥ ७७ ॥ वीकानेराधिनाथेन विहितसमये मातुलोपायनं यन्नीतन्ते भ्रातृपुत्रेण
जननि सकलं हस्तलक्षद्वयाद्यम् ॥ दत्तन्तद्याचकेभ्यः परिचरणविधौ गोकुलाब्जस्य
सम्यग् धन्यस्ते पितृवर्गः कृत इति विधिना सज्जनिस्ते कृतात्र ॥ ७८ ॥ सार्धेन्दुल-
क्षन्तु प्रतिष्ठितावस्येहैव जातम्बुधभूसुरेभ्यः ॥ दत्तं हुतन्दानविधौ तथाग्नौ तुलाविधौ
मातरिति प्रयोगात् ॥ ७९ ॥ सप्तामी मुनयो व्रजन्तु नियतं मत्साक्षिभावं पुनर्गोत्राः
सप्त भवन्तु सत्कृतिमयेऽस्मिन्नुत्सवे किम्बुधाः ॥ मुद्राणां मुनिलक्षकाणि मनसा संक-
ल्पितानि त्वया भ्राजन्ते ननु तत्र तत्र लसिते सज्जातरूप्यस्य यत् ॥ ८० ॥ चित्रम्मात-
स्त्वदीये विलसति महिते मन्दिरीयप्रतिष्ठाकृत्ये त्रेता चतुर्धा भवनतिललितो लोलुपो
हव्यपुञ्जे ॥ हृद्ये सन्मण्डपे यद्विलयजनविधावेक एवेति मत्त्वा चेष्टो योनेष्टमेतन् मम वि-
बुधगणाजाननेवेति सद्यः ॥ ८१ ॥ जायन्तान्नामकामन्ननु धरणिभृतास्मन्दिराणि प्रति-
ष्ठाकृत्यानीमानि चित्रं तव जननि लसन् मन्दिरीयोत्सवे यत् ॥ ऋत्विक्तेये च जाप्ये धर-
णिसुरचयास्ते वृताः स्वर्णभूषावासोभिः स्विष्टमूल्यैः शतमखलसितान्निर्जरांस्तर्पयन्ति
॥ ८२ ॥ पदं स्वर्गन्त्यक्त्वाऽभवदथ महीन्द्रः सुरपतिर्यतः पौरोहित्यम्पदमपि तथा
शम्भुमिषतः ॥ भजन्वागीशोयं विलसति बुधेज्यो नृपतितैः प्रतिष्ठाकृत्येऽस्मिन्वि-
दितशिवराजाख्यविबुधः ॥ ८३ ॥ अकामः कामारिः श्रितचरणचञ्चुश्च चतुर-
स्तथा श्रौते स्मार्ते ननु बुधजनेज्योरसमुखः सुधारामः श्रीमान्निखिलनिगमान-
न्दरसिकः प्रतिष्ठाकृत्ये ऽस्मिञ्जयति पृथिवीदेवलसितः ॥ ८४ ॥ सपाद्रक्ता-
ङ्कर्तुन्द्रविणानिचयैरेषपरभृत्समस्तां सामग्रीं स्फुरति किल चोक्तोत्सववरे ॥
सवाईलालाख्योबुधनिजकुटुम्बव्यसनवित् स्फुटनधर्माध्यक्षो भवचरणपादाब्जमधुपः
॥ ८५ ॥ गार्हस्थ्येपि स्थितायैव विमलमतिना शम्भुभूपेन यस्मै मान्यम्पैतामहं
यन्निखिलनयभुजा ऽदायि सम्मोदतेत्र ॥ ब्राह्मन्तेजोदधानः किल यजनविधौ
यज्ञशालामवाप्य श्रीमान्सन्माथुरोयङ्कृतमतिलसितो धर्ममूर्तिर्धरायाम् ॥ ८६ ॥
सप्ताहं यस्य हर्म्ये स्वजनपरिवृतोन्तः पुरेणावृतश्च दिव्यान्भोगांश्च भुञ्जन्वसदति-
मुदा धातरेतत्तवेदम् ॥ सेवासंभारवृन्दङ्कृतमतिविपुलं शम्भुभूपस्य चित्रन्धन्यस्त्वन्ते-
थ सूनूरघुरिति विदितो भाति वैकुण्ठचेताः ॥ ८७ ॥ सन्धातारमयमुदा नृपपतिः
श्रीशम्भुसिंहः स्वयं राज्ञां रावपदेन भूषिततनुं कृत्वा तथा वैभवैः ॥ भातिस्म प्रिय-
वल्लभन्ननु पुनर्देवारिदेशे धनैर्वापी चाच्छजला ह्यकारि विजले येनाद्य पान्थार्तिहा ॥ ८८ ॥
धाता यं वदनः पुमर्थसदनः क्षान्तिङ्क्षितेरामुषन् विद्वत्साधुजनान् जुषन् परिचर-
ञ्छ्रीशम्भुसिंहन्नृपम् ॥ पेयैर्भोज्यवरैरवाप्तविभवोद्युक्तोत्सवे भृत्यतामातन्वञ्जयतीह
सद्गुणगणालङ्कारसम्भूषितः ॥ ८९ ॥ अस्तिश्रीशम्भुभूपस्य सपिमयसिव प्रीतिपा-

उचकन्तथा ॥ काशिदत्ताय नन्देयमदान्मोदसमन्विता ॥ १०२ ॥ विद्वद्वृन्दसंहस्र-
पत्रसवितुः श्रीकाशिदत्तस्य वै ज्योतिर्विद्वरपूज्यजीवनसुतः शिष्यो द्वितीयादिने ॥
वेदत्र्यङ्कुहायने शुचिसिते रामप्रतापोऽलिखत्प्रीत्यागुर्जरगौड़जातिरिह चाशुद्ध-
म्बुधैः क्षम्यताम् ॥१०३ ॥ सूत्रधारश्चेनरामः प्रासादङ्कृतवान् स्वयम् ॥ तत्पुत्र-
जीवनारख्येन टंकितैषा प्रशस्तिका ॥ १०४ ॥ श्रीरस्तु ॥ श्रीकल्याणमस्तु ॥ शुभमस्तु ॥



तोटक छन्द.

रजताचल भूप सरूप गये । नृपआसन शम्भु नृपाल भये ॥
शिशु भूप निहार प्रबन्ध चह्यो । अंगरेजनको अधिकार रह्यो ॥ १ ॥
सिरदारन की इक मेल सभा । निज स्वारथ साधक हीन प्रभा ॥
कर खारज पंच निकार दिये । युग भृत्तिनों मुखतार किये ॥ २ ॥
जब बागिय होय प्रजा निकरी । हटनाल हि बंध करी बिकरी ॥
फिर शम्भुनिवास अवास बन्यो । महिपालहिको अधिकार मन्यो ॥३॥
पद केहरिसिंह प्रधान दियो । जिहि दिग्घ अकाल प्रबन्ध कियो ॥
फिर खास सभा बनवाय भलै । निज शासनसे सब काम चलै ॥ ४ ॥
अजमेर पधारन काज चले । तिहिं ठाँ हितकारक लाठ मिले ॥
नृप भल्लहिकी अभिलाष फली । दिय इज्जत शम्भु दिवान बली ॥५॥
अति उत्तम राजप्रबन्ध किये । लघु उम्मरमें जशवास लिये ॥
तगमो बड़ क्रीन पठाय दियो । फिर शम्भुहिमाचलवास कियो ॥६॥
नृप सज्जन आशय राख हिये । फतमाल विभाषय लेख किये ॥
कविराज यहै इतिहास कथा । किय शम्भुनिधानविधानजथा ॥७॥

महाराणा शम्भुसिंह,

उन्नीसवां प्रकरण समाप्त.

त्रं विचित्रं योसौ सत्सांवलारुख्यः कविकुलमुकुटो नीतिधामाचरिष्णुः ॥ प्रासादस्य-
 प्रतिष्ठाविधिपरिचरणे स्थास्नुरप्येषसंसद्यद्यापीह प्रवीणोभवति नरपतेः सजनस्याति-
 मात्रम् ॥ ९० ॥ कैलासीयति मेदपाटविषये सच्छग्नलालारुख्यया जातः शम्भुसखो
 महीभृति पुनः सच्छूयेकलिङ्गे सति संस्थाप्याथ निधीनिहैव नयविद्वत्त्वा ऽ चलाया रसं
 ह्यादेशात्सुमहीभृतो घनइव द्रव्यं मुहुर्वर्षति ॥ ९१ ॥ दृष्ट्वा गौरण्डनीतित्रिजविषय-
 पदे प्राड्विवाकः कृतोयत्रीत्या सम्बोध्य सम्यङ् ननु विशदमतिर्यः पनालालसंज्ञः ॥
 संधां स्वीयान्दधानो ह्यवनिपतिपतेः शम्भुभूपस्य वैश्यः प्रासादीयप्रतिष्ठाकृतिपरि-
 चरणे मोदते कान्तिकान्तः ॥ ९२ ॥ लालारुख्यः प्यारसंज्ञो भवति च रसिकः श्री-
 भवे देवसंज्ञो राज्ञाम्मान्याः कुलीना धृतनरतनवोन्तःपुराध्यक्षभाजः ॥ भौमान् भोगा-
 ञ्जुषाणास्त्रिदशजनिजुषोदर्शिते ह्युत्सवे ऽमी शम्भो मात्रादिकानाम्परिचरणविधौ
 प्रीतिमन्तो भवन्ति ॥ ९३ ॥ धाता यः सुगणेश एष विदितः क्षान्ति क्षितेरामुष-
 न्विद्वत्साधुजनाञ्जुषन्परिचरञ्छ्रीशम्भुसिंहं नृपम् ॥ पेयैर्भोज्यवरैरवाप्तविभवो
 ह्युक्तोत्सवे भृत्यतामातन्वञ्जयतीह सद्गुणगणालङ्कारसंभूषितः ॥ ९४ ॥ सम्य-
 ञ्ज्योतिर्विदांयन्मुकुटमथ परञ्जीवनं रूपमेतद्भूत्वा चाङ्गञ्चतुर्धा निगमसुरतरुं
 शम्भुभूजानिमेतम् ॥ अङ्गीभूयात्र चित्रं परिचरति मुहूर्त्तादिसंशोध्यमानम्मानन्नक्षत्र-
 चारस्य जयति ललितमूर्तिमद्योतमानम् ॥ ९५ ॥ क्षमाज्ञङ्गेंदुश्रितेऽब्दे सुरगुरुदिव-
 से शम्भुभूजानिनाथः प्रासादस्य प्रतिष्ठामरचयत सुमध्ये दिनम्पौषणेऽस्मिन् ॥ सच्छग्ने
 गोकुलाञ्जस्य निजनृपकुलैरावृतोमाधवेऽसौ मासे पक्षे वलक्षे शुभभवनभजत्वेचर-
 ग्राममाले ॥ ९६ ॥ अमृतरामइतिप्रथितश्रुतिस्मृतिषु दक्षमतिर्गदितोधुना ॥ अ-
 खिलकर्मकुलन्ननु कारयन् नृपवरैरिह दीव्यति भूसुरः ॥ ९७ ॥ अस्ति श्रीवल्लभाचार्य
 कुलमतुलमद्यापि सद्योयदेतद्भक्तिनिर्वाणवल्लीमधिकृतपुरुषे द्योद्गमे स्थापयत्सत् ॥
 विष्णोर्जिष्णोस्त्रिलोक्या अपि विबुधगणालङ्कारिष्णोश्च तस्मै प्रीत्यैश्रीशम्भुभूपोमुररि-
 पुजयनं ह्यर्पयन् राजतेस्म ॥ ९८ ॥ श्रीगोकुलचन्द्रमसे भूवाणासामताकवीथारुख्यान
 ॥ अयुतोत्पत्तीन्यामान्तणवाखेडं समर्पयच्छम्भुः ॥ ९९ ॥ आसीच्छ्रीसांख्ययोगा-
 ष्ठिमथनरसिकः पाणिनीये च शेषो मीमांसामौलिरत्नं श्रुतिशिखरविदान्दैशिकेन्द्रो
 महात्मा ॥ राज्ञामप्येकमान्यो निखिलनगधराषोडशज्ञद्विपेन्द्रो धन्योसौ शङ्करा-
 र्यो नतयति सुततिः श्री सदानन्दमूर्तिः ॥ १०० ॥ वर्षे काण्डाग्निनिध्य-
 ञ्जकलितकरणे बाहुले मासि पक्षे तच्छिश्यः काशिदत्तः सुजनमनुजपस्याज्ञयायं-
 वलक्षे ॥ गोत्रे कृष्णात्रिचिद्रे ह्यकृत कृतमतिः कृष्णदत्तात्मजोऽलं सौरे चैनाम्प्रश-
 स्ति सुभुजगदिवसे मेदपाटीयजातिः ॥ १०१ ॥ मुद्रिकाणां सहस्रन्तु भूमीनाम्प-



जबकि हमलोग महाराणा शम्भुसिंह साहिबकी दाहक्रिया विक्रमी १९३१ आश्विन कृष्ण १३ [हि० १२९१ ता० २६ शम्भुवान = ई० १८७४ ता० ८ ऑक्टोबर] को करके करीब दो बजे दिनके वापस शहरमें आये, तो उसवक्त कर्दीम दस्तूरके मुवाफिक शहरके दरवाजे बन्द और ठौर ठौर फौजके गार्ड तईनात थे, बाकी शहरमें सन्नाटे और रोनेके सिवा कोई दूसरी बात नहीं दीख पड़ती थी. इन महाराणाके कोई औलाद नहीं थी, इसलिये बेदलाका राव बरुतसिंह जो दाना सदार और अपने मालिकका खैरस्वाह था, महाराणा साहिबकी आखरी सवारीमें साथ न गया, इस खयालसे कि शायद गद्दीनशीनीकी बाबत कोई बखेडा न पैदा होजावे. उसने राजद्वारमें रहकर गद्दीनशीनीके मुआमलेमें पोलिटिकल एजेण्ट से सलाह करनेके बाद कुल उमराव, सदार वगैरह लोगोंको अपने अपने मकानोंसे महलोंमें बुलवाकर सलाह की, कि गद्दी खाली न रहनी चाहिये, जिसको बिठाना हो आजही बिठा दियाजावे. यह सुनकर सब लोग सोच विचार करने लगे, तब राव बरुतसिंहने कहा, कि अगर कुल लोगोंको मेरी राय मन्जूर हो, तो महाराज शक्तिसिंहके पुत्र सजनसिंहको, जो गद्दीका सुस्तहक है बिठादेना चाहिये. इस रायको तमाम लोगोंने पसन्द किया, और यह

राय जनानी ड्यौड़ीमें मालूम कराईजानेपर वहांसे भी मन्जूरी आ गई. तब पोलिटिकल एजेण्ट कर्नेल् राइट साहिब तो शम्भुनिवासको चले गये, और रियासती लोगोंने महाराणा सज्जनसिंह साहिबको सिफेद पोशाक पहिनाकर दरखानह सभाशिरोमणिमें लाकर गद्दीपर बिठा दिया. फिर बेदलाके राव बख्तसिंहने दस्तूरके मुवाफिक महाराणा साहिबके सिरसे गमीकी चादर दूर करके कानोंमें मोती पहिनाये, और चारणोंने उनको महाराणा शम्भुसिंह व स्वरूपसिंहका नाम लेकर शुभाशिष दी. इसके बाद महाराणा साहिब छोटी चित्रशालीमें पधार गये. उस समय अस्मदादिकोंका शोकसंतप्त दिल पसीज पसीजकर आंखोंसे आंसू टपकते थे, क्योंकि एक तो जवान मालिकके चलेजाने और दूसरे जानशीन होनेवालेका बचपन तथा महाराज शक्तिसिंहकी बुरी आदतोंका असर उनके मिजाजमें होनेका भय था, जिससे नाउम्मेदी और शोक संतापने हम लोगोंको घबरा रक्खा था, लेकिन पेट भरनेकी फिक्रसे दिलको मजबूत करके सब कामोंमें शरीक रहना पड़ा. सूर्यास्त होनेके बाद महाराणा साहिबके हुकमसे शहरके दरवाजे खोले गये, और कारखानेजातके दारोगोंने कुंजियां नज़ कीं, वे सबको वापस मिलीं, और शहरमें महाराणा सज्जनसिंह साहिबके नामकी दुहाई फेरी गई. मस्लमशहर है, कि "होनहार बिरवानके चिकने चिकने पात", महाराणा साहिब तो गद्दीपर बैठतेही औरके और होगये. पेशतर उनमें बिल्कुल लड़कपन मालूम होता था, अब एकदम दानाई झलकने लगी. उसी दिनसे दिलसे यह कोशिश करने लगे, कि अस्मदादि महाराणा शम्भुसिंह साहिबकी मिहर्बानी वालोंका रंज घटाया जावे. उनकी ऐसी नेक आदतें और बुद्धिमानी देखकर छोटे बड़े नौकरोंको हिम्मत होगई, कि इनकी खिन्नत करनेका नतीजह ठीक होगा, लेकिन कई मत्लबी लोग अपना अपना गिरोह बनाने और महाराणा साहिबको अपने काबूमें लेनेकी कोशिशें करने लगे, जैसाकि रियासतोंमें खुद मत्लबी लोगोंका शुरूमें दस्तूर होता है. महाराणा साहिब तो बड़े तेज तबीअत थे, खैरख्वाह लोगोंकी बातोंपर जियादह तवज्जुह करने लगे, यहांतक कि महाराज शक्तिसिंहकी रायको भी नापसन्द करने लगे, लेकिन उनकी बुजुर्गीको माननेका जितना हक है बराबर मानते रहे.

विक्रमी कार्तिक कृष्ण १ [हि० ता० १४ रमजान = ई० ता० २६ अक्टोबर] को गवर्मेण्ट अंग्रेजीकी तरफसे गद्दीनशीनीकी मन्जूरी आई, जिसकी खुशखबरी पोलिटिकल एजेण्ट राइट साहिबने महलोंमें आकर सुनाई. फिर विक्रमी कार्तिक कृष्ण ६ [हि० ता० १८ रमजान = ई० ता० ३० अक्टोबर] को पोलिटिकल एजेण्ट राइट साहिब छोटी चित्रशालीमें दरबार हुआ जहां आये. यहां दरबार होनेके समय

उमराव सर्दारोंमें बैठककी बाबत बहुत तक्रार और हुज्जत हुई. वैकुण्ठवासी महाराणा साहिबने घाणेराम ठाकुरके ऊपर पांचवें नम्बरकी बैठक भींडरके महाराज हमीरसिंहको इनायत की थी. ऐसा पेशतरसे भी होता रहा है, याने महाराणा दूसरे अमरसिंहने उमरावोंकी नशिस्त काइम की, उसके बाद महाराणा दूसरे जगत्सिंहने देवगढ़के रावत् को बेगूके ऊपर सातवीं बैठक दी, और इसी तरह बानसीके ऊपर भैंसरोड़, और पारसोलीके ऊपर कुरावड़को नशिस्त मिली थी. जमानह हालमें महाराणा शम्भुसिंह साहिबने आमेटके ऊपर मेजाके रावत् अमरसिंहको नशिस्त इनायत की. अगर हम ऐसी नजीरें बड़ी ओल (दाहिनी लाइन) के सर्दारोंमें ढूँढ़ें, तो बहुत मिलसکتی हैं, लेकिन तवालतके सबब ऊपर लिखी बातें मिसालके तौर लिखी हैं. ऐसी हुज्जत पेशतर कभी पेश न आई, जिसका कारण भींडर महाराजके पुत्र मदनसिंहकी बेपर्वाई और घमंड हुआ; उसने दूसरे सर्दारोंको तुच्छ और अपनेको अकलमन्द दिखलाकर जब्रन तामील करवाना जाहिर किया, जिसपर दूसरे सर्दारोंने भी मदनसिंहकी इस बेपर्वाईसे रंजीदह होकर महाराणा साहिबकी खिन्नतमें दावा पेश करदिया; लेकिन महाराणा शम्भुसिंह साहिबने इन लोगोंको लाजवाब करदिया था, यहांतककि बीजोलियाके राव गोविन्ददासके बड़े बेटे वैरीशालको मदनसिंहके नीचे बिठलाकर तामील करवादी थी. इस वक्त महाराणा साहिबकी कम उम्र और बेइख्तियारीके मौकेपर दावा फिर सर्सब्ज हुआ, बल्कि इसवक्त महलोंमें दवार हुआ, जिसमें सर्दार एकट्टे हुए उसवक्त बैठकपर सर्दारोंके आपसमें फ़साद होजानेकी नौबत पहुंची; लेकिन पोलिटिकल एजेण्ट कर्नेल् राइट साहिब एक हाथसे बेगूके रावत् भेघसिंह और दूसरे हाथसे कुंवर मदनसिंहको समझाइशके तौर थामकर महलोंके नीचेतक रुखसत कर आये; फिर दूसरे सर्दारोंको भी पान बीड़े देकर विदा किया. कर्नेल् राइटने इस फ़सादकी रिपोर्ट सद्रमें करदी. इसवक्त कुंवर मदनसिंहकी आदतसे कुल रियासती लोग बखासकर उसके रिश्तहदार भी बखिलाफ़ थे, सबोंने यही चाहा कि इस बातमें हतक करवाकर मदनसिंहका गुरुर तोड़दिया जावे. इस शरूसको ऐसा गुरुर था, कि जिसने अखीरमें वर्तमान महाराणा साहिबको भी नाराज किया, जिसका जिक्र हम आगे लिखेंगे.

इन्हीं दिनोंमें महता पन्नालालको जो कर्णविलासमें कैद था, कर्नेल् राइट साहिबकी सलाहसे रिहाई होकर मेवाड़के बाहिर चलेजानेका हुकम मिला, और महाराज सोहनसिंहको वैकुण्ठवासी महाराणा साहिबने अपने आखरी वक्तमें उदयपुरसे चलेजानेका हुकम दिया था, वह शहरसे दो मील ईशानकोण खुशाल (खुशहाल) बागमें जा रहा. उसने दावा किया, कि समर्थसिंहकी गोद होनेके कारण मेवाड़की गद्दीका हकदार मैं हूँ,

लेकिन गवर्मेण्ट अंग्रेजीने इस दावेको कुबूल नहीं किया, और उसे अपनी जागीर बागौरको चलेजानेका हुकम मिला, और महाराज शक्तिसिंहको बागौरकी हवेलीमें रहनेका हुकम होकर जागीरके एवज राज्यसे नकद रुपया ६५००० के करीब सालानह मुक़रर करदिया गया.

विक्रमी मार्गशीर्ष कृष्ण २ [हि० ता० १५ शव्वाल = ई० ता० २५ नोवेम्बर] को राज्याभिषेकोत्सव होनेके बाद विक्रमी मार्गशीर्ष कृष्ण ३ [हि० ता० १६ शव्वाल = ई० ता० २६ नोवेम्बर] को दस्तूरके मुवाफ़िक़ महाराणा साहिब श्रीएकलिङ्गेश्वरके दर्शन करनेको पधारे और मन्दिरसे घोड़ा, सरोपाव व तलवार पाकर वापस उदयपुर आये. यह दस्तूर कदीमसे चला आता है, कि मेवाड़के राजा श्रीएकलिङ्गेश्वर महादेव, और उनके दीवान महाराणा साहिब हैं; जिस तरहपर, कि महाराणा साहिब अपने मातहत मेवाड़के सदरारिको गद्दीनशीनीका दस्तूर देते हैं उसीतरहवे श्री एकलिङ्गेश्वरके मन्दिरसे हासिल करते हैं. विक्रमी मार्गशीर्ष कृष्ण ५ [हि० ता० १८ शव्वाल = ई० ता० २८ नोवेम्बर] को कर्नेल् राइट साहिब पोलिटिकल एजेण्ट मेवाड़ महाराणी कीन विक्टोरियाकी तरफ़ से गद्दी नशीनीका खिल्त्रत लाये, महलोंके अन्दर छोटी चित्रशालीमें दर्बार हुआ, १ हाथी, २ घोड़े और सरोपाव वगैरह पेश होकर गवर्मेण्ट अंग्रेजीकी तरफ़से खरीतह पढ़ा गया और दस्तूरके मुवाफ़िक़ तोपोंकी सलामी सरहुई, फिर दर्बार बर्खास्त हुआ. विक्रमी मार्गशीर्ष शुक्ल १ [हि० ता० २९ शव्वाल = ई० ता० ९ डिसेम्बर] को शुक्रग्रस्त सूर्योपराग दिखाई दिया, याने शुक्रके तारेकी छाया सूर्यमें दिखाई दी. यह पर्व सैकड़ों वर्षोंमें होता है, जो इस समयपर बापूदेव शास्त्री वगैरह ज्योतिषियोंके गणितसे ठीक समयपर मिलगया. विक्रमी पौष कृष्ण ५ [हि० ता० १८ जिल्काद = ई० ता० २८ डिसेम्बर] को गवर्नर जेनरल हिन्द लॉर्ड नार्थब्रूक साहिबका खरीतह लेकर पोलिटिकल एजेण्ट कर्नेल् राइट साहिब आये, रेजिडेन्सीसे रवानह हुए, तब ११ तोपकी सलामी रियासती तोपखानहसे सर हुई और छोटी चित्रशालीमें दर्बार हुआ, खरीतह पढ़ा गया उस वक्त २१ तोपकी सलामी सर हुई. विक्रमी माघ शुक्ल ६ [हि० १२९२ ता० ४ सुहरम = ई० १८७५ ता० ११ फ़ेब्रुअरी] को महाराणा साहिबने स्वकीय पुस्तकालय याने खास कुतबखानह बड़ी चित्रशालीमें बनाकर उसका नाम "सज्जनवाणीविलास" रक्खा, और यह पुस्तकालय मेरे (कविराजा श्यामलदास) के सुपुर्द किया. इस पुस्तकालयकी पुस्तकोंपर लगानेके लिये सुवर्ण मुद्रा बनवाकर उसमें यह श्लोक खुदवाया:-

सज्जनेन्द्र नरेन्द्रेण निर्मितस् पुस्तकालयम् ॥

आकरं सारग्रंथानामिदं वाणीविलासकम् ॥ १ ॥

अब इस पुस्तकालयमें संस्कृत, भाषा, अंग्रेजी व फ़ार्सी वगैरह ज़बानोंकी बहुत-सी किताबें हैं. विक्रमी माघ शुक्ल ११ [हि० ता० ९ मुहर्रम = .ई० ता० १६ फ़ेब्रुअरी] को एजेण्ट गवर्नर जेनरल राजपूतानह लॉयल साहिबकी तज्वीज़ से भरतपुरका वकील दीवान जानी विहारीलाल महाराणा साहिबका गार्डिअन (दृष्टा) और अध्यापक नियत होकर आया. यह शरूख़ व्यवहारमें रहकर ऋषियोंकी तरह बर्ताव रखने वाला और संस्कृत, हिन्दी, फ़ार्सी और अंग्रेजीका विद्वान और उसकी आदतमें हरएक आदमीको फ़ायदह पहुंचाना और वह अक़लमन्दी व नर्म मिजाजी वगैरह खूवियोंसे भराहुआ है. इस शरूख़के मुक़र्रर होनेसे महाराणा साहिबको बहुत फ़ायदह हुआ, शुरूमें उसने धमकियां देकर हरएकको डराया, लेकिन ज्यों ज्यों वह शामिल रहनेलगा, सब लोगोंको तसल्ली होती गई, कि इसकी मौजूदगीमें किसीका बेजा नुक़सान न होगा, और महाराणा साहिब भी उसकी नेक नसीहतोंपर पूरा पूरा अमल करते थे; महाराणा साहिबने उसको परमपूज्य और गुरुका खिताब देकर अंग्रेजी पढ़नेका आरम्भ किया. अगर जानी विहारीलाल दोचार वर्ष यहां रहता, तो वे अच्छे विद्वान होजाते, तोभी उसका थोड़ाही रहना बहुत मुफ़ीद हुआ. अच्छे आदमीकी हर जगह ख़्वाहिश होती है; उसके मालिक भरतपुरके महाराजा जशवन्त-सिंहने लॉयल साहिबसे बहुत तकाज़ा करके १ सालके बाद उसे पीछा बुलवा लिया. रुख़सत होनेके वक्त उसने उदयपुरसे तन्ख़्वाह व इन्आम इक्राम लेना हर्गिज़ मन्ज़ूर न किया, और अबतक इस रियासतका पूरा ख़ैरख़्वाह बना हुआ है. विक्रमी फाल्गुन शुक्ल १ [हि० ता० २९ मुहर्रम = .ई० ता० ८ मार्च] को कर्नेल् राइट साहिब मेवाड़ एजेण्टीसे तब्दील होगये, और विक्रमी चैत्र कृष्ण ४ [हि० ता० १७ सफ़र = .ई० ता० २६ मार्च] को उनकी जगह बग्दादसे तब्दील होकर चार्ल्स हर्वर्ट साहिब उदयपुरमें आये. महाराणा साहिबने मामूलके मुवाफ़िक़ पेशवाई की. विक्रमी १९३२ चैत्र शुक्ल ३ [हि० ता० १ रबीउलअव्वल = .ई० ता० ८ एप्रिल] को जयपुरके महाराजा रामसिंहकी तरफ़से राज्यतिलकका दस्तूर लेकर मंडावाका ठाकुर आनन्दसिंह व बख़्शी जवाहिरलाल आया, जिन्होंने १ हाथी, ४ घोड़े, सरोपावकी किश्तियां और ज़ेवर वगैरह सामान पेश किया. इन दिनोंमें महाराणा साहिबका सम्बन्ध होनेके बारेमें बहस चली, जोधपुर और ईडर दो रियासतोंसे पैग़ाम आये; इसमें मुसाहिबोंके दो फ़िक़े होगये. आख़रकार ईडरका सम्बन्ध मन्ज़ूर होकर शादी होना करार पाया और विक्रमी ज्येष्ठ कृष्ण १० [हि० ता० २४ रबीउरसानी = .ई० ता० ३० मई] को विवाहका प्रारम्भ होकर गणपति-

स्थापन हुआ; उसी दिन पुरोहित शिवराजकी तरफसे बनवारेकी गोठ (शादीकी दावतका जल्सह) हुई. इसी दिनसे हमेशह शादीकी धूमधाम, दावतें और जल्से होने लगे, क्योंकि एक अरसहसे दो तीन महाराणाओंकी शादियां खानगी तौरपर हुई थीं, और इसवक्त कुल बातें दस्तूरके मुवाफिक हुई. महाराणा साहिबके लिये पहिले मन्नत मानी गई थी, कि चतुर्भुजनाथ (१) के दर्शन करने बाद शादी कीजायेगी, इसलिये विक्रमी ज्येष्ठ कृष्ण १२ [हि० ता० २६ रबीउस्सानी = ई० ता० १ जून] को एकलिंगेश्वर और राजनगर होते हुए विक्रमी ज्येष्ठ कृष्ण ११ [हि० ता० २८ रबीउस्सानी = ई० ता० ३ जून] को गढ़बोर पहुंचे. वहां मन्नतके मुवाफिक भेट पूजन करके विक्रमी ज्येष्ठ शुक्ल १ [हि० ता० २९ रबीउस्सानी = ई० ता० ४ जून] को वापस राजनगर मकाम हुआ, दूसरे दिन कांकड़ोलीमें द्वारकाधीशके दर्शन करके पलाणे आये, फिर चंपाबागमें मकाम करनेके बाद विक्रमी ज्येष्ठ शुक्ल ४ [हि० ता० २ जमादियुल्अव्वल = ई० ता० ७ जून] को उदयपुरके राज्य-महलोंमें दाखिल होगये. विक्रमी ज्येष्ठ शुक्ल ९ [हि० ता० ७ जमादियुल्अव्वल = ई० ता० १२ जून] को मेरे (कविराजा श्यामलदास) के मकानपर महाराणा साहिब तश्रीफ लाये और मेरी तरफकी गरीबी दावतको कुबूल करके मुझको ताजीम व चांदी की छड़ी बख्शी, और कागजोंपर लगानेके लिये चरण शरणकी बड़ी छाप (मुहर) रखनेका हुक्म दिया, जिसमें यह दोहा खुदवाया गया:-

दोहा.

महाराण रघुवंश मनि । सज्जन पूरक आस ॥

चरणशरण ते मुद्रिका । श्यामल दास प्रकास ॥ १ ॥

और यह आज्ञा दी, कि जब तक ताजीमके मुवाफिक जागीर न दीजावे तबतक सवारी, लवाजिमह और खर्च सरकारसे इनायत होता रहेगा. इसी तरह वागौर, करजाली, शिवरती, बेदला, देलवाड़ा, सर्दारगढ़ वगैरह सर्दारों और महता गोकुलचन्द, कोठारी बलवन्तसिंह, सहीहवाला कायस्थ अर्जुनसिंह, धव्वा राव बदनमल्ल, साह जोरावरसिंह सूरणा, महता लालचन्द, महता गोपालदास, कायस्थ प्राणनाथ, पुरोहित श्यामनाथ, धायभाई गणेशलाल, महासाणी रत्नलाल, पुरोहित उदयलाल, कायस्थ

(१) यहां विष्णु भगवानका प्रसिद्ध मन्दिर देसूरीकी नालके करीब महाराणा हमीरसिंहके समय का बना हुआ उदयपुरसे वायव्य कोणको करीब २५ कोसके फासिलेपर है.

अक्षयचन्द, ढींकड़िया तेजराम, पांडे किशोरराय, राय सोहनलाल और सेठ जवाहिर-महल वगैरह अह्लकार व पासवानोंने दावतें देकर बड़ी धूमधामके साथ जल्से किये. उन लोगोंको खिल्अत, जेवर और इज्जत दीगई. विक्रमी आषाढ़ कृष्ण १० [हि० ता० २३ जमादियुल्अव्वल = .ई० ता० २८ जून] के दिन महाराणा साहिबको यज्ञोपवीत हुआ, और विक्रमी आषाढ़ कृष्ण १२ [हि० ता० २५ जमादियुल्अव्वल = .ई० ता० ३० जून] को बरनिकासी होकर बरातका मक़ाम गोवर्द्धनविलास हुआ. जहां तीन रोज़ मक़ाम रहकर बारहपाल, परसाद, धूलेव, बीछीवाड़ा, समेरा और बीलाड़ा में मक़ाम होने बाद विक्रमी आषाढ़ शुक्ल ९ [हि० ता० ८ जमादियुस्सानी = .ई० ता० १२ जुलाई] को महाराणा साहिब ईडर दाखिल हुए. इस वक्त खैरवाड़ाका फ़र्स्ट असिस्टेंट पोलिटिकल एजेण्ट मेजर कैनिंग साहिब भी साथ था. ईडरके महाराजा केसरीसिंह और महीकांठाके पोलिटिकल एजेण्ट दस्तूरके मुवाफ़िक पेशवाई करके महाराणा साहिबको डेरोंमें लेगये. सायंकालको (गोधूलिक) लग्न था, उस समय महाराणा साहिबने ईडरके महलोंमें पधारकर महाराजा केसरीसिंहकी बहिन (महाराजा जवानसिंहकी बेटी) के साथ विवाह किया, और मए महाराणा साहिबके वापस डेरोंमें पधारगये. दूसरे दिन महाराणा साहिबकी सालगिरह थी, जिसके जल्से व खुशीमें रात दिन नाच व राग रंग होता रहा. इसके बाद दस्तूरके मुवाफ़िक ईडरके महाराजा केसरीसिंहसे मुलाक़ातें होकर विक्रमी श्रावण कृष्ण २ [हि० ता० १६ जमादियुस्सानी = .ई० ता० २० जुलाई] को वहांसे कूच हुआ, और रास्तेमें बीलाड़े, समेरे, बीछीवाड़े, धूलेव, परसाद व बारहपाल मक़ाम करते हुए विक्रमी श्रावण कृष्ण ११ [हि० ता० २४ जमादियुस्सानी = .ई० ता० २८ जुलाई] को महाराणा गोवर्द्धनविलासमें दाखिल हुए. इस सफ़रमें सब तरहकी खुशी और आरामका बन्दोबस्त था, लेकिन बारिशके सबब लोगोंको जो तर्कफ़ि उठानी पड़ीं वे भी भूलनेके लाइक नहीं हैं, जिसमें भी धूलेव, बीछीवाड़ा और बीलाड़ाके मक़ामकी हालत तो बराती लोगोंको जिन्दगी भर याद रहेगी, कि इन स्थानों पर जर्दोज़ी, कमखाव, और गोटा किनारीके जुलूसी कपड़े कीचड़में मिलगये, परन्तु ऐसी खुशीके मौक़ेपर उस नुक़सानकी किसीने कुछ पर्वा न की. विक्रमी श्रावण शुक्ल १ [हि० ता० २९ जमादियुस्सानी = .ई० ता० २ अग़स्त] को महाराणा साहिब मए लश्करके उदयपुरमें पधारगये.

इन दिनोंमें कामकी अब्तरी होरही थी, रियासती काम पोलिटिकल एजेण्टके इस्तिवारमें था, महता गोकुलचन्द और सहीहवाला कायस्थ अर्जुनसिंह महकमह

खासका काम करते थे, जिनमेंसे अर्जुनसिंहने तो, जो कारगुज़ार और होश्यार आदमी है, पोलिटिकल एजेण्टका मिज़ाज तेज़ देखकर इस्तेफ़ा पेश करदिया, और महता गोकुलचन्द पुराने ढंगका सच्चा और सीधा सादा आदमी था, उसने ज़मानह हालकी बाकाइदह कार्रवाईका काम पेशतर नहीं किया था, इस सबबसे पोलिटिकल एजेण्ट कर्नेल् हर्बर्ट साहिबने दिक् होकर अजमेरसे महता पन्नालालको तलब किया, जिसने वैकुण्ठवासी महाराणा साहिबके समय इस कामको अच्छी तरह अंजाम दिया था. विक्रमी भाद्रपद शुक्ल ४ [हि० ता० ३ शश्वान = .ई०. ता० ४ सेप्टेम्बर] को पोलिटिकल एजेण्टने महाराणा साहिबसे पन्नालालका सलाम करवाकर विक्रमी भाद्रपद शुक्ल ८ [हि० ता० ७ शश्वान = .ई०. ता० ८ सेप्टेम्बर] को उसे महकमहखासके काममें महता गोकुलचन्दके शामिल करदिया.

इस वर्षमें विक्रमी आश्विन कृष्ण ६ [हि० ता० १९ शश्वान = .ई०. ता० २० सेप्टेम्बर] को ऐसे ज़ोरसे बारिश शुरू हुई, कि जिसका हाल भी तवारीखमें लिखाजाना ज़रूर है. इस रोज़ महाराणा साहिबको पीतमनिवास महलमें जानी बिहारीलाल अंग्रेज़ी पढ़ा रहा था, कि बड़े ज़ोर शोरके साथ बारिश होने लगी, और थोड़ी देरमें जगन्निवास महलकी खिड़कियोंमें पीछोला तालाबका पानी घुसगया, और पहिली मन्ज़िलकी छतसे दो तीन फुट ख़ाली रहा. तब महाराणा साहिबने मुझ (कविराजा श्यामलदास) और महता पन्नालालको बड़ीपालकी हिफ़ाज़तके लिये भेजा. हम दोनों दौड़कर तालाबपर पहुंचे उसवक्त बड़ीपाल (तालाब के बड़े बंध) का किनारा सिर्फ़ पांच या छः इंच ख़ाली था. हम लोगोंने तुरन्त अर्जुनखुराके पत्थर तुड़वाकर पानीका निकास किया. इसवक्त अर्जुनखुरा, तालाबका नाला (१) और दूधतलाईमें होकर पानी निकलता है वह नाला, ये तीनों निकास नदियों के मुवाफ़िक़ समोरमें गिरते थे. नीलकंठ महादेवके पास करीब पांच या सात फुट तक गहरा पानी बहता था, शहरमें डोंड़ी पिटवा दी, कि पूर्वी हिस्सेके रहनेवाले लोग अपने अपने घर छोड़कर पश्चिमी तरफ़ चले आवें, क्योंकि बन्ध टूटनेका ख़तरह था. महाराणा साहिब भी अर्जुनखुरेपर आकर पानीके निकासकी तज्वीज़ फ़र्माते थे. अब दूसरी तरफ़का हाल सुनिये. सीसारमा गांवके कई घर पानीमें डूबगये, और लोगोंके घरोंसे खाट, बिछौने, अनाज, और नारियल वगैरह सामान बहकर पानीके निकासकी तरफ़ जाताहुआ दिखाई देता था, बागौरकी हवेलीके चौकमें किश्तियां फिरने

(१) यह पुराना नाला बड़ी पालके दक्षिण तरफ़ एक पहाड़ीके सिरेपर है.

लगी; त्रिपोलिया और हनुमान घाटके बीच पानीका ऐसा बहाव था, कि जिसतरह कोई बड़ी नदी अत्यन्त वेगसे बहती हो. ब्रह्मपुरीके कई घर डूबगये, उधर शहरपनाहसे पालके अखीर हिस्सेतक स्वरूपसागरकी कुल पालपर एक फुटसे दो फुट गहरे पानी की चदर गिरती थी, और इसी तरह कदीमी निकासका नाला एक नदीके मुवाफिक जोर शोरसे बहरहा था; अम्बावगढ़के नीचेकी नहर भी पानी कूदनेकी लहर दिखा रही थी; गुमानिया नाला और धायभाईकी पुलांकी बड़ी नदीका बहाव एक होकर बीचके खेतोंमें पानीकी धारा चलती थी. यह कुल पानी उदयसागर तालाबमें गिरकर उसका बड़ा नाला सिरतक पूरा बहने लगा, और बन्धके ऊपर पानीकी झालकें गिरती थीं जो पूरा मामूली भरनेकी हालतमें पालका हिस्सह बहुत खाली रहा करता है; और लकड़वास, पचोली, कान्हपुर और मटूणके बीचकी जमीनपर एक बड़ा तालाब भरकर कड़वा टीमरूतक नदीमें तालाब होगया था. इसी तरह बड़ीके तालाब जानसागरके नाले बहनेके अलावह बन्धपर होकर पानीकी चदर गिरती थी. तीन दिनतक एकसा पानी बरसता रहा. हमारे खयालसे ३११ वर्ष के भीतर उदयपुरमें ऐसी बारिश कभी नहीं हुई थी, क्योंकि उदयसागरके नालेके निकाससे पश्चिमकी तरफ बन्धके साथ विक्रमी १६२१ [हि० १७१ = ई० १५६४] में जो पत्थरके चटानोंपर मिट्टी डाली गई थी वह मिट्टी बिल्कुल बहकर कुद्रती पत्थर निकल आये, इससे यकीन हुआ, कि निकासका पानी पेशतर इस जगह कभी नहीं बहा था, और करीब दो सौ चालीस वर्ष पेशतर महाराणा अब्बल जगत्सिंहने उदयसागरके बन्धके पीछे इसी निकासके नालेपर महल बनवाये थे, उनकी जड़ोंमें निकासका पानी कभी नहीं पहुंचा था. इस वक्त उन महलोंके गिर्द इतना पानी बहा, कि महलोंके आस पासकी जमीन कटकर गहरी नहरें बनगईं. अलावह इसके बड़ीका तालाब जानसागर, जिसका बन्ध २०७ वर्ष पहिले बना था, बन्धके ऊपर होकर पानी कभी नहीं गिरा, क्योंकि इस वक्त उसपर पानीकी चदर बही, जिससे मिट्टी कटकर बड़े बड़े गढ़े होगये, जहां पेशतर बन्धके साथकी डाली हुई मिट्टी दोनों दीवारोंके बराबर खानहपूर थी. तीसरी यह कहावत मशहूर है, कि उदयसागरका नाला रोकदिया जावे और बन्धके बराबर पानी भरे, तो तेलियोंकी सरायके पास जगदीशके मन्दिरके जिनोंतक पानी पहुंचे, जिसको लोगोंने शहरमें जगदीशके मन्दिरकी वाबत् मशहूर करदिया है. यह कहावत ग़लत निकली. विक्रमी १८१० या १५ तकके पैदा हुए कई आदमियोंकी ज़बानी इसी कहावतके साथ सुना, कि उदयसागर पूरा कभी नहीं भरा, तो सोचना चाहिये, कि उन आदमियोंने भी सौ वर्ष पेशतरके आदमियोंकी ज़बानी सुना होगा;

ऐसे खयालोंसे मैं अपनी रायको दुरुस्त जानता हूँ. उदयपुरमें बारिशका सालियानह औसत २८ इञ्च माना गया है, इस वर्षमें कुल ४८ इञ्च ५७ सेंट पानी गिरा, जिसमें ज़ियादहतर वर्षा इन्हीं तीन चार दिनोंमें हुई, कि मकानोंके गिरने, सामानके बहने और ज़िराअतके बर्बाद होनेसे लाखों रुपयोंका नुकसान हुआ, पहाड़ोंकी जड़ोंमें दलदल होगई थी, जहां कई दिनोंतक हाथी घोड़ोंके चलनेमें खतरह रहा इत्यादि.

इन दिनोंमें पोलिटिकल एजेण्टकी हिदायतसे महाराणा साहिबके सामने दीवानी फौजदारी और अपीलकी मिस्लें पेश होती थीं, जानी विहारीलाल और हम लोग उन की मददको हाज़िर रहते. महाराणा साहिब ऐसे ज़हीन थे, कि बाज़ वक्त मिस्ल सुनकर बहुत उम्दह राय फ़र्माते, मानो कुछ अरसहसे इस कामको करते हैं. विहारीलालने माली और मुल्की इन्तिज़ामके लिये उम्दह उम्दह सलाह महाराणा साहिबको दी, और मुझको शरीक रखकर कहा कि वक्त वक्तके ऊपर इन बातोंको याद दिलाते रहना. महाराणा साहिबने आख़र वक्ततक उन बातोंपर अमल रक्खा, जिससे थोड़ी ज़िन्दगीमें नामवरी और फ़ायदह ज़ियादह हासिल करलिया. अफ़सोस है, कि विहारीलालको उसके मालिककी क़द्रदानी और ताकीदसे विक्रमी आश्विन शुक्ल १२ [हि० ता० ११ रमज़ान = ई० ता० १२ ऑक्टोबर] को महाराणा साहिबसे रुख़सत लेनेकी ज़रूरत हुई. महाराणा साहिबने एक भारी ख़िल्अत, सपेंच, मोतियोंकी माला, और ४००) अश्रफ़ियां इनायत कीं, लेकिन उसने एक पघड़ी रखकर बड़ी आजि-ज़ीके साथ बाकीके लिये मुआफ़ी चाही. महाराणा साहिबने विहारीलालसे मांगकर उसके रिश्तेदार जानी मुकुन्दलालको अपने पास रखलिया, जो अवतक महाराणा साहिब के इज़तदार नौकरोंमें मौजूद है, और विहारीलालकी जगह सेठ फ़रामजी भीरवाजी मुकर्रर हुआ. इन दिनोंमें इंग्लिस्तानका शाहज़ादह महाराणी विक्टोरियाका बड़ा पुत्र प्रिन्स ऑफ़ वेल्स एडवर्ड ऐल्वर्ट (युवराज) हिन्दुस्तानकी सैरको आनेवाला था, महाराणा साहिबको भी उनकी मुलाक़ातके लिये कर्नेल् हर्वर्ट पोलिटिकल एजेण्ट मेवाड़ ने बम्बई जानेको कहा. इस बारेमें बहुत कुछ बहस होकर आख़रको महाराणा साहिबका जाना मन्ज़ूर हुआ, लेकिन यह उज़्र कियागया, कि हिन्दुस्तानी राजाओंमें महाराणा साहिब अक्वल नम्बर हैं और वहां अक्सर दक्षिण व गुजरातके राजा आवेंगे, इसलिये उस वक्त किसी तरहकी हतक न होनी चाहिये. पोलिटिकल एजेण्टने इक़्ार किया, कि अलावह निज़ाम हैदराबादके और कोई राजा महाराणा साहिबसे अक्वल नम्बर न होगा, और निज़ामके आनेपर भी महाराणा साहिबके लिये कोई तद्बीर निकालकर

दूसरा नम्बर नरकखाजायेगा. इसी इक्रारपर भरोसा रखकर विक्रमी कार्तिक कृष्ण १ [हि० ता० १४ रमजान = .ई० ता० १५ अक्टोबर] को उदयपुरसे रवानगी होकर गोवर्द्धनविलासमें मक़ाम हुआ, और विक्रमी कार्तिक कृष्ण ५ [हि० ता० १८ रमजान = .ई० ता० १९ अक्टोबर] को वहांसे रवानह होकर बारहपाल, परसाद, खैरवाड़ा, बीछीवाड़ा, समेल, बाकरोल, हरसोलकी छावनी, और देवगाममें मक़ाम करते हुए विक्रमी कार्तिक कृष्ण १३ [हि० ता० २६ रमजान = ई० ता० २७ अक्टोबर] को अहमदाबाद पहुंचे, वहांकी छावनीका जेनरल और शहरका कलेक्टर वगैरह १३ साहिब १॥ कोसतक पेशवाईको आये. साहिब लोगोंने टोपियां उतारकर सलाम किया, महाराणा साहिब दस्तापोशी करके साथ साथ घोड़ोंपर सवार चले; शहरसे आध मील दूरीपर साहिब लोगोंको रूसत देकर शहरके बाहिर सेठ मगनभाई हठीभाईकी कोठीपर पधारे. उक्त सेठने पगपावंडे नज़, निछावर वगैरह दस्तूरके मुवाफ़िक़ किये, और इज़तदार लोग सलामको आये, जिनकी खातिर कीगई, १९ तोपें सलामीकी छावनीसे सर हुई. दूसरे रोज़ दिवालीका त्यौहार भी अहमदाबादमें हुआ. विक्रमी कार्तिक कृष्ण १५ [हि० ता० २८ रमजान = ई० ता० २९ अक्टोबर] को अहमदाबादसे रेलवे स्टेशनपर पधारे, वहां कलेक्टर वगैरह अंग्रेज़ी अफ़सर मए जंगी फ़ौजकी कम्पनीके मौजूद थे; फ़ौजने सलामी उतारी, और १९ तोपें सलामीकी सर हुई. फिर स्पेशल ट्रेनमें सवार होकर करीब ११ बजे बड़ौदाके स्टेशनपर पहुंचे. वहांके गायकवाड़ दूसरे सियाजी तो पेशतर बम्बई चलेगये थे, और रियासतकी तरफ़से मोतमद लोग स्टेशनपर हाज़िर हुए और सलामी की १९ तोपें सर हुई. फिर शामको करीब ५ बजे सूरत पहुंचे, वहां मक़ाम हुआ, मेवाड़ एजेन्सीके सरदफ़्तर सेठ आदरजीकी तरफ़से मिहमानी और दावत हुई. दूसरे रोज़ स्पेशल ट्रेनमें सवार होकर करीब पांच बजे शामको बम्बई पहुंचे, स्टेशनपर गवर्नर बम्बईका सेक्रेटरी और एक फ़ौजी अफ़सर मए कम्पनी, फ़ौज व सवारोंके पेशवाईको हाज़िर थे, उनसे मुलाकात करके एक बंगलेमें डेरा था वहां पधारे. विक्रमी कार्तिक शुक्ल २ [हि० ता० १ शव्वाल = .ई० ता० ३१ अक्टोबर] को इंडरके महाराजा केसरीसिंह महाराणा साहिबकी मुलाकातको आये, दस्तूरके मुवाफ़िक़ मुलाकात करगये. विक्रमी कार्तिक शुक्ल ३ [हि० ता० २ शव्वाल = .ई० ता० १ नोवेम्बर] को गवर्नर बम्बईसे मुलाकात हुई; महाराणा साहिबको लेनेके लिये उनका सेक्रेटरी डेरेतक आया; मए पोलिटिकल एजेण्ट हर्बर्टके बग्घी सवार हो कोठी गवर्नरीको पहुंचे, सर फ़िलिप वुडहाउस गवर्नर बम्बई दर्वाजेतक पेशवाई कर लगया. दाहिनी तरफ़ महाराणा साहिब और

पोलिटिकल एजेण्ट व मेवाड़के सर्दार और बाईं तरफ़ गवर्नर बम्बई व उनके सेक्रेटरी वगैरह साहिब बैठे, फिर शौकिया बातें व इत्र पान वगैरह होकर जिसतरह आये उसीतरह वापस पधारे. फिर विक्रमी कार्तिक शुक्ल ४ [हि० ता० ३ शव्वाल = .ई० ता० २ नोवेम्बर] को गवर्नर बम्बई सर फ़िलिप वुडहाउस महाराणा साहिबकी मुलाक़ात को डेरेपर आये, जिसतरह गवर्नरके मकानपर बर्ताव उनकी तरफ़से हुआ उसी तरह महाराणा साहिबने अपने डेरेपर गवर्नरका किया, और शामके वक्त गवर्नर जेनरल हिन्द लॉर्ड नार्थ ब्रूक रेलमें आये, महाराणा साहिब स्टेशनपर पेइवाईको गये; वहांपर दक्षिण और गुजरातके कुल राजा लोग मौजूद थे. लॉर्ड साहिबसे मुलाक़ात करके वापस अपने डेरोंको चले आये. विक्रमी कार्तिक शुक्ल ५ [हि० ता० ४ शव्वाल = .ई० ता० ३ नोवेम्बर] को महाराणा साहिब गवर्नर जेनरल हिन्दके डेरेपर मुलाक़ातको गये, वग़्घीसे उतरे, जहांतक सेक्रेटरी और दर्वाजेतक फ़ॉरेन् सेक्रेटरी व आधे फ़र्शतक लॉर्ड साहिब पेइवाईको आये, १९ तोपोंकी सलाभी सर हुई, दाहिनी तरफ़ महाराणा साहिब और उनके ९ सर्दार व बाईं तरफ़ गवर्नर जेनरल हिन्द व उनके अफ़सर लोग थे. मिजाजकी खुशी वगैरह मामूली बातचीत होकर लॉर्ड गवर्नर जेनरलने खड़े होकर फूलकी माला पहिनाकर इत्र पान महाराणा साहिबको और फ़ॉरेन् सेक्रेटरीने मेवाड़के सर्दारोंको दिया; फिर महाराणा साहिबको लेआये. उसीतरह वग़्घीतक पहुंचाया. फिर अपने डेरेपर पधारे, तीसरे पहरको ईडरके महाराजा केसरीसिंहके डेरेपर गये, व दस्तूर मुलाक़ात कर वापस आये. विक्रमी कार्तिक शुक्ल ६ [हि० ता० ५ शव्वाल = .ई० ता० ४ नोवेम्बर] की शामको लाठ साहिब महाराणा साहिबके डेरेपर आये. वरामदेकी सीढ़ियोंके पास वग़्घीसे उतरे, वहांसे महाराणा साहिब पेइवाई कर लेआये. गवर्नर जेनरलके हाथपर महाराणा साहिबका हाथ था, दाहिनी तरफ़ लॉर्ड साहिब व उनके अंग्रेज़ अफ़सर, बाईं तरफ़ महाराणा साहिब व उनके हग़्घाही सर्दार कुर्सियोंपर बैठे. मेवाड़के सर्दारोंने जिनमें मैं (कविराजा श्यामलदास) भी शामिल था, एक एक अश्रफ़ी लॉर्ड साहिबको नज़्र दिखलाई. वाद इसके लाठ साहिबको फूलोंका हार व इत्र पान महाराणा साहिब ने और उनके अफ़सरोंको बेदलाके राव वरूतासिंहने दिया, पेइवाई करलाये वहांतक उसी तरह पहुंचाया. आजके दिन आवूसे एजेण्ट गवर्नर जेनरल राजपूतानह स्केअर लॉयल उदयपुरमें आये, क्योंकि महाराणा साहिब व पोलिटिकल एजेण्ट तो यहां न थे, और लॉर्ड नार्थ ब्रूक बम्बईसे उदयपुर होकर जानेकी रूवाहिश रखते थे, इससे लॉयल साहिबने यहां आकर कुल वन्दोवस्त करवाया. विक्रमी कार्तिक शुक्ल १० [हि० ता० ९ शव्वाल = .ई० ता० ८ नोवेम्बर] को शाहज़ादह एडवर्ड ऐल्वर्ट प्रिन्स

ऑफ वेल्सके बम्बई पालवा बन्दरपर जहाजसे उतरनेके समय महाराणा साहिब और दूसरे राजा लोग भी पेशवाईको गये. बन्दरपर राजा लोगोंके लिये कुर्सियां पोलिटिकल एजेण्ट मेवाड़के इक्रारसे बखिलाफ रखी गई. महाराणा साहिब कुछ बीमारीसे और कुछ इस इस्त्रिताफ्रीकी नाराजगीसे कुर्सीपर न बैठकर टहलते रहे, और शाहजादहके आनेपर मुलाकात करके अपने डेरेको वापस चले आये. ऊपर लिखेहुए दोनों कारणों से शाहजादहके साथ नहीं गये. इस रंजीदगीका नतीजह यह हुआ, कि उसी दिन से शाहजादह और गवर्नर जनरल हिन्दने राजा लोगोंसे नम्बरवार मुलाकात करनेका तरीक़ह तोड़दिया, जिसका नमूनह दिल्लीके कैसरी दरबारमें दिखलाया जावेगा. विक्रमी कार्तिक शुक्ल ११ [हि० ता० १० शव्वाल = .ई० ता० ९ नोवेम्बर] को महाराणा साहिब शाहजादहकी मुलाकातके लिये गये. वलीअहद आधे फ़र्शतक पेशवाई करके अपने हाथपर महाराणा साहिबका हाथ रखकर ले गये. दाहिनी तरफ़ कुर्सियोंपर महाराणा साहिब और उनके ९ सदाँर बैठे और बाई तरफ़ कुर्सियोंपर शाहजादह और उनके अप्सर लोग. महाराणा साहिबके ९ सदाँरोंने शाहजादहको एक २ अश्रफ़ी नज़्र दिखलाई; मिजाजपुरी वगैरह खुशीकी बातें होकर महाराणा साहिबको शाहजादहने इत्र पान देकर जहांसे लाये वहांतक पहुंचाया, और वे अपने डेरेको चले आये. शामके वक्त शाहजादहको दिखलानेके लिये बम्बईमें रौशनी हुई, जिसकी कैफ़ियत देखनेके लाइक़ थी. शाहजादह और कुल राजा लोग अपने अपने तौरपर सैर करते थे, काच कटोरोंमें सौदागरोंकी दूकानों और कुल मकानोंपर रौशनीकी यह हालत थी, कि मानो हरएक मकान आगकाशोला दिखाई देता था, जिनमें रंग रंग के काचके दीपक अनेक क़तारों व बेलवूटोंके ढंगपर देखने वालोंकी निगाहको अपनी तरफ़ खींचते थे. सड़कपर बग्घियोंका हुजूम इस क़द्र था, कि किसीको बग्घी घुमाकर बग़लपर लेनेकी जगह नहीं मिली, धीरे धीरे बग्घियोंकी क़तारकी चालपर अपनी अपनी बग्घियोंको चलाना पड़ा; इसी तरह आदमियोंका भी हुजूम हुआ. हम लोगोंकी बग्घियां भी महाराणा साहिबकी बग्घीसे दूर पड़ गई; बड़ी मुश्किलसे निकलनेका मौक़ा मिला; तब अपने अपने तौरपर डेरोंको आये. विक्रमी कार्तिक शुक्ल १२ [हि० ता० ११ शव्वाल = .ई० ता० १० नोवेम्बर] को पिछले पहर युवराज महाराणा साहिबके डेरेपर आये, बरामदेकी सीढ़ियोंके पास बग्घीसे उतरे, वहांसे महाराणा साहिब उन्हें पेशवाई कर लेआये, दाहिनी तरफ़ शाहजादह व उनके अप्सर लोग और बाई तरफ़ महाराणा साहिब व उनके हम्माही सदाँर बैठे; थोड़ी देरतक मुहब्बत आमेज़ शौक़िया बातें होती रहीं. महाराणा साहिबकी तरफ़वाले सदाँरोंने शाहजादहको एक एक अश्रफ़ी

नज़ दिखलाई. इसके बाद महाराणा साहिबकी तरफसे शाहज़ादहको तुहफे दियेगये और पेशवाईकी जगहतक उन्हें वापस पहुंचाया. विक्रमी कार्तिक शुक्ल १३ [हि० ता० १२ शव्वाल = ई० ता० ११ नोवेम्बर] को शामके वक्त महाराणा साहिब स्पेशल ट्रेनमें सवार होकर बम्बईसे रवानह हुए; विक्रमी कार्तिक शुक्ल १४ [हि० ता० १३ शव्वाल = ई० ता० १२ नोवेम्बर] को ५ घड़ी रात बाकी रहे भड़ौचमें पधारकर समुद्रगामिनी नर्मदा नदीमें स्नान करनेके बाद उसी ट्रेनमें सवार होकर बड़ोदाके स्टेशनपर पहुंचे, जहां तोपोंकी और फौजकी सलामी हुई. बाद इसके अहमदाबाद पहुंचे, स्टेशनपर अंग्रेज़ अफसर व फौज मौजूद थी, महाराणा साहिब सबकी सलामी लेते हुए सेठ मगनभाई हटीभाईके बंगलेपर पधार गये; सलामीकी १९ तोपें छावनी के तोपखानहसे चलीं. विक्रमी मार्गशीर्ष कृष्ण १ [हि० ता० १५ शव्वाल = ई० ता० १४ नोवेम्बर] को वहांसे रवानह होकर देवगाम, हरसोलकी छावनी, बाकरोल, समेरा, सीसोद और धूलेवमें मक़ाम करते हुए विक्रमी मार्गशीर्ष कृष्ण ७ [हि० ता० २० शव्वाल = ई० ता० १९ नोवेम्बर] को उदयपुरमें दाखिल हुए. इस सफ़रकी खिद्यतमें इस किताबका लिखने वाला (कविराजा श्यामलदास) भी हरवक्त हाज़िर था. विक्रमी मार्गशीर्ष कृष्ण ११ [हि० ता० २४ शव्वाल = ई० ता० २३ नोवेम्बर] को लॉर्ड नार्थब्रूक बग्घियोंकी डाकके जरीएसे दस बजे मगरवाड़ मक़ामपर पहुंचे, और हाज़िरी खानेके बाद करीब पौने पांच बजे उदयपुरसे साढ़े तीन मील फ़ासिलहपर, जहां डेरा खड़ा कियागया था, दाखिल हुए; वहांसे पांच बजे हाथी सवार होकर मुलाक़ातकी जगह आये. इधरसे महाराणा साहिब भी अपने हज्जाहियों समेत हाथी सवार होकर पधारे, राजधानीसे पौने तीन मील दूर हाथियोंपर ही मुलाक़ात हुई. दाहिनी तरफ़ लाठ साहिबका हाथी और बाई तरफ़ महाराणा साहिबका हाथी रहा. महाराणा साहिबके पीछे सर्दार लोगोंके और लाठ साहिबके पीछे साहिब लोगोंके हाथी थे; फिर सूरजपौलके बाहिर हवालाके बराबरसे लाठ साहिब और महाराणा साहिब मए दो दूसरे साहिबोंके एक बग्घीमें और बाकी साहिब लोग व सर्दार दूसरी बग्घियोंमें सवार होकर शम्भुनिवास महलमें दाखिल हुए, जहां लॉर्ड साहिबका डेरा तज्वीज़ कियागया था; २१ तोपें सलामीकी रियासती तोपखानहसे सर हुई. इसवक्त जिस रास्ते होकर लॉर्ड साहिब आये, उस तरफ़ बाज़ार और महलोंमें रौशनी हुई, और बड़े चौकमें रियासती फौजने व शम्भुनिवासके चौकमें खैरवाड़ाकी भील कॉर्प्सने सलामी ली. लाठ साहिबकी पेशवाईको उदयपुरसे ४० मील गांव मगरवाड़तक बनेड़ाके राजा गोविन्दसिंह व मेजाके रावत अमरसिंह,

और ११ मील गांव डबोकतक महता गोकुलचन्द भेजेगये थे, विक्रमी मार्गशीर्ष कृष्ण १२ [हि० ता० २५ शव्वाल = .ई० ता० २४ नोवेम्बर] को फ़ज्बके सवा नौ बजे महाराणा साहिबकी तरफ़से बेदलाका राव बरतसिंह, देलवाड़ाका राज फ़तहसिंह, बदनौरका ठाकुर केसरीसिंह, आसींदका रावत् अर्जुनसिंह, ये चारों सदाँर लॉर्ड साहिबकी मिजाजपुरीको भेजेगये. ११ बजे महाराणा साहिब मए बेदलाके राव बरतसिंह, सलूंवरके रावत् जोधसिंह, देलवाड़ाके राज फ़तहसिंह, गोगूदाके राज मानसिंह, बदनौरके ठाकुर केसरीसिंह, बानसीके रावत् मानसिंह, पारसोलीके राव लक्ष्मणसिंह, आसींदके रावत् अर्जुनसिंह और करजालीके महाराज सूरतसिंहके लॉर्ड साहिबकी मुलाकातको शम्भुनिवास पधारे, और दस्तूरके मुवाफ़िक़ मुलाकात कर वापस आये. फिर लॉर्ड नार्थब्रूक जगमन्दिर महलको मुलाहज़ह फ़र्मानेके बाद हरिदासकी मगरीपर सूअरोंको देखकर किश्तियोंमें रौशनीकी सैर करते हुए वापस आये. विक्रमी मार्गशीर्ष कृष्ण १३ [हि० ता० २६ शव्वाल = .ई० ता० २५ नोवेम्बर] को लॉर्ड साहिब महाराणा साहिबकी मुलाकात को महलोंमें आये, दस्तूरके मुवाफ़िक़ मुलाकात हुई; फिर लॉर्ड साहिब गोवर्द्धनविलास, जगन्निवास और महासतीके स्थानोंको देखकर वापस आये. इन मुलाकातोंमें हर मौक़ेपर लॉर्ड साहिबकी २१ और महाराणा साहिबकी १९ तोप सलामी रियासती तोपखानहसे सर हुई, इसलिये कि लॉर्ड साहिबके साथ तोपखानह न था. फिर मार्गशीर्ष कृष्ण १४ [हि० ता० २७ शव्वाल = .ई० ता० २६ नोवेम्बर] को ७ बजे लॉर्ड साहिब उदयपुरसे खानह होकर राजनगर होते हुए जोधपुर चलेगये.

ईडरके महाराजा केसरीसिंह सलूंवर शादी करके विक्रमी फाल्गुन शुक्ल १० [हि० १२९३ ता० ८ सफ़र = .ई० १८७६ ता० ५ मार्च] को उदयपुरमें आये, दस्तूरके मुवाफ़िक़ मुलाकात, पेशवाईवगैरह होकर सहेलियोंकी बाड़ीमें ठहरे. विक्रमी चैत्र कृष्ण ४ [हि० ता० १७ सफ़र = .ई० ता० १४ मार्च] को कूच हुआ, बीचमें दस्तूरके मुवाफ़िक़ मुलाकातें हुई. इन दिनोंमें पोलिटिकल एजेण्ट मेवाड़ कर्नेल् हर्बर्ट साहिबकी मारिफ़त कृष्णगढ़के महाराजा पृथ्वीसिंहकी कन्याका संबन्ध महाराणा साहिबके साथ होनेकी बातचीत हुई. विक्रमी १९३३ ज्येष्ठ कृष्ण ११ [हि० ता० २४ रबीउस्सानी = .ई० ता० १९ मई] को कृष्णगढ़से कोटड़ीका ठाकुर मेघसिंह और महता महेशदास गद्दीनशीनीका टीका लाये, और उक्त संबन्धकी बातचीत पुरतह की.

इन दिनोंमें नाथद्वाराका गोस्वामी गिरधरलाल अपने कदीमी ढंगको छोड़कर रईसानह मगूरुकीके सबब रियासती हुकूमतसे बाहिर निकलनेकी चेष्टा करनेलगा; उसके चाल चलन और इस मगूरुकीसे महाराणा साहिब व कुल रियासती लोग नाराज़ थे.

आखरकार उसकी सर्कशी मिटाना मुनासिब जानकर काइम मक़ाम पोलिटिकल एजेण्ट मेवाड़ मेजर कैनिंग और बेदलाका राव बरूतसिंह व महता गोकुलचन्द वगैरह कौन्सिलके सर्दार फ़ौज लेकर विक्रमी १९३३ वैशाख शुक्ल १५ [हि० १२९३ ता० १३ रबीउस्सानी = ई० १८७६ ता० ८ मई] को उदयपुरसे रवानह होकर लालबाग़ पहुंचे. उसके कुछ अरसह पहिले गोस्वामी व लालबाबा मए सौ सवार और सौ आदमी हथियार बन्दके लालबाग़में आगये थे. उसवक्त रिंसालदार जानमुहम्मदको हुकम दियागया, कि सवारोंको लेजाकर बाग़को घेरलो, जिससे न कोई बाहिर जाने पावे और न भीतर आने पावे, और आधी फ़ौज व तोपखानह, मए अफ़सर महता गोपालदासके मन्दिरके बन्दोबस्तको भेजेगये. बाद इसके कौन्सिलकी यह राय करार पाई, कि पहिले जो हुकम हुआ है वही काइम रहे, याने गोस्वामी सीधी तरह उदयपुर न जावे, तो गिरिफ़तार कियाजावे. फिर महता गोकुलचन्दको जो हुकम पहिले गोस्वामीके नाम लिखागया था लेकर उसके पास भेजा, लेकिन वह न आया; तब गंगल जमादारको भेजकर गोस्वामी के पास वाले शस्त्रबन्ध सिपाहियोंको हुकम दियागया, कि तुम बाग़से बाहिर निकलजाओ. इसपर कितनेएक लोग तो निकलगये, और कितनेएक गोस्वामीके पास मौजूद रहे. फिर दोबारह ठाकुर मनोहरसिंह व भाणेज मोतीसिंह समझानेके लिये भेजेगये. इस अरसहमें मन्दिरकी रिपोर्ट आई, कि जो विदेशी विलायती वगैरह मन्दिरमें मौजूद हैं उन्होंने मन्दिरके किवाड़ बन्द कर रखे हैं, भीतर नहीं जाने देते, बल्कि बन्दूकोंकी मुहरियां निकाल रखी हैं; तब उनको यह हुकम दियागया, कि अभी मन्दिरको घेरे रहो. इसके पीछे ठाकुर मनोहरसिंह व भाणेज मोतीसिंहने वापस आकर कहा, कि गोस्वामी अपनी इज्जतकी खातिरी चाहता है, जिसपर कैलवाके जागीरदार, मोहीके जागीरदार, व लाला हरनारायणको भेजकर कहलाया, कि हमको हुकम है, कि आप उदयपुर चले, हम आपको इज्जतके साथ लेजावेंगे, मगर वह टाला टूली करते रहे. तब आधी भील कम्पनी व शम्भु पलटनके निशान समेत सहीहवाला लक्ष्मणसिंह भेजागया, और हुकम दियागया, कि लालबाबाको यहां भेजदो और गोस्वामीको पालकीमें विठाकर उदयपुर लेजाओ. उन्होंने हुकमके मुवाफ़िक़ गोस्वामीको घेरकर दूसरे लोगोंको हटानेके बाद उसे पालकीमें सवार करादिया, मगर उसने लालबाबाका हाथ पकड़कर अपने सामने पालकीमें विठालिया. तब ब्रजवासी वगैरह क़दीमी लोग जो उस ठिकानेमें हैं, कहने लगे कि अब हमको क्या हुकम है ? तब जीलवाड़ाके सोलंखी राजसिंहको उनके साथ भेजकर हुकम दिया, कि लालबाबाको लेआओ. उन्होंने जाकर लालबाबाको पालकीमेंसे उठाकर खींचलिया, और कौन्सिलके सामने जय जय शब्द कहते हुए लेआये.

गोस्वामीके पासवाले शस्त्र बन्ध सिपाहियोंके हथियार इस मुवाफिक छीन लिये गये— तलवार ३२, कटारियां २, ढाल ५, टोपीदार बन्दूक १, छुरी १, और ये सब एकट्टे करायेजाकर अफसर तोपखानहके सुपुर्द कियेगये, बाद इसके गोस्वामीको दिनके दो बजे सर्कारी जाबितहके साथ उदयपुरकी तरफ रवानह करके लालबाबाको कहागया, कि नीचे लिखी हुई शर्तें आपको मन्जूर हों, तो लिखकर पेश करें, आपको श्री दरबार गद्दीनशीन करेंगे:—

शर्तें.

१— हमको हर सूरत श्री दरबारकी हुकूमत व हुकम मुवाफिक चलना मन्जूर है, कभी किसी तरहका उज्र न होगा.

२— श्री नाथजीकी सेवा सामग्री परंपरासे होती है, जिसमें अभी फर्क हुआ था, सो अब अगली रीतिके मुवाफिक दरबार जो रीति बांध देंगे, उसमें फर्क न होगा; श्री नाथजीकी सेवा सामग्री गऊ, ब्रजवासी टहलुवे, सेवकोंकी जो परंपरा रीति है वही बर्तेंगे.

३— विदेशी सिपाही लोगोंको नहीं रक्खेंगे, मन्दिर व शहरके लिये, जो जाबितह दरबार मुकर्रर करेंगे वह हमको मन्जूर है, और तन्ख्वाह हम देवेंगे.

४— दीवानी व फौजदारीका बन्दोबस्त वास्ते श्री दरबारकी तरफसे एक अहलकार मुकर्रर करदेवें, सो हमको पूछकर काम किया करे.

ये चारों शर्तें हमको मन्जूर हैं, और हम उदयपुर आवेंगे, तब दरबार बन्दोबस्त बांध देवेंगे वह हमको कुबूल है. इसपर उन्होंने दरखास्त की, कि सदैवसे हमारे घरका हमको इस्तिथार है, सो हम होशियार होवें उसवक्त सब इस्तिथार हमको मिले. तब यह तज्वीज ठहरी, कि जब यह लालबाबा होशियार और नेक चालचलनके हों, तो सब इस्तिथार दीवानी व फौजदारीके इन्हें दिये जावें, और जो कोई इनके ऊपर श्री दरबारमें अर्जाऊ होवे, तो मिस्ल व आसामी श्री दरबारमें भेजें, और दरबारकी अदालतोंके हुकमकी तामील करें, इसका इक्रारनामह लियाजावे. इसी अरसहमें मन्दिर का बन्दोबस्त राजकी तरफसे कियागया, याने उनकी सिपाहको निकालकर मौके मौके पर राजके पहरे मुकर्रर करदियेगये; फिर लालबाबाको मन्दिरमें जानेकी इजाजत दीगई, और कौन्सिल बर्खास्त हुई. फिर ८ बजे रातको कौन्सिलका इज्लास हुआ, जिसमें अव्वल वे लोग पेश हुए, जिनको गोस्वामीकी गिरिफ्तारीके वक्त उनके हम्नाही समझकर ब्रजवासी लोगोंने पकड़ लिया था. इन लोगोंमें ५ शख्स तो रिसालदार व सूबेदार वगैरह अफसर और ९ शख्स कारखानोंके दारोगह, अहलकार, और १ यात्री था, जिनमेंसे आपा व

निर्भयराम तो हिसाबका इल्जाम होनेके सबब हवालातमें रक्खेगये और बाकी सब लोग रिहा कियेगये. रिसालदार व सूबेदारको यह हुकम सुनायागया, कि तुम तन्ख्वाह पाकर बर्खास्त कियेजाओगे, और तन्ख्वाह उसवक्ततक मिलेगी, जब कि हिसाब चुकाया जावेगा; इनके अलावह कारखानोंके दारोगह व अहलकार वगैरह ७ आसामी बदस्तूर अपने अपने उद्देपर बहाल रहे, और यात्री रुखसत कियागया. मन्दिर व शहरके बन्दोबस्तके वास्ते यह तज्वीज हुई, कि महता गोपालदासको मुकर्रर करके हुकम दियाजावे, कि अधिकारीकी सलाहसे यहांके कुल कामका बन्दोबस्त रक्खे, किसी तरहका खलल न पड़े. पहिले जो अहलकार हैं, उनसे सब काम सरिस्तहके मुवाफिक चलाते रहो; और अधिकारी बालकृष्णदास, जो कि वहांका कदीमी प्रधानेके तौर काम करता है, उसको हुकम दियाजावे, कि यहांके सब कामका जिम्मह तुम्हारा समझो, किसी तरह मन्दिरके काममें खलल न आवे, और किसी तरहका नुकसान या गलती होगी, तो जवाब तुमसे लिया जावेगा; और दूसरे अहलकारोंको हुकम दिया जावे, कि अधिकारी व महता गोपालदासके हुकमकी तामील करें. फिर १० बजे कौन्सिल बर्खास्त हुई. इसके बाद ६ बजे प्रातः कालको मेम्बर लोग मन्दिरमें जाकर ऊपर लिखेहुए हुकम सुनानेके बाद उदयपुरको रवानह हुए. इस गुसाईने महाराणा साहिवसे बगावत करनेके सिवा अपने बाप दादोंका ढंग छोड़कर मन्दिरके बालभोगमें कमी करदी और यात्रियोंपर दवाव डालकर उनसे धन एकट्टा किया, और वही धन लाला मुन्शियोंको खिलाकर अपने तई एक जुदा खुदमुख्तार रईस बनानेकी कोशिश करना शुरू किया; अलावह इसके निर्दयता ऐसी इस्तिवार करली थी, कि कई मनुष्योंको कैद करके भूख पियास व मारपीटसे मृतप्राय कर रक्खा था. ये बात देखकर महाराणा स्वरूपसिंहने उक्त गोस्वामीकी बुरी आदतें छुड़ानेकी गरजसे धमकीके तौर नाथद्वाराके पट्टेपर खालिसह भेजदिया था, लेकिन कुल अरसह बाद समझाइश करके खालिसह वापस उठा लिया. इसी तरह महाराणा शम्भुसिंह साहिवके वक्तमें भी विक्रमी १९२८ [हि० १२८८ = ई० १८७१] में फिर खालिसह भेजागया, तोभी उसने अपनी आदतें न छोड़ीं, तब मजहबी पेशवाओंके बखिलाफ चालचलनसे गिरधरलालके लिये ऊपर लिखी हुई सजा तज्वीज कीगई, और उसको उदयपुरमें रखना मस्लिहत न जानकर विक्रमी १९३३ ज्येष्ठ कृष्ण १३ [हि० १२९३ ता० २६ रबीउस्सानी = ई० १८७६ ता० २१ मई] को मथुरा वृन्दावन भेजदिया, और यह हुकम हुआ कि वह नेक चलनसे वहां बैठा रहेगा, तो १०००१ रुपया माहवारी खर्चके लिये नाथद्वारासे मिलता रहेगा; लेकिन उसने अपनी आदतके मुवाफिक वहांसे निकलकर कई उपद्रव किये, जिससे उन रुपयोंका मिलना भी बन्द होगया, और अबतक वह कलकत्ता, बम्बई वगैरह अंग्रेजी अमलदारीमें श्रीगोवर्द्धननाथ की भेटमें खलल डालता फिरता है. महाराणा साहिवने गिरधरलालकी जगह उनके

पुत्र गोवर्द्धनलालको नाथद्वारेका गोस्वामी मुकर्रर करके विक्रमी ज्येष्ठ शुक्ल पक्षमें करीब पांच वर्षतक खालिसह रहनेके बाद उठन्तरी करदी. पेशतर गोवर्द्धनलालको उदयपुर बुलाकर दस्तूरके मुवाफिक सन्मान और आश्वासन किया, फिर विक्रमी आषाढ़ कृष्ण १ [हि० ता० १४ जमादियुल् अन्वल् = .ई० ता० ७ जून] को नाथद्वारे पधारकर उनको गद्दीपर विठानेका दस्तूर अदा करआये, और गोवर्द्धनलालके कम उम्र होनेके कारण नाथद्वारेका प्रबन्ध अपने हाथमें रखकर पेशतर महता गोपालदासको और बाद उसके मोहनलाल विष्णुलाल पंड्याको वहांका प्रबन्धकर्ता मुकर्रर किया. इसवक्त बहुतसे बखेड़े उठे, श्रीगोवर्द्धननाथकी भेट जो कोटा व गुजरात वगैरहसे आती थी उसमें गिरधरलालने खलल डालना चाहा, लेकिन महाराणा साहिबकी मददसे सब प्रबन्ध अच्छी तरह चलता रहा.

वल्लभकुलके गोस्वामी गिरिराजसे बादशाह आलमगीरके समय गोवर्द्धननाथकी मूर्ति लेकर मेवाड़में आये, जिसका संक्षेप हाल तो महाराणा राजसिंह पहिलेके वृत्तान्तमें लिखागया है— (देखो पृष्ठ ४५३). अब यहांपर वल्लभाचार्यसे लेकर गोवर्द्धनलाल तकका कुर्सीनामह लिखाजाता है:—

- | | | | |
|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| १-वल्लभाचार्य. | २-विठ्ठलनाथ १. | ३-गिरधर १. | ४-दामोदर १. |
| ५-विठ्ठलनाथ २. | ६-गिरधर २. | ७-दामोदर २ (१). | ८-गिरधर ३. |
| ९-रघुनाथ. | १०-गोविन्द. | ११-गोकुलेश. | १२-गोपेश्वर. |
| १३-कृष्णराय. | १४-गोविन्दराय. | १५-गिरधर ४. | १६-गोवर्द्धनलाल. |

विक्रमी आषाढ़ शुक्ल १ [हि० ता० २९ जमादियुल् अन्वल् = .ई० ता० २२ जून] को महाराणा साहिबका कृष्णगढ़का सम्बन्ध पुरतह होकर कोटडीके मेघसिंह और महता महेशदासको कृष्णगढ़ जानेकी रुरसत मिली. इन्हीं दिनोंमें जोधपुरके महाराजा जशवन्तसिंहने अपनी बहिनका सम्बन्ध महाराणा साहिबके साथ करनेकी कोशिश राजपूतानहके एजेण्ट गवर्नर जेनरल स्केअर लॉयल साहिबकी मारिफत की. इस मुआमलहमें बाज लोगोंकी यह राय हुई, कि एकदम इन्कार करदिया जावे, लेकिन महाराणा साहिबने अंग्रेज अफसरोंकी मारिफतके सवालका जवाब शाइस्तगीके साथ देना चाहा. महता पन्नालाल और पुरोहित पद्मनाथको आवू भेजकर सम्बन्धकी बातोंमें चन्द कलमें पेशतर तय करने को पेश कीं, जिन्हें मुन्सिफानह जानकर अंग्रेजी अफसर इस मुआमलहसे किनारा करगये; तब जोधपुरके महाराजा साहिबने आशिया चारण कविराजा मुरारिदानको उदयपुर भेजा, वह

(१) यह विक्रमी १७२८ [हि० १०८२ = .ई० १६७१] में गोवर्द्धननाथको लेकर मेवाड़में

आये.

विक्रमी श्रावण शुक्ल १५ [हि० ता० १४ रजव = .ई० ता० ५ अगस्त] को यहां आया, और उसकी पेशवाईके लिये धर्यावदके रावत् केसरीसिंह व बेमालीके रावत् लक्ष्मणसिंह धायभाईकी पुलांतक भेजेगये. उक्त कविराजाने जोधपुरमें अपनेको बांहपसाव होनेके सबब यहांसे भी वैसाही बर्ताव रखनेकी दरखास्त की. तब महाराणा साहिबने पेशतर मुझ (कविराजा श्यामलदास) को बांहपसाव .इनायत करनेके बाद विक्रमी भाद्रपद कृष्ण ३ [हि० ता० १७ रजव = .ई० ता० ८ अगस्त] को कविराजा मुरारिदानको महलोंमें बुलाकर ताजीम और बांहपसावकी .इज्जत दी. इस सम्बन्धके बारेमें बहुत कुछ बात चीत हुई, परन्तु चन्द बातें ऐसी पेश आईं, कि जिनसे यह मुलतवी रहा, और विक्रमी आश्विन शुक्ल १५ [हि० ता० १४ रमजान = .ई० ता० ३ अक्टोबर] को कविराजा मुरारिदान रुखसत होकर जोधपुरको चलागया. विक्रमी कार्तिक शुक्ल १ [हि० ता० २९ रमजान = .ई० ता० १८ अक्टोबर] को कृष्णगढ़ विवाह करनेका प्रारम्भ, अर्थात् गणपतिस्थापन हुआ. इसवक्त भी पहिली शादीके मुवाफिक सर्दारों, पासवानों, और अहलकारोंकी तरफसे हमेशह जल्से होते रहे, और महाराणा साहिबने नीचे लिखेहुए नौकरोंको उनके मकानोंपर पधारकर .इज्जतें बख्शीं. इस किताबके लिखने वाले (कविराजा श्यामलदास) के मकानपर विक्रमी कार्तिक शुक्ल ७ [हि० ता० ६ शव्वाल = .ई० ता० २४ अक्टोबर] को पधारकर दिनभर विराजे, और शामको बनोलेकी दावत अरोगनेके बाद बड़ी धूमधाम के साथ महलोंको सिधारे. इसीतरह महता गोकुलचन्द, बागौरके महाराज शक्तिसिंह, मामा राठौड़ बख्तावरसिंह, धव्वा राव बदनमल्ल, ढींकड़िया तेजराम, महता मुरलीधर, करजालीके महाराज सूरतसिंह, महता लालचन्द, शिवरतीके महाराज गजसिंह, पुरोहित पद्मनाथ, पीपलियाके रावत् कृष्णसिंह, धायभाई गणेशलाल, सर्दारगढ़के ठाकुर मनोहरसिंह, ताणाके राज देवीसिंह, पारसोलीके राव लक्ष्मणसिंह, बेदलाके राव बख्तसिंह, सहीहवाला कायस्थ अर्जुनसिंह, कुरावड़के रावत् रत्नसिंह और काकरवाके राणावत उदयसिंह वगैरहकी तरफसे दावतें और जल्से बड़ी धूमधामके साथ होते रहे. इन्हीं दिनोंमें विक्रमी कार्तिक शुक्ल १३ [हि० ता० १२ शव्वाल = .ई० ता० ३० अक्टोबर] को महाराणा साहिबके इख्तियारातकी दावत लॉर्ड साहिबका खरीतह आया. विक्रमी मार्गशीर्ष कृष्ण ३ [हि० ता० १७ शव्वाल = .ई० ता० ४ नोवेम्बर] को उदयपुरसे वरात याने लश्करका कूच हुआ, और महाराणा साहिब विक्रमी मार्गशीर्ष कृष्ण ७ [हि० ता० २१ शव्वाल = .ई० ता० ८ नोवेम्बर] को बग्घीकी डाकमें सवार होकर शामके वक्त गुरलां मकामपर लश्करमें दाखिल हुए. वहांसे भीलवाड़ा और भीलवाड़ा

से बनेडे पहुंचे, राजा गोविन्दसिंहकी तरफसे किलेमें पधरावनी और दावत हुई. वहांसे शाहपुरामें दाखिल हुए, जहां राजाधिराज नाहरसिंहने पधरावनी व दावत की, यहांसे फूलिया होकर सरवाड़में मक़ाम हुआ, इस मक़ामपर कृष्णगढ़का महता सौभाग्यसिंह और रघुनाथपुराका जागीरदार राठौड़ भारतसिंह टीकेका दस्तूर लेकर आये. यहांसे चलकर आकोदड़ा और वहांसे गांव दाचे मक़ाम हुआ, जहां विक्रमी मार्गशीर्ष शुक्ल १ [हि० ता० २९ शव्वाल = ई० ता० १६ नोवेम्बर] की फ़ज्रको कृष्णगढ़के महाराजा पृथ्वीसिंह मए कुंवर शार्दूलसिंह, जवानसिंह व वहांके पोलिटिकल एजेण्ट बेली साहिबके पेशवाईको आये, दस्तूरके मुवाफ़िक़ मुलाक़ात होकर कृष्णगढ़के महाराजा पृथ्वीसिंह मए दोनों पुत्रोंके महाराणा साहिबकी बग्घीमें और पोलिटिकल एजेण्ट मेवाड़ कर्नेल हर्बर्ट व जयपुरके पोलिटिकल एजेण्ट दोनों दूसरी बग्घीमें और मेवाड़के सर्दार भी बग्घियोंमें बैठकर कृष्णगढ़ पहुंचे. महाराणा साहिबको डेरोंमें पहुंचाकर महाराजा पृथ्वीसिंह अपने महलोंको सिधारे. शामके वक्त बड़ी धूमधामसे महाराजा पृथ्वीसिंहकी राजकुमारी जवाहिरकुंवर बाईके साथ महाराणा साहिबका विवाह हुआ. इस विवाहमें कृष्णगढ़की तरफसे महाराणा साहिब और उनकी फ़ौजका आतिथ्य बड़ी मुहब्बतके साथ कियागया. विक्रमी मार्गशीर्ष शुक्ल ६ [हि० ता० ५ जिल्काद = ई० ता० २२ नोवेम्बर] को एजेण्ट गवर्नर जेनरल राजपूतानह मेजर वाल्टर साहिब भी इस जल्सेमें शरीक हुए. विक्रमी मार्गशीर्ष शुक्ल ९ [हि० ता० ८ जिल्काद = ई० ता० २५ नोवेम्बर] को पोलिटिकल एजेण्ट मेवाड़ कर्नेल हर्बर्ट साहिबकी जगह मेजर इम्पी साहिब आये, और हर्बर्ट साहिब रुख़सत होकर गये. विक्रमी मार्गशीर्ष शुक्ल १० [हि० ता० ९ जिल्काद = ई० ता० २६ नोवेम्बर] को महाराणा साहिब कृष्णगढ़से खानह होकर गगवाणे और वहांसे अजमेर पहुंचे, एक कोसतक अजमेरके कमिश्नर वगैरह ८ साहिब पेशवाईको आये, महाराणा साहिब आनासागर तालाबपर सेठ शमीरमल्लकी कोठीमें ठहरे. विक्रमी मार्गशीर्ष शुक्ल १३ [हि० ता० १२ जिल्काद = ई० ता० २९ नोवेम्बर] को पुष्कर स्नान करने गये, और विक्रमी पौष कृष्ण ५ [हि० ता० १८ जिल्काद = ई० ता० ५ डिसेम्बर] को जनानी सवारी व बाकी फ़ौज उदयपुरको खानह कीगई, क्योंकि महाराणा साहिबने दिल्लीके कैसरी दरबारमें जाना बड़ी बहसके बाद कुबूल करलिया था. विक्रमी पौष शुक्ल २ [हि० ता० ३० जिल्काद = ई० ता० १७ डिसेम्बर] को अजमेरसे स्पेशल ट्रेनमें सवार होकर जयपुर पहुंचे, वहांके महाराजा सवाई रामसिंह पेशवाईको स्टेशनपर मौजूद थे. महाराणा साहिब भी गाड़ीसे उतरकर मिले, तरफ़ैनके सर्दारोंने नज़े दिखलाई, फिर स्पेशल ट्रेनमें सवार होकर विक्रमी पौष शुक्ल ३ [हि० ता० १

जिल्हज = .ई० ता० १८ डिसेम्बर] की शामको दिल्ली पहुंचे, रेलगाड़ीसे स्टेशन के दर्वाजेतक लाल बानातका फर्श बिछाया गया, और पेशवाईको दिल्लीके कमिश्नर कर्नेल् डेविस और पुलिसके असिस्टेंट सुपरिन्टेण्डेंट साहिब, अपसर मुसाहिब मेजर आंडर्स फॉरेन डिपार्टमेण्टके अटाची मए फौजी कम्पनी व रिसालेके मौजूद थे. गवर्मेण्टकी तरफसे १९ तोपोंकी सलामी सर हुई. फिर डेरोंमें पहुंचे उसवक्त भी १९ तोपोंकी सलामी सर्कारी तोपखानहसे सर हुई. महाराणा साहिबसे महाराजा जोधपुरकी मुलाकात करीब १०५ वर्षसे बन्द थी (१), और महाराणा साहिबकी यह स्वाहिश थी, कि कुल राजपूतानहमें एकता फेलाई जावे, इसलिये मालिकोंकी मर्जीके मुवाफिक मेरी (कविराजा श्यामलदासकी) और जोधपुरके कविराजा मुरारिदानकी मारिफत इस बातकी कोशिश होरही थी, लेकिन रजवाड़ी दस्तूरोंकी रोकसे मौका न मिला. इसवक्त कविराजा मुरारिदान तो जोधपुरमें रहगया और मैंने खान बहादुर भय्या फैजुल्लाहखांको कहा, कि पेशतर कौन किसके डेरेपर आवे, इस बहसको तय करना चाहिये. उसने महाराजा साहिबसे अर्ज की. वे तो साफ़ दिल थे, मन्ज़ूर करलिया कि पेशतर हम महाराणा साहिबके पास जाकर मुलाकात करेंगे. विक्रमी पौष शुक्ल ५ [हि० ता० ४ जिल्हज = .ई० ता० २१ डिसेम्बर] की शामको महाराजा जशवन्तसिंह साहिब मुलाकातको आये. महाराणा साहिब डेरोंकी ड्यौढीतक पेशवाई करके उन्हें भीतर लेआये, कुर्सियोंपर दोनों महाराजाधिराज और तरफैनके सर्दार बैठगये, थोड़ी देरतक मुहब्वत आमेज् बातें होती रहीं. रुख्सत होनेके वक्त महाराणा साहिबने पेशवाईकी जगहतक महाराजाको पहुंचा दिया. यह सैकड़ों वर्षकी रोक टोकका खातिमह होनेका प्रारम्भ हुआ. दूसरे रोज़ इसीतरह महाराणा साहिब भी जोधपुर महाराजा साहिब के डेरेपर मुलाकातको पधारे. शामके वक्त रीवांके महाराजा रघुराजसिंह महाराणा साहिब से मुलाकात करनेको आये, दस्तूरके मुवाफिक मुलाकात हुई. फिर एकान्त में बात चीत करके वापस गये. विक्रमी पौष शुक्ल ७ [हि० ता० ६ जिल्हज = .ई० ता० २३ डिसेम्बर] को लॉर्ड लिटनकी पेशवाईके लिये महाराणा साहिब और दूसरे राजा लोग स्टेशनपर गये, दिनके दो बजे लॉर्ड साहिब स्पेशल ट्रेनमें आये, महाराणा साहिब और सब राजा लोग उनसे मुलाकात करके जुमा मस्जिदतक साथ साथ गये, वहांसे लॉर्ड साहिब अपने डेरोंमें गये, और सब राजा लोग अपने अपने

(१) विक्रमी १९२७ [हि० १२८७ = .ई० १८७०] में जोधपुरके महाराजा तरुतसिंह महाराणा शम्भुसिंह साहिबसे अजमेरके मकामपर मिले थे, वह खानगी मुलाकात थी, दस्तूरी मुलाकात

इस वक्तसे पहिले नहीं हुई.

डेरोंमें गये. महाराणा साहिब और महाराजा साहिब जोधपुर एक बग्घीमें सवार होकर अपने कैम्पमें तशरीफ लाये. विक्रमी पौष शुक्ल ९ [हि० ता० ८ ज़िल्हिज = ई० ता० २५ डिसेम्बर] को कृष्णगढ़के महाराजा पृथ्वीसिंह मुलाकातके लिये डेरेपर आये; महाराणा साहिबने मामूलके मुवाफ़िक मुलाकात की. उनके बाद भालरापाटनके महाराजराणा दूसरे ज़ालिमसिंह मुलाकातको आये. इसके बाद महाराणा साहिब बग्घी सवार होकर कृष्णगढ़ महाराजाके डेरेपर मुलाकातको पधारे. विक्रमी पौष शुक्ल १० [हि० ता० ९ ज़िल्हिज = ई० ता० २६ डिसेम्बर] को पहर दिन चढ़ेके करीब महाराणा साहिब लॉर्ड लिटनके डेरेपर मुलाकातको पहुंचे. हाथी, रिसाला और पलटन वगैरह लवाजिमह तो पहिलेही पहुंचादिया था, महाराणा साहिबके साथ ९ सर्दार, बेदलाका राव बरूतसिंह, बेगमका रावत् तीसरा मेघसिंह, मेजाका रावत् अमरसिंह, पारसोलीका राव लक्ष्मणसिंह, करजालीका बाबा महाराज सूरतसिंह, सर्दारगढ़का ठाकुर मनोहरसिंह, पीपलियाका रावत् कृष्णसिंह, ताणाका राज देवीसिंह और बेदलाके रावका पुत्र तरूतसिंह थे. बग्घीसे उतरनेकी जगहतक फ़ॉरेन डिपार्टमेण्टके दो सेक्रेटरी और फ़र्शके किनारेतक लॉर्ड लिटन पेशवाई करके महाराणा साहिबको लेगये. कुर्सियोंपर बैठनेके बाद महाराज राणी विक्टोरियाकी तस्वीरवाला सोनेका चांद और एक निशान लॉर्ड साहिबने महाराणा साहिब को दिया, और दो तोप सलामीकी फिर बढ़ाई गई. इसके बाद जिसतरह पेशवाई करके लाये उसी तरह पहुंचागये. फिर महाराणा साहिब बग्घी सवार होकर अपने डेरोंमें आये. विक्रमी पौष शुक्ल ११ [हि० ता० १० ज़िल्हिज = ई० ता० २७ डिसेम्बर] को लॉर्ड लिटन महाराणा साहिबकी मुलाकातको डेरोंपर आये. इस कैसरी दरवारमें लॉर्ड साहिबने मुलाकात व बर्तावके नम्बर तोड़ दिये थे, कि जिससे किसीको नागुवार न गुजरे, इसवास्ते पेशतर भालावाड़के राजराणा ज़ालिमसिंहकी मुलाकात को गये, और उसके बाद महाराणा साहिबकी मुलाकातको आये. भालावाड़के डेरोंतक बेगमका रावत् मेघसिंह, मेजाका रावत् अमरसिंह, पारसोलीका राव लक्ष्मणसिंह और करजालीका महाराज सूरतसिंह पेशवाईको गये. लॉर्ड साहिबके बग्घीसे उतरने के स्थानतक लाल बानातका फ़र्श बिछाया गया, और महाराणा साहिब पेशवाई करके उन्हें डेरेमें लेआये. दाहिनी तरफ़ कुर्सीपर लॉर्ड लिटन और उनके पास फ़ॉरेन सेक्रेटरी, और एजेण्ट गवर्नर जेनरल राजपूतानह व दस अंग्रेज़ अफसर दूसरे बैठे, और बाई तरफ़ महाराणा साहिबके पास पोलिटिकल एजेण्ट मेवाड़ कर्नेल् ई० सी० इम्पी और फ़र्स्ट असिस्टेंट पोलिटिकल एजेण्ट गार्डन और बेदलाका राव बरूतसिंह, बेगमका रावत् सवाई मेघसिंह, मेजाका रावत् अमरसिंह, पारसोलीका राव लक्ष्मणसिंह, आसीदका

रावत अर्जुनसिंह, करजालीका महाराज सूरतसिंह, सर्दारगढ़का ठाकुर मनोहरसिंह, हमीरगढ़का रावत नाहरसिंह, ताणाका राज देवीसिंह, कैलवाका जागीरदार औनाड़सिंह, मामा राठौड़ बरूतावरसिंह, मैं (कविराजा श्यामलदास), चहुवान रत्नसिंह, चहुवान अमरसिंह, राणावत उदयसिंह, राठौड़ पृथ्वीसिंह, चहुवान भैरवसिंह, शक्तावत मेघसिंह, चहुवान लक्ष्मणसिंह, बावलासके बाबा हमीरसिंहका पुत्र भोपालसिंह, सर्दारगढ़के ठाकुरका पुत्र प्रतापसिंह, गोगूदाके राज मानसिंहका पुत्र अजयसिंह, भींडरके महाराज हमीरसिंहका छोटा पुत्र रत्नसिंह, आढ़ा रामलाल चारण, बारहट चतुर्भुज चारण, धव्वा बदनमल्ल, महता पन्नालाल, सेठ जवाहिरमल्ल और जानी मुकुन्दलाल वगैरह सर्दार अहलकार अपनी अपनी जगह कुर्सियोंपर बैठे. फिर महाराणा साहिब और लॉर्ड साहिबके परस्पर शौक्रिया बात चीत होकर महाराणा साहिबने लॉर्ड साहिब व उनके ५ अफ़्सरोंको और बाकी साहिबोंको राव बरूतसिंहने इत्र पान देकर रुख्सत किया, और पेशवाई की उसी तरह पहुंचादिया. इसीतरह जोधपुर वगैरहके राजाओंसे लॉर्ड साहिबकी मुलाकातें हुईं. विक्रमी पौष शुक्ल १२ [हि० ता० ११ ज़िल्हिज = .ई० ता० २८ डिसेम्बर] को शामके वक्त कृष्णगढ़के महाराजा पृथ्वीसिंह डेरोंपर आये, और महाराणा साहिबसे मुलाकात करके वापस गये. इसके बाद महाराणा साहिब जोधपुरके डेरोंमें जाकर महाराजा जशवन्तसिंहसे मुलाकात कर आये. विक्रमी माघ कृष्ण १ [हि० ता० १४ ज़िल्हिज = .ई० ता० ३१ डिसेम्बर] को शामके वक्त रीवांके महाराजा रघुराजसिंह महाराणाकी मुलाकातको आये, और उनके जानेके बाद कृष्णगढ़के महाराजा पृथ्वीसिंह आये, थोड़ी देर पीछे जयपुरके महाराजा सवाई रामसिंह आये; महाराणा साहिब ड्यौढीतक पेशवाई करके उन्हें लेआये. कुछ देर बात चीत करके कृष्णगढ़के महाराजा तो वापस चलेगये, और उनके बाद जयपुरके महाराजा साहिबसे बात चीत होती रही. फिर उदयपुरके उमराव, सर्दार व अहलकारोंने महाराजा साहिबको नज़्में दीं, और महाराजा रामसिंह अपने डेरोंको गये. विक्रमी माघ कृष्ण २ [हि० ता० १५ ज़िल्हिज = .ई० १८७७ ता० १ जैनुअरी] को कैसरी दरबारका जल्सह हुआ, जिसका हाल मुफ़्स्सल तौरपर किताब तारीख़ कैसरीसे नीचे नक़ कियाजाता है :-

दरबार कैसरीकी कैफ़ियत, जो दिल्लीमें पहिली जैनुअरी सन् १८७७ .ई० को हुआ.

खिताब मिलनेका इश्तिहार नम्बर ७०, जो हिन्दुस्तानके दफ़्तरखानह

लन्दनसे १३ जुलाई सन् १८७६ .ई० को प्रकाशित हुआ.

जनाब मलिकह मुअज़्ज़महके सेक्रेटरी सलतनत हिन्दुस्तानकी तरफ़से हिन्दुस्तान के सर्दारोंके नाम.

मैं आपकी गवर्मेण्टकी सूचनाके लिये इस कागज़के साथ जनाब मलिकह मुञ्ज-ज्जमहके उस इश्तिहारकी एक नक़ल, जिसमें इस बातका बयान है, कि जनाब मलिकह मुञ्ज-ज्जमहने खिताब "कैसरि हिन्द" इस्तिहार फ़र्माया है, भेजता हूँ.

जनाब मलिकह मुञ्ज-ज्जमहके इस कामसे यह मुराद है, कि जनाब मौसूफ़ जावितह और मज्बूतीके साथ अपनी उन खुशगुमानियोंको जाहिर फ़र्मावें, जो वे हमेशहसे हिन्दुस्तानके रईसों और रिआयाकी निस्बत रखती हैं, और जिनके इज़हार के लिये उनकी रायमें यह वक्त निहायत मुनासिब है. मेरी गुज़ारिश यह है, कि आप जनाब मलिकह मुञ्ज-ज्जमहकी तमाम हिन्दुस्तानी अमल्दारीमें इस तरकीका इश्तिहार, जो खिताब और अल्काब शाहीमें कीगई है, ऐसे ढंगपर करें, जो उनके मिहर्बान और दिली इरादोंके मुवाफ़िक हो-फ़क़त.

दस्तख़त सालिसबरी.

इसी महीनेमें हुज़ूर वाइसरॉय बहादुरकी पेशगाहसे हिन्दुस्तानके तमाम नामी रईसों, फ़रंगिस्तानी बड़े हाकिमों, खुद मुख्तार व सहरदी रियासतोंके मालिकों और ग़ैर मुल्कके वजीरों, एल्चियों और बड़े दरजहके मुल्की उह्दहदारों और दर्याई व खुश्की फ़ौजके अफ़सरोंके नाम, जो हिन्दुस्तानसे तअज़ुक़ रखते हैं, इस गरज़से ख़रीते, फ़र्मान और ख़त जारी हुए, कि वे पहिली जैनुअरी सन् १८७७.ई० को दिल्ली मक़ामपर द्वार में शरीक हों. इस हुक्मकी तामीलमें २८ नोवेम्बरसे २२ डिसेम्बर सन् १८७६.ईसवीतक तमाम तलब किये हुए लोग, और दूसरे बग़ैर बुलाये हुए शायकीन अपने अपने खेमों वग़ैरहमें दाख़िल होगये, और गवर्मेण्टकी तरफ़से हरएकके रुतबे और दरजेके मुवाफ़िक़ पेशवाई, तोपोंकी सलामी और मिहमानदारी अदा कीगई. २५ डिसेम्बर को हुज़ूर लॉर्ड लिटन साहिब बहादुर वाइसरॉय दिल्लीमें तशरीफ़ लाये और २६ तारीख़से ३० तक लॉर्ड साहिबने ऊपर बयान किये हुए रईसोंसे जावितह और बदलेकी मुलाक़ातें कीं. ३० तारीख़की शामको हुज़ूर वाइसरॉय बहादुरने सुनहरी निशान और तमगे गवर्नर मदरास और लेफ़्टिनेण्ट गवर्नरान बंगाला, ममालिक मगरबी व शिमाली और पंजाब, और गवर्नरान पुर्तगाल व बम्बई और दूसरे उह्दहदारों और हिन्दुस्तानी रईसोंको उनके दरजहके मुवाफ़िक़ अता फ़र्माये; और हरएक बड़े रईसको हुज़ूर वाइसरॉय बहादुरने मुलाक़ातके वक्त तमग़ह और एक एक झंडा दिया. इस लकड़ीके रेशमी निशानपर बहुत अच्छा रुपहरी काम बना हुआ था, और लकड़ीके सिरेपर एक एक ताज बनायागया था, और एक छोटी तरुती उन झंडोंमें लटकती थी, जिसपर सुनहरी हफ़ोंमें हरएक रईसका नाम लिखा हुआ था, और हरएक झण्डेके

फरहरेपर यह भी लिखा हुआ था, कि यह निशान हिन्दुस्तानके शहन्शाहने रईसको दिया है. यह भंडे छप्पन थे, और बाजे इनमें सुनहरी भी थे.

निशान और तमगे देनेके वक्त वाइसरॉय बहादुरने रईसोंसे फर्माया, कि “ मैं यह निशान आपको जनाब मलिकह मुअज़्ज़महकी खास बख्शिशके तौर .इनायत करता हूं और उम्मेद रखता हूं, कि यह शहन्शाही जलसेकी यादगार रहेगा. जनाब मलिकह मुअज़्ज़महको उम्मेद है, कि इस झण्डेको जब आप लोग खोलेंगे, तो आपको याद होजायेगा, कि किसकद्र इंग्लिस्तानके तख्त और आपके खानदानसे नज्दीकी है; और जनाब मलिकह मुअज़्ज़महका दिली मन्शा यह है, कि आपका खानदान मज्बूतीके साथ अपनी रियासतपर हुकूमत किया करे; और मैं यह तमगह जनाब कैसरि हिन्दके हुक्मके मुवाफिक आपको देता हूं, और मुझको उम्मेद है, कि आप उसको एक मुदत तक पहिनेंगे, और आपके खानदानमें यह शहन्शाही जलसेकी यादगारके तौरपर रहेगा.”

जब ये कार्रवाइयां खत्म होचुकीं, तो ता० १ जैनुअरी सन् १८७७ ई० को सोमवारके दिन छः बजे सुब्हसे देखनेवाले लोगोंके झुंडके झुंड कैसरी तख्तगाहकी तरफ जाने लगे. दरबारका मकाम और वाइसरॉयका जुलूसी तख्त, जिसको आम लोग चबूतरा कहते हैं, दिल्लीसे चार मील उत्तर पश्चिम कोणकी तरफ एक बहुत बड़े मैदानमें, जो तख्तीन १५ मील मुरब्बा होगा, बहुत खूबीके साथ तय्यार किया गया था. वाइसरॉयके जुलूसी तख्तका चबूतरा छः पहलू (षट्कोण) २४० फीट घेरेमें और जमीनसे दस फीट ऊंचा था. इसका लाल रंग और कारचोबी शामियानह सुनहरे थंभोंपर मए सुनहरे कलसोंके जो ७० फीट ऊंचे होंगे बहुत सफ़ाई और दुरुस्तीके साथ खेंचागया था. इस शामियानहपर कई तरहकी तख्तीरें और ढाल, तलवार, चांद और सूरजके चिन्ह और शाही मुहर (घोड़ा और शेर) और कुछ .इवारत मए फिक्रे “वेलकम” याने मुवारकवादके सुनहरी हफ्तोंमें लिखी हुई थी.

चबूतरेके गिर्द सुनहरी जंगला (कटहरा), जिसमें आबी रंगकी गुलकारी (बेल बूटे) थी, बहुत दुरुस्तीके साथ लगायागया था, और लाल बानातका फर्श जीने तक बिछाया गया था, चबूतरेपर सुनहरी कुर्सी वाइसरॉयके लिये बिछाईगई थी, जिसपर यह लिखा हुआ था, “ मलिकहकी रौशनी हमारी हिदायतको काफ़ी है.” इस चबूतरेके तीन तरफ बाजेवाले गोरे और तोपें खड़ी थीं. इस चबूतरेके आगे १०० गजके फासिलहसे एक दूसरा अर्द्धचन्द्राकार चबूतरा मुल्की रईसोंकी नशिस्तके लिये १६० फीट लम्बा ४० फीट चौड़ाईमें जमीनसे ३ फीट ऊंचा बनाया गया था. इसका शामियानह सिफ़ेद साठन रेश्मी झालरका सुनहरे रंगके थंभोंपर तनाहुआ

था, फर्श जीनेतक लाल बानातका था, उसपर लकड़ीकी कुर्सियां नीले रंगके रेश्मी कपड़ेसे मंढीहुई थीं, और कलाबत्तूनसे रईसका पूरा नाम लिखा हुआ था, और हर रईसके आगे वह भंडा जो सरकारसे आता हुआ था खड़ा था. वाइसरॉयकी नशिस्तके पीछे नालकी शकके दो चबूतरे अस्सी अस्सी फीट लम्बे और चालीस चालीस फीट चौड़े उन लोगोंकी नशिस्तके लिये बने थे, जो अंग्रेजी अफसर, अंग्रेजी अरबबारोंके एडिटर, दिल्ली के रईस और दूसरे मकामोंके तअल्लुकहदार, हिन्दुस्तानी उहदहदार और देशी अरबबारोंके मालिक थे. इन चबूतरोंपर जो खेमह था, उसके थंभे लोहेके नीले रंगके थे, और फर्श भी कुर्सी और बेंचोंका नीला था. इन चबूतरोंके दर्वाजोंपर एक एक हर्फ अंग्रेजी ए०, बी०, सी०, डी० वगैरह मोटे कलमसे लिखा हुआ था, और वहां एक एक यूरोपिअन अफसर खड़ा था, जो हरएकके टिकटका हर्फ पहिचानकर उसके दरजहमें बिठा देता था.

मुल्की रईसोंकी बैठकके जीनेके करीब एक एक कम्पनी पलटनकी खड़ी थी, जिसवक्त कोई राजा या नव्वाब तश्रीफ लाता था, तो काइदहके मुवाफिक अंग्रेजी अफसर पेशवाई करके उनको नशिस्तगाहतक पहुंचादेते थे, और कम्पनीसे सलामी अदा की जाती थी. इन चबूतरोंके दोनों बाजुओंपर सरकारी सवार व पैदल फौज तोपखानह समेत, जो करीबन् पचास हजार होगी, बहुत दुरुस्तीके साथ लाइन बांधे खड़ी थी; एक तरफ आम तमाशाई लोग और दूसरी तरफ मुल्की रईसोंका जुलूस, याने हाथी, घोड़े और बग्घी वगैरह थे. अगर्चि इस तमाम हुजूमकी मर्दुमशुमारी न हुई, मगर तख्मीनह चार लाखके (१) करीब किया गया है. जबकि १२ बजेतक तमाम तय्यारियां होचुकीं, तो सवा बारह बजेके करीब जनाव वाइसरॉय बहादुरकी सवारी बड़ी शान व शौकतके साथ मए स्टाफ अफसरों, याने मुसाहिव हम्माहियोंके (और बड़े दरजहके साहिव लोग भी, जो करीब ४०-५० के होंगे पीछेसे आये) दाखिल हुई. वाइसरॉय बहादुर बग्घीसे उतरकर दक्षिणी दर्वाजेकी तरफसे तश्रीफ लाये, और लाल बानाती फर्शपरसे, जो दर्वाजेसे तरूततक बिछा हुआ था, गुजरकर इज्लासके मकामपर पहुंचे. दाखिल होतेही बाजे वालोंने सलामीकी गत बजाई और तमाम रईसोंने अपनी नशिस्तगाहसे सीधे खड़े होकर ताजीमसे सलाम अदा किया. वाइसरॉयने सबके सलामका जवाब दोनों हाथोंसे देकर टोपीको हरकत दी, और बैठनेके वास्ते हुक्म दिया. सब रईसोंके बैठजाने बाद खुद वाइसरॉय भी अपने मकामपर

(१) दिल्ली दरबार दर्पणमें दो लाखके करीब लिखा है.

बैठगये. इसके बाद चीफ़ सेक्रेटरी (हेरल्ड) साहिबने हुकम लेकर सलाम अदा करने के बाद चार पांच सीढियों उतरकर बुलन्द आवाज़से अंग्रेजी ज़बानमें खिताब लेनेका इशितहार पढ़ा, फिर उसका उर्दू तर्जमह सुनाया, जो नीचे लिखा जाता है:-

बाब १० ऐक्ट पार्लिएमेण्ट, मज्जियह सन् ३९ जुलूस
मलिकह मुअज़्ज़मह विक्टोरिया.

ऐक्ट इस बातके मत्लबसे है, कि जनाब मलिकह मुअज़्ज़मह उन शाही खिताबों और अल्काबोंमें जो एकट्टी सल्तनत और उसके ताबे मुल्कोंकी बादशाहीके मुत्अल्लक़ है, एक और खिताब ज़ियादह करसकें, २७ एप्रिल सन् १८७६ .ई०.

इस सबबसे, कि उस ऐक्टके बाब ६७ के रूसे, जो वास्ते एकट्टा करने तमाम सल्तनत इंग्लिस्तानके बादशाह तीसरे ज्यॉर्ज गुज़रे हुए के सन् ४० जुलूसमें जारी हुआ था, कि देशी मिलाप होने केबाद, जो ऊपर बयान हुआ, खिताब और अल्काब शाही जो एकट्टी सल्तनत और उसके ताबे मुल्कोंकी बादशाहीके मुत्अल्लक़ हैं वेही हुआ करेंगे, जो बादशाह अपने शाही इशितहारके ज़रीएसे, जिसपर एकट्टी सल्तनतकी बड़ी मुहर हो, मुकर्रर फ़र्मावें; और इस सबबसे, कि जिक्र किये हुए ऐक्ट और शाही मुहरी इशितहार, तारीख़ १ जैनुअरी १८०१ .ई० के रूसे जनाब मलिकह मुअज़्ज़महके खिताब और अल्काब इस वक्त ये हैं- “ विक्टोरिया खुदाके फ़ज़्लसे इंग्लिस्तानकी एकट्टी बड़ी सल्तनत और आइर्लैंडकी मलिकह और ईसाई धर्म रक्षक. ”

और इस सबबसे कि उस ऐक्टके बाब १६० के रूसे, जो वास्ते उम्दह इन्तिज़ाम हिन्दुस्तानके सन् २१ व २२ जुलूस जनाब मलिकह मुअज़्ज़महमें इज़्लास पार्लिएमेण्टसे जारी हुआ, यह हुकम हुआ था, कि सरकार हिन्दुस्तान, जो इसवक्त तक जनाब मलिकह मुअज़्ज़महकी तरफ़से सरकार ईस्ट इंडिया कम्पनी बहादुरकी हुकूमतमें बतौर अमानतके थी, जनाब मलिकह मुअज़्ज़महके सुपर्द हो; और यह कि इसवक्तसे मुल्क हिन्दुस्तानपर जनाब मलिकह मुअज़्ज़मह हुकमरानी फ़र्मावें और उनके नाम नामीसे उसपर हुकूमत कीजावे; और मस्लिहत यह है, कि यह हुकूमतकी तब्दील व सुपर्दगी, जो ऊपर लिखे मुवाफ़िक़ कीगई, उसकी कुबूलियत इस ज़रीएसे जाहिर हो, कि जनाब मलिकह मुअज़्ज़महके खिताब और अल्काबमें एक

और लक़ब बढ़ाया जावे, इसलिये बमूजिव मिहर्बान फ़र्मान जनाब मलिकह मुअज़्ज़महके और मुवाफ़िक़ सलाह व मर्ज़ी मज्हबी और मुल्की सर्दारों और आम जमाअतके जो इस मौजूदह पार्लिमेण्टमें जमा हैं, और इस पार्लिमेण्टकी इजाजतसे नीचे लिखा हुआ हुक़म फ़र्माया गया, कि जनाब मलिकह मुअज़्ज़महको जाइज़ होगा. कि सर्कार हिन्दुस्तानकी ऊपर बयान कीहुई तब्दीली और सुपुर्दगीकी कुबूलियत व पसन्दीदगीकी नज़रसे उस खिताब और अल्काबमें, जो एकट्टी सल्तनत और उसके ताबे मुल्कोंकी बादशाहीसे मुत्अल्लक़ है, शाही मुहरी इरितहारके ज़रीएसे ऐसा लक़ब बढ़ावें, जो जनाब मौसूफ़को मुनासिब मालूम हो.

जनाब मलिकह मुअज़्ज़महका इख्तियार अपनी बादशाहीके खिताब और अल्काबमें इज़ाफ़ा करनेके बाबमें.

जनाब मलिकह मुअज़्ज़महके हुज़ूरसे जारी हुआ— फ़क़त्.

इरितहार,

(मलिकह मुअज़्ज़मह विक्टोरिया).

जोकि पार्लिमेण्टके हालके इज़्लाससे एक ऐक्ट इस नामका, “ ऐक्ट इस सुरादसे कि जनाब मलिकह मुअज़्ज़मह उस शाही खिताब व अल्काबमें, जो एकट्टी सल्तनत और उसके ताबे मुल्कोंकी बादशाहीसे मुत्अल्लक़ हैं, एक और लक़ब ज़ियादह करसकें ” जारी हुआ है; और उस ऐक्टमें लिखा है, कि बड़ी इंग्लिस्तानी और आइर्लैण्डकी सल्तनतको एकट्टा करनेके ऐक्टके रूसे यह हुक़म हुआ था, कि बाद एकट्टी होने ऐसी मुल्की सल्तनतके एकट्टी सल्तनत और उसके ताबे मुल्कोंकी बादशाहीके मुत्अल्लक़ खिताब और अल्काब वही हुआ करेंगे, जो बादशाह अपने शाही इरितहारके ज़रीएसे, जिसपर एकट्टी सल्तनतकी बड़ी मुहर हो, मुकर्रर फ़र्मावें; और उस ऐक्टमें यह भी लिखा है, कि ऐक्ट मज्कूर और बड़ी मुहरके शाही इरितहारके मन्शाके मुवाफ़िक़, जो तारीख़ पहिली जैनुअरी सन् १८०१ ई० को जारी हुआ है, हमारे हालके खिताब और अल्काब यह हैं,— “ विक्टोरिया खुदाकी मिहर्बानीसे एकट्टी बड़ी सल्तनत इंग्लिस्तान और आइर्लैण्डकी मलिकह और ईसाई धर्म रक्षक,” और उस ऐक्टमें यह भी लिखा है, कि ऐक्ट बावत उम्दह इन्तिज़ाम सर्कार हिन्दुस्तानके यह हुक़म जारी हुआ है, कि सल्तनत हिन्द, जो उसवक़्तक हमारी तरफ़से सर्कार ईस्ट इण्डिया कम्पनी वहादुरकी सुपुर्दगीमें अमानतके तौरपर थी, हमारे तअल्लुक़में आजाये, और यह कि अब आगेको हिन्दुस्तानपर हमारी हुकूमत हो, और हमारे नामसे उसपर हुकूमत कीजाये;

और मसिलहत यह है, कि हुकूमतकी तब्दीली और सुपुर्दगी जो ऊपर बयान किये सुवा-

फिक्र कीगई, उसकी कुबूलियत इस तौरपर जाहिर कीजाये, कि हमारे खिताब और अल्काब में एक और लकब बढ़ाया जाये; और उस ऐक्टमें इन बयानोंके बाद यह हुक्म हुआ है, कि हमको जाइज होगा, कि गवर्मेण्ट हिन्दकी तब्दीली और सुपुर्दगीकी ऊपर बयान कीहुई कुबूलियतकी नजरसे उस खिताब और अल्काबमें, जो एकट्ठी सल्तनत और उसके ताबे मुल्कोंकी बादशाहीसे इसवक्त मुत्अल्लक हैं, हमारे जारी किये हुए इतिहासके जरीएसे जिसपर एकट्ठी सल्तनतकी बड़ी मुहर है, ऐसा लकब बढ़ावें, जो हमको मुनासिब मालूम हो. इसवास्ते हमने प्रिवी कौन्सिलके वजीरोंकी सलाहसे यह मुनासिब समझा, कि यह मुकर्रर और जाहिर करदें (और उस सलाहसे और उस सलाहके मूजिब इस इतिहासके रूसे, यह मुकर्रर और जाहिर कियाजाता है), कि अबसे जहांतक आसानीके साथ तमाम मौकों और तमाम दस्तावेजोंमें जिनमें हमारे खिताब और अल्काब काममें लायेजावें, सिवा चार्टर (मुल्की अहदनामों), कमिशन (उहदोंके फर्मान), और लेटर्ज पेटेंट (आम खत किताबत), ग्रांट (मुआफ़ी व बख्शिश), और रेट (पर्वानेजात), अपॉइंटमेंट (तकर्ररी) और इसी तरहकी तमाम दूसरी दस्तावेजों वगैरहके जो इतिहासकीहुई सल्तनत इंग्लिस्तानके बाहिर असर न रखती हों, उस खिताब और अल्काबमें जो इतिहासकीहुई सल्तनत और उसके ताबे मुल्कोंकी बादशाहीसे इसवक्त मुत्अल्लक हैं, जवान लाटिनमें ये शब्द " इण्डिए एम्प्राट्रेक्स " और अंग्रेजी जवानमें ये शब्द " एम्प्रेस ऑफ़ इण्डिया " (कैसरि हिन्द) बढ़ाये जायें.

सिवा इसके हमारी मर्जी और खुशी यह है, कि कमिशन, चार्टर, लेटर्ज पेटेंट, ग्रांट, रेट, अपॉइंटमेंट, और इसीतरहकी दूसरी दस्तावेजोंमें, जो ऊपर खुसूसियतके साथ अलहदह कीगई हैं, वह न बढ़ाया जावे; और इसके सिवा हमारी मर्जी और खुशी यह है, कि तमाम सोने और चांदी और तांबेके नक्द सिक्के, जो इसवक्त जाइज व राइज हैं, और तमाम सोने और चांदी और तांबेके नक्द सिक्के जो आज या आज पीछे हमारे हुक्मसे उसी तरहकी इबारतसे मस्कूक हों (ढाले जावें), वगैर लिहाज उस तरकीके, जो हमारे खिताब और अल्काबमें कीगई है, ऊपर बयान कीहुई एकट्ठी सल्तनतके राइज और जाइज सिक्के समझे जावें; और सिवा इसके यह, कि तमाम सिक्के जो इतिहासकीहुई सल्तनतके ताबे मुल्कोंमेंसे किसीके लिये और किसीमें ढाले और जारी हुए हैं, और हमारे इतिहासके रूसे उन ताबे मुल्कोंके राइज और जाइज सिक्के करार दियेगये हैं, और उनपर हमारे खिताब या अल्काब या उनमेंसे कोई हिस्सह दर्ज हो, और तमाम नक्दी सिक्के जो बयान किये हुए इतिहासके मुताबिक पीछेसे तय्यार और जारी हों वगैर लिहाज वैसे इजाफेके उन ताबे मुल्कोंके जाइज और राइज सिक्के रहें, जबतक कि हमारी और कोई मर्जी उसकी निस्वत जाहिर न कीजावे.

हमारे महकमह मक़ाम विन्डसरसे सन् १८७६ ई० ता० २८ एप्रिलको हमारे जुलूसके ३९ वें सालमें जारी हुआ.

बुजुर्ग खुदा जनाब मलिकह मुअज़्ज़महको सलामत रखे.

इसके बाद जनाब वाइसरॉय बहादुरने खड़े होकर एक उम्दह तक्रार अंग्रेजी ज़बानमें पढ़ी और पीछे उसका तर्जमह साहिब सेक्रेटरी बहादुरने बड़ी सफ़ाईके साथ हिन्दुस्तानी ज़बानमें खड़े होकर सुनाया, जिसकी नक़्क़ नीचे दर्ज कीजाती है:-

जनाब नवाब लॉर्ड लिटन साहिब वाइसरॉय बहादुरकी तक्रारका तर्जमह.

सन् १८५८ ई० के नोवेम्बर महीनेकी पहिली तारीखको एक इश्तिहार हज़त मलिकह मुअज़्ज़मह इंग्लिस्तानके हुज़ूरसे जारी हुआ था, जिसमें हिन्दुस्तानके रईसों और रिआयाकी निस्वत जनाब मौसूफ़की तरफसे ऐसे शाही मिहर्बानी और बुजुर्गीके इक्रार दर्ज थे, कि उस तारीखसे आजतक तमाम लोग उनको अपने हकमें अमूल्य सनद समझते हैं.

उसवक्त जो सब इक्रार हज़त मलिकह मुअज़्ज़महकी तरफसे हुए थे, कि जिन के वादेमें कभी फ़र्क़ नहीं आया, अब हमारी ज़बानसे उनका मजबूत करना कुछ हाजत नहीं रखता; इन अठारह वर्षकी दिन बदिन बढ़ने वाली सर्सब्जी खुद उनका एक पुरतह सुबूत और यह बड़ा जल्सह उनके पूरा होनेकी जाहिर दलील है.

इस सलतनतके रईस और रिआया, जो अपनी अपनी पुश्तैनी इज़तोंपर बेख़लल बर्करार और अपनी वाजिबी मस्लिहतोंकी पैरवीमें महफूज़ रहे हैं, उनके लिये अगले ज़मानहकी यह सखावत और इन्साफ़ आगेके वास्ते पूरी ज़मानत होगई है. हज़त मलिकह मुअज़्ज़महने, जो खिताब "कैसरि हिन्द" इस्तिथार फ़र्माया है, उसके जाहिर करनेके लिये आज हम लोग जमा हुए हैं, और मुभको इस मुल्कमें उन जनाबके काइमक़ाम होनेकी हैसियतसे लाज़िम है, कि उन हज़तकी दिली इनायतें जिनके सबब यह लक़ब मौरूसी खिताबोंपर उन्होंने ज़ियादह फ़र्माया है, बयान करूं.

वह जनाब अपने तमाम मुल्कोंमेंसे जो इस दुन्याके सातवें हिस्सहमें शामिल हैं, और जिनमें तीस करोड़ बाशिन्दे आबाद हैं, किसी मुल्कपर इस बड़ी और नामी सलतनतसे ज़ियादह तवज्जुह नहीं फ़र्माती हैं.

यों तो हर वक्त और हर जगह लाइक और कारगुज़ार नौकर इंग्लिस्तानके

बादशाहोंकी सरकारमें होते रहे हैं, लेकिन जिनकी दानाई और दिलेरीसे मुल्क हिन्दकी सल्तनत इंग्लिस्तानको हासिल हुई, और काइम रक्खी गई, उनसे जियादह नामवर कभी नहीं हुए. इस बड़े मुआमलहमें जिसमें उन जनाबकी कुल अंग्रेजी और देशी रिआयाने अच्छी तरहसे इतिफाक रक्खा है, इस प्रान्तके बड़े बड़े रईस, जिनके साथ मलिकह मुअज़्जमहका मेल मिलाप है, या जो उनकी सल्तनतके ताबे हैं, वे भी खैरख्वाहीके तरीकेसे मददगार हुए हैं; उनकी फौज लड़ाईकी सख्तियों और फतहकी खुशियोंमें उन जनाबकी फौजोंके साथ शरीक रही है, और उनकी वफादारी और दानाई उन जनाबके मुल्की अमन व आमानके फायदोंको काइम रखने और उसके आम तौरपर जारी करनेमें सरकार इंग्लिशियहकी मददगार हुई, और आज उन जनाबके खिताब कैसरी इख्तियार फर्मानेके मुबारक दिनपर उनका हाजिर होना इस बातकी दलील है, कि वे उन जनाबकी फौज पहुंचाने वाली हुकूमतपर पूरा भरोसा रखते हैं, और इस सल्तनतकी मजबूतीमें उनका फायदह है.

वह जनाब इस सल्तनतको, जो उनके बुजुर्गोंसे हासिल और उनकी बुजुर्ग जातसे मजबूत तौरपर काइम हुई है, बड़ी जागीर समझती हैं, और इस काबिल जानती हैं, कि यह हमेशह बर्करार रहे और ज्योंकी त्यों उनकी औलादको पहुंचे, और उसको अपने जवर्दस्त कबजहमें रखनेसे अपने ऊपर यह फर्ज जानती हैं, कि इस मुल्कमें इसतरह हुकूमत करें, कि यहांकी रिआयाकी विह्तरी और मातहत रईसोंके हुकूमका बड़े इह्तियातसे लिहाज और खयाल रहे, इस वास्ते उन जनाबका यह एक बादशाही इरादह है, कि अपने अल्काबपर एक और लकव बढ़ावें, जो आगेको हिन्दुस्तानके सब रईसों और रिआयाके वास्ते हमेशह इस बातका निशान रहे, कि दोनों तरफके फायदोंके खयालसे इस सल्तनतकी खैरख्वाही उनपर वाजिब है.

वह खानदानोंका सिलसिलह, जिनकी हिन्दुस्तानी हुकूमतको तब्दील करके तरकीके लिये बुजुर्ग खुदाने अंग्रेजी सल्तनतकी कुव्वतको इस मुल्कमें काइम किया, जवर्दस्त और नेक बादशाहोंसे खाली न था; लेकिन उनके पिछले काइम मकामोंके मुल्की इन्तिजामोंसे उनके इलाकोंमें अमन व आमान काइम न रहसका, और लगातार भगड़ा लगा रहनेसे हमेशह खलल आता गया, जईफ और कमजोर लोग जवर्दस्तोंके कैदी बने और जवर्दस्त अपनी नाकिस ख्वाहिशोंके ताबे होते गये. इसी तरह बहुतसी खूरेजी और अन्दुरूनी दुश्मनीकी हल चलसे आलीशान खानदान तीमूरिया खराब होकर आखरको तबाह होगया, क्योंकि उनसे पूर्वी मुल्कोंकी कुछ तरक्की न होसकी.

इन दिनों हज़त मलिकह मुअज़्जमहकी कानूनी हिमायतसे किसी मज़हब और

फ़िकेमें फ़र्क़ नहीं है, उन जनाबकी हरएक रअय्यत अमन व आमनके साथ गुज़रान करसक्ती है. हरशरूस्को इससर्कारकी बेतअरसुबीके सबब इजाज़त है, कि बगैर किसी रोकटोकके अपनी अपनी मज़्दबी आज्ञाओं और रस्मोंको अदा करे. बादशाही अधिकारका ज़बर्दस्त हाथ जो बढ़ाया जाता है, वह किसीके बर्बाद करने और दबानेके लिये नहीं है, बल्कि हिमायत और हिदायतके लिये है; और कुल मुल्ककी तरक्की और सूबोंकी दिनोदिन बढ़ने वाली सर्सब्जीसे सर्कार अंग्रेज़ीके नेक इन्तिज़ामका नतीजह हर जगह साफ़ ज़ाहिर है.

ऐ ब्रिटिश प्रबन्धकर्ता और वफ़ादार उह्दहदारो !

यह उम्दह नतीजे अक्सर आपही लोगोंकी सिलसिलहवार कोशिशोंसे हासिल हुए हैं, इस सबबसे मैं सबसे पहिले आपही लोगोंपर उन जनाबकी तरफ़से खुशी और एतिबार ज़ाहिर करता हूँ, कि आप लोगोंने अपने तमाम इज्जतदार अगले उह्दहदारोंके मुवाफ़िक़ इस बड़ी सलतनतके फ़ायदहके लिये मिहनतें उठाई हैं, और इस मुआमलहमें आप लोग मज़बूत हिम्मत, नेक इशदह और उम्दह तन्दिहीको, जिसका उदाहरण तवारीख़में नज़र नहीं आता, बराबर काममें लाये हैं. नामवरीके दर्वाजे हर शरूस्के लिये खुले हुए नहीं हैं, लेकिन नेक कार्रवाईका मौका उसके तलाश करने वालेको हमेशह मिलसक्ता है. ऐसा इत्तिफ़ाक़ कम होता है, कि कोई सर्कार अपने नौकरोंके दरजहकी तरक्की जल्द जल्द करसके, लेकिन मुझको यकीन है, कि अंग्रेज़ी सर्कारकी नौकरीमें सर्कारी खिदमतें और ज़ाती मिहनतें खिताबी इज्जतों और ज़ाती फ़ायदोंकी उम्मेदसे बढ़कर हमेशह उत्तेजित करती रहेंगी. हिन्दुस्तानके मुल्की इन्तिज़ाममें हमेशह यह बात रही है और रहेगी, कि बड़े बड़े नतीजों वाले फ़ायदह-मन्द काम अक्सर बड़े दरजहके उह्दहदारोंके हिस्सेमें नहीं आयेंगे, बल्कि ज़िलेके उन अफ़सरोंसे मुत्अलक़ रहेंगे, कि जिनकी होश्यारी और हिम्मतपर कुल इन्तिज़ामका अच्छा होना मुन्हसर है.

उन जनाबके मुल्की और फ़ौजी नौकर जिस ख़ूबीके साथ तमाम हिन्दुस्तानमें ऐसी नाज़ुक और मुश्किल खिदमतें बजा लाये और बजालाते हैं, जो बादशाह अपनी सबसे ज़ियादह और मोतबर रिआयाको सौंपे, उनकी निरबत मलिकह मुअज़्जमहकी तारीफ़ और शाबाश बयान करनेमें मुझे बढ़ावेकी गुंजाइश नहीं है.

ऐ क़लम और तलवारके मालिक नौकरो!

जोकि तुम जवानीके शुरूमें बड़ी जवाबदिहीके उह्दोंपर मुकररर होते हो, और

खुशी खुशी तन्दिहीके साथ कठिन नियमोंकी पाबन्दी करते हो, और अपनी जातसे राज्य प्रबन्धके बड़े बड़े मुश्किल कामोंको बजा लाते हो, और वह भी ऐसे लोगों में रहकर जिनकी बोली, मज़हब, और रीति रस्म तुम लोगोंसे अलग हैं. इसलिये दुआ करता हूं, कि हमेशाह मुश्किल कामोंको बड़ी मजबूती और नमीके साथ अंजाम देते वक्त यह खयाल तुम्हारा रहनुमा हो, कि जिस तरह हम अपनी कौमकी नेकनामी काइम रखते और अपने मज़हबके नर्म हुक्मोंकी तामील करते हैं, उसी तरह कुल दूसरी कौमों और मज़हबोंके लोगोंको भी, जो इस मुल्कमें बस्ते हैं, उम्दह इन्तिजामके बेश कीमती फ़ायदे पहुंचाते रहें.

लेकिन हिन्दुस्तानमें पश्चिमी शाइस्तंगीके दानाईके काइदोंका बर्ताव होनेसे आम-दनीके वसीलोंको जो दिनोदिन तरकी होती रही है, इस बातमें यह मुल्क सिर्फ़ सर्कारी नौकरोका ही इहसानमन्द नहीं है, बल्कि मलिकह मुअज़्ज़महकी रिआयामेंसे उन अंग्रेज़ लोगोंका भी शुक्रगुज़ार है, जो बगैर सर्कारी नौकरीके हिन्दुस्तानमें बस्ते हैं. इन लोगोंको इंग्लिस्तानके तरक्त और ख़ास मलिकह मुअज़्ज़महसे जो दिली मुहब्बत है, और जो फ़ायदे उन्होंने अपनी मिहनत, अपने हौसले, और आम लोगोंके फ़ायदेके कामोंमें बड़ी तन्दिही और व्यवहारिक सभ्य बर्ताओंसे हिन्दुस्तानकी सल्तनतको पहुंचाये हैं उनसे वह जनाब अच्छीतरह वाक़िफ़ हैं और उनकी कद्र करती हैं. अगर मैं आज ऐसे मौक़ेपर इस बातका इक्रार करके उनका इत्मीनान करूं, तो उन जनाबके शाहानह इरादहके जाहिर करनेमें कुसूरवार हूं.

जोकि उन जनाबकी यह ख़्वाहिश है, कि उनकी रिआयामेंसे उन लोगोंकी इज़त और मर्तबह बढ़ानेके लिये, जिन्होंने उनकी सल्तनतके इस बड़े हिस्सहमें मुल्की नौकरी और जाती नेकियां जाहिर की हैं, मौक़ा हासिल हो. इसलिये वह जनाब दिली खुशीके साथ सिर्फ़ दरजह सितारए हिन्द और तबक़े ब्रिटिश इंडियाको कुछ बढ़ाना ही नहीं चाहतीं, बल्कि एक नया तमग़ह " इंडियन एम्पाइर " नामी मुकरर फ़र्माती हैं.

ऐ हिन्दुस्तानके फ़ौजोंके अंग्रेज़ी और देशी
अफ़सर और सिपाहियो!

तुम लोगोंने मलिकह मुअज़्ज़महके फ़ौजी गौरवको काइम रखनेके लिये जो जो बहादुरियां हर मौक़ेपर, जबकि तुम साथ साथ लड़ाईके मैदानमें गये हो, दिखाई हैं, उनको वह जनाब खुशी और अभिमानके साथ याद रखती हैं; और जोकि उन जनाबको यकीन है, कि आगेको भी आप हमेशाह उसी वफ़ादारीके साथ इस मुश्किल कामकी तामीलमें मुत्तफ़िक़

होकर कारगुज़ार होंगे. इसलिये आपहीको यह भारी खिन्नत सौंपी जाती है, जिससे आप उन जनाबके हिन्दुस्तानी इलाकोंमें अन्न व आमाम और सर्सब्जी काइम रक्खें.

ऐ वालंटिअर सिपाहियो !

आप लोगोंकी कोशिशों, जो खैरख्वाही और कामयाबीके साथ इस बारेमें जाहिर हुई हैं, कि अगर जुखूरत पड़े, तो सर्कारी फ़ौजके साथ शरीक होकर काम दें, इस काबिल हैं, कि आजके दिन उनकी दिली तारीफ़ कीजावे.

ऐ इस सल्तनतके मातहत रईसो और अमीरो !

आपकी खैरख्वाही सल्तनतकी मजबूतीकी ज़ामिन और आपकी खुशहाली सल्तनत की बुजुर्गीकी दलील है. जनाब मलिकह मुअज़्ज़महको भरोसा है, कि अगर कभी कोई हमलह और धमकी इस सल्तनतके कामोंपर हो, तो आप लोग उसकी हिफ़ाज़तके वास्ते मुस्तइद होजायेंगे, वह जनाब इस मुस्तइदीपर धन्यवाद देती है. मैं हज़त मलिकह मुअज़्ज़महकी तरफ़से आप लोगोंको इस 'मकाम दिल्लीके आनेपर शाबाश कहता हूं, और आप लोगोंके इस बड़े जल्सेमें शामिल होनेको सल्तनत इंग्लिस्तानकी निस्वत साफ़ दलील आप लोगोंकी खैरख्वाही और वफ़ादारी की जानता हूं, जो जनाब शाहजादह साहिब वेल्सके इस मुल्कमें तश्रीफ़ लानेके वक्त बड़े शौकसे जाहिर हुई थीं.

वह जनाब अपने फ़ायदोंको आपकाही फ़ायदह खयाल फ़र्माती हैं, और वास्ते मजबूत करने रस्मों एकता और उन तअज़्ज़ुक़ातके, जो नेक इत्तिफ़ाकसे सल्तनत इंग्लिस्तान और उसके मातहत अहदनामह रखने वालोंके दर्मियान मौजूद हैं, उन जनाबने दिली खुशीके साथ कैसरी खिताब इख्तियार फ़र्माया है, जिसका आज मैं इश्तिहार देता हूं.

ऐ हज़त कैसरि हिन्दकी देशी रिअ्याया !

इस सल्तनतकी मौजूदह हालत और उसकी हमेशहकी दुरुस्ती इस बातको चाहती है, कि इसका बन्दोबस्त और इन्तिज़ाम ऐसे बड़े दरजहके अंग्रेज़ी हाकिमों और इन्तिज़ाम करनेवालोंके सुपुर्द हो, जोकि इस तद्बीरके काइदोंसे वाकिफ़ हैं और जिनके मुताबिक़ कार्रवाई कियाजाना हुकूमत कैसरीके सिलिसलेके लिये लाज़िम है.

मुल्की विह्तरिके कामोंमें हिन्दुस्तानकी लगातार तरक्की होना, जो उसकी मुल्की इज्ज़तको लाज़िम और दिनोदिन बढ़नेवाली ताक़तका सबब है, अक्सर इन्हीं होश्यार लोगोंकी उम्दह तद्बीरोंका नतीजह है, और जुखूर है, कि अभी मुदत

दराज़तक पश्चिमी इल्म, हुनर और बर्ताव, जो सुलह और लड़ाईके मौक़ोंपर यूरोपीय देशोंकी मौजूदह बड़ाईका सबब हैं, पूर्वी मुल्कोंमें आम फ़ायदहके वास्ते बदस्तूर इन्हींके ज़रीएसे जारी रहें. यह ज़रूर है, कि आप सब साहिब लोग जो हिन्दुस्तानके रहने-वाले हैं, चाहे आपकी क़ौम और मज़हब कुछ ही क्यों न हो, इस मुल्कके इन्तिज़ाममें अंग्रेज़ी रिआयतके साथ अपनी अपनी लियाक़तके मुवाफ़िक़ शरीक होनेका बहुत कुछ हक़ रखते हैं. इस हक़की बुन्याद ऐन इन्साफ़पर है, और इसको इंग्लिस्तान व हिन्दुस्तानके बड़े बड़े मुन्तज़िमोंने बार बार कुबूल किया है, और यही शाही पार्लिमेण्टके जाबितोंसे भी साबित है, और सर्कार हिन्दुस्तान भी उसको अपने ऊपर वाजिब और अपनी मुल्की तद्बीरोंके मुवाफ़िक़ समझती है; इसलिये सर्कार हिन्दुस्तान खुशीके साथ देखती है, कि चन्द गुज़रतह वर्षोंमें हिन्दुस्तानी मुल्की मुलाज़िमों और खासकर उन लोगोंके तरीक़े कारगुज़ारी व चालचलनमें बहुत कुछ तरक़ी हुई है, जो बड़े उहदोंपर मुक़रर हैं.

इस बड़ी सलतनतका इन्तिज़ाम इस बातको चाहता है, कि जो लोग उसमें शरीक हैं, उनमेंसे बहुतसे आदमी सिर्फ़ इल्मी लियाक़त रखने वाले ही न हों, बल्कि उनकी आदतें और चालचलन नेक हों. इसलिये जो लोग खासकर खानदान, मर्तबह और मौरूसी इज़तके सबब आप लोगोंमें जाती तौरपर बड़े हैं, उनपर वाजिब है, कि अपनी जात और अपनी औलादको इस बड़ी खिदमतके लिये, जिसका रास्तह उनके वास्ते खुला है लाइक़ बनावें; और यह बात सिर्फ़ उस तालीमके कुबूल करनेसे हासिल होसکتी है, जिससे आदमी उन क़ाइदोंको समझने और बर्तनेके क़ाबिल हो, जिनको मलिकह कैसरि हिन्दकी गवर्मेण्टने कभी हाथसे नहीं जाने दिया.

आप सब लोगोंको वाजिब है, कि मुल्कदारीके कामोंमें अपने वास्ते वफ़ादारी बेग़रज़ी, इन्साफ़, सच्चाई और मजबूतीको, जो मुल्की बर्तावकी हद है, हमेशह दिलमें क़ाइम रखें. इस सूरतमें उन जनावकी गवर्मेण्ट मुल्की बन्दोबस्तमें आप लोगोंकी मदद करना और उसमें शामिल रहना बड़ी खुशीके साथ मन्ज़ूर करेगी. क्योंकि यह सर्कार दुनूयाके हरएक हिस्सेमें जहां जहां उसकी हुकूमत है, अपनी फ़ौजी ताक़तपर इतना भरोसा नहीं करती, जितनाकि अपनी ऐसी रज़ामन्द रअय्यतपर रखती है, जो एकता और दिली खैरख़्वाहीसे उसका हुकम मानती और तरतकी हिफ़ाज़तमें तन्दिही जाहिर करती है, क्योंकि वह जानती है, कि हमेशह क़ाइम रहनेवाली विह्तरी और आराम इसीकी सलामतीपर निर्भर है.

वह जनाव कमज़ोर रियासतोंको फ़तह करलेने या आस पासके इलाकोंको

छीनकर मिलालेनेमें अपनी हिन्दुस्तानी सल्तनतकी तरकी नहीं समझती हैं, बल्कि इस बातमें कि, उनकी हिन्दुस्तानी रिआया इस नर्म और मुन्सिफानह हुकूमतमें शरीक होकर रफ्तह रफ्तह और लियाकतके साथ उन बर्ताओंको काममें लावे, जिसमें किसीतरहकी रोक टोक न हो. लेकिन उन जनाबकी गरज और उनके फर्ज सिर्फ वही नहीं हैं, जो उनकी हुकूमतसे तअच्छुक रखते हैं. वह जनाब साफ निर्यतके साथ यह भी र्वाहिश रखती हैं, कि उन मुल्कोंके रईसोंसे भी, जो इस सल्तनतकी सहदपर हैं, और उसकी हिमायतके सायेमें खुदमुस्तार रहे हैं, पूरी मुहब्बत और दोस्तीको मजबूत रखें; हां अगर कभी इस सल्तनतके अन्न व आमानको किसी बाहिरकी धमकीसे कुछ खतरह होगा, तो कैसरि हिन्द अपने मौरूसी मुल्कोंकी हिमायतमें किसीतरहकी कमी नहीं करेगी. बाहिर वाले दुश्मनका हिन्दुस्तानकी सल्तनतपर हमलह करना, मानो तमाम पूर्वी मुल्कोंकी तरकी और सर्सब्जी पर हमलह करना है; और इस सूरतमें उन जनाबको अपनी सल्तनतके बेहद सामान और अपने अहदनामह वालों, रईसों व मातहतोंकी दिलेरी और वफादारी और अपनी रिआयाकी मुहब्बत व खैरर्वाहीसे हरएक हमलह करने वालेको हटा देने और सजा देनेके लिये पूरी ताकत हासिल है.

एशियाके दूर दूर वाले मुल्कोंके जिन बादशाहोंने अपने अपने वकीलोंको मुबारक-बादके खत देकर भेजा है, उनका इस मुबारक जल्सहमें हाजिर होना इस बातकी गवाही है, कि सरकार हिन्दुस्तानकी तद्बीर सुलहपसन्द और उसके आस पासके कुल मुल्कोंके साथ उसका दोस्तानह बर्ताव है. मैं यह चाहता हूं, कि उन जनाबकी सरकार हिन्दकी तरफसे इस शाहानह जल्सहमें जनाब खान किलातको और उन प्रतिनिधियोंको, जो दूर दराज सफर तय करके एशियाई अहदनामह रखने वालोंकी तरफसे अंग्रेजी हदोंके अन्दर विकालतके तौरपर हाजिर हुए हैं, और हमारे इजतदार मिहमान नव्वाब गवर्नर जेनरल बहादुर इलाकह गोवाको और बाहिरी सीगहकी कौन्सिलके अफसरोको शुभागमन कहूं.

ऐ हिन्दुस्तानके रईसो और रिआया !

अब मैं खुशीके साथ आप लोगोंको यह फर्मान आली शान, जो आपकी कैसरि मलिकह मुअज़्जमहने अपने शाही और कैसरी नामसे आप लोगोंको आज भेजा है, सुनाता हूं. यह वह इवारत है, जो आज सुबह उन जनाबकी तरफसे तारके जरीएसे मेरे पास पहुंची है.


हम विक्टोरिया खुदाके फज़लसे इत्तिफ़ाक़ कीहुई सल्तनतकी मलिकह और कैसरि हिन्द, अपने नाइब सल्तनतकी मारिफ़त अपने कुल मुल्की और फ़ौजी सर्दारोंको और तमाम रईसों व अमीरों और रिआयाको, जो दिल्लीमें इसवक्त जमा हैं, अपनी शाही और कैसरी दुआ पहुंचाती और अपनी दिली तवज्जुह और शाहानह मिहर्बानी से सल्तनत हिन्दुस्तानकी रिआयाका इत्मीनान करती हैं.

जो आदर सत्कार हिन्दुस्तानकी रिआयाने हमारे प्यारे बेटेके साथ किया उससे हमको दिली खुशी हासिल हुई, और हमारे खानदान और तस्त्की निस्बत उनकी इस वफ़ादारी और खैरख्वाहीने हमारे दिलपर बड़ा असर किया.

हमको उम्मेद है, कि इस मुबारक मौक़ेके सबब हमारे और हमारी रिआयाके दर्मियान मुहब्बतका सिलसिलह ज़ियादह मज़बूत हो; और हरएक बड़ा व छोटा इस बातका यकीन करले, कि हमारी हुकूमतमें उनको बड़े उसूल (सिद्धान्त), याने आज़ादी और इन्साफ़ हासिल हैं, और हमारी सल्तनतमें उनकी खुशीकी ज़ियादती और उनकी सर्सब्ज़ीकी तरकी और उनकी बिह्तरीके बढ़ते रहनेका भी हमेशह खयाल है.

मैं यकीन करता हूँ, कि आप लोग इन मिहर्बानी भरेहुए लफ़्ज़ोंकी बड़ी क़द्र करेंगे.

बुजुर्ग़ खुदा जनाब विक्टोरिया, एकट्टी सल्तनतकी मलिकह और कैसरि हिन्दुस्तान को हमेशह सलामत रखे.



जब श्रीमान् वाइसरॉय अपनी तक़ीर ख़त्म करचुके, तो तमाम हाज़िरीन जल्सह खड़े हुए और उनकी तरफ़से तथा फ़ौजकी तरफ़से कई बार “ हुर्रा ” (जयजयकार) की आवाज़ बुलन्द हुई, और दाहिने बाएं, जो तोपखाने जमे हुए थे उनसे तीन तीन फ़ाइर तोपोंके सरहुए, और जो पैदल पलटनें जमी हुई थीं उन्होंने दो दो फ़ाइर बन्दूकोंके छोड़े. यह कार्रवाई तीन बार कीगई. इसके बाद नव्वाब वाइसरॉय बहादुर अपने इज्लाससे उठ खड़े हुए और रईसोंकी तरफ़ सलाम करके मुसाहिबों और सेक्रेटरियों समेत अपने खेमोंको तशरीफ़ लेगये. उसीवक्तसे नम्बरवार राजा और नव्वाब भी अपनी सवारियोंपर खानह होने लगे, और एक बजेसे छः बजेतक तमाम मैदान खाली होगया. इस अर्द्धचन्द्राकार दरबारमें भारतवर्षके ६३ राजा लोग थे, जिनके नाम नीचे लिखेजाते हैं:—

१— बुन्देला क्षत्री महाराजा रणजोरसिंह अजयगढ़के.

२— मरहटा महाराजा सियाजी राव गायकवाड़ बड़ोदाके.

३— बुन्देला क्षत्री महाराजा भान प्रतापसिंह बिजावरके.

- ४-- जाट महाराजा जशवन्तसिंह भरतपुरके.
- ५-- बुन्देला क्षत्री महाराजा जयसिंहदेव चर्खारीके.
- ६-- बुन्देला क्षत्री महाराजा भवानीसिंह दतियाके.
- ७-- मरहटा महाराजा जियाजी राव सेंधिया ग्वालियरके.
- ८-- मरहटा महाराजा तुक्काजी राव हुल्कर इन्दौरके.
- ९-- कछवाहा क्षत्री महाराजा सवाई रामसिंह जयपुरके.
- १०-- डोगरा क्षत्री महाराजा रणवीरसिंह जम्मू (कश्मीर) के.
- ११-- राठौड़ क्षत्री महाराजा जशवन्तसिंह मारवाड़ जोधपुरके.
- १२-- सीसोदिया क्षत्री महाराणा सजनसिंह मेवाड़ उदयपुरके.
- १३-- यादव क्षत्री महाराजा अर्जुनपाल करौलीके.
- १४-- राठौड़ क्षत्री महाराजा पृथ्वीसिंह कृष्णगढ़के.
- १५-- बुन्देला क्षत्री महाराजा रुद्र प्रतापसिंह पन्नाके.
- १६-- यादव क्षत्री महाराजा चमराजेन्द्र वदियर मैसोरके.
- १७-- बाघेला क्षत्री महाराजा रघुराजसिंह रीवांके.
- १८-- बुन्देला क्षत्री महाराजा महेन्द्र प्रतापसिंह ओच्छाके.
- १९-- नरूका कछवाहा क्षत्री महाराव राजा मंगलसिंह अलवरके.
- २०-- चहुवान हाड़ा क्षत्री महाराव राजा रामसिंह बूंदीके.
- २१-- झाला क्षत्री महाराज राणा जालिमसिंह आलरापाटणके.
- २२-- जाट महाराजा राणा निहालसिंह धौलपुरके.
- २३-- क्षत्री राजा हीराचन्द बिलासपुरके.
- २४-- बमराके राजा.
- २५-- रघुवंशी क्षत्री राजा रघुबरदयालसिंह वरौंदाके.
- २६-- क्षत्री राजा श्यामसिंह चम्बाके.
- २७-- पुंवार क्षत्री राजा विष्णुनाथसिंह छत्रपुरके.
- २८-- पुंवार क्षत्री राजा कृष्णाजी राव देवासके.
- २९-- पुंवार क्षत्री महाराजा आनन्दराव धारके.
- ३०-- जाट राजा विक्रमसिंह सिक्ख फ़रीदकोटके.
- ३१-- सिक्ख (सिद्धूजाट) राजा रघुवीरसिंह जींदके.
- ३२-- राजा उदितप्रतापदेव खरौंदके.
- ३३-- राजवंशी राजा नृपेन्द्र नारायण भूप कूचबिहारके.

- ३४- चन्द्रवंशी क्षत्री राजा विजयसेन मंडीके.
 ३५- सिक्ख (सिद्धूजाट) राजा हीरासिंह नाभाके.
 ३६- क्षत्री राजा शमशेरप्रकाश नाहन (सिरमोर) के.
 ३७- गोहिल क्षत्री राजा गंभीरसिंह राजपीपलाके.
 ३८- राठौड़ क्षत्री राजा रणजीतसिंह रतलामके.
 ३९- गूजर महाराजा हिन्दूपत समथरके.
 ४०- क्षत्री राजा रुद्रसेन सुकेतके.
 ४१- क्षत्री राजा प्रतापशाह टिहरी (गहरवाल) के.
 ४२- बुंदेला क्षत्री राव लक्ष्मणसिंह जागीरदार जिगनी.
 ४३- पठान मुसल्मान नव्वाब मुहम्मद इब्राहीम अलीखां टौंकके.
 ४४- अफ़ग़ान मुसल्मान नव्वाब मुहम्मद मुख्तार हुसैन अलीखां पाटोदीके.
 ४५- अफ़ग़ान मुसल्मान नव्वाब मुहम्मद इब्राहीम अलीखां मालेरकोटलाके.
 ४६- मुग़ल मुसल्मान नव्वाब अलाउद्दीन अहमदखां लोहारूके.
 ४७- मुसल्मान नव्वाब महाबतखां जूनागढ़के.
 ४८- पठान मुसल्मान नव्वाब इस्माईलखां जावराके.
 ४९- अफ़ग़ान मुसल्मान नव्वाब मुहम्मद सआदत अलीखां दुजानाके.
 ५०- दाऊदपोत्रा मुसल्मान नव्वाब सादिक मुहम्मदखां बहावलपुरके.
 ५१- क्षत्री राव छत्रपति जागीरदार अलीपुरा.
 ५२- मिरासी खेल अफ़ग़ान मुसल्मान नव्वाब शाहजहां बेगम भोपालकी.
 ५३- पठान मुसल्मान निज़ाम मीर महबूब अलीखां हैदराबादके.
 ५४- सिक्ख (जाट) सर्दार विष्णुसिंह कलसियाके.
 ५५- गोहिल क्षत्री ठाकुर तरुतसिंह भावनगरके.
 ५६- जाड़ेचा क्षत्री ठाकुर बाघजी मोरवीके.
 ५७- डोडिया क्षत्री ठाकुर दुबेसिंह पीपलोदाके.
 ५८- ब्राह्मण चौबे अनिरुद्धसिंह जागीरदार पालदेव.
 ५९- बिलौची मुसल्मान मीर अलीमुरादखां खैरपुरके.
 ६०- महन्त कोंडका.
 ६१- महन्त नन्दगांव.
 ६२- जाड़ेचा क्षत्री जाम श्री विभाजी नवानगरके.
 ६३- दीवान पृथ्वीसिंह जागीदार टोड़ी फ़तहपुरके.

श्री मती महाराणीके "राज राजेश्वरी" की पदवी ग्रहण करनेके उत्सवमें गवर्मेण्ट ऑफ इण्डियाने हिन्दुस्तानके रईसों और साधारण लोगोंपर जो अनेक अनुग्रह किये हैं, उन्हें हम संक्षेपके साथ नीचे लिखते हैं:-

सलामी.

जम्भूं, ग्वालियर, इन्दौर, उदयपुर और त्रावणकोरके महाराजाओं व महाराजा दलीपसिंहकी सलामी उनकी जिन्दगीभरके लिये १९ के बदले २१ तोप कीगई, और महाराजा जयपुरकी १७ से बढ़कर २१.

जोधपुर और शीवांके महाराजाओंके लिये उनकी जिन्दगीभरके लिये १७ से बढ़कर १९ तोपकी सलामी नियत हुई; और नव्वाब मन्सूर अलीखां नाजिम बंगाल व महाराजा सर जंगबहादुर दीवान नयपालकी सलामी १९ तोप नियत कीगई.

कृष्णगढ़ और ओच्छाके महाराजाओंकी सलामी उनके जीवन समय तकके लिये १५ तोपके बदले १७ मुकर्रर हुई, नव्वाब टोंककी ११ से बढ़कर १७, हैदराबादके दीवान सर सालारजंग बहादुरकी १७ और भूपालकी बेगमके पति व हैदराबादके शम्सुलउमरा नामी दूसरे मंत्रीकी सलामी नये सिरसे १७ तोप नियत हुई.

नव्वाब रामपुर और धांगधड़ाके राजाकी सलामी उम्रभरके लिये १३ से १५ तोप हुई. भावनगरके ठाकुर, नवानगरके जाम, और जूनागढ़के नव्वाबकी ११ से बढ़कर १५, और अर्काटके शाहजादह व बेगम भूपालकी सम्बन्धिनी कुदसियह बेगमकी सलामी नये सिरसे १५ तोप मुकर्रर हुई.

महाराजा पन्ना, राजा जींद और राजा नाभाकी ११ से १३ तोपकी सलामी जिन्दगीभरके लिये होगई, और महाराणी तंजोर, महाराजा विजियानगरम, और महाराजा बर्दवानको नये सिरसे १३ तोपकी सलामी मिली.

मुकल्लाके नकीब और शिवहरके जमादारको १२ तोपकी सलामी उम्रभरके लिये मिली.

मालेरकोटलाके नव्वाबकी सलामी जिन्दगीभरके लिये ९ से ११, और मोरवीके ठाकुर व टिहरीके राजाके लिये नये सिरसे ११ तोपकी सलामी मुकर्रर हुई.

नीचे लिखीहुई जगहोंके राजाओं, सर्दारोंया ठाकुरोंके वास्ते उनके जीवन समयके लिये नये सिरसे ९ तोपकी सलामी नियत हुई:-

धर्मपुर, धरौल, बलरामपुर, बांसदा, बरौंदा, गौंडल, जंजीरा, खरौंद, किलचीपुर,

लिमरी, महेर, पालीताणा, राजकोट, सकूतरा, सचीन, बड़वान और वांकानेर.

यहां यह भी लिखना आवश्यक है, कि ता० १ जैनुअरी सन् १८७७ ई० से श्रीमती राजराजेश्वरीकी आज्ञानुसार उनकी सलामी १०१ तोप और राजसी भंडे तथा हिन्दुस्तानके गवर्नर जनरलकी सलामी ३१ तोप नियत हुई.

नीचे लिखे हुए राजा और अधिकारी लोग "कौन्सिलर ऑफ़ दि एम्प्रेस" (राज-राजेश्वरीके सलाहकार) नियत हुए:—

(जीवन समयतक).

महाराजा कश्मीर, श्री रणवीरसिंह, जी० सी० एस० आइ०

बूंदी, श्री रामसिंह, जी० सी० एस० आइ०

ग्वालियर, श्री जियाजीराव सेंधिया, जी० सी० एस० आइ०, जी० सी० बी०

इन्दौर, श्री तुक्काजीराव हुल्कर, जी० सी० एस० आइ०

महाराजा जयपुर, श्री रामसिंह, जी० सी० एस० आइ०

त्रावणकोर, श्री राम वर्मा, जी० सी० एस० आइ०

जींद, श्री रघुवीरसिंह, जी० सी० एस० आइ०

नव्वाब रामपुर, कलब अलीखां, जी० सी० एस० आइ०

(पदका अधिकार रहनेतक).

श्रीयुत रिचर्ड प्लेन्टेजिनेट केम्बल, जी० सी० एस० आइ०, ड्यूक ऑफ़ बकिङ्गम ऐन्ड शान्डास, मद्रासके गवर्नर; सर पी० ई० वुडहाउस, जी० सी० एस० आइ०, के० सी० बी०, बम्बईके गवर्नर; सर एफ० पी० हेन्स, के० सी० बी०, हिन्दुस्तानके कमाण्डर इनचीफ़; सर रिचर्ड टेम्पल, बैरोनेट्, के० सी० एस० आइ०, बंगालके लेफ्टिनेण्ट गवर्नर; सर ज्यॉर्ज कौपर, बैरोनेट्, सी० बी०, पश्चिमोत्तर देशके लेफ्टिनेण्ट गवर्नर; सर रॉबर्ट हेनरी डेविस, के० सी० एस० आइ०, पंजाबके लेफ्टिनेण्ट गवर्नर; सर जॉन स्ट्रेची, के० सी० एस० आइ०, गवर्नर जनरलकी कौन्सिलके मेम्बर; मेजर जनरल सर एच० डब्ल्यू० नॉर्मन, के० सी० बी०, गवर्नर जनरलकी कौन्सिलके मेम्बर; ऑनरेब्ल ए० हॉबहाउस, क्यू० सी०, गवर्नर जनरलकी कौन्सिलके मेम्बर; कर्नेल् सर ए० ह्यार्क, आर० ई०, के० सी० एम० जी०, सी० बी०, गवर्नर जनरलकी कौन्सिलके मेम्बर; ऑनरेब्ल ई० सी० बेली, सी० एस० आइ०, गवर्नर जनरलकी कौन्सिलके मेम्बर; सर ए० जे० आर्बथनाट, के० सी० एस० आइ०, गवर्नर जनरलकी कौन्सिलके मेम्बर.

नीचे लिखे हुए राजाओंको प्रथम श्रेणीके स्टार ऑफ़ इन्डिया (जी० सी०

एस० आइ०) की पदवी मिली:—

श्रीयुत महाराव राजा रामसिंह, बूंदी; महाराजा ईश्वरीप्रसाद नारायणसिंह, बनारस; महाराजा जशवन्तसिंह, भरतपुर; प्रिन्स अज़ीमजाह ज़हीरुदौलह बहादुर, अर्काट.

इन लोगोंको दूसरी श्रेणीके स्टार ऑफ़ इन्डिया (के० सी० एस० आइ०) की पदवी मिली:—

श्री शिवाजी छत्रपति, राजा कोल्हापुर; राजा आनन्दराव पंवार, धारवाले; श्री मानसिंहजी, राजा घांगधड़ा; श्री विभाजी जाम, नवानगर; आर० जे० मैकडॉनल्ड, श्री मती महाराजराणीकी हिन्दुस्तानकी समुद्री सेनाके कमान्डर इनचीफ़; सर जी० ई० डब्ल्यू० कौपर, बैरोनेट, सी० बी०, बंगाल सिविलसर्विस, पश्चिमोत्तर देशके लेफ्टिनेण्ट गवर्नर; जेम्स फिट्ज़ स्टीवन साहिब, श्रीमती महाराजराणीके सलाहकार और गवर्नर जेनरलकी कौन्सिलके पूर्व मेम्बर; आर्थर हॉवहाउस साहिब, श्रीमती महाराजराणीके सलाहकार और गवर्नर जेनरलकी कौन्सिलके दूसरे मेम्बर; एडवर्ड छाडव बेली साहिब, सी० एस० आइ०, बंगाल सिविलसर्विस, गवर्नर जेनरलकी कौन्सिलके तीसरे मेम्बर.

तीसरे दरजहके स्टार ऑफ़ इन्डिया (सी० एस० आइ०) की पदवी २५ आदमियोंको मिली, जिनमें मथुराके सेठ गोविन्ददास, कश्मीरके दीवान ज्वालासहाय और त्रावणकोरके दीवान शिशिया शास्त्रीको भी गिनना चाहिये.

नीचे लिखेहुए राजाओंको उनके नामोंके सामने लिखी हुई पदवियां मिलीं:—

महाराजा गायकवाड़ बड़ोदाको “ फ़र्ज़न्द ख़ास दौलत इंगलिशियह ” (अंग्रेज़ी सरकारके मुख्य बेटे); महाराजा ग्वालियरको “ हिसामुस्सलतनत ” (राज्यकी तलवार); महाराजा कश्मीरको “ इन्द्र महेन्द्र बहादुर, सिपरि सलतनत ” (राज्यकी ढाल); महाराजा अजयगढ़को “ सवाई ”; महाराजा बिजावरको “ सवाई ”; महाराजा चर्खारीको “ सिपहदारि मुल्क ” (देशके सेनापति); और महाराजा दतियाको “ लोकेन्द्र ”.

नीचे लिखे हुए सदांरों और रईसोंको “ महाराजा ” की पदवी उनकी जिन्दगीभरके लिये मिली:—

आनन्दराव पंवार, धारके राजा; छत्रसिंह बहादुर राजा समथरके; धनुर्जय नारायण भंजदेव, सूबे उड़ीसामें क़िले क्योँभारके राजा; देवीसिंहदेव, पुरीके राजा (उड़ीसा); जगदेन्द्रनाथराय (राजा नाटोरके घरानेकी बड़ी शाखामेंसे); राजा जितेन्द्रमोहन टागोर, कृष्णचन्द्र, मोरभंज (उड़ीसा) वाले; महिपतसिंह रईस, पटना; ऑनरेबल राजा नरेन्द्रकृष्ण, रईस सोभावाज़ार (कलकत्ता); राजा कृष्णसिंह, सुसांगके राजा (इलाक़ह मैमनसिंह); राजा रमानाथ टागोर, कलकत्ताके.

नीचे लिखी हुई राणियोंको उनके जीवन समयके लिये “ महाराणी ” की पदवी मिली:—

राणी हरसुन्दरी देवी, सिरसोल (बर्दवान) वाली; राणी हगनकुमारी, पैद्रा (मान भूम) वाली; राणी सूरतसुन्दरी देवी, राजशाही की.

राजा सर दिनकर राव, के० सी० एस० आइ० को “ राजा मशीरि खास बहादुर ” (राजा मुख्य सलाहकार बहादुर) की पदवी उनकी जिन्दगीके लिये मिली.

नीचे लिखे हुए सर्दारों और रईसोंको उनकी जिन्दगीके लिये “ राजा बहादुर ” की पदवी मिली:—

रघुवरदयालसिंह, बरौंदाके राजा; खल्कसिंह (खड्गसिंह), सुरीलाके राजा; उदित प्रतापदेव, खरौंदके राजा; राजा विश्वेश्वर मालिया, रईस सिरसोल (बर्दवान); राजा हरिवल्लभसिंह, रईस बिहार; राजा हरनाथ, चौधरी दुबलहट्टी (राजशाही); राजा मंगलसिंह, भिणाय (अजमेर) वाले; राजा रामरंजन चक्रवर्ती, वीरभूम.

नीचे लिखे हुए महाशयोंको उनके जीवन समयके लिये “ राजा ” की पदवी मिली:—

बाबू अजीतसिंह, रईस तरौल (प्रतापगढ़); बाबा बलवन्तराव, रईस जबलपुर; बलवन्तसिंह, रईस गगवाना; डमरू कुमार वैकट अप्पा नायडो, जमींदार कालाहस्ती (जिला उत्तरी अर्काट); राजा देवीसिंह, रईस राजगढ़; दिगम्बर मित्र, सी० एस० आइ० (कलकत्ता); राव गंगाधर रामराव, जमींदार पितापुर (गोदावरी प्रान्त); राव चत्रसिंह, जागीरदार कन्याधाना; हरिश्चन्द्र चौधरी, मैमनसिंह; कमलकृष्ण, रईस सोभावाजार (कलकत्ता); राय बहादुर क्षेत्रमोहनसिंह, रईस दीनाजपुर; कुंवर हरनारायणसिंह, हाथरस; कुंवर लक्ष्मणसिंह, डिपुटी कलेक्टर बुलन्दशहर; सरटी माधवराव, के० सी० एस० आइ०, बड़ोदाके दीवान; ठाकुर माधवसिंह, रईस सावर (अजमेर); प्रतापसिंह, रईस पीसांगण (अजमेर); रामनारायणसिंह, जागीरदार खेड़ा (मुंघेर); श्यामानन्द दे, रईस बालासोर; श्यामशंकर राव, रईस व्यूटा; सर्दार सूरतसिंह मजीठिया, सी० एस० आइ०; राव साहिब त्र्यम्बकजी नाना अहीर, नागपुरके राव; कन्दोकिशोर भूपति, जमींदार सुकिंडा (उड़ीसा).

नीचे लिखे हुए शरूकोंको “ राव बहादुर ” का खिताब मिला:—

राव बरूतसिंह, बेदला (मेवाड़); भभूतसिंह, ठाकुर पोहकरण (राजपूतानह); भगवन्तराव देशपांडे, एलिचपुर; दाजी नीलकंठ नगारकर, इंजिनिअरिंग कॉलेज बम्बईके प्रोफेसर; गोपालराव हरी, जज अदालत मुतालबे खफीफह अहमदाबाद

गोकुलजी भाला, जूनागढ़ (काठियावाड़); जगजीवनदास खुशहालदास, सूरत के डिपुटी कलेक्टर; राव साहिब हरिनारायण, अहमद नगरके पुलिस इन्स्पेक्टर; राव छत्रपति, जागीरदार अलीपुरा; केसरीसिंह, ठाकुर कुचामण (राजपूतानह); कैरो लक्ष्मण छत्रे, दक्षिण कॉलेजके गणितविद्याके प्रोफेसर; खांडेराव विश्वनाथ उर्फ राव साहिब रास्ते, दूसरे दरजहके सर्दार (दक्षिण); केशवराव भास्कर, डिपुटी असिस्टेंट पोलिटिकल एजेण्ट काठियावाड़; खुशाभाई सिराभाई रेवाकांठाके दफ्तरदार; दीवान लालसिंह, मुख्तारकार तअल्लुकह गिनी इलाकह कलकटरी हैदराबाद सिन्ध; लक्ष्मणसिंह, जिगनीके राव; माधवराव वासुदेव बरवे, कोल्हापुरके कारबारी; मकाजी धनजी, धांगधडाके पूर्व कारबारी; नन्दशंकर तुलजाशंकर, असिस्टेंट पोलिटिकल एजेण्ट जनावरा व सोठ (रेवाकांठा); नारायण राव अनन्त मुतालक कर्द (.इलाकह सितारा); नारायण भाई डांडीकर, डाइरेक्टर सर्इतह तालीम बरार; प्रेमाभाई हेमाभाई, अहमदाबाद; राव पृथ्वीसिंह, जागीरदार टोड़ी फतहपुर; शिवनाथसिंह, ठाकुर खरवा (राजपूतानह); शिवराम पांडवरंग, बम्बई; सदाशिव रघुनाथ जोशी, कारबारी मधोल; श्रीवालंग्या मोरथली, इलाकह कनाडाका; त्रिमल्लराव वैकटेश, धारवाड़की अदालत मुतालबे खफीफहका पूर्व जज; विनायक राव जनार्दन कीर्तने, बडौदाका नाइब दीवान; धारीदास अज्जूभाई, नरियाद .इलाकह कैरा (बम्बई) का; वामनराव पीताम्बर, सर्इतहदार सावन्तवाडी; वासुदेव बापूजी, असिस्टेंट इंजिनिअर सीगह तामीरात सर्कारी, बम्बई.

नीचे लिखेहुए शरूसौने " राय बहादुर " का खिताब पाया:-

आर्कट नारायण स्वामी मुडालियर, बंगलोर; बाबू अनुद्वप्रसाद राय, मुर्शिदाबाद; बाबू वैद्यनाथ पण्डित, जमींदार किले दर्पण .इलाकह कटकके; लाला बट्टीदास, श्रीमान् वाइसरॉय बहादुरका मुकीम; छादी सोबिया, कुर्गके असिस्टेंट कमिश्नर; दासमल्ल, होश्यारपुरके पूर्व तहसीलदार; बाबू दुर्गाप्रसादसिंह, जमींदार मधुवनी, .इलाकह चंपारनके; बाबू गोलकचन्द्र चौधरी, चटगांव; बाबू गोपालमोहन सर्कार, गवर्मेण्ट हाउसका खजानची; हरिचन्द्र यादवजी, सरदफ्तर प्रेसिडेन्सी पे ऑफिस, बम्बई; यला मलप्पा चेटी, बंगलोर; राय कल्यानसिंह, ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट अमृतसर; ऑनरेब्ल बाबू कस्टोदास पाल, लेजिस्लेटिव कौन्सिल बंगालके मेम्बर; कन्हैयालाल, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट सुपरिन्टेण्डेण्ट पुलिस पंजाब; लक्ष्मणराव, महाराजा साहिब मैसोरके मुसाहिब; ठाकुर मंगलसिंह, अलवरकी रिजेन्सी कौन्सिलके मेम्बर; बरूशी नर सप्पा, महाराजा साहिब मैसोरके मुसाहिब; बाबू नारायणचन्द्र चौधरी, जमींदार चूडामन, पर्गनह दीनाजपुर, जिला राजशाही; बाबू नुमाईचरण बोस, जमींदार कोठार (.इलाकह बालासोर);

रामरत्न सेठ, मियांमीरका साहूकार; डॉक्टर राजेन्द्रलाल मित्र, कलकत्ता; ऑनरेबल बाबू रामशंकर सेन, बंगालकी लेजिस्लेटिव कौन्सिलके मेम्बर; बाबू चौधरी रुद्रप्रसाद, जमींदार नामपुर .इलाक़ह सीतामढ़ी; पंडित रूपनारायण, अलवरकी रिजेन्सी कौन्सिलके मेम्बर; बाबू राधावल्लभसिंहदेव, जमींदार बंकोड़ा; राय साहिबसिंह दिल्लीके ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट; बाबू सूर्जकांत आचार्य, जमींदार मोरतगाची (मैमनसिंह); राय उमरावसिंह, दिल्लीके ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट; बाबू उग्रनारायणसिंह, जमींदार सोपल (भागलपुर).

जिन शख्सोंको “राव साहिब” का खिताब मिला, उनके नाम नीचे लिखे जाते हैं:—

ठाकुर बहादुरसिंह, रईस मसऊदा (.इलाक़ह अजमेर); गोविन्दराव कृष्णा भास्कर निमार; ठाकुर हरिसिंह, रईस देवलिया(इलाक़ह अजमेर); ठाकुर कल्याणसिंह, रईस जूनिया (.इलाक़ह अजमेर); माधवराव गंगाधर, रईस नागपुरका चटनवीस; ठाकुर माधवसिंह, रईस करोर (.इलाक़ह अजमेर); राजावा महेत, नागपुर; ठाकुर रणजीतसिंह, रईस बांदणवाड़ा (.इलाक़ह अजमेर).

“राव” का खिताब पानेवाले शख्सोंके नाम नीचे लिखे सुवाफ़िक हैं:—

भारमल्ल बरारका रावत, मेरवाड़ा इलाक़ह राजपूतानह; जादवराव पांडे, रईस भंडारा; उमा, ककराका रावत (मेरवाड़ा, इलाक़ह राजपूतानह); अनिरुद्धसिंह, जागीरदार पालदेव (सेंट्रल इंडिया).

“राय” का खिताब पाने वालोंके नाम:—

विष्णुस्वरूप, अजमेरका पुलिस इन्स्पेक्टर; सेठ चान्दमल्ल, अजमेरका ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट; कोठारी छगनलाल, रियासत मेवाड़के महकमह मालका बड़ा हाकिम और खज़ानहका मुह्तमिम; महता पन्नालाल, रियासत मेवाड़का नाइब दीवान; सेठ शमीरमल्ल, अजमेरका ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट.

राय मुन्शी अमीनचन्द, अजमेरके जुडीशल असिस्टेंट कमिश्नरको उसके जीवन समयतक “सर्दार बहादुर” की पदवी मिली.

रत्नसिंह (रईस रोहतास जिले भेलम), सेंट्रल इंडियाके डिस्ट्रिक्ट सुपरिण्टेन्डेण्ट पुलिसको “सर्दार” का खिताब मिला.

ठाकुर हीरा, रईस पर्गनह देवर इलाक़ह मेरवाड़ा (राजपूतानह) को “ठाकुर रावत” का पद मिला.

लक्ष्मीनारायणसिंह, जागीरदार कैरा(सिंहभूम) को “ठाकुर” का खिताब मिला.

नीचे लिखे हुए शख्सोंने “नव्वाब” का खिताब हासिल किया:—

एह्सनुल्लाहखां बहादुर, ढाकाके; सम्यद अब्दुलहुसैन, मुंघेरके; महमूद अलीखां

बहादुर, छतारी जिले बुलन्दशहरके; आँनरेब्ल मीर मुहम्मदअली, फरीदपुर इलाकह बंगालके.

“ खान बहादुर ” का खिताब पानेवाले शरूखोंके नाम:-

अब्दुरहीमखां खलफ शाहनवाजखां, ईसा खेल जिला बन्नू; औलाद हुसैन, पहाडसर इलाकह भरतपुरके, असिस्टैण्ट कमिश्नर सेंट्रल इंडिया; अब्दुल् कादिरअली, शहर मैसोरके असिस्टैण्ट कमिश्नर और मैजिस्ट्रेट; मौलवी अब्दुल्लातीफ, कलकत्ताके डिपुटी मैजिस्ट्रेट; अलीखां, जमींदार मुंघेर; नवाब इलहदादखां, किरांचीके; भीखनखां, जमींदार परसोनी (पश्चिमी तिरहुत); बामनजी सुहराबजी, असिस्टैण्ट इंजिनिअर सीगह तामीरात सर्कारी, बम्बई; चेतनशाह, पेशावरके असिस्टैण्ट सर्जन; कृस्टजी रुस्तमजी, बडौदाके चीफ जस्टिस; दावर रुस्तमजी खुशैदजी मोदी, सूरत; दाद मुहम्मद जकरानी, जैकबआबाद; काजी इब्राहीम मुहम्मद, बम्बई; गौस शाह कादिरी, मकानदार इलाकह कोहिस्तान, बाबा बूदन; इमामुद्दीनखां, बंगलोर; जमशैदजी धनजी भाई वाडिया, बम्बईके जहाजी कमठानोंके सर्दार; काजी मुहियुद्दीन साहिब, मैसोर; सय्यद काबिलशाह, वर्नाहर तअल्लुकह नागोर (सिन्ध); मुहम्मद जान, आँनरेरी मैजिस्ट्रेट अमृतसर; मौलवी मासूम मियां, बालापुर इलाकह अकोला; मुहम्मदअली, असिस्टैण्ट कमिश्नर, बंगलोर; मीर हैदर अलीखां, मैसोर; मुहम्मद रशीदखां चौधरी, जमींदार नाटोर (राजशाही); सय्यद मुहम्मद अबूसईद, जमींदार पटना व गया; मनूचिहरजी काऊसजी, असिस्टैण्ट इंजिनिअर सीगह तामीरात सर्कारी, बम्बई; काजी मीर जलालुद्दीन, बम्बई; मिर्जा अलीमुहम्मद, किरांची (सिन्ध); मीर गुलहसन, हैदराबाद (सिन्ध); सय्यद मुरादअलीशाह, रोडी इलाकह शिकारपुर; मीर हाफिजअली, मुत्तवल्ली दर्गाह अजमेर; मीर निजाम अली, अजमेरके आँनरेरी मैजिस्ट्रेट; नुस्त्रवानजी कृस्टजी, अहमदनगर (बम्बई); पिस्तनजी जहांगीर, कमिश्नर बन्दोवस्त बडौदा; पारूमल्ल, हैदराबाद (सिन्ध); पीरबख्श, कोहावर, जमींदार शिकारपुर; रहमतखां, पंजावके पुलिस इन्स्पेक्टर; रुस्तमजी सुहराबजी, भडौच इलाकह गुजरातके; काजी शिहाबुद्दीन, महकमह माल बडौदाके बड़े अफसर; जमादार स्वालिह हिन्दी, जूनागढ़ (बम्बई); वलीमुहम्मद डंगन, भरगरी तअल्लुकह अमरकोट, (सिन्ध).

निम्न लिखित शरूखोंको “ खान ” का खिताब मिला:-

बुद्धाखां, हतून मेरवाड़ा (इलाकह, राजपूतानह); फत्हखां, चंग मेरवाड़ा (इलाकह राजपूतानह).

नीचे लिखे हुए रईसों और शरीफोंको “ महाराजा बहादुर ”, “ राजा ” व “ नवाबका ” खिताब मिला:-

महाराजा सर जे० मंगलसिंह बहादुर, के० सी० एस० आइ०, गढ़ौर (मुंधेर) को “महाराजा बहादुर” का खिताब; धर्मजीतसिंह देव, रईस उदयपुर वाके छोटा नागपुरको “राजा” (रियासत सम्बन्धी) का खिताब; पदवल्लभराव, जमींदार अवल (उड़ीसा) को उसके जीवन समय तक “राजा” का खिताब; और नव्वाब ख्वाजिह अब्दुल्गनी, रईस ढाका, सी० एस० आइ० को “नव्वाब”का खिताब मिला.

नीचे लिखे हुए शर्खोंको उनके जीवन समयतकके लिये वह खिताब मिले, जो उनके नामोंके सामने लिखे गये हैं:—

दीवान गयासुद्दीन अलीखां सज्जादह नशीन, अजमेर वालेको “शैखुलमशाइख”; और सदाँर इत्रसिंह भदौरिया, जैलदार पटियाला और मेम्बर पंजाब युनिवर्सिटी कॉलिज लाहौरको “मलाजुल् .उलमा वल् फुजला”.


दीवान गजराजसिंह, जस्सू (मध्य प्रदेश) के दीवानको “दीवान बहादुर”का खिताब उसकी जिन्दगी भरके लिये मिला.

पंडित मनफूल, सी० एस० आइ०, ऑनरेरी असिस्टैण्ट कमिश्नरको उसके जीवन समयतक “दीवान”का खिताब मिला.

नीचे लिखे हुए शर्खोंको “ऑनरेरी असिस्टैण्ट कमिश्नर”का खिताब दिया गया:—

नव्वाब अब्दुल मजीदखां, ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट; सदाँर अजीतसिंह अटारीवाला (अमृतसर); आगा कलव आविद, एक्स्ट्रा असिस्टैण्ट कमिश्नर; कर्नेल् धनराज (गंजा जिले गुजरातका), एक्स्ट्रा असिस्टैण्ट कमिश्नर; सय्यद हादी हुसैनखां दिल्ली निवासी, एक्स्ट्रा असिस्टैण्ट कमिश्नर; सय्यद काइमअली, एक्स्ट्रा असिस्टैण्ट कमिश्नर; राय मूलसिंह (ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट), गूजरांवाला; सोढी मानसिंह (फ़ीरोज़पुरका) मैजिस्ट्रेट और ऑनरेरी एक्स्ट्रा असिस्टैण्ट कमिश्नर; मुहम्मद सुल्तानखां, एक्स्ट्रा असिस्टैण्ट कमिश्नर; मिर्जा आजमवेग, एक्स्ट्रा असिस्टैण्ट कमिश्नर; पंडित मोतीलाल काथजो, एक्स्ट्रा असिस्टैण्ट कमिश्नर; नव्वाब नवाजिश अलीखां कज़लबाश, लाहौर; दीवान शंकरनाथ लाहौरका ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट.

इस जल्सहमें हिन्दुस्तानके कुल जेलखानोंमेंसे १५९८८ कैदी छोड़ेगये.



पहिली जैनुअरी सन् १८७७ ई० की मुआफ़ीका इश्तिहार.

श्रीमान् नव्वाब वाइसरॉय बहादुर कौन्सिलके इज्लासमें सन् १८५९ ई० की मुआफ़ीकी शर्तोंपर गौर फ़र्माकर इश्तिहार देते हैं, कि जो लोग बगावतके मुखिया थे उनके अपराधोंको क्षमा न किया जाना रद्द किया गया, और अब उन लोगोंको इस्ति-
थार है, कि फ़कत जिलेके हाकिमोंको अपने वापस आनेकी इत्तिला करने और आगेको

नेक चलन रहनेकी शर्तपर अपने घरोंको वापस चले आवें; परन्तु यह जरूर है, कि ऐसे लोग जिस जिलेमें रहते हों, जब उसकी सीमासे बाहिर जाना चाहें, पहिले इस बातकी इत्तिला जिलेके हाकिमोंको करदें.

कातिलों (बधकों) और बागी फौजके मुखियोंके अपराध क्षमा न कियाजाना बदस्तूर काइम रहेगा, और ऊपर दर्ज किये हुए इतिहासकी कोई इबारत दिल्लीके पूर्व बादशाहके बेटे फ़ीरोजशाहसे सम्बन्ध न रखेगी.

अब हम कैसरी दरबारका हाल छोड़कर फिर खास महाराणा साहिबकी तवारीख़ शुरू करते हैं.

महाराणा साहिब कैसरी दरबारमें मए ९ सर्दारोंके कुर्सियोंपर बैठे और ८ आदमी पासवानोंमेंसे लवाजिमह लेकर खड़े रहे. दरबार बर्खास्त होनेके बाद महाराणा साहिब बग्घी सवार होकर अपने डेरोंमें आये, और शामके वक्त मए पोलिटिकल एजेण्ट मेवाड़ व राव बरतसिंहके बग्घीमें सवार होकर लाट साहिबके डेरोंपर पहुंचे, जहां साहिब लोगोंके लिये खाना व नाच रंग वगैरह होरहा था. दूसरे राजा लोग भी जरीदह तौरपर वहां आये, और जल्सह बर्खास्त होनेके बाद अपने अपने डेरोंको वापस गये. विक्रमी १९३३ माघ कृष्ण ३ [हि० ता० १६ जिल्हज = ई० ता० २ जैनुअरी] को गवर्नर जनरल हिन्द और कुल राजा लोग घुड़दौड़ देखनेके लिये गये, महाराणा साहिब भी वहां पधारे. इस घुड़दौड़में जोधपुर महाराजा साहिबके घोड़ोंकी जियादह तारीफ़ हुई. विक्रमी माघ कृष्ण ४ [हि० ता० १७ जिल्हज = ई० ता० ३ जैनुअरी] को काइम मकाम एजेण्ट गवर्नर जनरल राजपूतानह सी० के० एम० वाल्टर साहिब महाराणा साहिबके डेरोंपर आये, और मुलाकात करके वापस गये. फिर मंडी (जिला पंजाब) के राजा विजयसेन महाराणा साहिबकी मुलाकातको आये, और कुर्सियोंपर दरबार होकर उनसे मुलाकात हुई. महाराणा साहिब ने पेशवाईके लिये दो तीन कदम बढ़कर उनका सलाम लिया. यह राजा बहुत सादा मिजाज, संस्कृत पढ़े लिखे, प्रसन्न मुख, छोटे कदवाले, खूबसूरत और मिलनसार थे. महाराणा साहिबने थोड़ी देरके बाद इत्र पान देकर उन्हें रुख्सत किया. शामके वक्त इन्दौरके महाराजा तुकाजीराव हुल्कर महाराणा साहिबकी मुलाकातको आये, जिनको महाराणा साहिब ज्यौंठीतक पेशवाई करके डेरेंमें लेआये; पेशतर कुर्सियोंका दरबार हुआ, फिर उक्त महाराजाने मित्रताकी अधिकताके कारण भोजनके लिये कहा, और उसीवक्त भोजनकी तय्यारी हुई. महाराणा साहिब और महाराजा साहिबके बैठनेको जुदे जुदे बैठके और थाल परोसे गये, और दोनों महाराजाओंने चन्द सर्दारों सहित बड़े प्रेमके साथ भोजन किया; फिर मित्रताकी बातें होती रहीं, और करीब पहर रात व्यतीत होनेपर


महाराजा हुल्कर अपने डेरोंको गये. विक्रमी माघ कृष्ण ५ [हि० ता० १८ ज़िल्हिज = ई० ता० ४ जैनुअरी] को महाराणा साहिबने बग्घी सवार होकर पेशतर इन्दौरके महाराजा तुक्काजीराव हुल्करसे और बाद उसके रीवांके महाराजा रघुराजसिंहसे उनके डेरोंपर मुलाकात करके लाल किलेके करीब जमुनामें स्नान किया, और शामके वक्त जुमा मस्जिदमें पहुंचे, जहां कुल राजा लोग और गवर्नर जेनरल हिन्द व साहिबान अंग्रेज़ रौशनी व आतिशबाज़ी देखनेको आये थे. यह आतिशबाज़ी लाइक देखने और तारीफ़के थी, पानीके मुवाफ़िक़ आगकी चदरका गिरना, फ़व्वारोंका छूटना, कीन विकटोरिया कैसरि हिन्दकी अग्निमय तस्वीरका दिखाई देना, आस्मानपर फूलबाड़ीके मुवाफ़िक़ रंग बरंगके सितारोंका छाजाना ऐसा दिखाई देता था, मानो बूटेदार शामियानह खड़ा कियागया है. रौशनी देखकर महाराणा साहिब अपने डेरोंपर चलेआये, और दूसरे लोग भी बिखरगये. विक्रमी माघ कृष्ण ६ [हि० ता० १९ ज़िल्हिज = ई० ता० ५ जैनुअरी] को परेडके चौगानमें गवर्नर जेनरल हिन्दने कुल राजा लोगोंके लवाज़िमें याने हाथी, फ़ौज और सवारों वगैरहको देखा. उसके बाद कुल राजा लोग और लाट साहिब अपनी अपनी बग्घियोंमें सवार होकर परेडके चौकमें खड़े रहे, और अंग्रेज़ी पलटनों, तोपखानों व रिसालोंकी क़वाइद देखकर अपने अपने डेरोंमें आये. विक्रमी माघ कृष्ण ७ [हि० ता० २० ज़िल्हिज = ई० ता० ६ जैनुअरी] को महाराणा साहिब मए एजेण्ट साहिबके बादशाही लाल क़िला देखनेको गये. अगर्चि इस शहरमें बहुतसी छोटी बड़ी इमारतें देखनेके लाइक हैं, लेकिन कुतुब साहिबकी लाट, जुमा मस्जिद, लाल क़िलेकी दीवार, दीवान खास और मोती मस्जिद सबसे ज़ियादह भइहूर हैं. दीवान खास और मोती मस्जिदमें श्वेत पाषाणके बीचमें काले पत्थरकी पच्ची कारी देखकर दिल नहीं चाहता, कि इस जगहसे हटकर दूसरी जगह चलें. लाल क़िलेके अन्दर दीवान आम, दीवान खास व मोती मस्जिदके सिवा विक्रमी १९१४ [हि० १२७३ = ई० १८५७] के ग़दरमें कुल बादशाही भकान गिरवाये जाकर गोरोंकी फ़ौजके लिये बारकें बनवादी गई हैं. महाराणा साहिब क़िला देखकर डेरोंमें वापस आये. विक्रमी माघ कृष्ण ८ [हि० ता० २१ ज़िल्हिज = ई० ता० ७ जैनुअरी] को महाराणा साहिब पिछली ३ घड़ी रात बाक़ी रहे दिल्लीसे स्पेशल ट्रेनमें सवार होकर उदयपुरकी तरफ़ खानह हुए. विक्रमी माघ कृष्ण ९ [हि० ता० २२ ज़िल्हिज = ई० ता० ८ जैनुअरी] को महाराणा साहिब जयपुरके स्टेशनपर पधारे. जयपुरके महाराजा रामसिंह साहिब और जोधपुरके महाराजा जशवन्तसिंह साहिब पहिले रोज़ आगये थे, दोनों महाराजाधिराजों ने स्टेशनपर पधारकर महाराणा साहिबसे मुलाकात की. फिर महाराजा जशवन्तसिंह

तो जोधपुरकी तरफ़ खानह हुए, और जयपुरके महाराजा साहिब व महाराणा साहिब एक बग्घीमें सवार होकर रामबाग़की सैर करते हुए जयपुरके महलोंमें पधारे, दिन भर बड़े आनन्द और प्रीतिके साथ रहे, शामको महाराजा सवाई रामसिंह स्टेशनतक पहुंचानेको आये, तीन घड़ी रात गये महाराजा साहिबको रुख़सत करके महाराणा साहिब स्पेशल ट्रेनमें सवार होकर प्रातः समय नसीराबाद पहुंचे. विक्रमी माघ कृष्ण १० [हि० ता० २३ जिल्हज = ई० ता० ९ जैनुअरी] को नसीराबादमें थोड़ी देर ठहरनेके बाद बग्घियोंकी डाकमें खानह होकर विक्रमी माघ कृष्ण ११ [हि० ता० २४ जिल्हज = ई० ता० १० जैनुअरी] के रोज़ नाहर मगरे पहुंचे, और वहांसे विक्रमी माघ शुक्ल ६ [हि० १२९४ ता० ४ सुहरम = ई० ता० २० जैनुअरी] को उदयपुरमें दाखिल होगये. फिर फाल्गुन शुक्ल १० [हि० ता० ९ सफ़र = ई० ता० २३ फ़ेब्रुअरी] को साह जोरावरसिंह सूरणाके मकानपर महाराणा साहिब मिहमान हुए और फाल्गुन शुक्ल १४ [हि० ता० १२ सफ़र = ई० ता० २६ फ़ेब्रुअरी] को सलूंवरके रावत जोधसिंहने महाराणा साहिबको मए ज़नानहके अपनी हवेलीपर मिहमान किया.

अब महाराणा साहिबकी तबज़ुह मुल्की इन्तिज़ामकी तरफ़ हुई. माली कामको तो पीछे सुधारनेकी निगाहसे हाकिमोंके सुपुर्द करके तख्मीनह बनादिया, कि हरएक पर्गनह का हाकिम मुक़ररह जमामें कम रुपया न बैठनेका जिम्महवार समझा जायेगा, क्योंकि कोठारी केसरीसिंहका बांधा हुआ ठेका लोगोंने तोड़दिया, और पुराने रवाजके मुवाफ़िक़ किसानोंसे जिन्स बांट लेनेमें निगरानी रखना मुश्किल काम था, सिर्फ़ अह्लकार लोग जो जमा खर्चका आंकड़ा पेश करते उसीपर भरोसा करना पड़ता था, इसलिये हाकिमोंको जिम्महवार ठहराकर एक सालके लिये तख्मीनह मुक़रर करदिया; लेकिन दीवानी, फ़ौजदारी और अपीलकी अदालतके ऊपर एक कौन्सिल काइम करनेकी सलाह हुई. इस सलाहमें दीवान जानी विहारीलाल और मैं (कविराजा श्यामलदास) दोनों अर्ज करने वाले, महाराणा साहिब बहस और क़द्रदानीके साथ कुबूल फ़र्माने वाले और कर्नेल इम्पी साहिब पोलिटिकल एजेण्ट सेवाड़ हरएक सलाहको मज़बूत करनेवाले रहे. आख़रको कौन्सिल काइम करनेकी सलाह पुरतह ठहरगई, तब महाराणा साहिबने फ़र्माया, कि इस बड़ी अदालतके नियत करनेसे खर्चकी ज़ियादती होकर सालियानह तख्मीनहमें दिक्कत पेश आवेगी. मैंने अर्ज की, कि हुज़ूर अपने मुअज़ज़ सर्दारों और अह्लकारोंमेंसे लाइक़ शरूफ़ोंको तो आनरेरी मेम्बर चुनलेवें और महकमहखास, महकमह माल, महकमह हिसाब और अपील, दीवानी, फ़ौजदारी व साइर वगैरह अदालतोंसे एक एक दो दो अह्लकार लेकर अमला बनादेवें. इसी तरह चपरासी वगैरह भी भरती

करलिये जावें, जिसमें खर्चकी कुछ जरूरत न हो, सिर्फ एक सरिश्तहदारकी तनखाह और कन्टिन्जेंट खर्चका बन्दोबस्त करना पड़ेगा. इज्जलास काइम करनेकी सलाहका बड़ा मददगार दीवान जानी विहारीलाल तो इसवक्त अपने उद्देपर वापस चलागया था और इस बड़े कामकी तामीलके लिये मुझहीको हुक्म मिला. मैंने ऊपर लिखी हुई तज्बीजके मुवाफिक ऑनरेरी मेम्बरोकी फिहरिस्त बनाकर नज़ की, जिसमें १ - बेदलाका राव बरतसिंह चहुवान, २ - देलवाड़ाका राज फतहसिंह भाला, ३ - पारसोलीका राव लक्ष्मणसिंह चहुवान, ४ - आसींदका रावत् अर्जुनसिंह चूडावत, ५ - शिवरतीका महाराज बाबा गजसिंह, ६ - सदांगढ़का ठाकुर मनोहरसिंह डोडिया, ७ - ताणाका राज देवीसिंह भाला, ८ - काकरवाका उदयसिंह राणावत, ९ - मैं (कविराजा श्यामलदास), १० - भाणेज मोतीसिंह राठौड़, ११ - सहीहवाला कायस्थ अर्जुनसिंह, १२ - धव्वा राव बदनमल्ल, १३ - महता तरतसिंह, व १४ - पुरोहित पद्मनाथ वगैरहके नाम दर्ज किये, और ऊपर लिखी हुई अदालतोंसे अमलेके लिये अहलकार छांटकर मुन्शी अलीहुसैनको, जो एक होशियार अहलकार ठिकाने बदनोरकी विकालत करता था, सरिश्तहदार नियत किया. पेशतर इन्साफी कार्रवाईका अखीर महकमह खासके हुक्मसे होता था, और दीवानी, फौजदारी, व स्टाम्प रेजिस्टरी वगैरहके इन्तिजामका शुरू महता राय पन्नालालके हाथसे हुआ था, इसलिये तामील और समाअतका काम उसीके हाथमें रखना वाजिब जानकर महकमहखासमें रक्खा गया, क्योंकि महाराणा साहिबकी बुद्धिमानी और मेरी सलाह व अर्जसे इन्तिजामी हालतकी तब्दीली और दुरुस्ती हुई; लेकिन इन कामोंके मूलकी मजबूती जो बिल्कुल अंधेरेमें रौशनीके मुवाफिक जाहिर हुई, महाराणा शम्भुसिंह साहिबकी बुद्धिमानीसे समझना चाहिये. इस कौन्सिलका नाम इज्जलासखास रक्खा गया और ऊपर लिखे हुए मेम्बरोको महाराणा साहिबकी तरफसे खास रुक़े लिखेगये, जिनमेंसे मैं अपने रुक़ेकी नक़्क बतौर नमूनह नीचे लिखता हूं, और यही मज्मून सब रुक़ोंका जानना चाहिये:-

खास रुक़ेकी नक़्क.



नम्बर ४८

॥ श्रीएकलिंगजी. ॥

श्रीबाणनाथजी.

श्रीनाथजी.

॥ स्वस्तिश्री दधिवाडिया श्यामलदासजी जोग अपर ॥ म्हांको दिली इरादो यो है, कि राज्यको काम इन्साफके साथ चाले जीमें मुल्की बिहबूदी होवे अर अमनो आमान

रहे, ईवास्ते थाने इजलासघासका मेम्बर मुकरर किया गया है, सो थे वक्त इजलास ऐसी नेक राय देवे, कि महां की मुराद ऊपर जाहिर कीगई है वा हासिल होवे, संवत् १९३३ का वर्षे चेत वदि ७ भोमे.

इस कौन्सिलका जन्मदिन विक्रमी १९३३ चैत्र कृष्ण ११ [हि० १२९४ ता० २४ सफर = ई० १८७७ ता० १० मार्च] को माना गया. कौन्सिलके नियत होनेसे पहिले इन्ति-जामी हालत हुकमके आधीन थी, और अब समयानुसार न्यायके तअल्लुक होकर मैं महाराणा साहिबके मन्शाके सुवाफिक कुल रियासती महकमोंको सलाह और मदद देनेपर मुकरर हुआ, परन्तु इस कामको पार लगाने वाला सबसे बड़ा मददगार कर्नेल् इम्पी, पोलिटिकल एजेण्ट मेवाड़ था. इस समयमें माली कामोंकी तरफ भी तबजुह करनी पड़ी, और पहाड़ी जिलेका हाकिम पंडित रघुनाथराव, जिसकी शिकायत बहुत दिनोंसे सुनी जाती थी, इसवक्त चन्द आदमियोंके शिकायत पेश करनेपर राजधानीमें बुलाया गया. महाराणा साहिबने उसे बुलाकर फर्माया, कि तेरे रिश्वत लेने और रिआयाको तकलीफ देने वगैरहकी बहुतसी शिकायतें सुनी गई हैं, और पहाड़ी रिआया तेरी बेईमानीके सुबूतमें खास तेरे हाथकी तहरीरें पेश करनेको कहती है; अगर ऐसाही हो, तो सच सच अर्ज करदेनेसे तेरा किसीकद्र बचाव हो सक्ता है. इसपर उक्त पंडितने बड़ी मजबूतीके साथ अर्ज की, कि इन बातोंमेंसे यदि एक भी सच्ची निकले, तो हुजूरकी मर्जी होसो सजा देवें. तब महाराणा साहिबने अपीलके हाकिम मौलवी अब्दुर्रहमानखांको मए कायस्थ जोरावरनाथ माथुर, कायस्थ मोतीलाल भटनागर, ठाँकड़िया जगन्नाथ तथा चन्द अहलकारोंके पहाड़ी जिलेकी तरफ तहकीकातके वास्ते खानह किया. इन लोगोंने मकाम केबड़ासे तहकीकात शुरू की, और यहांसे ही दिन वदिन पंडितकी बे इन्साफी, बेरहमी, और बेईमानी जाहिर होने लगी. आखरकार कुल पहाड़ी जिलेकी तहकीकात होचुकनेपर ३०००००, तीन लाख रुपयेका गबन और रिश्वत रघुनाथरावपर साबित हुई, जिसकी सैकड़ों मिस्लें सुबूतोंके साथ तय्यार होकर तामीलके लिये महकमहखासमें भेजी गई. पंडित रघुनाथराव और उसके मातहत अहलकार कैद कियेगये; क्योंकि इन लोगोंने सिर्फ रिश्वत और गबन ही नहीं किया, बल्कि भील वगैरह गरीब रिआयापर यहांतक जुल्म किया, कि उनमेंसे सैकड़ों लोग अपने बालबच्चे बेचनेपर भी छुटकारा नहीं पाते थे.

इसी जिलेमें ऋषभदेवका एक प्रसिद्ध मन्दिर, जिसको जैन और वैष्णव दोनों मानते हैं, पहाड़ी जिलेके अहलकारोंके तअल्लुकमें होनेके सबब तहकीकातके सीगहमें आया, जिसकी निरवत मौलवी अब्दुर्रहमानखां व महासाणी मोतीलाल वगैरहकी रिपोर्टोंसे मालूम हुआ,

कि करीबन एक लाख रुपया इस मन्दिरके खास खजानहका लोगोंने खुर्द बुर्द करडाला, जिसमें भंडारी जवाना और खेमराज सरगिरोह थे. पूरी पूरी तहकीकात होकर मिस्लें मए सुबूतोंके पेश हुईं, जिसपर महाराणा साहिबने मन्दिरका उम्दह इन्तिजाम करके उदयपुरमें एक कमिटी बाजारके मोतबर साहूकारों व अहलकारोंकी मुकर्रर करदी, कि जिनकी रायसे मन्दिरका कुल इन्तिजाम उम्दह तौरपर हुआ करे, जो अबतक महकमह देवस्थानके तअल्लुकमें उसीतरह काइम है; और इसीतरह खैरवाड़ाकी लाइनके सवारोंपर रिसालदार हरदेवका जुल्म साबित होकर वह अपने उह्देसे मौकूफ करदियागया. यह तहकीकाती कार्रवाई विक्रमी १९३४ चैत्र शुक्ल १ [हि० १२९४ ता० ३० सफ़र = ई० १८७७ ता० १७ मार्च] के बाद से शुरू होकर आषाढ़ और श्रावणके महीने तक खत्म हुई. इस तहकीकातकी शाखें बहुत फैल गई थीं, इसलिये मस्लिहत समझकर बाजकी खानगी तौरपर और बाजकी ऑफिशियल तौरपर कुछ तामील करवाई जानेके बाद बाकी जेर तज्वीज रक्खी गई, और पहाड़ी जिलेके अगले कुल हाकिम व अहलकार मौकूफ होकर महता अखेसिंह उस जिलेका हाकिम मए नये अमलेके नियत कियागया, जिसके प्रबन्धके लिये राजधानीमें " शैलकान्तार सम्बन्धिनी सभा " के नामसे एक नया महकमह जानी मुकुन्दलालके सुपुर्द होकर महाराणा साहिबने इस जिलेको खास अपनी निगरानीमें रक्खा. विक्रमी ज्येष्ठ [हि० रबीउस्सानी = ई० मई] में कुम्भलगढ़की तरफ़ दौरा हुआ, तब विक्रमी द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण ९ [हि० ता० २२ जमादियुलअव्वल = ई० ता० ५ जून] को महाराणा साहिब सर्दारगढ़ पधारे, उसवक्त मनोहरसिंहको सोलह उमरावोंकी बराबर इज्जत और सामनेकी लाइनमें शाहपुराके नीचे बैठक और गांव जैतपुरा, जो फौजखर्चके रुपयोंकी बावत् राज्यमें गिरवी था, वापस इनायत कियागया, और फौजखर्चके रुपयोंमें बहुत कुछ छूट करनेके बाद जो रुपये बाकी रहे उनकी किस्तें बांधदी गईं. इसके अलावह ठाकुरका खिताब, पर्वानहमें सुप्रसाद, और नावमें ऊपर तख्तके सामने बैठक वगैरह अव्वल श्रेणीके सर्दारोंके मुवाफिक़ कुल इज्जतें इनायत करके वापस उदयपुर पधारगये. महाराणा साहिबने कुल मेवाड़का माली और मुल्की इन्तिजाम नये सिरसे करनेका पक्का इरादह करलिया था, परन्तु इस वर्षमें बहुत कम बारिश होनेके सबब पेशतर कहतका बन्दोबस्त करना पड़ा. पहाड़ी जिले और मेवाड़में तालाब वगैरह कारखाने जारी कियेगये, कि जिससे गरीब लोगोंको तकलीफ़ नहो, और महाराणा साहिबने अपने इज्जतदार पासवानोंमेंसे ४ आदमियोंको गिर्दावर मुकर्रर किया, कि वे कहतका बन्दोबस्त और इन्तिजामी हालतको दुरुस्त करनेकी रिपोर्ट करते रहें. इस कार्रवाईसे इन्तिजामकी हालत बदलकर दुरुस्त होने लगी.

अर्घि इस कुल वर्षमें केवल १३ $\frac{३}{४}$ इंच बारिश हुई थी, लेकिन महाराणा साहिबकी तरफसे कारखाने जारी कियाजाना, और बाहिरसे ग़ल्लह मंगाना वगैरह उम्दह बन्दोबस्त होगया, जिससे हजारों आदमियोंके प्राण बचगये. इस वर्षमें पहिली कार्रवाई तो पहाड़ी ज़िलेकी तहकीकातकी हुई, और दूसरी यह कि उसी ज़िलेमें सर्कारी नौकर विलायती पठान जो रिआयापर बड़ा जुल्म करते थे, याने पांच दस रुपया ग़रीब भीलोंको उधार देकर दोचन्द सिंहचन्द ब्याज और काटा कसर वगैरह कई तरहसे रुपयोंकी तादाद सौ दोसौ तक बढ़ाकर उनके बाल बच्चोंको छिनलेते और उन्हें गुलाम बनालेते; सिवा इसके जब उनके खकानपर जा बैठते, तो उसवक्त हमेशह उम्दह खाना और उनकी औरत व बच्चोंसे गुलामोंकी तरह खिन्नतका काम लेते. इसीतरहकी बहुतसी तकलीफोंसे तंग आकर जब बाज़ बाज़ भीलोंने विलायतियोंको मारडाला, तब सर्कारी नौकरका खून होनेपर ज़ालिम हाकिमोंने फ़ौज भेजकर उस पालको बर्बाद किया, इसवास्ते महाराणा साहिबने ग़बनकी तहकीकात होनेके बाद उन कुल विलायतियों को पहाड़ी ज़िलेसे उदयपुरमें बुलालिया. उनको पहाड़ी ज़िलेसे जुदा होना बहुतही नागुवार गुज़रा, और जब उनकी तहकीकातके लिये मौलवी अब्दुरहमानखां मुकर्रर हुआ, तो तहकीकातके वक्त फ़साद करने को तय्यार हुए, इसलिये उनको अपने डेरेपर जानेकी रूख़सत दीगई. ये दोसौ विलायती लालीकी सरायमें ठहरे हुए थे, महाराणा साहिबने सूर्य निकलनेसे पेशतर लोनार्गिन साहिब और महासाणी मोतीलालको दो पल्टन, दो तोप, और चार रिसालों समेत सरायपर भेजा. इन्होंने सूर्य निकलतेही सरायको जा घेरा, और ढींकड़िया जगन्नाथ व चन्द सर्दारोंको सूरजपौल दर्वाज़हके बाहिर इन्तिज़ामके लिये तईनात करके मुझ (कविराजा श्यामलदास) को कर्नेल् इम्पी पोलिटिकल एजेण्ट सेवाड़के पास इस मतलबसे भेजा, कि शायद भागे हुए चन्द विलायती उधर आकर फ़साद न कर बैठें. फिर फ़ौजी अप्सरोंने विलायतियोंको कहलाया, कि हथियार रखकर कैदमें चले आओ, वरनह मारेजाओगे. इसपर पेशतर तो उन लोगों ने हुजत की, लेकिन आख़रकार हथियार छोड़कर फ़ौजकी कैदमें आगये. महाराणा साहिब ने वेकुसूरोंको नौकरीपर बहाल और दो चार फ़सादी अप्सरोंको कैदमें रखकर बाक़ी लोगोंको गवर्मेण्ट अंग्रेज़ीकी मारिफ़त हिन्दुस्तानकी हदके बाहिर निकलवादिया, जिससे खूब रोब छागया और आजतक किसी विलायती पठानने बगावत व जुल्मका नाम न लिया.

विक्रमी कार्तिक शुक्ल १ [हि० ता० २९ शव्वाल = ई० ता० ६ नोवेम्बर] को वागौरके कुंवर शार्दूलसिंहकी स्त्री महाराणा शम्भुसिंह साहिबकी औरस माता नन्दकुंवरका देहान्त होगया. इनका सब रियासती लोगोंको बड़ा रंज हुआ, क्योंकि यह बड़ी फ़य्याज, रहमदिल और हरएककी तकलीफ़को दूर करनेवाली थीं. इसके बाद महाराणा

साहिबकी तीसरी शादी ईंडरके महाराजा जवानसिंहकी छोटी कन्या केसरकुंवरबाईके साथ होना करार पाया. विक्रमी मार्गशीर्ष कृष्ण ९ [हि० ता० २३ जिल्काद = .ई० ता० २९ नोवेम्बर] को बरात रवानह होकर विक्रमी मार्गशीर्ष शुक्ल ३ [हि० ता० १ जिल्हिज = .ई० ता० ७ डिसेम्बर] को ईंडर पहुंची, और उसीदिन विवाह हुआ; विक्रमी मार्गशीर्ष शुक्ल ११ [हि० ता० १० जिल्हिज = .ई० ता० १६ डिसेम्बर] को महाराणा साहिब वहांसे रवानह होकर मूंडेटी, पाल और खैरवाड़े होकर विक्रमी पौष कृष्ण ९ [हि० ता० २२ जिल्हिज = .ई० ता० २८ डिसेम्बर] को गोवर्द्धनविलासमें पहुंचे. जाड़ेका मौसम होनेके सबब इस सफरमें किसी तरहकी तकलीफ न हुई.

इसकेबाद महाराणा साहिब चारभुजा, कुम्भलगढ़ और राजनगरकी सैर करके नाहरमगरे पधारगये. इसी अरसहमें एजेण्ट गवर्नर जेनरल राजपूतानह स्केअर लॉयल साहिब देसूरी के रास्तेसे राजनगर आये, महाराणा साहिब उक्त साहिबके आनेसे पहिले ही नाहरमगरेसे राजनगर पहुंच गये थे, विक्रमी माघ शुक्ल १२ [हि० १२९५ ता० ११ सफर = ई० १८७८ ता० १४ फेब्रुअरी] को मुलाकात होकर नमकके बारेमें बातचीत हुई. गवर्मेंण्टकी तरफसे मिस्टर होम, वाइसरॉयकी कौन्सिलका मेम्बर और पोलिटिकल एजेण्ट मेवाड़ कर्नेल् इम्पी, और महाराणा साहिबकी तरफसे मैं (कविराजा श्यामलदास) और महता राय पन्नालालने इस मुआमलहमें बातचीत की. बहुत कुछ बहस होनेके बाद नमककी राहदारी और खारी नमक मौकूफ होनेका हर्जानह और मेवाड़की रिआयाके लिये दो लाख मन नमक एक रुपये मनके हिसाबसे और दो हजार मन नमक बिना कीमत खास कोठार खर्चके लिये पचभद्रासे देना करार पाया. इसके बाद उक्त साहिब लोग दौरेपर रवानह हुए, और महाराणा साहिब भी विक्रमी फाल्गुन कृष्ण ५ [हि० ता० १८ सफर = ई० ता० २१ फेब्रुअरी] को नाहरमगरे होकर उदयपुर पधारगये. विक्रमी फाल्गुन कृष्ण ६ [हि० ता० १९ सफर = ई० ता० २२ फेब्रुअरी] को बम्बईके गवर्नर सर रिचर्ड टेम्पल उदयपुर आये, १७ तोप सलामीकी सर हुई, और पेइवाईके एवज महाराणा साहिब कोठीपर जाकर मिल आये, रौशनी व खाना वगैरह होकर विक्रमी फाल्गुन कृष्ण ९ [हि० ता० २२ सफर = ई० ता० २५ फेब्रुअरी] को उक्त साहिब वापस गये.

अब हम वह बात लिखते हैं, जो कि महाराणा साहिबकी उम्दह कार्रवाइयोंमेंसे एक है, याने शहर उदयपुरमें हमेशह चोरियोंका होना और हर साल दो चार खून होकर कातिलों का भागजाना, शहरके बाजार व गली कूचोंका गन्दा रहना, गाय, भैंस, सांड, बकरे वगैरह लावारिस मवेशीका कस्रतसे बाजार और गलियोंमें घूमना देखकर इसबातका बन्दो-वस्त करनेके लिये महाराणा साहिबका इरादह हुआ. इसी अरसहमें महता शेरसिंहकी

हवेलीपर एक गुसाईं पहरा दे रहा था, उसको किसीने गोलीकी देकर मार डाला, और कातिलका पता न लगा, तब महाराणा साहिबने पुलिसका उम्दह इन्तिजाम करनेके लिये मुझे फर्माया. मैंने अर्ज की, कि विक्रमी १९३० [हि० १२९० = ई० १८७३] में महाराणा शम्भुसिंह साहिबने भी इन बातोंका बन्दोबस्त करनेके लिये हुक्म दिया था, लेकिन मजहबी और हिमायती लोगोंके हुल्लडसे उनको अपना इरादह छोड़ना पड़ा. इसपर उन्होंने मुस्तइदीके साथ फर्माया, कि मैं इस बन्दोबस्तको बिदून पूरा किये न छोडूंगा; तब मैंने अर्ज की, कि इस काममें इतनी बातोंकी जरूरत है— अव्वल तो श्री हुजूरको अपने हुक्मकी पाबन्दी रखना; दूसरे इस कामके लिये एक जी इज्जत, दिलावर, मिहनती और आलिम व तजर्बहकार अपसरका नियत होना; तीसरे उस अपसर की मददके लिये आला मुसाहिबोंमेंसे किसी शरूसका मुकरर कियाजाना; और चौथे शुरू इन्तिजाममें इब्रतके लिये अगर चन्द सरूत सजाएं भी देनी पड़ें, तो शिकायत होनेपर उनके लिये नर्म हुक्म न हो, क्योंकि ऐसे हुक्मसे लोगोंको हौसिलह होकर काममें हमेशह खलल पड़ेगा. तब महाराणा साहिबने ये सब बातें कुबूल फर्माकर कर्नेल् इम्पी साहिबको बुलाया, और मैंने ऊपर बयान कीहुई बातें पेश कीं. साहिब बहादुरने भी मेरी रायको पसन्द फर्माकर इस कामके पूरा करनेकी सलाह दी. महाराणा साहिबने पूछा, कि इस कामका अपसर नियत कियाजानेके लाइक कौन शरूस है ? मैंने अपीलके हाकिम मौलवी अब्दुर्रहमानखांकी सिफारिश की. महाराणा साहिबने उक्त मौलवीको सुपरि-एटेण्डेण्ट पुलिस और मुझको उसका मददगार बनाया. इस कार्रवाईके करनेमें बहुतसी दिक्कतें पेश आईं, जिनमेंसे कुछ यहांपर लिखी जाती हैं. जोकि बाजारोंमें लावारिस सांड और बकरोंके फिरनेके सबब कई आदमी उनकी टकरसे जर्खी होते और गल्लह फरोशों व शाक तर्कारी बेचने वालोंका नुकसान होता था और सैकड़ों पत्थरवलकड़ियोंकी चोटोंसे वे भी खुद मारे मारे फिरते थे, इसलिये इन पशुओंको आरामसे रखनेके वास्ते एक गोशाला (कांजी हाउस) बनाई गई, जहां घास और खिन्नतगारोंका पूरा बन्दोबस्त होकर बाजारोंमें से अनाथ पशुओंको घेरनेका हुक्म दिया गया. कान्स्टेबलोंको सांड घेरते देखकर बाजारके महाजनोंने एकदम हुल्लड करके हटनाल डालदी. चन्द बदमआशोंने, जिनके दिलोंमें रूपभदेवकी तहकीकातसे जलन उठ रही थी, इस बगावतके मुखिया बनकर सेठ चम्पालाल को अपना सरगिरोह बनाया. चम्पालाल अगर्चि अपनी जातसे सीधा सादा और नेक मिजाज आदमी था, लेकिन इन दूसरे चालाक आदमियोंके दममें आकर महाराणा साहिबसे सामना करनेको तय्यार होगया, परन्तु मुसल्मान बोहरे, जो उदयपुरमें बड़े व्यापारी हैं, उनके शरीक न हुए, और कहा कि हम महाराणा साहिबसे सामना करके उनके बदरूवाह नहीं बन

सक्ते. हटनाल खोलनेकी बहुतसी कोशिशें की गईं, परन्तु कुछ कारगर न हुईं, तब विक्रमी १९३४ फाल्गुन शुक्ल ७ [हि० १२९५ ता० ६ रबीउलअव्वल = ई० १८७८ ता० ११ फ्रेब्रुअरी] की रातको सेठ चम्पालाल, बोरघा तिलोकचन्द, चौधरी भीमराज, सिंगवी गुलाबचन्द और शूरपुर्या साहिबलालको उनके घरोंसे गिरिफ्तार करके महलोंमें कैद करदिया. दूसरे दिन प्रातः समय कर्नेल् इम्पी साहिब महाराणा साहिबके पास आये, और इन पांचों मुखियाओंको बुलाकर समझाया. पेश्तर तो उन्होंने पूरी बग़ावतकी बातें कीं, लेकिन पीछे धमकानेसे होशमें आकर हटनाल खोलदी. उसी दिनसे महाराणा साहिबने नगरसेठ और चारों चौवटिया लोगोंकी ताक़त बेफ़ायदह जानकर बोहरा लोगोंके गिरोहको उनसे अलहदह रखनेकी पॉलिसी रक्खी. इस बारेमें पुलिसकी कुल कार्रवाई लिखनेसे बयानको तवालत होनेके सबब हम मुस्तसर तौरपर सिर्फ़ इतनाही लिखते हैं, कि पुलिसके नियत होनेसे कई काम सीग़ह पुलिस अथवा गैर सीग़हके भी दुरुस्त हुए. मुतालबह खफ़ीफ़ह, जिससे छोटे छोटे लेनदेनमें सुभीता हुआ, इन्सदाद वारिदातका पूरा पूरा इन्तिज़ाम, मुहताजख़ानह और पागलख़ानहका खोला जाना, गोशाला (कांजी हाउस) का काइम होना, आवारह कुत्तोंका बन्दोबस्त, लड़के लड़कियोंके गुम होजानेको रोकने का प्रबन्ध, गिराहुआ माल अस्ली मालिकको मिलनेका प्रबन्ध, रौशनी व शहर सफ़ाईका बन्दोबस्त, आम सड़कों व गली कूचोंमें बेजा मकान बढ़ानेकी रोक टोक, शाक तर्कारी व मेवा बेचने वालोंसे चुंगी मुआफ़ होकर उनका मुनासिब प्रबन्ध कियाजाना, वगैरह कई बन्दोबस्त नवीन होकर शहरको पूरा पूरा आराम मिला. इस पुलिसके इन्तिज़ामको रोकनेके लिये मज्दबी, मल्लबी, हिमायती और असूयक लोगोंने बहुत कुछ हमले किये, लेकिन महाराणा साहिबकी काइम मिजाजी और मौलवी अब्दुर्रहमानखांकी कारगुज़ारी व लाला केसरीलाल इन्स्पेक्टर वगैरह होश्यार अहलकारोंकी तन्दिहीसे यह इन्तिज़ाम बहुत अच्छा होगया.

दूसरा बड़ा काम महाराणा साहिबने यह किया, कि सेटलमेण्टका बन्दोबस्त करनेके लिये गवर्मेण्टसे पेश्तर एक उम्दह अफ़सर तलव किया. इस कामकी सलाह देनेके वास्ते कर्नेल् इम्पी साहिब पोलिटिकल एजेण्ट मेवाड़की रिपोर्टको कर्नेल् ब्राडफ़ोर्ड साहिब एजेण्ट गवर्नर जेनरल राजपूतानहने फ़ारिन् ऑफ़िसमें भेजकर पश्चिमोत्तर देशके सेटलमेण्ट ऑफ़िससे डब्ल्यु० एच० स्मिथ साहिबको बुलाया. उसने एक महीनेतक मेवाड़के ज़िलोंमें दौरा करके सेटलमेण्ट जारी करनेके लिये एक उम्दह रिपोर्ट की, जिसमें बहुतसी बातें जुग्राफ़ियह सम्बन्धी जानकर इस जगह दर्ज नहीं की गई हैं. सेटलमेण्टके लिये उसकी यह राय थी, कि यह काम लगातार जारी रखनेसे ४ वर्षमें ख़त्म होसक्ता है, और खर्च नीचे लिखे मुवाफ़िक़ होगा:-

छःसौ मील मुरब्बा या सात लाख उन्नीस हजार दोसौ सत्तावन बीघा जोती हुई ज़मीनका दो रुपया सौ बीघाके हिसाबसे, और तीन हजार छःसौ अस्सी मील मुरब्बा या चालीस लाख ग्यारह हजार चार सौ बयालीस बीघा परतल ज़मीनपर एक रुपया सौ बीघाके हिसाबसे सर्वेका खर्च ६००००७ साठ हजार रुपया होगा.

सेटलमेण्ट अफसरकी तन्ख्वाह १२००७ रुपया मए माहवार तीन सौ रुपया पेन्शन छुट्टीके फण्डके ४ वर्षके लिये ७२०००७; और १२० खतौनी मुहर्रिर, हरएक १० रुपये माहवारका तीस महीनोंके लिये ३६०००७ माहवार; तीन सद्र मुन्सरिम हरएक रु० १००७ माहवारका, ४२ महीनोंके लिये १२६००७; १५ मुन्सरिम तीससे पचास माहवार तकके, ४२ महीनोंके लिये २३९०००७ रुपया; दफतर खर्च १२०००७ रुपया, १२० डेनटेबल मए जंजीर वगैरह ४०००७ रुपयेके; सर्रिश्तहदार ६०७ रुपया माहवारका, चार वर्षके लिये २८८०; बारह अह्लमद २५७ रुपये माहवारके तीन वर्षके लिये उसके १०८००७ रुपये; और दूसरा खर्च २७७३५७; जुम्लह ३०९९१५७ या करीब ३१००००७ के.

महाराणा साहिबने स्मिथ साहिबको ही इस कामके लिये रखना चाहा था, परन्तु उसने उज्र किया, कि मेरी तन्दुरुस्ती ठीक नहीं है, इसलिये मैं फ़र्लो छुट्टी लेकर विलायत जाऊंगा. स्मिथ साहिबके जाने बाद कुछ अरसहतक यह काम मुलतवी रहा, क्योंकि महाराणा साहिबने गवर्मेण्ट अंग्रेज़ीसे एक तजर्बहकार सेटलमेण्ट ऑफिसरके मिलनेकी इच्छा प्रगट की थी. अफ़सोस कि ऐसी तरक्की और इन्तिज़ामकी तब्दीलीके समय कर्नेल् इम्पी, पोलिटिकल एजेण्ट मेवाड़ विक्रमी फाल्गुन शुक्ल १५ [हि० ता० १३ रवीउल्अव्वल = ई० ता० १८ फ़ेब्रुअरी] को तरक्की पाकर नयपालकी रेज़िडेन्सीपर चलागया. इस शरूस्ने महाराणा साहिबको नेक सलाह और दोस्तानह बर्तावसे बहुत कुछ मदद दी, और उदयपुरसे जाते समय रेज़िडेन्सीमें एक दर्बार किया, जिसमें मुभ (कविराजा श्यामलदास) को कैसरि हिन्दकी तस्वीरका चांदीका मेडल गलेमें पहिनाकर यह कहा, कि आपने जो महाराणा साहिबको नेक सलाह और अक्लमन्दीके साथ मदद दी, उसके एवज़ गवर्मेण्ट अंग्रेज़ीकी तरफसे यह मेडल आपको दिया जाता है. मैंने इसके जवाबमें शुक्रियह अदा करके कहा, कि मैं इस मेडलके मिलनेसे इतना खुशन हुआ, जितनाकि आपके इस कलामसे, कि महाराणा साहिबको मैंने नेक सलाह दी, क्योंकि कई खुदमल्लवी लोग मुझको अपना मल्लब बिगड़नेसे बुरा मशहूर करते हैं. फिर कर्नेल् इम्पीने मुभको एक चिट्ठी दी, जिसमें मेरे नेक चालचलनका वयान था. मैंने दोनों चीज़ महाराणा साहिबके नज़ करदीं. उन्होंने मुझको वापस

इनायत करके चीठीपर लिखदिया, कि हमने खुश होकर यह चिठी इनायत की है.

इसी वर्षमें एक बहुत बड़ा काम यह किया गया, कि नवलखा बागके महलोंमें विक्रमी १९३४ आषाढ कृष्ण ६ [हि० १२९४ ता० २० जमादियुस्सानी = इ० १८७७ ता० २ जुलाई] को देशहितैषिणी सभा काइम हुई, जिसमें बड़े बड़े नेक कामोंकी बुन्याद डाली गई थी, जिसका वृत्तान्त विद्यमान महाराणा श्री फ़तहसिंह साहिबके हालमें वाल्टर कृत राजपुत्र हितकारिणी सभाके साथ लिखा जायेगा.

विक्रमी १९३५ चैत्र शुक्ल १० [हि० १२९५ ता० ८ रबीउस्सानी = इ० १८७८ ता० १२ एप्रिल] को मेजर केडल मेवाड़का पोलिटिकल एजेण्ट मुक़र्रर होकर उदयपुरमें आया. यह एजेण्ट भी महाराणा साहिबका मददगार बना रहा. अब महाराणा साहिबको मेवाड़के मुल्की इन्तिज़ामकी फ़िक्र हुई. इसवक्त मेवाड़में छोटे बड़े तीस पर्गने गिनेजाते थे, जिनमेंसे बाज बाज तो एकही गांवके और बाज जिलेवार थे, जैसाकि डब्ल्यु० एच० स्मिथ साहिबने अपनी रिपोर्टमें लिखा है, और पांच मुल्की नाइव फ़ौजदारोंसे फ़ौजदारी का इन्तिज़ाम होता था. इन नाइव फ़ौजदारोंसे बहुत फ़ायदह हुआ, याने फ़ौजदारी इन्तिज़ामकी जड़ मुल्कमें काइम हुई, लेकिन इसवक्त यह सोचा गया, कि नाइव फ़ौजदार और हाकिमोंका जुदा जुदा प्रबन्ध रहनेसे इस्तिलाफ़ रायके सबब रिआयाकी ज़रवारीका अन्देशह है. आख़रकार नियाबतको तोड़कर ग्यारह निज़ामतें बनाई गईं, जिनमें दस माली व इन्तिज़ामी और एक साइर है. ज़िले मगरेका हाकिम महता अक्षयसिंह, ज़िले गिरवाका हाकिम महता तरुतसिंह, ज़िले कुम्भलगढ़का हाकिम कायस्थ जोरावरनाथ, ज़िले सहाड़ाका हाकिम महता रघुनाथसिंह, ज़िले राशमीका हाकिम महता गोपालदास, ज़िले छोटी सादड़ीका हाकिम महता केसरीसिंह, ज़िले चित्तौड़गढ़ का हाकिम ढाँकड़िया जगन्नाथ, ज़िले मांडलगढ़का हाकिम महता विठ्ठलदास, ज़िले जहाज़पुरका हाकिम महता लक्ष्मीलाल, ज़िले भीलवाड़ाका हाकिम कश्मीरी पंडित रामनारायण और देशदाणका हाकिम कश्मीरी पंडित ब्रजनाथनियत किया गया. इन लोगोंकी तन्ख्वाह अव्वल दरजह २००१ और दूसरे दरजह १५०१ रुपया माहवार मुक़र्रर की गई, और मैजिस्ट्रेटीके इस्तिथारात दियेजाकर ज़ुख़रतके मुवाफ़िक़ दीवानी व फ़ौजदारीका अमलह भी काइम किया गया. इस इन्तिज़ामका पूरा हाल हम जुग्राफ़ियहमें लिख आये हैं. इसवक्त महाराणा साहिब व पोलिटिकल एजेण्ट मेवाड़ और महकमहखास (महता राय पन्नालाल) की तथा मेरी (कविराजा श्यामलदासकी) व माली व मुल्की हाकिमोंकी एक राय होकर इन्तिज़ामी हालतमें दिन बदिन तरक्की होने लगी. विक्रमी भाद्रपद शुक्ल ७ [हि० ता० ५ रमज़ान = इ० ता० ३ सेप्टेम्बर] को वेदलाके राव बहादुर राव बरुतसिंहको

“कम्पैनिअन इन्डियन एम्पाइर” याने सी० आइ० ई० का खिताब और तमगृह गवर्मेण्ट हिन्दकी तरफसे आया, जो महाराणा साहिबके सामने दरबारमें पोलिटिकल एजेण्टने दिया.

अब मैं महाराणा साहिबके दौरैका हाल लिखता हूं, जो उन्होंने अपने किये हुए इन्तिजामकी निगरानीके लिये किया था. मार्गशीर्ष महीनेके प्रारम्भमें इस दौरैका इरादह किया गया, लेकिन इसी अरसहमें महाराणा साहिबके पेटमें बड़े जोर शोरसे दर्द चलने लगा; कई दिनतक डॉक्टर पादरी शेपर्ड व रेजिडेन्सी सर्जन डॉक्टर बीटसन और महाराणा साहिबके मुख्य डॉक्टर अक्बरअलीका इलाज होता रहा, मगर दर्दमें कुछ फर्क न पड़ा, तब आब हवा बदलनेके लिये नाहरमगरे पधारे. वहां जानेसे आधा फर्क मालूम होनेपर दौरैका इरादह पक्का करके विक्रमी १९३५ मार्गशीर्ष शुक्ल ४ [हि० १२९५ ता० ३ जिल्हज = ई० १८७८ ता० २८ नोवेम्बर] को नाहरमगरेसे रवानह होकर बाठर्डे पहुंचे. रावत् दलेलसिंहने कुल फौजको बहुत उम्दह दावत दी, और महाराणा साहिबको घोड़ा व सरोपाव नज़ करके चारणों, अहलकारों, तथा पासवानोंको सरोपाव दिये. महाराणा साहिबने भी दलेलसिंहपर खुश होकर उसे नशिस्तमें तरककी देनेके अलावह खिल्अत वगैरह इनायत किये. इसी दिनसे महाराणा साहिबकी बीमारी बिल्कुल जाती रही. महाराणा साहिबके साथ करीब ५००० आदमियोंकी भीड़भाड़ थी, लेकिन मुल्की सर्दारों वगैरहकी आमदोरफतसे कभी ६००० और कभी ७००० और कभी ८००० तक घटबढ़ जाती थी. इसवक्त भींडरका महाराज हमीरसिंह बहुत बीमार था, तोभी महाराणा साहिबकी मिहमान्दारीके लिये भींडरमें बड़ी धूमधामसे तय्यारी की गई, परन्तु ईश्वरकी कुद्वतसे महाराणा साहिब बाठर्डे पधारे उसी दिन हमीरसिंहका इन्तिकाल होगया. यह सर्दार फय्याजी और मिलनसारीमें मशहूर और नामवर था. विक्रमी मार्गशीर्ष शुक्ल ५ [हि० ता० ४ जिल्हज = ई० ता० २९ नोवेम्बर] को महाराणा साहिबका मकाम कान्हौड़ ग्राममें हुआ. रावत् उम्मेदसिंहने बड़े अदब व आदाब और मुहब्बतके साथ मिहमान्दारी करके हाथी, घोड़ा, सरोपाव और जेवर वगैरह नज़ किया. महाराणा साहिबने भी उसे खिल्अत वगैरह इनायत करके मिहबानी की. दूसरे रोज वहांसे बोहड़े रावत् अदोतसिंहके यहां भोजन करके बानसीके रावत् मानसिंहके मिहमान हुए. वहां भी अच्छी तरह पधरावनी हुई, और दूसरे रोज विक्रमी मार्गशीर्ष शुक्ल ७ [हि० ता० ६ जिल्हज = ई० ता० १ डिसेम्बर] को बड़ी सादड़ी तश्रीफ लेगये. राज शिवसिंहने बड़ी मुहब्बत और स्वामिभक्तिके साथ पेशवाई, पगमंडे वगैरह अदब आदाबकी रस्में अदा करके दो रोजतक धूमधामके साथ मिहमान्दारी की, और हाथी, घोड़े, जेवर, सरोपाव वगैरह नज़ करके चारण, अहलकार व पासवानोंको

भी सरोपाव दिये. महाराणा साहिबने भी इस मौकेपर शिवसिंहको “राज राणा” का खिताब और खिल्अत इनायत किया. विक्रमी मार्गशीर्ष शुक्ल ९ [हि० ता० ८ जिल्हज = ई० ता० ३० डिसेम्बर] को छोटी सादड़ीमें मकाम हुआ. दूसरे रोज वहां मकाम करके कालाखेत वगैरह वीरान जमीनोंको मुलाहजह फर्माकर दीवानी, फौजदारी व माली कामों तथा रिआयाके हालात दर्याफ्त किये. विक्रमी मार्गशीर्ष शुक्ल ११ [हि० ता० १० जिल्हज = ई० ता० ५ डिसेम्बर] को नीमचकी छावनी पहुंचे, जहां मैजिस्ट्रेट सद्र व कर्नेल् फौज तथा नीमचका सूबा पेइवाईको आये, और २१ तोपें सलामीकी सर हुई. दूसरे रोज मकाम करके विक्रमी मार्गशीर्ष शुक्ल १३ [हि० ता० १२ जिल्हज = ई० ता० ७ डिसेम्बर] को अंग्रेजी फौजकी जर्नेली कवाइद देखी और अठाणे, कपेरे तथा बेगम होते हुए विक्रमी पौष कृष्ण ३ [हि० ता० १७ जिल्हज = ई० ता० १२ डिसेम्बर] को मांडलगढ़में दाखिल हुए; वहांपर किले और जिले की निगरानी करनेके बाद सतपड़ा पहाड़में शिकार और बीजोलियाकी दावत कुबूल करके विक्रमी पौष कृष्ण ८ [हि० ता० २२ जिल्हज = ई० ता० १७ डिसेम्बर] को अमरगढ़ और विक्रमी पौष कृष्ण ९ [हि० ता० २३ जिल्हज = ई० ता० १८ डिसेम्बर] को जहाजपुर पहुंचे. दूसरे रोज ईटूंडा वगैरह जिला देखते हुए देवलीकी छावनी और वहांसे राजमहलोंकी तरफ तश्रीफ लेगये. विक्रमी पौष कृष्ण १२ [हि० ता० २६ जिल्हज = ई० ता० २१ डिसेम्बर] को वापस जहाजपुर आये, और वहां की रिआया व इन्तिजामी हालतको मुलाहजह फर्माकर महता राय पन्नालाल और उसके भाई लछमीलालकी कोशिशसे कुएं व तालाब बनवाने और मद्रसह जारी करने वगैरह उम्दह बन्दोवस्त किये. फिर विक्रमी पौष शुक्ल १ [हि० ता० २९ जिल्हज = ई० ता० २४ डिसेम्बर] को वहांसे खानह होकर विक्रमी पौष शुक्ल २ [हि० ता० ३० जिल्हज = ई० ता० २५ डिसेम्बर] के दिन इस इतिहासके कर्ता (कविराजा श्यामलदास) के गांव ढोकलिये पधारे. उस वक्त महाराणा साहिबके साथ शाहपुराका राजाधिराज नाहरसिंह, बनेड़ाका राजा गोविन्दसिंह, सर्दारगढ़का ठाकुर मनोहरसिंह, भदेसरका रावत् भोपालसिंह, ताणाका राज देवीसिंह, हमीरगढ़का रावत् नाहरसिंह, मगरुपका बाबा गिरवरसिंह, काकरवाका उदयसिंह वगैरह और कुल खैराड़ व पूर्वी मेवाड़के सर्दार, करीब ७-८ हजार आदमियोंकी भीड़-भाड़ थी. महाराणा साहिबने मेरे बनवाये हुए मकानमें विराजकर मए फौजके रूखी सूखी दावत कुबूल फर्माई. अगर्चि पेशतर ही मुझको बहुत कुछ इज्जत इनायत होचुकी थी, लेकिन इसवक्त “कविराजाका खिताब” और खास रुक़में जुहार बख्शनेके अलावाह

अजाची (महाराणाके सिवा दूसरेसे न मांगनेवाला) बनाकर इस दरजहके मुताबिक़ जायदाद .इनायत करनेका मुजरा और नज़ानह करवाया, और पहिले जो बड़ी मुहर .इनायत की थी उसीके मुताबिक़ चरण शरणकी दूसरी छाप बरूज़ी, जिसमें यह श्लोक खुदा है:-

श्लोक.

राणाश्रीसज्जनेन्द्रस्य चरणान्नप्रसादत : ॥

कविराजपदख्यातश्यामलस्यैव मुद्रिका ॥ १ ॥

इसके सिवा मुझको पैरमें सुवर्णके तोड़े व खिल्लूअत और मेरे बन्धु वगैरहको कंठी व खिल्लूअत इनायत करके बरसल्यावास, पारसोली व बसी होते हुए विक्रमी पौष शुक्ल ५ [हि० १२९६ ता० ३ मुहर्रम = ई० ता० २८ डिसेम्बर] को चित्तौड़ पहुंचगये. विक्रमी पौष शुक्ल १० [हि० ता० ९ मुहर्रम = ई० १८७९ ता० ३ जैनुअरी] को वहांसे चले और काकरवेमें उदयसिंहके यहां दावत अरोगकर ताणे पधारे. राज देवीसिंहको नशिस्तमें तरक़ी दी और खिल्लूअत इनायत किया. दूसरे रोज़ देवीसिंहकी तरफ़से कुल फ़ौजको दावत दीगई. विक्रमी पौष शुक्ल १२ [हि० ता० ११ मुहर्रम = ई० ता० ५ जैनुअरी] को नाहरमगरे और विक्रमी माघ शुक्ल १ [हि० ता० २९ मुहर्रम = ई० ता० २३ जैनुअरी] को उदयपुरमें दाखिल होगये. इस इन्तिज़ामी वर्षके ख़त्म होनेपर सब उह्दहदारोंने अपने अपने उह्दोंकी सालियानह रिपोर्टें पेश कीं, जिनका मुख़्तसर हाल नीचे लिखाजाता है:—

जबसे महाराणा साहिबने मुल्की इन्तिज़ाम हाथमें लिया, तबसे जमामें तरक़ी, ख़र्चमें क़िफ़ायत और इन्तिज़ामकी दुरुस्ती होनेके अलावह प्रजाको हरतरह आराम रहा. इन बातोंकी तफ़्सील तवारीख़में लिखना तवालतमें दाखिल है. इज़्लासखास नामी कौन्सिलके बनने और ज़िलोंमें दीवानी व फ़ौजदारीका सुधार होनेसे प्रजाको पूरा पूरा इन्साफ़ मिलने लगा, और अहलकारोंको भी जाबितहकी कार्रवाई करनेका ढंग याद करनेसे ज़मानहके मुवाफ़िक़ हौसिलह होने लगा. विक्रमी १९३३ चैत्र कृष्ण ११ [हि० १२९४ ता० २४ सफ़र = ई० १८७७ ता० १० मार्च] से विक्रमी १९३५ आषाढ़ शुक्ल १५ [हि० १२९५ ता० १३ रजब = ई० १८७८ ता० १४ जुलाई] तक इस कौन्सिल (इज़्लासखास) में १२०३ मुक़दमे फैसल हुए, जिनमें ६७३ दीवानी, ४४३ फ़ौजदारी, ३० रेजिस्टरीके, २५ महकमह मालके, १३ फ़ौजके, और १९ ज़िले मगराके थे. कौन्सिलके प्रारंभ समयमें इतनी मिस्लोंका फैसल होना मेम्बरोंकी तन्दिही और अदालतके सरिश्तहदार मुन्शी अली हुसैनकी उम्दह कारगुजारीका नतीजह समझना चाहिये.

अब हम माली सीग़ेके बन्दोबस्तका थोड़ासा नमूनह दिखलाना चाहते हैं, जिसमें

बड़े उलझाड़का सींगह साइर था, उसका इन्तिज़ाम महाराणा साहिबकी बुद्धिमानी व उनके खैरख्वाह अह्लकारोंकी तन्दिहीसे दुरुस्त किया गया. साइरका शाहानह इस्तियार मेवाड़ के राजाओंको जमानह क़दीमसे हासिल है, जैसा कि चित्तौड़गढ़पर रामपौल दर्वाज़हके बाहिरी तरफ़ दक्षिणी दीवारपर विक्रमी १५९३ की प्रशस्ति (देखो महाराणा उदयसिंह का प्रकरण, पृष्ठ १४२) से जाहिर है, और मुसलमानोंकी बादशाहतके जमानहमें आलमगीरके अह्दमें महाराणा दूसरे अमरसिंहने जो घोड़ोंके सौदागरको राहदारीका पर्वानह (१) दिया था, उससे भी सावित है, लेकिन साइरका लगान मरहटोंके ग़दमें बिल्कुल बर्बादीकी हालतको पहुंच चुका था. कर्नेल् टॉडने जिसतरह दूसरे रियासती सींगोंपर निगाह डाली उसी तरह इस सींगहमें भी ख़ूब दिल लगाया. पहिले इस काममें ज़ियादहतर ठेका या मुकाता होता था; विक्रमी १९०८ [हि० १२६७ = ई० १८५१] तक इस रक़मकी यही हालत रही, और अक्सर सेठ ज़ोरावरमल्ल इस रक़मका ठेकेदार रहा. महाराणा स्वरूपसिंहने ठेका तोड़दिया, और ख़ालिसहमें रखकर कोठारी केसरीसिंहको दारोग़ह साइर बनाया. इस शख्सने बड़ी तन्दिहीके साथ समुद्रको कूज़ेमें किया, याने सैकड़ों चीज़ोंकी लगान काइम करके ज़वानी जमा खर्चको बहियोंमें दर्ज किया, और उसके बाद दो वर्ष केशवराम अंवर, ५ वर्ष गोविन्दराव पण्डित, फिर प्रतापमल्ल अंवर, उसके पीछे केवलराम भंडारी, जिसके बाद विक्रमी १९३४ [हि० १२९४ = ई० १८७७] तक

(१) पर्वानहकी नक़.

॥ श्रीरामोजयति ॥

॥ श्रीगणेशजी प्रसादातु ॥

॥ श्रीएकलींगजी प्रसादातु ॥

सही

स्वस्तिश्री उदेपुर सुथाने महाराजाधिराज महाराणां श्री अमरसींघजी आदेसातु, समस्त दाण्या कस्य,

१ अप्र सोदागर इलयारपांरा घोड़ा १८, रोठ २, अंट २, मुरादपांरे घोड़ा १६, रोठ ४,

अंट ३ लेजाए हे, सो चोलण मत करे, सं० १७५५ ब्रपे मगसर सुदी ५ रीऊ.

डालचन्द बाबेलने काम किया. फिर यह काम पण्डित ब्रजनाथके हाथमें आया. हम कहसक्ते हैं, कि इस सींगहकी तरक्की और दुरुस्ती करनेवाले तीन शख्स समझने चाहियें, याने अब्बल कर्नेल् टॉड, दूसरा कोठारी केसरीसिंह और तीसरा पण्डित ब्रजनाथ. इस काममें तरक्की करनेकी बनिस्वत दुरुस्ती करनेमें ज़ियादह मिहनत दर्कार थी. विक्रमी १९०८ [हि० १२६७ = .ई० १८५१] से विक्रमी १९३४ [हि० १२९४ = .ई० १८७७] तक का नक़्क़ाह हम नीचे लिखते हैं, जिससे जमा खर्चका हाल मालूम होगा:—

जमा खर्च संवत् १९०८ से १९३४ तक.

संवत्.	आमदनी.	खर्च.	कैफियत.
१९०८	३८७२४७॥ - ॥	५८११३।	
१९०९	३८६२८९॥ ≡ ॥	६०९६१॥ - ॥	
१९१०	३४६१११॥ ॥ ॥	५९६४२॥ ॥ ॥	
१९११	३६२५४७ - ॥ ॥	६१०४५॥ ≡ ॥	
१९१२	३६६६०८	६२३६४। = ॥ ॥	
१९१३	३८९७१४॥ = ॥	५९३११॥ ≡ ॥	
१९१४	४३७८९६॥	५९०४८॥ ॥ ॥	
१९१५	४४७७३२	५७५८२॥ ॥ ॥	
१९१६	४७८०१५॥	५८६२३॥ ॥ ॥	
१९१७	४३२४४४ ≡ ॥	५८७९९ = ॥ ॥	
१९१८	३९८५६१ - ॥ ॥	५५६३४ -	
१९१९	४२६०३५। ≡	६२७९१ ≡ ॥	
१९२०	४४९३१५। = ॥	६९३२४॥ ≡ ॥ ॥	
१९२१	४१६७१७॥ = ॥	७२३००। - ॥ ॥	
१९२२	३८३८६७॥ - ॥	७०८४६	
१९२३	३८२४६१ ॥ ॥	७४४५६ ≡	
१९२४	४४९३१४। - ॥	६७६४१ - ॥	

१९२५	२९८६१४ III ≡ II	६४६८९ IIII	
१९२६	३४६५७० -	६३३५७ II - III	
१९२७	४९१६१४ ≡ III	६७२८० III ≡ III	
१९२८	५५३८९० II II	७०९२६ -	
१९२९	४८८७४६ =	७०९७६ II II	
१९३०	५५४५३५ II ≡ II	७०८०१ I - II	
१९३१	४९७५२६	६९०७५ II = II	
१९३२	४७९८८७ I = III	६९४५८ ≡ I	
१९३३	५२४९२१ II - I	७१३७८३ ≡ I	
१९३४	४७९०६३ II ≡ III	६९१२६	
मीजान	११६५६०५२ II - III	१७५५५५८ II ≡ II	फी सदी आमदनी पर १५ खर्च हुआ.
औसत	४३१७०५ II = १२	६५०२० II ≡ १	

अब हम विक्रमी १९३६ [हि० १२९६ = .ई० १८७९] से अगला हाल शुरू करते हैं. उक्त विक्रमीके प्रारम्भमें चैत्र शुद्ध ९ [हि० ता० ८ रबीउस्सानी = .ई० ता० १ एप्रिल] को महाराणा साहिव मए ज़नानहके उदयपुरसे प्रस्थान करके नाहरमगरा व नाथद्वारा होते हुए राजनगर पहुंचे, जहां राजसमुद्रकी पाल की मरम्मत और पालपरके बाग तथा महलके जीर्णोद्धारका प्रबन्ध करके गढ़बोर (चतुर्भुजनाथ) की यात्रा करनेके बाद विक्रमी वैशाख कृष्ण ३ [हि० ता० १६ रबीउस्सानी = .ई० ता० ९ एप्रिल] को उदयपुरमें दाखिल होगये. विक्रमी वैशाख शुद्ध ३ [हि० ता० १ जमादियुल्अव्वल = .ई० ता० २४ एप्रिल] को जगन्निवासमें सज्जननिवास महल बनवाया, उसकी प्रतिष्ठा की. इस जल्सहमें कुल हाज़िरीन सर्दारों, चारणों और पासवानोंको .उम्दह .उम्दह खिल्अत और इन्अम व इक्राम दियेगये. विक्रमी आषाढ कृष्ण ११ [हि० ता० २४ जमादियुस्सानी = .ई० ता० १५ जून] को पोलिटिकल एजेण्ट मेवाड़ मेजर केडल साहिव ३ महीनेकी छुट्टीपर विलायत गये.

इन्हीं दिनोंमें काबुलपर गवर्मेण्ट अंग्रेज़ीकी फ़ौज गई थी, उसकी फ़तहयावी की खुशख़बरी आनेपर तोपोंकी संलामी सर कीगई. विक्रमी श्रावण शुद्ध १०

[हि० ता० ८ शरबान = .ई० ता० २८ जुलाई] को श्री बाणनाथका लिंग, जो चन्द्रमहलके ऊपर गुम्बजमें था, वहांसे अखाड़ेके महलमें स्थापन किया गया. विक्रमी भाद्रपद शुक्ल ९ [हि० ता० ७ रमजान = .ई० ता० २६ ऑगस्ट] को कृष्णपौल दर्वाजह के बाहिर शम्भु पलटन और सज्जन पलटनके लिये लैन तय्यार करवानेका खात मुहूर्त किया गया. विक्रमी प्रथम आश्विन शुक्ल ६ [हि० ता० ४ शव्वाल = .ई० ता० २१ सेप्टेम्बर] को मेजर केडल साहिब जो छुट्टीपर विलायत गये थे, वापस आये. विक्रमी प्रथम आश्विन शुक्ल १२ [हि० ता० १० शव्वाल = .ई० ता० २७ सेप्टेम्बर] को महाराणा साहिब बग्घीकी डाकमें चित्तौड़गढ़इस प्रयोजनसे पधारे, कि किलेका जीर्णोद्धार और महलोंकी दुरुस्तीका प्रारम्भ किया जावे; और वहां पधारकर पद्मिनीके तालाबपर के महल और पुराने महलोंको तय्यार करवानेके लिये नक्शे बनवाकर हुकम देनेके बाद विक्रमी द्वितीय आश्विन कृष्ण १३ [हि० ता० २६ शव्वाल = .ई० ता० १३ ऑक्टोबर] को पीछे उदयपुर पधार गये. विक्रमी द्वितीय आश्विन शुक्ल १ [हि० ता० २९ शव्वाल = .ई० ता० १६ ऑक्टोबर] को मेवाड़के पोलिटिकल एजेण्ट केडल साहिब अंडमानके कमिश्नर नियत होकर उदयपुरसे रवानह हुए, और विक्रमी कार्तिक कृष्ण ११ [हि० ता० २४ जिल्काद = .ई० ता० १० नोवेम्बर] को उनकी जगह मेजर सी० के० एम० वाल्टर साहिब उदयपुरमें आये. मेजर केडलने महाराणा साहिबको रियासतकी इन्तिजामी हालत दुरुस्त करनेमें अच्छी तरह मदद दी, और वाल्टर साहिबके आनेसे भी वैसीही मदद मिलती रही.

इन दिनोंमें कृष्णगढ़के महाराजा पृथ्वीसिंहने अपनी राजकुमारी (उदयपुरकी महाराणी) को कृष्णगढ़ बुलाकर महाराणा साहिबको भी मिह्मान करनेके लिये बहुत कुछ आग्रह किया. जोकि महाराणा साहिबके चित्तमें कुल रियासतोंके साथ दोस्तानह वर्ताव बढ़ानेकी बहुत इच्छा थी, इसलिये उनका निमंत्रण कुबूल करके विक्रमी मार्गशीर्ष कृष्ण १२ [हि० ता० २५ जिल्हिज = .ई० ता० १० डिसेम्बर] को उदयपुरसे कूच किया और बेमाली, आसींद, बदनौर, संग्रामगढ़ वगैरह ठिकाने वालोंकी मिह्मानदारियां स्वीकार करते हुए विक्रमी मार्गशीर्ष शुक्ल १० [हि० १२९७ ता० ९ मुहर्रम = .ई० ता० २३ डिसेम्बर] को नसीराबाद पहुंचे. वहां खबर मिली, कि कृष्णगढ़के महाराजा पृथ्वीसिंह बहुत बीमार हैं, तब विक्रमी मार्गशीर्ष शुक्ल १२ [हि० ता० ११ मुहर्रम = .ई० ता० २५ डिसेम्बर] को उनकी सिहतपुर्सीके लिये जरीदह तौरपर रेलके जरीएसे कृष्णगढ़को रवानह हुए. उसी समय तार द्वारा खबर मिली, कि महाराजा कृष्णगढ़का देहान्त होगया. महाराणा साहिबने ठाकुर मनोहर-

सिंहसे और मुझसे कहा, कि अब कृष्णगढ़ चलकर क्या करना चाहिये, क्योंकि उदयपुरके महाराणा अपने पिताकी दग्ध क्रियामें भी नहीं जाते हैं. तब हम दोनोंने निवेदन किया, कि यह रीति उपद्रवके समयमें इस सबबसे प्रचलित होगई थी, कि राज्याधिकारीके दग्ध स्थानपर जानेसे पीछेको राजधानीमें बगावत पैदा होजानेका भय था, लेकिन इस समय किसी तरहका खतरह नहीं है, इसलिये पुरानी रीतिका नफ़ा नुक़सान सोचलेना चाहिये. सिवा इसके कुटुम्ब तथा सम्बन्धी जनोंके साथ जैसा व्यवहार सामान्य गृहस्थका है वैसाही राजा लोगोंका भी है. महाराणा साहिबने कहा, कि मृत महाराजा एक तो कृष्णगढ़के महाराजा और दूसरे हमारे श्वशुर हैं इसलिये ऐसे अवसरपर हम पुरानी रूढ़ीको तोड़ना उचित जानते हैं. तब हम लोगोंने भी उनकी उचित आज्ञामें सम्मति दी. जब महाराणा साहिब कृष्णगढ़ पहुंचे, तो वहांके मनुष्योंको यह उम्मेद न थी, कि वे दग्धक्रियामें शरीक होंगे, परन्तु महाराणा साहिब एकदम दग्ध क्षेत्रमें चले गये. अगर्चि महाराजा पृथ्वीसिंह विद्वान, निर्लोभी, परिजन पोषक और सबकी प्रतिपाल करने वाले थे, परन्तु सिवा उनके फ़र्जन्दों और एक दो सेवकोंके किसीके मुखपर रंज न देखकर महाराणा साहिबको वहांके रियासती लोगोंसे बड़ी नफ़त हुई, कि कैसे निष्ठुर (कठोर हृदय) सेवक हैं, कि ऐसे रंजके समयपर भी बड़ी लंबी चौड़ी बातें बनारहे हैं. दग्धक्रिया होचुकनेके बाद महाराणा साहिब वहांसे फूलमहलमें आये, और शामके वक्त मातमी द्वारमें पधारकर महाराजा शार्दूलसिंह और उनके भाइयोंको खूब तसल्ली दी. इसी तरह अन्तःपुरमें भी आश्वासना करवाई. महाराजा शार्दूलसिंहने ऐसे समयपर महाराणा साहिबके पधारने और आश्वासना देनेका बहुत बहुत धन्यवाद दिया. महाराणा साहिब रात्रिभर वहां रहकर दूसरे दिन रेल द्वारा मक़ाम नसीराबादको अपने लश्करमें पहुंचगये. फिर विक्रमी मार्गशीर्ष शुक्ल १४ [हि० ता० १३ मुहर्म्म = ई० ता० २७ डिसेम्बर] को मए लश्करके अजमेरमें पहुंचे; स्टेशनपर कर्नेल् ब्राडफ़ोर्ड, एजेण्ट गवर्नरजेनरल राजपूतानह मए दूसरे साहिब लोगोंके पेशवाईको आये, और महाराणा साहिबके साथ बग्घीमें सवार होकर डेरेपर पहुंचे. यहांसे विक्रमी पौष कृष्ण २ [हि० ता० १६ मुहर्म्म = ई० ता० ३० डिसेम्बर] को पौने ग्यारह बजे स्पेशल ट्रेनमें सवार होकर ४ बजे शामको जयपुर पहुंचे. महाराजा सवाई रामसिंह साहिब मए पोलिटिकल एजेण्ट बैनन साहिब व खेतड़ीके राजा अजीतसिंह, और ठाकुर फ़तहसिंह वगैरह सर्दारोंके पेशवाईको स्टेशनपर खड़े थे, और रेलगाड़ीसे बग्घीतक लाल बानातका फ़र्श बिछाया गया था. रेलसे उतरनेके बाद महाराणा साहिब और महाराजा साहिब दोनों आपसमें जुहार करके

मिले; फिर पोलिटिकल एजेण्टने सलाम किया और जयपुरके सर्दारोंने सलाम करके नज़े दिखलाई. इसके बाद महाराणा साहिबके सर्दारोंमेंसे देलवाड़ेका राजराणा फ़तहसिंह, बदनौरका ठाकुर केसरीसिंह, कुरावड़का रावत रत्नसिंह, सर्दारगढ़का ठाकुर मनोहरसिंह, और मैं (ढोकलियाका कविराजा श्यामलदास) महाराजा साहिबको नज़ दिखलाकर मिले, और उस समय मैंने यह दोहा कहा:—

दोहा.

आज वधाई अखिल जग अरिगन पाई ताप ॥
सेवक भये विदेह लखि सज्जन राम मिलाप ॥ १ ॥

जयपुरके पोलिटिकल एजेण्टने इस दोहेकी एक नक़ल मांगी, जो मैंने उनके कहनेके सुवाफ़िक़ लिखकर भेजदी. साहिबको विदा करनेके बाद दोनों अधीश एक बग्घीमें सवार होकर सर्दार व पासवानोंकी बग्घियों सहित सांगानेरी दरवाज़हसे राज्य महलोंमें पहुंचे और शवरता नामी सभास्थानमें दरवार हुआ. फिर महाराणा साहिबको सुखनिवास महलमें पहुंचाकर महाराजा साहिब अपने महलमें गये. विक्रमी १९३६ पौष कृष्ण ४ [हि० १२९७ ता० १८ मुहर्रम = .ई० १८८० ता० १ जैनुअरी] को दोनों अधीश एक बग्घीमें सवार होकर रामनिवास बाग़में पाठशालाके विद्यार्थियोंका जल्सह देखनेको गये, और वहांपर हेडमास्टरकी स्पीच सुनकर विद्यार्थियोंका कुतूहल देखनेके बाद वापस महलोंमें आये. रात्रिके समय दोनों अधीशोंने मए सभ्यजनोंके नाटकशालामें पधारकर जहांगीर बादशाहका नाटक देखा. यह नाटकशाला इन्हीं महाराजा साहिबने बड़े खर्चसे बनवाकर बम्बईसे पार्सी वगैरह शिक्षित मनुष्योंको बुलवाया, और स्त्रियोंकी जगह जयपुर की बेइयाओंको तालीम दिलाकर तय्यार करवाया. इस नाटकमें वस्त्र, भूषण वगैरह सामग्री समयानुसार, और बोलचाल, पठन पाठन आदि सब बातें अद्भुत और चरित्रकी सत्यता दिखलानेवाली थीं. परिषोंका उड़ना, पहाड़ों व मकानोंकी दिखावट, और फिरिश्तोंका ज़मीन व आकाशसे प्रगट होना, देखनेवालोंके नेत्रोंको अत्यन्त आनन्द देता था. मैंने ऐसा नाटक पहिले कभी नहीं देखा था. नाटक देखकर वापस आनेके बाद दोनों अधीशोंने अपने अपने स्थानमें शयन किया. दूसरे दिन दोनों अधीशोंने दस्तकारीका स्कूल और पानी लानेके नलोंका इंजिन वगैरह अवलोकन करके रात्रिको बद्रेसुनीर और बेनजीरका बेनजीर नाटक देखा और वहांसे आकर अपने अपने स्थानमें शयन किया. विक्रमी पौष कृष्ण ६ [हि० ता० २० मुहर्रम = .ई० ता० ३ जैनुअरी] को महाराणा साहिब खातीपुरेकी

तरफ़ चीतेसे हरिणोंका शिकार करनेको पधारे. महाराजा साहिबकी तरफ़से खेतड़ीके राजा अजीतसिंह और ठाकुर फ़तहसिंह वगैरह साथ हाजिर थे. एक हरिण चीतेसे और ३ सूअर गोलीसे शिकार होनेके बाद महाराणा साहिब वापस आये. विक्रमी पौष कृष्ण ७ [हि० ता० २१ मुहर्रम = .ई० ता० ४ जैनुअरी] को ठाकुर फ़तहसिंहकी तरफ़से मेवाड़के सर्दार व पासवानोंकी दावत हुई, और शामके चार बजे दोनों अधीश रामनिवास बाग़में जानवर वगैरह देखनेको गये; रातकेवक्त अल्लाहदीन और अजीब व ग़रीब चराग़का नाटक हुआ. विक्रमी पौष कृष्ण ८ [हि० ता० २२ मुहर्रम = .ई० ता० ५ जैनुअरी] को गैसका कारखानह और हवाई मजलिसका नाटक देखा. विक्रमी पौष कृष्ण ९ [हि० ता० २३ मुहर्रम = .ई० ता० ६ जैनुअरी] को दोनों अधीशोंका मिलना हुआ, और बादल महल, नये महल, अंटाघर, और महाराजा कॉलेजमें विद्यार्थियों को देखकर रात्रिके समय लैली मजनूका नाटक देखा, जहां तुक्काजीराव हुल्कर इन्दौरके ज्येष्ठ और कनिष्ठ पुत्र भी, जो राजपूतानहकी सैर करते हुए जयपुरमें आये थे, नाटक देखनेमें शरीक हुए. विक्रमी पौष कृष्ण १० [हि० ता० २४ मुहर्रम = .ई० ता० ७ जैनुअरी] को इन्दौरके ज्येष्ठ और कनिष्ठ कुमार महाराणा साहिब से मिलनेको सुखनिवास महलमें आये, और सायंकालको महाराणा साहिब व महाराजा साहिब उक्त राजकुमारोंसे मिलनेके लिये उनके स्थानपर गये. फिर महाराजा साहिब और महाराणा साहिबने क़दीम दस्तूरके मुवाफ़िक़ दरवार करके दोनों तरफ़से ज़ेवर व सरोपावकी किशियां और हाथी, घोड़े दे लेकर बड़े स्नेहके साथ ११ बजे रात्रिको महाराणा साहिबने कृष्णगढ़की तरफ़ प्रस्थान किया, और रात्रिके १२ बजे स्पेशल ट्रेनमें सवार होकर रवानह होगये; रेलवे स्टेशनतक महाराजा साहिब पहुंचानेको आये. इस क्रिस्मका मेल मिलाप इन बड़े राजाओंमें होना महाराणा सज्जनसिंह साहिबकी सज्जनतासे प्रारम्भ हुआ. विक्रमी पौष कृष्ण ११ [हि० ता० २५ मुहर्रम = .ई० ता० ८ जैनुअरी] को प्रातः कालके ५ बजे महाराणा साहिब कृष्णगढ़के स्टेशनपर पहुंचे, जहां महाराजा शार्दूलसिंह अग्रगामिताके लिये उपस्थित थे. यहांसे दोनों महाराजा एक बग्घीमें सवार होकर फूल महलमें पहुंचे. तीन रोज़तक कृष्णगढ़में स्नेहपूर्वक निवास किया, और महाराजा शार्दूलसिंह व उनके भाइयोंको रंगीन पोशाकें और उनकी सकारको दावत देकर शोक निवर्तन किया; फिर विक्रमी पौष कृष्ण १३ [हि० ता० २७ मुहर्रम = .ई० ता० १० जैनुअरी] को चार बजे वहांसे रवानह हुए. महाराजा शार्दूलसिंह स्टेशनतक पहुंचानेको आये. महाराणा साहिब स्पेशल ट्रेनमें सवार होकर ५ बजे शामको अजमेर पहुंचे. स्टेशनपर अग्रगामिताके

लिये कर्नेल् ब्राडफोर्ड साहिब और उनके सेक्रेटरी टाल्बट साहिब मौजूद थे, मेरवाड़ा बटालिअनने सलामी उतारी. उक्त साहिब अधीशको डेरेतक पहुंचागये. फिर महाराणा साहिबके मामा बरूतावरसिंहकी तरफसे उनके मकानपर दावत हुई. इसके बाद विक्रमी पौष कृष्ण १४ [हि० ता० २८ सुहर्षम = ई० ता० ११ जैनुअरी] को साहिब लोगोंसे मुलाकात करके दूसरे रोज विक्रमी पौष शुक्ल १ [हि० ता० २९ सुहर्षम = ई० ता० १२ जैनुअरी] को प्रातः कालके ३॥ बजे स्पेशल ट्रेनमें सवार होकर रायपुर पहुंचे, जहां करीब १००० आदमी लश्करके पेशतर भेजे हुए मौजूद थे. यहांपर नींबाजके ठाकुर चत्रसिंहका सलाम हुआ, और स्टेशनसे बग्घी सवार होकर ९ बजे रायपुर पहुंचे. वहांके ठाकुर हरिसिंहकी तरफसे पगपावंडे वगैरह अदब आदाबकी रस्में अदा होकर दावत हुई. इसी मकामपर जोधपुरके महाराजा जशवन्तसिंह साहिबकी तरफसे आगेवाका जागीरदार बरूतावरसिंह आया. विक्रमी पौष शुक्ल २ [हि० ता० ३० सुहर्षम = ई० ता० १३ जैनुअरी] को रायपुरके ठाकुर हरिसिंह व नींबाजके ठाकुर चत्रसिंहकी तरफसे घोड़ा व सरोपाव नज़र हुए, महाराणा साहिबने भी उनको खिलअत देकर वहांसे कूच किया. रास्तेमें चंडावलके ठाकुर शक्तिसिंहकी दावत स्वीकार करके सोजत और दूसरे रोज पाली, और वहांसे बूशीमें मकाम हुआ, जहां जोधपुरके महाराजा साहिब भी महाराणा साहिबसे मिलनेको मौजूद थे, लेकिन अपने छोटे भाईको अधिक बीमार सुनकर उसी वक्त मुलाकात करके जोधपुर चलेगये, और अपने भाई महाराज प्रतापसिंह व कविराजा मुरारिदानको आतिथ्यके लिये छोड़ गये. यहांसे खानह होकर महाराणा साहिब जीवंद होते हुए विक्रमी पौष शुक्ल ६ [हि० ता० ४ सफ़र = ई० ता० १७ जैनुअरी] को घाणेशाव पहुंचे. यह ठिकाना पेशतर मेवाड़के मातहत था, लेकिन महाराणा अरिसिंहके समय गोड़वाड़के साथ मारवाड़में चलागया. ठाकुर जोधसिंहकी तरफसे मए फौजके अच्छी तरहसे दावत हुई, उस ७ वर्षकी उम्र वाले ठाकुरकी बात चीत सुनकर महाराणा साहिब बहुत खुश हुए. विक्रमी पौष शुक्ल ७ [हि० ता० ५ सफ़र = ई० ता० १८ जैनुअरी] को कुम्भलगढ़ पधारे. इसवक्त महाराज प्रतापसिंह और कविराजा मुरारिदान भी साथ थे. विक्रमी पौष शुक्ल ९ [हि० ता० ७ सफ़र = ई० ता० २० जैनुअरी] को जनानी सवारी उदयपुरसे घाणेशाव आई. विक्रमी पौष शुक्ल १२ [हि० ता० ११ सफ़र = ई० ता० २४ जैनुअरी] को महाराज प्रतापसिंह और कविराजा मुरारिदानको जोधपुरकी तरफ विदा करके महाराणा साहिब गढ़बोर पहुंचे, वहांसे कैलवे, राजनगर और नाथद्वारा होते हुए विक्रमी माघ कृष्ण ५ [हि० ता० १९ सफ़र = ई० ता० १ फेब्रुअरी] को नाहरमगरे दाखिल

हुए, और वहां सैर व शिकार करनेके बाद विक्रमी फाल्गुन कृष्ण १२ [हि० ता० २६ रबीउल्अव्वल = .ई० ता० ८ मार्च] को उदयपुर पहुंचे.

इन दिनोंमें महाराजा जोधपुरके पुत्रोत्सव हुआ, जिसमें पेशतर जयपुरके महाराजा सवाई रामसिंह वहां आये, और उनके जानेके बाद महाराणा साहिबको भी बड़े हठ और प्रीतिके साथ निमंत्रण देकर बुलाया. महाराणा साहिबने, जो इन रियासतोंसे परस्पर आमदोरफ्त और प्रीति बढ़ाना चाहते थे, विक्रमी फाल्गुन शुद्ध ७ [हि० ता० ६ रबीउस्सानी = .ई० ता० १८ मार्च] को जरीदह तौरपर करीब २५० आदमी सहित उदयपुरसे जोधपुरकी तरफ प्रस्थान किया. महाराजा साहिबकी तरफसे कविराजा मुरारिदान और आगेवाका जागीरदार बरूतावरसिंह लेनेको आये. मारवाड़की सईद देसूरी की नालतक घाणेरवके ठाकुर जोधसिंह और खीमाणाके ठाकुर गुमानसिंहने अग्रगामिता की. बग्घी, हाथी, घोड़े और रथोंकी डाकमें विक्रमी फाल्गुन शुद्ध १० [हि० ता० ९ रबीउस्सानी = .ई० ता० २१ मार्च] को महाराणा साहिब जोधपुर पहुंचे. महाराजा साहिब जोधपुरने वहांसे पांच कोस गांव भोगडातक पेशवाई की. महाराणा साहिब राई के बागमें ठहरे, जहां कि महाराजा साहिब हमेशा रहते हैं. जबतक महाराणा साहिब वहां ठहरे प्रतिदिन राग रंग व शिकार और घुड़दौड़के जलसे होते रहे. कविराजा मुरारिदान, महता विजयसिंह, और महाराज किशोरसिंहने दोनों अधीशोंको अपने अपने स्थानपर अदब आदाबके साथ मिहमान करके बड़ी धूमधामसे दावतें दीं. महाराणा साहिबने जोधपुरके युवराजको भूषण वस्त्र भेजे, और परस्पर दोनों अधीशोंने दर्बार करके हाथी, घोड़े व जेवरकी किश्तियां देनेका दस्तूर अदा किया. महाराणा दूसरे जगतसिंहके युवराज प्रतापसिंह विक्रमी १७९७ [हि० ११५३ = .ई० १७४०] में शादी करनेको जोधपुर गये थे, जिसके बाद महाराणा सज्जनसिंहने इस रवाजको नवीन किया. फिर विक्रमी चैत्र कृष्ण ११ [हि० ता० २४ रबीउस्सानी = .ई० ता० ५ एप्रिल] को जोधपुरसे रवाना होकर झालामंडके ठाकुर राणावत जोरावरसिंहके यहां दोनों अधीश मिहमान हुए. विक्रमी चैत्र कृष्ण १२ [हि० ता० २५ रबीउस्सानी = .ई० ता० ६ एप्रिल] को वहांसे प्रस्थान करके महाराजा साहिब जोधपुर और उनके भाइयोंको विदा करनेके बाद महाराणा साहिब पाली और वहांसे देसूरी व राजनगर होते हुए विक्रमी चैत्र कृष्ण १४ [हि० ता० २७ रबीउस्सानी = .ई० ता० ८ एप्रिल] को उदयपुरमें दाखिल होगये. मैं (कविराजा श्यामलदास) इस यात्रामें संग नहीं था, क्योंकि मेरे बड़े भाई औनाड़सिंह अधिक बीमार थे. महाराणा साहिब जब उनकी सिहतपुसीके लिये मकानपर पधारे, तब मुझे उन्हींके पास छोड़ गये थे. अफसोस कि औनाड़सिंहका देहान्त विक्रमी चैत्र

कृष्ण ८ [हि० ता० २१ रबीउस्सानी = ई० ता० २ एप्रिल] को होगया. महाराणा साहिबने उनकी उत्तर क्रियामें ३०००, तीन हजार रुपये देकर बहुत कुछ आश्वासना की.

विक्रमी १९३७ आषाढ कृष्ण ११ [हि० १२९७ ता० २४ रजब = ई० १८८० ता० ३ जुलाई] को कुल मेवाड़के किसान लोग, जो करीब तीन चार हजारके थे, उदयपुरमें आये, और मेवाड़में जिराअत बोनकी हटनाल करदी; क्योंकि पुराने जमानहसे इस देशमें जिराअतका हासिल लटाई बटाईसे लियाजाता था. इन दिनोंमें सेटलमेण्टकी पैमाइश शुरू होनेके सबब उन लोगोंने, जिनको पुरानी रीतिसे फायदह पहुंचता था, किसानोंको वर्गलाया, और इसी मौकेपर जंगलातका महकमह भी काइम हुआ, जिससे एकदम नई नई बातें देखकर लोग घबरा गये. महाराणा साहिबने इन लोगोंको शम्भुनिवासमें बुलाकर बहुत कुछ तसल्ली दी और समझाया, लेकिन उनमें कोई समझदार व मुख्तार शख्स नथा कि सुनता समझता, बिना समझे बूझे जो जिसके जीमें आया उसीतरह वायवैला करने लगे. दूसरे रोज महाराणा साहिबने इस इतिहासके कर्ता (कविराजा श्यामलदास) और महता राय पन्नालालको इन लोगोंके समझानेका हुकम दिया. हम दोनोंने बहूतेरा समझाया, लेकिन उनका खयाल न बदला, तब महाराणा साहिबने महता राय पन्नालालको कुछ पैदल और सवारोंकी जमइयतके साथ मेवाड़में यह हुकम देकर भेजा, कि जो लोग बदमआश हों उनको कैद करके बाकी किसानोंको तसल्ली देकर हल जुतवाओ. महता पन्नालाल और सेटलमेण्ट ऑफिसर विंगेट साहिबने बड़ी अक्लमन्दी और समझाइशके साथ इस बलवेको दबादिया.


महाराणा साहिब दिलसे चाहते थे, कि राजा और प्रजाकी एकता और दोनोंके फायदे दिन बदिन बढ़ते रहें, और इसी अभिप्रायको जाहिर करनेके लिये विक्रमी आषाढ शुक्ल ९ [हि० ता० ७ शअ्वान = ई० ता० १६ जुलाई] को महाराणा साहिबकी सालगिरहके द्वारमें पोलिटिकल एजेण्ट मेवाड़ कर्नेल् वाल्टर साहिबने एक स्पीच दी, जिसके पढ़नेसे पाठक लोगोंको मालूम होगा, कि महाराणा साहिब का खयाल अपने देशकी उन्नतिकी तरफ कैसा था.

वाल्टर साहिबकी स्पीचका खुलासह.

आप लोग सब जानते हो, कि श्री मन्महाराणा साहिब रात दिन प्रजा और देशकी भलाई और विद्या तथा गुणोंके प्रचारमें उद्यत रहते हैं. इस देशमें आप लोगोंको उचित है, कि जहांतक होसके उनकी मदद करो. अबतक श्रीयुत महाराणा साहिबने जो कार्य किये हैं, और जिनका अब प्रारम्भ होरहा है वे सब प्रजा और देशकी भलाईके निमित्त हैं, और विचारसे किये हैं; उन सब कार्योंके परिणाम आप

लोगोंने अच्छे देखे हैं, और देखोगे, जिनसे आगे पीछे सदा भलाई और उपकार रहेगा.

ऐसे राजा, जो दिलसे देशकी तरक्की करना चाहते थे, उनके कामोंमें हर्ज डालनेवाले भी खुदमत्लबी लोग तय्यार थे, लेकिन महाराणा साहिबने किसीकी पर्वा नकी, मुल्की व माली कामोंके इन्तिजामको जहांतक होसका दुरुस्त किया, जमाको बढ़ाया और खर्चको घटाया.



विक्रमी आषाढ शुक्ल १३ [हि० ता० ११ शअबान = .ई० ता० २० जुलाई] को जोधपुरसे कविराजा मुरारिदान और कंटालियाका ठाकुर गोवर्द्धनसिंह महाराणा साहिबकी गद्दीनशीनीका दस्तूर लेकर आये, उनकी पेशवाईके लिये मैं (कविराजा श्यामलदास) और हमीरगढ़का रावत् नाहरसिंह चंपावागतक भेजे गये. यह रीति १२६ वर्षतक दोनों रियासतोंकी नाइतिफाकीसे बन्द रही, जो अब दोनों महाराजाधिराजोंकी अक्लमन्दी और मुहब्बतसे फिर जारी हुई. विक्रमी श्रावण कृष्ण ३ [हि० ता० १५ शअबान = .ई० ता० २४ जुलाई] को टीका नज़्र हुआ, और विक्रमी श्रावण कृष्ण ९ [हि० ता० २१ शअबान = .ई० ता० ३० जुलाई] को दोनों सर्दार जोधपुरकी तरफ विदा कियेगये.

विक्रमी श्रावण शुक्ल १५ [हि० ता० १३ रमजान = .ई० ता० २० ऑगस्ट] को महाराणा साहिबने मेवाड़की रॉयल कौन्सिलका नाम महद्राज सभा रखकर, जो पहिले इज्लासखासके नामसे प्रसिद्ध थी, इस कौन्सिलको महकमहखाससे अलहद्दह करदिया, और मुख्तसर काइदे बनाकर मेम्बरोंकी संख्या भी बढ़ादी. पहिले इस सभाकी कार्रवाईकी तामील, जो महकमहखासकी मारिफत होती थी, अब अलहद्दह कौन्सिलके इस्तिथारमें कीगई. इस सभाका सेक्रेटरी मेम्बर पंज्या मोहनलाल विष्णुलालको बनाया और नीचे लिखेहुए मेम्बर मुकर्रर कियेगये:—

बेदलाका राव तरुतसिंह.

आसींदका रावत् अर्जुनसिंह.

शिवरतीका बाबा गजसिंह.

ताणाका राज देवीसिंह.

शिवपुरका महाराज रायसिंह.

कविराजा श्यामलदास.

सहीहवाला अर्जुनसिंह.

पुरोहित पद्मनाथ.

परिडत ब्रजनाथ.

देलवाड़ाका राजराणा फ़तहसिंह.

पारसोलीका राव रत्नसिंह.

सर्दारगढ़का ठाकुर मनोहरसिंह.

मामा बरुतावरसिंह.

काकरवाका राणावत उदयसिंह.

राय पन्नालाल.

महता तरुतसिंह.

जानी मुकुन्दलाल.

पंज्या मोहनलाल.

फिर शामके ५॥ बजे महाराणा साहिबने महद्राजसभा काइम करनेका दरबार कुंवर-पदाके महलमें किया, जिसमें ऊपर लिखेहुए १८ मेम्बरोंके अलावह कर्नेल् सी० के० एम० वाल्टर साहिब बहादुर, पोलिटिकल एजेण्ट मेवाड़, कर्नेल् ब्लेअर साहिब बहादुर, मिस्टर ए० विंगेट साहिब बहादुर, सी० एस०, सी० आइ० ई०, खैरवाड़ाके डॉक्टर मलन साहिब बहादुर, और पादरी डॉक्टर जेम्स शेपर्ड साहिब बहादुर, आये. इसके बाद महाराणा साहिबने खड़े होकर मुख्तसर तक्रार फर्माई, जो नीचे दर्ज कीजाती है :--

“ऐ मेम्बरान जल्से राज्य श्री महद्राज सभा ! यह तो जाहिर ही है, कि हमारे तरुत नशीन होनेके पहिले ही इस मुल्क मेवाड़के उम्दह इन्तिजामके लिये एक बड़ी अदालतकी निहायत जरूरत थी, लिहाजा विक्रमी १९३३ के सालमें राज्ये श्री इज्लास खास नामी अदालत हमारे हुक्मके बमूजिब मुकर्रर हुई. जिसवक्त यह अदालत काइम कीगई, तो उसवक्तपर ठीक हमारी यह दिली स्वाहिश व मनशा था, कि इसीकी कार्रवाईसे हमारे सब उमराव, सर्दार अहलकार और पासवान वगैरह इन्साफके प्रबन्धसे बखूबी वाकफियत हासिल करें; क्योंकि जब कार अदालत उम्दह तौरसे तर्तीब दियाजावे, तो किसीको किसी तरहकी तकलीफ न हो, बल्कि इन्तिजाम व इन्साफकी उम्दगी जानलें. इन तीन साल गुजस्तहमें राज्ये श्री इज्लास खासकी कार्रवाईके जरीएसे हमारे मुल्क मेवाड़की बहुतसी बातोंमें बड़ी तरक्की हुई; हमारे मुल्कके बाशिन्दोंमें कौन कौन कैसे कैसे उमराव, सर्दार, अहलकार और पासवान वगैरह हैं यह भी मालूम होगया. किस किस ने इस अदालतकी कार्रवाईमें दिलोजानसे मदद की, और किस किसने न की, और किन किन बातोंमें कोताही रही. ये सब बातें हमको बखूबी रौशन होगई, लेकिन अरुल मत्व तो यह है, कि इसी राज्ये श्री इज्लासखाससे बहुतकर मुल्कका फायदह ही हुआ.”

“अब आज हम राज्ये श्री इज्लासखासका नाम तब्दील करके वा काइदह यह राज्ये श्री महद्राज सभा मुकर्रर और काइम करते हैं, और उसकी कार्रवाई हस्बुल-हुक्म हमारे अंजाम देनेके लिये हमारे तमाम उमराव, सर्दार व अहलकार और पासवानोंमेंसे अच्छे अच्छे लाइक अठारह मेम्बरोंको चुनकर मुकर्रर करते हैं और राज मेवाड़का सब कारोबार दो बड़ी अदालतों, याने राज्ये श्री महद्राज सभा और राज्ये श्री महकमहखासमें तकसीम कर एक कानून बनाम “ क़वाइद इन्तिजाम मुल्क मेवाड़ नम्बर १ वावत् संवत् १९३७ ” बनाकर जारी करते हैं, जिससे उम्मेद है, कि सब

मेम्बरान इस राज्ये श्री महद्राज सभाके कारोबारको दिलोजानसे ऐसी उम्दगी और इन्साफके साथ करेंगे, कि हमको तो निहायत खुशी हासिल हो और रअग्र्यतको आरामसे एकसा इन्साफ मिले, और मेम्बरानकी लियाकत और कार्रवाई हमारे दिलपर रोज ब रोज नक़्श होकर उन लोगोंपर हमारी मुहब्बत और मिहर्बानीका इजहार हो. यह बात भी बखूबी याद रखनेके लाइक है, कि हमारी नज़र हर एक मेम्बरकी कार्रवाई पर जुरूर रहेगी; अगर हम जाहिरमें कुछ फ़र्मावें या नहीं. श्री एकलिंगजीसे यही अर्ज है, कि इस राज्ये श्री महद्राज सभाको काइम रखकर सब मेम्बरोंसे इन्साफ और उम्दह कामोंकी नामवरी करावें, और जि़यादह क्या.”

बाद इसके साहिब पोलिटिकल एजेण्ट बहादुर मुल्क मेवाड़ने भी खड़े होकर एक उम्दह तक्रार फ़र्माई, जो नीचे दर्ज कीजाती है:-

ऐ राज्येश्री महद्राजसभाके मेम्बरो !

“आज हम श्री महाराणा साहिबको इस राज्य श्री महद्राज सभामें वार्तालाप करते देखकर निहायत खुश हुए. बेशक श्री महाराणा साहिबकी नज़र इन्साफ और इस मुल्क के इन्तिज़ामपर है. सब मेम्बरानको लाज़िम है, कि श्री महाराणा साहिबकी ख़्वाहिश और हुक्मके मुवाफ़िक इस बड़ी अदालतकी कार्रवाई इन्साफके साथ अंजाम देकर उनको खुश और रिआयाको आराम दें, जिससे उनकी तारीफ़ इस मुल्क और ग़ैर मुल्कोंमें हो और आप सबकी भी नामवरी हो ”.

यह फ़र्माकर साहिब मौसूफ़ बैठगये, और राज्य श्री महद्राज सभाकी तरफसे श्री हुज़ूरको मुखातिब करके एक शुक्रियह कविराजा श्यामलदासने मेम्बरोंकी तरफसे पढ़ा, जो नीचे दर्ज कियाजाता है:-

“ श्री हुज़ूर, इससे बढ़कर और कौन वक्त शुक्रियह अदा करनेका होगा, कि जब हम देखते हैं, कि हमारे श्री हुज़ूर अपने राज मेवाड़के हम सब उमराव, सदाँर, अहलकार पासवान और रअग्र्यतके आराम और फ़ायदेके वास्ते कितनी तरहके बन्दोबस्त सुत-अल्लके इन्साफ़ कैसी दिलेरीके साथ करते हैं, कि जो कुछ अभी श्री हुज़ूरने हम लोगोंकी हिदायतके लिये फ़र्माया वह हमने अच्छी तरहसे सुना, जवाब में फ़र्मावर्दारीके साथ अर्ज करनेमें आता है, कि किसी कामको अच्छी तरहसे अंजाम देनेका क़स्द करना दुनयामें बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन इतना तो बेशक है, कि हम लोग श्री हुज़ूरके

हुकमके ब मूजिब, जो काम हमारे जिम्मेह किया गया है, वह हस्बुल हुकम अंजाम देंगे; और श्री एकलिङ्गजी हम लोगोंकी मदद करके श्री हुजूरके फ़र्मानिके बमूजिब नामवरी हासिल कराकर इस भारी कामको नेकनामीके साथ अंजाम दिलावें. इसके अलावा यह हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, कि जो काम श्री हुजूर हम लोगोंके सुपुर्द करते हैं वह काम हमेशहसे खास श्री हुजूरके ही करनेका है, लेकिन यह श्री हुजूरकी बेदार-मग़ज़ी और इन्साफ़ फैलानेका नतीजह है, कि हम लोगोंको अपने पूरे भरोसे वाले खयाल फ़र्माकर इतना मुश्किल और बड़ा काम हमारे सुपुर्द किया. बेशक जब मालिक बुद्धिमान और समझदार होते हैं, तब ऐसे बड़े बड़े इन्साफ़के काम जुहूरमें आकर मुल्क और ग़ैर मुल्कमें अपने खास मुल्ककी नेकनामी और शुहरत फैलती है. श्री एकलिङ्गजी ऐसे मालिककी उम्द दराज़ करके हम लोगोंकी पर्वरिश मुहब्बत और मिहर्बानीके साथ करावें.

इसके बाद सब मेम्बरोंने श्री हुजूरको नज़ानह किया, और सेक्रेटरीने नीचे लिखीहुई इबारत पढ़कर सुनाई:-

शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा.

—*—

तुम प्रथम इष्टधर्मका ध्यान करके चित्तको आपसकी रू रिआयतसे हटाओ, किसी पर अपने लोभ व दूसरोंको अपने तरफ़दार बनाने व दबागत, अदावत, तरफ़दारी, व अपनी बेजा बातपर जिद, सुस्ती, अदमतवज्जुही वगैरह सबबोंसे जुल्म और बे इन्साफी मत करो, जो सलाह या तज्वीज़ गुप्त रखनी हो, प्रगट मत करो; ग़बन और रिश्वत जो कि बहुत बुरे और अखीरमें नुक़सान देनेवाले काम हैं, छोड़कर अपनेको अदुल व इन्साफ़पर काइम कर यह श्री मदेकलिङ्गेश्वर और श्री मन्महिमहेन्द्र यावदार्यकुल-कमलदिवाकरके चित्र हैं सो ऊपर लिखे हुए मन्शासे स्पर्श करके स्वामिभक्तता पूर्वक, जो काम सुपुर्द किया गया है अंजाम देते रहो.

—*—

फिर राज्य श्री महद्राजसभाके सब अहलकारोंका नज़ानह होकर श्री हुजूरने साहिब लोगों और मेम्बरोंको फूलोंके हार अपने हाथसे पहिनाये और जलसह बर्खास्त हुआ.

विक्रमी भाद्रपद शुक्ल १४ [हि० ता० ११ शव्वाल = .ई० ता० १७ सेप्टेम्बर] को जयपुरके महाराजा सवाई रामसिंहका इन्तिकाल होगया, जिसकी खबर तार द्वारा आने पर महाराणा साहिबको बहुत अफ़सोस हुआ, और विक्रमी आश्विन कृष्ण ४ [हि० ता० १६ शव्वाल = .ई० ता० २२ सेप्टेम्बर] को दस्तूरके मुवाफ़िक़ मातमी दर्बार किया गया. हकीक़तमें महाराजा रामसिंहके दुन्यासे उठजानेके कारण राजपूतानहकी ताक़तमें ख़लल आगया, यदि उनका शरीर कुछ समय फिर काइम रहता, तो महाराणा साहिब और उनकी दोस्तीका फल मिलना, याने राजपूतानहकी तरक्की होना संभव था.

महाराणा साहिब विक्रमी कार्तिक कृष्ण ४ [हि० ता० १७ जिल्काद = .ई० ता० २२ ऑक्टोबर] को उदयपुरसे मातमपुरीके लिये बग्घियोंकी डाक द्वारा जयपुरको खानह हुए. ठाकुर मनोहरसिंह सर्दारगढ़का, रायसिंह शिवगढ़का, मामा बख्तावरसिंह, मैं (कविराजा श्यामलदास), महताराय पन्नालाल, राणावत उदयसिंह, महाराज प्रतापसिंह, राठौड़ पृथ्वीसिंह, पुरोहित पद्मनाथ, जानी मुकुन्दलाल, बड़वा लखमीचन्द, धायभाई हुकमा और पाणेरी उदयराम, बाज बग्घियों और बाज घोड़ोंपर सवार साथ थे. उदयपुरसे खानह होकर सर्दारगढ़ और आसीदमें मकाम करके विक्रमी कार्तिक कृष्ण ६ [हि० ता० १९ जिल्काद = .ई० ता० २४ ऑक्टोबर] को ५ बजे नयानगरसे रेलपर सवार हुए और ८ बजे अजमेर पहुंचे. कमिश्नर साएडर्सन साहिब स्टेशनपर पेशवाईको आये, फिर ११ बजे रेल सवार हुए. कृष्णगढ़के स्टेशनपर महाराजा शार्दूलसिंह मए अपने भाइयोंके खड़े थे, महाराणा साहिबने उनसे मुलाकात करके लौटते वक्त ठहरनेका इकार किया. विक्रमी कार्तिक कृष्ण ७ [हि० ता० २० जिल्काद = .ई० ता० २५ ऑक्टोबर] को सुबहके ७ बजे जयपुर पहुंचे. मातमीके सबब पेशवाई और तोपोंकी सलामीके लिये महाराणा साहिबने इन्कार करादिया था. शवरताके महलमें जयपुरके विद्यमान महाराजाधिराज सर्वाई माधवसिंह मातमी दरबार किये हुए विराजे थे. महाराणा साहिबने वहां पहुंचकर वैकुण्ठवासी महाराजा साहिबके देहान्तका बहुत अफसोस किया और उनके सर्दार उमरावोंको तसल्ली देकर रामबागमें पधारगये, जहां कि डेरा था. साढ़ा तीन बजे एजेण्ट गवर्नर जेनरल राजपूतानह कर्नेल् ब्राडफोर्ड साहिब महाराणा साहिबकी मुलाकातको आये. शामके वक्त महाराजा सर्वाई माधवसिंह खुद जाकर महाराणा साहिबको अपने महलोंमें ले-आये. दस्तूरी दरबार और २५ तोपोंकी सलामी सर हुई. उस दिन तो शोकके कारण महाराणा साहिब वापस अपने डेरोंमें लौट आये, और विक्रमी कार्तिक कृष्ण ८ [हि० ता० २१ जिल्काद = .ई० ता० २६ ऑक्टोबर] को जयपुरके महलोंमें पधारगये. विक्रमी कार्तिक कृष्ण ९ [हि० ता० २२ जिल्काद = .ई० ता० २७ ऑक्टोबर] को माजीके बागमें ब्राडफोर्ड साहिबसे मुलाकात की और शामके वक्त जयपुरके महलोंमें कर्नेल् ब्राडफोर्ड और जयपुरके महाराजा माधवसिंह सहित महाराणा साहिबने सलाह मश्वरेकी बातचीत की. विक्रमी कार्तिक कृष्ण १० [हि० ता० २३ जिल्काद = .ई० ता० २८ ऑक्टोबर] को कर्नेल् ब्राडफोर्ड साहिब अजमेर को खानह होगये. विक्रमी कार्तिक कृष्ण ११ [हि० ता० २४ जिल्काद = .ई० ता० २९ ऑक्टोबर] को महाराणा साहिबने जयपुरसे कूच किया. महाराजा

सवाई माधवसिंह बड़े स्नेहके साथ स्टेशनतक पहुंचानेको आये. फिर कृष्णगढ़के स्टेशनपरसे महाराजा शार्दूलसिंह अग्रगामिता करके उन्हें अपने महलोंमें लेगये. विक्रमी कार्तिक कृष्ण १२ [हि० ता० २५ जिल्काद = ई० ता० ३० अक्टोबर] को अजमेर, वहांसे बदनौर और सर्दारगढ़ मक़ाम करके विक्रमी कार्तिक कृष्ण ११ [हि० ता० २८ जिल्काद = ई० ता० २ नोवेंबर] को उदयपुरमें दाखिल होगये. राजधानियोंमें इस तरहका बर्ताव और आमदोरफ़त महाराणा साहिबकी अक्लमन्दीसे शुरू हुआ. विक्रमी मार्गशीर्ष शुक्ल ३ [हि० १२९८ ता० १ मुहर्म्म = ई० ता० ४ डिसेम्बर] को एजेण्ट गवर्नरजेनरल राजपूतानह कर्नेल् ब्राडफ़ोर्ड साहिब मामूली दौरा करते हुए उदयपुर आये. विक्रमी माघ कृष्ण ११ [हि० ता० २५ सफ़र = ई० १८८१ ता० २६ जैनुअरी] को महता मुरलीधरके पौत्र और राय पन्नालालके पुत्र फ़तहलालके विवाहके निमित्त महाराणा साहिबको मए ज़नानी सवारियोंके पन्नालालने बड़ी धूमधामके साथ अपने मक़ानपर मिह्मान किया. महाराणा साहिबने फ़तहलालको पैरमें सुवर्ण भूषण और पन्नालाल व मुरलीधरको खिल्अत इनायत किये. कर्नेल् ब्राडफ़ोर्ड साहिब आवूसे विलायतको छुटीपर गये, इसलिये विक्रमी फाल्गुन शुक्ल ८ [हि० ता० ७ रबीउस्सानी = ई० ता० ८ मार्च] को सी० के० एम वाल्टर साहिब उदयपुरसे काइम मक़ाम एजेण्ट गवर्नरजेनरल होकर आवूको गये.

इसी वर्षमें भीलोंका बड़ा भारी बलवा हुआ, जिसका हाल इस तरहपर है, कि जब मुल्क मेवाड़की खानहशुमारी होनेका हुक्म हुआ और चन्द अह्लकार पहाड़ी ज़िलेमें भीलोंकी खानहशुमारीके लिये नियत हुए, तो भील लोग, जो जानवरोंके मुवाफ़िक जंगली मनुष्य हैं, घरों व आदमियोंकी गिनती होनेके कारण कई तरहके खयाल करने लगे. उनके पूछनेपर अह्लकारोंने तो समझाइश करदी, लेकिन दूसरे लोगोंने उनका गंवारपन देखकर हंसीके तौरपर कहदिया, कि बूढ़ी औरतें बूढ़ोंको, और जवान जवानोंको, मोटी लम्बी मोटे लम्बोंको और छोटी पतली छोटे पतलोंको दिलाई जायेंगी. ऐसी वाहियात बातोंपर उन जंगली मनुष्योंको विश्वास होगया, और दो चार हजार भीलोंने गांव जावदकी माताके मन्दिरपर एकट्टे होकर हलफ़ (१) के साथ इक्रार करलिया, कि सब एकट्टे होकर सर्कारी आदमियोंसे सामना करें. उसीके मुताबिक़ इन लोगोंमें तक्रार फैल रही थी,

(१) भीलोंमें हलफ़का यह काइदह है, कि एक बर्तनमें पानीके साथ केसर घोलकर एक एक आदमी थोड़ासा पानी पीलेता है, और ज़मीनपर कुंडल बनाकर उसमें तलवार और तलवारपर अफ़ीम रखकर थोड़ी थोड़ी खालेते हैं.

कि बारहपालके थानेदार सुन्दरलालने जानी मुकुन्दलालको इस मत्लबकी रिपोर्ट लिखी, कि जमादार फ़तहमुहम्मद जागीरदार मौजे अजबदा, भीलान बारहपाल फले गूहरकी निस्वत ज़मीन दबानेका दावेदार है और उसने अपने सुबूतमें गमेती बड़ा रूपा व कुबेरा साकिन पडूनाको गवाह करार दिया है, इसलिये उक्त गवाहोंको गवाही देनेके वास्ते सवार अक़बरहुसैनको भेजकर बुलाया. तीसरे पहर सवार शाहमुहम्मद टीडीकी चौकी वालेने आकर मुझसे रिपोर्ट की, कि अक़बरहुसैन और भीलान पडूनासे कुछ तक्रार होगई है. इस ख़बरके मिलतेही मैं सवारान चौकी बारहपाल व टीडीको साथ लेकर मौकेपर खानह हुआ, तब भीलोंने एकट्टे होकर हमपर तीर चलाये, जो ऊपर होकर निकल गये. मैं भीलोंकी नटखटी देखकर आगेको न बढ़ा, लौटकर टीडीमें चला आया; वहांपर मुसाफ़िरोकी ज़बानी मालूम हुआ, कि एक थानेके और दूसरे चौकीके सवारको तो भीलोंने क़त्ल करडाला; सुनाजाता है, कि ये लोग थानह बारहपालपर फ़साद करनेको एकट्टे होते जाते हैं, इसलिये जम्हूयत भेजनी चाहिये.

यह रिपोर्ट विक्रमी चैत्र कृष्ण ११ [हि० ता० २५ रबीउस्सानी = ई० ता० २६ मार्च] को दिनके १२ बजे जानी मुकुन्दलालके पास पहुंची, और उसी दिन शामके वक्त ख़बर मिली, कि बारहपाल, टीडी और पडूणाके भीलोंने एकट्टे होकर बारहपालका थानह व चौकी जलादी, थानहदार और उसके हख़्खाही सवार व पैदल सब मारेगये, भील तीन चार हजार एकट्टे हो रहे हैं. यह ख़बर सुनकर महाराणा साहिबने फ़ौजके कमांडिंग अफ़सर मामा अमानसिंह और लोनार्गिन साहिब तथा मुझ (कविराजा श्यामलदास) को हुक्म दिया, कि पांच कम्पनी शम्भु और सज्जन पलटनकी, एक रिसाला व पचास सवार बॉडीगार्डके और दो तोपें लेकर फ़ौरन खानह होजाओ. हम लोग रातके दो बजे उदयपुरसे खानह हुए. रास्तहमें काया और बारहपालके बीच एक बुढ़िया औरत बुरे हाल पागलके मुवाफ़िक़ सामने मिली; उसने कहा, कि मैं गोवर्द्धन कलालकी औरत हूं, मेरे बेटे, बहू और बालबच्चे, थानहदार, सवार, सिपाही कुल मारेगये. हम लोगोंने उसको तसल्ली देकर उदयपुरकी तरफ़ भेजा. आगे बढ़े तो डाक बंगलेके करीब सड़कपर एक सिपाहीकी लाश मिली, जिसको उठवाकर चौकीके करीब पहुंचवाया. बारहपालमें जाकर देखा, तो कलालका घर, थानेका मकान और दूकानें जल रही थीं. थानेके करीब मुर्दह घोड़ोंकी कई लाशें मिलीं. उसीके करीब खेतमें एक कलालिन औरतकी लाश और डाकबंगलेके नज़्दीक थानेदार सुन्दरलालको मरा पड़ा पाया. हमने आमके दरख़्तके नीचे बैठकर मर्द व औरतोंकी लाशें एकट्टी करवाई, जो कुल १७ थीं. इसी अरसहमें एक झोंपड़ीमेंसे गोवर्द्धन कलालके बेटेकी

बहु तीन चार वर्षके लड़केको गोदमें लिये हुए हमारे पास आई; उसके होश हवास ठिकाने नहीं थे. उस औरतके रीढ़की हड्डीपर कमरके करीब तलवारका ज़रूम था, और उसके बच्चेके पैरकी दोनों एड़ियां तलवारसे कटी हुई थीं. यह हालत देखकर हमको बहुत रहम आया. औरतकी ज़बानसे हे महाराज, हे महाराज, हे महाराज, यही आवाज़ निकलती थी. यह कलाल दस बीस हजार रुपयेकी जमा पूंजी रखता था, इसने चन्द महीने हुए दारूका ठेका लेकर दूसरे कलालोंकी दूकानें बन्द करवा दी थीं, इस सबबसे भील लोग उसपर जल रहे थे, और इसी कारण उसके घरको बर्बाद किया. यह औरत और बच्चा एक झोंपड़ीमें जाछुपनेके सबब बचगये. हमने औरतको पानी पिलाकर कुछ पूरी और तर्कारी दी, और उसकी बहुत कुछ तसल्ली की; परन्तु उसने रंजकी हालतमें कुछ न खाया, सिर्फ़ अपने बच्चेको खिलाया. उस औरतके कहनेसे उसके जलते हुए घरमेंसे पीतलका एक बर्तन निकाला गया, जिसमें पैसे और रुपये मिलाकर ५०) रुपयोंका माल था, और वह औरत व बच्चा पीतलके बर्तन सहित एक गाड़ीमें बिठाये जाकर उदयपुर पहुंचा-दियेगये. हिन्दुओंकी लाशें एकट्ठी कराईजाकर जलवादी गई, और मुसलमानोंकी दफ़नाई-गई. हम लोगोंने डाक बंगलेमें डेरा किया, जहां हमको एक बूढ़ा चौकीदार मिला. उसने कहा, कि पडूना और बारहपालकी तरफ़से आकर दो तीन हजार भीलोंने थाने पर हमलह किया, उस हालतमें थोड़ी देरतक तो सिपाही और थानहदार मुक्काबलह करते रहे, लेकिन जब भीलोंने थानेमें आग लगा दी, तब सर्कारी मुलाज़िम भागकर पूर्वकी तरफ़ एक टेकरीपर जाचढ़े, और कुछ देर मुक्काबलह करनेके बाद उदयपुरकी तरफ़ भाग निकले, परन्तु भीलोंने पीछेसे हमलह करदिया, जिससे वे सब मारेगये; फिर सब भील कलालके घरसे शराब पीकर पागल होगये. अगर कल सर्कारी फ़ौज आती, तो सैकड़ों भील गिरफ़्तार होसके. मुझको भीलोंने इस वास्ते नहीं मारा, कि यह टॉमस विलियम साहिबका आदमी है, जिन्होंने सड़ककी मज़दूरीमें हजारों रुपये देकर हमारी पर्वरिश की थी.

हमारी फ़ौजके आदमी चारों तरफ़ फैलगये, और बारहपालके सैकड़ों घर जलाकर खाक करदिये गये. जोगियोंके फलेके करीब भैरा गमेतीके घरपर दो सिंधी सवार ज़रूमि मिले, जिनको उस गमेतीकी औरतने बचाया था. हमारे साथ सिंधी जमादार फ़तहमुहम्मद और जमादार जानमुहम्मद, जमादार बहादुर और जमादार खानमुहम्मद थे. वे दोनों ज़रूमि सवार जानमुहम्मदके रिसालेके थे, जिनको हमने उदयपुर पहुंचाया. भील लोग चारों तरफ़ पहाड़ोंपर फाइरे, फाइरे करते तथा किलकारियां मारते थे और जब फ़ौजके सिपाही नज़दीक पहुंचते, तो भाग जाते. रातभर इसी तरह हल चल

मची रही और गोलियां चलती रहीं. विक्रमी चैत्र कृष्ण १४ [हि० ता० २७ रबीउस्सानी = .ई० ता० २८ मार्च] को दिनभर भीलोंके घर जलाये गये, और उनपर फौजका हमलह होता रहा, लेकिन सघन भाड़ी और पहाड़ोंमें भीलोंके इधर उधर भागजानेसे कुछ मुक़ाबलह न हुआ. शामके चार बजे हमारे ऊंट चरते हुए भाड़ीमें दूर निकलगये थे, भीलोंने तीरोंकी चोटसे उनमेंसे दो को मारडाला. इसपर बिगुल हुआ, बिगुल होते ही हमारे सिपाही वहां जा पहुंचे, परन्तु भील लोग भाग गये. विक्रमी चैत्र कृष्ण १५ [हि० ता० २८ रबीउस्सानी = .ई० ता० २९ मार्च] को हम लोग यह सलाह कर रहे थे, कि भीलोंकी मवेशी और बाल बच्चोंका पता लगाकर हमलह करें. मैं रोटी खा रहा था, कि उसी वक्त एक सवार महाराणा साहिबका खास रुक़ा लेकर आया, जिसका मतलब यह था, कि अलसीगढ़, पई और कोटड़ाके भीलोंने भी बगावत की और कामदार धूलचन्द नागोरी तथा एक दो पुलिसके सिपाहियोंको मारडाला, उनपर भैंसरोड़गढ़के रावत प्रतापसिंह, महाराज रायसिंह और मौलवी अब्दुरहमानखांको जमइयत देकर भेजा. इन लोगोंने दो भीलोंको मारकर सजा दी. भीलोंने केवड़ाकी नालकी चौकियां जला दीं; उस तरफ़ कुरावड़के रावत रत्नसिंह, महता तरुतसिंह व बाठड़ाके रावतके बेटे मदनसिंह वगैरहको जमइयत देकर भेजा, उन लोगोंने भी बन्दोबस्त किया; तुम तीन रोज़से बैठे हुए हो, परन्तु अभीतक कुछ कार्रवाई नहीं की. परसाद गांवमें मगराके हाकिम महता अक्षयसिंहको चार हजार भीलोंने रोक रक्खा है, उसको मदद देना चाहिये. हम लोगोंको यह हुक़म पढ़कर बहुत रंज हुआ. मैंने रोटी खाना छोड़दिया, और उसी दम घोड़ोंपर सवार होकर आगे चले; दोनों तरफ़ ढोलकी आवाज़ व किलकारियां सुनाई पड़ती थीं, लेकिन हमलहके वारमें वे लोग नआये. धूप ऐसी तेज़ थी, कि सवार और सिपाही घबरायेजाते थे; टीडीकी नदीपर पहुंचकर घोड़े व आदमियोंने पानी पीया. इस मौक़ेपर मामा अमानसिंह और लोनागिन साहिबकी बहादुरी लाइक तारीफ़के थी, और चारों सिंधी जमादारोंकी हिम्मत भी कम न थी. मामा अमानसिंह घोड़ेसे गिरगया, जिससे उसके पैरमें सरुत चोट आई, परन्तु उसीवक्त घोड़ेपर सवार होकर कहा, कि मुझको कुछ चोट नहीं लगी. हम लोग गधेड़ाघाटीमें पहुंचे, जहां भीलोंने दररुत काटकर रास्तह बन्द कररक्खा था, रास्तह साफ़ कराकर हम आगे बढ़े. उस तंग घाटीके दोनों ओरकी पहाड़ियोंपरसे हजारों भील तीर और बन्दूकोंसे मुक़ाबलह करने लगे. इधरसे भी फ़ाइर होते थे. हजारों तीर हमारे ऊपर गिरे, लेकिन ईश्वरकी कृपासे किसीके ज़रूम न लगा. दो भील मारेगये,

जिनकी लाशें वे लोग उठा लेगये. इस हमलहके बाद भील दूरदूरसे किलकारियां

करते नजर आते थे. पडूणाकी दक्षिणी हदपरे सिन्धी सवारोंने हमलह करके एक भीलका सिर काट लिया, जिसको परसादमें पहुंचकर एक दरस्तपर लटकादिया. महता अक्षयसिंह सलूंवर और चामंडकी जम्हूयतके आजानेसे पहिले रोज जयसमुद्र चलागया. हमने परसादके मकामपर शामको सुना, कि श्रीऋषभदेवकी पुरीको ६-७ हजार भीलोंने घेर रक्खा है, कल मन्दिरको लूटकर सर्कारी मुलाजिमोंको मारडालेंगे, और परसों खैरवाड़ेकी छावनीपर हमलह करेंगे. विक्रमी १९३८ चैत्र शुक्ल १ [हि० ता० २९ रबीउस्सानी = ई० ता० ३० मार्च] के ५ बजे हम परसादसे आगेको रवानह हुए; नज्दीककी पहाड़ियोंपर भील किलकारियां करने लगे, उनके तीर और हमारी गोलियां चलती थीं. लोनार्गिन साहिब, मामा अमानसिंह और मेरे (कविराजा श्यामलदासके) हाथसे ६ भील मारे गये, लेकिन उनकी लाशें वे उठा लेगये. पीपलीकी पालके करीब एक बड़े पहाड़की जड़में छापा मारनेकी गरजसे भाड़ी और पत्थरोंकी आड़में १०० या २०० भील हथियारबन्ध छुपरहे थे, हमारे एडवांस गार्डके २० सवार मए दयालाल चौईसाके फौजसे एक मील फ़ासिलहपर आगे जा रहे थे; भीलोंने उनपर हमलह किया, लेकिन उन्होंने बिगुल दिया, जिसकी आवाज़ सुनतेही मए पलटन और रिसालहके हम लोग पहुंचगये. इस धावेमें करीब २० या २५ भीलोंके सिर काटेगये, जिनमें खरबड़के गमेतीका लड़का और दूसरे भी २-३ मझूर भील मारे गये. इसी जगहसे सरस्त लड़ाई शुरू हुई, दोनों तरफ़के पहाड़ोंपरसे भीलोंकी किलकारियां, तीरों की बारिश और बन्दूकोंके फ़ाइर होते थे. हमारी तरफ़से भी बन्दूकोंकी बाढ़ भड़रही थी, लेकिन सिवा सड़कके दोनों तरफ़की पहाड़ी व झाड़ीसे फौजका हमलह होना उनपर कठिन था. मेरे घोड़ेके आगे एक भिस्ती चला जाता था, उसके पैरकी पिंडली में गोली लगी, मैंने उसको उंटपर चढ़ाया. एक बंजारा, जो हमारे साथ आरहा था, उसकी गर्दनमें एक तीर लगा और किसीका कुछ नुकसान न हुआ. ईश्वरकी कुद्वतको देखना चाहिये, कि हमारी फौजमें इतने तीरोंकी बौछाड़ आती थी, कि फौजके कई आदमियोंने चुन चुन कर अपने पास मुट्टे बांध लिये. इस हमलहमें हमारी फौजके अफ़सरों और सिपाहियोंकी दिलेरी लाइक तारीफ़के थी. जमादार वजीरखां मेरे मना करनेपर भी भाड़ीमें घुस घुस कर भीलोंपर बन्दूकके फ़ाइर करता था; लोनार्गिन साहिब व मामा अमानसिंह फौजके आगे पीछे बड़ी बहादुरीके साथ गिर्दावरी और हिफ़ाजत करते जाते थे. इन्हीं दोनों अफ़सरोंकी हिदायत और फौजको तर्तीबवार लड़ानेसे दुश्मनोंका नुकसान और फौजकी हिफ़ाजत रही. चारों सिन्धी जमादारोंने भी बड़ बड़कर बहादुरी दिखलाई. इस मुक़ाबलहमें करीबन् तीस पैंतीस भील मारेगये, लेकिन उनकी

लाशोंको उनके साथी लोग उठा लेगये. इसके बाद हम लोग ऋषभदेवमें पहुंचे, उस वक्त वहांके सरकारी मुलाजिम और पुजारियोंको नई जान मिलनेकी खुशी हुई. २००० भीलोंने पूर्वी तरफसे शहरपर हमलह किया, दयालाल चौईसा ५० सवार लेकर पहुंचा, २ भील मारेगये, और बाकी भाग गये. हम लोगोंने मन्दिरके बचावके लिये शहरमें डेरा किया; कुल फ़ौजको उस दिन सरकारी तरफसे खाना दियागया. रातभर ७ या ८ हजार भील चारों तरफ़ किलकारियां करते रहे. तीन रोज़तक इस तरह भीलोंका ग़लबह रहा. मैं इस कोशिशमें था, कि किसी तरह यह बलबह दबाया जावे. इन भीलोंमें बड़ा सरगिरोह वीलककी पालका नीमा गमेती और दूसरे दरजहपर पीपलीका खेमा और सगतड़ीका जोयता थे. चौथे रोज़ श्री ऋषभदेवके पुजारी खेमराज भंडारीने कहा, कि हुक़म हो, तो मैं इन लोगोंको समझाइश करूं. मैं तो दिलसे चाहता ही था, उसको इजाज़त दी. खेमराजने वीलकमें जाकर भीलोंको समझाया, क्योंकि भील लोग श्री ऋषभदेवके मन्दिर और पुजारियोंपर भरोसा रखते हैं, इसवास्ते उनकी समझाइश मानकर कुछ रुकगये. इस अरसहमें कागदर और ढणकावाड़ाकी पालवाले गमेती मुभसे आमिले, जो वीलक वालोंसे अदावत रखते थे, उनको तसल्ली देनेसे कागदर वालोंने ऋषभदेव और खैरवाड़ाके बीचका रास्तह खोल-दिया, जिससे यह फ़ायदह हुआ, कि गुजरात और सूरतके जो २०० या ३०० यात्री रुके हुए थे, उनको खानह करदिया; फिर भीलोंसे सुलहकी बात चीत होने लगी. इसी अरसहमें मैं खैरवाड़े जाकर टेम्पल साहिबसे मिल आया. उन्होंने अपनी फ़ौजके चार भील अफ़सर भीलोंको समझानेके लिये मेरे पास भेजदिये. उन लोगोंने भी बहुत कुछ समझाइश की, जिससे उदयपुरकी डाक और रास्तह जारी होगया. भीलोंने २४ क़लमें अपने उज़्रोंकी पेश कीं, जिनमेंसे १५ को तो मैंने उन्हें समझाकर रद करदिया और ९ मन्ज़ूरीके लिये उदयपुर भेजीं, जिसके जवाबमें मेरे नाम महाराणा साहिबका खास रुक़ा व महता राय पन्नालालका कागज़, जिसके साथ उन क़लमोंकी फ़र्द मए मन्ज़ूरीके थी, आया, जिनमेंसे खास रुक़े और महता पन्नालालके कागज़की नक़ल नीचे दर्जकीजाती है:—

खास रुक़हकी नक़ल.

श्रीमदेकलिङ्गेश्वरो जयति.

खानगी.

कविराजा श्यामलदासजी,

॥ थारी अरजी आई, जवाब न आवारी लीखी, सो सायत आजतक में काल परसुरी,

लिषी चिठियां मांरी पहुंच गई होवेगा. अब ज्यो थांरा पाना २, एक २४ को, दुजो वांमिसूं ९ कलमां छांट भेजी ज्यो मए अरजी, जीमिंकी ६ बाबत थांरी राय है, पहुंची; हो सक्यो जत्री जलदी कर राय सोच, लिषवामें आवे है; ९ कलम तो वी ज्यो थां न्यारी टाल भेजी, और १ ज्यो कलम धूलेवकी लागतकी बाबत जीपर थां (अरज) अस्यो निसान कियो ज्या, और १ माफी कसूर, जुमले ११ ही कलमांरो हाल विस्तार सुं वास्ते पूरी वाकबी होजावाके पन्नालालजी तीरांसुं जो कागद लिषायो है वींसुं वाकिफ होय अमल करोगा; और वातां तो सब मंजूर मंजूर, ई तरे राय तलब सुं है, सीरफ कसूर माफीमें ज्यो एक दोय राय लिषी है वाने आछयां सोचज्यो; क्योके कुछ न कुछ हुवा बगेर आयंदा तकलीफ रहे, ई वास्ते कसूर तो माफ करणोईज है, पण जरमानारो - - आगे सुं भी रिवाज है.

महता राय पन्नालालके कागज़की नकल.

॥ श्रीरामजी.

कविराजाजी श्री श्यामलदासजी,

आपकी अरजी श्री जी हुजूर दाम इकबालहूमें चेत सुद १२ मय गमेत्यां की अरजी वा आपकी रायकी ९ कलमकी फरद सुदां आई, अर सुष बात बड़ी पडूणा, बारापालका कसूर माफीकी लषी, सो बेशक या बात विचारके काबिल है, सो ईपर श्री जी हुजूर गोर फरमाय हुकम फरमायो जीं माफक आपने लिषूं हूं, के यो कसूर माफीके काबिल नहीं हे, प्रंत ई बलवाने रफे करवाके वास्ते ईमें अत्री सुरतां सुं तेह करणो ठीक है. अगर सुमकिन वे वाने समजाया जावे, के यो कसूर अस्यो छोटी नहीं है, के माफ करदियो जावे, बलके ई कसूरके एवज ज्यानकीज सजा होवो जरूर हो, प्रंत थे सारा लोग अरज करो हो, तो थांने रय्यत समज जरमाना प्र अर आयंदाके वास्ते मुचरको कुल पालां वालाको नीचे लष्या मुजब पेस होवा प्र होसके. मुचलको ई मजमूनसुं गमेती लोग कुल पालांरा लषे, के पडूणा, बारापालरो कसूर माफीकी मां अरज करी, सो षावंदी फरमाय ज्यानकी सजाको कसूर हो सो जरमाना की सजापर माफ फरमायो, सो तो प्रवरसके साथ है; अब आयंदे कसूरवारके वास्ते

मदत करां नहीं, एकट कर कसूरवारने बचावां नहीं, बलके कोई पालवाला कसूर करेगा, तो मे चाकरीमें हाजर रहे कसूरवारने सजा देवामें हुकमकी तामील करांगा.

ओर जुरमानो अस्यो वेणो चावे, के जीमें वांकी बिलकुल खराबी नहीं होयजावे, याने हेसीयत माफक होवे, जीमें राजकी हुकुमत रहे, वाने इबरत होयजावे जी अंदाज सुं होवे; सो ईने विचार आप ई बातको अपत्यार समज तजवीज करदेवे. वसुली मवे-सी वा रोकडसुं लीजावे. अगर या मुमकिन नहीं हो, तो कुल पालांरा गमेती अठे आय श्री जी हुजूरमें दस्तवस्ता माफी कसुरकी मांगे, तो वीं बखत मुनासब हुकम, याने आयंदाके लिये हीदायतका तोरपर हुकमके साथ रुबरु माफ कीयोजावे, ओर आयंदाके लिये मुचलको भी लीयोजावे.

जुरमानापर भी पलल नहीं वे सके, ओर अठे भी हाजर होवाकी सुरत नहीं होवे, तो भी यो कसुर ई तरेही तो माफ नहीं वे, के मांकी अरज सुं माफ हुवो, याने कसुर माफ होवो अेक आसान अे लोग समजे, अर यूं जाणलेवे के यो कसुर परवरससे माफ हुवो है. जींतरे होवे जीमें रोब ओर आयंदाके लिये ईबरत बणी रहेवे. पआलमें या बात आवे हे, के साअत कसुरवार पालांपर जुरमाना कबुल करलेवे.

फौज जावे जद जुरमानो देवे ही है, अर यो रवाज भी है, सो आगला रवाजसुं भी पालां वालाने आछां समजायस करणी, क्योंकि वां भी तो सारी कलमां सदीवरी पेश कीदी, तो या भी सदीव कीज काररवाई है; अवारकी काररवाई सुं तो ज्यान की एवज ज्यान लेवा कीज सजा होवे है, सो माफ करी जावे है; अर या नहीं जचे अर अठे आवाकी जचे अर वचन पात्री चावे, तो वे सके जो मुनासब वचन पात्री कर-देवे, अठे आवाप्र दस्तवस्ता श्री जी हुजूरमें अरज कर वापस माफ होजावेगा. या नहीं होवे, तो तीसरी बात मुचरको आइंदाके लिये मजबूत अलग अलग पालको लेकर माफ करणो ठीक हे. अगर यामेंसुं कोई सुरत नहीं निकले अर यूंही माफ कीदो-जावे, तो आयंदा याने होसलो रहेगा, जीरी तकलीफ दिकत नहीं मिटेगा, जींसुं ईकी कोसिस करे अर ज्यो बात तह पावे, जलदी खबर लवे. ईके साथ अब या भी आपने लपदी जावे है, के यां सुरतांप्र तेह नहीं पावे अर घाली माफी कसुरहीज करणो पडे तोभी आपने अपत्यार है, जस्यो मोको मुनासब होवे अर साथ रोबके वे. लोग यो कसूर माफ वेणो आसान समझ आइंदा ग्याल राषे जीं रीतसुं माफ होवाकी पक्की जवान दे देवे, अर अठे लषभेजे सो प्रवानो भेजदीयो जावेगा; और २४ कलमांमें सुं ९ कलमां आप छांटकर भेजी सो ठीक हे, वे काबील मंजुरी केईज है, सो मंजुर ही फरमाई, ना मंजुरीके काबिल ही ज्यो आप कोशिश कर टाल ही दीदी. एक बिलककी

बोलाईकी कलम फेर दरज कर इग्याराही कलमारो पानो भेज्यो है, इग्यारामें माफी कसूरकी कलमको जवाब ई चिठीमें लष्यो हे, बाकी कलमारो हुकम पानासुं मालुम होवेगा. अब यो मजमून भी आप देखलेवे, अर माफी कसूरकी जीं त्रे तेह पावे वींकी आप लष-भेजे, सो वीं मुजब प्रवानो भेजदियोजावे, अर दुजी कलमांके लिये प्रवानाका मजमुनमें कम बेस तुले, तो वींकी भी लषेगा, सो वीं मुजब प्रवानो भेजदियो जावे, देरी नहीं वे; मुष ज्यादा खयाल फसाद आगे फेलवाको है, सो ज्यांतक होसके जलदी नकी कर जवाब लषेगा, सरफ माफी कसूरकी बड़ी बात है; अर ईमें ऊपर लिषी बातांकी कोसीस वेणो जरुर समज सारो हाल लष्यो हे, सो ईमें कोसिससुं कोई बात तेह पाय जावे, तो वीं माफक प्रवानामें लिषी जावे, ई सबब प्रवानो नहीं भेज्यो गयो, मसुदो कलम कलम रा हुकम रो भेज्यो है, आप बेसक ई माफक जवान देवेगा. मतलब यो हे के बड़ी कलम कसुर माफीरी हे, ऊपर लषी हुई दो तीन सरतांपर ते वेणी चावे, अर यो आप खयाल रषावे, के मुचरको ऊपर लष्या मजमुनको तो हरएक सरत ज्यो ते पावे जीरे ही साथ लेणो जरुर हे, अर दो सरतां लषी ज्यांमेंसुं कोई तेह नहीं पावे, तोभी मुचरको तो ऊपर लष्यो जीं तरे लेणो जरुर हे सो लेलेवेगा, क्युंकि वे जवानी इकरार तो कसूरवारने मदत नहीं देवाको वा अकट नहीं करवाको करही चुका हे, सीरफ तहररीर में लेणो सो लेलेवेगा. अगर अठासुं मजमुन लष्यो जींमें कम बेस तुले तो कम बैस करलेवेगा, परन्तु मुचरको आयांदाके वास्ते जरुर लेवे. कुल पालां वारारो ईमें हरज रहेवामें आगाने दिकत ज्यादा मालम देवे हे, जींसुं वीस्तार लषी है, सो उमेद हे के आप ईमें आछां कोसिस करेगा, अर श्री जी हजुरको रुको ई साथ भेज्यो है पास दसषतांको, सो वींका मुतलबने आछां समझ हुकम मुजब तामील कर जवाब जलदी भेजसी, सं० १९३७ चेत सुद १३, ता० १२ अपरेल सन् १८८१ ई० रातकी दस बज्यां लष्यो.

द० रा० पनालाल.

मैं उन ११ कलमोंकी बाबत, जिनका जिक्र ऊपरके कागज़में लिखागया है, भीलोंसे बातचीत और समझाइश करने लगा. एक दिन मैं और मामा अमानसिंह लश्करसे थोड़ी दूरपर अकेले जाकर भीलोंसे मिले, और बीलकके गमेती नीमा व पीपलीके खेमाको बहुत कुछ समझाया, लेकिन उस वक्त हजार डेढ़ हजार भील मौजूद थे, उनमेंसे बाज बाज सुलहको नापसन्द करके लड़ाई करनेके लिये जहालतसे बोल उठते थे; तब गमेती लोग उनको समझाइश करते. कोई बकता था, कि दुर्बार हमको न मारें, तो हम फिरंगियोंको मुल्कसे निकाल दें. तब मैंने उन

जानवरोंको समझाया, कि फिरंगी लोग बड़े ज़बर्दस्त और श्री दरवारके मित्र व मददगार हैं, इसलिये तुमको उनकी निस्वत ऐसा खयाल नहीं करना चाहिये. फिर शाम होगई और भीलोंकी सर्कशी देखकर जमादार जानमुहम्मद, फ़तहमुहम्मद, खानमुहम्मद और वजीरखाने मुझको इशारेसे कहा, कि अब अंधेरेमें इन लोगोंके बीच ठहरना अच्छा नहीं. हम उठकर अपने लश्करमें चले आये. इसी तरह हमेशह समझाइश करते थे, लेकिन वे जानवर हर रोज़ कोई न कोई नई बात ले उठते. आखरकार विक्रमी १९३८ वैशाख कृष्ण ५ [हि० १२९८ ता० १९ जमादियुल्अव्वल = इ० १८८१ ता० १९ एप्रिल] को उदयपुरसे कर्नेल् ब्लेअर साहिब फ़र्स्ट असिस्टैण्ट पोलिटिकल एजेण्ट मेवाड़, छावनी खैर-वाड़ा बटालिअनके कमान अफ़सर और विंगेट साहिब मेवाड़के सेटलमेण्ट ऑफिसर दोनों आपहुंचे. ब्लेअर साहिब भीलोंको समझानेके लिये जानेलगे, तब मैंने भीलोंकी कम-अच्छी और जहालत बयान करके उन्हें मना किया, लेकिन वे किसीको साथ न लेकर अकेले चलेगये. एक पहाड़पर तीन चार हजार भील एकट्टे होरहे थे, साहिबको दूरसे रोककर कहा, कि तुम दिल्ली वाले हो चलेजाओ, हमारे मालिक श्री दरवार हैं, उनके भेजे हुए हाकिम आये हैं उन्हींसे हम बात चीत करेंगे. तब साहिबने बड़ी नमीसे एक दो गमेतियोंको पास बुलाकर कहा, कि हम तुम्हारी सब तकलीफ़ मिटादेंगे, और वे तल्लीफ़े कौनसी हैं सो कहो. तब उन्होंने पहिले जमानहके मुवाफ़िक़ आज़ादी हासिल होने, जमादार बालगोविन्दका नियत किया हुआ बराड़ मुआफ़ किये जाने और हालमें खानहशुमारी व ज़मीनकी पैमाइश कीजाना मौक़ूफ़ रखनेके लिये बहुत कुछ कहा. साहिबने उनको तसल्ली दी, कि हम महाराणा साहिबके अफ़सरोंसे कहकर तुम्हारी तल्लीफ़ मिटादेंगे. फिर डेरोंमें पहुंचकर साहिबने मामा अमानसिंहको और मुझको बुलाकर कहा, कि भीलोंको बराड़के रुपये देनेमें उज़्र है, और खानहशुमारी वगैरहसे उनको तल्लीफ़ नहो, इस बारेमें पत्थरपर खुदवाकर एक सुरह ऋषभदेवके पास गड़वादीजावे; तब मैंने बराड़के लिये बहुत बहस की. इसपर साहिबने कहा, कि देखो जी यह भीलोंकी बगावत बहुत दूर दूर तक फैलगई है, जो राजकी फ़ौजसे नहीं दवेगी और गवर्मेण्टकी फ़ौज बुलाई जायेगी. यह याद रखना चाहिये, कि सर्कारी फ़ौजका आना रियासतके लिये अच्छा न होगा, और बराड़ तो जमादार बालगोविन्दने इन लोगोंपर लगाया है. तब मैंने जवाब दिया, कि गवर्मेण्ट अंग्रेज़ीसे पहिले १३५० वर्षतक इन लोगोंपर श्री दरवारकी हुकूमत रही है, यदि हम लोग इनको दबानेकी ताक़त न रखते, तो ये लोग महाराणा साहिबके ज़ेर हुकम किस तरह रहते. तब साहिबने झुंभलाकर कहा, कि आज शामतक आप उनको समझालो, वरनह कल हम मुनासिब फ़ैसलह करेंगे, क्योंकि इस बगावतसे गवर्मेण्ट और गरीब

रिआयाका बहुत नुक़सान है. हम दोनों अपने डेरोंमें आये, और गमेती भीलोंको बुलाकर श्री ऋषभदेवकी पुरीके बाहिर एक टीलेपर मैं और मामा अमानसिंह कुर्सियोंपर जा बैठे, करीबन् १०० से ज़ियादह गमेती लोग हमारे गिर्द आ बैठे, और ६ - ७ हजारके लगभग भील पासवाली पहाड़ियोंपर एकत्र होगये. मैंने भीलोंको समझाइश करना शुरू किया. यकीन था, कि मुआमलह तय होजाता, लेकिन शहरके महाजन लोगोंका बहुतसा हुजूम एकट्ठा होगया, इसलिये मैंने ललकारकर अपने आदमियोंसे कहा, कि इनको हटाओ, और वे लोग एक दम उठभागे. यह देखकर शराब पीये हुए एक भीलने जाना, कि गमेतियोंपर दगाबाज़ी हुई, और उसने बन्दूक चलाई, जो हमारी पलटनके एक सिपाही के पैरकी पिंडलीमें आलगी. गोली लगतेही सिपाहियोंने भीलोंपर फ़ाइर शुरू करदी; गमेती लोग उठ भागे. एक गमेतीने तीर खींचकर मेरी छातीमें मारना चहा, लेकिन नठाराके गोकलिया भीलने छीनलिया, जिसको मैंने सलूबरवालोंकी कैदसे छुड़ाया था. इस हुल्लड़से सुलहकी. एवज़ एकदम लड़ाई फैलगई, और साहिब लोग घोड़ोंपर सवार होकर तने तनहा खैरवाड़ाको भागे. भीलोंने उनके डेरोंमेंसे कुछ सामान लूटलिया. तब हमने एक कम्पनी और ५० सवार भेजे, जो उनका बचा हुआ सामान और अमलेके लोगोंको लेआये, रातभर हल्ला गिल्ला होता रहा. कर्नेल् बलेअरने तार देकर बम्बईसे अंग्रेज़ी फ़ौज तलब की, और एजेण्ट गवर्नर जनरल कर्नेल् वाल्टरको लिख भेजा, कि राजकी फ़ौजने भीलोंके साथ दगाबाज़ी की; और भीलोंको ख़त लिख भेजे, कि राजके अफ़सरोंने तुम्हारे साथ दगाबाज़ी की, इसलिये अब हम तुम्हारे मददगार हैं. इस नाज़ुक हालतको देखकर मुझे बहुत रंज हुआ, क्योंकि मरने और लड़ाई करनेकी तो कुछ फ़िक्र न थी, लेकिन अंग्रेज़ी अफ़सरोंकी मध्यस्थताके समय ऐसा होनेसे रियासती हुकूममें खलल आनेका खौफ़ था; चारों तरफ़ हजारों भील वावैला कर रहे थे. दूसरे रोज़ धूलेव (श्री ऋषभदेवकी पुरी) के वनियोंने भीलोंके पास जाकर उन्हें समझाइश की, तब मैंने मस्लिहत समझकर आधा वराड (सर्कारी ख़िराज जो पालोंपर सालियानह लगता है) छोड़ना और खानहशुमारीसे आइन्दह उनको तकलीफ़ न होना पत्थरमें खुदवा- देनेकी दरख़्वास्त मन्ज़ूर की. उसी वक्त वे लोग चुपचाप होगये, और अपने पटवारियोंसे एक अर्ज़ी श्री महाराणा साहिबके नाम और दूसरा कागज़ कर्नेल् बलेअरके नाम इस मज़मूनका लिखाभेजा, कि इसवक्त जो लड़ाई शुरू होगई उसमें राजके अफ़सरोंकी तरफ़से किसी तरहकी दगाबाज़ी नहीं हुई, हमारी तरफ़के शराब पीये हुए एक भीलने नशेकी हालतमें गोली चलादी थी, जो एक सिपाहीके पैरमें जा लगी, इस सबवसे फ़ौजकी तरफ़से भी गोलियां चलने लगगई. फिर मैंने भीलोंको

कहलाया, कि तुम सुलहका नज़ानह करनेको यहां मत आओ, हम वहां आवेंगे, क्योंकि फ़ौज के सिपाहियों व भीलोंकी जहालतका खौफ़ था. मामा अमानसिंह और मैं दोनों एक माइल के फ़ासिलहपर जाकर भीलोंसे मिले. उन सब गमेतियोंने आकर हमको नज़ें दिखलाई, उसवक्त बिल्कुल अमन होकर रास्तह व डाक जारी होगई. मैंने भीलोंकी तसल्लीके लिये सुरहका पत्थर खुदवाना शुरू करदिया, और मंजूरीके लिये अर्ज़ी लिखकर दयालाल चौईसाको उदयपुर भेजा. दूसरे रोज़ मैं चालीस सवार लेकर खैरवाड़ा मक़ामपर बलेअर साहिबसे मिलनेको गया. छावनीमें बड़ी घबराहट मच रही थी, मेरे जानेसे लोगोंको कुछ तसल्ली हुई. साहिबने घबराकर डूंगरपुरके रावल उदयसिंहको भी मददके लिये वहां बुलालिया था. मैं साहिबके पास गया, इसवक्त वह बहुत गुस्सेमें थे, लेकिन कुल कार्रवाई और भीलोंके कागज़ दिखलानेसे चुप होगये. फिर मैं वापस धूलेवको चलाआया. फ़ौजके सिपाहीका किसी भीलके घरमें घुसजाना और कुछ चीज़ जब्रन लेआना वगैरह कार्रवाइयोंसे मामा अमानसिंहकी और मेरी यह राय हुई, कि अब अमन काइम होगया है, इसलिये फ़ौजको उदयपुरकी तरफ़ खानह करदेना चाहिये. विक्रमी वैशाख कृष्ण ११ [हि० ता० २४ जमादियुलअव्वल = .ई० ता० २४ एप्रिल] को फ़ौजका मक़ाम परसादमें हुआ और मामा अमानसिंह और मैं धूलेवमें ठहरगये, जहां कुल गमेती लोग हमारे पास आये. ऋषभदेवमें बैठकर हमने उनकी तसल्ली की, और मन्दिरका बन्दोबस्त करके हम भी शामको परसादमें आपहुंचे. इस मक़ामपर दयालाल चौईसा उदयपुरसे मंजूरीके कागज़ात और भीलोंके नाम तसल्लीके पर्वाने लेकर आया, जिनको भील लोगोंकी तसल्लीके लिये पालोंमें भेजकर विक्रमी वैशाख कृष्ण १२ [हि० ता० २५ जमादियुलअव्वल = .ई० ता० २५ एप्रिल] को हम उदयपुर चले आये. उदयपुरमें अक्सर सदाँर उमराव और उनकी जमइयतें मौजूद थीं, लेकिन सुलह होजानेके कारण उनको रुख्सत देदी गई. कर्नेल् बलेअर साहिबके लिखनेसे वाल्टर साहिबने शम्भुनिवासमें एक कोर्ट की, जिसमें महाराणा साहिब, कर्नेल् वाल्टर, डॉक्टर स्ट्रेटन रेज़िडेण्ट मेवाड़, और विंगेट साहिबने बैठकर मुझको वहां बुलाया. वाल्टर साहिबने कुल लड़ाईका हाल उलट पलट सवालोंके साथ दर्याफ्त किया, लेकिन हमारी कार्रवाई दुरुस्त होनेके सबब किसी किरमकी खामी न निकली, इसके बाद विक्रमी वैशाख कृष्ण १४ [हि० ता० २७ जमादियुलअव्वल = .ई० ता० २७ एप्रिल] को कर्नेल् वाल्टर आवूको चले गये. महाराणा साहिबने इस कार्रवाईसे खुश होकर मुझको दोनों पैरोंमें सुवर्णके दोहरा लंगर इनायत किये.

विक्रमी वैशाख शुद्ध ३ [हि० ता० २ जमादियुस्सानी = .ई० ता० १ मई] को

कोटाके महियारिया लक्ष्मणदान चारणको ताजीम और सुवर्णके लंगर बरूशे, जो महाराव शत्रुशालकी तरफसे टीकेका दस्तूर लेकर उदयपुरमें आया था.

विक्रमी कार्तिक कृष्ण २ [हि० ता० १५ जिल्काद = ई० ता० ९ अक्टोबर] को महाराणा साहिबका कूच उदयपुरसे चित्तौड़गढ़की तरफ इस मतलबसे हुआ, कि मार्किस ऑफ रिपन साहिब गवर्नरजेनरल हिन्दने महाराणा साहिबको "ग्रैंड कमांडर स्टार ऑफ इंडिया" का खिताब देना चाहा था, जिसपर महाराणा साहिबने अपने कदीमी हुकूक और इज्जत व प्राचीन पूर्वजोंका बड़प्पन दिखलाकर कई उज्र किये, और आखरकार यह खिताब लेना इस शर्तपर संजूर कियागया, कि मार्किस ऑफ रिपन मेवाड़में आकर अपने हाथसे देवें, इसलिये यह जल्सह कदीम राजधानी चित्तौड़में मुक़रर हुआ. महाराणा साहिबके चित्तौड़में पहुंचनेपर सब तरहकी तय्यारियां होने लगीं. डॉक्टर जे० पी० स्ट्रैटन और ए० विंगेट सेटलमेण्ट ऑफिसर मेवाड़ और रॉयल इंजिनिअर मरे वगैरह जुदा जुदा कामोंपर मुक़रर हुए; कलकत्तेसे भाड़, फ़ानूस और खानेके सामान और नये डेरे वगैरह कई जगहसे खरीदनेका प्रबन्ध हुआ, और मेवाड़के सदांरोंमेंसे कई सदांर मए जमझ-यतोंके बुलाये गये. इस मौकेपर जो सदांर, चारण, पासवान व अह्लकार वगैरह प्रतिष्ठित लोग चित्तौड़गढ़में मौजूद थे उनके नाम नीचे लिखे जाते हैं:-

राजपूत सदांर.

- | | |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| १- बेदलाका राव तरुतसिंह. | २- बेगमका रावत् सवाई मेघसिंह. |
| ३- देलवाड़ाका राज फ़तहसिंह. | ४- आमेटका रावत् शिवनाथसिंह. |
| ५- कान्हौड़का रावत् उम्मेदसिंह. | ६- भींडरका महाराज मदनसिंह. |
| ७- बदनौरका ठाकुर केसरीसिंह. | ८- भैंसरोड़का रावत् प्रतापसिंह. |
| ९- पारसोलीका राव रत्नसिंह. | १०- आसींदका रावत् अर्जुनसिंह. |
| ११- बागौरका महाराज शक्तिसिंह. | १२- करजालीका महाराज सूरतसिंह. |
| १३- शाहपुराका राजाधिराज नाहरसिंह. | १४- सदांरगढ़का ठाकुर मनोहरसिंह. |
| १५- कारोईका बाबा विजयसिंह. | १६- हमीरगढ़का रावत् नाहरसिंह. |
| १७- भदेसरका रावत् भोपालसिंह. | १८- भूणासका बाबा कृष्णसिंह. |
| १९- पीपलियाका रावत् कृष्णसिंह. | २०- ताणाका राज देवीसिंह. |
| २१- महुवाका बाबा ग्यानसिंह. | २२- नेतावलका समंदरसिंह. |
| २३- लींवाड़ेका राठौड़ दूलहसिंह. | २४- बम्बोराका रावत् प्रतापसिंह. |
| २५- विजयपुरका जवानसिंह. | २६- सादड़ीके राज शिवसिंहका पुत्र रायसिंह. |
| २७- बेदलाके राव तरुतसिंहकापुत्र कर्णसिंह. | |

- २८- देलवाड़ाके राज फ़तहसिंहका पुत्र ज़ालिमसिंह.
- ३०- पारसोलीके राव रत्नसिंहका पुत्र देवीसिंह.
- ३२- शिवपुरका रायसिंह
- ३४- काकरवाका राणावत उदयसिंह.
- ३५- मंगरोपका बाबा गिरवरसिंह.
- ३७- पहूनाका राणावत जोधसिंह.
- ३९- मुरोलीका भाटी शिवनाथसिंह.
- ४१- साटोलाका रावत् तख्तसिंह.
- ४३- मंडप्याका बाबा चत्रसिंह.
- ४५- आगरघाका राठौड़ सर्दारसिंह.
- ४७- हरणेईका राठौड़ प्रतापसिंह.
- ४९- तीरोलीका बाबा भोपालसिंह.
- ५१- मामा वरुतावरसिंह.
- ५३- आर्ज्याका चावड़ा प्रतापसिंह.
- ५५- चांपावत फ़तहसिंहका पुत्र गुमानसिंह.
- ५७- श्यामपुराका प्रतापसिंह.
- ५९- जीवाणाका राणावत केसरीसिंह.
- ६१- दिवालाका राठौड़ गुलाबसिंह.
- ६३- बोरजका चहुवान वरुतावरसिंह.
- ६५- बावळासके महाराजका पुत्र भोपालसिंह.
- ६७- जरखाणाके बाबा जशवन्तसिंह का पुत्र मदनसिंह.
- ६९- खैरावादके बाबा जोधसिंहका पोता बाघसिंह.
- २९- मेजाके रावत् अमरसिंहका पुत्र राजसिंह.
- ३१- करजालीके महाराज सूरतसिंहका पुत्र हिम्मतसिंह.
- ३३- बनेड़ाके राजा गोविन्दसिंहका पुत्र अक्षयसिंह.
- ३६- गुड़लांका बाबा शेरसिंह.
- ३८- गाडरमालाका बाबा केसरीसिंह.
- ४०- दौलतगढ़का नवलसिंह.
- ४२- बसीका वैरीशाल.
- ४४- कूचोलीका राणावत् इन्द्रसिंह.
- ४६- रख्यावलका केसरीसिंह.
- ४८- राठौड़ पृथ्वीसिंह.
- ५०- बोरजका खेड़ाका चहुवान भैरवसिंह.
- ५२- मामा अमानसिंह.
- ५४- चांपावत नारायणदास, जयपुरके चांपावत ज़ोरावरसिंहका पुत्र.
- ५६- कोल्यारीका शक्तावत रणजीतसिंह.
- ५८- कालाकोटका चूंडावत रूपसिंह.
- ६०- मदारघाका शक्तावत मेघसिंह.
- ६२- सालेराका चहुवान गिरवरसिंह.
- ६४- चहुवान लछमणसिंह.
- ६६- ताणाके राज देवीसिंहका पुत्र अमरसिंह
- ६८- ईटालीके राठौड़ ईशरदासका पुत्र एकलिंगदास.

चारण.

१- कविराजा श्यामलदास. २- वारहट रामसिंह. ३- आड़ा रामलाल.

- ४- दधिवाड़िया चमनसिंह. ५- बारहट चंडीदान. ६- महियारिया मोड़सिंह.
७- बारहट कृष्णसिंह. ८- उज्वल कृतहकरण. ९- राव बरूतावर.

अह्लकार, पासवान व धायभाई वगैरह.

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| १- महता राय पन्नालाल. | २- कोठारी बलवन्तसिंह. |
| ३- सहीहवाला कायस्थ अर्जुनसिंह. | ४- महता विठ्ठलदास. |
| ५- महता मुरलीधर. | ६- महता तख्तसिंह. |
| ७- महता लालचन्द. | ८- कोठारी मोतीसिंह. |
| ९- महता गोपालदास. | १०- महता माधवसिंह. |
| ११- पुरोहित पद्मनाथ. | १२- सेठ राय शमीरमल्ल अजमेरका. |
| १३- सेठ जवाहिरमल्ल. | १४- महता लछमीलाल. |
| १५- महता देवीचन्द. | १६- कायस्थ प्राणनाथ. |
| १७- महासाणी रत्नलाल. | १८- पंड्या मोहनलाल. |
| १९- पण्डित ब्रजनाथ. | २०- जानी मुकुन्दलाल. |
| २१- मौलवी अब्दुर्रहमानखां. | २२- डॉक्टर अकबरअली. |
| २३- मुन्शी अलीहुसैन. | २४- पंडित वंशीधर. |
| २५- पांडे किशोरराय. | २६- पंडित भवानीनारायण. |
| २७- जंगलातका अफसर विष्णुसिंह. | २८- पुरोहित सन्तोषलाल. |
| २९- देपुरा रघुनाथसिंह. | ३०- मुन्शी मुईनुद्दीन. |
| ३१- पाणेरी उदयराम. | ३२- बड़वा लखमीचन्द. |
| ३३- पुरोहित उदयलाल. | ३४- पुरोहित सवाईलाल. |
| ३५- महता अर्जुनसिंह. | ३६- धायभाई बरूतावर. |
| ३७- ज्योतिषी मुकुटराम. | ३८- ज्योतिषी गणेशराम. |
| ३९- ज्योतिषी रघुनाथ. | ४०- ज्योतिषी जीवनराम. |
| ४१- पंडित सुब्रह्मण्य शास्त्री. | ४२- पाणेरी गिरधरलाल. |
| ४३- चौईसा हीरालाल. | ४४- चौईसा पुरुषोत्तम. |
| ४५- चौईसा राखीलाल. | ४६- साह जोरावरसिंह सूरणाका
पुत्र दौलतसिंह. |
| ४७- भंडारी शिवलाल. | ४९- खवास शिवराज. |
| ४८- कायस्थ कुन्दनलाल. | ५१- कायस्थ दलीचन्द. |
| ५०- धायभाई हुकमीचन्द. | ५३- ठांकड़्या श्रीकृष्ण. |
| ५२- कायस्थ जालिमचन्द. | |

- | | |
|---------------------------------------------|------------------------|
| ५४- कायस्थ मोहनलाल. | ५५- कायस्थ अर्जुनसिंह. |
| ५६- कायस्थ गुमानचन्द. | ५७- कायस्थ मगनलाल. |
| ५८- ढींकड़्या रामलाल. | ५९- मुरड़्या अम्बाव. |
| ६०- मुन्शी कायस्थ धनलाल. | ६१- कायस्थ ऊँकारनाथ. |
| ६२- नथमल भोटा. | ६३- ढींकड़्या नाथूलाल. |
| ६४- ढींकड़्या गणेशलाल. | ६५- भट भवानीशंकर. |
| ६६- महता रघुनाथसिंह. | ६७- ढींकड़्या जगन्नाथ. |
| ६८- महता भोपालसिंह. | ६९- कायस्थ नीमनाथ. |
| ७०- सहीहवाला लक्ष्मणसिंह. | ७१- मौलवी अब्दुल्गानी. |
| ७२- महता मनोहरसिंह. | ७३- धायभाई गणेशलाल. |
| ७४- ढींकड़्या गोपाल. | ७५- धायभाई चतुर्भुज. |
| ७६- धायभाई सुखलाल. | ७७- धायभाई गुमाना. |
| ७८- ब्रह्मचारी मथुरादासका पुत्र
मोडीलाल. | |

राज्यके नौकर यूरोपियन व यूरेशियन

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| १- मिस्टर लोनार्गिन अप्सर फ़ौज. | २- मिसेज़ लोनार्गिन डॉक्टर मेरी. |
| ३- मिस बील. | ४- मिसेज़ बील. |
| ५- इंजिनिअर टॉमस विलिअम. | ६- हेडमास्टर ज्यॉर्ज वेअर्ड. |
| ७- मिस्टर जर्मनी. | |

इनके अलावह और भी देशी विदेशी लोगोंकी भीड़ जमा होती जाती थी. महाराणा साहिबने किले चित्तौड़की सड़कों और इमारतोंकी मरम्मत बड़ी तेज़ीके साथ करवाई. गंभीरी नदीके पश्चिम तरफ़ क़स्बे चित्तौड़से आध मीलके फ़ासिलेपर उत्तरकी तरफ़ गवर्नर जनरल हिन्द और उनके कैम्प व मुलाजिमोंके लिये उम्दह डेरे बाकाइदह खड़े करवाये गये, और दक्षिणकी तरफ़ महाराणा साहिबके डेरे मए सर्दारान, अह्लकारान व फ़ौजके खड़े कियेगये, और बीचमें एक बड़ा दालान रंग व रंगे कपड़ोंसे मंढाहुआ सोनेके कलशोंसे आरास्तह दरवारके वास्ते तय्यार कराया गया. यह कुल तय्यारियां होकर विक्रमी मार्गशीर्ष शुक्ल १ [हि० ता० २९ ज़िल्हिज = ई० ता० २२ नोवेम्बर] को चार बजेके वक्त गवर्नरजनरल हिन्द मार्किस ऑफ़ रिपन स्पेशल ट्रेन द्वारा अजमेरसे चित्तौड़गढ़ पहुंचे. महाराणा साहिब भी अग्रगामिताके लिये स्टेशनपर उपस्थित थे. लाट साहिबने गाड़ीसे उतरकर बड़ी मुहब्बत

के साथ दस्तापोशी की, और टोपी उतारकर मिजाजकी खुशी पूछी. महाराणा साहिबने भी मुहब्बत आमेज़ लफ़्ज़ोंमें जवाब दिया. स्टेशनपर ३२ हाथियोंकी दो कतारें बहुत .उम्दह जेवर और झूल वगैरह सामानसे आरास्तह खड़ी थीं, उनमेंसे सबसे आगे वाले हाथीपर लाट साहिबके एडिकांग, उनके पीछे दाहिनी तरफ़ वाले हाथीपर मार्किंस ऑफ़ रिपन और बाई तरफ़ वालेपर महाराणा साहिब विराजकर डेरोंको पधारे. लाट साहिबके पीछेवाली कतारमें हरएक हाथीपर दो दो अंग्रेज़ अफ़सर, और महाराणा साहिबके पीछेकी कतारमें हरएक हाथीपर दो दो सर्दार थे; प्लेट फ़ार्मसे लाट साहिबके डेरोंतक दुतरफ़ह महाराणा साहिबकी फ़ौजके सर्दार व सरबन्दी फ़ौज, रिसाले और पैदल पल्टनोंकी कतार जमी हुई सलामी उतारती जाती थी. लाट साहिब आहिस्तह आहिस्तह चलकर अपने डेरों के बाहिर महाराणा साहिब सहित हाथियोंपर सवार खड़े रहे. हम लोगोंका एक एक हाथी उनके सामने होकर गुज़रता रहा और लाट साहिब हरएक सर्दारका सलाम बड़ी मुहब्बतके साथ लेतेगये, और डॉक्टर स्ट्रेटन रेज़िडेण्ट मेवाड़ हरएक सर्दारका नाम मए ठिकाने और कौमके बताते गये. महाराणा साहिब तो अपने डेरोंमें चले आये और लाट साहिबने हाथीसे उतरकर अपने डेरोंमें आराम किया. दोनों तरफ़ शाही डेरों, तोपखानों, रिसालों और पल्टनोंका जमाव और .उम्दह तर्तीबके साथ महाराणा साहिबके डेरोंमें सर्दारोंका कियाम देखकर देखने वालोंके दिल खुश होते थे. दोनों कैम्पोंका बन्दोबस्त उदयपुरकी पुलिसके सुपुर्द हुआ था, जिसको मौलवी अब्दुरहमानखां सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलिस और इन्स्पेक्टर लाला केसरीलालने बहुत .उम्दह तौरपर किया. रॉयल इंजिनिअर मरे, और कोठारी बलवन्तसिंहने भी कैम्प वगैरहकी सर्वराहका बहुत .उम्दह इन्तिज़ाम रक्खा. इस जल्सहमें डॉक्टर स्ट्रेटन रेज़िडेण्ट मेवाड़ और सेटल्मेण्ट अफ़सर ए० विंगेटने एक महीना पहिलेसे बड़ी कोशिशके साथ इन्तिज़ाम करवाया. कुल कामोंमें मदद देनेके लिये महता राय पन्नालाल और मुझ (कविराजा श्यामलदास) को हुक्म था, जो कुछ होसका हम लोगोंने भी किया. इस जल्सहकी मिहमानीमें रियासती नौकरोंमेंसे कोठारी बलवन्तसिंह, ढांकड़्या जगन्नाथ हाकिम चित्तौड़गढ़, मौलवी अब्दुरहमानखां सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलिस, और महकमह जंगलातके अफ़सर विष्णुसिंहकी मिह्नत और कोशिश अब्बल दरजहकी थी. इनके अलावह हरएक कारखानहके दारोग़ह और छोटे बड़े अहलकारोंने बड़ी तन्दिहीके साथ नौकरी दी.

विक्रमी मार्गशीर्ष शुक्ल २ [हि० ता० ३० ज़िल्हिज = ई० ता० २३ नोवेंबर] को १० बजेसे पहिले उमराव, सर्दार, अहलकार व पासवान वगैरह राजके मुलाज़िम और गवर्मेण्टअंग्रेज़ीके अफ़सर व अंग्रेज़ी लेडियां दरबारके मक़ाममें आकर सब अपने अपने दरजेके


मुवाफिक कुर्सियोंपर बैठगये. कुर्सियोंकी चार लाइन मेवाड़ी सदर्नों व अहलकारोंके लिये और एक लाइन अंग्रेजी अफसरोंके लिये, और उसके पीछे अंग्रेजी लेडियोंके लिये उम्दह काम की कुर्सियां रक्खी गई थीं. पश्चिम तरफ कुछ ऊंची जगहपर लाट साहिब और महाराणा साहिबके लिये दो उम्दह चांदीके सुनहले काम वाले सिंहासन रक्खे गये थे, जिनमें दाहिनी तरफके सिंहासनपर मार्किस ऑफ रिपन बैठे, और महाराणा साहिब उसी मकान के एक दूसरे कमरेमें तशरीफ लाये, जहां लाट साहिबके एडिकांग आये और महाराणा साहिबको आस्मानी रंगका एक बड़े घेरवाला चुगा पहिनाकर वह हार गलेमें पहिनाया, जो उस खिताबके लिये था. फिर महाराणा साहिब उक्त एडिकांगों सहित दालानमें पहुंचे. लाट साहिबने उन्हें “ ग्रैण्ड कमांडर स्टार ऑफ दि इण्डिया ” का तमगह देकर अपने बाई तरफके सिंहासनपर बिठाया. उस वक्त अंग्रेजी तोपखानहसे महाराणा साहिबके लिये २१ तोपें सलामीकी सर हुई. कुल रस्में अदा होकर थोड़ी देरके बाद मार्किस ऑफ रिपन और महाराणा साहिब अपने अपने डेरोंमें सिधारे. दिनके एक बजे लाट साहिब बग्घी सवार होकर महाराणा साहिबके डेरोंमें आये. मेवाड़की फौजने क्राइदह के साथ सलामी उतारी और तोपखानहसे सलामीके फाइर सर होकर दरबारके बड़े डेरेमें सोने के सिंहासनोंपर मार्किस ऑफ रिपन और महाराणा साहिब और दोनों तरफ कुल उमराव, सदर्न, अहलकार, व अंग्रेजी अफसर कुर्सियोंपर बैठे; कुछ देरतक दस्तूरी बात चीत होनेके बाद लाट साहिब वापस रुख्सत हुए, और राज्यके तोपखानह व फौजसे सलामीकी मामूली रस्म अदा हुई.

शामके वक्त लाट साहिब बग्घी सवार होकर क़िला देखनेको गये. डॉक्टर स्ट्रेटन रेजिडेण्ट मेवाड़ने एक छोटीसी किताब लाट साहिब और उनके मुसाहिवोंको दी, जिसमें मेवाड़ और चित्तौड़ गढ़का तवारीखी हाल और पुरानी इमारतोंका बयान था, और जो मेरी (कविराजा श्यामलदासकी) शामलातसे लिखकर तय्यार की गई थी. इस पुस्तकके जरीएसे क़िलेकी सैर करके लाट साहिब वापस डेरोंमें आये. रात्रिके समय खाना हुआ, उसमें लाट साहिब और एक सौ के करीब अंग्रेज और लेडियां मौजूद थीं. खाना खानेके बाद महाराणा साहिबकी तरफसे कर्नेल् वाल्टर साहिबने और उसके जवाबमें लाट साहिबने जो स्पीच दी उन दोनोंका तर्जमह नीचे लिखा जाता है:—

श्री दरबारकी तरफसे कर्नेल् सी० के० एम० वाल्टर साहिब वहादुर रेजिडेण्ट मेवाड़की दी हुई स्पीचका तर्जमह.

मैं सच्चे दिलसे ज़ाहिर करता हूं, कि आज मैं अपने सदर्नों समेत इस प्राचीन राजधानी चित्तौड़में, जिसका बड़प्पन कई वर्षोंसे होता चला आया है, आपसे मिलकर

बहुत खुश हुआ हूँ. इस चित्तौड़ शहरको हम सब बड़ा प्रसिद्ध और प्रिय समझते हैं, जिसकी रक्षा करने और जिसको अपने अधिकार (हुकूमत) में रखनेके लिये हमारे बुजुर्गोंने गत समयमें अपने अमूल्य प्राण अर्पण किये हैं. इस यादगारके निमित्त मेवाड़के सीसोदिया राजाओंने अपनी पदवी चित्तौड़ा रक्खी है. अपना आजका मिलाप आपसकी उस दोस्तीका अधिक होना है, जो सन् १८१८.ई० के समयसे ब्रिटिश गवर्मेण्ट और राज मेवाड़के साथ चलीआती है; और उस दृढ़ मैत्रीका सुबूत यह है, कि आपने मुझे श्री महाराजराणी कैसरि हिन्दकी तरफसे “ स्टार ऑफ इण्डिया ” की उच्च पदवी दी. इस प्रतिष्ठित पदवीसे श्रीमतीने बड़ी मिहर्बानीके साथ मुझे “ नाइट ग्रैण्ड कमाण्डर ” नियत किया. इस पदवीके सबबसे हमारी आपसकी मैत्रीको तरकी और दृढ़ता होगी. मैं इस पदवीको बड़े आनन्दसे स्वीकार करता हूँ और मैं सच्चे दिलसे श्रीमती महाराजराणी भारतेश्वरी और आपको धन्यवाद देता हूँ, और मुझे पूरा यकीन है, कि इस पदवीके कारण मेरे राज्य और मेरी प्रजाकी सरसब्जी और बिह्तरी होगी. जबसेकि मैंने आपके शील स्वभाव और दूसरे बहुतसे उत्तम गुणोंकी प्रशंसा सुनी है, तबसे मुझको आपसे मिलनेकी दिली स्वाहिश थी, और खुश हूँ, कि मेरी वह अभिलाषा आज पूरी हुई. ईश्वर श्रीमती महाराजराणी भारतेश्वरीको बहुत अरसह तक खुशी और इक्बालमन्दीके साथ राज्याधिकारपर काइम रक्खे, और आपका प्रबन्ध भारतवासियोंके लिये फायदह पहुंचाने वाला और आपकी नेकनामीको बढ़ाने वाला हो, जिससे हिन्दुस्तानकी प्रजाके चित्तोंमें आपके राज्यशासनकी यादगार हमेशह के लिये काइम रहे.



स्पीच देते समय मौके मौकेपर हाज़िरीन जल्सह आल्हाद ध्वनिके साथ अपनी प्रसन्नता प्रगट करते रहे, और बड़ी देरतक स्पीचकी समाप्तिके पीछे भी उच्च स्वरसे आनन्द ध्वनि होती रही. इसके पश्चात् श्रीमान् वाइसरॉयने ऊपरकी स्पीचके जवाबमें नीचे लिखी हुई स्पीच दी:—

चित्तौड़के जल्सेमें वाइसरॉयकी स्पीच.

ऐ मेम साहिबो और जेंटलमेनों ! मैं आप लोगोंको यकीन दिलाता हूँ, कि श्री महाराणा साहिब उदयपुरकी तरफसे जो जाम तन्दुरुस्ती तज्वीज़ हुआ है, उसका मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, और जिन शब्दोंमें महाराणा साहिबने यह जाम तन्दुरुस्ती तज्वीज़ किया है उनका असर मेरे दिलपर बहुत ही हुआ. ऐ मेम साहिबो और


जेंटलमेनों, मैं निश्चय जानता हूँ, कि इस मौकेपर हाजिरीन जलसेमेंसे कोई शर्क्स ऐसा न होगा, जो उन शब्दोंको सुनकर प्रसन्न न हुआ हो. जिनमें कि श्री महाराणा साहिबकी तरफसे स्पीच पढ़ीगई, और कोई इंग्लिशमैन ऐसा न होगा, जिसको इस बातका फ़ख़्र न हुआ हो, कि ऐसे उत्तम वाक्य एक हिन्दुस्तानी रईसके मुंहसे निकले. मैं इस अवसरपर मौजूद होनेसे बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ, और खासकर इस बातसे प्रसन्न हूँ, कि पहिली ही बार अपनी महाराजराणी कैसरि हिन्दकी तरफसे मुझे आज्ञा मिली है, कि मैं इस देशके एक रईसको पूरी रीतिके साथ " नाइट ग्रैण्ड कमाण्डर ऑफ़ दि स्टार ऑफ़ इंडिया " की पदवी दूं, और यह ऐसा अवसर है, कि वह पदवी श्रीमान् महाराणा साहिब मेवाड़को दीगई. मैं इस बातसे बहुत खुश हूँ, क्योंकि श्री महाराणा साहिब प्रतिष्ठित प्राचीन और उत्तम कुलीन क्षत्रियोंमेंसे अव्वल दरजहके हैं. यह खानदान हिन्दुस्तानके इतिहासमें बहुत प्रसिद्ध है. मैं इस बातसे और भी अधिक प्रसन्न हुआ, कि श्री महाराणा साहिब केवल अपने उन्हीं उत्तम वर्तियों, और शील स्वभावोंसे प्रसिद्ध नहीं हैं, जोकि उनके बड़े खानदानमें पाये जाते हैं, बल्कि उस बुद्धिमानी और बुर्दवारीमें भी प्रसिद्ध हैं, जिससे वे अपनी प्रजापर हुकूमत करते हैं— और इसलिये मैं इस बातको बहुत ही योग्य समझता हूँ, कि मैंने अपने अधिकारके समयमें पहिली ही बार ऐसे प्रतिष्ठित खानदानी रईसको अपने बादशाहके नामसे यह पद दिया. मुझे यह भी निश्चित हुआ, कि यह स्थान बड़ा योग्य है, जिस जगहमें इस पदवीके देनेकी सभा हुई है.

ऐ मेम साहिबो और जेंटलमेनों, श्री महाराणाजीने हमको बड़े मनोहर वाक्योंसे चित्तौड़के इतिहासकी वह बातें याद दिलाई हैं, कि जिनके सबवसे चित्तौड़ प्रसिद्ध है. वे यादगारें उस वीरताका स्मरण कराती हैं, कि जो अन्य इतिहासोंमें बहुत कम मिलती है, और जिन वीरताओंमें इनके पुरुषा ही प्रसिद्ध नहीं थे, वरन उनके प्रसिद्ध घरानेकी स्त्रियां भी प्रसिद्ध थीं. इस किलेकी चोटीके गिर्द राजस्थानकी बहादुरियोंकी यादगारें जमा हैं. वे बहादुरीकी यादगार चीजें जो मैंने आज देखीं, याने वे सादे पत्थर जो वर्तमान समयके राजपूतोंके हाथसे यहां लगे हैं, उन पत्थरोंके देखनेसे हमको उन मनुष्योंका वह समय याद आता है, जबकि उनको यह निश्चित होगया, कि हमारे देशकी प्रतिष्ठा जाती है, तो उस बड़प्पनको काइम रखनेके लिये आप भी संग्राम भूमिमें लड़मरे.

ऐ मेम साहिबो और जेंटलमेनों, निस्सन्देह हम सबको अपने तई धन्यवाद देना चाहिये, कि हम इस उम्दह मौकेपर मौजूद हुए हैं, जो सबतरह खुशीसे

भराहुआ है, और मुझे बहुतही प्रसन्नताका काम सौंपागया, कि मैंने इस कुलीन प्रतिष्ठित रईसके गलेमें वह प्रतिष्ठित तमगह पहिनाया, जिसको बड़ी प्रतिष्ठाके साथ हमारी श्री मती महाराजराणी खुद पहिनती हैं, और इसी तमगेको हमारे शाही खानदानके लोग इज्जतका चिन्ह मानकर पहिनते हैं; मैं हकीकतमें यह देखकर प्रसन्न हुआ, कि श्री महाराणा साहिब कैसे सच्चे दिलसे इस तमगेका अर्थ लगाते हैं. चाहे कुछ लोगोंका यह खयाल हो, कि ऐसे प्राचीन घरानेका अधिकारी इस तमगेको वर्तमान समयकी उपाधि मानेगा, परन्तु श्री महाराणा साहिबने न्यायके साथ इसकी जांच करली है. उन्होंने समझलिया है, कि अगर्चि यह तमगह नई उपाधि है, परन्तु यह इसलिये काइम हुई है, कि बादशाह और उसकी हिन्दुस्तानी अमल्दारीमें एकताका दृढ़ सम्बन्ध जाहिर हो, और यह कि एक तरफ़ प्रीतिका और दूसरी तरफ़ वफ़ादारीका पूरा खयाल है. मुझे आशा है, कि इन दोनोंकी एकतासे ताज इंग्लिस्तान और हिन्दुस्तानके राजा व रईसोंका दर्मियानी सम्बन्ध दिनो दिन ज़ियादह मजबूत होता रहेगा.

ऐ मेम साहिबो और जेंटलमेनों, मुझे ज़ियादह कहनेकी ज़रूरत नहीं है, मैं केवल आप लोगोंसे यह चाहता हूं, कि तन्दुरुस्तीका एक जाम पियाजाये, जिसके लिये मैं उम्मेद करता हूं, कि आप सब बड़े आनन्दके साथ उसे नौश करेंगे. मैं आपसे चाहता हूं, कि आप अपनी तरफ़से उस रईसानह मिहमानदारीका धन्यवाद प्रगट करें जोकि हमारे लिये कीगई है, और हमारे बड़े कुलीन आतिथ्य कर्त्ताके लिये दुआ मांगें, कि इनकी बड़ी अवस्था हो, और उनका इकबाल हमेशह काइम रहे, जिसके कि वे पूरे योग्य हैं.



यह जाम तन्दुरुस्ती बड़े उत्साहसे पियागया और उच्च स्वरसे तीन बार आल्हाद जनक शब्द श्री महाराणाजीके लिये उच्चारण कियेजाकर एक अधिक आल्हाद ध्वनि फिर उच्चारण कीगई, और स्पीचके बीच बीचमें हाज़िरीन जल्सह खुशीकी आवाज़ें बलन्द करते रहे.

इसके बाद लेडियों और साहिब लोगोंका नाच और महाराणा साहिबकी तरफ़से उम्दह आतिशबाज़ीका तमाशा हुआ, और क़िले चित्तौड़पर लाखोटाकी बारीसे लेकर चित्तौड़ी बुर्जतक क़िलेकी दीवार, महलों, मन्दिरों और मनारों व मकानोंपर उम्दह रौशनी हुई. यह सब कैफ़ियत देखकर लाट साहिब बहुत खुश हुए. लॉर्ड सर जॉन लॉरेन्स पहिले वाइसरॉयके बेटे भी मए लेडी साहिबाके इस जल्सेमें शरीक थे.

विक्रमी मार्गशीर्ष शुक्ल ३ [हि० १२९९ ता० १ मुहर्रम = .ई० ता० २४ नोवेम्बर] को प्रातः कालके ८ बजे महाराणा साहिब मए अपने आठ सर्दारों और मुसाहिबोंके लाट साहिबसे रुखसती मुलाकात करनेको उनके डेरोंपर पधारे. लाट साहिबने महाराणा साहिबसे कहा, कि मैं इस पुराने किलेके देखने और आपकी मिह्मानदारीसे निहायत खुश होकर शुक्रियह अदा करता हूं. कुछ देर ठहरनेके बाद महाराणा साहिब अपने डेरोंको वापस आये, और सुबहके ११ बजे लाट साहिब स्पेशल ट्रेनमें सवार होकर अजमेरको सिधारे. महाराणा साहिबने अपने मिह्मानको रेल्वे स्टेशनतक पहुंचाया.

इस जल्सेमें स्वदेशी और विदेशी लोगोंका जो हुजूम एकट्ठा हुआ था, उसकी संख्या बाज अखवारोंमें ९०००० नव्वे हजार और लोगोंकी जवानी पचास साठ हजार के करीब सुनी जाती है, लेकिन मेरा अनुमान लोगोंके जवानी बयानसे कुछ कम है. विक्रमी मार्गशीर्ष शुक्ल ५ [हि० ता० ३ मुहर्रम = .ई० ता० २६ नोवेम्बर] को महाराणा साहिब किलेपर पधारकर फौजकी हाजिरी लेनेके बाद वापस डेरोंमें आये. इन्हीं दिनोंमें स्वामी दयानन्द सरस्वती भी चित्तौड़ गढ़की तलहटीमें आगये थे, और स्वामी जीवनगिरि पेशतरसे ही वहां मौजूद थे, दोनोंने आपसमें शास्त्रार्थ करनेका इरादह जाहिर किया, लेकिन महाराणा साहिबने विवाद बढ़जानेके खयालसे शास्त्रार्थ न होने दिया. विक्रमी मार्गशीर्ष शुक्ल ८ [हि० ता० ६ मुहर्रम = .ई० ता० २८ नोवेम्बर] को कर्नेल् सी० के० एम वाल्टर साहिब एजेण्ट गवर्नर जनरल राजपूतानह चित्तौड़में आये. उक्त साहिबको चित्तौड़में आनेके बाद शरदीकी बीमारी होगई थी, इस सबवसे विक्रमी पौष कृष्ण १४ [हि० ता० २७ मुहर्रम = .ई० ता० २० डिसेम्बर] को वापस रवानह होगये, और इसी दिन बम्बईके कमाण्डर इञ्चीफ आये, जिनकी महाराणा साहिबने बहुत अच्छी खातिरदारी की.

इतने अरसहतक महाराणा साहिबका चित्तौड़में ठहरना इस सबवसे हुआ, कि किले और उसके पुराने मकानोंकी मरम्मत करानेका वन्दोवस्त कियागया और इस कामके लिये २४०००० सालानह मरम्मत खर्च मुकर्रर करके इसी मौकेपर ढींकड़िया जगन्नाथको बैठककी इज्जत बरूझी. विक्रमी पौष शुक्ल ७ [हि० ता० ६ सफ़र = .ई० ता० २८ डिसेम्बर] को महाराणा साहिब जनानह समेत स्पेशल ट्रेनमें सवार होकर मांडल पधारे, और वहांसे वागौरमें महाराज शक्तिसिंहके यहां मिह्मान रहकर विक्रमी माघ शुक्ल ५ [हि० ता० ३ रवीउल्अव्वल = .ई० १८८२ ता० २४ जैनुअरी] को उदयपुरमें दाखिल होगये.

विक्रमी १९३९ चैत्र शुक्ल २ [हि० १२९९ ता० १ जमादियुल्अव्वल

.ई० १८८२ ता० २१ मार्च] को महाराणा साहिब महता माधवसिंहके मकानपर मिहमान हुए, और उसको खिल्अत और पैरमें सुवर्ण भूषण बख्शा. विक्रमी ज्येष्ठ कृष्ण ६ [हि० ता० २० जमादियुस्सानी = .ई० ता० ९ मई] को रेजिडेन्सी मेवाड़के .उह्देपर कर्नेल् यूएन स्मिथ काइममकाम नियत होकर आये, और डॉक्टर स्ट्रूटन यहांसे तब्दील होकर रेजिडेन्सी जयपुरके .उह्देपर गये.

इसी अरसहमें भौराईकी पालवाले भीलोंने मगरा जिलेके गिर्दावर दयालाल चौईसाको घेरकर फसाद खड़ा किया, और उनके साथ नठाराके भीलोंने भी सिर उठाया, जिनकी सजादिहीके लिये मामा अमानसिंह मए फौजके भेजागया. उसने कई गमेतियों को गिरिफ्तार करके भीलोंको पूरे तौरपर सजा दी, और महता गोविन्दसिंह हाकिम मगराने भी इस मौकेपर तन्दिहीके साथ काम दिया, जिसके .एवज विक्रमी ज्येष्ठ शुक्ल १२ [हि० ता० ११ रजब = .ई० ता० २९ मई] के दिन मामा अमानसिंहको पैरमें सोनेके लंगर और महता गोविन्दसिंहको खिल्अत इनायत कियागया. भौराईकी पालवाले भीलोंको बड़े लुटेरे और सर्कश देखकर महाराणा साहिबने वहां एक किला बनवाया और मजबूत थानह रखनेका हुकम दिया.

इस वर्षके प्रारम्भमें महाराणा साहिबने मुभ (कविराजा श्यामलदास) को बाग बनाने के लिये हाथीपौल दर्वाजहके बाहिर हवालेमें १० बीघेके अनुमान जमीन .इनायत की. जोकि महाराणा साहिबको अपने शहरकी रौनक बढ़ाने और .इमारती कामोंका बहुत शौक था, इसलिये दो तीन बार इस बगीचेमें पधारकर रास्तह, पट्टियां व .इमारत बगैरह बनवाने और दरख्त लगानेका तर्ज अपनी मर्जीके मुवाफिक डलवाया, और विक्रमी आश्विन शुक्ल १ [हि० ता० २९ जिल्काद = .ई० ता० १३ अक्टोबर] को हुकम देकर श्री करणी माताके मन्दिरमें मूर्ति स्थापनाकी प्रतिष्ठा करवाई. विक्रमी आश्विन शुक्ल ६ [हि० ता० ५ जिल्हिज = .ई० ता० १८ अक्टोबर] को महाराणा साहिबने इस बगीचेमें पधारकर मेरी तरफका गरीबी आतिथ्य कुबूल किया और मुभको खिल्अत बख्शकर बगीचेका नाम “ श्यामल बाग ” रक्खा. इस अवसरपर मैंने मारवाड़ी भाषामें एक काव्य बनाकर सुनाया, जो नीचे दर्ज कियाजाता है:-

छप्पय.

जिम जुहार ताजीम, पाय लंगर हिम पटके ॥
 पूरण बांह पशाव, खळां अदवां मन खटके ॥
 जाहर छडी जलेब, छाप कागळ बड़ छापण ॥

मांभो पाघ मभार, थरू बीड़ो जस थापण ॥
कविदास तेण कविराज कर, कठिन अंक विधि कापिया ॥
कर शुभ निगाह श्यामल कुरब, सज्जन राण समापिया ॥ १ ॥

विक्रमी मार्गशीर्ष कृष्ण १ [हि० १३०० ता० १३ मुहर्रम = ई० ता० २५ नोवेम्बर] को महाराणा साहिबकी भूवा कीकाबाजी (१) कृष्णगढ़से उदयपुर आई. महाराणा साहिब बड़े आदरके साथ चंपाबाग तक पेशवाई करके उनको महलोंमें लाये. विक्रमी मार्गशीर्ष कृष्ण १२ [हि० ता० २५ मुहर्रम = ई० ता० ७ डिसेम्बर] को शहरमें सज्जन-हॉस्पिटल नामी शिफाखानह खोलागया. विक्रमी मार्गशीर्ष शुक्ल २ [हि० ता० ३० मुहर्रम = ई० ता० १२ डिसेम्बर] को कर्नेल् वाल्टर रेजिडेन्सी मेवाड़के उद्देपर वापस आये, और दो रोज बाद कर्नेल् स्मिथ गये. इन्हीं दिनोंमें काशीसे प्रसिद्ध विद्वान बाबू हरिश्चन्द्र आया, जिसको मार्गशीर्ष शुक्ल १५ [हि० ता० १२ सफ़र = ई० ता० २४ डिसेम्बर] को खिल्अत देकर विदा किया. विक्रमी माघ शुक्ल २ [हि० ता० ३० रबीउलअव्वल = ई० १८८३ ता० ९ फ़ेब्रुअरी] को ४ घड़ी दिन चढ़े ईडरवाली छोटी महाराणी साहिबाके गर्भसे महाराजकुमारका जन्म हुआ. इस समयकी खुशीका बयान नहीं होसक्ता, क्योंकि ५५ वर्षके बाद इस रियासतमें यह आनन्दका समय प्राप्त हुआ था. उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, मांडलगढ़, जहाज़पुर वगैरह सर्कारी स्थानों और उमराव लोगोंके ठिकानोंमें खबर पहुंचतेही बड़ी खुशीके साथ तोपोंके फ़ाइर और जल्से शुरू होगये. महाराणा साहिब स्वरूपविलासमें आबिराजे, और हम लोगोंने उनके सामने मुट्टियां भरभर कर हज़ारों रुपये और अश्रफ़ियां गरीबोंको लुटाना शुरू किया. केवल उदयपुरमें ही नहीं बल्कि जयपुर, जोधपुर वगैरह राजपूतानहकी दूसरी रियासतोंमें भी इस खबरके पहुंचतेही तोपोंकी सलामी और खुशीके जल्से शुरू होगये. महाराणा साहिबने इस मौकेपर १० लाख रुपया खर्च करना तज्वीज़ किया था, लेकिन् अप्सोस कि उसी रोज रात्रिके १२ बजे उस आनन्द दायक कुमारका परलोक-वास होगया और खुशीके एवज़ चारों तरफ़ शोक छागया. विक्रमी माघ शुक्ल १० [हि० ता० ७ रबीउस्सानी = ई० ता० १६ फ़ेब्रुअरी] को महाराणा साहिबकी भूवा सौभाग्य कुंवर रीवांसे उदयपुर आई, जिनको महाराणा साहिब चंपाबाग तक पेशवाई करके महलोंमें लेआये. यह महाराणा सर्दारसिंहकी बेटी और रीवांके महाराजा

(१) यह महाराणा भीमसिंहकी पोती और कुंवर अमरसिंहकी बेटी कृष्णगढ़के महाराजा शार्दूल-सिंहकी दादी हैं.

रघुराजसिंहकी टीकेत महाराणी थीं. विक्रमी फाल्गुन कृष्ण ५ [हि० ता० १८ रबीउ-
स्सानी = .ई० ता० २७ फ़ेब्रुअरी] को स्वामी दयानन्द सरस्वती महाराणा साहिबसे
विदा होकर जोधपुरकी तरफ़ गये. विक्रमी चैत्र कृष्ण ४ [हि० ता० १७ जमादियुल्-
अव्वल = ई० ता० २७ मार्च] को महाराणा साहिबने मुझे महाराजा जशवन्तसिंह
साहिबकी सिहतपुरीके लिये जोधपुर भेजा, क्योंकि उक्त महाराजा साहिबके कण्ठमें
बहुत सख्त दर्द होगया था. जोधपुरसे वापस आनेके कुछ दिन बाद मेरी आंखमें
सख्त दर्द पैदा हुआ, जिसका इलाज पादरी डॉक्टर समरविल और रेजिडेन्सी सर्जन
डॉक्टर मलन साहिबने दो महीनेतक किया, लेकिन कुछ फ़ायदह न हुआ, तब
विक्रमी १९४० आषाढ कृष्ण २ [हि० ता० १६ शअबान = .ई० ता० २२
जून] को महाराणा साहिबने साइरके दारोगह, महद्राज सभाके मेम्बर और मेरे मित्र
पंडित ब्रजनाथको साथ देकर मुझे इन्दौर भेजा. वहां डॉक्टर कीगनने मेरा बहुत अच्छा
इलाज किया. ईश्वरने कुछ दिनोंके लिये फिर जिन्दगी और आंखकी रौशनी बख़्शी
जिससे मैं अबतक अपने शारीरक व्यवहार और यथाशक्ति अपने स्वामीकी सेवा
करता हूं. विक्रमी श्रावण शुक्ल १५ [हि० ता० १४ शव्वाल = .ई० ता० १८
ऑगस्ट] को महाराणा साहिबने सज्जनगढ़का खातमुहूर्त किया. इस मौकेपर मैं भी
इन्दौरसे आकर जल्सेमें शरीक होगया.

इसी अरसहमें जोधपुरके महाराजा जशवन्तसिंह साहिब मए अपने भ्राता
कर्नेल् प्रतापसिंहके उदयपुरमें आये, जिसका हाल इस तरहपर है, कि महाराणा
साहिबने जबसे राजपूतानहमें एकता फैलाई और इन महाराजा साहिबसे मित्रता
की, और महाराजा साहिबकी बहिनके साथ महाराणा साहिबकी शादी करदेनेका
विचार हुआ, तबसे दिन ब दिन स्नेह बढ़ता ही गया; सिवा इसके बहुत दिनोंसे
महाराजा साहिब भी उदयपुरमें आनेका विचार करते थे. आखरकार विक्रमी
चैत्र कृष्ण १२ [हि० १३०१ ता० २५ जमादियुल्अव्वल = .ई० १८८४ ता०
२४ मार्च] को जोधपुरसे प्रस्थान करके पाली, अजमेर, व चित्तौड़गढ़ होकर स्पेशल
ट्रेन द्वारा विक्रमी चैत्र कृष्ण ११ [हि० ता० २८ जमादियुल्अव्वल = .ई० ता० २७
मार्च] के दिन प्रातः कालके ७।। वजे नीवाहेड़ाके स्टेशनपर पहुंचे. महाराजा साहिबके
साथ उनके छोटेभ्राता कर्नेल् प्रतापसिंह, महाराज ज़ोरावरसिंहका पुत्र फ़तहसिंह, नीमाज
का ठाकुर छत्रसिंह, रोयटका ठाकुर गिरधारीसिंह, भूमलियाका ठाकुर रणजीतसिंह,
कविराजा मुरारिदान, खानबहादुर फ़ैजुल्लाहखां, शोभावत रणजीतसिंह, फज़्लरुसूल,
रिसालदार वज़ीरअली, महता कुन्दनलाल, ड्यौड़ीदार शोभावत सहसकरण, और

मीर फ़य्याज़अली वगैरह अनुमान ३०० आदमी थे. महाराणा साहिबकी तरफ़से पेशवाईके लिये हमीरगढ़का रावत नाहरसिंह, भदेसरका रावत भोपालसिंह, कायस्थ फूलनाथ, और कायस्थ ज़ालिमचन्द स्टेशनपर मौजूद थे; सर्वराहकी सब सामग्री का प्रबन्ध भी महाराणा साहिबकी तरफ़से होगया था. नवाब टोंककी तरफ़से नाबाहेड़ाका आमिल और शाहज़ादह महमूदखां मौजूद था. वहांसे बग्घी, घोड़े, हाथी व पालकी वगैरहकी डाक लगी हुई थी, महाराजा साहिब शामके ४॥ बजे खानह हुए और मंगरवाड़के बंगलेमें भोजन व शयन करके विक्रमी १९४१ चैत्र शुक्ल १ [हि० ता० २९ जमादियुलअव्वल = .ई० ता० २८ मार्च] को दस बजे डबोक के बंगलेमें पहुंचे, जहां कुछ देर ठहरकर ११॥ बजे उदयपुरके सूरजपौल दर्वाज़ह बाहिर चंपावागमें दाखिल होगये. महाराजा साहिबने महाराणा साहिबको बीमार होनेके कारण पेशवाई करनेके लिये मना करदिया था, इसलिये महाराणा साहिब तो न गये, और मैं (कविराजा श्यामलदास) और महता तरुतसिंह, दोनों धवा बदनमल्लकी बावड़ीतक जाकर उक्त महाराजाको लेआये. शामके वक्त महाराजा साहिब चंपावागसे बग्घी सवार होकर उदयपुरके फ़ौजी रिसाले, बैण्ड बाजे और बॉडीगार्डके साथ सूरज पौल दर्वाज़हके रास्तेसे बड़े बाज़ारमें होकर शम्भुनिवासमें बग्घीसे उतरे. वहांपर सर्दारगढ़का ठाकुर मनोहरसिंह, मैं (कविराजा श्यामलदास) और महता राय पन्नालाल अग्रगामिता करके उन्हें भीतर लेगये. महाराणा साहिब और महाराजा साहिब आपसमें मिलकर बहुत खुश हुए. फिर महाराणा साहिब तो अखाड़ेके महल में पधारे और महाराजा साहिबने शम्भुनिवासमें शयन किया. इनकी सर्वराहके लिये मैं (कविराजा श्यामलदास) और महासाणी मोतीलाल मए कई अहलकारोंके तईनात कियेगये थे. दूसरे दिन विक्रमी चैत्र शुक्ल ३ [हि० ता० १ जमादियुस्सानी = .ई० ता० २९ मार्च] को महाराजा साहिबने जल विमान नामक नौकामें सवार होकर पीछोला तालाबकी सैर की, और गनगौरका मेला देखा. महाराणा साहिबने बीमारी की नाताकतीके सबब सवारी नहीं की. विक्रमी चैत्र शुक्ल ४ [हि० ता० २ जमादियुस्सानी = .ई० ता० ३० मार्च] को शहरकोटके करीब तीखल्या पहाड़में एक सुनहरी शेरनीके आनेकी खबर मिली, लेकिन महाराणा साहिब तो बीमारीके सबब न पधारसके, और महाराजा साहिबने जाकर उस शेरनीका शिकार किया. विक्रमी चैत्र शुक्ल ५ [हि० ता० ३ जमादियुस्सानी = .ई० ता० ३१ मार्च] को महाराणा साहिब और महाराजा साहिब दोनोंने बड़ी नावमें सवार होकर गनगौरका मेला व आतिशबाज़ीका तमाशा देखा. इसी तरह दूसरे और तीसरे

दिन भी मुहब्बतके साथ मिलना जुलना हुआ और सैर व तमाशा देखागया.

इन्हीं दिनोंमें कृष्णगढ़के महाराजा शार्दूलसिंह साहिब भी उदयपुरमें आ पहुंचे. यह विक्रमी चैत्र शुक्ल ६ [हि० ता० ४ जमादियुस्सानी = .ई० ता० १ एप्रिल] को कृष्णगढ़से खानह होकर विक्रमी चैत्र शुक्ल ७ [हि० ता० ५ जमादियुस्सानी = .ई० ता० २ एप्रिल] के प्रातःकालको नींबाहेड़े, शामको मंगरवाड़ और विक्रमी चैत्र शुक्ल ८ [हि० ता० ६ जमादियुस्सानी = .ई० ता० ३ एप्रिल] के रोज़ करीब ११ बजे दिनको उदयपुरमें दाखिल हुए. इन दिनोंमें महाराणा साहिबकी तबीअत अलील होनेके सबब पेशवाई नहीं हुई, और सरबराह बगैरहका उम्दह बन्दोबस्त किया गया. विक्रमी चैत्र शुक्ल ९ [हि० ता० ७ जमादियुस्सानी = .ई० ता० ४ एप्रिल] को दोनों महाराजा साहिबोंके कहनेपर महाराणा साहिबने बड़ी पौलके रास्तहसे तरुतकी सवारी की, और दोनों महाराजा साहिब घोड़ोंपर सवार होकर मुहब्बतके कारण तरुतके आगे होलिये. गनगौर घाटसे तीनों अधीश नाव सवार होकर मेला, आतिशबाजी व तालाबकी सैर देखते हुए शम्भुनिवासमें पहुंचे, और अपने अपने स्थानोंमें शयन किया. विक्रमी चैत्र शुक्ल १० [हि० ता० ८ जमादियुस्सानी = .ई० ता० ५ एप्रिल] को तीनों महाराजाओंने शामके वक्त शम्भुनिवास महलमें शौकिया बातें कीं. दूसरे दिन भी इसी प्रकारका बर्ताव रहनेके बाद विक्रमी चैत्र शुक्ल १२ [हि० ता० १० जमादियुस्सानी = .ई० ता० ७ एप्रिल] की शामको महाराणा साहिबने दस्तूरी दर्बार करके अपने सदांरों व अहलकारोंसे महाराजा साहिब जोधपुरको नज्जानह करनेका दस्तूर करवाया. इसी तरह दूसरा दिन भी खुशीके साथ गुजरा, और विक्रमी चैत्र शुक्ल १४ [हि० ता० १२ जमादियुस्सानी = .ई० ता० ९ एप्रिल] को शामके ६॥ बजे मेरे (कविराजा श्यामलदासके) बागमें तीनों अधीश पधारे और मेरी तरफकी रूखी सूखी दावत कुबूल फर्माकर महलोंमें तशरीफ़ लेआये. विक्रमी चैत्र शुक्ल १५ [हि० ता० १३ जमादियुस्सानी = .ई० ता० १० एप्रिल] को महाराजा जशवन्तसिंह साहिब बग्घीसवार होकर श्री एकलिङ्गेश्वरके दर्शन करके वापस उदयपुर में पधारे. विक्रमी वैशाख कृष्ण १ [हि० ता० १४ जमादियुस्सानी = .ई० ता० ११ एप्रिल] को तीनों अधीश हाथियोंकी लड़ाई देखकर मामा बरुतावरसिंहकी हवेलीपर पधारे और उसकी तरफकी गोट अरोगकर महलोंमें तशरीफ़ लेआये. विक्रमी वैशाख कृष्ण २ [हि० ता० १५ जमादियुस्सानी = .ई० ता० १२ एप्रिल] को फौजके लोग शक्तावत् केसरीसिंह बगैरहको बोहड़ासे उदयपुरमें लाये, जिसका तफ्सीलवार हाल आगे लिखाजायेगा. विक्रमी वैशाख कृष्ण ३ [हि० ता० १६ जमादियुस्सानी = .ई० ता०

१३ एप्रिल] को तीनों अधीशोंने शामके वक्त नौका सवार होकर धींगा गनगौर (१) का मेला देखा. विक्रमी वैशाख कृष्ण ४ [हि० ता० १७ जमादियुस्सानी = .ई० ता० १४ एप्रिल] के दिन तीनों अधीश रेजिडेंसीको तश्रीफ़ लेगये, जहां कर्नेल वाल्टर रेजिडेण्ट मेवाड़की तरफसे उनकी दावत थी; खाना, नाच, राग रंग व इत्र पान होनेके बाद तीनों अधीश वापस महलोंमें तश्रीफ़ लाये. फिर वैशाख कृष्ण ५-६ [हि० ता० १८-१९ जमादियुस्सानी = .ई० ता० १५-१६ एप्रिल] को जगमन्दिर व जगन्निवासका देखना, हौज़ व फव्वारोंका जलसह और गोवर्द्धनविलास व उदयपुरकी फ़ौजका परेड देखना वगैरह होता रहा. विक्रमी वैशाख कृष्ण ७ [हि० ता० २० जमादियुस्सानी = .ई० ता० १७ एप्रिल] की शामको जोधपुरके महाराजा साहिबको रुखसत दीगई, महाराणा साहिबने दस्तूरके मुवाफ़िक़ वस्त्रालङ्कारकी २१ किश्तियां और लड़ाईका एक हाथी मेदिनी-मल्ल और दो घोड़े महाराजा जशवन्तसिंह साहिबको, ४ किश्तियां और १ घोड़ा महाराज प्रतापसिंहको, और ३ किश्तियां तथा १ घोड़ा कुंवर फ़तहसिंहको दिया. अलावह इन चीज़ोंके मुहब्बत व रिश्तहदारीके सबब श्री महाराजा साहिबको सवारीके लिये दो हाथीके बच्चे और दो घोड़े, तलवारें, खुकुड़ी, और जम्घर वगैरह शस्त्र ज़ियादह देकर खुद महाराणा साहिब नाहरमगरेतक पहुंचानेको गये. फिर महाराजा साहिब तो राजसमुद्र होते हुए देसूरीकी तरफ़ होकर मारवाड़को सिधारे, और महाराणा साहिब मए कृष्णगढ़ महाराजा साहिबके उदयपुर आये. विक्रमी वैशाख कृष्ण १३ [हि० ता० २६ जमादियुस्सानी = .ई० ता० २३ एप्रिल] को महाराजा कृष्णगढ़ महाराणा साहिबके पास दस्तूरी दरवारमें शम्भुनिवास आये, जिनको १५ किश्तियां वस्त्रालङ्कार की और एक हाथी व दो घोड़े दियेगये. फिर महाराणा साहिब महाराजा साहिबके पास खुशमहलमें जाकर विदायगीका दस्तूरी दरवार करके वापस आये. शामके वक्त दोनों अधीश महता माधवसिंहके मकानपर तश्रीफ़ लेगये, और दावतका भोजन अरोगकर वापस आये. इसी तरह विक्रमी वैशाख शुक्ल ३ [हि० ता० २ रजव = .ई० ता० २८ एप्रिल] को महता तरुतसिंहकी हवेलीपर दावत हुई, और दोनों अधीश तश्रीफ़ लेगये. विक्रमी वैशाख शुक्ल ६ [हि० ता० ५ रजव = .ई० ता० १ मई] के दिन महाराणा साहिबने कृष्णगढ़के महाराजा साहिब और अपनी भूवा कीका बाजीको विदा किया. उदयपुरसे कूच होकर सहेलियोंकी बाड़ीमें मक़ाम हुआ.

(१) धींगा गनगौरका त्यौहार किसी दूसरी रियासतमें नहीं होता, महाराणा साहिबके पूर्वजोंमेंसे किसीने वे काइदह इस गनगौरका निकालना शुरू किया, और इसी सबबसे यह त्यौहार धींगा गनगौरके नामसे प्रसिद्ध हुआ. हमारी तहकीक़ातसे महाराणा अचवल राजसिंहका इस त्यौहारको प्रचलित करना पायाजाता है.

महाराणा साहिब भी इनको पहुंचानेके लिये सहेलियोंकी बाड़ी पधारे थे, सो रातभर वहां ही रहे, और कृष्णगढ़ वाली महाराणी साहिबा अपनी दादीको पहुंचानेके लिये नाथद्वारेतक गईं. दूसरे दिन सुबहके वक्त कृष्णगढ़के महाराजा सहेलियोंकी बाड़ीसे रवानह हुए और श्री एकलिङ्गेश्वर, नाथद्वारा, कांकड़ोली व शाहपुरा होते हुए कृष्णगढ़ पहुंचे. इन महाराजाओंके उदयपुरमें आनेका जल्सह बड़ी धूमधामके साथ हुआ, जिसमें करीब ८०००० अस्सी हजार रुपया खर्च पड़ा.

बोहड़ेपर फौजका भेजा जाना.

बोहड़ेका ठिकाना उदयपुरके महाराणा भीमसिंहने भींडर महाराज मुहकमसिंहके छोटे बेटे फतहसिंहको जागीरमें दिया था. जब फतहसिंह बिना सन्तानके मरगया और भींडरके महाराज जोरावरसिंहके कोई पुत्र नरहा, तब ग्राम सकतपुरा (१) का शक्तावत बरूतावरसिंह फतहसिंहके गोद रक्खा गया, और भींडर महाराज जोरावरसिंहका देहान्त होनेपर महाराज हमीरसिंह भी पान्सलसे दत्तक लायागया. इस ठिकाने वाले भींडरसे बहुत दूर मिलते थे. तब बरूतावरसिंहने फतहसिंहके दत्तक होनेके कारण भींडर महाराज जोरावरसिंहकी गोद बैठनेका दावा किया, और बहुतसी लड़ाइयां लड़ा, लेकिन भींडरपर हमीरसिंह ही साबित रहा. विक्रमी १९१७ [हि० १२७७ = ई० १८६०] में बरूतावरसिंह भी बिना सन्तानके मरगया, परन्तु मरते वक्त सकतपुरा (शक्तिपुरा) से अपने भतीजे अदोतसिंहको गोद रखगया. इसके बाद महाराणा स्वरूपसिंह साहिबका भी देहान्त होगया, और उदयपुरमें महाराणा शम्भुसिंह साहिबकी बाल्यावस्थाके कारण राज्य कार्योंमें एजेण्टीका प्रबन्ध होगया, और पंच सर्दार राज्यके मुसाहिब बने. यह बोहड़ेका दावा भींडर वाले हमीरसिंहने विक्रमी १९१८ [हि० १२७८ = ई० १८६१] में एजेण्ट साहिबके सामने पेश किया, लेकिन अदोतसिंहको महाराणा स्वरूपसिंह साहिबने मन्जूर करलिया था, इसलिये अदोतसिंह ही काइम रक्खा गया, मगर इस वक्त यह करार पाकर, कि अदोतसिंहके पुत्र हो, तो वह छोटा माना जावे, और बड़ेका मर्तबह भींडर महाराज हमीरसिंहके छोटे पुत्र शक्तिसिंहको हासिल हो, देवाखेड़ा और बांसड़ा नामके दो ग्राम शक्तिसिंहके कबजहमें करादिये गये,

(१) सकतपुरा वाले भींडरसे कई पीढ़ियोंमें मिलते हैं.

परन्तु ईश्वरकी इच्छासे थोड़े ही दिन बाद शक्तिसिंह भी गुजर गया, और उसके एक छोटा पुत्र था वह भी मरगया; तब भींडर महाराज हमीरसिंहने अपने तीसरे पुत्र रत्नसिंहको अदोतसिंहके दत्तक रखनेका दावा किया, जिसको महाराणा शम्भुसिंह साहिबने मन्जूर फर्मा लिया, लेकिन् अदोतसिंहने उसे स्वीकार नहीं किया, बल्कि भींडर व बोहड़ा-वालोंके आपसमें कई जगह लड़ाइयां भी हुई, परन्तु कुछ मत्लब न निकला. तब महाराणा शम्भुसिंह साहिबके वैकुण्ठवास होने बाद भींडरके महाराज मदनसिंहने महाराणा सज्जनसिंह साहिबकी सेवामें रत्नसिंहका दावा पेश किया. उसको महाराणा साहिबने स्वीकार करके रत्नसिंहको अदोतसिंहके ज्येष्ठ पुत्रकी नशिस्तपर बिठाकर बांसड़ा व देवाखेड़ा उसके खर्चके लिये अदोतसिंहसे दिलवानेकी आज्ञा दी. अदोतसिंहने अधीशकी आज्ञाके विरुद्ध सकतपुरासे अपने भतीजे केसरी-सिंहको दत्तक रख लिया, और रत्नसिंहको ग्राम देनेसे इन्कार किया. तब अधीशने नाराज होकर बोहड़ा पट्टाके ग्राम मंगरवाड़, देवाखेड़ा व बांसड़ापर खालिसह भेज दिया. अदोतसिंहने कहा, कि अधीश तो हमारे स्वामी हैं, बोहड़ा भी छीन लें, तो हाजिर है, लेकिन् भींडर महाराजको तो एक बीघा जमीन भी देना मन्जूर नहीं; और मैंने केसरीसिंहको दत्तक रक्खा है वही ठिकानेका मालिक होगा. आखरकार विक्रमी १९४० फाल्गुन शुक्ल [हि० १३०१ जमादियुल्अव्वल = .ई० १८८४ मार्च] में अदोतसिंहका इन्तिकाल होगया, तब भींडरके महाराज मदनसिंह और रत्नसिंहने अपना हक मिलनेका दावा किया. इसपर महाराणा साहिबने सात दिनकी मीआदका एक तहरीरी हुकम केसरीसिंह व उसके जागीरदारों तथा बरूतावरसिंह और अदोतसिंहकी स्त्रियोंके नाम लिखा भेजा, कि तुम लोग इस मीआदके भीतर यहां चले आओ, अगर उदूल हुकमी करोगे, तो सजा पाओगे. इसी हुकमके साथ महता गोपालदासको मए तीन सौ सिपाहियोंके बोहड़ेपर सर्कारी क़बज़ह करनेके लिये भेज दिया, क्योंकि इस रियासतके कुल जागीरदार राजपूतोंमें आम क़ाइदह है, कि जब किसी जागीरदारका इन्तिकाल होजाता है तो उसके ठिकानेपर शुरूमें सर्कारी खालिसह भेज दिया जाता है, और कुछ दिनों बाद उस जागीरदारके बेटेको वही ठिकाना और वही खिताब इनायत होजाता है; परन्तु केसरीसिंहने महता गोपालदासको बोहड़ा ग्रामके भीतर नहीं घुसनेदिया, और कहला दिया, कि भीतर आओगे तो हम गोलियां चलावेंगे. आखरकार उदूल हुकमीके कारण विक्रमी चैत्र कृष्ण ७ [हि० ता० २० जमादियुल्अव्वल = .ई० ता० १९ मार्च] की पिछली रातको उदयपुरसे बोहड़ेकी तरफ़ फौज रवानह हुई. शम्भु और सज्जन पलटन और फ़र्स्ट केवलरी रिसाला

दो तोपें और तोपखानह व पलटनका अपसर लोनागिन साहिब और राय पन्नालाल महताका छोटा भाई लक्ष्मीलाल खानह हुए, और मगरा जिलेसे भीमपलटन तथा चित्तौड़गढ़से भीलपलटन भेजी गई. बोहड़ेमें पहुंचकर महता लक्ष्मीलालने उन लोगों को बहुत कुछ समझाया, लेकिन उन्होंने हुकमकी तामील करनेसे इन्कार किया, तब गोलन्दाजी शुरू की गई. अर्घि बोहड़ेमें कोई किला नहीं है, लेकिन रावतके मकानके चारों तरफ़ प्रजाके घर होनेके सबब वह बेलाग है, और भीतर पानीका एक कुआँ भी मौजूद है. इसके अलावा खानेपीनेका सामान भी उन लोगोंने एकट्ठा कर लिया था, और आम रास्ते मजबूत फाटकोंसे बन्द कर दिये थे. अधीशकी आज्ञा थी, कि फौज भी हमारी और भीतरके राजपूत भी हमारे ही हैं, और दोनों तरफ़के आदमी मारेजानेमें हमारा ही नुकसान है, इसलिये बगैर खूरेजीके वे लोग चले आवें तो ठीक है. फौजके अपसरोंने भी उनके डरानेके लिये गोले चलाये. सुबह शाम गोले चलते रहे, लेकिन उन लोगोंने हुकमकी तामील बिल्कुल न की, तब फौजको हमलह करनेका हुकम पहुंचा. विक्रमी १९४१ चैत्र शुक्ल ११ [हि० १३०१ ता० ९ जमादियुस्सानी = ई० १८८४ ता० ६ एप्रिल] को प्रातः कालके छः बजेसे फौजने हमलह शुरू किया. बोहड़ेमें केसरीसिंहके पास ४०० लड़नेवाले आदमी मौजूद थे, तोपोंसे आमके रास्तेकी फाटकें तोड़ दी गई, और पैदलोंने हमलह कर दिया. भीतरसे भी जिन लोगोंने मोर्चे लेर रखे थे, गोलियोंके चलानेमें कोताही न की; दो आदमी भीलपलटन के मारे गये. थोड़ी देरके बाद उन लोगोंने पछेवड़ी फेरी, जोकि लड़ाई बन्द करनेकी प्रार्थना का एक चिन्ह है. यह देखकर फौजके अपसरोंने बिगुल बजाकर लड़ाई बन्द कर दी; लेकिन कुछ देर पीछे धोखा देकर बोहड़े वालोंने एक दम बन्दूकें चलाई, परन्तु फौजके आदमियोंको नुकसान नहीं पहुंचा, वरन् इस हमलेमें सौ दोसौ आदमियोंका मारा जाना संभव था. गांवमें आग भी लग गई. दिनके तीन बजे केसरीसिंह व शोभालाल कामदार, जो इस फ़सादका मूल कारण था, मए औरत, बच्चों व राजपूतोंके मकानसे निकलकर फौजके आदमियोंपर गोलियां चलाते हुए निकल भागे. जो लोग उनको भागते वक्त गिरिफ्तार करनेके बन्दोबस्तपर थे उन्होंने पीछा किया, परन्तु बोहड़ा वालोंने भागकर एक मोर्चा जालिया, जिसको कि उन्होंने एक खेतमें मिट्टीसे तय्यार किया था, और वहांसे गोलियां चलाने लगे. जब फौजवालोंने हमलह करके उस मोर्चेको तोड़ डाला, तो वे लोग लड़ते हुए एक नालेमें पहुंचे, और वहां भी मोर्चा लेकर लड़ने लगे. फौजके लोगोंने हमलह करके उस मोर्चेको भी छीन लिया, तब वे लोग पहाड़की तरफ़ चले, लेकिन फौजका हमलह जबर्दस्त होनेके कारण

औरतोंको छोड़कर मैदानमें खड़े होगये, और मुस्तद्दीके साथ गोलियां चलाने लगे. इस वक्त रिसालदार बहादुर गुलशेरखांके दाहिनी पसलीमें गोली लगी, और वह गिरा; उसके गिरते ही रिसाले वालोंने जोशमें आकर एकदम हमलह करदिया. इस हमलेमें दफेदार हीरासिंहकी छातीमें गोली लगी. इन दोनों अप्सरोंके मारेजानेसे सिपाहियोंने ऐसी तेजीसे हमलह किया, कि उनको दूसरी दफा बन्दूकें नहीं भरने दीं, और केसरीसिंह व शोभालाल वगैरहके हथियार डलवाकर उन्हें कैद करलिया. वे लोग औरतों समेत फौजमें लायेगये. महता लक्ष्मीलाल ने औरतोंको तो रसीद लेकर बानसीके रावत् मानसिंहके सुपुर्द करदिया, और ३८ आदमी पकड़े गये. १३ आदमी ज़रूमी होकर गिरिफ्तार हुए, और बाकी आग लगजानेसे धुएँकी धुंधलाहटमें भागगये. महता लक्ष्मीलालने महाराणा साहिबकी आज्ञानुसार बोहड़ाका बन्दोबस्त महता गोपालदासके सुपुर्द करके फौज और कैदियों समेत वहांसे कूच किया. ये लोग विक्रमी वैशाख कृष्ण २ [हि० ता० १५ जमादियुस्सानी = ई० ता० १२ एप्रिल] की शामको ५ बजे उदयपुरमें हाज़िर होगये.

लड़ाईमें मारेजाने वालों और ज़रूमियोंकी फ़िहरिस्त.

राज्यकी फौजके जो आदमी और घोड़े मारेगये और ज़रूमी हुए वे नीचे दर्ज किये जाते हैं:-

(मारेगये)

- १- रिसालदार बहादुर गुलशेरखां, दूसरे रिसालेका.
- २- दफेदार हीरासिंह, दूसरे रिसालेका.
- ३- नायक धनलाल, तीसरी कम्पनी चित्तौड़ पलटनका.
- ४- राजपूत गुलाबसिंह सिपाही, सज्जनपलटन कम्पनी अक्वलका.

(ज़रूमी हुए)

- १- तोपखानहके लेफ्टिनेण्ट मुमताज़अलीके पैरमें खफ़ीक़ गोली लगी.
- २- सिकन्दरखां रिसाले अक्वल छब्बीसकी जांघमें सख्त गोली लगी, जो निकाली गई.

- ३- महबुल्लाहखां रिसाले अक्वल छब्बीसके खफ़ीफ़ गोली लगी.
- ४- राजपूत गुलाबसिंह सजनपलटन अक्वल कम्पनी वालेको खफ़ीफ़ गोली लगी.
- ५- कुबेरसिंह सजनपलटन तीसरी कम्पनी वालेके पैरमें सरुत गोली लगी.
- ६- देवीसिंह सजनपलटन अक्वल कम्पनी वालेके पैरमें गोलीकी चरपट लगी.
- ७- गोविन्दसिंह चहुवान सजनपलटन अक्वल कम्पनी वालेके पैरोंमें गोलीकी चरपट लगी.
- ८- सूबहदार गणेशराम सजनपलटन अक्वल कम्पनी वालेके खफ़ीफ़ गोली लगी.
- ९- लैस करीमवरुझ दूसरे रिसाले वालेके कानके पास गोली लगी.
- १०- दूसरे रिसालेके सवार सुखमखांकी जांघमें सरुत गोली लगी.
- ११- अहमदखां सवार, रिसाला दुवुमके खफ़ीफ़ गोली लगी.
- १२- नायक हरजी सोमाका, मुलाजिम भील कम्पनी अक्वल चित्तौड़ पलटनके मुंहपर सरुत गोली लगी.
- १३- सिपाही जामा भेघाका, भील कम्पनी दुवुम चित्तौड़ पलटनके सरुत गोली लगी.
- १४- बिगुल्ची भोगा दल्लाका, मुलाजिम भील कम्पनी अक्वल चित्तौड़ पलटनके खफ़ीफ़ गोली लगी.

(घोड़े जो मरे और ज़रुमी हुए)

- १- तोपखानहका सर्कारी घोड़ा, जिसपर लेफ़्टिनेण्ट मुस्ताजअल्ली सवार था, मारा गया.
- १- दूसरे रिसालेके सुखमखांका घोड़ा ज़रुमी हुआ.
- १- अहमदखां दूसरे रिसालेके सवारका घोड़ा ज़रुमी हुआ.

बोहड़ा वालोंके जो लोग मारेगये और ज़रुमी हुए उनकी फ़िहरिस्त नीचे लिखे मुवाफ़िक़ है :-

(मारेगये)

- १- चूडावत तरुतसिंह ग्राम सुरेड़ाका; २- अभयसिंह सोलंखी सेमारीका;
- ३- गुलाबसिंह चूडावत बोहड़ाका; ४- ब्राह्मण मोड़ा चौईसा; ५- विलायती कमालखां
- ग्राम खेजड़ीका; ६- चाकर प्यारा; ७- चाकर गोपालया; ८- शकावत

हमीरसिंह मांडकलाका; ९- बाबा भगवानदास ग्राम खेजड़ीका; १०- सिपाही यार-
मुहम्मदखां बड़ी सादड़ीका; ११- जवानसिंह सारंगदेवोत भूरक्याका; १२- कुशल-
सिंह राठौड़ ग्राम सीवासका; १३- गुमानसिंह भाखरोत गुढाका; १४- रूपा चाकर;
१५- चाकर पन्ना; १६- चाकर पृथ्वीराज; १७- ब्राह्मण नाम ना मालूम; १८- महाजन
नाम ना मालूम.

(ज़रूमी हुए)

- १- गिरवरसिंह वलद किशोरसिंह शक्तावत, .उम्र वर्ष १८, सिकने बोहड़ा.
यह शरूस् केसरीसिंहका भाई है, इसके कमरमें गोली लगी जो पार होकर
निकल गई, और बाएं हाथके पंहुंचेपर फिर एक दूसरी गोली लगी.
- २- बाघजी वलद जवानसिंह शक्तावत सि० बोहड़ा, .उम्र वर्ष ४५, बाएं पैरकी
पिंडलीपर गोली लगी.
- ३- नवलसिंह वलद पनजी सि० सेमारी कौम शक्तावत, .उम्र २४ वर्ष; दाहिने
पैरके टखनेपर गोली लगी.
- ४- दूलहसिंह वलद बलवन्तसिंह कौम राजपूत राठौड़, सि० खेजड़ी, .उम्र २५
वर्ष; दाहिने पैरमें गोली लगी.
- ५- चतरसिंह वलद गुमानसिंह कौम राजपूत भागलोत सि० खेजड़ी, .उम्र २५
वर्ष; मुंहपर गोली लगी.
- ६- माधवसिंह वलद अनोपसिंह राजपूत कूपावत सि० सीवास, .उम्र ४५ वर्ष;
कमरमें गोली लगी.
- ७- सुजानसिंह वलद बदनसिंह शक्तावत सि० सीवास, .उम्र २० वर्ष; बाएं
पैरमें गोली लगी.
- ८- रघुनाथसिंह वलद गुमानसिंह राजपूत कूपावत सि० सीवास, .उम्र १८
वर्ष; दाहिनी तरफ़ खवेपर और बाएं पैरमें दो गोलियां लगीं.
- ९- उदयसिंह वलद गुलाबसिंह राजपूत शक्तावत सि० सेमारी, .उम्र २८
साल; दोनों पैरकी पिंडलियोंमें गोली लगी.
- १०- मुहम्मदखां वलद अहमदखां मुसलमान, .उम्र ३२ वर्ष; दाहिने हाथके बीचमें
और खवों वगैरहपर चोट लगी.
- ११- रत्नसिंह वलद पहाड़सिंह राजपूत राठौड़ सि० खेजड़ी, .उम्र ३० साल;
बाएं गोड़ेपर गोली लगी, जिससे ढांकणी जाती रही, और एक गोली
हाथके बीचमें लगी.

१२- भवानीसिंह वलद भीमसिंह राजपूत सि० इन्द्रगढ़ खातोली, उम्र ६० वर्ष; दाहिने हाथके जोड़में दो गोलियां लगीं.

केसरीसिंहके साथ गिरिफ्तार होनेवालोंके नाम.

१- शक्तावत केसरीसिंह खुद; २- महासुन्दर राजपूत जादव सि० खेजड़ी, इलाकह सीतामऊ; ३- मोती चाकर सि० राठौड़ोंका खेड़ा; ४- लक्ष्मणसिंह राठौड़ सि० अमरपुरा पट्टे भींडर; ५- जालिमसिंह राठौड़ कुरावड़ाका; ६- जवाना चाकर बोहड़ाका; ७- फौजीसिंह शक्तावत सेमारीका; ८- औनाड़सिंह शक्तावत सेमारीका; ९- सर्दार सिंह शक्तावत सेमारीका; १०- किशना चाकर बोहड़ाका; ११- रामसिंह राठौड़ खेजड़ी इलाकह सीतामऊका; १२- उँकारसिंह मरहटा नाथद्वारेका; १३- कृष्णसिंह राठौड़ लूणदाका; १४- शेरसिंह देवड़ा पीपलीका; १५- रूपा भाखरोत खेजड़ीका; १६- संग्रामसिंह चहुवान बोहड़ाका; १७- जोधसिंह चूंडावत मुरड़ाका; १८- गम्भीरसिंह शक्तावत कुवासका; १९- जोरा खरवड़ जंघपुरका; २०- जवाहिरसिंह राठौड़ सीवासका; २१- आनन्दसिंह राठौड़ सीवासका; २२- शिवा चाकर बोहड़ाका; २३- उम्मेदसिंह राठौड़ सीतामऊका; २४- रामलाल चाकर बोहड़ाका; २५- गिरवरसिंह देवड़ा करजेठ्या इलाकह इन्दौरका; २६- पृथ्वीसिंह राठौड़ दाणीचौतराका; २७- धौंकल शक्तावत बोहड़ाका; २८- माधवसिंह चहुवान भींडरका; २९- बरूतावरसिंह सिपाही बोहड़ाका; ३०- जीवा चाकर बोहड़ाका; ३१- गम्भीरखां मुसल्मान बोहड़ाका; ३२- जवाहिरमल्ल कोठारी अठाणाका; ३३- फ़तहसिंह सीसोदिया बोहड़ाका; ३४- नसीर-मुहम्मद पठान नीवाहेड़ाका; ३५- शोभालाल सांभर बोहड़ाका; ३६- मोड़सिंह राठौड़ बोहड़ाका; ३७- गोपालसिंह राजपूत जयपुरका.

महाराणा साहिबने केसरीसिंहके हथियारोंमेंसे करीब १० आदमियोंको कैद करके बाकीको मेवाड़के बाहिर निकलवा दिया, और जख्मियोंको हॉस्पिटलमें भेजा. श्री दरबारकी फौजमेंसे जो लोग मारे गये उनके बालबच्चोंकी पर्वरिशका बन्दोबस्त किया जाकर जख्मियोंको इन्आम दिया गया; और महाराणा साहिबने महता लछमीलालको पैरमें सोनेके लंगर बख्शकर उसकी तारीफ़ फ़र्माई, और बोहड़ा पट्टेका ग्राम मंगरवाड़ मए उसके मुत्अल्लक खेड़ोंके फौजी नुकसानके एवज हमेशाके लिये खालिसह करके रावत रत्नसिंहको बोहड़ेका मालिक बनाया.

विक्रमी १९४१ भाद्रपद कृष्ण १ [हि० १३०१ ता० १५ शव्वाल = ई० १८८४]

ता० ७ ऑगस्ट] को कर्नेल् वाल्टर रेजिडेण्ट मेवाड़ जो छुट्टीपर विलायत गये थे, वापस उदयपुरमें आये, और कर्नेल् यूएन स्मिथ काइममकाम रेजिडेण्ट मेवाड़ गये. इन दिनों महाराणा साहिबके शरीरमें कई तरहकी बीमारियां खड़ी होगई थीं, जिनमें पेटकी कुरकुरी तो बार बार इस तरह चलने लगी, कि जान निकलनेका खौफ था. महाराणा साहिबने डॉक्टरोंका इलाज बन्द करके दिल्लीके नामी हकीम महमूदखांको बुलाया, लेकिन उससे भी कुछ फायदह न हुआ. तकलीफके सबब अफीम और शराबका इस्तेमाल भी बहुत बढ़गया, तब लाचार आबोहवा तब्दील करनेका इरादह हुआ, और विक्रमी कार्तिक शुद्ध २ [हि० ता० ३० जिल्हिज = .ई० ता० २० ऑक्टोबर] को महाराणा साहिब जोधपुरकी तरफ रवानह हुए. महाराणा साहिबका खयाल था, कि मारवाड़की खुशक हवासे जरूर फायदह होगा. देसूरीतक खींवाड़ाके ठाकुर वगैरह सदाँर और जोधपुरसे पांच कोस मोगड़ातक महाराजा साहिब खुद पेशवाई करके महाराणा साहिबको राजधानीमें लेगये. महाराजा जशवन्तसिंह साहिबकी मिहमानदारी और मुहब्बतमें दिन ब दिन तरकी होती रही, और उधर महाराणा साहिबके बदनमें बीमारी बढ़ती गई जिसके दूर करनेको अफीम और शराबका इस्तेमाल भी बढ़ा. इन दिनोंमें मेरी (कविराजा श्यामलदासकी) माताका देहान्त होगया था, इस सबबसे ३०००) रुपया द्वादशाहके लिये इनायत करके महाराणा साहिब मुझे उदयपुरमेंही छोड़गये थे, पीछेसे मेरे पेटमें भी कुरकुरी ऐसी चली, कि जिन्दगीकी उम्मेद न रही, लेकिन डॉक्टर पादरी समरविल साहिब और मिठनलालकी दवासे आराम होगया. उसी नाताकतीकी हालतमें कर्नेल् वाल्टर रेजिडेण्ट मेवाड़ने मुझे बुलाकर कहा, कि महाराणा साहिबके शरीरमें बीमारी बढ़ती जाती है, और उनके यहां मौजूद न होने व कामकी कसरतके सबब मेरा तो जोधपुर जाना ठीक नहीं, लेकिन आप जासक्ते हैं या नहीं ? फिर डॉक्टर समरविल साहिबसे भी पूछा, तो उन्होंने कहा, कि पालकीकी डाकमें चलेजावें, तो कुछ नुकसान नहीं. तब विक्रमी मार्गशीर्ष कृष्ण १४ [हि० १३०२ ता० २७ मुहर्रम = .ई० ता० १६ नोवेम्बर] को रातके बारह बजे पालकीमें सवार होकर मैं उदयपुरसे रवानह हुआ, और राजनगर होता हुआ जवालियाके स्टेशनसे रेलमें बैठकर दो दिन और दो रातके अरसहमें जोधपुर पहुंचा. वहां जाकर मैंने महाराणा साहिबसे खानगी तौरपर बहुत कुछ अर्ज की, तो फर्माया, कि महाराजा साहिब रवानह नहीं होने देते. तब मैंने महाराजा साहिबको कर्नेल् वाल्टर साहिबकी चिट्ठी दी, जिसमें महाराणा साहिबको जल्दी रुखसत देनेके लिये बहुत कुछ लिखा था, और मैंने भी महाराजा साहिबको बहुत समझाया, तब उन्होंने मंजूर किया. जोधपुर महाराजा साहिबको भी कलकत्ते जाना था, इसलिये कहा कि हम महाराणा साहिबको अजमेर

तक पहुंचाकर कलकत्ते चलेजावेंगे. फिर दोनों अधीश जोधपुरसे सवार होकर विक्रमी मार्गशीर्ष शुक्ल ८ [हि० ता० ७ सफ़र = .ई० ता० २६ नोवेम्बर] की शामको स्पेशल ट्रेनमें विराजे, और विक्रमी मार्गशीर्ष शुक्ल ९ [हि० ता० ८ सफ़र = .ई० ता० २७ नोवेम्बर] को अजमेर पहुंचे. कर्नेल् ब्राडफोर्ड साहिब वगैरह लोग स्टेशनपर पेशवाईको आये, मगर ट्रेनको देरी होजानेके कारण पीछे चले गये, और बेर्ली साहिब व उणियाराके रावराजा वहां ठहरे रहे. रेलसे उतरकर दोनों अधीश मेयो कॉलेज देखनेके बाद महाराजा कृष्णगढ़के बंगलेमें ठहरे, जहां बारह बजे एजेण्ट गवर्नर जेनरल राजपूतानह कर्नेल् ब्राडफोर्ड साहिब मुलाकातको आये. मामूली बातोंके सिवा काठियावाड़के जिले जामनगरके महाराजाने जो अपनी मुसल्मान पासवानके लड़केको नाजाइज़ तौरपर वलीअहद बनाकर गवर्मेण्ट अंग्रेज़ीसे मंजूरी मंगाली थी उस विषयमें बातचीत हुई. महाराणा साहिब और महाराजा साहिबने ब्राडफोर्ड साहिबको कहा, कि ऐसा नहीं होना चाहिये, जिसपर साहिबने बहुत कुछ बहस की, और कहा, कि आप राजपूतानहमें और वह काठियावाड़में हैं. इसपर महाराणा साहिबने कहा, कि अगर्चि वह ठिकाना राजपूतानहकी हदसे बाहिर है, लेकिन हमारे हमकौम राजपूतोंका है, इसलिये हमको उनकी तरफ़दारी करना लाज़िम है, क्योंकि अंग्रेज़ लोग भी अपनी कौमके लिये तरफ़दारी करते हैं. थोड़ी देरतक बहस होनेके बाद ब्राडफोर्ड साहिबने कहा, कि मैं इस मुकद्दमहकी मिस्ल मंगाकर आपके पास भेजूंगा, यह कहकर साहिब रुस्तत हुए, और महाराणा साहिबने चित्तौड़गढ़ व महाराजा साहिबने कलकत्तेकी तरफ़ प्रस्थान किया. महाराणा साहिबके वदनमें इन दिनों कमजोरी और बीमारी बढ़तीजाती थी. कर्नेल् वाल्टर साहिब इसवक्त उदयपुरसे चित्तौड़गढ़की तरफ़ खानह होगये थे, जो विक्रमी पौष कृष्ण १ [हि० ता० १४ सफ़र = .ई० ता० ३ डिसेम्बर] को रास्तहमें देवरी मक़ामपर मिले और मुझको कहा, कि ऐसी हालतमें आप जाकर महाराणा साहिबको लेआये, यह बहुत अच्छा किया. आख़रकार विक्रमी पौष कृष्ण ५ [हि० ता० १८ सफ़र = .ई० ता० ७ डिसेम्बर] की शामके ६॥ बजे महाराणा साहिब बग्घीकी सवारी से उदयपुरमें दाख़िल होगये. ईश्वरकी इच्छाको कोई नहीं रोक सक्ता, विक्रमी पौष कृष्ण ८ [हि० ता० २१ सफ़र = .ई० ता० १० डिसेम्बर] को अर्द्धरात्रि व्यतीत हुई होगी, कि एकदम महाराणा साहिबको तासीर (मूर्च्छा) आई. उस समय डॉक्टर अक्बरअली, पाणेरी उदयराम, मामा अमानसिंह, महता प्यारचन्द आदि लोग मौजूद थे. डॉक्टर अक्बरअलीने इलाज शुरू किया और बारहट कृष्णसिंह बग्घीमें बैठकर रेज़िडेन्सीसे डॉक्टर जेम्स शेपर्डको बुला लाया. उन्होंने भी बहुत कुछ कोशिश की. यह ख़बर

सुनकर मैं (कविराजा श्यामलदास), राय पन्नालाल, ठाकुर मनोहरसिंह, जानी मुकुन्द-
लाल, और मौलवी अब्दुर्रहमानखां वगैरह भी दौड़ दौड़कर महाराणा साहिबके पास
पहुंचे. रातभर इलाज होता रहा, पैर, पिंडलियों और गर्दनपर ब्लिस्टर लगाये गये,
जिससे दूसरे दिन करीब ८ बजे प्रातः कालको कुछ होश आया. इस वक्त महाराणा
साहिबने खैरातके लिये १००००० रुपयोंका संकल्प किया और कुछ बातचीत भी की.
थोड़ी देरके बाद माणक महलसे सूरज चौपाड़में पधारे, क्योंकि माणक महलमें काच लगे
हुए थे, जिनके अक्ससे इस बीमारीका बढ़ना डॉक्टरोंने बयान किया था. कर्नेल्
वाल्टर साहिब जो इसवक्त दौरेपर थे, फौरन् तार देकर उदयपुरमें बुलाये गये.
इसी रोज याने विक्रमी पौष कृष्ण ९ [हि० ता० २२ सफ़र = .ई० ता० ११
डिसेम्बर] के दिन महाराणा साहिबके शरीरपर कुछ कुछ उन्माद (जुनून) के आसार
मालूम हुए, परन्तु रात्रिमें निद्रा आजानेसे फिर दुरुस्त होगये. विक्रमी पौष कृष्ण १०
[हि० ता० २३ सफ़र = .ई० ता० १२ डिसेम्बर] को अर्द्धरात्रिके पीछे निद्रा नहीं आई,
जिससे उन्माद बढ़ने लगा. विक्रमी पौष कृष्ण ११-१२-१३ [हि० ता० २४-२५-
२६ सफ़र = .ई० ता० १३-१४-१५ डिसेम्बर] तक जुनून बहुत बढ़गया, यहांतक कि सब
को नाउम्मेदी होगई. विक्रमी पौष कृष्ण १४ [हि० ता० २७ सफ़र = .ई० ता० १६
डिसेम्बर] को मनुष्योंकी पहिचान जाती रही. इसवक्त डॉक्टर जेम्स शेपर्ड, डॉक्टर
सर्जन मलन और विंगेट साहिब मौजूद थे, इलाज होता रहा. डॉक्टरोंने छोरल नामी दवा
दी, जिससे रात्रिके वारह बजे निद्रा आगई, और सुव्हतक नींद लेनेसे फिर होश हवास
दुरुस्त होगये. विक्रमी पौष कृष्ण १५ से शुक्ल ५ [हि० ता० २८ सफ़र से ३ रबीउल्-
अव्वल = .ई० ता० १७ से २२ डिसेम्बर] तक बीमारीमें अच्छी तरह आराम होकर
सिर्फ नकाहत ही बाकी रही थी. विक्रमी पौष शुक्ल ६ [हि० ता० ४ रबीउल्अव्वल =
.ई० ता० २३ डिसेम्बर] को पहर दिन चढ़के वक्त महाराणा साहिबने फर्माया,
कि आज हमारी तबीअत दुरुस्त है, इसलिये जीमण मंगवाना चाहिये; चुनाचि खुदने
जीमण आरोगा और ठाकुर मनोहरसिंह, वारहट कृष्णसिंह और उज्वल फत्हकरणको भी
अपने सामने बिठाकर जिमाया. इसके बाद महाराज शक्तिसिंह आये उनसे बातें कीं.
सायंकालके वक्त जब मैं महलोंमें अपनी ओवरीपर भोजन करनेको गया, तो ६।।। बजे
नारायण मर्दन्या दौड़ा हुआ मेरे पास आया, कि जल्दी चलो. मैं दौड़कर गया, तो देखता क्या
हूं कि महाराणा साहिबको बड़ी सर्रत तासीर (मूर्च्छा) आरही है. डॉक्टर रेवरेण्ड जेम्स
शेपर्ड, एम० ए०, एम० डी०, और रेजिडेन्सी सर्जन डॉक्टर मलन, और डॉक्टर अक्बर-

अली बहुत कोशिश करने लगे. महाराज शक्तिसिंह भी दौड़कर आया. महता राय

पन्नालालके कहनेसे खैरातके लिये रुपयोंका संकल्प करवाया गया. इसी समय कर्नेल् वाल्टर रेजिडेण्ट मेवाड़ भी आपहुंचे. डॉक्टरोंने बिजली लगाना वगैरह बहुतसी कोशिशें कीं, लेकिन कोई कारगर न हुई. हम लोग रो रहे थे. महता पन्नालालको और मुझको कर्नेल् वाल्टरने बहुत कुछ तसल्ली दी, लेकिन वह वक्त जैसा हमारे ऊपर गुजरा उसका बयान नहीं होसका. विक्रमी पौष शुक्ल ६ [हि० ता० ४ रबीउलअव्वल = .ई० ता० २३ डिसेम्बर] की रात्रिको १० पर १५ मिनट गये महाराणा सजनसिंह साहिब इस दुनियाको छोड़गये. मैं रातभर अपनी तवारीखकी कोठरीमें हाथ विलाप करता रहा, महलोंमें और तमाम शहरमें कोलाहल मच रहा था. सुबहको जब महाराणा साहिबकी आखरी सवारी निकाली गई, उस वक्त कर्नेल् वाल्टर साहिबकी आंखोंसे आंसू बहरहे थे, और हजारों मर्द, औरत और पांच पांच वर्षके छोटे बालक भी चिह्ला चिह्लाकर रो रहे थे. इस शोक संतापका जियादह हाल तवारीखमें लिखनेसे कलेजा फटता है, इसलिये विशेष लिखनेकी ताकत नहीं. हम लोग महाराणाकी दग्ध क्रिया करके अपने अपने घरोंमें आपड़े.

इन महाराणा साहिबका जन्म विक्रमी १९१६ आषाढ शुक्ल ९ [हि० १२७५ ता० ७ जिल्हिज = .ई० १८५९ ता० ८ जुलाई] को, और राज्याभिषेक विक्रमी १९३१ आश्विन कृष्ण १३ [हि० १२९१ ता० २६ शअ्वान = .ई० १८७४ ता० ८ अक्टोबर] को हुआ था. यह महाराणा दस वर्ष तीन महीना आठ दिन राज्य करके परलोकको सिधारे. इनका कद पांच फुट आठ इंच लम्बा, गहरा गेहुंवां रंग, बड़ी आंखें, चौड़ी पेशानी, और गहरी व लम्बी डाढ़ी मूछें थीं, और बदनके सब अवयव मजबूत व खूबसूरत थे.

अब इनके दोष व गुण लिखे जाते हैं:— गुस्सेकी हालतमें अगर्चि इन महाराणाके मिजाजपर सरुती और वेरहमी दिखलाई देती थी, लेकिन अक्लमन्दीसे उसको रोकलेते थे, और एश व इश्रतकी तरफ इनको जियादह तवज्जुह थी. खाने, पीने और सोनेके वक्तकी पाबन्दी न होनेके सबब इनकी जिस्मानी हालतमें खलल आगया था. अब इनके गुण सुनने चाहिये— यह अव्वल दरजहके अक्लमन्द और जिहीन थे; इल्मी ताकत थोड़ी थी, लेकिन न्याय और वेदान्त वगैरह शास्त्रोंकी बहसमें जब शरीक होजाते, तो उस वक्त दूसरेको बड़े ही आलिम मालूम होते थे, और साहित्य विद्याके समझनेमें तो यह बड़ी ही ताकत रखते थे. मिलनसार ऐसे थे, कि यदि कोई आदमी एक बार उनसे मिललिया, वह ताबेदार बनकर जन्म भरतक उनको न भूलेगा. नया आदमी बनाकर उससे काम लेना भी यह जानते थे, और खैरखाहको खैरखाहीका एवज देकर उसको नेक आदतोंपर मजबूत करते थे, कि जिससे बदखाह लोग भी अपनी बदखाही छोड़नेकी कोशिश करें.

इन महाराणाने अपने राज्यशासनके थोड़ेही समयमें राज्यका प्रबन्ध भी अच्छा

किया. प्रजाके इन्साफ़के लिये कौन्सिल काइम करना, सेटल्मेण्ट जारी करके पके बन्दोबस्तका प्रबन्ध करना; इसके सिवा सहरदपर साइरका बन्दोबस्त, पुलिसका इन्तिजाम, जंगी फ़ौज और तोपखानहकी दुरुस्ती, महकमह देवस्थानकी तरकी, तवारीख़ वीरविनोदके लिये महकमह काइम करना, और ऐतिहासिक पुस्तकोंका संचय, विद्याको उन्नति देना और उसके प्रबन्धके लिये एज्युकेशन (विद्या सम्बन्धी) कमिटी काइम करना, और स्त्रियोंके लिये अस्पताल जारी करना, वगैरह बहुतसे उपयोगी और प्रशंसनीय काम किये. चित्तौड़से राजधानीतक रेलवे बनानेका हुक्म दिया; और गैर रियासतोंसे मेल मिलाप बढ़ाया. पोलिटिकल मुआमलातमें भी यह अच्छी ताकत रखते थे; अंग्रेज अफ़सरोसे हरएक मुआमलहके वक्त वहस करके दोस्तीसे कामयाब होते थे. उदयपुर शहरको इन्होंने ऐसी रौनक दी, कि खूबसूरतीका एक नया नमूनह बनगया. सज्जननिवास बाग़, और सज्जनगढ़के महलोंकी तामीर, और जयसमुद्र तालाबके बन्धकी तथा किले चित्तौड़की इमारतोंकी थोड़ीसी मरम्मत; ये सब बातें एक अरसहतक उनकी अकलमन्दीको जाहिर करेंगी. इन महाराणाके बड़े बड़े इरादे थे, लेकिन अफ़सोस, कि समयसे पहिले परलोकवास होजानेके कारण वह उन सब इरादोंको अपने दिलहीमें लेगये.


इन महाराणाकी पहिली शादी ईडरके महाराजा जवानसिंहकी बेटी और केसरीसिंहकी बहिनके साथ विक्रमी १९३२ [हि० १२९२ = ई० १८७५] में, दूसरी शादी कृष्णगढ़के महाराजा पृथ्वीसिंहकी बेटी और शार्दूलसिंहकी बहिनके साथ विक्रमी १९३३ [हि० १२९३ = ई० १८७६] में, और तीसरी शादी ईडरके महाराजा जवानसिंहकी दूसरी बेटी और केसरीसिंहकी बहिनके साथ विक्रमी १९३४ [हि० १२९४ = ई० १८७७] में हुई थी.

उक्त महाराणा साहिवके अहद हुक्मतमें जो तामीरात सम्बन्धी नये काम हुए, याने महलात, मकानात व सड़कें वगैरह तय्यार कराई गईं, और पुराने मकानात वगैरह की मरम्मत हुई, उसमें कुल रु० २६१६२३१,॥२ खर्च हुए, जिसकी तफ़सील अम्बाव मुरदघाके भेजे हुए नक़्शोंसे खुलासहके तौरपर नीचे दर्ज कीजाती है:-

नक़्शह तामीर व मरम्मत मकानात वगैरह.

क्र.सं.	नाम काम.	कुल लागत.
१	शहरमें तथा शहरके आसपासके मकानों वगैरहकी तामीर व मरम्मतमें.	१२७८३३६। - १।२

२	सड़कोंकी तामीर व मरम्मतमें.	६६८७६५॥ = १।
३	परगनों व जिलोंमें मकानों व तालाबों वगैरहकी तामीर व मरम्मतमें.	६५९६७७॥ = १॥
४	गैर इलाकहके मकानात वगैरहकी तामीर व मरम्मतमें.	९४५१। = १॥
मीजान.		२६१६२३१॥१२



मेवाड़का अह्दनामह.

एचिसन् साहिबकी अह्दनामोंकी किताब जिल्द चौथी उर्दूकी
पृष्ठ १०, और तीसरी अंग्रेज़ीकी पृष्ठ १७.



अह्दनामह नम्बर १ जो दर्मियान सर्कार अंग्रेज़ी और मेवाड़के
महाराणा भीमसिंहके करार पाया.



अह्दनामह ऑनरेबल् अंग्रेज़ी ईस्ट इण्डिया कम्पनी और महाराणा भीमसिंह
राणा उदयपुरके दर्मियान, मिस्टर चार्ल्स थ्योफिलस मेट्कोफकी मारिफ़त, जिनको
ऑनरेबल् कम्पनीकी तरफ़से हिज़ एक्सलेन्सी मोस्ट नोबल् मार्किंस ऑव हेस्टिंगज़,
के० जी०, गवर्नर जनरल बहादुरने पूरा अधिकार दिया था; और ठाकुर अजीतसिंहकी
मारिफ़त, जिसको उक्त महाराणा साहिबकी तरफ़से ख़ूब इख्तियार मिले थे, तै पाया.

शर्त अव्वल— दोस्ती, मिलाप, और एकता हमेशाके लिये दोनों सरकारोंके बीचमें
पुश्तोतक काइम रहेगी, और दोस्त व दुश्मन एक सरकारके दोस्त और दुश्मन दूसरी
सरकारके समझे जावेंगे.

शर्त दूसरी— सर्कार अंग्रेज़ी वादह फ़र्माती है, कि वह रियासत और मुल्क
उदयपुरकी हिफ़ाजत करेगी.

शर्त तीसरी— महाराणा साहिब उदयपुर हमेशाह सर्कार अंग्रेज़ीकी इताअत किया-
करेंगे, उसकी बुजुर्गानिका इक्रार करेंगे, और किसी दूसरे रईस व रियासतसे तालुक न
रखेंगे.

शर्त चौथी- महाराणा साहिब उदयपुर किसी राजा या रियासतसे सर्कार अंग्रेजीकी मन्जूरी और इत्तिलाके बगैर सुलह न करेंगे, परन्तु उनकी मामूली दोस्तानह लिखा पढी दोस्तों और रिश्तहदारोंके साथ जारी रहेगी.

शर्त पांचवीं- महाराणा साहिब उदयपुर किसी गैरपर ज़ियादती नहीं करेंगे, और जो कभी इत्तिलाकसे तक्रार या भगड़ा किसीसे होगा, तो वह सर्पेची और फैसलेके लिये सर्कार अंग्रेजीके सुपुर्द होगा.

शर्त छठी- उदयपुरकी मुल्क हालकी चौथाई आमदनी सालानह पांच वर्षतक सर्कार अंग्रेजीको बतौर खिराज अदा होगी, और उसके पीछे आठ हिस्सोंमेंसे तीन हिस्से हमेशहके वास्ते अदा किये जावेंगे. महाराणा साहिब खिराजके सम्बन्धका कुछ वासितह किसी और हुकूमतसे न रक्खेंगे, और अगर कोई इस किस्मका दावा पेश करेगा, तो अंग्रेजी सर्कार वादह करती है, कि वह उसका जवाब देगी.

शर्त सातवीं- जोकि महाराणा साहिब बयान करते हैं, कि उनके मुल्कमेंसे अक्सर इलाके नाजाइज रीतिसे औरोंके कवजेमें आगये हैं, और वह चाहते हैं, कि उनको वापस दिलवाये जावें, और सर्कार अंग्रेजी ब वजह सहीह सहीह वाकफियत न होनेके इस वक्त पक्का वादह इस विषयमें नहीं करसक्ती, लेकिन फिर भी इक्रार किया जाता है, कि अंग्रेजी सर्कार हमेशह मुल्क उदयपुरकी विह्तरीका लिहाज रक्खेगी, और हर मुआमलेका अरूली हाल दर्याफ्त करनेके बाद हर मौकेपर, जबकि वाजिब मालूम होगा, इस मकसदको पूरा करनेके लिये बखूबी कोशिश करेगी; और जो इलाके इस तरह उदयपुरको अंग्रेजी सर्कारकी मददसे वापस मिलेंगे उनकी आमदनीके आठ हिस्सों मेंसे तीन हिस्से हमेशहके वास्ते सर्कार अंग्रेजीको (खिराजके तौर) अदा होंगे.

शर्त आठवीं- राज उदयपुरको फौज रियासतकी हैसियतके बमूजिब सर्कार अंग्रेजीके तलब करनेपर दीजावेगी.

शर्त नवीं- महाराणा साहिब उदयपुर हमेशह अपने पत्तके बाइस्तिथार हाकिम रहेंगे, और उनके राज्यमें अंग्रेजी अदालती हुकूमत जारी न होगी.

शर्त दसवीं- यह दस शर्तोंका अहदनामह दिल्लीके मकामपर तय्यार होकर मिस्टर चार्ल्स थ्योफिलस मेट्कोफ और ठाकुर अजीतसिंह बहादुरके दस्तखत और मुहरसे खत्म हुआ; और हिज एक्सलेन्सी मोस्ट ग्रेविस सिग्निर जेनरल बहादुर और महाराणा या शहर.

भीमसिंहजीकी तरफसे इस अह्दनामहकी तस्दीक आजकी तारीखसे एक महोदके अरसहमें होजावेगी-फकत.

मकाम दिल्ली, तारीख १३ जैनुअरी सन १८१८ ई०

दस्तखत सी० टी० मेट्कोफ.


मुहर बड़ी

गवर्नर जेनरलकी
छोटी मुहर,



दस्तखत ठाकुर अजीतसिंह,
दस्तखत हेस्टिंग्ज.

हिज एक्सलेन्सी गवर्नर जेनरल बहादुरने तारीख २२ जैनुअरी सन १८१८ ई० को मकाम ऊंचडमें तस्दीक किया.


दस्तखत जे० एडम्स
सेक्रेटरी गवर्नर जेनरल.



ऊपर दर्ज किये हुए अह्दनामहके सिवा और भी चन्द अह्दनामहें रिपसत मेवाड़ और गवर्मेण्ट हिन्दके दर्मियान समय समयपर हुए हैं, परन्तु सबसे पहिला मुसलमान अह्दनामह यही है.



य कविराजा श्यामलदास कृत
महोपवीरविनोद समाप्त (१).



(१) स्वर्गवासी के...

बनाया हुआ ग्रन्थ यहांपर समाप्त है.

